

भा०दि०जैन संघग्रन्थमालायाः प्रथमपुष्पस्य नवमोदलः

श्रीयतिवृषभाचार्यरचितचूर्णिसूत्रसमन्वितम्-
श्रीभगवद्गुणधराचार्यप्रणीतम्

क सा य पा हु डं

तयोश्च
श्रीवीरसेनाचार्यविरचिता जयधवला टीका
[पष्ठोऽधिकारः वन्धकः २]

सम्पादकौ

पं० फूलचन्द्र
सिद्धान्तशास्त्री
सम्पादक महाग्रन्थ, सहसम्पादक
धवला

पं० कैलाशचन्द्र
सिद्धान्तरत्न, सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ
प्रधानाचार्य स्याद्वाद महाविद्यालय
काशी

प्रकाशक

मन्त्री साहित्य विभाग
भा० दि० जैन संघ, चौरासी, मथुरा,

वि० सं० २०२०]

वीरनिर्वाणाब्द २४८९

[ई० सं० १९६३


- मूल्यं रूप्यकद्वादशकम्

सशोधित मूल्य २४)००

भा० दि० जैनसंघ-ग्रन्थमाला

इस ग्रन्थमालाका उद्देश्य

प्राकृत संस्कृत आदि भाषाओंमें निबद्ध दि० जैनागम,
दर्शन, साहित्य, पुराण आदिका यथासम्भव
हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित करना



सञ्चालक

भा० दि० जैनसंघ

ग्रन्थाङ्क १-९

प्राप्तिस्थान

मैनेजर

भा० दि० जैनसंघ

चौरासी, मथुरा

मुद्रक

नया संसार प्रेस,
वाराणसी

कैलाश प्रेस,
वाराणसी

Sri Dig. Jain Sangha Granthamala No 1-IX

KASAYA-PAHUDAM
IX
BANDHAK

BY
GUNADHARACHARYA

WITH
Churni Sutra Of Yativrashabhacharya

AND
THE JAYADHAVALA COMMENTARY OF
VIRASENACHARYA THERE-UPON

EDITED BY
Pandit Phulchandra Siddhantashastri
EDITOR MAHABANDHA
JOINT EDITOR DHAVALA.

Pandit Kailashachandra Siddhantashastri

Nyayatirtha, Siddhantaratsna,
Pradhanadhyapak, Syadvada Digambara Jain
Vidyalaya, Varanasi,

PUBLISHED BY
THE SECRETARY PUBLICATION DEPARTMENT
THE ALL-INDIA DIGAMBAR JAIN SANGHA
CHAURASI, MATHURA

Sri Dig. Jain Sangha Granthamala

Foundation year—]

[—Vira Niravan Samvat 2468

Aim Of the Series —

*Publication of Digambara Jain Siddhanta,
Darsana. Purana, Sahitya and other works
in Prakrit Sanskrit etc, possibly with Hindi
Commentary and Translation*

DIRECTOR—

**SRI BHARATA VARSHIYA
DIGAMBARA JAIN SANGHA
NO. 1. VOL. IX.**

To be had from:—

THE MANAGER
SRI DIG. JAIN SANGHA,
CHAURASI, MATHURA.

Printed by

Naya Sansar Press,
Bhadanti, Varanasi-1

Kailash Press,
Sonarpura, Varanasi-1

800 Copies,

Price Rs. Twelve only

प्रकाशक की ओरसे

कमाय पाहुडका नौवाँ भाग पाठकोंके करकमलोंमें अर्पित है। हमने इरादा किया था कि शीघ्रसे शीघ्र कसायपाहुडके शेष भागोंका प्रकाशन हो जाये। किन्तु कहावत प्रसिद्ध है कि 'श्रेयानि बहुविघ्नानि' अर्थात् कार्यमें बहुत विघ्न आते हैं। तदनुसार इस सत्कार्यमें भी महान विघ्न उपस्थित हो गया। प्रारम्भमें ही कसायपाहुडके सम्पादनदिके भारको वहन करनेवाले पं० फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीको मोतियाबिन्दने कार्य करनेसे लाचार कर दिया। लगभग एक डेढ़ वर्ष तक पण्डितजी बहुत परेशान रहे। सफल उपचारसे अब वह कार्यक्षम हो गये हैं। यह बड़ी प्रसन्नताकी बात है। इसीसे यह भाग दो वर्षके पश्चात् प्रकाशित हो रहा है।

सिद्धान्त ग्रन्थोंके विशिष्ट अन्यासी तथा स्वाध्याय प्रेमी बन्धुद्वय श्री ब्र० पं० रतनचन्दजी तथा श्री ब्र० पं० नेमिचन्दजी सहारनपुर कसायपाहुडके प्रकाशनमें बहुत रुचि रखते हैं और विघ्नवाधाओंको दूर करनेमें क्रियात्मक सहयोग देकर सतत् प्रेरणा करते रहते हैं। आपकी ही प्रेरणासे जगाधरीके स्वाध्याय प्रेमी लाला इन्द्रसेनजीने इस भागके प्रकाशनमें २५००) रुपया प्रदान किया है। अतः हम लालाजीके साथ उक्त बन्धुद्वयका भी आभार मानते हुए धन्यवाद प्रदान करते हैं।

संघके अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्दजी डंगरगढ़ और उनकी धर्मशीला पत्नीके द्वारा प्रदत्त राशिका सहयोग इस भागके प्रकाशनमें भी रहा है। अतः हम इन धर्मप्रेमी दम्पतिको भी धन्यवाद प्रदान करते हैं।

पं० फूलचन्दजी शास्त्रीने पूर्ण कार्यक्षम न होते हुए भी जिस तत्परतासे इस भागको पूर्ण किया है उसके लिए वे भी धन्यवादके पात्र हैं।

यह भाग काफी बड़ा हो गया है। फिर भी इसका मूल्य वही बारह रुपया रखा गया है।

जयधवाला कार्यालय
वाराणसी
वि० नि० स० २४८६

कैलाशचन्द्र शास्त्री
मंत्री साहित्य विभाग
भा० दि० जैन संघ

भा० दि० जैन संघके साहित्य विभागके सदस्योंकी नामावली

संरक्षक सदस्य

- १३०००) दानवीर सेठ भागचन्दजी डोगरगढ़
८१२५) दानवीर साहू शान्तिप्रसादजी कलकत्ता
५०००) स्व० श्रीमन्त सर सेठ हुकुमचन्दजी इन्दौर
५०००) सेठ छदामीलालजी फिरोजाबाद
३००१) सेठ नानचन्दजी हीरालालजी गांधी उस्मानाबाद
२५००) लाला इन्द्रसेनजी जगाधरी -

सहायक सदस्य

- १२५०) सेठ भगवानदासजी मथुरा
१०००) वा० कैलाशचन्दजी S. D. O. बम्बई
१००१) सकल दि० जैन परिवार पञ्चान नागपुर
१००१) सेठ श्यामलालजी फर्रुखाबाद
१००१) सेठ घनश्यामदासजी सरावगी लालगढ़
[रा० व० सेठ चुन्नीलालजीके सुपुत्र स्व० निहालचन्दजीकी स्मृति मे]
१०००) लाला रघुवीरसिंहजी जैना वाच कम्पनी देहली
१०००) रायसाहब लाला बल्फतरायजी देहली ।
१०००) स्व० लाला महावीर प्रसाद जी ठेकेदार देहली ।
१०००) स्व० लाला रतनलालजी मादिपुरिये देहली
१०००) लाला धूमिल धर्मदास ”
१००१) श्रीमती मनोहरीदेवी मातेश्वरी
लाला वसन्तलालजी फिरोजीलालजी „
१०००) बाबू प्रकाशचन्दजी खण्डेलवाल ग्लासवर्क्स सासनी
१०००) लाला छीतरमल शंकरलालजी मथुरा
१००१) सेठ गणेशीलाल आनन्दीलालजी आगरा
१०००) सकल दि० जैन पञ्चान गया
१०००) सेठ सुखानन्द शंकरलालजी मुल्तानवाले देहली
१००१) सेठ मगनमलजी हीरालालजी पाटनी आगरा
१००१) स्व० श्रीमती चन्द्रावतीजी धर्मपत्नी स्व० साहू रामस्वरूपजी नजीवाबाद
१००१) सेठ सुदर्शनलालजी जसवन्तनगर
१०००) प्रोफेसर खुशालचन्दजी गोरावाला वाराणसी

[स्व० पूज्य पिता शाह फुन्दीलालजी तथा मातेश्वरी केशरबाई गोरावालाकी स्मृति में]

विषय-परिचय

यह बन्धक नामका ब्रह्मा अधिकार है। इसके बन्ध और संक्रम ये दो भेद हैं। जिस अनुयोग द्वारमें कर्मवर्गणाश्रोका भिव्यात्व आदिके निमित्तमे प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेशके भेदसे चार प्रकारके कर्मरूप परिणामकर आत्मप्रदेशोंके साथ एक क्षेत्रावगाहरूप बन्धका व्याख्यान किया गया है वह बन्ध अधिकार है और जिसमे बन्धरूप भिव्यात्व आदि कर्मोंका प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश के भेद मे अन्य कर्मरूप परिणामनका विधान किया गया है वह संक्रम अधिकार है। इस प्रकार इस बन्धक अधिकारमे बन्ध और संक्रम इन दो विषयोंका व्याख्यान किया गया है। प्रश्न यह है कि बन्धक अधिकारमे बन्धका व्याख्यान हो यह तो ठीक है परन्तु उसमे संक्रमका व्याख्यान कैसे किया जा सकता है? समाधान यह है कि संक्रमका भी बन्धमे ही अन्तर्भाव होता है, क्योंकि बन्धके दो भेद हैं— एक अकर्मबन्ध और दूसरा कर्मबन्ध। जो कर्मवर्गवर्गणाएँ कर्मरूप परिणत नहीं हैं उनका कर्मरूप परिणत होना यह अकर्मबन्ध है और कर्मरूप परिणत पुद्गलस्वन्धोंका एक कर्मसे अपने सजातीय अन्य कर्म रूप परिणामना कर्मबन्ध है। यही कारण है कि इस बन्धक अधिकारमे बन्ध और संक्रम दोनोंका समावेश किया है। इस विषयका विशेष व्याख्यान करनेके लिए 'कदि पयटीओ बंधदि' २३ संख्यावाली मूलगाथा आई है और इसी आधारपर आचार्य यतिवृषभने अपने उत्तर भेदों के साथ बन्धक अधिकारके अन्तर्गत बन्ध और संक्रम ये दो अधिकार सूचित किये हैं। उनमेंसे चारों प्रकारके बन्धका विस्तृत व्याख्यान अन्वय ब्रह्म त्रार या विस्तार से किया गया जानकर, शोधर आचार्य और यतिवृषभ आचार्य दोनोंने यहाँ उसका व्याख्यान न कर मात्र संक्रमका विशेष व्याख्यान किया है।

संक्रम

यतिवृषभ आचार्यने संक्रमका उपक्रम पाँच प्रकारका किया है—आनुपूर्वी, नाम, प्रमाण, वक्तव्यता और अर्थाधिकार। उसके बाद संक्रमका निक्षेप करते हुए वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके भेदसे छह प्रकारका बतलाकर कौन नय किन निक्षेपरूप संक्रमोंको स्वीकार करता है इसका व्याख्यान किया है और अन्तमे क्षेत्रसंक्रम, कालसंक्रम और भावसंक्रमका खुलासा करनेके साथ नोआगमद्रव्यसंक्रमनिक्षेपके कर्म और नोकर्म ऐसे दो भेद करके तथा उनका संक्षेपमे व्याख्यान करते हुए कर्मसंक्रमके प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेश ऐसे चार भेद करके और प्रकृतिसंक्रमको भी एकैक-प्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम ऐसे दो भेद करके प्रकृतमे प्रकृतिसंक्रमसे प्रयोजन है यह बतलाकर उसके व्याख्यानका प्रारम्भ किया है।

प्रकृतिसंक्रम

प्रकृतिसंक्रमके व्याख्यानमें २४, २५ और २६ संख्याकी तीन गाथाएँ आई हैं। उनमें से प्रथम गाथामे पाँच प्रकारके उपक्रम, चार प्रकारके निक्षेप, नयविधि और आठ प्रकारके निर्गमका संकेत कर दूसरी गाथामें प्रकृतिसंक्रमके एकैकप्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम ऐसे दो भेद करके संक्रममे प्रतिगृह-विधि उत्तम और जघन्यके भेदसे दो प्रकारकी बतलाई है। तथा तीसरी गाथामें

निर्गमके आठ भेदोका निर्देश करते हुए प्रकृतिसंक्रमके उक्त दोनों भेदोंमें संक्रम, ग्रसक्रम, प्रतिग्रहविधि और अग्रप्रतिग्रहविधि इन चारोको दो दो प्रकारका बतलाया है। यह तीन मूलगाथाश्लोका विषयस्पर्श है। आचार्य यतिवृषभने अपने चूर्णिसूत्रों द्वारा इन गाथाश्लोके प्रत्येक पदका स्वयं खुलासा किया है। तथा जयध्वला टीकामें भी इसपर विशेष प्रकाश डाला गया है।

एकैकप्रकृतिसंक्रम

आगे एकैकप्रकृतिसंक्रममें एकैकप्रकृति असंक्रम, प्रकृति प्रतिग्रह और प्रकृति अग्रप्रतिग्रह इन अन्य तीन निर्गमोंको अन्तर्भूत करके उसका २४ अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे निरूपण किया है। वे २४ अनुयोगद्वार ये हैं—समुत्कीर्तना, सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्यसंक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, ध्रुवसंक्रम, अध्रुवसंक्रम, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भगविन्वय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, सन्निकर्ष, भाव और अल्पबहुत्व। इनमेंसे प्रारम्भके ११ अनुयोगद्वारोंका सूत्रकारने वर्णन नहीं किया है। जयध्वलामें उनका उच्चारणके अनुसार निर्देश किया गया है। उसके अनुसार खुलासा इस प्रकार है—

समुत्कीर्तना—श्रोत्रसे सब प्रकृतियोंका संक्रम होता है। चारों गतियोंमें भी इस प्रकार जानना चाहिए। मात्र अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धिमें सम्यक्त्वका असंक्रम है।

सर्व नोसर्वसंक्रम—सब प्रकृतियोंका संक्रम करनेवालेके सर्वसंक्रम होता है और उनसे कम प्रकृतियोंका संक्रम करनेवालेके नोसर्वसंक्रम होता है।

उत्कृष्ट-अनुत्कृष्टसंक्रम—२७ प्रकृतियोंका संक्रम करनेवालेके उत्कृष्टसंक्रम होता है और इनसे कमका संक्रम करनेवालेके अनुत्कृष्टसंक्रम होता है।

जघन्य अजघन्यसंक्रम—सबसे कम प्रकृतियोंका संक्रम करनेवाले के जघन्यसंक्रम होता है और इससे अधिकका संक्रम करनेवालेके अजघन्यसंक्रम होता है। यहाँ संख्याकी अपेक्षा उत्कृष्ट-अनुत्कृष्ट तथा जघन्य-अजघन्यका विचार करना चाहिए।

सादि-अनादि-ध्रुव-अध्रुवसंक्रम - श्रोत्रसे दर्शन मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सादि और अध्रुवसंक्रम होता है, शेषका सादि आदि चारों प्रकारका संक्रम होता है। चारों गतियोंमें सबका सादि और अध्रुवसंक्रम होता है।

एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व—इस अनुयोगद्वारमें मिथ्यात्व आदि २८ प्रकृतियोंके संक्रमके स्वामीका निर्देश किया है। उदाहरणार्थ मिथ्यात्वका संक्रम सब वेदकसम्यग्दृष्टि जीव और सासादनके बिना उपशमसम्यग्दृष्टि जीव करते हैं। वेदकसम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वका संक्रम करते हैं, चूर्णिके इस वचनका खुलासा करते हुए उसकी जयध्वला टीकामें बतलाया है कि जिन वेदक सम्यग्दृष्टियोंके संक्रमके योग्य मिथ्यात्वकी सत्ता है, वेदक सम्यग्दृष्टियोंमें वे ही उसका संक्रम करते हैं। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके संक्रमके स्वामीका निर्देश इस अनुयोगद्वारमें किया गया है। प्रसंगसे यह भी बतला दिया है कि दर्शन मोहनीयका चरित्रमोहनीयमें और चरित्रमोहनीयका दर्शनमोहनीयमें संक्रम नहीं होता। जयध्वला टीकामें चूर्णिसूत्रोंके अर्थका स्पष्टीकरण कर इतना और बतलाया है कि चारों गतियोंमें इसीप्रकार जानना चाहिए। मात्र अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यक्त्वका संक्रम सम्भव न होनेसे २७ प्रकृतियोंके संक्रमका निर्देश किया है।

एक जीवकी अपेक्षा काल—इसमें एक जीवकी अपेक्षा २८ प्रकृतियोंके संक्रमके कालका निर्देश किया गया है। उदाहरणार्थ मिथ्यात्वके संक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधक छयासठ सागर बतलाया है। जयधवला टीकामें ओषधे और आदेशसे चारों गतियोंमें एक जीवकी अपेक्षा २८ प्रकृतियोंके संक्रमका काल तो बतलाया ही है। साथ ही इनके असंक्रमका भी जघन्य और उत्कृष्ट काल बतलाया है।

एक जीवकी अपेक्षा अन्तर—इसमें एक जीवकी अपेक्षा २८ प्रकृतियोंके संक्रमके अन्तरकालका विधान किया है। उदाहरणार्थ मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दो प्रकृतियोंके संक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपाधिपुद्गलप्रमाण बतलाया है तथा जयधवला टीकामें चारों गतियोंमें भी एक जीवकी अपेक्षा सब प्रकृतियोंके संक्रमका जान्य और उत्कृष्ट अन्तर बतलाया है।

नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचय—इस अनुयोगद्वारका प्रारम्भ करते हुए चूर्णिसूत्रमें नाना जीवोंमें कौन कौन लिखे गये हैं ऐसी शंकाको ध्यानमें रखकर सर्वप्रथम यह सूचना की है कि जिन जीवोंके मोहनीय कर्मप्रकृतियोंकी सत्ता है वे ही यहाँ प्रकृत हैं। उसके बाद मिथ्यात्व आदि २८ प्रकृतियोंके संक्रामकों और असंक्रामकोंको ध्यानमें रखकर जहाँ जितने भंग सम्भव हैं उनका निर्देश किया है। जयधवला टीकामें चारों गतियोंमें इसका विचार अलगमें किया है।

भागभाग—परियाण—क्षेत्र—स्पर्शन—इन चारों अनुयोगद्वारों पर चूर्णिसूत्र नहीं है। मात्र उच्चारणोंके अनुसार जयधवला टीकामें इनकी मीमांसा की गई है। भागाभागमें २८ प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येक प्रकृतिके संक्रामक और असंक्रामक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं यह बतलाया है। परिमाणमें २८ प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येक प्रकृतिके संक्रामक जीवोंकी संख्या ओषधे और चारों गतियोंमें कहाँ कितनी है यह बतलाया है। इसी प्रकार क्षेत्र अनुयोगद्वारमें क्षेत्रका और स्पर्शन अनुयोगद्वारमें स्पर्शनका विचार किया है।

नाना जीवोंकी अपेक्षा काल—इसमें नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येक प्रकृतिके संक्रमका काल सर्वदा बतलाया है। जयधवला टीकामें चारों गतियोंमें भी कालका निर्देश किया है।

नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर—इसमें चूर्णिसूत्र और जयधवला टीका द्वारा उक्त पद्धतिसे अन्तरका विधान किया है।

सन्निकर्ष—इसमें किस प्रकृतिका संक्रामक किस पद्धतिसे किस प्रकृतिका संक्रामक या असंक्रामक होता है यह बतलाया है। जयधवलामें चारों गतियोंकी अपेक्षा अलगसे व्याख्यान किया है।

भाव—इसपर चूर्णिसूत्र नहीं है। जयधवलामें बतलाया है कि सर्वत्र एक औदयिक भाव है।

अल्पबहुत्व—इसमें प्रत्येक प्रकृतिके संक्रामक जीवों की अपेक्षा अल्पबहुत्वका निर्देश किया है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि ओषधेसे अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा चूर्णिसूत्रों द्वारा तो की ही है, चारों गतियों और एकेन्द्रिय मार्गशाकी अपेक्षा भी अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा चूर्णिसूत्रों द्वारा की गई है।

प्रकृतिस्थानसंक्रम

इस अनुयोगद्वारके प्ररूपणमें २७ से लेकर ५८ तक ३२ गाथाएँ आई हैं। इनमें संक्रम स्थान कितने हैं और वे कौन-कौन हैं, प्रतिग्रहस्थान कितने हैं और वे कौन कौन हैं, किन संक्रमस्थानोंका किन प्रतिग्रहस्थानोंमें संक्रम होता है, इनके स्वामी कौन हैं, इनकी साक्षात् प्ररूपणा किस प्रकारकी है और एक तथा नाना जीवोंकी अपेक्षा काल आदि क्या हैं इन सब बातोंमेंसे किन्हींका स्पष्ट खुलासा किया है और किन्हींका संकेतमात्र किया है।

आचार्य यतिवृषभने इन गाथाओंमेंसे प्रथम गाथापर ही चूर्णिसूत्र लिखे हैं। उसमें भी इसका व्याख्यान करनेके पहले इस प्रकरणसम्बन्धी अनुयोगद्वारोका नामनिर्देश किया है—स्थानसमुत्कीर्तना, सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट संक्रम, जघन्यसंक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादिसंक्रम, ध्रुवसंक्रम, अध्रुवसंक्रम, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल और अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भगविचय, काल, अन्तर, सन्निकर्ष, अल्पवहुत्व तथा भुजगार, पटनिक्षेप और वृद्धि।

इसके बाद आचार्य यतिवृषभने २७ संख्याक प्रथम गाथाका व्याख्यान करते हुए अपने चूर्णिसूत्रों द्वारा २८, २४, १७, १६ और १५ प्रकृतिकस्थान क्यो संक्रमस्थान नहीं हैं और शेष संक्रमस्थान कैसे हैं इसका विस्तारके साथ खुलासा किया है। २८ से लेकर ५८ संख्या तककी शेष ३१ गाथाओंका विशेष स्पष्टीकरण जयधवला टीका द्वारा किया गया है। आगे पूर्वोक्त अनुयोगद्वारोका व्याख्यान प्रारम्भ होता है। उसमें भी स्थानसमुत्कीर्तना अनुयोगद्वारका व्याख्यान प्रथम गाथाके व्याख्यानके प्रसंगसे चूर्णिसूत्रोंमें पहले ही आ गया है, इसलिए यहाँ मात्र जयधवला द्वारा उसका व्याख्यान करते हुए बतलाया है कि ओघसे २७, २६, २५, २३, २२, २१, २०, १९, १८, १४, १३, १२, ११, १०, ९, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, और १ ये २३ संक्रमस्थान हैं। साथ ही इनमेंसे किस गतिमें कितने संक्रमस्थान होते हैं यह भी बतलाया है

आगे जयधवलामें यह सूचना करके कि यहाँ सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्यसंक्रम और अजघन्यसंक्रम ये स्थान सभव नहीं हैं इसके बाद सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमका व्याख्यान करते हुए बतलाया है कि २५ प्रकृतिक संक्रमस्थान सादि आदि चारो प्रकार का है, शेष संक्रमस्थान सादि और अध्रुव ही हैं।

एक जीव की अपेक्षा स्वामित्व—इस पर मात्र एक चूर्णिमूत्र हे। ओघ और चारो गतियों की अपेक्षा संक्रमस्थानोंके स्वामीका विशेष निर्देश जयधवला टीका द्वारा किया गया है।

एक जीव की अपेक्षा काल—इसमें चूर्णिसूत्रो द्वारा ओघसे एक जीव की अपेक्षा काल का विचार किया है। चारों गतियोंसम्बन्धी विशेष व्याख्यान जयधवला टीकामें आया है।

एक जीव की अपेक्षा अन्तर—इसमें पूर्वोक्त विधि से अन्तर का कथन किया है।

नाना जीवों की अपेक्षा भगविचय—यहाँ भी चूर्णिसूत्रों में जिनके प्रकृतियों की सत्ता है उन्हीं का अधिकार है यह बतला कर भगविचय का निरूपण हुआ है। जयधवला में ओघ से कुल भंगों का योग ३८७४२०४८६ बतलाया है।

भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन अनुयोगद्वारो पर चूर्णिसूत्र नहीं हैं। जयधवला में उच्चारणके अनुसार इनका व्याख्यान आया है जो नामानुसार है।

नाना जीवों की अपेक्षा काल—इसमें किस स्थान के संक्रामक का कितना काल है यह नाना जीवों की अपेक्षा चूर्णिसूत्र और जयधवला टीका द्वारा बतलाया गया है।

नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर—इसमें किस स्थानके संक्रामकोंका कितना अन्तर है यह नाना जीवों की अपेक्षा बतलाया है।

सन्निकर्ष—एक संक्रमस्थानके सद्भावमें दूसरा संक्रम स्थान सभव नहीं इसलिए सन्निकर्षका निषेध किया है।

भाव—इसमें सब संक्रमस्थानोंके संक्रामक जीवों का श्रौदयिक भाव है, क्योंकि उदयको निमित्त कर ही संक्रम होता है यह बतलाया है।

अल्पवहुत्व—इसमें सब संक्रमस्थानोंका अल्पवहुत्व बतलाया गया है।

भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि—भुजगारका समुत्कीर्तना आदि १३, पदनिक्षेपका स्वामित्व आदि ३ और वृद्धिका ननुत्कीर्तना आदि १३ अनुयोगद्वारोके आश्रयसे कथन करके इन अनुयोगद्वारोके समाप्त होनेपर प्रकृति संक्रमस्थानकी समाप्तिके साथ प्रकृतिसंक्रम समाप्त किया गया है।

यहाँ प्रसङ्गमे उतना उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कपायप्राभृतकी प्रकृति संक्रमस्थान सम्बन्धी २७ वीं गाथा मे लेकर ३६ वीं गाथा तक १३ गाथाएँ श्वेताम्बर कर्मप्रकृतिकी इसी प्रकरण सम्बन्धी १० वीं गाथा मे लेकर २२ वीं गाथा तक १३ गाथाएँ कुछ रचनाभेद और कहीं-कहीं कुछ पाठभेदके साथ परस्पर मिलती जुलती हैं।

पाठभेदके उदाहरण इस प्रकार है

कपायप्राभृत	कर्मप्रकृति
गाथा० म० ३० दिट्टीगए	१३ दिट्टी कए
„ ३१ विरदे भिल्ले अविरदे य	१५ गियमा दिट्टीकए दुविहे
„ ३३ संक्रमो ह्यपि सम्मत्ते	१६ सुद्धसासणमीसेसु
„ ३५ अट्टारस चहुनु होति बोद्धव्वा	१८ अट्टारस पचगे चउक्के य

यहाँ इतना और उल्लेख कर देना आवश्यक है कि कर्मप्रकृतिमे उसकी उक्त १३ गाथाओंमेंसे प्रारम्भकी २ गाथाओंको छोड़कर अन्तकी शेष ११ गाथाओंकी चूर्णि नहीं है। कपायप्राभृतमे भी यद्यपि उसकी २७ वीं गाथा पर ही चूर्णिसूत्र उपलब्ध होते हैं पर वहाँ चूर्णिसूत्रोमे प्रकृतिसंक्रमस्थान-सम्बन्धी सभी गाथाओंकी सूत्रनमुत्कीर्तनाका स्पष्ट उल्लेख करके स्थानसमुत्कीर्तनामे एक गाथा आई है यह बतलाकर पुनः चूर्णिसूत्रोमें २७ वीं गाथाको निबद्ध कर उसकी विशेष व्याख्या की गई है। इससे स्पष्ट विदित होता है कि अचार्य अतिवृषभके विचारसे इन सभी मूल गाथाओंकी रचना गुणधर आचार्य ने ही की है।

स्थितिसंक्रम

इस अधिकार मे स्थितिसंक्रमके मूलप्रकृतिस्थितिसंक्रम और उत्तरप्रकृतिस्थितिसंक्रम ऐसे दो भेद करके अर्थपदका व्याख्यान करते हुए बतलाया है कि स्थितिके अपकर्षित होने, उत्कर्षित होने या अन्य प्रकृतिमें संक्रमित होनेका नाम स्थितिसंक्रम है। उसमें भी मूलप्रकृतियोंकी स्थितिका उत्कर्षण और अपकर्षण तो होता है पर परप्रकृतिसंक्रम नहीं होता, क्योंकि एक मूल प्रकृति अन्य प्रकृतिरूप संक्रमित नहीं होती। तथा उत्तरप्रकृतियों की स्थिति का उत्कर्षण, अपकर्षण और अन्य प्रकृतिरूप संक्रमण तीनों ही सम्भव हैं। इससे भिन्न स्थिति असंक्रम है यह तो स्पष्ट ही है। अर्थात् मूल या उत्तरप्रकृतियों की जिस स्थिति का संक्रम नहीं होता है वह स्थिति असंक्रम कहलाती है।

स्थिति अपकर्षण—आगे स्थिति अपकर्षण का विचार करते हुए सर्वप्रथम उदयावलीसे उपरिम समयवर्ती स्थिति का अपकर्षण होने पर उसका निक्षेप किन स्थितियों मे होता है और कान स्थितियों अतिस्थापनारूप होती हैं इसका विचार करते हुए बतलाया है कि उदयावलीसे उपरिम समयवर्ती स्थितिका अपकर्षण होने पर उसका निक्षेप उदय समयसे लेकर उदयावलीके त्रिभाग तक होता है और उसके ऊपरके दो त्रिभाग अतिस्थापनारूप रहते हैं। किन्तु आवलिका प्रमाण कृतयुग्म रूप होनेसे उसका अखडरूप त्रिभाग प्राप्त करना शक्य नहीं है, इसलिए जयधवलामें बतलाया है कि आवलिके प्रमाणमेंसे एक कम करके त्रिभाग करने पर जो लब्ध आवे उसमें एक मिला दे। यह तो निक्षेपका प्रमाण है और इसके सिवा शेष (एक कम आवलिके दो त्रिभाग मात्र) अतिस्थापनाका प्रमाण है। जिसमे अपकर्षित द्रव्यका क्षेपण होता है उसका नाम निक्षेप है और निक्षेप तथा संक्रम

स्थितिके मध्य जितनी स्थितियाँ होती हैं उनका नाम अतिस्थापना है। अपकर्षित द्रव्यका क्षेपण किस क्रमसे होता है इसका विचार करते हुए वहाँ बतलाया है कि उदय समयमें बहुत द्रव्यका क्षेपण होता है। उससे आगे निक्षेपके अन्तिम समय तक विशेषहीन विशेषहीन द्रव्यका क्षेपण होता है।

यह उदयावलिसे उपरितन स्थितिमें स्थित द्रव्यके अपकर्षणकी प्रक्रिया है। इस स्थितिसे भी उपरितन स्थितिका अपकर्षण होने पर निक्षेप तो जितना पूर्वमें बतलाया है उतना ही रहता है। मात्र अतिस्थापनामें एक समयकी वृद्धि हो जाती है। शेष सब विधि पूर्ववत् है। इस प्रकार उत्तरांतर उपरिम उपरिम स्थितिका अपकर्षण होने पर निक्षेपका प्रमाण वही रहता है। मात्र अतिस्थापनामें उत्तरोत्तर एक एक समयकी वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार अतिस्थापनाके एक आवलिप्रमाण होने तक यही क्रम चालू रहता है। इसके आगे सर्वत्र अतिस्थापनाका प्रमाण एक आवलि ही रहता है, परन्तु निक्षेपमें वृद्धि होने लगती है और इस प्रकार वृद्धि होकर उत्कृष्ट निक्षेप एक समय अधिक दो आवलि कम उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि जो जीव उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर बन्धावलिके वाद अग्र-स्थितिका अपकर्षण करता है उसका अतिस्थापनावलिको छोड़कर शेष सब स्थितियोंमें क्षेपण होता है, इसलिए उत्कृष्ट निक्षेपका उक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है।

यह निर्व्याघातकी अपेक्षा अपकर्षणका विचार है। व्याघातकी अपेक्षा विचार करने पर स्थितिकारणिकी अन्तिम फालिका पतन होते समय अतिस्थापना जहाँ जितना स्थितिकारणिक हो एक समय कम तत्प्रमाण होती है। उत्कृष्ट स्थितिकारणिकका प्रमाण आगममें अन्त कोडाकोड़ी कम कर्म-स्थितिप्रमाण बतलाया है, इसलिए इससे एक समय कम करनेपर शेष सब स्थिति अन्तिम फालिके पतनके समय अतिस्थापना रूप रहती है अतः उत्कृष्ट अतिस्थापना तत्प्रमाण होनेमें कोई बाधा नहीं आती। विशेष खुलासा मूलसे जान लेना चाहिए।

स्थिति उत्कर्षण—नूतन बन्धके सम्बन्धसे सत्तामें स्थित कर्मप्रदेशोंकी स्थितिका वढना स्थिति उत्कर्षण कहलाता है। इसका भी व्याख्यान निर्व्याघात और व्याघातकी अपेक्षा दो प्रकारसे किया है। जहाँ पर कमसे कम एक आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण निक्षेपके साथ एक आवलिप्रमाण अतिस्थापना होनेमें किसी प्रकारका व्याघात सम्भव नहीं है वह निर्व्याघातविषयक उत्कर्षण और जहाँ पर उक्त निक्षेपके साथ एक आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके प्राप्त होनेमें बाधा आती है वह व्याघातविषयक उत्कर्षण है। खुलासा इस प्रकार है—विवक्षित सत्त्वस्थितिसे एक समय अधिक स्थितिवन्ध होने पर उस स्थितिका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि वहाँ अतिस्थापना और निक्षेप दोनोंका अत्यन्त अभाव है। विवक्षित सत्त्वस्थितिसे दो समय अधिक स्थितिवन्धके होने पर भी विवक्षित स्थितिका उत्कर्षण नहीं होता। इस प्रकार विवक्षित सत्त्वस्थितिसे तीन समयसे आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण अधिक स्थितिवन्ध होने पर भी विवक्षित स्थितिका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि यद्यपि यहाँ पर आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण अतिस्थापना उपलब्ध होती है तो भी अभी निक्षेपका अत्यन्त अभाव होनेसे विवक्षित स्थितिका उत्कर्षण नहीं होता। इसी प्रकार आगे भी जब तक आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण अधिक और स्थितिवन्ध प्राप्त न हो तब तक विवक्षित स्थितिका उत्कर्षण नहीं होता, क्योंकि अतिस्थापनाके ऊपर निक्षेपका प्रमाण कमसे कम आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है, किन्तु अभी वह प्राप्त नहीं हुआ है। हाँ इतना अधिक और स्थितिवन्ध प्राप्त हो जाय तो विवक्षित स्थितिका उत्कर्षण होकर आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण स्थितिको छोड़ आगेके आवलिके असख्यातवें भाग-प्रमाण स्थितिवन्धमें उसका निक्षेप होता है। यह व्याघात विषयक उत्कर्षणका जघन्य भेद है। यहाँ अतिस्थापना और निक्षेप दोनों ही अलग-अलग आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसके आगे एक आवलि होने तक अतिस्थापना बढ़ती है, निक्षेप उतना ही रहता है। तथा एक आवलिप्रमाण

अतिस्थापनाके हों जाने पर निक्षेप ऋता है, प्रतिस्थापना उतनी ही रहती है। यहाँ इतना विशेष जान लेना चाहिए कि जब तक अतिस्थापना एक आवलिसे कम रहती है तब तक व्याघातविषयक उत्कर्षण कहलाना है और पूरी एक आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके होने पर निर्व्याघातविषयक उत्कर्षण होता है। अजयानविषयक उत्कर्षणमें अतिस्थापना कमसे कम एक आवलिप्रमाण और अधिकसे अधिक उत्कृष्ट प्रावाधाप्रमाण होती है। तथा निक्षेप कमसे कम आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण और अधिकसे अधिक उत्कृष्ट प्रावाधा और एक समय अधिक एक आवलि न्यून उत्कृष्ट कर्मस्थितिप्रमाण होता है। व्याघातविषयक जयन्य अतिस्थापना कमसे कम आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण और अधिकसे अधिक एक समय कम एक आवलिप्रमाण होती है। तथा निक्षेप मात्र आवलिके असंख्यातवे भागप्रमाण होता है।

मूलप्रकृतिस्थितिसंक्रम

यह स्थिति अपकर्षण और स्थिति उत्कर्षणका सामान्य स्पीकरण है। आगे मूलप्रकृतिस्थिति-संक्रमकी सीमाया २३ अनुयोगद्वारोका अवलम्बन लेकर की गई है और इसके बाद भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान इन अधिकारोका अवलम्बन लेकर भी उसका विचार किया है। २३ अनुयोगद्वारोके नाम ये हैं—अद्वाच्छेद, सर्व, नोनर्व, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जयन्य, अजयन्य, सादि, अनादि, भ्रुव, अभ्रुव, न्यामित्व, एक-जीवकी अपेक्षा काल, अन्तर, नानाजीवांकी अपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, जेव, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व। यत. स्थिति जयन्य भी होती है और उत्कृष्ट भी होती है अत. इन अनुयोगद्वारोके धारणसे विचार करते समय प्रत्येक अनुयोगद्वारको जयन्य और उत्कृष्ट इन दो भागोंमें विभक्त किया गया है। तथा स्थितिके अजयन्य भेदका जयन्यप्ररूपणाके अन्तर्गत और अनुत्कृष्ट भेदका उत्कृष्ट प्ररूपणाके अन्तर्गत विचार किया है। अद्वाच्छेदका प्रारम्भ करते हुए मात्र एक चूर्णित्व आया है। शेष मूलस्थितिसंक्रमसम्बन्धी समस्त निरूपण जयधवला टीका द्वारा किया गया है।

उत्तरप्रकृतिस्थितिसंक्रम

उत्तरप्रकृति स्थितिसंक्रममें २४ अनुयोगद्वार हैं। अनुयोगद्वारोके नाम वही हैं जो मूलप्रकृति-स्थितिसंक्रमके कथनके प्रसंगसे बतला आये हैं। मात्र यहाँ एक सन्निकर्ष अनुयोगद्वार बढ जाता है। २४ अनुयोगद्वारोके कथनके बाद भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान इन अधिकारोका निरूपण होने पर उत्तरप्रकृति स्थितिसंक्रम समाप्त होता है।

प्रकृतियोंकी संक्रमसे उत्कृष्ट स्थिति दो प्रकारसे प्राप्त होती है—एक तो बन्धकी अपेक्षा और दूसरी मात्र संक्रमकी अपेक्षा। मिथ्यात्वका उत्तर कोड़ाकोड़ी सागर और सोलह कपायोका चालीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, अतः इनका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेद क्रमसे दो आवलि कम उत्तर कोड़ाकोड़ी सागर और दो आवलि कम चालीस कोड़ाकोड़ी सागर बन जाता है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होनेपर बन्धावलिके बाद उदयावलिके उपरितन निपेकोका ही संक्रम सम्भव है, अतः यहाँ उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेदमें अपने-अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धमेसे दो-दो आवलिप्रमाण स्थिति ही कम हुई है। किन्तु नौ नोकपायोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोड़ाकोड़ीसागर नहीं होता, इसलिए इनका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेद बन्धावलि, संक्रमावलि और उदयावलि न्यून चालीस कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण ही प्राप्त होता है। कारण स्पष्ट है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेद अन्तर्मुहूर्त कम उत्तर कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण ही होता है, क्योंकि जो मिथ्या-

दृष्टि जीव मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्धकर अन्तर्मुहूर्तमें वेदकसम्पन्नदृष्टि हो जाता है, उसके मिथ्यात्वकी अन्तर्मुहूर्त कम उत्कृष्ट स्थितिका ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे संक्रम होता है। इस प्रकार इन दोनों प्रकृतियोंकी जव यत्स्थिति ही मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिवन्धसे अन्तर्मुहूर्त कम है तो इनका उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेद तो कम होगा ही यह उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेदका विचार है। जवन्य स्थिति संक्रम अद्वाच्छेदमे इतना ही वक्तव्य है कि सम्यक्त्व और लोभ मञ्ज्वलनका स्वोदयसे क्षय होता है, इसलिए इनका जवन्य स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेद एक स्थिति प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि इन दोनों कर्मोंकी एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण जवन्य स्थितिके शेष रहने पर उदयावलिसे उपरिम स्थितिका संक्रम बन जाता है। किन्तु शेष प्रकृतियोंका स्वोदयसे क्षय नहीं होता, इसलिए इनकी अन्तिम फालिका परोदयसे पतन होते समय जो आयाम होता है वही इनका जवन्य स्थिति संक्रम अद्वाच्छेद है। यह स्थितिसंक्रम अद्वाच्छेदका विचार है। स्वामित्वका विचार इसी आधारसे फर लेना चाहिए। विशेष स्पष्टीकरण मूलमें किया ही है। तथा इसी प्रकार शेष अनुयोगद्वाराका व्याख्यान भी मूलसे जान लेना चाहिए।

अनुभागसंक्रम

कर्मोंकी अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है और उसका अन्य स्वभावरूप बदल जाना अनुभागसंक्रम है। इसके मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम और उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रम ऐसे दो भेद हैं। उनमेंसे मूल प्रकृतिका अपकर्षण और उत्कर्षणके द्वारा अनुभागका बदल जाना मूलप्रकृति-अनुभागसंक्रम है तथा उत्तरप्रकृतियोंके अनुभागका उत्कर्षण, अपकर्षण और अन्य प्रकृतिसंक्रमके द्वारा अन्य अनुभागरूप परिणाम जाना उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रम है। इस प्रकार उक्त व्याख्यानसे यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर अनुभागसंक्रमसे उत्कर्षण, अपकर्षण और अन्य प्रकृतिसंक्रम इन तीनों प्रकारसे अनुभागका परिवर्तन इष्ट है। उसमें सर्वप्रथम अनुभागअपकर्षणका स्पष्टीकरण करते हैं।

अनुभागअपकर्षण—ऐसा नियम है कि जिस स्पर्धकका अपकर्षण होता है उससे नीचे अनन्त स्पर्धक अतिस्थापनारूप होते हैं और उनसे नीचे अनन्त स्पर्धक निक्षेपरूप होते हैं। इसलिए प्रारम्भके जवन्य निक्षेप और जवन्य अतिस्थापनारूप स्पर्धकोंका अपकर्षण कभी नहीं होता यह सिद्ध होता है। यहाँ जवन्य निक्षेप और जवन्य अतिस्थापनासे उपरिम स्पर्धककी अपेक्षा यह कथन किया है। उस स्पर्धकसे लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक अन्य सब स्पर्धकोंका अपकर्षण होना सम्भव है। इतना विशेष है कि व्याधातको छोड़कर सर्वत्र अतिस्थापना तो एक समान रहती है मात्र निक्षेपमें वृद्धि होती जाती है। जवन्य निक्षेप और जवन्य अतिस्थापनाका प्रमाण कितना है इसका उल्लेख करते हुए लिखा है कि एक प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका जितना प्रमाण है उससे जवन्य निक्षेपका प्रमाण अनन्तगुणा है और उससे भी जवन्य अतिस्थापनाका प्रमाण अनन्तगुणा है। यहाँ अनुभागका प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर अनुभागकी अपेक्षा ही प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरका विचार करना चाहिए। तदनुसार जहाँ प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गाणासे लेकर उच्चोच्च अवस्थित चयकी हानि द्वारा दूनी हानि हो जाती है उस अवधि तकके अध्वानकी प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर संज्ञा है। इस प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें अभव्योसे अनन्तगुणे अनन्त स्पर्धक होते हैं। इससे जवन्य निक्षेप और जवन्य अतिस्थापनाका प्रमाण अनुभागकी अपेक्षा कितना है वह स्पष्ट हो जाता है।

यह तो जवन्य निक्षेप और जवन्य अतिस्थापनाका खुलासा है। उत्कृष्ट अतिस्थापना और उत्कृष्ट निक्षेपका विचार करते हुए वहाँ बतलाया है कि जवन्य अतिस्थापनासे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक अनन्तगुणा होता है और उससे एक वर्गाणा कम उत्कृष्ट अतिस्थापना होती है। यह उत्कृष्ट अतिस्थापना

उत्कृष्ट अनुभागकारणकी अन्तिम वर्गणाके पतनके समय ही प्राप्त होती है। कारण कि जब अन्तिम वर्गणाका पतन होता है तब उसका निक्षेप अन्तिम वर्गणाके पतनके साथ ही निर्मूल होनेवाले उत्कृष्ट अनुभागकारणको छोड़कर ही होता है, अन्यथा उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता। यही कारण है कि यहाँ पर अन्तिम वर्गणासे हीन उत्कृष्ट अनुभागकारणप्रमाण उत्कृष्ट अतिस्थापना बतलाई है। उत्कृष्ट निक्षेपका विचार करने पर वह उत्कृष्ट अतिस्थापनासे विशेष अधिक ही प्राप्त होता है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागके बन्ध करके एक आवृत्ति बाद अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाका अपकर्षण करने पर इसका निक्षेप जघन्य अतिस्थापनासे नीचे जितना भी अनुभागप्रस्तार है उस सर्वमे होता है। विचार करने पर निक्षेपरूप यह अनुभागप्रस्तार पूर्वोक्त उत्कृष्ट अतिस्थापनासे विशेष अधिक है। यही कारण है कि यहाँ पर उत्कृष्ट निक्षेपको उत्कृष्ट अतिस्थापनासे विशेष अधिक बतलाया है। यहाँ इतना विशेष नमस्कना चाहिए कि उत्कृष्ट अतिस्थापना तो व्याघातमें ही प्राप्त होती है परन्तु उत्कृष्ट निक्षेप अत्याघातमें ही प्राप्त होता है।

अनुभागउत्कर्षण—जघन्य अतिस्थापना और जघन्य निक्षेपप्रमाण अन्तिम स्पर्धकोंका उत्कर्षण नहीं होता। हाँ इन दोनोंके नीचे जो स्पर्धक हैं उसका उत्कर्षण हो सकता है। तथा इस स्पर्धकके नीचे जघन्य स्पर्धक पर्यन्त जितने भी स्पर्धक हैं उनका भी उत्कर्षण हो सकता है। मात्र सर्वत्र अतिस्थापना तो एक समान ही रहती है, निक्षेप बढ़ता जाता है। पहले अपकर्षणका निरूपण करते समय जघन्य और उत्कृष्ट निक्षेप तथा जघन्य अतिस्थापनाका जो प्रमाण बतलाया है वही यहाँ पर भी समझना चाहिए। विशेष व्याख्यान न होनेके कारण यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है।

मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम

यह उत्कर्षण, अपकर्षण और परप्रकृतिसंक्रमविषयक जो प्ररूपणा की है उसे ध्यानमें रखकर वहाँ सर्वप्रथम २३ अनुयोगद्वारों तथा भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धिके आश्रयसे मूलप्रकृति अनुभागसंक्रमका विचार किया गया है। वे तर्क अनुयोगद्वार इस प्रकार हैं—सजा, सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्यसंक्रम, अजघन्यसंक्रम, सादि, अनादि, श्रुव, अश्रुव, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल, अन्तर, नानाजीवोंकी अपेक्षा भगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, नानाजीवोंकी अपेक्षा काल, अन्तर, भाव और अल्पबहुत्व।

इन २३ अनुयोगद्वारोंका विषय सुगम होनेसे इनपर चूर्णिसूत्र नहीं हैं। जयधवलामे भी साद्यादि चार, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल और अन्तर मात्र इन अनुयोगद्वारोंका ही स्पष्टीकरण किया गया है और शेष अनुयोगद्वारोंका विचार अनुभागविभक्तिके समान है यह बतलाकर उनका व्याख्यान नहीं किया है। इसी प्रकार भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धिके अवान्तर अनुयोगद्वारोंका विचार करते हुए किसीका सक्षेपमें व्याख्यान कर दिया गया है और किसीका कथन अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना मात्र करके मूलप्रकृति अनुभागसंक्रमका कथन समाप्त किया गया है।

उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रम

उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रममें २४ अनुयोगद्वार हैं यह प्रतिज्ञा चूर्णिसूत्रमें ही की गई है। मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रमके विषय परिचयके प्रसंगसे जिन २३ अनुयोगद्वारोंका नामनिर्देश किया है उनमें सन्निकर्षके मिलाने पर उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रमसम्बन्धी २४ अनुयोगद्वार हो जाते हैं। उनमें सर्वप्रथम संज्ञा अनुयोगद्वार है। इसका व्याख्यान करते हुए उसके घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा इस प्रकार दो भेद किये गये हैं। मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उत्कृष्ट आदि अनुभागसंक्रमरूप स्पर्धकोंमें कौन सर्वघाति है और कौन देशघाति है इसकी परीक्षाका नाम घातिसंज्ञा है, क्योंकि घातिकर्मोंके अनुभागबन्धकी अपेक्षा

सर्वघाति और देशघाति ऐसे दो भेद हैं। अतएव सक्रमकी अपेक्षा भी उनके दो भेद प्राप्त होते हैं। उसमें भी उन सक्रमरूप अनुभागस्पर्धकोंकी एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिकरूपसे मीमासाका नाम स्थानसजा है। अन्यत्र लता, ढाढ़, अस्थि और शैल ये सजाएँ आठ हैं। जहाँ मात्र लतारूप अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी एकस्थानिक संज्ञा है, जहाँ लता और ढाढ़रूप या मात्र ढाढ़रूप अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी द्विस्थानिकसंज्ञा है, जहाँ ढाढ़ और अस्थिरूप अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी त्रिस्थानिक संज्ञा है तथा जहाँ ढाढ़, अस्थि और शैलरूप अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी चतुःस्थानिक संज्ञा है। यहाँ मोहनीयकी २८ प्रकृतियोंमें किस प्रकृतिका अनुभाग घाति और स्थानकी अपेक्षा किस प्रकारका होता है इसका स्पर्धाकरण करते हुए बतलाया है कि मिथ्यात्व, बारह कषाय और आठ नोकपायोका अनुभाग सर्वघाति तो होता ही है। उसमें भी वह द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुःस्थानिकरूप ही होता है। एकस्थानिक नहीं होता, क्योंकि एकस्थानिक अनुभाग नियमसे देशघाति होता है। उसमें भी उत्कृष्ट अनुभाग नियमसे चतुःस्थानिक होता है और जघन्य अनुभाग नियमसे द्विस्थानिक होता है। शेष अनुत्कृष्ट और अजघन्य अनुभाग द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक तीनों प्रकारका होता है। सम्यग्मिथ्यात्व यद्यपि सर्वघाति प्रकृति है परन्तु उसका उत्कृष्ट आदि चारों प्रकारका अनुभाग द्विस्थानिक ही होता है। संज्वलन और पुरुषवेदके अनुभागका विचार अक्षपक और अनुपशामकके तो मिथ्यात्वके समान ही है। मात्र उपशामक और क्षपकके उत्कृष्ट अनुभाग सक्रम द्विस्थानिक और सर्वघाति ही होता है जो अपूर्वकरणमें चटते हुए प्रथम समयमें उपलब्ध होता है। अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक या एकस्थानिक तथा सर्वघाति या देशघाति दोनों प्रकारका होता है। इसका एकस्थानिक अनुभागसंक्रम अन्तरकरणके बाद एकस्थानिक अनुभागका बन्ध करनेवाले जीवके शुद्ध नवकवन्धके सक्रमणके समय और कृष्टिवेदक कालके भीतर उपलब्ध होता है। तथा देशघातिपना भी वही पर उपलब्ध होता है। इनका जघन्य अनुभागसंक्रम देशघाति और एकस्थानिक होता है जो यथासम्भव नवकवन्धकी कृष्टियोंके सक्रमणके अन्तिम समयमें उपलब्ध होता है और अजघन्य अनुभागसंक्रम अनुत्कृष्ट एकस्थानिक या द्विस्थानिक तथा सर्वघाति या देशघाति दोनों प्रकारका होता है। अब रही सम्यक्त्व प्रकृति से इसका अनुभागसंक्रम नियमसे देशघाति होकर एकस्थानिक या द्विस्थानिक होता है। उसमें उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम नियमसे द्विस्थानिक ही होता है। अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक या एकस्थानिक दोनों प्रकारका होता है। क्षपणके समय इसकी स्थिति आठ वर्षकी रहने पर वहाँसे लेकर एकस्थानिक अनुभाग होता है और इससे पूर्व द्विस्थानिक अनुभाग होता है। इसका जघन्य अनुभागसंक्रम नियमसे एकस्थानिक होता है, क्योंकि एक समय अधिक आवलिप्रमाण निषेक रहने पर एकस्थानिक जघन्य अनुभागसंक्रम उपलब्ध होता है। तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम एकस्थानिक या द्विस्थानिक दोनों प्रकारका होता है। स्पर्धाकरण सुगम है। इस प्रकार सजाके विचारपूर्वक पूर्वमें कहे गये अनुयोगद्वारोके क्रमसे विचार कर उत्तरप्रकृति-अनुभागसंक्रम प्रकरण समाप्त किया गया है।

प्रदेशसंक्रम

यह प्रदेशसंक्रम अधिकार है। इसका निर्देश करते हुए प्रारम्भ में बतलाया है कि मूल प्रकृति प्रदेशसंक्रम नहीं है। क्यों नहीं है इस प्रश्नका उत्तर देते हुए बतलाया है कि ऐसा स्वभाव है। बात यह है कि जानावरण कर्म अपने सत्कालमें जानावरणरूप ही रहता है, दर्शनावरण कर्म दर्शनावरणरूप ही रहता है। यही व्यवस्था अन्य कर्मोंकी भी है। यही कारण है कि यहाँ पर मूलप्रकृति प्रदेशसंक्रमका निषेध किया है।

उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रम

उत्तर प्रकृतिप्रदेशसंक्रमका विचार करते हुए सर्वप्रथम उसके अर्थपदका उल्लेख करके बतलाया है कि जिन प्रकृतिके कर्मपरमाणु अन्य प्रकृतिमें ले जाये जाते हैं उस प्रकृतिका वह प्रदेशसंक्रम कहलाता है। जैसे मिथ्यात्वके कर्मपरमाणु सम्यक्त्वमें सन्नान्त किये जाते हैं, इसलिए वह मिथ्यात्वका प्रदेशसंक्रम कहलाता है। इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंका भी प्रदेशसंक्रम जानना चाहिए। प्रदेशसंक्रमके विषयमें यह अर्थपद है। इसके अनुसार प्रदेशसंक्रमके पाँच भेद हैं। उनके नाम ये हैं—उद्वेलनासंक्रम, विध्यातसंक्रम, अधःप्रवृत्तसंक्रम, गुणसंक्रम और सर्वसंक्रम।

उद्वेलनासंक्रम—करण परिणामोंके बिना रस्तीके उकेलनेके समान कर्मपरमाणुओंका अन्य प्रकृतिरूप परिणाम जाना उद्वेलनासंक्रम है। मोहनीय कर्ममें यह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दो कर्मप्रकृतियोंका ही होता है। इसका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। यह कहाँ होता है इसका विशेष खुलासा करते हुए बतलाया है कि सम्यग्दृष्टि जीव जब सम्यक्त्व परिणामको छोड़कर मिथ्यात्व गुणस्थानमें जाता है तो मिथ्यात्वमें जाननेके समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालतक वह सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अधःप्रवृत्तसंक्रम करता है। उसके बाद इन दोनों कर्मोंका उद्वेलनासंक्रम प्रारम्भ करता है। इसका काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतने काल तक इन कर्मोंका उद्वेलना-भागहारकेद्वारा प्रतिसमय विशेषहीन विशेषहीनक्रमसे प्रदेशसंक्रम करता है। उत्तरोत्तर इन कर्मोंका द्रव्य घटता जाता है इसलिए प्रत्येक समयमें अपने पूर्व समयकी अपेक्षा विशेष हीन द्रव्यका ही संक्रम होता है ऐसा यहाँ अभिप्राय जानना चाहिए। उतनी विशेषता है कि इन दोनों कर्मोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकके पतनके समय उपान्त्य फालिके पतन होने तक गुणसंक्रम और अन्तिम फालिके पतनके समय सर्वसंक्रम होता है।

विध्यातसंक्रम—वेदकसम्यक्त्वके कालमें दर्शनमोहनीयकी क्षण करानेवाले जीवके अधः-प्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक सर्वत्र मिथ्यात्व, और सम्यग्मिथ्यात्वका अधःप्रवृत्तसंक्रम होता है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके भी गुणसंक्रमके कालके बाद सर्वत्र उक्त प्रकृतियोंका विध्यातसंक्रम होता है। इसका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। फिर भी यह उद्वेलनासंक्रमके भागहारसे असंख्यातगुणा हीन है। इसीप्रकार अन्य जिन प्रकृतियोंका विध्यातसंक्रम होता है उसका विचार समझ कर लेना चाहिए।

अधःप्रवृत्तसंक्रम—बन्ध प्रकृतियोंका अपने बन्धके समय जो संक्रम होता है वह अधः-प्रवृत्तसंक्रम है। श्वेताम्बर कर्मग्रन्थोंमें 'अधाप्रवृत्त' शब्दका संस्कृतमें रूपान्तर 'यथाप्रवृत्त' किया है। इसीप्रकार 'पटिग्गह' शब्दका रूपान्तर 'पतद्ग्रह' किया है। अधःप्रवृत्तसंक्रमका भागहार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। उदाहरणार्थ चारित्रमोहनीयकी २५ प्रकृतियोंका अपने बन्धकालमें बध्यमान प्रकृतियोंमें अधाप्रवृत्तसंक्रम होता है।

गुणसंक्रम—प्रत्येक समयमें असंख्यात श्रेणीरूपसे होनेवाले संक्रमका नाम गुणसंक्रम है। यह दर्शनमोहनीयकी क्षण, चारित्रमोहनीयकी क्षण, उपशमश्रेणि, अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय अपूर्वकरणके प्रथम समयसे होता है। तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाके अन्तिम काण्डकके पतनके समय होता है। मात्र अन्तिम काण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय गुणसंक्रम नहीं होता इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए।

सर्वसंक्रम—सर्व कर्मपरमाणुश्रोका एकसाथ संक्रमका नाम सर्वसंक्रम है। यह उद्वेलना, त्रिसंयोजना और क्षणामें अन्तिम काण्डकी अन्तिम फालिके पतनके समय होता है। इसके भागहारका प्रमाण एक है।

अल्पबहुत्व—इन पाँचों संक्रमोंके अल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए बतलाया है कि उद्वेलना-संक्रममें कर्मपरमाणु सबसे स्तोक होते हैं, उनसे विध्यातसंक्रममें असंख्यातगुणे होते हैं, उनसे अधःप्रवृत्तसंक्रममें असंख्यातगुणे होते हैं, उनसे गुणसंक्रममें असंख्यातगुणे होते हैं और उनसे सर्व-संक्रममें असंख्यातगुणे होते हैं। कारणका निर्देश करते हुए वहाँ बतलाया है कि इन पाँचों संक्रमोंका भागहार उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा हीन होता है। यही कारण है कि इन संक्रमोंमें उत्तरोत्तर असंख्यातगुणा द्रव्य प्राप्त होता है।

भागाभाग—आगे उच्चप्रकृतिप्रदेशसंक्रमका कथन समुत्कीर्तना आदि २४ अनुयोगद्वारा तथा भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थानके आश्रयसे किया जायगा यह बतलाकर २४ अनुयोगद्वारोंके मध्य भागाभागके जीवविषयक भागाभाग और प्रदेशविषयक भागाभाग ऐसे दो भेद करके स्वस्थान भागाभागका व्याख्यान करते हुए बतलाया है कि मिथ्यात्वके द्रव्यके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग सर्वसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भागके असंख्यात भाग करने पर बहुभाग गुणसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भाग विध्यात संक्रमका द्रव्य है। इस प्रकार मिथ्यात्व प्रकृतिके प्रदेशोंके सर्वसंक्रम, गुणसंक्रम और विध्यातसंक्रम ये तीन संक्रम ही होते हैं, अन्य दो संक्रम नहीं होते। कारण कि मिथ्यात्व उद्वेलना प्रकृति न होनेसे इसका उद्वेलना संक्रम सम्भव नहीं है और सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्व बन्धप्रकृति न होनेसे मिथ्यात्वका अधःप्रवृत्तसंक्रम भी सम्भव नहीं है।

सम्यक्त्वप्रकृतिके द्रव्यके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग अधःप्रवृत्त संक्रमका द्रव्य है, शेष एक भागके असंख्यात बहुभाग करने पर उनमेंसे बहुभाग सर्वसंक्रमका द्रव्य है, शेष एक भागके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग गुणसंक्रमका द्रव्य है तथा शेष एक भाग उद्वेलना संक्रमका द्रव्य है। इस प्रकार सम्यक्त्व प्रकृतिके प्रदेशोंके उक्त चार संक्रम ही होते हैं, विध्यातसंक्रम नहीं होता, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यक्त्व प्रकृति मात्र प्रतिग्रहप्रकृति है, संक्रमप्रकृति नहीं है। और विध्यात संक्रम सम्यग्दर्शनरूप अवस्थामें ही उपलब्ध होता है, इसलिए सम्यक्त्व प्रकृतिमें विध्यातसंक्रमका विधान नहीं किया है।

सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग सर्वसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भागके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग गुणसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भागके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग अधःप्रवृत्तसंक्रमका द्रव्य है, शेष एक भागके असंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग विध्यातसंक्रमका द्रव्य है तथा शेष एक भाग उद्वेलनासंक्रमका द्रव्य है। यहाँ पाँचों संक्रम बतलाये हैं। कारण यह है कि सम्यग्दृष्टि जीवके सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति मिथ्यात्वकी अपेक्षा प्रतिग्रह प्रकृति है और सम्यक्त्व प्रकृतिकी अपेक्षा संक्रमप्रकृति है, इसलिए इसका विध्यातसंक्रम बन जानेसे इसके पाँचों संक्रम होनेका निर्देश किया है। वारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोक इन प्रकृतियोंके संक्रमोंका कथन भी इसी प्रकार करना चाहिए। मात्र इन प्रकृतियोंका उद्वेलना संक्रम नहीं होता।


पुरुषवेद, क्रोधसज्वलन, मानसज्वलन और मायासज्वलन इन प्रकृतियोंके अपने अपने द्रव्यके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभाग सर्वसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भाग अधःप्रवृत्तसंक्रमका द्रव्य है।

तन्म्यदृष्टि जीवके मात्र पुनपवेदका ही बन्ध होता है और बन्धकालमे विध्यातसंक्रम सम्भव नहीं, इसलिए तो इनके विध्यातसंक्रमका विधान नहीं किया। यही बात क्रोधसञ्चलन आदि तीन प्रकृतियोंके विषयमे जान लेना चाहिए। तथा इन चारों प्रकृतियोंका अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे भी बन्ध होता है, इसलिए इनके गुणसंक्रमका विधान नहीं किया। इनका उद्वेलनासंक्रम नहीं होता यह तो स्पष्ट ही है। इस प्रकार इन प्रकृतियोंके शेष दो संक्रम होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है।

हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोंके अपने-अपने द्रव्यके असंख्यात भाग करके उनमेमे बहुभाग-सर्वसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भागके असंख्यात भाग करके उनमेसे बहुभाग गुणसंक्रमका द्रव्य है और शेष एक भाग अधःप्रवृत्तसंक्रमका द्रव्य है। इन चारों प्रकृतियोंका आठवें गुणस्थानमे भी बन्ध होता है, इसलिए इनका भी विध्यातसंक्रम नहीं है, क्योंकि बन्धव्युच्छितिके बाद इनका गुणसंक्रम होने लगता है। इनका उद्वेलना संक्रम नहीं होता यह तो स्पष्ट ही है।

लोभसञ्चलनका मात्र अधःप्रवृत्तसंक्रम ही होता है, क्योंकि इसका एक ता नौवें गुणस्थानमे भी बन्ध होता है, दूसरे नौवें गुणस्थानमे अन्तरकरण क्रियाके बाद आनुपूर्वी संक्रम प्रारम्भ हो जाता है, तीसरे यह अपने उदयमे क्षयको प्राप्त होनेवाली प्रकृति है और चौथे यह उद्वेलना प्रकृति नहीं है, इसलिए इसके अन्य चार संक्रमोंका निषेध कर मात्र अधःप्रवृत्तसंक्रमका विधान किया है। स्वोदयसे क्षयको तो सम्यक्त्व प्रकृति भी प्राप्त होती है पर उसमें जो गुणसंक्रम और सर्वसंक्रमका विधान किया है वह क्षयका अपेक्षासे नहीं किया है। किन्तु उद्वेलनाके अन्तिम स्थितिकारणका पतन होते समय उपान्त्य समय तक उद्वेलनासंक्रम न होकर गुणसंक्रम होता है और अन्तिम समयमे सर्वसंक्रम होता है, इस अपेक्षासे इस प्रकृतिके गुणसंक्रम और सर्वसंक्रम होनेका विधान किया है।

यह मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंके पाँच संक्रमोंकी अपेक्षा भागाभागका विचार है। स्वामित्व आदि शेष अनुयोगद्वारे तथा भुजगार, पदनिक्षेप वृद्धि और स्थान इन अनुयोगद्वारोंका कथन विस्तारसे मूलमें किया ही है और इन अनुयोगद्वारोंके विषयमे स्वतन्त्र वक्तव्य नहीं है, इसलिए यहाँ पर अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है।




विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अनुभागसंक्रम		समुत्कीर्तनानुगम	१६
मगलाचरण	१	स्वामित्वानुगम	१६
अनुभागसंक्रमके दो भेद	२	कालानुगम	१६
अनुभागसंक्रमका लक्षण	२	अन्तरानुगम	१६
मूलप्रकृति अनुभागसंक्रमका लक्षण	२	नानाजीवोंकी अपेक्षा भंगविचयानुगम	१७
उत्तरप्रकृति अनुभागसंक्रमका लक्षण	२	भागाभागानुगम	१७
प्रकृतमें उपयोगी अर्थपदका निरूपण	३	परिमाणानुगम	१७
अर्थपदकी विशेष व्याख्या	३	क्षेत्र और स्पर्शनको अनुभाग विभक्तिके	
अपकर्षणका कथन	४	समान जाननेकी सूचना	१८
कितने स्पर्धकोंका अपकर्षण नहीं होता		कालानुगम	१८
और किनका होता है	४	अन्तरानुगम	१८
अल्पवहुत्व	५	भावानुगम	१८
प्रदेशगुणहानि स्थानान्तरका लक्षण	६	अल्पवहुत्वानुगम	१८
उत्कर्षणका कथन	६	पदनिक्षेपअनुभागसंक्रम	
किन स्पर्धकोंका उत्कर्षण नहीं होता और		तीन अनुयोगद्वारोंकी सूचना	१६
किनका होता है	६	समुत्कीर्तनाको अनुभागविभक्तिके समान	
अल्पवहुत्व	१०	जानने की सूचना	१६
मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम		स्वामित्वके दो भेद और उनका कथन	१६
प्रकृतमें उपयोगी २३ अनुयोगद्वारोंके साथ		अल्पवहुत्वको अनुभागविभक्तिके समान	
भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धिके कथनकी		जाननेकी सूचना	१६
सूचना	११	वृद्धिअनुभागसंक्रम	
सजाके दो भेदोंका नामनिर्देश	१२	१३ अनुयोगद्वारोंकी सूचना	१६
सर्वसंक्रम आदि ६ अनुयोगद्वारोंको अनुभाग		समुत्कीर्तना	१६
विभक्तिके समान जाननेकी सूचना	१२	स्वामित्व	१६
सादि आदि ४ अनुयोगद्वारोंका व्याख्यान	१२	काल	२०
स्वामित्वके दो भेद और उनका निरूपण	१३	अन्तर आदि शेष अनुयोग द्वारों को अनुभाग-	
कालके दो भेद और उनका निरूपण	१४	विभक्तिके समान जानने की सूचना	२०
अन्तरके दो भेद और उनका निरूपण	१५	अल्पवहुत्व	२०
शेष अनुयोगद्वारोंको अनुभागविभक्तिके		उत्तरप्रकृति अनुभागसंक्रम	
समान जाननेकी सूचना	१६	२४ अनुयोगद्वारोंके नाम	२०
भुजगार अनुभागसंक्रम		संजाके दो भेद	२०
समुत्कीर्तना आदि १३ अनुयोगद्वारोंकी सूचना	१६	घातिसंजाका स्पष्टीकरण	२१

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
स्थानसंज्ञाका	२१	जघन्य अनुभागसंक्रम अल्पबहुत्व	८३
मोहनीयके अन्तर भेदोंमें दोनों संज्ञाश्रौंका		नरकगतिमें जघन्य अनुभागसंक्रम अल्पबहुत्व	८८
विचार	२१	शेष गतियोंमें नरकगतिके समान जाननेकी सूचना	९२
गतिआदि मार्गशास्त्रोंके आश्रयसे दोनों संज्ञाश्रौंका		एकेन्द्रियोंमें जघन्य अनुभागसंक्रम अल्पबहुत्व	९२
का विचार	२४	भुजगार अनुभागसंक्रम	
सर्वसंक्रम आदि ६ अनुयोगद्वारोंको अनुभाग-		१३ अनुयोगद्वारोंकी सूचना	९४
विभक्तिके समान जाननेकी सूचना	२६	अर्थपदके कहनेकी प्रतिज्ञा	९४
स्वामित्वके कहने प्रतिज्ञा	२७	भुजगारपदका अर्थ	९५
उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम स्वामित्व	२७	अल्पतरपदका अर्थ	९५
जघन्य अनुभागसंक्रम स्वामित्व	३०	अवस्थितपदका अर्थ	९६
एक जीवकी अपेक्षा काल	३६	अवक्तव्यपदका अर्थ	९६
उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम काल	३६	समुत्कीर्तना	९७
जघन्यअनुभाग संक्रमकाल	४२	स्वामित्व	९७
आदेश प्ररूपणा	४७	एक जीवकी अपेक्षा काल	१००
एकजीवकी अपेक्षा अन्तर	४८	एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	१०७
उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम अन्तर	४६	भंगविचय	११२
आदेशप्ररूपणाको अनुभागविभक्तिके समान		भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शनको	
जाननेकी सूचना	५२	अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना	११४
जघन्य अनुभागसंक्रम अन्तर	५२	नाना जीवकी अपेक्षा काल	११४
आदेशप्ररूपणा	५७	नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर	११४
सन्निकर्षके कहनेकी प्रतिज्ञा	५७	भाव	११६
उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम सन्निकर्ष	५७	अल्पबहुत्व	११६
जघन्य अनुभागसंक्रम सन्निकर्ष	६१	पदनिक्षेप	
नाना जीवोंकी अपेक्षा भंगविचय	६८	३ अनुयोगद्वारोंके कहनेकी सूचना	१२१
उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम भंगविचय	६६	प्ररूपणा	१२२
जघन्य अनुभागसंक्रम भंगविचय	७०	उत्कृष्ट स्वामित्व	१२२
भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शनको		जघन्य स्वामित्व	१२७
अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना	७१	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	१३८
नाना जीवोंकी अपेक्षा काल	७३	जघन्य अल्पबहुत्व	१४०
उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम काल	७३	वृद्धि	
जघन्य अनुभागसंक्रम काल	७५	३ अनुयोगद्वारोंके कहनेकी सूचना	१४३
नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर	७८	समुत्कीर्तना	१४३
उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम अन्तर	७८	स्वामित्व	१४७
जघन्य अनुभागसंक्रम अन्तर	७६	अल्पबहुत्व	१५०
भाव	८३	स्थान	
अल्पबहुत्व	८३	चार अनुयोगद्वारोंके कहनेकी सूचना	१५६
उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम अल्पबहुत्वको उत्कृष्ट			
अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना	८३		

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
समुत्कीर्तना	१५६	जघन्य और उत्कृष्ट संक्रम कालका एकसाथ	
प्ररूपणा और प्रमाणका एकसाथ कथन	१५७	निरूपण	२१२
अल्पबहुत्व	१६२	जघन्यवलाद्वारा उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट संक्रम	
स्वस्थान अल्पबहुत्व	१६३	कालका निरूपण	२१२
परस्थान अल्पबहुत्व	१६३	जघन्यवला द्वारा जघन्य और अजघन्य संक्रम	
		कालका निरूपण	२१७
प्रदेशसंक्रम		अन्तरके कहनेकी प्रतिज्ञा	२२३
मंगलाचरण	१६७	उत्कृष्ट संक्रमके अन्तरका विचार	२२३
प्रदेशसंक्रम कहनेकी प्रतिज्ञा	१६८	जघन्य संक्रमके अन्तरका विचार	२३०
मूलप्रकृतिप्रदेशसंक्रमका होना नहीं बनता	१६८	सन्निकर्षके कहनेकी प्रतिज्ञा	२३७
		उत्कृष्ट संक्रम सन्निकर्ष	२३७
		जघन्य संक्रम सन्निकर्ष	२४३
उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रम		उत्कृष्ट संक्रम परिणाम	२५२
प्रकृतमें उपयोगी अर्थपदका निर्देश	१६८	जघन्य संक्रम परिणाम	२५३
अर्थपदके समर्थनमें उदाहरण व अन्यत्र		उत्कृष्ट-जघन्य संक्रम क्षेत्र	२५३
इसी प्रकार जाननेकी सूचना	१६९	उत्कृष्ट संक्रम स्पर्शन	२५४
प्रदेशसंक्रमके पाँच भेद	१७०	जघन्य संक्रम स्पर्शन	२५८
उनके नाम	१७०	नानाजीवोकी अपेक्षा उत्कृष्ट संक्रमकाल	२६२
उद्वेगनासंक्रमका विशेष विचार	१७०	नानाजीवोकी अपेक्षा जघन्य संक्रमकाल	२६३
विध्यातसंक्रमका विशेष विचार	१७१	नानाजीवोकी अपेक्षा उत्कृष्ट संक्रम अन्तर	२६४
अधःप्रवृत्तसंक्रमका विशेष विचार	१७१	नानाजीवोकी अपेक्षा जघन्य संक्रम अन्तर	२६४
गुणसंक्रमका विशेष विचार	१७२	भाव	२६५
सर्वसंक्रमका विशेष विचार	१७२	अल्पबहुत्वके कहनेकी प्रतिज्ञा	२६५
पाँचों संक्रमोंमें अल्पबहुत्व	१७२	उत्कृष्ट संक्रम अल्पबहुत्व	२६५
२४ अनुयोगद्वार व भुजगार आदिकी सूचना	१७३	नरकगतिमें उत्कृष्ट संक्रम अल्पबहुत्व	२६६
समुत्कीर्तनाके दो भेद व उनका निरूपण	१७३	शेष गतियोंमें जाननेकी सूचना	२७२
भागभागके दो भेद	१७४	एकेन्द्रियोंमें उत्कृष्ट संक्रम अल्पबहुत्व	२७३
प्रदेशभागभागके भी दो भेद	१७४	जघन्य संक्रम अल्पबहुत्व	२७५
उत्कृष्ट प्रदेशभागभाग	१७४	नरकगतिमें जघन्य संक्रम अल्पबहुत्व	२८१
स्वस्थान भागभाग	१७४	तिर्यङ्गगतिमें नरकगतिके समान जाननेकी	
जघन्य प्रदेशभागभागके जाननेकी सूचना	१७५	सूचना	२८४
सर्वसंक्रम नोसर्वसंक्रम	१७५	देवगतिमें विशेष विचार	२८५
उत्कृष्टसंक्रम आदि चारको प्रदेशविभक्तिके		एकेन्द्रियोंमें जघन्य संक्रम अल्पबहुत्व	२८५
समान जाननेकी सूचना	१७६		
सादि आदि चार अनुयोगद्वार	१७६		
स्वामित्वके कहनेकी प्रतिज्ञा	१७६		
उत्कृष्ट स्वामित्व	१७७	भुजगार	
जघन्य स्वामित्व	१८४	भुजगार विषयक अर्थपदके कहनेकी सूचना	२८६
एक जीवकी अपेक्षा कालके कहनेकी प्रतिज्ञा	२११	भुजगारपदका अर्थ	२८६
		अल्पतरपदका अर्थ	२६०

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अवस्थितपदका अर्थ	२६०	अल्पबहुत्व	३७३
अवक्तव्यपदका अर्थ	२६०		
समुत्कीर्तना	२६१	पठनिक्षेप	
स्वामित्व	२६४	तीन अनुयोगद्वार और उनके नाम	३७६
एक जीवकी अपेक्षा काल	३०६	प्ररूपणाके दोनो भेदोंका कथन	३८०
चार गतियोंमें कालका व्याख्यान	३२२	स्वामित्वके कहनेकी सूचना	३८१
एकेन्द्रियोंमें कालका व्याख्यान	३२६	उत्कृष्ट वृद्धि आदिका स्वामित्व	३८१
एक जीवकी अपेक्षा अन्तर	३२८	जघन्य वृद्धि आदिका स्वामित्व	३६७
चार गतियोंमें अन्तरका व्याख्यान	३४४	अल्पबहुत्वकथन	४१८
एकेन्द्रियोंमें अन्तरका व्याख्यान	३४६	उत्कृष्ट अल्पबहुत्व	४१८
नानार्जावांकी अपेक्षा भंगविचय	३५१	जघन्य अल्पबहुत्व	४२८
नानाजीवांकी अपेक्षा कालके जाननेकी सूचना	३५६		
भागभाग	३५६	वृद्धि	
परिमाण	३५८	तीन अनुयोगद्वार कहने की प्रतिज्ञा	४३०
क्षेत्र	३५६	समुत्कीर्तना	४३०
स्पर्शन	३५६	स्वामित्व और अल्पबहुत्व	४३७
काल	३६२	प्रदेशसंक्रमस्थान	
अन्तर	३६४	दो अनुयोगद्वारोंके कहनेकी प्रतिज्ञा	४३८
भाव	३७२	प्ररूपणा	४३६
		अल्पबहुत्व	





सिरि-जइवसहाइरियनिरइय-चुणिसुत्तसमणिणं
सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवइइं

क सा य पा हु ङं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका

जयधवला

तत्थ

वंधगो णाम छ्हो अत्थाहियारो

अणुभागभागमेत्तो वि जत्थ दोसस्स संभवो णत्थि ।
तं पणमिय जिणणाहं संकममणुभागगोयरं वोच्छं ॥ १ ॥

जिनमे अणुके जवन्य अविभागप्रतिच्छेदके वरावर भी दोष सम्भव नहीं है उन जिननाथको नमस्कार कर अनुभागसंक्रम नामक अधिकारका कथन करता हूँ ॥ १ ॥

❀ अणुभागसंकमो दुविहो—मूलपयडिअणुभागसंकमो च उत्तर-
पयडिअणुभागसंकमो च ।

§ १. एदस्स सुत्तस्स 'संकामेदि कदिं वा' ति गुणहरभडारयस्स मुहकमल विणि-
गयगाहासुत्तावयवपडिवद्विअणुभागसंकमविवरणे पयद्वेण जइवसहपुज्जपादेण पउत्तस्स
पसण्णगंभीरभावेणावड्ढिदस्स विवरणं कस्सामो । तं जहा—अणुभागो णाम कम्मणं सगकज्जु-
प्पायणसत्ती । तस्स संकमो सहावंतरसंकंती । सो अणुभागसंकमो ति बुच्चइ । सो वुण
दुविहो—मूलत्तरपयडिपडिवद्विअणुभागसंकमभेदेण, तइयस्स संकमपयारस्साणुवलंभादो ।
तत्थ मूलपयडीए मोहणीयसण्णिदाए जो अणुभागो जीवम्मि मोहुप्पायणसत्तिलक्खणो तस्स
ओकडुकडुणावसेण भावंतरावत्ती मूलपयडिअणुभागसंकमो णाम । उत्तरपयडीणं च
मिच्छत्तादीणमणुभागस्स ओकडुकडुण-परपयडिसंकमेहि जो सत्तिविपरिणामो सो उत्तरपयडि-
अणुभागसंकमो ति भण्णदे । एवं दुधाविहत्तो अणुभागसंकमो इदाणिमवसरपत्तो ति
विहासिज्जदि ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो ।

अनुभागसंक्रम दो प्रकारका है—मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम और उत्तरप्रकृति-
अनुभागसंक्रम ।

§ १. अब गुणधर भट्टारकके मुखकमलसे निकले हुए गाथासूत्रके 'संकामेदि कदिं वा'
इस अवयवसे सम्बन्ध रखनेवाले अनुभागसंक्रमके विवरणमें प्रवृत्त हुए पूज्यचरण आचार्य
यतिवृषभके द्वारा कहे गये और प्रसन्न गम्भीरभावसे अवस्थित हुए इस सूत्रका विवरण करते हैं ।
यथा—कर्मों की अपने कार्यको उत्पन्न करनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है । उसका संक्रम अर्थात्
अन्य स्वभावरूप संक्रान्त होना अनुभागसंक्रम है । वह मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम और उत्तरप्रकृति-
अनुभागसंक्रमके भेदसे दो प्रकारका है, क्योंकि संक्रमका तीसरा भेद नहीं उपलब्ध होता । उनमेंसे
मोहनीय संज्ञावाली मूल प्रकृतिका जीवमें मोहोत्पादक शक्तिरूप जो अनुभाग है उसका अपकर्षण
और उत्कर्षणके कारण अन्य अनुभागरूप परिणम जाना मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम कहलाता है ।
तथा मिथ्यात्व आदि उत्तर प्रकृतियोंके अनुभागका अकर्षण, उत्कर्षण और परप्रकृतिसंक्रमके
द्वारा अन्य अनुभागरूप परिणमन होना उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रम कहलाता है । इस प्रकार दो
भागोंमें विभक्त हुआ अनुभागसंक्रम इस समय विशेष व्याख्याके लिए अवसरप्राप्त है यह इस
सूत्रका भावार्थ है ।

विशेषार्थ—अनुभागसंक्रमका अर्थ स्पष्ट है । यहाँ पर जिस वातका स्पष्टीकरण करना है
वह यह है कि मूल प्रकृतियोंमें परस्पर संक्रम नहीं होता, इसलिए यहाँ पर मूलप्रकृतिअनुभाग-
संक्रमके लक्षण कथनके प्रसङ्गसे वह अपकर्षण और उत्कर्षण इनके आश्रयसे होता है यह कहा
है । किन्तु उत्तर प्रकृतियोंमें अपनी जातिके भीतर परस्पर संक्रम होनेमें कोई बाधा नहीं है,
इसलिए उसके लक्षण कथनके प्रसङ्गसे वह अपकर्षण, उत्कर्षण और परप्रकृतिसंक्रम इन तीनोंके
आश्रयसे होता है यह कहा है ।

§ २. संग्रहि अणुभागसंक्रमस्वरूपजाणावणमद्वयपदं बुच्चदे, तेण विणा परूवणाए कीरमाणाए सिस्साणं पडिवत्तिगउरवप्पसंगादो ।

❧ तत्थ अट्टपदं ।

§ ३. तत्थाणंतरणिदिट्ठे मूलुत्तरपयडिसंघंधमेयमिण्णे अणुभागसंक्रमे विहासणिज्जे पुब्बं गमणीयमद्वयपदं, अण्णहा भावविस्सयमिण्णयाणुप्यत्तीदो ति भण्णिदं होइ ।

❧ अणुभागो ओकड्ठिदो वि संक्रमो, उक्कड्ठिदो वि संक्रमो, अण्णपयडिणीदो वि संक्रमो ।

§ ४. एदाणि तिण्णि अट्टपदाणि^१, एदेहि तस्स सरूवपडिवत्ती । तं जहा—ओकड्ठिदो ताव अणुभागो संक्रमवत्तएसं लहदं, अहियरसस्स कम्मक्खंवस्स तत्थ हीणरसत्तेण विपरिणामदंसणादो । अवत्थादो अवत्थंतरसंक्रंती संक्रमो ति । एवमुक्कड्ठिदो अण्णपयडिणीदो वि संक्रमो, तत्थ वि पुच्चापत्थापरिच्चाएणुत्तरावत्थावत्तिदंसणादो । एत्थोक्कड्ठिदुक्कड्ठिणा-लक्खणमद्वयपदं मूलुत्तरपयडिणमणुभागसंक्रमस्स साहारगभावेण णिदिट्ठं, उहयत्थ वि तदुभयपवुत्तीए पडिसेहाभावादो । अण्णपयडिणीदो वि अणुभागो संक्रमो ति एदं तइज्जमद्वयपद-

§ २. अब अनुभागसंक्रमके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए अर्थपद कहते हैं, क्योंकि उसके विना प्ररूपणा करने पर शिष्योंको समझनेमें कठिनाई जा सकती है ।

* उसके विषयमें अर्थपद ।

§ ३. 'तत्र' अर्थात् पहले जो मूलप्रकृति और उत्तरप्रतिके भेदसे दो प्रकारका अनुभागसंक्रम कह आये हैं उसका विशेष व्याख्यान करते समय पहले अर्थपद जानने योग्य है, अन्यथा अनुभागसंक्रमविषयक निर्णय नहीं हो सकता यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है ।

* अपकर्षित हुआ अनुभाग भी संक्रम है, उत्कर्षित हुआ अनुभाग भी संक्रम है और अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है ।

§ ४. ये तीनों अर्थपद हैं, क्योंकि इनके द्वारा उस (अनुभागसंक्रम) के स्वरूपका ज्ञान होता है । यथा—अपकर्षणको प्राप्त हुआ अनुभाग संक्रम संज्ञाको प्राप्त होता है, क्योंकि अधिक रसवाले कर्मस्कन्धका अपकर्षण होने पर हीन रसरूपसे विशेष परिणामन देखा जाता है । एक अवस्थासे दूसरी अवस्थारूप संक्रान्त होना संक्रम है । यह अर्थ यहाँपर घटित हो जाता है, इसलिए इसे संक्रम कहा है । इसी प्रकार उत्कर्षणको प्राप्त हुआ और अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है, क्योंकि इन दोनों अवस्थाओंमें भी पूर्व अवस्थाके त्याग द्वारा उत्तर अवस्थाकी प्राप्ति देखी जाती है । यहाँ पर अपकर्षण—उत्कर्षणलक्षण अर्थपद मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम और उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रम इन दोनोंको विषय करता है, इसलिए इसका इन दोनोंके साधारण रूपसे निर्देश किया है, क्योंकि इसकी इन दोनोंमें प्रवृत्ति होनेमें कोई बाधा नहीं आती । किन्तु 'अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है' यह तीसरा अर्थपद उत्तरप्रकृति अनुभागसंक्रमको ही विषय करता है, क्योंकि मूलप्रकृतिमें उसकी प्राप्ति असम्भव है । इस प्रकार अपकर्षण

मुत्तरपयडिविसयं चैव, मूलपयडीए तदसंभवादो । एवमोक्कड्डणादिवसेणारुभागसंक्रमसंभवं^१
परुविय तत्थोक्कड्डणाविहाणपरुवणद्वमुवरिमो सुत्तपवंधो—

❀ ओक्कड्डणाए परुवणा ।

§ ५. ओक्कड्डकड्डणा-परपयडिसंकमलक्खणेसु तिसु संक्रमपयारेसु ओक्कड्डणाए ताव
पवुत्तिविसेसजाणावणद्वमेसा परुवणा कीरइ त्ति पइण्णावयणमेदं ।

❀ पढमफहयं ए ओक्कड्डिज्जदि ।

§ ६. कुदो ? तत्थाइच्छावणा-णिकखेवाणमदंसणादो ।

❀ विदियफहयं ए ओक्कड्डिज्जदि ।

§ ७. तत्थ वि अइच्छावणा-णिकखेवाभावस्स समाणत्तादो । ण केवलं पढम-विदिय-
फहयाणमेस कमो, किंतु अण्णेसिं अणंताणं फहयाणं जहण्णाइच्छावणामेत्ताणमेसो चैव कमो
त्ति जाणावणद्वमुत्तरसुत्तं—

❀ एवमणंताणि फहयाणि जहरिणया अइच्छावणा, तत्तियाणि
फहयाणि ए ओक्कड्डिज्जंति ।

§ ८. एवं तदिय-चउत्थ-पंचमादिकमेण गंतूणाणंताणि फहयाणि णोक्कड्डिज्जंति ।
केत्तियाणि च ताणि ? जेत्तिया जहण्णाइच्छावणा तेत्तियाणि । एत्तो उवरिमाणं वि

आदिके वशसे अनुभागसंक्रमकी प्राप्ति सम्भव है इसका कथन करके उनमेसे अपकर्षणका व्याख्यान
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ अपकर्षणकी प्ररूपणा ।

§ ५. अपकर्षण, उत्कर्षण और परप्रकृतिसंक्रमरूप संक्रमके तीन भेदोंमेसे अपकर्षणकी
प्रवृत्ति विशेषका ज्ञान करानेके लिए यह प्ररूपणा की जा रही है इस प्रकार यह प्रतिज्ञावचन है ।

❀ प्रथम स्पर्धक अपकर्षित नहीं होता ।

§ ६. क्योंकि वहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप नहीं देखे जाते ।

❀ द्वितीय स्पर्धक अपकर्षित नहीं होता ।

§ ७. क्योंकि वहाँ पर भी अतिस्थापना और निक्षेपका अभाव पहलेके समान पाया
जाता है। केवल प्रथम और द्वितीय स्पर्धकोंका ही यह क्रम नहीं है, किन्तु जघन्य अतिस्थापनारूप
अन्य अनन्त स्पर्धकोंका भी यही क्रम है इस प्रकार इस वातके जताने के लिए आगेका सूत्र
कहते हैं—

❀ इस प्रकार अनन्त स्पर्धक जो कि जघन्य अतिस्थापनारूप हैं उतने स्पर्धक
अपकर्षित नहीं होते ।

§ ८ इस प्रकार तीसरा, चौथा और पाँचवाँ आदिके क्रमसे जाकर स्थित हुए अनन्त
स्पर्धक अपकर्षित नहीं किये जा सकते ।

शंका—वे कितने हैं ?

१. ता० प्रती संक्रम [संक्रम] संभवं इति पाठ ।

अणंताणं फदयाणमोकड्डुणा ण संभवादि ति पदुप्पाएदुमिदमाह—

❧ अणणाणि अणंताणि फदयाणि जहणणणिकखेवमेत्ताणि च ण ओकड्डुज्जंति ।

§ ९. आदीदो प्पहुडि जहण्णाइच्छावणामेत्तफदयाणमुवरिमफदयं ताव ण ओकड्डुज्जदि, तत्ताइच्छावणसंभवं वि णिकखेवविसयादंसणादो । तत्तो अणंतरोवरिमफदयं पि ण ओकड्डुज्जदि । एवमणंताणि फदयाणि जहण्णाणिकखेवमेत्ताणि ण ओकड्डुज्जंति । किं कारणं ? णिकखेवविसयासंभवादो । एत्तो उवरि ओकड्डुणाए पडिसेहो णत्थि ति पदुप्पायणदुमिदमाह—

❧ जहणणओ णिकखेवो जहण्णिया अहच्छावणा च तेत्तियमेत्ताणि फदयाणि आदीदो अधिच्छिदुण तदित्थफदयमोकड्डुज्जइ ।

§ १०. अइच्छावणा-णिकखेवणामेत्य संपुण्णत्तदंसणादो । विवकिखयफदयादो हेट्ठा जहण्णाइच्छावणामेत्तमुल्लंछिय हेट्ठिमंसु फदएसु जहण्णाणिकखेवमेत्तेसु जहण्णफदय-पज्जसराणेसु तदित्थफदयोकड्डुणासंभवे ति भणिदं होइ । एत्तो उवरिमफदएसु ण कत्थ वि ओकड्डुणा पडिहम्मइ, जहण्णाइच्छावणं ध्रुवं काउण जहण्णाणिकखेवस्स फदयुत्तरकमेण

समाधान—जितनी जघन्य अतिस्थापना हैं उतने हैं ।

इनसे उपरिम अनन्त स्पर्धकोंका भी अपकर्षण सम्भव नहीं है इस बातका कथन करनेके लिए इस सूत्रको कहते हैं—

* जघन्य निक्षेपप्रमाण अन्य अनन्त स्पर्धक भी अपकर्षित नहीं होते ।

§ ९. प्रारम्भसे लेकर जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण स्पर्धकोंसे आगेका स्पर्धक अपकर्षित नहीं होता, क्योंकि उसकी अतिस्थापना सम्भव होने पर भी निक्षेपविषयक स्पर्धक नहीं देखे जाते । उससे अनन्तर उपरिम स्पर्धक भी अपकर्षित नहीं होता । इस प्रकार जघन्य निक्षेपप्रमाण अनन्त स्पर्धक अपकर्षित नहीं होते ।

शंका—इसका कारण क्या है ?

समाधान—क्योंकि निक्षेपविषयक स्पर्धकोंका अभाव है ।

अब इससे उपर अपकर्षणका निषेध नहीं है इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* प्रारम्भसे लेकर जघन्य निक्षेप और जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण जितने स्पर्धक हैं उतने स्पर्धकोंको उल्लंघनकर वहाँ जो स्पर्धक स्थित है वह अपकर्षित होता है ।

§ १०. क्योंकि यहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप पूरे देखे जाते हैं । विवक्षित स्पर्धकसे पूर्वके जघन्य अतिस्थापनामात्र स्पर्धकोंको उल्लंघनकर उनसे पूर्वके जघन्य स्पर्धक तकके जघन्य निक्षेपप्रमाण स्पर्धकोंमें वहाँपर स्थित स्पर्धकका अपकर्षण होना सम्भव है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इससे उपरिम स्पर्धकोंका कहीं भी अपकर्षण होना वाधित नहीं है, क्योंकि जघन्य अतिस्थापनाको ध्रुव करके जघन्य निक्षेपकी उत्तरोत्तर एक एक स्पर्धकके क्रमसे वृद्धि देखी जाती है

वड्ढिदंसणादो त्ति परूवेदुसुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ तेण परं सव्वाणि फद्दयाणि ओकड्ढिज्जंति ।

§ ११. तेण परं तत्तो उवरि सव्वाणि चैव फद्दयाणि उक्कस्सफद्दयपज्जंताणि ओकड्ढिज्जंति, तत्थ तप्पवृत्तीए पडिसेहाभावादो ।

§ १२. संपहि जहण्णणिक्खेवादिपदाणं पमाणविसयणिण्णयजणणडुमप्पावहुअं परूवेमाणो इदमाह—

❀ एत्थ अप्पावहुअं ।

§ १३. जहण्णुकस्साइच्छावणा-णिक्खेवादीणमोक्कड्ढुगासंवंधीणमण्णेसिं च तदुव-जोगीणं पदविसेसाणमेत्थुद्देसे थोववहुत्तं वत्तइस्सामो त्ति पातणिकासुत्तमेदं ।

इस प्रकार इस वातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* उससे आगे सब स्पर्धक अपकर्षित हो सकते हैं ।

§ ११. 'तेण परं' अर्थात् उस विवक्षित स्पर्धकसे आगेके उत्कृष्ट स्पर्धक तकके सभी स्पर्धक अपकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अपकर्षणरूपसे प्रवृत्ति होनेमें कोई निषेध नहीं है ।

विशेषार्थ—अनुभागकी दृष्टिसे अपकर्षणका क्या क्रम है इसका विचार यहाँ पर किया गया है । इस सम्बन्धमें यहाँ पर जो निर्देश किया है उसका भाव यह है कि प्रथम जवन्य स्पर्धकसे लेकर अनन्त स्पर्धक तो जवन्य निक्षेपरूप होते हैं अतएव उनका अपकर्षण नहीं होता । उसके आगे अनन्त स्पर्धक अतिस्थापनारूप होते हैं, अतएव उनका भी अपकर्षण नहीं होता । उसके आगे उत्कृष्ट स्पर्धकपर्यन्त जितने स्पर्धक होते हैं उन सबका अपकर्षण हो सकता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि अतिस्थापनाके ऊपर प्रथम स्पर्धकका अपकर्षण होकर उसका निक्षेप अतिस्थापनाके नीचे जिन स्पर्धकोंमें होता है उनका परिमाण अल्प होता है, अतएव उनकी जवन्य निक्षेप संज्ञा है । उसके आगे निक्षेप एक-एक स्पर्धक बढ़ने लगता है । परन्तु अतिस्थापना पूर्ववन् वनी रहती है । किन्तु जिस स्पर्धकका अपकर्षण विवक्षित हो उसके पूर्व अनन्त स्पर्धक अतिस्थापनारूप होते हैं और अतिस्थापनासे नीचे सब स्पर्धक निक्षेपरूप होते हैं । उदाहरणार्थ एक कर्ममें कुल स्पर्धक १६ हैं । उनमेंसे यदि प्रारम्भके ४ स्पर्धक जवन्य निक्षेप हैं और ५ से लेकर १० तक छह स्पर्धक अतिस्थापनारूप हैं तो ११ वें स्पर्धकका अपकर्षण होकर उसका निक्षेप १ से ४ तक के चार स्पर्धकोंमें होगा । १२ वें स्पर्धकका अपकर्षण होकर उसका निक्षेप १ से ५ तकके ५ स्पर्धकोंमें होगा । १३ वें स्पर्धकका अपकर्षण होकर उसका निक्षेप १ से ६ तकके ६ स्पर्धकोंमें होगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक स्पर्धकके प्रति निक्षेप भी एक-एक बढ़ता हुआ १६ वें स्पर्धकका अपकर्षण होकर उसका निक्षेप १ से लेकर ६ तकके ६ स्पर्धकोंमें होगा । स्पष्ट है कि अतिस्थापना सर्वत्र परिमाणमें तदवस्थ रहती है, किन्तु निक्षेप उत्तरोत्तर वृद्धिगंत होता जाता है । यह अंकसंदृष्टि है । इसी प्रकार अर्थसंदृष्टि समझ लेनी चाहिए ।

§ १२. अब जवन्य निक्षेप आदि पदोंके प्रमाणविषयक निर्णयको उत्पन्न करनेके लिए अल्पवहुत्वका कथन करते हुए इस सूत्रको कहते हैं—

* यहाँ पर अल्पवहुत्व ।

§ १३. प्रकृतमें अपकर्षणसम्बन्धी जवन्य और उत्कृष्ट अतिस्थापना तथा निक्षेप आदिके तथा उसमें उपयोगी पढ़नेवाले पदविशेषोंके अल्पवहुत्वको वतलाते हैं इस प्रकार यह पातनिकासूत्र है ।

❀ सव्वत्थोवाणि पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरफद्दयाणि ।

§ १४. पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरं णाम किं ? जम्मि उद्देसे पढमफद्दयादिवग्गणा अवट्ठिद्विसेसहाणीए गच्छमाणा दुगुणहीणा जायदे तदवहिपरिच्छिण्णमद्धानं गुणहाणिट्ठाणंतरमिदि भण्णदे । एदम्मि पदेसगुणहाणिट्ठाणंतरे अणंताणि फद्दयाणि अभवसिद्धिएहितो अणंतगुणमेत्ताणि भन्थि ताणि सव्वत्थोवाणि ति भणिदं होइ ।

❀ जहरणओ णिकखेवो अणंतगुणो ।

§ १५. कुदो ? तन्थाणंताणमणुभागपदेसगुणहाणीणं संभवादो । कथमेदं परिच्छिण्णं ? एदम्हादो चेव सुत्तादो ।

❀ जहरिणया अइच्छावणा अणंतगुणा ।

§ १६. तत्तो वि अणंतगुणाणि गुणहाणिट्ठाणंतराणि विसईकरिय पयट्ठत्तादो ।

❀ उक्कस्सयमणुभागकंडयमणंतगुण ।

§ १७. कुदो ? उक्कस्साणुभागसंतकम्मस्स अणंतताणं भागाणं उक्कस्साणुभागखंडय सरुवेण गहणोवलंभादो ।

❀ उक्कस्सिया अइच्छावणा एगाए वग्गणाए जणिया ।

* प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर सबसे स्तोक हैं ।

§ १४. शंका-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर किसे कहते हैं !

समाधान-जिस स्थान पर प्रथम स्पर्धककी प्रथम वर्गणा अवस्थित विशेष हानिरूपसे जाती हुई दुगुणी हीन हो जाती है उस अवधि तकके अध्यानको गुणहानिस्थानान्तर कहते हैं । इस प्रदेशगुणहानिस्थानान्तरमें अभव्योंसे अनन्तगुणे अनन्त स्पर्धक होते हैं । वे सबसे स्तोक हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* उनसे जघन्य निक्षेप अनन्तगुणा है ।

§ १५. क्योंकि जघन्य निक्षेपमें अनन्त अनुभागप्रदेशगुणहानिया सम्भव हैं ।

शंका-यह कैसे जाना ?

समाधान-इसी सूत्रसे जाना ।

* उससे जघन्य अतिस्थापना अनन्तगुणी है ।

§ १६. क्योंकि जघन्य निक्षेपमें जितने गुणहानिस्थानान्तर उपलब्ध होते हैं उनसे भी अनन्तगुणे गुणहानिस्थानान्तरोंको विषयंकर इसकी प्रवृत्ति हुई है ।

* उससे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक अनन्तगुणा है ।

§ १७. क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागोंका उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकरूपसे ग्रहण किया गया है ।

* उससे उत्कृष्ट अतिस्थापना एक वर्गणाप्रमाण न्यून है ।

§ १८. चरिमवग्गणपरिहीणुक्कस्साणुभागकंडयपमाणत्तादो । तं कथं ? उक्कस्साणु-
भागखंडए आगाइदे दुचरिमादिहेट्टिमफालीसु अंतोमुहुत्तमेत्तीसु सच्चत्थ जहण्णाइच्छावणा
चेव पुच्चुत्तपरिमाणा होइ, तकाले वाघादाभावादो । पुणो चरिमफालिपदणसमकाल
चरिमफदयचरिमवग्गणाए उक्कस्साइच्छावणा होइ, गिरुद्धचरिमवग्गणं मोत्तणाणुभाग-
कंडयस्सेव सच्चस्स तत्थाइच्छावणासरूवेण परिणामदंसणादो । एदेण कारणेण उक्कस्साइ-
च्छावणा उक्कस्साणुभागखंडयादो एगवग्गणोमेत्तेण ऊणिया होइ । तं पि तत्तो एयवग्गणामेत्तेण-
व्वहियमिदि सिद्धं ।

❀ उक्कस्सणिकखेवो विसेसाहिओ ।

§ १९. उक्कस्साणुभागं वंधियूणावलियादीदस्स चरिमफदयचरिमवग्गणाए
ओकड्डिजमाणए रूवाहियजहण्णाइच्छावणापरिहीणो सच्चो चेवाणुभागपत्थारो उक्कस्स-
णिकखेवसरूवेण लब्भइ । तदो घादिदावसेसम्मि रूवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्तं सोहिय
सुद्धसेसमेत्तेण उक्कस्साणुभागकंडयादो उक्कस्सणिकखेवो विसेसाहिओ ति घेत्तव्वो ।

§ १८. क्योंकि उत्कृष्ट अतिस्थापना अन्तिम वर्गणासे न्यून उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकप्रमाण
होती है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकके पतनके समय अन्तर्मुहूर्तप्रमाण द्विचरम आदि अधस्तन
फालियोंमें सर्वत्र पूर्वोक्तप्रमाण जघन्य अतिस्थापना ही होती है, क्योंकि उस समय व्याघातका
अभाव है । परन्तु अन्तिम फालिके पतनके समय अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाकी उत्कृष्ट
अतिस्थापना होती है, क्योंकि उस समय विवक्षित अन्तिम वर्गणाको छोड़कर शेष समस्त अनुभाग-
काण्डकका ही वहाँ पर अतिस्थापनारूपसे परिणामन देखा जाता है । इस कारणसे उत्कृष्ट
अतिस्थापना उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे एक वर्गणामात्र हीन होती है और वह अनुभागकाण्डक भी
उस उत्कृष्ट अतिस्थापनासे एक वर्गणामात्र अधिक होता है यह सिद्ध हुआ ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट अनुभागकाण्डककी अन्तिम फालिके पतनके समय
अन्तिम वर्गणाकी ही होती है । चूंकि उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकमें यह अन्तिम फालिकी अन्तिम
वर्गणा भी सम्मिलित है, अतः यहाँ पर उत्कृष्ट अतिस्थापनाको उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकमें से
अन्तिम वर्गणाको कम कर देने पर जो शेष रहे तत्प्रमाण वतलाया है । कारण यह है कि जब
अन्तिम फालिका पतन होता है तब उसका निक्षेप उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकको छोड़ कर ही
होता है, अन्यथा उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता, इसलिए सूत्रमें उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक
जितना बड़ा होता है उसमेंसे विवक्षित अन्तिम वर्गणाको कम कर देने पर जो शेष रहे उतना
उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण होता है यह कहा है ।

* उससे उत्कृष्ट निक्षेप विशेष अधिक है ।

§ १९ उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करके एक आवलिके वाद अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम
वर्गणाका अपकर्षण होने पर एक अधिक जघन्य अतिस्थापनासे हीन सबका सब अनुभाग
प्रस्तार उत्कृष्ट निक्षेपरूपसे उपलब्ध होता है, इसलिए जितने बड़े अनुभागकाण्डकका घात
क्रिया है उसके सिवा जो शेष है उसमेंसे रूपाधिक जघन्य अतिस्थापनामात्र अनुभागको घटा
कर जो शेष रहे उतना उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे उत्कृष्ट निक्षेप अधिक होता है ऐसा यहाँ पर
ग्रहण करना चाहिए ।

❀ उक्कड्डुणा वंधो विसेसाहिओ ।

§ २०. केत्तियमेत्तेण ? रूवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्तेण । एवमोक्कड्डुणासंकमस्स अत्थपरूवणा गया ।

❀ उक्कड्डुणाए परूवणा ।

§ २१. एत्तो उक्कड्डुणाए अचरिमफदयं अहिकीरदि त्ति भणिदं होइ ।

❀ चरिमफदयं ए उक्कड्डुज्जदि ।

§ २२. कुदो ? उवरि अइच्छावणा-णिक्खेवाणमसंभवादो ।

* दुचरिमफदयं पि ए उक्कड्डुज्जदि ।

§ २३. एत्थ कारणमइच्छावणा-णिक्खेवाणमसंभवो चैत्र वत्तव्वो ।

* एवमणंताणि फदयाणि ओसक्खिज्जण तं फदयमुक्कड्डुज्जदि ।

विशेषार्थ—एक ऐसा जीव है जिसने उत्कृष्ट अनुभागबन्ध किया है उसके बाद एक आवलि कालके जाने पर यदि वह अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम वर्गणाका अपकर्षण करता है तो उस समय उस अपकर्षित अनुभागका जवन्य अतिस्थापनाको छोड़कर जेव सब अनुभागमे निक्षेप होगा। यहाँ पर एक तो अतिस्थापनामात्र अनुभागमे इसका निक्षेप नहीं हुआ। दूसरे स्पर्धका अपकर्षण किया है इसलिए एक इसमें भी इसका निक्षेप नहीं हुआ। इस प्रकार रूपाधिक अतिस्थापनामात्र अनुभागको छोड़ कर शेष मव अनुभाग उत्कृष्ट निक्षेपका विषय है। अब इसकी यदि उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे तुलना करते हैं तो वह उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे विशेष अधिक ही प्राप्त होता है। कितना विशेष अधिक होता है इसका निर्देश टीकाकारने स्वयं किया है। उसका आशय यह है कि पूरे अनुभागमेसे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकको और रूपाधिक जवन्य अतिस्थापनामात्र अनुभागको कम कर दो। इस प्रकार कम करनेसे जो शेष रहे वह अधिकका प्रमाण है। उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे उत्कृष्ट निक्षेप इतना बड़ा होता है।

* उससे उत्कृष्ट बन्ध विशेष अधिक है ।

§ २०. कितना अधिक है ? रूपाधिक जवन्य अतिस्थापनामात्र अधिक है ।

इस प्रकार अपकर्षणसंक्रमकी अर्थप्ररूपणा समाप्त हुई ।

* उत्कर्षणकी प्ररूपणा ।

§ २१. आगे उत्कर्षणकी अपेक्षा अचरम स्पर्धकका अधिकार है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* अन्तिम स्पर्धकका उत्कर्षण नहीं होता ।

§ २२. क्योंकि अन्तिम स्पर्धकके ऊपर अतिस्थापना और निक्षेपकी प्राप्ति सम्भव नहीं है ।

* द्विचरण स्पर्धकका भी उत्कर्षण नहीं होता ।

§ २३. यहाँ पर भी अतिस्थापना और निक्षेपकी प्राप्ति सम्भव नहीं है यही कारण कहना चाहिए ।

* इस प्रकार अनन्त स्पर्धक नीचे आकर जो स्पर्धक स्थित है उसका उत्कर्षण हो सकता है ।

§ २४. एवं तिचरिम-चदुचरिमादिकमेणांताणि फदयाणि जहण्णाइच्छावणा-णिकखेव-
मेत्ताणि हेड्डो ओसरिदूण तदित्थफदयमुक्कड्डिज्जदि, तत्थाइच्छावणा-णिकखेवाणं पडिवुण्णत्त-
दंसणादो । एत्तो हेड्डिमफदयाणं जहण्णफदयपजंताणमुक्कड्डणाए णत्थि पडिसेहो । एत्थ
जहण्णाइच्छावणा-णिकखेवादिपदाणं पमाणविसयणिण्णयजणणड्डमप्यावहुअसुत्तमाह—

❀ सच्चत्थोवो जहरण्णओ णिकखेवो ।

§ २५. किंमाणो एस जहण्णाणिकखेवो ? एयपदेसगुणहाणिट्ठाणंतरफदएहितो
अणंतगुणमेत्तो ।

❀ जहरिणया अइच्छावणा अणंतगुणा ।

§ २६. ओक्कड्डणा-जहण्णाइच्छावणाए समाणपरिमाणत्तादो ।

❀ उक्कस्सओ णिकखेवो अणंतगुणो ।

§ २७. मिच्छाइड्डिणा उक्कस्साणुभागे वज्झमाणे जहण्णफदयादिवग्गणुकड्डणाए
रूवाहियजहण्णाइच्छावणापरिहीणुकस्साणुभागबंधमेत्तुकस्सणिकखेवदंसणादो । एसो च
ओक्कड्डु कड्डणासु समाणपरिमाणो ।

❀ उक्कस्सओ बंधो विसेसाहिओ ।

§ २८. केत्तियमेत्तेण ? रूवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्तेण ।

§ २४. इस प्रकार त्रिचरम और चतुश्चरम आदिके क्रमसे जघन्य अतिस्थापना और जघन्य
निक्षेपप्रमाण अनन्त स्पर्धक नीचे सरककर वहाँ पर स्थित स्पर्धकका उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि
वहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनों पूरे देखे जाते हैं। इससे लेकर जघन्य स्पर्धक पर्यन्त
नीचेके सब स्पर्धकोंका उत्कर्षण होनेमें प्रतिषेध नहीं है। अब यहाँ पर जघन्य अतिस्थापना और
जघन्य निक्षेप आदि पदोंके प्रमाणविषयक निर्णयको उत्पन्न करनेके लिए अल्पबहुत्व सूत्र कहते हैं—

* जघन्य निक्षेप सबसे स्तोत्र है ।

§ २५ शंका—इस जघन्य निक्षेपका क्या प्रमाण है ?

समाधान—एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरसे उसका प्रमाण अनन्तगुणा है ।

* उससे जघन्य अतिस्थापना अनन्तगुणी है ।

§ २६. क्योंकि यह अपकर्षण विषयक जघन्य अतिस्थापनाके बराबर है ।

* उससे उत्कृष्ट निक्षेप अनन्तगुणा है ।

§ २७. क्योंकि यह मिथ्यादृष्टिके द्वारा उत्कृष्ट अनुभागबन्ध करनेके बाद जघन्य स्पर्धककी
प्रथम वर्गणाका उत्कर्षण करने पर रूपाधिक जघन्य अतिस्थापनासे हीन उत्कृष्ट अनुभागबन्धप्रमाण
उत्कृष्ट निक्षेप देखा जाता है। अपकर्षण और उत्कर्षण दोनों स्थलों पर इस निक्षेपका परिमाण
बराबर है ।

* उससे उत्कृष्ट बन्ध विशेष अधिक है ।

§ २८. कितना अधिक है ? रूपाधिक जघन्य अतिस्थापनाका जितना प्रमाण है उतना
अधिक है ।

❀ ओकड्डणादो उक्कड्डणादो च जहणिया अइच्छावणा तुह्णा ।
जहणयो णिक्खेवो तुह्णो ।

§ २६. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । एवमुक्कड्डणाए अत्यपदप्ररूपणा समत्ता ।
परपयडिसंक्रमे अइच्छावणा-णिकखेत्रविसेसाभावादो तच्चिसयपररूपणा कया । एवमणुभाग-
संक्रमस्स मूलुत्तरपयडिसंक्रमित्तेण दुविहाविहत्तस्स पररूपणावीजमद्वुपदं काऊण जहा
उदेसो तहा गिदेसो त्ति णायादो मूलपयडिअणुभागसंक्रमो चेव पढमं विहासियव्वो त्ति
तप्पररूपणाणिवंधणमुत्तरं सुत्तपबंधमाह—

❀ एदेण अद्वुपदेण मूलपयडिअणुभागसंक्रमो ।

§ ३० एदेणाणंतरपररूपद्विदेणद्वुपदेण मूलपयडिअणुभागसंक्रमो ताव विहासणिज्जो ।
तत्थ च तेवीसमणिओगद्वाराणि णादव्याणि त्ति उवरिममुत्तमाह—

❀ तत्थ च तेवीसमणिओगद्वाराणि लण्णा जाव अप्पावहुए त्ति २३ ।

§ ३१. एत्थ मूलपयडिविवक्खाए सण्णियाससंभवाभावादो । सण्णादीणि तेवीस-
मणिओगद्वाराणि वुत्ताणि । किंमदाणि चेव तेवीसमणिओगद्वाराणि मूलपयडिअणुभागसंक्रमे
पडिवद्दाणि, उदाहो अण्णो वि पररूपणाभेदो तच्चिसयो अत्थि त्ति आसंक्राए इदमाह—

❀ भुजगारो पदणिक्खेवो वड्ढि त्ति भाणिदव्वो ।

* अपकर्षण और उत्कर्षण दोनोंकी अपेक्षा जघन्य अतिस्थापना तुल्य है और
जघन्य निक्षेप भी तुल्य है ।

§ २६. ये दोनों सूत्र सुगम हैं । इस प्रकार उत्कर्षणकी अपेक्षा अर्थपदप्ररूपणा समाप्त हुई ।
परप्रकृतिसंक्रममे अतिस्थापना और निक्षेपविशेषका अभाव होनेसे उसके विषयकी प्ररूपणा की है ।
इस प्रकार मूलप्रकृति और उत्तरप्रकृतिके सम्बन्धसे दो भेदरूप अनुभागसंक्रमकी प्ररूपणाके बीजरूप
अर्थपदको करके उद्देशके अनुसार निर्देश होता है इस न्यायका अनुसरण कर सर्व प्रथम मूलप्रकृति-
अनुभागसंक्रमका ही विशेष व्याख्यान करना चाहिए, इसलिए उसकी प्ररूपणाके कारणरूप उत्तर
सूत्रको कहते हैं—

* इस अर्थपदके अनुसार मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम कहना चाहिये ।

§ ३०. इस अर्थात् पहले कहे गये अर्थपदके अनुसार मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रमका सर्व प्रथम
व्याख्यान करना चाहिए । उसके विषयमे तेईस अनुयोगद्वार जातव्य हैं यह बतलानेके लिए आगेका
सूत्र कहते हैं—

* उसके विषयमें संज्ञासे लेकर अल्पबहुत्व तक तेईस अनुयोगद्वार होते हैं ।

§ ३१. क्योंकि यहाँ पर मूलप्रकृतिकी विवक्षा होनेसे सन्निकर्ष सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ पर
चौबीस अनुयोगद्वार न होकर तेईस अनुयोगद्वार ही होते हैं । संज्ञा आदिक तेईस अनुयोगद्वार पहले
कह आये हैं । क्या मात्र ये तेईस अनुयोगद्वार ही मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रमसे सम्बन्ध रखते हैं या
अन्य भी तद्विषयक प्ररूपणाभेद है ऐसी आशंका होने पर यह सूत्र कहा है ।

* तथा भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धि ये तीन अनुयोगद्वार भी कहने चाहिए ।

§ ३२. पुत्रसुत्तुद्धितेत्रीसमणिओगदाराणं चूलियाभूदेहि एदेहि तीहि अणियोगभेदेहि मूलपयडिअणुभागसंक्रमो अवगंतव्वो, अण्णहा तच्चिसयविसेसणिण्णयाणुप्पत्तीदो ति भणिदं होदि ।

§ ३३. संपहि एदेसिं तेत्रीसमणिओगदाराणं सचूलियाणं सुगमत्तादो चुणिसुत्तयारेण णामुद्देसमेत्तेणेव परूविदाणमुच्चारणाइरियपरूविदविवरणमणुवत्तइस्सामो । तं जहा—मूल-पयडिअणुभागसंक्रमे तत्थ इमाणि २३ तेत्रीस अणियोगदाराणि—सण्णा जाव अप्पावहुए ति भुज० पदणिकखेरो वही चेदि । तत्थ सण्णा दुविहा—घादिसण्णा ठाणसण्णा च । तदुभय-परूवणाए अणुभागिहितिभंगो । सव्वसंक्रमो णोसव्वसंक्रमो उक्कस्ससंक्रमो अणुक्कस्ससंक्रमो जहण्णसंक्रमो अजहण्णसंक्रमो इच्चेदेसिं च परूवणाए विहितिभंगो चैव, विसेसाभावादो ।

§ ३४. सादि-अणादि-ध्रुव-अद्धुवाणुगमेण दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उक्क० अणुक्क० जह० अणुभागसंक्रमो किं सादि० ४ ? सादी अद्धुवो । अज० किं सादी० ४ ? सादी अगादी ध्रुवो अद्धुवो वा । सेसासु मग्गणासु उक्क० अणुक्क० जह० अजह० सादी अद्धुवो च ।

§ ३२. पूर्वमे निर्दिष्ट किये गये तेईस अनुयोगद्वारोंके चूलिकारूप इन तीन अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रमको जानना चाहिए, अन्यथा तद्विषयक विशेष निर्णय नहीं बन सकता यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ३३. अब सुगम होनेसे चूर्णिसूत्रकारके द्वारा केवल नामोल्लेखरूपसे कहे गये चूलिकासहित इन तेईस अनुयोगद्वारोंके उच्चारणाचार्यद्वारा कहे गये विवरणको बतलाते हैं । यथा—मूलप्रकृति-अनुभागसंक्रममे संज्ञासे लेकर अल्पबहुत्वतक ये तेईस अनुयोगद्वार होते हैं । तथा भुजगार, पद-निक्षेप और वृद्धि ये तीन अनुयोगद्वार और होते हैं । उनमे संज्ञा दो प्रकारकी है—घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा । इन दोनोंका कथन अनुभागविभक्तिके समान है । तथा सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्यसंक्रम और अजघन्यसंक्रम इनका कथन भी अनुभाग-विभक्तिके समान ही है, क्योंकि वहाँसे यहाँ कोई विशेषता नहीं है ।

§ ३४. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभाग संक्रम क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है ? सादि और अध्रुव है । अजघन्य अनुभागसंक्रम क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है ? सादि, ध्रुव और अध्रुव है । शेष गतिसन्वन्धी मार्गणाओमे उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य, अनुभागसंक्रम सादि और अध्रुव है ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम और अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम कादाचित्क हैं । तथा जघन्य अनुभागसंक्रम क्षणिके णिमे यथास्थान होता है अन्यत्र नहीं, इसलिए ये तीनों अनुभाग-संक्रम सादि और अध्रुव कहे हैं । अब रहा अजघन्य अनुभागसंक्रम सो यह क्षणिकसम्यग्दृष्टिके उपशान्तमोह गुणस्थानमे नहीं होता । किन्तु वहाँसे किरने पर पुनः होने लगता है, इसलिए तो सादि है और उस स्थानको प्राप्त होनेके पूर्वतक अनादि है । तथा भव्योंकी अपेक्षा अध्रुव और अभव्योंकी अपेक्षा ध्रुव है । इस प्रकार अजघन्य अनुभागसंक्रम चारों प्रकारका है । यह ओघप्ररूपणा

§ ३५ सामित्तं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिदेसो—ओधेण आदेसेण य । ओधेण मोह० उक्क० अणुभागसंक्रमो कस्स ? अण्णदरस्स उक्कस्साणुभागं वंधिदूणावलियादीदस्स अण्णदरगदीए वट्टमाणयस्स । आदेसेण गोरइय० मोह० उक्क० अणुभागसंक्रमो कस्स ? अण्णदरस्स उक्कस्साणुभागं वंधियूणावलियादीदस्स । एवं सव्वगोरइय०—सव्वतिरिक्ख०—सव्वमणुस०—सव्वदेवा त्ति । णवरि पंचि०तिरि०अपज्ज०—मणुसअपज्ज०—आणदादि सव्वट्ठा त्ति विहत्तिभंगो । एवं जाव० ।

§ ३६. जहण्णए पयदं । दुविहो णिदेसो—ओधेण आदेसेण य । ओधेण मोह० जह० अणुभागसंक्रमो कस्स ? अण्णदरस्स खवयस्स समयाहियावलियचरिमसमयसकसायस्स । एवं मणुसतिए । सेसमग्गणसु विहत्तिभंगो ।

है। आदेशसे गतिसम्बन्धी सब मार्गणाओंमें उत्कृष्ट आदि चारों भंग सादि और अध्रुव होते हैं, क्योंकि सब मार्गणाएँ कदाचित्क हैं, अन्य मार्गणाओंकी अपेक्षा यदि विचार करें तो मात्र अचक्षुदर्शनमार्गणामें ओवके समान भङ्ग जानना चाहिए तथा भव्यमार्गणामें ध्रुव भङ्ग नहीं होता। कारण स्पष्ट है।

§ ३५. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओव और आदेश। ओवसे मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके जिसका एक आवलि काल गया है ऐसा अन्यतर गतिमें विद्यमान जीव उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी है। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके जिसका एक आवलि काल गया है ऐसा अन्यतर नारकी जीव मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सब मनुष्य और सब देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अनुभाग विभक्तिके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेके वाद एक आवलि काल व्यतीत होने पर ही उसका संक्रम सम्भव है, इसलिए यहाँ पर बन्धावलिके वाद ही मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमका स्वामित्व दिया है। ओवसे तो यह बन्ध ही जाता है। किन्तु, चारों गतियोंके अवान्तर भेदोंमें जहाँ जहाँ उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव है उन मार्गणाओंमें भी यह बन्ध जाता है। मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनतादि कल्पोंके देवोंमें यह उत्कृष्ट अनुभागबन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें उसे अनुभागविभक्तिके उत्कृष्ट स्वामित्वके समान जाननेकी सूचना की है।

§ ३६. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओव और आदेश। ओवसे मोहनीयके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है? जिसके सकपाय अवस्थामें एक समय अधिक आवलि काल शेष है ऐसा अन्तिम समयमें विद्यमान अन्यतर क्षपक जीव मोहनीयके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। शेष मार्गणाओंमें अनुभाग विभक्तिके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—मोहनीयका जघन्य अनुभागसंक्रम क्षपक सूक्ष्मसाम्परायके कालमें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने पर होता है, क्योंकि संक्रमके योग्य सबसे जघन्य अनुभाग यहाँ

§ ३७. कालो दुविहो—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिदेसो, ओघेण आदेसेण य । मोह० उक्क० अणु० अणुभागसंक्रमो विहत्तिभंगो ।

§ ३८. जहण्णए पयदं । दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० जह० अणुभागसंक्रम० केव० ? जह० उक्क० एयसमओ । अज० तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो, जह० अंतोसु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि । मणुसतिए जह० अणुभागसंक्रम० जह० उक्क० एयसमओ । अज० अणुभागसंक्रम० जह० एयसमओ, उक्क० सगड्ढिदी । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

पर पाया जाता है। यह अवस्था ओघसे तो सम्भव है ही, मनुष्यत्रिकमे भी सम्भव है, क्योंकि मनुष्यत्रिक ही क्षपकश्रेणि पर आरोहण करते हैं, इसलिए मनुष्यत्रिकमे तो ओघप्ररूपणाके समान ही स्वामित्वके जाननेकी सूचना की है। मात्र अन्य गतियोंमे यह व्यवस्था नहीं बन सकती, इसलिए उनमे अनुभागविभक्तिके जघन्य स्वामित्वके समान जाननेकी सूचना की है।

§ ३७. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टसंक्रमका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके जघन्य और उत्कृष्ट कालका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है ।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होकर एक आवलिके वाद अनुभागकाण्डकघात द्वारा उसका अन्तर्मुहूर्तमें संक्रम हो सकता है, इसलिए ओघसे इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । तथा उत्कृष्टके वाद अनुत्कृष्ट होने पर वह कमसे कम अन्तर्मुहूर्त तक और अधिकसे अधिक ऐसे जीवके एकेन्द्रिय पर्यायमे चले जाने पर अनन्तकाल तक रहता है, इसलिए ओघसे मोहनीयके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अनन्तकालप्रमाण कहा है । सामान्य तिर्यञ्चोमें यह काल इसी प्रकार बन जाता है । मात्र इनमे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है, क्योंकि जो अन्य गतिका जीव जीवनके अन्तमे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम कर रहा है उसके उस संक्रममें एक समय काल शेष रहनेपर यदि वह मर कर तिर्यञ्चोमें उत्पन्न हो जाता है तो सामान्य तिर्यञ्चोमें उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय बन जाता है । तथा जो तिर्यञ्च जीवनेके अन्तमें एक समय शेष रहने पर अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करता है उसके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय बन जाता है । इसी प्रकार अन्य गतियोंमे भी अनुभागविभक्तिके अनुसार काल घटित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर उक्त सब मार्गणाओमें उत्कृष्ट कालको अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ३८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके जघन्य अनुभागसंक्रमका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागसंक्रमके तीन भङ्ग हैं । उनमे जो सादि-सान्त भङ्ग है उसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेत्तीस सागर है । मनुष्यत्रिकमें जघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है । शेष मार्गणाओमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—ओघसे मोहनीयका जघन्य अनुभागसंक्रम दसवें गुणास्थानमे क्षपकके एक समयके लिए होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है । तथा जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि प्रथम बार उपशमश्रेणिसे उतर कर अन्तर्मुहूर्तमे पुन उपशमश्रेणि पर आरोहण कर उपशान्तमोह गुणस्थानको प्राप्त होता है उसके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और जो क्षायिक सम्यग्दृष्टि यह विधि साधिक तेत्तीस सागरके अन्तरसे करता है उसके अजघन्य

§ ३६ अंतरं दुविहं—जह० उक्० । उक्से पयदं । दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० उक्० अणुभागसंक्रमंतरं जह० अंतोमुहुत्तं, उक्० अणंतकाल-मसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । अणु० जह० एयसमओ, उक्० अंतोमु० । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ४० जहण्णए पयदं । दुविहो णिद्देसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयसमओ, उक्० अंतोमुहुत्तं । मणुसतिए मोह० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० उक्० अंतोमुहुत्तं । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर प्रमाण प्राप्त होनेसे यह दोनों प्रकारका काल उक्तप्रमाण कहा है । मनुष्यत्रिकमे अजघन्य अनुभागसंक्रमके उत्कृष्ट कालको छोड़कर शेष सब काल ओघके समान ही घटित कर लेना चाहिए । मात्र अजघन्य अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे उपशमश्रेणिएर आरोहण करानेसे कुछ कम अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है । शेष गतिमार्गणाओंमे काल अनु-भागविभक्तिके समान यहाँ वन जानेसे उसे उसके समान जाननेकी सूचना की है ।

§ ३६. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष मार्गणाओंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—एक वार मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागवन्धके रुकनेके बाद पुनः उत्कृष्ट अनुभाग वन्ध अन्तर्मुहूर्तके पहले नहीं होता ऐसा नियम है, अतः यहाँ पर ओघसे उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा जो संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट अनुभाग-संक्रम करके एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न होकर अनन्त कालके बाद पुनः संज्ञी पञ्चेन्द्रिय होकर उत्कृष्ट अनुभागवन्धपूर्वक उसका संक्रम करता है उसके उसका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल देखा जाता है, अतः ओघसे उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है । कोई क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमे एक समयके लिए मोहनीयके अनुत्कृष्ट अनुभागका असंक्रामक होकर दूसरे समयमे मरकर देव होकर पुनः उसका संक्रामक हो जाय यह भी सम्भव है और कोई अन्य जीव मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागका अन्तर्मुहूर्त काल तक संक्रम करता रहे यह भी सम्भव है, इसलिए यहाँ पर मोहनीयके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष मार्गणाओंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है यह स्पष्ट ही है ।

§ ४०. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघ से मोहनीयके जघन्य अनुभागसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्यत्रिकमे मोहनीयके जघन्य अनुभागसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ४१. सेसाणमणिओगद्वाराणमणुभागविहत्तिभंगो । णवरि संकमालावो कायव्वो ।
एवं तेवीसमणिओगद्वाराणि समत्ताणि ।

§ ४२ भुजगारे ति तत्थ इमाणि तेरस अणिओगद्वाराणि—समुक्कित्तणा जाव
अप्पाबहुए ति । समुक्कित्तणाणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अत्थि
भुज०-अप्प०-अव्वट्ठि०-अत्त०-संक्रामया । एवं मणुसतिए । सेसमग्णासु विहत्तिभंगो ।

§ ४३. सामित्ताणु० दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघो विहत्तिभंगो ।
णवरि अवत्त०-संक्र० कस्स ? अण्णद० जो इगिरीससंतकम्मिओव्वसामगो सव्वोव्वसामणादो
परिव्वदमाणगो देवो वा पढमसमयसंक्रामगो । एवं मणुसतिए । णवरि देवो ति ण
भाणियव्वो । सेसमग्णासु विहत्तिभंगो ।

§ ४४. कालो विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त० जह० उक्क० एयसमओ ।

§ ४५. अंतराणुग० दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघो विहत्तिभंगो ।
णवरि अवत्त० जह० अंतोसु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि । मणुसतिए

विशेषार्थ—मोहनीयका जघन्य अनुभागसंक्रम क्षपक सूक्ष्मसाम्परायिकके होता है, इसलिये
ओघसे तथा मनुष्यत्रिकमे इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा अजघन्य अनुभागसंक्रमके
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा अनुत्कृष्टके समान है । मनुष्योंमें भी यह इसी प्रकार बन
जाता है । मात्र जघन्य अन्तर एक समय नहीं बनता, क्योंकि स्वस्थानकी अपेक्षा उपशान्तमोहका
काल अन्तर्मुहूर्त है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ४१ शेष अनुयोगद्वारोंका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि
सत्कर्मके स्थानमे संक्रमका आलाप करना चाहिए ।

इस प्रकार तेईस अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।

§ ४२. भुजगारसंक्रमका प्रकरण है । उसमे मनुक्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्वतक तेरह अनु-
योगद्वार होते हैं । मनुक्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
भुजगारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक, अवस्थितसंक्रामक और अवक्तव्यसंक्रामक जीव हैं । इसी प्रकार
मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । शेष मार्गणाओंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ४३. स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी कौन है ?
इक्कीस प्रकृतियोंका सत्कर्मवाला जो अन्यतर उपशामक जीव सर्वोपशामनासे गिर कर देव हो गया या
प्रथम समयमें संक्रामक हो गया वह अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे अवक्तव्यसंक्रमका स्वामित्व कहते समय सर्वोपशामनासे
गिरते हुए मर कर देव हो गया यह भङ्ग नहीं कहना चाहिए । शेष मार्गणाओंमे अनुभागविभक्तिके
समान भङ्ग है ।

§ ४४. कालका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रमका
समयके लिए उत्कृष्ट काल एक समय है ।

अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अनुभाग-
उपशान्तमोह समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त
और जो क्षायिक अन्तर साधिक तेतीस सागर है । मनुष्यत्रिकमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडी देखणा । सेसमग्गणाओ विहत्तिभंगो ।

§ ४५. णाणाजीवभंगविचयाणुगमेण दुविहो णिद्देशो—ओघेण आदेशेण य । ओघेण मोह० भुज०-अप्प०-अवट्ठि०संक्रामया णियमा अत्थि । सिया एदे च अवत्तव्वओ च । सिया एदे च अवत्तव्वया च । मणुसत्तिए भुज०-अवट्ठि० णियमा अत्थि । सेसपदाणि भयणिजाणि । सेसमग्गणाणं विहत्तिभंगो ।

§ ४६. भागाभागानु० दुविहो णिद्देशो—ओघेण आदेशेण य । ओघो विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त०संक्रा० अणंतिमभागो । मणुसेसु विहत्तिभंगो । णवरि अवत्तव्व० असंखे०-भागो । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० मोह० अवट्ठि० संखेज्जा भागा । सेससंक्रा० संखे०भागो । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ४७. परिमाणं विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त० संखेज्जा ।

इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण है । शेष मार्गणाओंका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है ।

विशेषार्थ—क्षयिकसम्यग्दृष्टि जीव कमसे कम अन्तमुहूर्तके अन्तरसे और अधिकसे अधिक साधिक तैतीस सागरके अन्तरसे उपशमश्रेणिपर आरोहण करता है, इसलिए तो ओघसे अवक्तव्यसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तैतीस सागर कहा है । तथा मनुष्यत्रिक्रमं जघन्य अन्तर तो ओघके समान ही प्राप्त होता है । मात्र उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिसे अधिक नहीं हो सकता । कारण स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४५. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके भुजगारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक और अवस्थितसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये नाना जीव हैं और एक अवक्तव्यसंक्रामक जीव है । कदाचित् ये नाना जीव हैं और नाना अवक्तव्यसंक्रामक जीव हैं । मनुष्यत्रिक्रमं भुजगारसंक्रामक और अवस्थितसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । शेष मार्गणाओंका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है ।

§ ४६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामक जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं । मनुष्योंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामक जीव सब मनुष्योंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियमोंमें अवस्थितसंक्रामक जीव उक्त दोनों प्रकारके मनुष्योंके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा शेष पदोंके संक्रामक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ४७. परिमाणका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है अवक्तव्यसंक्रामक जीव संख्यात हैं ।

§ ४८. खेत्तं पोसणं विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त०संका० लोगस्स असंखे०भागो कायव्वो ।

§ ४९. कालो विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त०संका० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया ।

§ ५०. अंतरं विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त०संका० जह० एयस०, उक्क० वासपुधत्तं ।

§ ५१. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

§ ५२. अप्पावहुआणु० दुविहो णिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण अवत्त०संका० थोवा । अप्पद०संका० अणंतगुणा । भुज०संका० असंखे०गुणा । अवट्ठि०संका० संखे०गुणा । मणुसेसु सव्वत्थोवा अवत्त०संका० । अप्पद०संका० असंखे०गुणा । भुज०संका० असंखे०गुणा । अवट्ठि०संका० संखे०गुणा । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु । णवरि संखेज्जगुणं कायव्वं । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ४८. क्षेत्र और स्पर्शनका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीवोंका क्षेत्र और स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण करना चाहिए ।

§ ४९. नाना जीवोंकी अपेक्षा कालका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

विशेषार्थ—दायिकसन्ध्यदृष्टि जीव उपशमश्रेणिसे उतरते हुए यदि एक समयके लिए अवक्तव्यसंक्रामक होते हैं तो इसका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है और यदि नाना जीव लगातार पहले समयमें अन्य जीव और दूसरे समयमें अन्य जीव इस क्रमसे संख्यात समय तक नाना जीव अवक्तव्यपदके संक्रामक होते हैं तो इसका उत्कृष्ट काल संख्यात समय तक प्राप्त होता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ५०. अन्तरका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है ।

विशेषार्थ—उपशमश्रेणिके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरको ध्यानमें रख कर यहाँ पर अवक्तव्यसंक्रामकोंका यह अन्तर कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ५१. भाव सर्वत्र औदयिक है ।

§ ५२. अल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं । उनसे भुजागारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । मनुष्योंमें अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजागारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर असंख्यातगुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ५३. पदणिकखेवे त्ति तत्थ इमाणि तिण्णि अणिओगदाराणि—समुक्कित्त० सामित्त-
मप्पावहु० । समुक्कित्तणाए विहत्तिभंगो ।

§ ५४. सामित्तं दुविहं—जह० उक्क० । उक्क० पयदं । दुविहो णिद्देशो—ओघेण आदेसेण
य । ओघेण उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? अण्णदरस्स जो तप्पाओग्गजहण्णयमणुभागं संक्रामेतो
तदो उक्कस्ससंक्किलेसं गदो । तदो उक्कस्साणुभागं पवद्धो तस्स आवलियादीदस्स उक्क०
वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्क० हाणी कस्स ? अण्णदरेण उक्कस्साणुभागं
संक्रामेतोण उक्क० अणुभागखंडए हदे तस्स उक्कस्सिया हाणी । एवं चंदुसु गदीसु ।
णवरि पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०—मणुसअपज्ज०—आणदादि जाव सव्वट्ठा त्ति विहत्तिभंगो ।

§ ५५. जहण्णए पयदं । विहत्तिभंगो ।

§ ५६. अप्पावहुअं विहत्तिभंगो ।

§ ५७. वृद्धिसंकमे तत्थ इमाणि तेरस अणिओगदाराणि—समुक्कित्तणा जाव अप्पवहुए
त्ति । समुक्कित्तणाणु० दुविहो णिद्देशो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० अत्थि छव्विहा
वड्ढि हाणी अट्ठाणमवत्तव्वं च । एवं मणुसतिए । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ५८. सामित्तं विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त० भुजगारभंगो ।

§ ५३. पदनिक्षेपका प्रकरण है । उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व
और अल्पबहुत्व । समुत्कीर्तनाका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है ।

§ ५४. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो
प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ? अन्यतर जिस जीवने
तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट
अनुभागका बन्ध किया, एक अवलिके बाद वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है । तथा वही जीव
अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है । उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ? अन्यतर
जिस जीवने उत्कृष्ट अनुभागका संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकका घात किया है वह
उत्कृष्ट हानिका स्वामी है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि
पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और आनतकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें
अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ५५. जघन्यका प्रकरण है । उसका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है ।

§ ५६. अल्पबहुत्वका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है ।

§ ५७. वृद्धिसंकमका प्रकरण है । उसमें समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक ये तेरह
अनुयोगद्वार होते हैं । समुत्कीर्तनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश ।
ओघसे मोहनीयके छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके संक्रामक जीव हैं । इसी
प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । शेष मार्गाणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ५८. स्वामित्वका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य-
संकमका भङ्ग भुजगारके समान है ।

§ ५६. कालो विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त० भुजगारभंगो ।

§ ६०. अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागं परिमाणं खेतं पोसणं कालो अंतरं भावो च विहत्तिभंगो । णवरि अवत्त० भुजगारभंगो ।

§ ६१. अप्पावहुआणु० दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० सव्वत्थोवा अवत्त०संका० । अणंतभागहाणिसंका० अणंतगुणा । सेसपदाणं विहत्तिभंगो । मणुस्सेसु सव्वत्थोवा अवत्त० । अणंतभागहा० असंखे०गुणा । उवरि ओघं । एवं मणुस-पज्ज०-मणुसिगी० । णवरि संखे०गुणं कायव्वं । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ६२. ठाणाणमणुभागविहत्तिभंगाणुसारेण परूवणा कायव्वा ।

एवं मूलपयडिअणुभागसंक्रमो समत्तो ।

* तदो उत्तरपयडिअणुभागसंक्रमं चउवीसअणियोगद्वारेहि वत्तइस्सामो ।

§ ६३. तदो मूलपयडिअणुभागसंक्रमविहासणादो अणंतरं पुव्वपरूविदेण अट्टपदेण उत्तरपयडिविसयमणुभागसंक्रमं वत्तइस्सामो ति एसा पइज्जा सुत्तयारस्स । तत्थाणियोग-द्वाराणमियत्तावहारणडुमिदं वुत्तं 'चउवीसमणियोगद्वारेहि' ति । काणि ताणि चउवीसअणि-ओगद्वाराणि ? सण्णा सव्वसंक्रमो णोसव्वसंक्रमो उक्कस्ससंक्रमो अणुक्कस्ससंक्रमो जहण्णसंक्रमो

§ ५६. कालका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यका भङ्ग भुजगारके समान है ।

§ ६०. अन्तर, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर और भावका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यका भङ्ग भुजगारके समान है ।

§ ६१. अल्पवहुत्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं । शेष पदोंका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । मनुष्योंमें अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । आगे ओघके समान भङ्ग है । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियों में जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ६२ स्थानोंका अनुभागविभक्तिके भङ्गके अनुसार प्ररूपणा करना चाहिए ।

इस प्रकार मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम समाप्त हुआ ।

* अब चौवीस अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रमका कथन करेंगे ।

§ ६३. 'तदो' अर्थात् मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रमका कथन करनेके बाद पूर्वमें कहे गये अर्थ-पदके आश्रयसे उत्तरप्रकृतिविषयक अनुभागसंक्रमको कहेंगे इस प्रकार सूत्रकारकी यह प्रतिज्ञा है । वहाँ अनुयोगद्वारोंकी इयत्ताका निश्चय करनेके लिए 'चउवीसमणियोगद्वारेहि' यह वचन कहा है । वे चौवीस अनुयोगद्वार कौन हैं ऐसा प्रश्न होने पर उनका नाम, निर्देश करते हैं । यथा—संज्ञा, सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट संक्रम, जघन्य संक्रम, अजघन्य संक्रम, सादि

अजहणसंकमो सादियसंकमो अणादियसंकमो ध्रुवसंकमो अद्भुवसंकमो एगजीवेण सामित्तं कालो अंतरं सण्णियासो णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं भावो अप्पावहुअं चेदि । एदेसिं च जुगवं वोत्तुमसत्तीदो कमावलंणणेण सण्णाणि-ओगहारमेव ताव विहासिदुक्कामो सुत्तमुत्तरं भणइ—

* तत्थ पुव्वं गमणिज्जा घादिसण्णा च ट्ठाणसण्णा च ।

§ ६४. 'तत्थ' तेषु चउवीसमणिओगहारेसु 'पुव्वं' पढमदरमेव ताव 'गमणिज्जा' अणुगंतव्वा घादिसण्णा च ट्ठाणसण्णा च । एदेण सण्णाए दुविहत्तं पदुप्पाइदं । तत्थ घादिसण्णा णाम मिच्छत्तादिकम्माणमुक्कस्सादिअणुभागसंकमफद्दएसु देस-सव्वघादित्तपरिक्खा । ट्ठाणसण्णा च तेसिमेवाणुभागसंकमफद्दयाणं जहासंभवमेगट्ठाणिय-विट्ठाणिय-तिट्ठाणिय-चउट्ठाणियभाव-गवेसणा । संपहि दोण्हमेदासिं सण्णाणं णिदेसं कुणमाणो सुत्तकलावमुत्तरं भणइ—

* सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं मोत्तूण सेस्साणं कम्माणभणुभाग-संकमो णियमा सव्वघादी वेट्ठाणिओ वा तिट्ठाणिओ वा चउट्ठाणिओ वा ।

§ ६५. सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाणमणुभागसंकमं मोत्तूण सेसकम्माणं मिच्छत्त-सम्मा मिच्छत्त-वारसक०-अट्ठणोकसायाणभणुभागसंकमो उक्कस्सो अणु० जहण्णो अजहण्णो च सव्वघादी चेत्र, देसघादिसरूवेण सव्वकालमेदेसिमणुभागसंकमपवुत्तीए असंभवादो । सो वुण विट्ठाणिओ तिट्ठाणिओ चउट्ठाणिओ वा । एयट्ठाणियो णत्थि, सव्वघादित्तणेण तस्स

संकम, अनादि संक्रम, ध्रुवसंकम, अध्रुवसंकम, एक जीवकी अपेक्षा स्वामित्व, काल, अन्तर सन्निकर्ष, नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्पवहुत्व । किन्तु इनका एक साथ कथन करना असम्भव है, इसलिए क्रमका अवलम्बन लेकर संज्ञा अनुयोगद्वारको ही सर्व प्रथम कहनेकी इच्छासे आगेका सूत्र कहते हैं—

* उनमें सर्व प्रथम घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा जानने योग्य है ।

§ ६४. 'तत्थ' उन चौबीस अनुयोगद्वारोंमें 'पुव्वं' अर्थात् सर्व प्रथम घातिसंज्ञा और स्थान-संज्ञा 'गमणिज्जा' अर्थात् जानने योग्य है । इस प्रकार इस सूत्र द्वारा संज्ञा दो प्रकारकी कही गई है । उनमेसे मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उत्कृष्ट आदि अनुभागसंकमरूप स्पर्धकोंमेसे कौन स्पर्धक देशघाति हैं और कौन स्पर्धक सर्वघाति हैं इस प्रकारकी परीक्षा करना घातिसंज्ञा कहलाती है । तथा उन्हें अनुभागसंकमरूप स्पर्धकोंके एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिकभावकी गवेपणा करना स्थानसंज्ञा कहलाती है । अब इन दोनों संज्ञाओंका निर्देश करते हुए आगेका सूत्र कलाप कहते हैं—

* सम्मक्त्व, चार संज्वलन और पुरुषवेदको छोड़ कर शेष कर्मोंका अनुभाग-संकम नियमसे सर्वघाति तथा द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक होता है ।

§ ६५. सम्यक्त्व, संज्वलन चार और पुरुषवेदके अनुभागसंकमको छोड़ कर मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और आठ नोकपाय इन शेष कर्मोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट जघन्य और अजघन्य अनुभागसंकम सर्वघाति ही होता है, क्योंकि इनके अनुभागसंकमकी सर्वदा देशघातिरूपसे प्रवृत्ति होना असम्भव है । परन्तु वह अनुभागसंकम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुःस्थानिक होता

पडिसिद्धत्तादो । तत्थुक्कस्साणुभागसंक्रमो चउट्टाणिओ चैव, तत्थ पयारंतराणुवलंभादो । अणुक्कस्साणुभागसंक्रमो पुण चउट्टाणिओ तिट्टाणिओ विट्टाणिओ वा, तिण्हमेदेसिं भावाणं तत्थ संभवादो । जहण्णाणुभागसंक्रमो विट्टाणिओ चैव, तत्थ पयारंतरासंभवादो । अजहण्णाणु-भागसंक्रमो विट्टाणिओ तिट्टाणिओ चउट्टाणिओ वा, तिविहस्स वि भावस्स तत्थ संभवादो । एदेण सामण्णवयणेण सम्मामिच्छत्तस्स वि सव्वघादित्तेणावहारियस्स तिट्टाणिय-चउट्टाणियाणु-भागसंक्रमाइप्पसंगे तण्णिवारणट्ठसुत्तमाह—

* एवरि सम्मामिच्छत्तस्स वेट्टाणिओ चैव ।

§ ६६. सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्साणुक्कस्स-जहण्णाजहण्णाणुभागसंक्रमो वेट्टाणियत्तेणाव-हारेयव्वो, दारुअसमाणाणंतिमभागे चैव सव्वघादित्तेण तदणुभागस्स पज्जवसिद्धत्तादो । एव-मेदेसिं सण्णाविसेसपरिक्खं काऊण संपहि पुरिसवेद-चदुसंजलणाणुभागसंक्रमस्स सण्णाविसेस-पदुप्पायणट्ठमुवरिमसुत्तमाह—

* अक्खववग-अणुवसामगस्स चदुसंजलणा-पुरिसवेदाणामणुभागसंक्रमो मिच्छत्तभंगो ।

§ ६७. कुदो ? सव्वघादित्तेण वि-ति-चदुट्टाणियत्तणेण च भेदाभावादो । संपहि खवगोवसामएसु तवभेदसंभवपदुप्पायणट्ठमिदमाह—

हैं । एकस्थानिक नहीं होता, क्योंकि एकस्थानिक अनुभागसंक्रमका सर्वघाति होनेका निषेध है । उसमे भी उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम चतु स्थानिक ही होता है, क्योंकि उसमे अन्य प्रकार नहीं उपलब्ध होता । परन्तु अनुकृष्ट अनुभागसंक्रम चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक या द्विस्थानिक होता है क्योंकि इसमें ये तीनों प्रकार सम्भव हैं । जवन्य अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक ही होता है, क्योंकि इसमे अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । तथा अजवन्य अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुःस्थानिक होता है, क्योंकि इसमे उक्त तीनों प्रकारका अनुभागसंक्रम सम्भव है । इस प्रकार इस सामान्य वचनके अनुसार सर्वघातिरूपसे निश्चित किये गये सम्यग्मिध्यात्वमे भी त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक अनुभागसंक्रमका अतिप्रसङ्ग होने पर उसका निवारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिध्यात्वका अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक ही होता है ।

§ ६६. सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट, अनुकृष्ट, जवन्य और अजवन्य अनुभागसंक्रमको द्विस्थानिक ही निश्चय करना चाहिए, क्योंकि दारुसमान अनुभागसंक्रमके अनन्तवें भागमे ही सर्वघातिरूपसे उसके अनुभागका पर्यवसान देखा जाता है । इस प्रकार इन कर्मों की संज्ञाविशेषकी परीक्षा करके अब पुरुषवेद और चार संज्वलनोंके अनुभागसंक्रमकी संज्ञाविशेषका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* अक्षपक और अनुपशामक जीवके चार संज्वलन और पुरुषवेदके अनुभाग-संक्रमका भङ्ग मिध्यात्वके समान है ।

§ ६७ क्योंकि सर्वघातिरूपसे तथा द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिकरूपसे मिध्यात्वकी अपेक्षा उक्त कर्मोंके अनुभागसंक्रममे भेद नहीं है । अब क्षपक और उपशामकोंमे उसका भेद सम्भव है इस बातका कथन करनेके लिए यह सूत्र कहते हैं—

* खवगुवसामगाणमणुभागसंकमो सव्वघादी वा देसघादी वा वेडाणिओ वा एयडाणिओ वा ।

§ ६८. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा—खवगोवसामगेसु एदेसिमुक्कस्साणु-भागसंकमो वेडाणिओ सव्वघादी चेव, अपुव्वकरणपवेसपढमसमए तदुवलंभादो । अणुक्कस्साणु-भागसंकमो वेडाणिओ एयडाणिओ वा सव्वघादी वा देसघादी वा । एगडाणिओ कत्थो-वल्लभदे ? खवगोवसमसेठीसु अंतरकरणं कादूरोगडाणियमणुभागं बंधमाणस्स सुद्धणवगबंध-संकमणावत्थाए किट्ठीवेदगकालव्भंतरे च । देसघादित्तं च तत्थेव लब्भदे । जहण्णाणुभागसंकमो एदेसिं देसघादी एयडाणिओ च, जहासंभवणवगबंधस्स किट्ठीणं चरिमसमयसंक्रामणाए तदुव-लंभादो । अजहण्णाणुभागसंकमो एयडाणिओ वेडाणिओ वा देसघादी वा सव्वघादी वा, अणुक्कस्सस्सेव तदुवलंभादो । एवमेदेसिं सण्णाविसेसं परूविय संपहि सम्मत्ताणुभागसंकमस्स सण्णाविसेसविहासणुत्तमुत्तरसुत्तं भणइ—

* सम्मत्तस्स अणुभागसंकमो शियमा देसघादी ।

* मात्र क्षपक और उपशामक जीवके उनका अनुभागसंक्रम सर्वघाति भी होता है और देशघाति भी होता है । तथा द्विस्थानिक भी होता है और एकस्थानिक भी होता है ।

§ ६८. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—क्षपक और उपशामक जीवोंमें चार संज्वलन और पुरुषवेद इन पाँच कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक और सर्वघाति ही होता है, क्योंकि अपूर्वकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें उसकी उपलब्धि होती है । अनुत्कृष्ट अनुभाग-संक्रम द्विस्थानिक भी होता है और एकस्थानिक भी होता है । तथा सर्वघाति भी होता है और देशघाति भी होता है ।

शंका—एकस्थानिक अनुभागसंक्रम कहाँ पर उपलब्ध होता है ।

समाधान—क्षपकश्रेणि और उपशामश्रेणिमें अन्तरकरण करके एकस्थानिक अनुभागका वन्ध करनेवाले जीवके शुद्ध नवकबन्धकी संक्रमणरूप अवस्थामें और कृष्टिवेदककालके भीतर एक-स्थानिक अनुभागसंक्रम उपलब्ध होता है तथा वहीं पर उसका देशघातिपना पाया जाता है । इन कर्मोंका जघन्य अनुभागसंक्रम देशघाति और एकस्थानिक होता है, क्योंकि यथासम्भव नवकबन्धकी कृष्टियोंके संक्रमके अन्तिम समयमें वह उपलब्ध होता है । अजघन्य अनुभागसंक्रम एकस्थानिक भी होता है और द्विस्थानिक भी होता है । तथा देशघाति भी होता है और सर्वघाति भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार इन कर्मोंके अनुत्कृष्टमें इन भेदोंकी उपलब्धि होती है उसी प्रकार वे अजघन्यमें भी वन जाते हैं । इस प्रकार इनकी संज्ञाविशेषका कथन करके अब सम्यक्त्वके अनु-भागसंक्रमकी संज्ञाविशेषका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* सम्यक्त्वका अनुभागसंक्रम नियमसे देशघाति होता है ।

§ ६६. उक्साणुक्स्स-जहण्णाजहण्णभेदाणं सव्वेसिमेव देसघादित्तदंसणादो । संपहि एदस्सेव ँट्ठाणसण्णाणुगमं कस्सामो । तं जहा—

* एयट्ठाण्णिओ वेट्ठाण्णिओ वा ।

§ ७० तदुक्साणुभागसंकमो वेट्ठाण्णिओ चैव, तत्थ लदा-दारुअसमाणाणुभागाणं दोण्हं पि णियमेणोवलंभादो । अणुक्स्सो वेट्ठाण्णिओ एयट्ठाण्णिओ वा, दंसणमोहक्खवणाए अट्ठवस्स-ट्ठिदिसंतकम्मप्पहुडि एयट्ठाणाणुभागदंसणादो हेट्ठा वेट्ठाणियणियमादो । जहण्णाणुभाग-संकमो णियमेणोयट्ठाण्णिओ, समयाहियावलियदंसणमोहक्खवयस्मि तदुवलंभादो । अजह० एयट्ठाण्णिओ वेट्ठाण्णिओ वा, दुसमयाहियावलियदंसणमोहक्खवयप्पहुडि जावुक्साणुभागो ति ताव अजहण्णवियप्पावट्ठाणादो ।

§ ७१. एवं सुत्ताणुगमं काऊण् संपहि उच्चारणामुहेण सण्णाविहाणं वत्तइस्सामो । तं जहा—तत्थ दुविहा सण्णा—घाइसण्णा ट्ठाणसण्णा च । घाइसण्णाणु०दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०—सम्मामि०—वारसक०—अट्ठणोकसायाणं उक्क०—अणुक्क०—जह०—अजह०संक० सव्वघादी । पुरिसवेद—चदुसंजल० उक्क० सव्वघादी ।

§ ६६. क्योंकि इसके उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इन सब भेदोंमें देशघातिपना देखा जाता है । अब इसीकी स्थानसंज्ञाका अनुगम करेंगे । यथा—

* तथा वह एकस्थानिक भी होता है और द्विस्थानिक भी होता है ।

§ ७०. उसका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक ही होता है, क्योंकि उसमें लता और दारु-समान यह दोनों प्रकारका अनुभाग नियमसे पाया जाता है । अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक भी होता है और एकस्थानिक भी होता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणणा होते समय जब सम्यक्त्वका आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्म शेष रहता है तब वहाँसे लेकर उसका एकस्थानिक अनुभाग देखा जाता है । तथा इससे पूर्व द्विस्थानिक अनुभागका नियम है । जघन्य अनुभागसंक्रम नियमसे एकस्थानिक होता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणणा करनेवालेके उसकी क्षणणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने पर उसकी उपलब्धि होती है । अजघन्य अनुभागसंक्रम एकस्थानिक भी होता है और द्विस्थानिक भी होता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणणामें जब दो समय अधिक एक आवलि काल शेष वचता है तब वहाँसे लेकर प्रतिलोमक्रमसे उत्कृष्ट अनुभागके प्राप्त होने तक सब अनुभाग अजघन्य विकल्परूपसे अवस्थित है ।

§ ७१. इस प्रकार सूत्रोंका अनुगम करके अब उच्चारणकी प्रमुखतासे संज्ञाका विधान करते हैं । यथा—प्रकृतमें संज्ञा दो प्रकारकी है—घातिसंज्ञा और स्थानसंज्ञा । घातिसंज्ञानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओव और आदेश । ओवसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कषाय और आठ नोकपायोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रम सर्वघाति है । पुरुषवेद और चार संज्वलनकपायोंका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम सर्वघाति है । अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम सर्वघाति

१ ता० प्रती 'एदस्स वेट्ठाण्' इति पाठः ।

अणु० सव्वघादी देसघादी वा । जह० देसघादी । अज० सव्वघादी वा देसघादी वा ।
सम्म० उक्क०-अणुक्क०-जह०-अजह० देसघादी चैव । एवं मणुसतिए । णवरि मणुसिणी०
पुरिसवेद० उक्क०-अणुक्क०-जह०-अजह० सव्वघादी । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ७२. ट्टाणसण्णाणु० दुविहो णिदेसो-ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-
वारसक०-अट्टणोक० उक्क० चउट्टा० । अणु० चउट्टा० तिट्टाणि० वेट्टाणिओ वा । जह०
विट्टाणि० । अज० विट्टाणि० तिट्टाणि० चउट्टाणिओ वा । सम्म०-सम्मामि०-चट्टुसंजल०-
पुरिसवेद० विहत्तिभंगो । एवं मणुसतिए । णवरि मणुसिणीसु पुरिसवेद० छण्णो-
कसायभंगो । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

भी है और देशघाति भी है । जघन्य अनुभागसंक्रम देशघाति है । तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम सर्वघाति भी है और देशघाति भी है । सम्यक्त्वका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रम देशघाति ही है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रम सर्वघाति ही है । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—मनुष्यनीके पुरुषवेदकी सत्त्वव्युच्छित्ति छह नोकपायोंके साथ ही हो लेती है, इसलिए यहाँ पर मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका चारों प्रकारका अनुभागसंक्रम सर्वघाति ही बतलाया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ७२. स्थानसंज्ञानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, वारह कषाय और आठ नोकपायोंका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम चतुःस्थानिक होता है । अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक, या द्विस्थानिक होता है । जघन्य अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक होता है । तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुःस्थानिक होता है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलन और पुरुषवेदका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका भङ्ग छह नोकपायोंके समान है । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—स्थानसंज्ञाके प्रसङ्गसे अनुभागको चार प्रकारका बतलाया है—एकस्थानिक, द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक । केवल लताके समान अनुभागको एकस्थानिक अनुभाग कहते हैं, लता और दारुके समान मिले हुए अनुभागको द्विस्थानिक अनुभाग कहते हैं, दारु और अस्थिके समान मिले हुए अनुभागको त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं तथा दारु, अस्थि और शैलके समान मिले हुए अनुभागको चतुःस्थानिक अनुभाग कहते हैं । लताके समान एकस्थानिक अनुभाग तथा लता और दारुके अनन्तर्वे भाग तकका द्विस्थानिकअनुभाग देशघाती होता है और शेष सब अनुभाग सर्वघाति होता है । पहले मिथ्यात्व आदि कर्मोंमें किस कर्मका अनुभाग किस प्रकारका है इसका विचार कर आये हैं सो उसे इस विवेचनको ध्यानमें रख कर घटित कर लेना चाहिए । यद्यपि सम्यग्मिथ्यात्वमें केवल दारुके अनन्तर्वे भागप्रमाण मध्यका सर्वघाति अनुभाग ही उपलब्ध होता है । फिर भी उसे उपचारसे द्विस्थानिक संज्ञा दी गई है । इसी प्रकार अन्यत्र सर्वघाति अनुभागोंमें द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक संज्ञाओंकी सार्थकता घटित कर लेनी चाहिए । माना कि इन सर्वघाति अनुभागोंमें देशघातिकी सीमा तकका अनुभाग उपलब्ध नहीं होता फिर भी

§ ७३. सव्वसंकमो णोसव्वसंकमो उक्कस्ससंकमो अणुक्कस्ससंकमो जहण्णसंकमो अजहण्णसंकमो ति त्रिहत्तिभंगो । सादि०-अणादि०-ध्रुव०-अद्भुवाणु० दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-अट्टकसाय-सम्म०-सम्मामि० उक्क०-अणुक्क०-जह०—अजह० किं सादि० ४ ? सादी अद्भुवो । अट्टक०-णवणोक० उक्क०-अणुक्क०-जह० सादी अद्भुवो । अज० चत्तारि भंगा । आदेसेण सव्वं सव्वत्थ सादी अद्भुवं ।

जहाँ दारुका बहुभागप्रमाण अन्तका सर्वघाति अनुभाग होता है उसकी उपचारसे द्विस्थानिक संज्ञा है । जहाँ पर यह और अस्थिके समान अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी उपचारसे त्रिस्थानिक संज्ञा है । तथा जहाँ यह पूर्वका दोनों भेदरूप और शैलके समान अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी उपचारसे चतुःस्थानिक संज्ञा है । यहाँ पर लता, दारु अस्थि और शैल ये उपमावाची शब्द हैं । जो अपने उपमेयरूप अनुभागोंकी विशेषताको प्रकट करते हैं । स्थानसंज्ञाका निर्देश करते समय मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका भङ्ग छह नोकषायोंके समान कहा है । सो इसका आशय इतना ही है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका लताके समान एकस्थानिक अनुभाग नहीं उपलब्ध होता । कारणका निर्देश हम घाति संज्ञाके प्रसङ्गसे विशेषार्थमें कर ही आये हैं । शेष कथन सुगम है ।

§ ७३. सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्यसंक्रम और अजघन्यसंक्रमका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, आठ कषाय, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रम क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या ध्रुव है या क्या अध्रुव है ? सादि और अध्रुव है । आठ कषाय और नौ नोकषायोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट और जघन्य अनुभागसंक्रम सादि और अध्रुव है । तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम सादि आदि चारों भेदरूप है । आदेशसे सब अनुभागसंक्रम सर्वत्र सादि और अध्रुव है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व, अप्रत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम कादाचित्क हैं, इसलिए तो ये दोनों यहाँ पर सादि और अध्रुव कहे गये हैं । तथा मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रम भी कादाचित्क हैं । साथ ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व ये दोनों प्रकृतियों भी कादाचित्क हैं, इसलिए यहाँ पर इनके जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रम भी सादि और अध्रुव कहे गये हैं । अब रहीं शेष प्रकृतियों सो इनके भी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम कादाचित्क होनेसे सादि और अध्रुव जान लेने चाहिए । चार संज्वलन और नौ नोकषायोंका जघन्य अनुभागसंक्रम अपनी अपनी क्षण होते समय जघन्य अनुभागसंक्रमके कालमे होता है और इसके पूर्व अजघन्य अनुभागसंक्रम होता है इसलिए तो अजघन्य अनुभागसंक्रम अनादि है । तथा उपशम-श्रेणिये उपशान्त दशामें यह संक्रम नहीं होता और उसके बाद गिरने पर होने लगता है, इसलिए इनका अजघन्य अनुभागसंक्रम सादि है । तथा भव्योंकी अपेक्षा वह ध्रुव और अभव्योंकी अपेक्षा अध्रुव है । इस प्रकार इन तेरह प्रकृतियोंका अजघन्य अनुभागसंक्रम सादि आदि चाररूप बन जानेसे वह चार प्रकारका कहा है और इनका जघन्य अनुभागसंक्रम क्षणकालमे ही होता है इसलिए वह सादि और अध्रुव कहा है । इसी प्रकार अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य अनुभागसंक्रम पुनः संयोजना होने पर एक आवलिके बाद द्वितीय आवलीके प्रथम समयमें होता है, इसलिए यह भी सादि और ध्रुव कहा है तथा विसंयोजना होनेके पूर्व तक इन चारोंका अजघन्य अनुभागसंक्रम अनादि होता है और पुनः संयोजना होने पर जघन्यके बाद वह सादि होता है । तथा भव्योंकी

❁ सामित्तं ।

§ ७४. सामित्तमिदाणि कस्सामो ति पइण्णावक्कमेदं । सव्वणोसव्वसंकमादीणं सुत्ते किमद्वं णिदेसो ण कदो ? ण, तेसिं सुगमाणं वक्खणादो चैव पडिवत्ती होइ ति तदकरणादो । तं च सामित्तं दुविहं जहण्णुकस्साणुभागसंकमविसयत्तेण । तत्थुकस्साणुभागसंकमविसयं ताव सामित्तं परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❁ मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंकमो कस्स ?

§ ७५ सुगमं ।

❁ उक्कस्साणुभागं बंधिदूणावलियपडिभग्गस्स अण्णादरस्स ।

§ ७६. मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागमुक्कस्ससंकिलेसेण बंधियूण जो आवलियपडिभग्गो तस्स पयदुकस्ससामित्तं होइ । आवलियपडिभग्गं मोत्तूण बंधपढमससए चैव सामित्तं किण्ण दिज्जदे ? ण, अणइच्छाविय बंधावलियस्स कम्मस्स ओकइणादिसंकमणाणं पाओग्गत्ताभावादो । सो बुण मिच्छत्तुकस्साणुभागबंधगो सण्णिपंचिदियपज्जत्तमिच्छाइट्ठी सव्वसंकिलिट्ठी ।

अपेक्षा अध्रुव और अभव्यों की अपेक्षा वह ध्रुव होता है, इसलिए इन चारों प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमको भी सादि आदिके भेदसे चार प्रकारका कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

* स्वामित्वका प्रकरण है ।

§ ७४. इस समय स्वामित्वका कथन करते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञावचन है ।

शंका—सर्वसंक्रम और नोसर्वसंक्रम आदिका सूत्रमें निर्देश किसलिए नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वे सुगम हैं । व्याख्यानसे ही उनका ज्ञान हो जाता है, इसलिए उनका सूत्रमे निर्देश नहीं किया ।

जघन्य अनुभागसंक्रम और उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमको विषय करनेवाला होनेसे वह स्वामित्व दो प्रकारका है । उनमेसे उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमविषयक स्वामित्वका सर्व प्रथम कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ७५. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका बन्धकर प्रतिभग्न हुए जिसे एक आवलि काल हुआ है ऐसा अन्यतर जीव मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ७६. मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागको उत्कृष्ट संक्लेशसे बाँधकर जिसे प्रतिभग्न हुए एक आवलि हो गया है उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है ।

शंका—प्रतिभग्न हुए एक आवलि कालको छोड़कर बन्ध होनेके प्रथम समयमे ही उत्कृष्ट स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्धावलिको विताये विना कर्ममे अपकर्षण आदि रूप संक्रमणों की योग्यता नहीं पाई जाती ।

परन्तु मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेवाला वह जीव संजी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्या-

जइ एवं, अण्णत्थुकस्साणुभागसंकमो ण कयाइं लब्भदि ति आसंकाए णिरायरणद्व-
मण्णदरविसेसणं कदं, तदुकस्सवंधेणाघादिदेण सह एइं दियादिसुप्पण्णस्स तदुवलंभे विरोहा-
भावादो । एवरि असंखेज्जवस्साउअतिरिक्ख-[मणुस्सेसु] मणुसोववादियदेवेसु च
ओघुकस्साणुभागसंकमो ण लब्भदे, तमघादेदूण तत्थुप्पत्तीए असंभवादो । एदेण सम्माइट्ठीसु
वि मिच्छत्तुकस्साणुभागसंकमो पडिसिद्धो दड्ढवो, उक्कस्साणुभागं वंधिय आवलियपडि-
भग्गस्स कंडयघादेण विणा सम्मत्तगुणगहणाणुववत्तीदो । कथमेसो विसेसो सुत्तेणाणुवइट्ठो
णज्जे ? ण, वक्खाणादो सुत्तंतरादो तंतजुत्तीए च तदुवलद्वीदो । जहा मिच्छत्तस्स तहा
सेसकम्माणं पि उक्कस्ससामित्तं णेदव्वं, विसेसाभावादो ति पदुप्पायणद्वुत्तरसुत्तमोइण्णं —

❀ एवं सव्वकम्माणं ।

§ ७७. सव्वेसिमुक्कस्साणुभागं वंधिदूणावलियपडिभग्गण्णदरजीवम्मि सामित्तपडि-
लंभस्स पडिसेहाभावादो । संपहि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमवंधपयडीणमेस कमो ण
संभवइ ति पयारंतरेण तेसिं सामित्तणिदेसो कीरदे—

❀ एवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंकमो कस्स ?

दृष्टि और सर्वसंक्लिष्ट होता है। यदि ऐसा है तो अन्यत्र उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम कभी भी नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार ऐसी आशंका होनेपर उसका निराकरण करनेके लिए सूत्रमे 'अन्यतर' विशेषण दिया है, क्योंकि घात किये बिना उसके उत्कृष्ट बन्धके साथ एकेन्द्रियादि जीवोंमे उत्पन्न हुए जीवके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके प्राप्त होनेमे कोई विरोध नहीं आता है। इतनी विशेषता है कि असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यञ्चों और मनुष्योंमें तथा जहाँके जो देव मर कर नियमसे मनुष्योंमे उत्पन्न होते हैं ऐसे आनतादिक देवोंमे ओव उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका घात किये बिना इन जीवोंमे उत्पन्न होना असम्भव है। इस वचनसे सम्यग्दृष्टि जीवोंमे भी मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका निषेध जान लेना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके जिसे प्रतिभग्न हुए एक आवलि काल हुआ है ऐसा जीव काण्डकघात किये बिना सम्यक्त्व गुणको ग्रहण नहीं कर सकता।

शंका—यह विशेषता सूत्रमे नहीं कही गई है, इसलिए उसे कैसे जाना जा सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि व्याख्यानसे, सूत्रसे तथा सूत्रानुकूल युक्तिसे इस विशेषताका ज्ञान हो जाता है।

जिस प्रकार मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्वामित्व है उसी प्रकार शेष कर्मोंका भी उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि उससे इसमे कोई अन्तर नहीं है। इस प्रकार इस वातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* इसी प्रकार सब कर्मोंका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ७७. क्योंकि सब कर्मोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागको बाँध कर प्रतिभग्न हुए जिसे एक आवलि काल हुआ है ऐसे अन्यतर जीवमे सब कर्मोंका उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होनेमें कोई प्रतिषेध नहीं है। किन्तु जो बन्ध प्रकृतियाँ नहीं हैं ऐसी सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंमे यह क्रम सम्भव नहीं है, इसलिए प्रकारान्तरसे उनके उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्देश करते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभाग-

§ ७८. सुगमं ।

❀ दंसणमोहणीयक्खवयं मोत्तूण जस्स संतकम्ममत्थि तस्स? उक्कस्सा-
णुभागसंकमो ।

§ ७९. कुदो ? दंसणमोहक्खवयादो अण्णत्थ तेसिमणुभागखंडयघादाभावादो । जइ
वि एत्थ सायण्णेण जस्स संतकम्ममत्थि त्ति वुत्तं तो वि पयरणवसेण संकमपाओग्गं जस्स
संतकम्ममत्थि त्ति घेत्तव्वं, अण्णहा उव्वेत्तणाए आवलियपविट्ठसंतकम्मियस्स वि गहण-
प्पसंगादो । दंसणमोहक्खवयस्स वि अपुव्वकरणपविट्ठस्स पढमाणुभागखंडए अणिल्लेविदे
उक्कस्साणुभागसंकमो संभवइ । तदो दंसणमोहक्खवयं मोत्तूणे त्ति कधमेदं घडदे ? ण,
पढमाणुभागखंडए पादिदे संते जो दंसणमोहक्खवओ तस्सेव सुत्ते दंसणमोहक्खवयत्तेण
विवक्खियत्तादो । अधवा दंसणमोहक्खवयं मोत्तूणणस्स जस्स संतकम्ममत्थि तस्स णियमा
उक्कस्साणुभागसंकमो, दंसणमोहक्खवयस्स पुण णत्थि णियमो, पढमाणुभागखंडए उक्कस्साणु-
भागसंकमाणुविट्ठे घादिदे तत्थाणुक्कस्साणुभागसंकमुप्पत्तिदंसणादो त्ति एसो सुत्ताहिप्पाओ ।
एवमोघो समत्तो । आदेसेण सव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो । एवमुक्कस्ससामित्तं ।

संकमका स्वामी कौन है ।

§ ७८. यह सूत्र सुगम है ।

* दर्शनमोहनीयके क्षपकको छोड़ कर जिसके उक्त कर्मोंका सत्त्व पाया जाता है
वह उनके उत्कृष्ट अनुभागसंकमका स्वामी है ।

§ ७९. क्योंकि दर्शनमोहनीयके क्षपकके सिवा अन्यत्र उक्त कर्मोंका अनुभागकाण्डकाघात
नहीं होता । यद्यपि यहाँ पर सूत्रमे सामान्यसे 'जिसके सत्कर्म है' ऐसा कहा है तो भी प्रकरणवश
संकमके योग्य जिसके सत्कर्म है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उद्वेलनाके समय आवलिके
भीतर प्रविष्ट हुए सत्कर्मवालेके भी ग्रहणका प्रसङ्ग प्राप्त होता है ।

शंका—अपूर्वकरणमे प्रविष्ट हुए दर्शनमोहनीयके क्षपकके भी प्रथम अनुभागकाण्डककी
अनिलेंपित अवस्थामे उत्कृष्ट अनुभागसंकम सम्भव है, इसलिए सूत्रमे 'दर्शनमोहनीयके क्षपकको
छोड़ कर' यह वचन कैसे बन सकता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रथम अनुभागकाण्डकका पतन करा देने पर जो दर्शन
मोहनीयका क्षपक है वही सूत्रमे दर्शनमोहनीयके क्षपकरूपसे विवक्षित है । अथवा दर्शनमोहनीयकी
क्षपणा करनेवालेको छोड़कर अन्य जिसके उक्त कर्म की सत्ता है उसके नियमसे उक्त कर्मोंका
उत्कृष्ट अनुभागसंकम होता है । परन्तु दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके ऐसा कोई नियम नहीं
है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागसंकमसे अनुविद्ध प्रथम अनुभागकाण्डकका घात कर देने पर वहाँ
अनुत्कृष्ट अनुभागसंकमकी उत्पत्ति देखी जाती है । इस प्रकार यह उक्त सूत्रका अभिप्राय है । इस
प्रकार शोधप्ररूपणा समाप्त हुई । आदेशसे सब मार्गणाओंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंकमका स्वामी कौन है
इस प्रश्नका समाधान करते हुए सूत्रमे केवल इतना ही कहा गया है कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा
करनेवाले जीवके सिवा उनकी सत्तावाले अन्य सब जीव उनके उत्कृष्ट अनुभागसंकमके स्वामी हैं ।

❀ एत्तो जहणायं ।

§ ८०. एत्तो उवरि जहणायमणुभागसंक्रमामित्तं वत्तइस्सामो त्ति पडण्णावकमेदं ।

❀ मिच्छत्तस्स जहणणाणुभागसंकामओ को होइ ?

§ ८१. किमेइंदिओ वेइंदिओ तेइंदिओ चउरिंदिओ पंचिदिओ सण्णी असण्णी वादरो सुहुमो पज्जत्तो अपज्जत्तो वा इच्चादिविसेसावेक्खमेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ सुहुमस्स हदसमुत्पत्तियकम्मेण अण्णदरो ।

§ ८२. एत्थ सुहुमगहणेण सुहुमणिगोदअपज्जत्तयस्स गहणं कायन्वं, अण्णत्थ मिच्छत्तजहणणाणुभागसंकमुत्पत्तीए अदंसणादो । सुहुमणिगोदपज्जत्तो किण्ण घेप्पदे ? ण,

इस परसे दो प्रश्न खड़े हुए—प्रथम तो यह कि जो दर्शनमोहनीयकी क्षण नहीं कर रहे हैं, उनकी सत्तावाले ऐसे सब जीव यदि उनके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके स्वामी माने जाते हैं तो उद्वेलनाके समय जिनका सत्कर्म आवलिके भीतर प्रविष्ट होता है; उनके आवलिप्रविष्ट कर्मका भी उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम मानना पड़ेगा। टीकामे इस प्रश्नको लक्ष्य रख कर जो कुछ कहा गया है उसका भाव यह है कि यद्यपि सूत्रमे 'दर्शनमोहनीयकी क्षण करनेवालेको छोड़ कर जिसके सत्कर्म है' ऐसा सामान्य वचन कहा गया है पर उससे उद्वेलनाके समय आवलिप्रविष्ट सत्कर्मवाले जीवोंको छोड़ कर अन्य सत्कर्मवाले जीवोंको ही ग्रहण करना चाहिए। यद्यपि यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि यह अर्थ कैसे फलित किया गया है सो उसका समाधान यह है कि आवलिप्रविष्ट कर्मका संक्रम आदि नहीं होता ऐसा ध्रुव नियम है, इसलिए इस नियमके अनुसार यह अर्थ सुतरां फलित हो जाता है। दूसरा प्रश्न यह है कि अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकवातके पूर्व उक्त कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम सम्भव है। ऐसी अवस्थामें 'दर्शनमोहनीयकी क्षण करनेवालेको छोड़ कर' यह वचन देना उचित नहीं है। उसका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यदि इतने अपवादको छोड़ दिया जाय तो दर्शनमोहनीयका क्षणक जीव उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक नहीं होता, इसलिए सूत्रमे अन्य सब अवस्थाओंको ध्यानमे रखकर 'दर्शनमोहनीयके क्षणको छोड़ कर' यह वचन दिया है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

❀ आगे जघन्य स्वामित्वका कथन करते हैं ।

§ ८० इससे आगे अर्थात् उत्कृष्ट स्वामित्वके कथनके बाद जघन्य अनुभागसंक्रमके स्वामित्वको वतलाते हैं। इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है।

❀ मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ।

§ ८१ एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, संज्ञी, असंज्ञी, वादर, सूक्ष्म, पर्याप्त और अपर्याप्त इनमेसे इसका स्वामी कौन है ? इत्यदि विशेषकी अपेक्षा रखनेवाला यह पृच्छासूत्र है।

❀ सूक्ष्म एकेन्द्रियके हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ अवस्थित अन्यतर जीव मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ८२. यहाँ सूत्रमें 'सूक्ष्म' पदके ग्रहण करनेसे सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्यत्र मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमकी उत्पत्ति नहीं देखी जाती ।

तत्थतणजहण्णाणुभागस्स हदसमुत्पत्तियस्स एत्तो अणंतगुणत्तोवलंभादो । ण तत्थ विसोहि-
 बहुत्तमासंकणिज्जं, मंदविसोहीए वि अपज्जत्तयस्स बहुआणुभागघादसंभवादो । कुदो एवं ?
 जादिविसेसस्स तारिसत्तादो । तदो तस्स हदसमुत्पत्तियकम्मणेण जहण्णसामित्तविहाणमविरुद्धं ।
 किं हदसमुत्पत्तियं णाम ? हते समुत्पत्तिर्यस्य तद्वत्समुत्पत्तिकं कर्म । यावच्छक्यं तावत्प्राप्त-
 घातमित्यर्थः । तं पुण सुहुमणिगोदापज्जत्तयस्स सव्वुकस्सविसोहीए पत्तघादं जहण्णाणुभागसंत-
 कम्मं तदुकस्साणुभागवंधादो अणंतगुणहीणं । तस्सेव जहण्णाणुभागवंधादो अणंतगुणव्भहियं ।
 तप्पाओग्गाजहण्णाणुकस्सवंधट्ठाणेण समाणमिदि धेत्तव्वं । एवंविहेण सुहुमेइं दियहदसमुत्प-
 त्तियकम्मणेोवलक्खिओ जो जीवो अण्णदरो सो पयदजहण्णसामिओ होइ । एत्थ अण्णदरग्गहणेण
 सव्वजीवसमासाणं गहणमविरुद्धमिदि पदुप्पायणट्ठमुत्तरो सुत्तावयवो—

❀ एइंदिओ वा वेइंदिओ वा तेइंदिओ वा चउरिंदिओ वा
 पंचिंदिओ वा ।

शंका—सूक्ष्म निगोद पर्याप्तका ग्रहण क्यों नहीं करते ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उनमें हतसमुत्पत्तिक जघन्य अनुभाग इनसे अनन्तगुणा पाया जाता है ।

सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवोंमें बहुत विशुद्धिकी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अपर्याप्त जीवमें मन्द विशुद्धिसे भी बहुत अनुभागका घात सम्भव है ।

शंका—ऐसा कैसे होता है ?

समाधान—क्योंकि यह जातिविशेष ही उस प्रकारकी है ।

इसलिए हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ उसके जघन्य स्वामित्वका विधान करना विरुद्ध नहीं है ।

शंका—हतसमुत्पत्तिक कर्म किसे कहते हैं ?

समाधान—वात होने पर जिसकी उत्पत्ति होती है उसे हतसमुत्पत्तिक कर्म कहते हैं । जहाँ तक शक्य हो वहाँ तक घातको प्राप्त हुआ कर्म यह इसका तात्पर्य है ।

सूक्ष्म निगोद अपर्याप्त जीवके सर्वोत्कृष्ट विशुद्धिसे घातको प्राप्त हुआ वह कर्म जघन्य अनुभाग-
 सत्कर्मरूप होता है जो उसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धसे अनन्तगुणा हीन होता है । तथा उसीके जघन्य
 अनुभागवन्धसे अनन्तगुणा अधिक होता है । तत्प्रायोग्य अजघन्य अनुत्कृष्ट वन्धस्थानके समान
 होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकारके सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मसे
 युक्त जो अन्यतर जीव है वह प्रकृतमे जघन्य स्वामी होता है । यहाँ पर 'अन्यतर' पदके ग्रहण
 करनेसे सब जीवसमासोंका ग्रहण अविरुद्ध है; ऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र वचन है—

* एकेन्द्रिय, अथवा द्वीन्द्रिय, अथवा त्रीन्द्रिय, अथवा चतुरिन्द्रिय, अथवा
 पञ्चेन्द्रिय जीव मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ८३. कुदो ? तेणेवाणुभागेण सव्वत्थुप्पत्तीए पडिसेहाभावादो । दंसणमोहक्खवयस्स चरिमाणुभागखंडए मिच्छत्तजहण्णसामित्तं किण्ण दिण्णं ? तत्थतणाणुभागस्स एत्तो अणंत-गुणत्तादो । क्खमेदं परिच्छिण्णं ? एदम्हादो चेव सामित्तसुत्तादो ।

❀ एवमद्वएणं कसायाणं ।

§ ८४. जहा मिच्छत्तस्स सुहुमेइं दियहदसमुप्पत्तियक्कम्मेणण्णदरजीवम्मि जहण्णाणु-भागसंक्रमसामित्तमेवमद्वकसायाणं पि कायव्वं, त्रिसेसाभावादो । खव्वयचरिमफालीए विसुद्वयर-करणपरिणामेहि घादिदावसिद्धाणुभागस्स जहण्णभावो जुज्जइ ति गेहासंका कायव्वा, अंतरकरणादो हेट्ठा खव्वाणुभागस्स सुहुमाणुभागं पेक्खिखरुणाणंतगुणत्तणियमादो ।

❀ सम्मत्तस्स जहरणाणुभागसंकासत्थो को होइ ?

§ ८५. सुगमं ।

❀ समयाहियावलियत्रक्खीएदंसणमोहणीत्थो ।

§ ८६. कुदो एदस्स जहण्णभावो, ? पत्तसव्वुकस्सघादत्तादो अणुसमयोवट्टणाए अइजहण्णीकयत्तादो च ।

§ ८३. क्योंकि उसी अनुभागके साथ सर्वत्र उत्पत्ति होनेमें कोई निषेध नहीं है ।

शंका—दर्शनमोहनीयके क्षपकके अन्तिम अनुभागकाण्डकके शेष रहने पर मिध्यात्वका जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया गया ?

समाधान—क्योंकि वहाँका अनुभाग सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक अनुभागसे अनन्तगुणा होता है ।

शंका—यह कैसे जाना ?

समाधान—इसी स्वामित्व सूत्रसे जाना ।

* इसीप्रकार आठ कषायोंका जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ८४. जिस प्रकार सूक्ष्म एकेन्द्रियके हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ स्थित अन्यतर जीवमें मिध्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामित्व दिया है उसी प्रकार आठ कषायोंका भी करना चाहिए, क्योंकि उससे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि विशुद्धतर करणरूप परिणामोंके द्वारा क्षपककी अन्तिम फालिमें घात होकर शेष बचे हुए अनुभागका जघन्यपना बन जाता है सो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरकरणके पूर्व क्षपकसम्बन्धी अनुभाग सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणा होता है ऐसा नियम है ।

* सम्यक्त्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ८५. यह सूत्र सुगम है ।

* जिसके दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष है वह सम्यक्त्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ८६. क्योंकि यहाँ पर अनुभागका सबसे उत्कृष्ट घात प्राप्त हो गया है । तथा प्रत्येक समयमें होनेवाली अपवर्तनासे यह अत्यन्त जघन्य कर लिया गया है, इसलिए इसका जघन्यपना बन जाता है ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स जहणणाणुभागसंकामओ को होइ ?

§ ८७. सुगमं ।

❀ चरिमाणुभागखंडयं संछुहमाणओ ।

§ ८८. दंसणमोहकखण्णाए दुचरिमादिहेट्टिमाणुभागखंडयाणि संकामिय पुणो सम्मामिच्छत्तचरिमाणुभागखंडए वावदो जो सो पयदजहण्णसामिओ होइ, तत्तो हेट्टा सम्मामिच्छत्तसंबंधिजहण्णाणुभागसंकमाणुवलंभादो ।

❀ अणंताणुबंधीणं जहणणाणुभागसंकामओ को होइ ?

§ ८९. सुगमं ।

❀ विसंजोएदूण पुणो तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण संजोएदूणावलि-यादोदो ।

§ ९०. किमट्टमेसो विसंजोयणाए? पुणो जोयणाए पयट्टाविदो ? विट्ठाणाणुभागसंतकम्मं सव्वं गालिय णवकवंधाणुभागे जहण्णसामित्तविहाणट्टं । तत्थ वि असंखेज्जलोगमेत्तपडिवादट्टाणेषु तप्पाओग्गजहण्णसंकिलेसाणुविद्धपरिणामेण संजुत्तो ति जाणावणट्टं तप्पाओग्ग-

* सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ८७. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तिम अनुभागकाण्डकका संक्रम करनेवाला जीव सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ८८. दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके समय द्विचरिम आदि अधस्तन अनुभागकाण्डकोंका संक्रम करके जो सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम अनुभागकाण्डकमे व्यापृत है वह प्रकृतमे जघन्य स्वामी होता है, क्योंकि उससे पहले सम्यग्मिथ्यात्वसम्बन्धी जघन्य अनुभागसंक्रम नहीं उपलब्ध होता ।

* अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ८९. यह सूत्र सुगम है ।

* विसंयोजनाके बाद पुनः तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामसे उनकी संयोजना करके जिसे एक आवलि काल हुआ है वह अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ९०. शंका—विसंयोजनाके बाद इसे पुनः संयोजनामे क्यों प्रवृत्त कराया है ?

समाधान—सब द्विस्थानिक अनुभागसत्कर्मको गलाकर नवकवन्धसम्बन्धी अनुभागमे जघन्य स्वामित्वका विधान करनेके लिए विसंयोजनाके बाद इसे पुनः संयोजनामे प्रवृत्त कराया है ।

उसमे भी असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिपातस्थानोंमें से यह तत्प्रायोग्य जघन्य संक्लेशसम्बन्धी परिणामसे संयुक्त है इस बातका ज्ञान करानेके लिए 'तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण' यह वचन कहा

१. अ० प्रतौ विसंयोजना ता० प्रतौ विसंजोयणा [ए] इति पाठः ।

विसुद्धपरिणामेणे त्ति भण्णिदं, मंदसंकिलेसदाए चैव विसोहित्तेण विवक्खियत्तादो । तथा संजोएदूणावलियादीदो पयदजहण्णसामिओ होइ, संजुत्तपढमसमए णवकवंधस्स बंधावलियादीदस्स तत्थ जहण्णभावेण संकंतिदंसणादो । तत्तो उवरि सामित्तसंबंधो ण कादुं सक्किज्जे, त्रिदियादिसमयसंजुत्तस्स संकिलेसवुड्डीए वड्ढिदाणुभागबंधस्स तत्थ संकमपाओग्गत्तेण जहण्णभावाणुवलद्वीदो । मिच्छत्तादीणं व सुहुमस्स हदसमुप्पत्तियकम्मेण वि जहण्णसामित्तमेत्थ किण्ण कीरदे ? ण, तत्थतणचिराणाणुभागसंतकम्मस्स घादिदावसेसस्स एत्तो अणंतगुणत्तेण तथा कादुमसक्कियत्तादो । तदणंतगुणत्तावगमो कुदो ? एदम्हादो चैव सुत्तादो । अण्णहा तत्थेव सामित्तविहाणत्तप्पसंगादो । एदेणाणंताणुबंधिविसंजोयणाचरिमाणुभागखंडयम्मि जहण्णसामित्तविहाणासंका पडिसिद्धा, तत्थतणाणुभागस्स सुहुमाणुभागादो वि अणंतगुणत्तदंसणादो । णोदमसिद्धं, सुहुमाणुभागमुवरि अंतरमकदे दु घादिकम्माणमिदि वयणेण सिद्धसरूवत्तादो । अदो चैव सामित्तविसयाणुभागस्स वि तत्तो बहुत्तमिदि णासंकण्णिज्जं, चिराणसंताभावेण णवकबंधमेत्तस्स पयत्तजण्णिदस्स तत्तो थोवभावसंकमेण णाइयत्तादो अंतोसुहुत्तसंजुत्ते वि सुहुमस्स हेट्ठदो संतकम्ममिदि सुत्तवयणादो च । संजुत्तपढमसमए वि

हे, क्योंकि मन्द संक्लेशरूप परिणाम ही यहाँ पर विशुद्धिरूपसे विवक्षित किया गया है । उक्त प्रकारसे संयुक्त होकर जिसे एक आवलि काल हुआ है वह प्रकृतमे जघन्य स्वामी है क्योंकि संयुक्त होनेके प्रथम समयमे जो नवकवन्ध होता है उसका एक आवलिके वाद वहाँ पर जघन्यरूपसे संक्रम देखा जाता है । इससे आगे जघन्य स्वामित्वका सम्बन्ध करना शक्य नहीं है, क्योंकि संयुक्त होनेके द्वितीय आदि समयोंमे संक्लेशकी वृद्धि हो जानेसे अनुभागवन्ध बढ़ जाता है, इसलिए उसमें संक्रमके योग्य जघन्यपना नहीं पाया जाता ।

शंका—मिथ्यात्व आदि प्रकृतियोंके समान सूक्ष्म एकेन्द्रियके हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ भी यहाँ पर जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि घात करनेसे शेष वचा हुआ वहाँका प्राचीन अनुभागसत्कर्म इससे अनन्तगुणा होता है, इसलिए उसकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्व करना शक्य नहीं है ।

शंका—वह अनन्तगुणा है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है । यदि ऐसा न होता तो वही पर स्वामित्वके विधान करनेका प्रसङ्ग आता है ।

इतने कथनसे अनन्तानुबन्धियोंके विसंयोजनासम्बन्धी अन्तिम अनुभागकाण्डकमे जघन्य स्वामित्वके विधानविषयक आशंकाका निराकरण हो जाता है, क्योंकि वहाँका अनुभाग सूक्ष्म एकेन्द्रियके अनुभागसे भी अनन्तगुणा देखा जाता है । और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 'सुहुमाणुभागमुवरि अंतरमकदे दु घादिकम्माणं' इसवचनसे वह सिद्धस्वरूप ही है । यदि कोई ऐसी आशंका करे कि इस वचनसे तो स्वामित्वविषयक अनुभागका भी उस (सूक्ष्म एकेन्द्रिय) के अनुभागसे अधिकपना बन जाता है सो ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राचीन सत्कर्मका अभाव होनेसे प्रयत्नजनित जो नवकवन्ध होता है उसका उससे स्तोकरूपसे संक्रम होना उचित है तथा 'संयुक्त होनेके अन्तर्मुहूर्त वाद भी सत्कर्म सूक्ष्म एकेन्द्रियके

सेसकसायाणमणुभागो चिराणसंतसरुवो अणंताणुबंधिणवकबंधस्सुवरि संक्रमंतओ अत्थित्तेण पचवट्ठेयं, 'बंधे संक्रमो' ति णायादो, बंधाणुसारेणेव परिणदस्स तस्स जहण्णभावाविरोहितादो । तदो दिगंतरपरिहारेणेत्थेव सामित्तमिदि णिवरज्जं ।

❀ कोहसंजलणस्स जहण्णणुभागसंकामओ को होइ ?

§ ६१. सुगमं ।

❀ चारिमाणुभागबंधस्स चरिमसमयअणिल्लेवगो ।

§ ६२. कोहवेदयस्स जो अपच्छिमो अणुभागबंधो सो चरिमाणुभागबंधो णाम । सो वुण किट्टिसरुवो, कोहतदियकिट्टिवेदएण णिवत्तिदत्तादो । तस्स चरिमाणुभागबंधस्स चरिमसमयअणिल्लेवगो ति भगिदे माणवेदगद्वाए दुसमयूणदोआवलियाणं चरिमसमए वट्टमाणओ घेत्तवो । सो पयदजहण्णसामिओ होइ । एत्थ जइ वि सुत्ते सोदएण सामित्तमिदि त्रिसेसिऊग ण भणिदं तो वि१ सोदएणेव सामित्तमिह गहेयव्वं, सेसकसायोदएण चट्ठिदखवयम्मि फदयसरुवेणेव णिल्लेविज्जमाणकोहसंजलणणुभागस्स जहण्णभावाणुवलद्वीदो ।

❀ एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।

सत्कर्मसे कम होता है' इस सूत्रवचनसे भी वैसा होना उचित है । यद्यपि संयुक्त होनेके प्रथम समयमे ही शेष कषायोंका प्रचीन सत्तारूप अनुभाग अनन्तानुबन्धियोंके नवकवन्धके ऊपर संक्रम करता हुआ रहता है ऐसा निश्चित होता है, क्योंकि 'वन्धमे संक्रम होता है' ऐसा न्याय है । परन्तु वह वन्धके अनुसार ही परिणत हो जाता है, इसलिए उसके जघन्य होनेमें कोई विरोध नहीं आता, इसलिए अन्य विवक्षाके परिहारद्वारा प्रकृतमे ही जघन्य स्वामित्व वनता है यह कथन निर्दोष है ।

* क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ६१. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तिम अनुभागवन्धका अन्तिम समयवर्ती अनिलेपक जीव क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ६२. क्रोधवेदक क्षपकका जो अन्तिम अनुभागवन्ध है उसकी यहाँ 'चरमानुभागवन्ध' संज्ञा है । परन्तु वह कृष्टिस्वरूप है, क्योंकि क्रोधकी तीसरी कृष्टिके वेदक जीवके द्वारा वह निर्वृत्त हुआ है । उसको अन्तिम अनुभागवन्धका अन्तिम समयवर्ती अनिलेपक ऐसा कहने पर मानवेदक कालके दो समय कम दो आवलि कालके अन्तिम समयमे विद्यमान जीव लेना चाहिए । वह प्रकृतमे जघन्य स्वामी है । यहाँ पर सूत्रमे यद्यपि स्वोदयसे स्वामित्व होता है ऐसा विशेषण लगाकर नहीं कहा है तो भी यहाँ पर स्वोदयसे स्वामित्वको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि शेष कषायोंके उदयसे चढ़े हुए क्षपकके क्रोधसंज्वलनका अनुभाग स्वर्धकरूपसे ही निर्लेपनको प्राप्त होता है, इसलिए उसमे जघन्यपना नहीं बन सकता ।

* इसी प्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेदका जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ६३. खरगचरिमाणुभागग्रंथचरिमसमयगिन्लेगमिमि जहण्णभावं पडि विसेसा-
भावादो । णरि माणसंजलणस्स कोह-माणोदएहि मायासंजलणस्स वि कोह-माण-माया-
संजलणाणं तिण्हमण्णदरोदएण चडिदमिमि जहण्णसामित्तं होइ ।

❀ लोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंकामओ को होइ ?

§ ६४. सुगमं ।

❀ समयाहियावलियचरिमसमयसकसाओ खवगो ।

§ ६५. कुदो एत्थ जहण्णभावो ? ण, सुहुमकिट्ठीए अणुसमयमगंतगुणहाणिसरूवेण
अंतोमुहुत्तमेत्तकालमोवडिदाए तत्थ सुहु जहण्णभावेण संकमुवलंभादो ।

❀ इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभागसंकामओ को होइ ?

§ ६६. सुगमं ।

❀ इत्थिवेदखवगो तस्सेव चरिमाणुभागखंडए वट्टमाणओ ।

§ ६७. एत्थिवेदविसेसणमणत्थयं, परोदएण वि सामित्तविहाणे विरोहाभावादो
त्ति णासंकणिज्जं, उदाहरणपदंसणट्टमेदस्स परूवणादो ।

§ ६३. क्योंकि क्षपकसम्बन्धी अन्तिम अनुभागवन्धका अन्तिम समयमें निरूपण करने-
वाले जीवके जघन्य अनुभागसंक्रम होता है इस अपेक्षासे क्रोधसंज्वलनसे यहाँ कोई विशेषता नहीं
है। इतनी विशेषता है कि क्रोध या मानके उदयसे चढ़े हुए जीवके मानसंज्वलनका तथा क्रोध,
मान और माया इन तीनोंमें से किसी एकके उदयसे चढ़े हुए जीवके मायासंज्वलनका जघन्य स्वामित्व
होता है। -

* लोभसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ६४. यह सूत्र सुगम है ।

* एक समय अधिक आवलि कालके रहने पर अन्तिम समयपूरी संक्रामक क्षपक
जीव लोभसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ६५. शंका—यहा पर जघन्यपना कैसे है ।

समाधान—नह, क्योंकि सूक्ष्म कृष्टिकी उत्तरोत्तर प्रति समय अनन्तगुणहानिस्वरूपसे
अन्तर्मुहूर्त कालतक अपवर्तना होनेके कारण वहाँ पर अत्यन्त जघन्यरूपसे संक्रम प्राप्त हो जाता है ।

* स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ६६. यह सूत्र सुगम है ।

* उसीके अन्तिम अनुभागफण्डकमें विद्यमान स्त्रीवेदी क्षपक जीव स्त्रीवेदके
जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ६७ यदि कोई ऐसी आशंका करे कि यहा पर स्त्रीवेद विशेषण निरर्थक है, क्योंकि परोदयसे
भी स्वामित्वका विधान करने पर कोई विरोध नहीं आता सो उसकी ऐसी आशंका करना ठीक नहीं
है, क्योंकि उदाहरण दिखलानेके लिए यह कथन किया है ।

❖ णवुंसयवेदस्स जहणणाणुभागसंकामओ को होइ ?

§ ६८. सुगमं ।

❖ णवुंसयवेदस्स खवओ तस्सेव चरिसे अणुभागखंडए वट्टमाणओ ।

§ ६९. गेह खयस्स णवुंसयवेदस्सिसणमणत्थयं, सोदएण सामित्तविहाणफलत्तादो । परोदएण सामित्तणिद्वेसो किण्ण कीरदे ? ण, तत्थ पुव्वमेव विणस्संतस्स णवुंसयवेदस्स जहण्णभावाणुवलद्वीदो ।

❖ छरणोकसायाणं जहणणाणुभागसंकामओ को होइ ?

§ १००. सुगमं ।

❖ खवगो तेसिं चेव छरणोकसायवेदणीयाणं चरिसे अणुभागखंडए वट्टमाणओ ।

§ १०१. एत्थ चरिमाणुभागखंडए सव्वत्थ जहणणाणुभागसंकमो अवट्टिदसरूवेण लब्भइ ति तत्थ जहण्णसामित्तं दिण्णं । एसो अत्थो णवुंसय-इत्थिवेदसामित्तसुत्तेसु वि जोजेयव्वो । एवमोवेण जहण्णसामित्तं गयं ।

* नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ६८. यह सूत्र सुगम है ।

* उसी के अन्तिम अनुभागकाण्डकमें स्थित नपुंसकवेदी क्षपक जीव नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ ६९. यहा पर क्षपकका नपुंसकवेद विशेषण निरर्थक नहीं है, क्योंकि स्वोदयसे स्वामित्वके विधान करनेका फल देखा जाता है ।

शंका—परोदयसे स्वामित्वका निर्देश क्यों नहीं करते हैं ।

समाधान—नहीं, क्योंकि परोदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़ा हुआ जीव पहले ही नपुंसकवेदका नाश कर देता है, इसलिए उसके जघन्यपना नहीं बन सकता ।

* छह नोकपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ १००. यह सूत्र सुगम है ।

* उन्हीं छह नोकपायवेदनीयके अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान क्षपक जीव उनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है ।

§ १०१. यहां अन्तिम अनुभागकाण्डकमें सर्वत्र जघन्य अनुभागसंक्रम अवस्थितरूपसे प्राप्त होता है, इसलिए उसमें जघन्य स्वामित्व दिया है । यह अर्थ नपुंसकवेद और स्त्रीवेदविषयक स्वामित्वसम्बन्धी सूत्रोंमें भी लगा लेना चाहिए ।

इसप्रकार ओषसे जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ ।

§ १०२. आदेसेण गेरइय० विहत्तिभंगो । णवरि सम्म०-अणंताणु०४ ओघं । एवं पढमाए । विदियादि जाव सत्तमि ति विहत्तिभंगो । णवरि अणंताणु०४ ओघं । तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खर विहत्तिभंगो । णवरि सम्म०-अणंताणु०४ ओघं । एवं जोणिणीसु । णवरि सम्म० णत्थि । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० विहत्तिभंगो । मणुस०३ ओघं । णवरि मिच्छ०-अट्ठकसाय० विहत्तिभंगो । मणुसिणीसु पुरिस० छण्णोकसायभंगो । देवाणं पारयभंगो । एवं भवण०-त्राण० । णवरि सम्म० णत्थि । जोदिसि० विदियपुढविभंगो । सोहम्मादि जाव णवरोज्जा ति विहत्तिभंगो । णवरि सम्म०-अणंताणु०४ ओघं । उवरि विहत्तिभंगो । णवरि सम्म० ओघं । अणंताणु०४ जह० अणुभागसंकमो कस्स ? अणंताणुबंधि विसंजोएंतस्स चरिमाणुभागखंडए वट्टमाणयस्स । एवं जाव० ।

§ १०२. आदेशसे नारकियोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नाकियोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उनमें अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चद्विकमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इसी प्रकार योनिनी तिर्यञ्चोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्वका जघन्य अनुभागसंक्रम नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उनमें मिथ्यात्व और आठ कपायोंका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । तथा मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदका भङ्ग छह नोकपायोंके समान है । देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इसीप्रकार भवनवासी और व्यन्तरदेवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्वका जघन्य अनुभागसंक्रम नहीं है । ज्योतिषियोंमें दूसरी पृथिवीके समान भङ्ग है । सौधर्म कल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । आगेके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्वका भङ्ग ओघके समान है । उनमें अनन्तानुवन्धी चतुष्कके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ? जो अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाला जीव अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान है वह उनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—नरकगति आदि गतिसम्बन्धी सब अवान्तर मार्गणाओंमें जिन प्रकृतियोंका जघन्य स्वामित्व अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है उसका इतना ही तात्पर्य है कि जिस प्रकार अनुभागविभक्ति अनुयोगद्वारमें जघन्य अनुभागसत्कर्मके स्वामित्वका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ जघन्य अनुभागसंक्रमकी अपेक्षा स्वामित्वका निर्देश कर लेना चाहिए । मात्र जिन प्रकृतियोंकी अपेक्षा जघन्य स्वामित्वमें अनुभागविभक्तिसे अन्तर है उनके जघन्य स्वामित्वका अलगसे निर्देश किया है । उदाहरणार्थ सामान्यसे नारकियोंमें सम्यक्त्वके अनुभागसत्कर्मका जघन्य स्वामित्व दर्शनमोहनीयकी क्षणोंके अन्तिम समयमें स्थित जीवके और अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अनुभागसत्कर्मका जघन्य स्वामित्व प्रथम समयमें संयुक्त हुए तत्प्रायोग्य विशुद्ध जीवके बतलाया है । किन्तु इन अवस्थाओंमें यहाँ पर सम्यक्त्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कके जघन्य अनुभागसंक्रमका

❀ एयजीवेण कालो ।

§ १०३. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ १०४. सुगमेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ जहणणुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १०५. जहण्णेण ताव उक्कस्साणुभागं वंधिदूणावलियादीदसंकामेमाणेण सव्वलहु-
मणुभागखंडेण घादिदे अंतोमुहुत्तमेत्तो उक्कस्साणुभागसंकामयजहणणकालो लद्धो होइ । एत्तो
संखेज्जगुणो उक्कस्सकालो होइ, उक्कस्साणुभागं वंधिऊण खंडयघादेण विणा सुट्ठु बहुअं
कालमच्छंतस्स? वि अंतोमुहुत्तादो उवरिमवट्ठाणासंभवादो ।

❀ अणुक्कस्साणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ १०६. सुगमं ।

स्वामित्व नहीं बन सकता, क्योंकि न तो दर्शनमोहनीयकी क्षणिके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वके अनुभागका संक्रम सम्भव है और न ही संयुक्त होनेके प्रथम समयमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अनुभागका संक्रम सम्भव है, इसलिए यहाँ पर नारकियोंमें इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमके स्वामित्वको ओषके समान जाननेकी अलगसे सूचना की है । खुलासा जघन्य संक्रम प्रकरणके ओषको देख कर लेना चाहिए । इसी प्रकार अन्यत्र जहाँ जो विशेषता कही गई है उसका विचार कर लेना चाहिए । यहाँ पर योनिनी तिर्यञ्चों तथा भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सम्यक्त्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका निषेध किया है सो उसका वह तात्पर्य है कि इन मार्गणाओंमें कृतकृत्य-वेदकसम्यग्दृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता, इसलिए वहाँ सम्यक्त्वका और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम नहीं बनता । यह विशेषता द्वितीयादि पृथिवियोंमें और ज्योतिषी देवोंमें भी जाननी चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

* एक जीवकी अपेक्षा काल ।

§ १०३. अधिकारकी संहाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रामकका कितना काल है ?

§ १०४. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १०५. उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके एक आवलिके बाद संक्रम करता हुआ यदि अतिशीघ्र अनुभागकाण्डकका घात करता है तो भी उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होता है । तथा इससे संख्यातगुणा उत्कृष्ट काल होता है, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके काण्डकघातके विना यदि बहुत काल तक रहता है तो भी अन्तर्मुहूर्तसे अधिक काल तक रहना सम्भव नहीं है ।

* इसके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ १०६. यह सूत्र सुगम है

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १०७. उक्कस्साणुभागसंक्रमादो खंडयघादवसेणाणुकस्ससंक्रामयत्तमुवणामिय पुणो वि सवरहस्सेण कालेग उक्कस्साणुभागसंक्रामयत्तमुवणयम्मि तदुवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण अपंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ १०८. उक्कस्साणुभागसंक्रमादो खंडयघादवसेणाणुकस्सभावमुवणयस्स एइंदिय-वियलिंदिएसु उक्कस्साणुभागबंधविरहिएसु असंखेज्जपोग्गलपरियट्ठमेत्तकालमणुकस्सभावव-ट्ठाणदंसणादो ।

❀ एवं सोलसकसाय-एवणोकसायाणं ।

§ १०९. सुगममदमप्पणासुत्तं ।

❀ सम्मत्त-सम्मासिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ।

§ ११०. सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १११. तं जहा—एको णिस्संतकम्मियसिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्तं पडवज्जिय सम्माइट्ठि-पढमसमए मिच्छत्ताणुभागं सम्मत्त-सम्मासिच्छत्तसरूवेण परिणमाविय विदियसमयप्पहुडि

* जघन्य काल अन्तमुहूर्त है ।

§ १०७. क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमसे काण्डकघातके द्वारा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रमको प्राप्त हो कर जो फिर भी अतिशीघ्र कालके द्वारा उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमको प्राप्त होता है उसके अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त पाया जाता है ।

* तथा उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है ।

§ १०८. क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमसे काण्डकघातवश अनुत्कृष्ट अनुभागको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागवन्धसे रहित एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें असंख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण काल तक परिभ्रमण करनेवाले जीवके उतने काल तक मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभाग संक्रममें अवस्थान देखा जाता है ।

* इसी प्रकार सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका काल जानना चाहिए ।

§ १०९. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ ११०. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल अन्तमुहूर्त है ।

§ १११. यथा—जिसके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता नहीं है ऐसा एक मिथ्यादृष्टि जीव प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त कर तथा सम्यग्दृष्टि होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्वके अनुभागको सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे परिणमा कर और दूसरे समयसे उनके उत्कृष्ट

तदुक्कस्साणुभागसंकामओ होदूणसव्वलहुं दंसणमोहकखणं पट्टविय पढमाणुभागखंडयं घादिय अणुक्कस्साणुभागसंकामओ जादो, लद्धो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंकामयजहण्ण-कालो अंतोमुहुत्तमेत्तो ।

❀ उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ११२. तं कथं? एको णिस्संतकम्मियमिच्छाइट्ठी सम्मत्तं धेत्तणुक्कस्साणुभागसंकामओ जादो । तदो कमेण मिच्छत्तं गंतूण पलिदोवमस्स असंखे० भागमेत्तकालं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लेमाणो संमयाविरोहेण सम्मत्तं पडिवण्णो पढमछावट्टिं परिभमिय मिच्छत्तं गंतूण पलिदोवम० असंखे० भागमेत्तकालमुव्वेल्लणाए परिणामिय पुव्वं व सम्मत्तं धेत्तूण विदियछावट्टिं परिभमिय तदवसाणे मिच्छत्तं पडिवण्णो सव्वुक्कस्सेणुव्वेल्लणकालेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लिदूण असंकामगो जादो, लद्धो तीहि पलिदो० असंखे० भागेहि अब्भहियवेछावट्टिसागरोवममेत्तो पयदुक्कस्सकालो ।

❀ अणुक्कस्साणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ ११३. सुगमं ।

❀ जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

अनुभागका संक्रामक होकर तथा अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षणका प्रस्थापक होकर और प्रथम अनुभागकाण्डकका घात करके अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया । इस प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमक जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त हो गया ।

* तथा उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ ११२. शंका—यह काल कैसे प्राप्त होता है ?

समाधान—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित एक मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको प्राप्त करके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया । अनन्तर क्रमसे मिथ्यात्वको प्राप्त कर पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण काल तक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करता हुआ यथाविधि सम्यक्त्वको प्राप्त हो गया और प्रथम छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण करके पुनः मिथ्यात्वमे जाकर पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण काल तक उक्त दोनों कर्मोंकी उद्वेलना करने लगा । पुनः पहलेके समान सम्यक्त्वको प्राप्त करके और दूसरी बार छयासठ सागर काल तक उसके साथ भ्रमण करके उसके अन्तर्में मिथ्यात्वको प्राप्त हो गया । तथा वहां सबसे उत्कृष्ट उद्वेलना कालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करके उनका असक्रामक हो गया । इस प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका तीन बार पल्यके असंख्यातर्वे भागसे अधिक दो छयासठ सागर कालप्रमाण उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है ।

* उनके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ ११३. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ११४. दंसणमोहकखवणाए पढमाणुभागखंडयं घादिय तदणंतरसमए अणुकस्साणु-
भागसंकामयत्तमुवगयस्स विदियाणुभागखंडयप्पहुडि जाव चरिमाणुभागखंडयचरिमफालि
त्ति ताव सम्मामिच्छत्तस्स अणुकस्साणुभागसंकामयकालो घेतव्यो । एवं सम्मत्तस्स वि । णवरि
जाव समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीओ ताव भवदि ।

एवमोघो समत्तो ।

§ ११५. आदेसेण सव्वत्थ विहत्तिभंगो ।

✽ एत्तो एयजीवेण कालो जहणणओ ।

§ ११६. एत्तो उक्खस्सकालणिदेसादो उवरि एयजीवेण जहणणाणुभागसंकामयकालो
विहासियव्वो त्ति वुत्तं होइ ।

✽ मिच्छत्तस्स जहणणाणुभागसंकामओ केवच्चिरं कालादो होदि ?

§ ११७. सुगमं ।

✽ जहणणुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ११८. जहणणेण ताव सुहुमेइं दियस्स हदसमुप्पत्तियकम्मेण जहणणओ? अवट्ठाण-
कालो अंतोमुहुत्तमेत्तो होइ । उक्खस्सेण हदसमुप्पत्तियं कादूण सव्वुकस्सेण संतस्स हेइदो

§ ११४. दर्शनमोहनीयकी क्षणामे प्रथम अनुभागकाण्डकका घात करके तदनन्तर समयमे
जो अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया है उसके दूसरे अनुभागकाण्डकसे लेकर अन्तिम अनुभाग-
काण्डककी अन्तिम फालि तक तो सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रम करानेका काल
ग्रहण करना चाहिए । तथा इसी प्रकार सम्यक्त्वके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रमका काल भी ग्रहण
करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसकी अपेक्षा दर्शनमोहनीयकी क्षणामें एक समय अधिक
एक आवलि काल शेष रहने तक यह काल होता है ।

इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ११५. आदेशकी अपेक्षा सर्वत्र अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—अनुभागविभक्तिमें नरकगति आदि मार्गणाओंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट
अनुभागसत्कर्मका जो जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है वह अविकल यहाँ बन जाता है, इसलिए
यहाँ पर उसे अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है ।

* आगे एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल कहते हैं ।

§ ११६. 'एत्तो' अर्थात् उत्कृष्ट कालका निर्देश करनेके बाद एक जीवकी अपेक्षा जघन्य
अनुभागके संक्रामकके कालका व्याख्यान करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ ११७. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ११८. सर्व प्रथम जघन्य कालका खुलासा करते हैं—सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक
कर्मके साथ जघन्य अवस्थान काल अन्तर्मुहूर्त है । अब उत्कृष्ट कालका खुलासा करते हैं—

१ आ०प्रतौ जहणणदो ता० प्रतौ जहणणदो (ओ) इति पाठः ।

अवट्टाणकालो जहणगकालादो संखेज्जगुगो घेतव्वो । ततो उवरि णियमेण बंधवुड्डीए अजहण्णाणुभागसमुप्पत्तीदो ।

❀ अजहण्णाणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ ११६. सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १२०. जहण्णाणुभागसंकमादो अजहण्णसंकामयभावमुवणमिय पुगो सव्वजहण्णेण कालेण हदसमुप्पत्तीए कदे तदुवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।

१२१. एयवारं हदसमुप्पत्तियपाओग्गपरिणामेण परिणदस्स पुगो सेसपरिणामेसु उक्कसावट्टाणकालो असंखेज्जलोगमेत्तो होइ ।

❀ एवमड्ढकसायाणं ।

§ १२२. जहा मिच्छत्तस्स जहण्णाजहण्णाणुभागसंकामयकालो परूविदो तथा अड्ढकसायाणं पि परूवेयव्वो, सुहुमेइंदियहदसमुप्पत्तियकम्मेण जहण्णसामित्तं पडि भेदाभावादो ।

❀ सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ?

कर्मको हतसमुत्पत्तिक करके सत्कर्मके नीचे सर्वोत्कृष्ट अवस्थान काल जवन्य कालकी अपेक्षा संख्यात-गुणा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बन्धकी वृद्धि हो जानेके कारण नियमसे अजवन्य अनुभागकी उत्पत्ति हो जाती है ।

* उसके अजवन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ ११६. यह सूत्र सुगम है ।

* जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १२०. क्योंकि जवन्य अनुभागके संक्रमसे अजवन्यके संक्रामकभाजको प्राप्त होकर पुनः सबसे जवन्य कालके द्वारा हतसमुत्पत्तिक करने पर उक्त काल प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ १२१. क्योंकि एक बार हतसमुत्पत्तिकके योग्य परिणामसे परिणत हुए जीवके शेष परिणामोंमें रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है ।

* इसी प्रकार मध्यकी आठ कषायोंका काल जानना चाहिए ।

§ १२२. जिस प्रकार मिथ्यात्वके जवन्य और अजवन्य अनुभागके संक्रामकका काल कहा है उसी प्रकार आठ कषायोंके कालका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ जवन्य स्वामित्व उभयत्र समान है, इस अपेक्षासे दोनों स्थलोंमें कोई विशेषता नहीं है ।

* सम्यक्त्वके जवन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ १२३. सुगमं ।

❀ जहणुणुक्कस्सेण एमसमओ ।

§ १२४. कुदो ? समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयं मोत्तूण पुञ्जावरकोडीसु तदसंभवणियमादो ।

❀ अजहणणाणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ १२५. सुगमं

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १२६. णिस्संतकम्मियमिच्छाइड्डिणा सम्मत्ते समुप्पाइदे लद्धप्पसहावस्स सम्मत्ता-जहणणाणुभागसंकमस्स सञ्चलहुं खण्णाए जहणणाणुभागसंकमेण विणासिदत्तभावस्स तेत्तिय-मेत्तकालावट्ठाणदंसणादो ।

❀ उक्कस्सेण वेत्थावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ १२७. उक्कस्साणुभागसंकमकालस्सेव एदस्स परूवणा कायव्या ।

❀ एवं सम्मामिच्छत्तस्स ।

§ १२८. जहा सम्मत्तस्स जहण्णाजहणणाणुभागसंकामयकालपरूवणा कया तथा सम्मामिच्छत्तस्स वि कायव्या ति भणिदं होइ । संपहि एत्थतणविसेसपरूवणइमुत्तरमुत्तं—

§ १२३. यह सूत्र सुगम है ।

* जवन्व्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ १२४. क्योंकि कालकी अपेक्षा एक समय अधिक आयलिते युक्त दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवको छोड़कर उससे पूर्वके और आगेके समयोंमें सम्यक्त्वके जवन्व्य अनुभागका संक्रम असम्भव है ऐसा नियम है ।

* उसके अजवन्व्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ १२५. यह सूत्र सुगम है ।

* जवन्व्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १२६. जो सम्यक्त्वकी सत्तासे रहित मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वके उत्पन्न होने पर उसकी सत्ता प्राप्त करके सम्यक्त्वका अजवन्व्य अनुभागसंक्रम करने लगता है । तथा जो अतिशीघ्र क्षपणामें जवन्व्य अनुभागसंक्रमके द्वारा अजवन्व्य अनुभागसंक्रमको नष्ट कर देता है उसके उतने काल तक अजवन्व्य अनुभागसंक्रमका अवस्थान देखा जाता है ।

* उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ १२७. उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके कालके समान इसकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

* इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका काल जानना चाहिए ।

§ १२८. जिस प्रकार सम्यक्त्वके जवन्व्य और अजवन्व्य अनुभागके संक्रामकके कालका कथन किया है उसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भी करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब यहाँ सम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❖ एवरि जहणणाणुभागसंकाभओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ १२६. सुगमं ।

❖ जहणणुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १३०. दंसणमोहक्खवयचरिमाणुभागखंडए तदुवलंभादो ।

❖ अणंताणुबंधोणं जहणणाणुभागसंकाभओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ १३१. सुगमं ।

❖ जहणणु कस्सेण एयसमओ ।

§ १३२ विसंजोयणापुरस्सरं जहण्णभावेण संजुत्तपढमसमयाणुभागबंधसंकमे लद्ध-
जहण्णभावत्तादो

* अजहणणाणुभागसंकाभयस्स तिणिण भंगा ।

§ १३३. तं जहा—अणादिओ अपज्जवसिदो, अणादिओ सपज्जवसिदो, सादिओ सपज्जवसिदो चेदि । तत्थ मूलिल्लदोभंगा सुगमा ति तदियभंगगयविसेसपरूवणड्डमुत्तरसुत्तं—

* तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो सो जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १३४. तं जहा—जहणगादो अजहण्णभावमुवणामिय पुणो वि सव्वल्लहं विसंजोयणाए परिणदो लद्धो पयदजहण्णकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो ।

* किन्तु इतनी विशेषता है कि इसके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ १२६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १३०. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षयणा करनेवाले जीवके अन्तिम अनुभागकाण्डकमें अन्तर्मुहूर्त काल पाया जाता है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ १३१. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ १३२. क्योंकि विसंयोजनापूर्वक संयुक्त होनेके प्रथम समयमें जो जघन्य अनुभागबन्ध होता है उसके संक्रममें जघन्यपना पाया जाता है ।

* उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकके तीन भङ्ग हैं ।

§ १३३. यथा अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त । उनमेंसे मूलके दो भङ्ग सुगम हैं, इसलिए तृतीय भङ्गगत विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* उनमेंसे जो सादि-सान्त भङ्ग है उसका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १३४. यथा—जघन्यसे अजघन्यभावको प्राप्त होकर फिर भी जो अतिशीघ्र विसंयोजनाके द्वारा परिणत हुआ है उसके प्रकृत जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त हुआ ।

* उक्त्सेण उवडुपोग्गलपरियट्टं ।

§ १३५. कुदो ? अद्वपोग्गलपरियट्टादिसमए पढमसम्मत्तं धेतूणुवसमसम्मत्तकाल-
व्भंतरे चेष विसंजोइय पुणो वि सव्वलहं संजुत्तो होदूण आदिं करिय अद्वपोग्गलपरियट्टं
परिभमिय तदवसाणे अंतोमुहुत्तसेसे संसारे विसंजोयणापरिणदम्मि तदुवलंभादो ।

❁ चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं जहणणाणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो
होदि ?

§ १३६ सुगमं ।

* जहणणुक्त्सेण एयसमओ ।

§ १३७. कुदो ? तिण्हं संजलणाणं पुरिसवेदस्स च चरिमाणुभागबंधचरिमफालीए
लोहसंजलणस्स वि समयाहियावलिउसकसायम्मि तदुवलद्वीदो ।

* अजहणणाणुभागसंकामओ अणंताणुबंधीणं भंगो ।

§ १३८. जहा अणंताणुबंधीणमजहणणाणुभागसंकामयस्स तिण्णि भंगा परूविदा तहा
एदेसिं पि परूवणा कायव्वा, विसेसाभावादो ।

* इत्थि-णवुंसयवेद-छुण्णोकसायाणं जहणणाणु भागसंकामओ केवचिरं
कालादो होदि ?

* उत्कृष्ट काल उपार्थपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ १३५. क्योंकि अर्धपुद्गलपरिवर्तन कालके प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण कर और
उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही विसंयोजनाकर फिर भी अतिशीघ्र संयुक्त होकर जिसने
अनन्तानुबन्धियोंके अजवन्य अनुभागसंक्रमका प्रारम्भ किया है । पुनः उसके साथ कुछ कम अर्ध-
पुद्गलपरिवर्तन काल तक परिभ्रमणकर उक्त कालके अन्तमे संसारमे अन्तमुर्हूर्त शेष रहनेपर जो
पुनः विसंयोजनासे परिणत हुआ है उसके उतना काल उपलब्ध होता है ।

* चार संज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ?

§ १३६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ १३७. क्योंकि तीन संज्वलन और पुरुषवेदसम्बन्धी अन्तिम अनुभागबन्धकी अन्तिम
फालिके समय तथा लोभसंज्वलनकी भी सकपाय अवस्थामे एक समय अधिक एक आवलि काल
शेष रहनेपर उक्त काल उपलब्ध होता है ।

* उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका अनन्तानुबन्धियोंके समान भङ्ग है ।

§ १३८. जिस प्रकार अनन्तानुबन्धियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामकके तीन भङ्ग कहे
हैं उसी प्रकार इनकी भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि इसमे कोई विशेषता नहीं है ।

* स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और छह नोकपायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकका
कितना काल है ?

§ १३६. सुगमं ।

* जहणुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १४०. कुदो ? खवगचरिमाणुभागखंडयम्मि अंतोमुहुत्तुकीरणद्रापडिवद्धम्मि लद्ध-
जहण्णभावत्तादो ।

* अजहण्णणु भागसंकामयस्स तिण्णिण भंगां ।

§ १४१. सुगममेदं ।

* तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो सो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १४२. सव्वोवसामणादो परिवदिय सव्वजहण्णंतोमुहुत्तकालमजहण्णं संकामिय पुणो
खवगसेठि चडिय जहण्णभावेण परिणदम्मि तदुवलद्वीदो ।

* उक्कस्सेण उवड्ढुपोग्गलपरियट्टं ।

§ १४३. सव्वोवसामणादो परिवदिय अद्धपोग्गलपरियट्टं परिभमिय तदवसाणे
असंकामयत्तमुवगयम्मि तदुवलंभादो ।

एवमोघो समत्तो ।

§ १४४. आदेसेण सव्वणेरइय०-सव्वतिरिक्ख०-मणुसअपज्ज०-देवा जाव उवरिम-
गेवजा ति विहत्तिभंगो । मणुसतिण्णि मिच्छत्त०-अट्ठक० जह० ज० एगसमओ, उक्क० अंतोमु० ।
अज० ज० एगसमओ, मिच्छत्त०-अंतोमु०^१, उक्क० सगाड्ढिदी । सम्म०-अट्ठक०-पुरिस० जह०

§ १३६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

§ १४०. क्योंकि अन्तमुहूर्तप्रमाण उत्कीरणकालसे युक्त क्षपकसम्बन्धी अन्तिम अनुभाग-
काण्डकमे उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमकी प्राप्ति हुई है ।

* उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकके तीन भङ्ग हैं ।

§ १४१. यह सूत्र सुगम है ।

* उनमेंसे जो सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है ।

§ १४२. क्योंकि सर्वोपशमनासे गिरकर और सबसे जघन्य अन्तमुहूर्त कालतक अजघन्य
अनुभागका संक्रमक जो पुनः क्षपकश्रेणि पर चढ़कर जघन्य अनुभागका संक्रामक हुआ है उसके
उक्त-काल उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट काल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ १४३. सर्वोपशमनासे गिरकर तथा अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल तक परिभ्रमण करके उसके
अन्तमें जो उनका असंक्रामक हुआ है उसके उक्त काल उपलब्ध होता है ।

इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ १४४. आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देव और उपरिम त्रैविक-
तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य
अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है । अजघन्य अनुभाग-
संक्रमका आठ कषायोंका एक समय तथा मिथ्यात्वका अन्तमुहूर्त और सबका उत्कृष्ट काल अपनी

जहण्णु० एयसमओ । अट्टणोक०-सम्मामि० जह० जहण्णु० अंतोमु० । तेसिं चैव अज०
जह० एयस०, उक्क० सगट्टिदी । अणुदिसादि सव्वट्ठा ति विहत्तिभंगो । एवं जाव० ।

* एत्तो एयजीवेण अंतरं ।

अपनी कायस्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्व, आठ कपाय और पुरुषवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा आठ नोकपाय और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभाग-संक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है और सम्यक्त्व आदि उन्हीं सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अनाहारक-मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ पर मनुष्यत्रिकमे सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रमके कालका अलगसे निर्देश किया है । खुलासा इस प्रकार है—यह सम्भव है कि कोई जीव सूक्ष्म एकेन्द्रियके हतसमुत्पत्तिक अनुभागके साथ मनुष्यत्रिकमे कमसे कम एक समय तक और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहूर्त तक रहे, इसलिए तो इनसे मिथ्यात्व और मध्यकी आठ कषायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । तथा इनमें मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त इनकी जघन्य आयुकी अपेक्षा आठ कषायोंका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेणिकी अपेक्षा और सबका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण कायस्थितिकी अपेक्षा कहा है । सम्यक्त्व तथा चार अनन्तानुवन्धी और चार संज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय इस लिए कहा है, क्योंकि इनका जघन्य अनुभागसंक्रम एक समयके लिए ही प्राप्त होता है जो स्वामित्वको देख कर जान लेना चाहिए । तथा सम्यक्त्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा, अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय अपने स्वामित्वके अनुसार इनमें एक समय तक रखनेकी अपेक्षा तथा चार संज्वलनके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेणिकी अपेक्षा कहा है । इनके अजघन्य अनुभाग-संक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी उत्कृष्ट कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । सम्यग्मिथ्यात्व और आठ नोकपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त इसलिए कहा है, क्योंकि वह अपने-अपने अन्तिम काण्डकके पतनके समय होता है जो स्वामित्वको देख कर जान लेना चाहिए । तथा सम्यग्मिथ्यात्वके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा और आठ नोकपायोंके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय उपशमश्रेणिकी अपेक्षा कहा है । इनके अजघन्य अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । यहाँ पर जहाँ उद्वेलनाकी अपेक्षा एक समय काल कहा है सो उसका यह भाव है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उद्वेलनासंक्रममें एक समय शेष रहने पर मनुष्यत्रिकमे उत्पन्न करावे और इनके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय ले आवे । इसी प्रकार जहाँ पर उपशमश्रेणिकी अपेक्षा एक समय काल कहा है सो इसका यह अभिप्राय है कि उपशमश्रेणिमें उतरते समय यथास्थान उस प्रकृतिका एक समय तक अजघन्य अनुभागसंक्रम करावे और दूसरे समयमें मरण कराकर देवगतिमें ले जावे । शेष कथन अनुभाग-विभक्तको देख कर घटित कर लेना चाहिए ।

* आगे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका कथन करते हैं ।

§ १४५. अहियारसंभालणसुत्तमेदं सुगमं ।

* मिच्छत्तस्स उक्कस्साणु भागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १४६. सुगमं ।

* जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १४७ तं जहा—उक्कस्साणुभागसंकामओ अणुक्कस्सभावं गंतूण जहण्णमंतोमुहुत्तमंतरिय पुणो वि उक्कस्साणुभागस्स पुव्वं व संकामओ? जादो, लद्धमुक्कस्साणुभागसंकामय-जहण्णंतरमंतोमुहुत्तमेत्तं ।

* उक्कस्सेण असंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ १४८. तं कथं ? सण्णी पंचिदिओ उक्कस्साणुभागं वंधिय संकामेमाणो कंडय घादेण अणुक्कस्से णिवदिय एइंदिएसु अणंतकालमच्छिदूण पुणो सण्णिपंचिदियपज्जत्तए-सुप्पज्जिय उक्कस्साणुभागं वंधिदूण संकामओ जादो तस्स लद्धमंतरं होइ ।

❀ अणुक्कस्साणु भागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १४९. सुगमं ।

❀ जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १४५. अधिकारकी संहाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर काल है ?

§ १४६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १४७. यथा—कोई उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक जीव अनुत्कृष्ट अनुभागको प्राप्त होकर और जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल तक उत्कृष्टका अन्तर करके फिर भी पहलेके समान उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया । इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त प्राप्त हो गया ।

* उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ १४८. शंका—वह कैसे ?

समाधान—कोई संज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीव उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके उसका संक्रम करता हुआ तथा काण्डकघातके द्वारा अनुत्कृष्टको प्राप्त होकर और उसके साथ एकेन्द्रियोंमें अनन्त काल तक रह कर पुनः संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तथा उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध कर उसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार उसका अन्तरकाल प्राप्त होता है ।

* उसके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १४९. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १५० तं जहा—अणुकस्ससंक्रामओ उकस्सं काऊणंतोमुहुत्तकालं उकस्समेव संक्रामिय पुगो कंडयघादेगाणुकस्ससंक्रामओ जादो, लद्धमंतरं होइ । णवरि जहणंतरे इच्छिउज्जमाणे सव्वलहुमेर कंडयघादो करावेयवो । उकस्संतरे त्रियक्खिण्ण सव्वचिरेणंतोमुहुत्तेण कंडयघादो करावेयवो ।

❀ एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं ।

§ १५१. जहा मिच्छत्तुकस्साणुभागसंक्रामयाणं जहणुकस्संतरपरुवणा कया तथा एदेसिं पि कम्माणं कायव्वा त्ति भणिदं होइ । संपहि अणुकस्साणुभागसंक्रामयगयविसेस-परुवणइमुत्तरसुत्तं—

❀ एवरि बारसकसाय-णवणोकसायाणमणु कस्साणु भागसंक्रामयंतरं जहणणेण एयसमओ ।

§ १५२. अप्पणो सव्वोवसामणाए एयसमयमंतरिय विदियसमए कालं काऊण देवेसुप्पणपढमसमए पुणो वि संक्रामयत्तमुवगयम्मि तदुवलंभादो ।

❀ अणं ताणुबंधीणमणुकस्साणुभागसंक्रामयंतरं जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १५०. यथा—मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव उसका उत्कृष्ट अनुभाग करके और अन्तर्मुहूर्त काल तक उत्कृष्ट अनुभागका ही संक्रम करके पुनः काण्डकघातके द्वारा अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया । इस प्रकार मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जाता है । मात्र इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तरकी विवक्षा होने पर अति शीघ्र काण्डकघात कराना चाहिए । तथा उत्कृष्ट अन्तरकी विवक्षा होने पर बहुत बड़े अन्तर्मुहूर्तके द्वारा काण्डकघात कराना चाहिए ।

* इसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

§ १५१. जिस प्रकार मिथ्यात्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरका कथन किया है उसी प्रकार इन कर्मों का भी कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इन कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकसम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि बारह कषायों और नौ नोकषायोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ १५२. क्योंकि अपनी-अपनी सर्वोपशामनाके द्वारा एक समयका अन्तर करके और दूसरे समयमे मरकर देवोंमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे पुनः इनका संक्रम प्राप्त होने पर उक्त कर्मोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १५३. तं कथं ? अणुकस्साणुभागं संक्रामंतो विसंजोइय पुणो अंतोमुहुत्तेण संजुत्तो होदूण संक्रामगो जादो, लद्धमंतरं ।

❀ उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ १५४. तं कथं ? उवसमसम्मत्तकालम्भंतरे अणंताणुवंधि विसंजोएदूण वेछावट्टीओ भमिय मिच्छत्तं गंतूणावलियादीदं संक्रामेमाणस्स लद्धमंतरं । एत्थ सादिरेयपमाणमंतोमुहुत्तं ।

❀ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १५५. सुगमं ।

❀ जहणणोणेयसमओ ।

§ १५६. तं जहा—सम्मत्तमुव्वेज्जलमाणो उवसमसम्मत्ताहिमुहो होऊणंतरकरणं परि-समाणिय मिच्छत्तपढमट्टिदिचरिमसमयम्मि सम्मत्तचरिमफालिं संक्रामिय उसमवसम्मत्तगहण-पढमसमए असंक्रामओ होऊगंतरिय पुणो विदियसमए उक्कस्साणुभागसंक्रामओ जादो, लद्ध-मंतरं होइ । एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि जहण्णमंतरपरूवणा कायव्या ।

§ १५३. शंका—वह कैसे ?

समाधान—अनुकृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करके और पुनः अन्तर्मुहूर्तमें उनसे संयुक्त होकर उनका संक्रामक हो गया । इस प्रकार इनके अनुकृष्ट अनुभागके संक्रामकका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त हो जाता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ १५४. शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करके तथा दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके बाद मिथ्यात्वको प्राप्त होकर एक आवलि-कालके बाद इनका संक्रम करनेवाले जीवके उक्त अन्तर काल प्राप्त हो जाता है । यहाँ पर साधिकका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ १५५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ १५६. यथा—सम्यक्त्वकी उद्वेलना करनेवाला कोई एक जीव उपशम सम्यक्त्वके अभि-मुख होकर तथा अन्तरकरणको समाप्त कर मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी अन्तिम फालिका संक्रम करके उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके प्रथम समयमें असंक्रामक हो गया और इस प्रकार उसका अन्तर करके पुनः दूसरे समयमें उसके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया । इस प्रकार सम्यक्त्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका जवन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके जवन्य अन्तरका भी कथन करना चाहिए ।

❀ उक्त्सेण उवड्ढुपोग्गलपरियटं ।

§ १५७. तं कथं ? अद्रुपोग्गलपरियट्टादिसमए पढमसम्मत्तं पडिवज्जिय सच्चलहुं मिच्छत्तं गंतूण सम्मतसम्मामिच्छत्ताणि उव्वेल्लिय अंतरस्सादिं कादूण उवड्ढुपोग्गलपरियट्टं परिभमिय पुणो थोवावसेसे संसारे उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो विदियसमयम्मि संकामओ जादो, लद्धमुक्त्संतरमुवड्ढुपोग्गलपरियट्टमेत्तं ।

❀ अणुक्त्साणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १५८. सुगमं ।

❀ एत्थि अंतरं ।

§ १५९. कुदो ? दंसणमोहक्खवणाए लद्धाणुक्त्सभावत्तादो ।

एवमोघो समत्तो ।

§ १६०. आदेसेण सव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

❀ एत्तो जहणणयंतरं ।

§ १६१. उक्त्साणुभागसंकामयंतरविहासणाणंतरमेत्तो जहणगाणुभागसंकामयंतरं कायव्वमिदि वुत्तं होइ ।

* उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ १५७. शंका—वह कैसे ?

समाधान—अर्धपुद्गलपरिवर्तनके प्रथम समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होकर तथा अतिशीघ्र मिथ्यात्वमे जाकर और सम्यक्त्व तथा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वे लना करके अन्तरका प्रारम्भ किया । पुनः उपार्धपुद्गलपरिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके संसारके स्तोक रह जाने पर पुनः उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होकर दूसरे समयमे उनका संक्रामक हो गया । इस प्रकार इनके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण प्राप्त हो जाता है ।

* इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ।

§ १५८. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तरकाल नहीं है ।

§ १५९. क्योंकि इनका अनुत्कृष्ट अनुभाग दर्शनमोहनीयकी क्षणामे प्राप्त होता है ।

इस प्रकार ओष प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ १६०. आदेशसे सब मार्गणाओंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार अनुभागविभक्तिमें नरकगति आदि मार्गणाओंमे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकालका कथन किया है उसी प्रकार यहाँ भी उसे अविकल जान लेना चाहिए । अन्तरकालकी अपेक्षा उससे यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है ।

* आगे जघन्य अन्तरका कथन करते हैं ।

§ १६१. उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकके अन्तरका कथन करनेके वाद आगे जघन्य अनुभागके संक्रामकके अन्तरका कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀ मिच्छत्तस्स जहणणाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १६२. सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १६३. तं जहा—सुहुमेइं दियहदसमुप्पत्तियजहणणाणुभागसंकामादो अजहण्णभावं गंतूण पुणो वि अंतोमुहुत्तेण घादिय सव्वजहणणाणुभागसंकामओ जाओ, लद्धमंतरं होइ ।

❀ उक्खस्सेण असंखेज्जा लोगा ।

§ १६४. तं कथं ? जहणणाणुभागसंकामओ अजहण्णभावं गंतूण तप्पाओग्गपरिणाम-
द्वाणेसु असंखेज्जलोगमेत्तं कालं गमिय पुणो हदसमुप्पत्तियपाओग्गपरिणामेण जहण्णभावमुवगओ
तस्स लद्धमंतरं होइ ।

❀ अजहणणाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १६५. सुगमं ।

❀ जहण्णुक्खस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १६६. तं जहा—अजहणणाणुभागसंकामओ जहण्णभावमुवगंतूण तत्थ जहण्णुक्खस्से-
णंतोमुहुत्तमच्छिय पुणो अजहण्णभावेण परिणदो, तत्थ लद्धमंतरं होइ ।

* मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १६२. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १६३. यथा—सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिकरूप जघन्य अनुभागके संक्रमसे अजघन्य अनुभागको प्राप्त होकर फिर भी अन्तर्मुहूर्तके द्वारा घात कर कोई जीव सबसे जघन्य अनुभागका संक्रामक हो गया । इस प्रकार मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त हो जाता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ १६४. शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि जघन्य अनुभागका संक्रामक जो जीव अजघन्य अनुभागको प्राप्त होकर और तत्प्रायोग्य परिणामस्थानोंमें असंख्यात लोकप्रमाण कालको गमा कर पुनः हतसमुत्पत्तिक अनुभागके परिणामके योग्य जघन्य अनुभागको प्राप्त हुआ है उसके उक्त उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है ।

* उसके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १६५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १६६. यथा—अजघन्य अनुभागका संक्रामक कोई एक जीव जघन्य अनुभागको प्राप्त होकर और वहाँ जघन्य और उत्कृष्टरूपसे अन्तर्मुहूर्त काल तक रह कर पुनः अजघन्य अनुभागवाला हो गया । इस प्रकार उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है ।

❀ एवमद्वकसायाणं ।

§ १६७. कुदो ? सामित्तभेदाभावादो । एत्युवल्लभमाणथोवयरविसेसपदुप्पायण्डु-
मिदमाह—

❀ एवरि अजहणणाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १६८. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ १६९. सव्वोवसामणाए अंतरिदस्स तदुवल्लंभादो ।

❀ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जहणणाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं
कालादो होदि ।

§ १७०. सुगमं ।

❀ एत्थि अंतरं ।

§ १७१. कुदो ? खवणाए जादजहणणाणुभागसंक्रामयस्स पुणरुत्थवाभावादो ।

❀ अजहणणाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १७२. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ । उक्कस्सेण उवडुपोग्गलपरियटं ।

इसी प्रकार आठ कषायोंका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

§ १६७. क्योंकि मिथ्यात्वके स्वामीसे इनके स्वामीमे कोई भेद नहीं है । अब यहाँ पर प्राप्त होनेवाली थोड़ीसी विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* कितु इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १६८ यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ १६९ क्योंकि सर्बोपशमनाके द्वारा अन्तरको प्राप्त हुए जीवके उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १७०. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तरकाल नहीं है ।

§ १७१. क्योंकि क्षणामे उत्पन्न हुए जघन्य अनुभागसंक्रमकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती ।

* उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १७२. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ १७३ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❀ अणंताणुबंधीणं जहणणाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १७४. सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १७५ तं जहा—अणंताणुबंधीणं संजुत्तपढमसमयणवक्कंधमावलियादीदं जहण्णभावेण संक्रामिय तत्तो विदियादिसमएसु अजहण्णभावेणंतरिय पुणो वि सव्वलहुएण कालेण विसंजोयणापुव्वं तप्पाओग्गजहण्णपरिणामेण संजुत्तो होऊगावलियादिकंतो जहण्णाणुभागसंकामओ जादो, लद्धमंतरं होइ ।

❀ उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

§ १७६. तं जहा—पुव्वुत्तेणेव विहिणा आदिं कोडूणंतरिय उवड्डुपोग्गलपरियट्टं परिभमिय थोवावसेसे सिज्झिदव्वए त्ति सम्भत्तं पडिवज्जिय अणंताणुबंधिविसंजोयणापुरस्सरं परिणामपच्चएण संजुत्तो होऊग आवलियादिकंतो जहण्णाणुभागसंकामओ जादो, लद्धमुक्कस्संतरं होइ ।

❀ अजहण्णाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १७७. सुगमं ।

§ १७३. ये दोनों सूत्र सुगम हैं ।

❀ अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १७४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य अन्तर अन्तमु हर्त है ।

§ १७५ यथा—अनन्तानुबन्धियोंके संयुक्त होनेके प्रथम समयमे हुए नवकवन्ध एक आवलिके वाद जघन्यरूपसे संक्रम करके तथा उसके वाद द्वितीयादि समयोंमें अजघन्य अनुभागसंक्रमके द्वारा उसका अन्तर करके फिर अतिशीघ्र कालके द्वारा विसंयोजनापूर्वक तत्प्रायोग्य जघन्य परिणामसे संयुक्त होकर एक आवलिके वाद जो पुनः जघन्य अनुभागका संक्रामक हो गया उसके उक्त जघन्य अन्तर प्राप्त होता है ।

❀ उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ १७६. यथा—पूर्वोक्त विधिसे ही जघन्य अनुभागसंक्रमका प्रारम्भ करके और अन्तर करके उपार्धपुद्गलपरिवर्तन कालतक परिभ्रमण करके सिद्ध होनेके लिए स्तोत्रक काल शेष रह जाने पर सम्यक्त्वको प्राप्त होकर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनापूर्वक परिणामवश उससे संयुक्त होकर एक आवलिके वाद जघन्य अनुभागका संक्रामक हो गया । इस प्रकार उक्त उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जाता है ।

❀ इनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १७७. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १७८. तं जहा—अजहण्णाणुभागसंक्रामओ अणंताणुबंधीणं विसंजोयणाणमंतरिय पुणो वि सव्वलहुं संजुत्तो होऊग जहण्णाणुभागसंक्रामओ जादो, लद्धमंतरं ।

❀ उक्कस्सेण वेछावडिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ १७९. तं जहा—उवसमसम्मत्तकालव्भंतरे, चेय अणंताणुचउकं विसंजोइय वेदयसम्मत्तं घेत्तण वेछावडिसागरोवमाणि परिभमिय तदवसोणे मिच्छत्तं गंतूणावलियादीदं संक्रामेमाणस्स लद्धमुक्कस्समंतरं होइ । एत्थ सादिरेयपमाणमंतोमुहुत्तं ।

❀ खेसाणं कम्माणं जहण्णाणु भागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १८०. सुगमं ।

❀ एत्थि अंतरं ।

§ १८१. कुदो ? खवणाए जादजहण्णाणुभागत्तादो ।

❀ अजहण्णाणु भागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १८२. सुगमं ।

* जहणणेण एयसमओ ।

§ १८३. सव्वोवसामणाए एयसमयमंतरिय विदियसमए कालं कादूण देवेसुप्पणपढम-समए संक्रामयत्तमुवगयम्मि तदुवलंभादो ।

* जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ १७८. यथा—अजघन्य अनुभागका संक्रामक जीव अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना द्वारा अन्तर करके फिर भी अतिशीघ्र संयुक्त होकर अजघन्य अनुभागका संक्रामक हो गया । इस प्रकार उक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है ।

* तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ १७९. यथा—उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके तथा वेदकसम्यक्त्वको ग्रहण कर दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर उसके अन्तमे मिथ्यात्वमें जाकर एक आवलिके बाद संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है । यहाँ साधिकका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त है ।

* शेष कर्मोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ।

§ १८०. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तरकाल नहीं है ।

§ १८१. क्योंकि इनका जघन्य अनुभाग क्षणामें होता है ।

* इनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ?

§ १८२. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ १८३. क्योंकि सर्वोपशमना द्वारा एक समयका अन्तर करके दूसरे समयमे मरकर देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे संक्रम करनेवाले जीवके उक्त अन्तर प्राप्त होता है ।

* उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १८४. सव्वोवसामणाए सव्वचिरकालमंतरिय पडिघादवसेण पुणो संकामयत्तमुब-
गयस्स पयदंतरसमाणणोवलंभादो ।

एवमोघो समत्तो ।

§ १८५. आदेसेण सव्वणेरइय०-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-सव्वदेवा त्ति विहत्ति-
भंगो । मणुसतिए दंसणतिय-अणंताणु०४ विहत्तिभंगो । वारसक-णवणोक० जह० पात्थि
अंतरं । अजह० जहणु० अंतोमु० । एवं जाव० ।

* सणियासो

§ १८६. अहियारपरामरससुत्तमेदं सुगमं ।

* मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागं संकामेतो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जइ
संकामओ णियमा उक्कस्सयं संकामेदि ।

§ १८७. मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसंकामओ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सिया संतकम्मिओ
सिया असंतकम्मिओ । संतकम्मिओ वि सिया संकामओ, आवलियपविट्ठसंतकम्मियस्स वि

* उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है ।

§ १८४. क्योंकि सर्वोपशमनाके द्वारा अधिक काल तक अन्तर करके गिरनेके कारण पुनः
संक्रम करनेवाले जीवके प्रकृत अन्तरकाल पाया जाता है ।

इस प्रकार ओवप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ १८५. आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमें अनुभाग-
विभक्तिके समान भङ्ग हैं । मनुष्यत्रिकमे दर्शनमोहनीयत्रिक और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग
अनुभागविभक्तिके समान हैं । वारह कपाय और नौ नोकपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका अन्तर-
काल नहीं है । अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है । इसी प्रकार
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—जो सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ मनुष्यत्रिकमे उत्पन्न
होता है उसके मध्वकी आठ कपायोंका जघन्य अनुभागसंक्रम पाया जाता है । तथा चार संज्वलन
और नौ नोकपायोंका जघन्य अनुभागसंक्रम क्षपकश्रेणिमे उपलब्ध होता है, इसलिए मनुष्यत्रिकमे
उक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमके अन्तरका निषेध किया है । तथा यहाँ पर उक्त प्रकृतियोंके
अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर उपशमश्रेणिमें अन्तमु हूर्तप्रमाण प्राप्त होता
है, इसलिए यह उक्त कालप्रमाण कहा है । शेष अन्तर अनुभागविभक्तिके समान होनेसे उसके
अनुसार जाननेकी सूचना की है ।

* अब सन्निकर्षका कथन करते हैं ।

§ १८६. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव यदि सम्यक्त्व और
सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रम करता है तो वह नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करता है ।

§ १८७. मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव सम्यक्त्व और सम्य-
ग्मिथ्यात्वका कदाचित् सत्कर्मवाला होता है और कदाचित् उनके सत्कर्मसे रहित होता है । सत्कर्म-
वाला भी कदाचित् संक्रामक होता है, क्योंकि जिस जीवके उक्त कर्मोंका सत्कर्म आवलिके भीतर

संभवोवर्लभादो । जइ संकामथो णियमा सो उक्कस्सं संकामेइ, दंसणमोहक्खवणादो अण्णत्थ तदक्कस्सणुसभावाप्यत्तीदो ।

* सेसाणं कम्माणं उक्कस्सं वा अण्णक्कस्सं वा संकामेदि ।

§ १८८. कुदो ? मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसंकामयम्मि सोलसक०-णवणोक्कसायाण-मुक्कस्साणुभागस्स तत्तो छट्ठाणहीणाणुभागस्स वि विसेसपच्चयवसेण संभवं पडि विरोहाभावादो ।

* उक्कस्सादो अण्णक्कस्सं छट्ठाणपदिदं ।

§ १८९. उक्कस्साणुभागसंकमं पेक्खिऊण छट्ठाणपदिदमणुक्कस्साणुभागं संकामेइ ति वुत्तं होइ । किं कारणं ? गिरुद्धमिच्छत्तुक्कस्साणुभागं संकामयम्मि विवक्खियपयडीणमणुभागस्स छट्ठाणहाणिवंधसंभवं पडि विप्पडिसेहाभावादो । एधं मिच्छत्तेण सह सेसकम्माणं सण्णियास-विहाणं काऊण तेसिं पि पादेक्कणिरुंभणेण सण्णियासविहाणमेवं चैव कायव्वमिदि परूवेदुमुत्तरसुत्तमाह—

* एवं सेसाणं कम्माणं णादूण णेदव्वं ।

§ १९०. एदं संगहणयावर्लं विसुत्तं । एदस्स विहासणट्टमुच्चारणाणुगममेत्थ कस्सामो ।

प्रविष्ट हो गया है ऐसे जीवका भी सद्भाव पाया जाता है । यदि संक्रामक होता है तो वह नियमसे उनके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करता है, क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणको छोड़ कर अन्यत्र उनका अनुत्कृष्ट अनुभाग नहीं बनता ।

* वह शेष कर्मोंके उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रम करता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रम करता है ।

§ १८८. क्योंकि जो मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम कर रहा है उसके सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके विशेष प्रत्ययवशा उत्कृष्ट अनुभागके और उससे छह स्थान हीन अनुभागके पाये जानेमें कोई विरोध नहीं आता ।

* किन्तु उत्कृष्टसे अनुत्कृष्ट अनुभाग छह स्थानपतित होता है ।

§ १८९. उत्कृष्टानुभागसंक्रमको देखते हुए छह स्थानपतित अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि जो विवक्षित मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम कर रहा है उसके विवक्षित प्रकृतियोंके छह स्थानपतित अनुभागवन्धके होनेका कोई निषेध नहीं है । इस प्रकार मिथ्यात्वके साथ शेष कर्मोंके सन्निकर्षका विधान करके अब उन कर्मोंमेंसे भी प्रत्येकको विवक्षित कर सन्निकर्षका विधान इसी प्रकार करना चाहिए ऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इसी प्रकार शेष कर्मोंकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानकर कथन करना चाहिए ।

§ १९०. यह संग्रहनयका अवलम्बन करनेवाला सूत्र है । इसका व्याख्यान करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका अनुगम करते हैं । यथा—सन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट ।

तं जहा—सण्णियासो दुविहो, जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिद्वेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छत्तस्स उक्क० अणुभागसंका० सम्म०-सम्मामि० सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि सिया संका० । जइ संका० णियमा उक्कस्सं । सोलसक०-णवणोक० णियमा संका० तं तु छट्ठाणपदिदं । एवं सोलसक०-णवणोक० । सम्म० उक्कस्साणुभाग० संका० मिच्छ० णियमा० तं तु छट्ठाणपदिदं । वारसक०-णवणोक० सिया तं तु छट्ठाणपदिदं । अणंताणु०४ सिया अत्थि० । जइ अत्थि सिया संका० तं तु छट्ठाणपदिदं । सम्मामि० णियमा उक्कस्सं । एवं सम्मामि० । णवरि सम्म० सिया अत्थि । जदि अत्थि सिया संका० । जइ संका० णियमा उक्क० । एवं गोरइय० । णवरि सम्मामि० णत्थि । सम्मा० ओघं । णवरि वारसक०-णवणोक० णियमा तं तु छट्ठाणपदिदा । एवं पढमा०-

उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाले जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व कदाचित् हैं और कदाचित् नहीं है। यदि हैं तो उनका कदाचित् संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता है तो नियमसे उनके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका नियमसे संक्रामक होता है। किन्तु वह उनके उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो उनके छह स्थानपतित अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सोलह कपाय और नौ नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक जीव मिथ्यात्वका नियमसे संक्रामक होता है। किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो वह नियमसे छह स्थानपतित अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। वारह कपाय और नौ नोकपायोंका कदाचित् संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है तो वह नियमसे छह स्थानपतित अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित् हैं और कदाचित् नहीं हैं। यदि हैं तो उनका कदाचित् संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो नियमसे छह स्थानपतित अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। सम्यग्मिथ्यात्वका नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक्त्वप्रकृति कदाचित् है और कदाचित् नहीं है। यदि है तो उसका कदाचित् संक्रामक होता है और कदाचित् संक्रामक नहीं होता। यदि संक्रामक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वप्रकृति नहीं है। सम्यक्त्वकी मुख्यतासे भङ्ग ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि वह वारह कपाय और नौ नोकपायोंका नियमसे संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो वह नियमसे छह स्थानपतित अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार पहिली पृथिवी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चद्विक, सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे

तिरिक्ख-पंचिदियतिरि० दुग्-देवा सोहम्मादि जाव सहस्सार ति । एवं विदियादि जाव सत्तमा ति । णवरि सम्म० णत्थि । एवं जोणिणी-पंचि० तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-भवण०-त्राण०-जोदिसि० ति ।

§ १६१. मणुसतिए ओघं । आणदादि जाव णवगेवज्जा० ति मिच्छ० उक्क० अणुभा० संका० सम्म० सिया अत्थि सिया णत्थि । जइ अत्थि सिया संका० । जइ संका० णियमा उक्क० । सोलसक०-णवणोक० णियमा उक्क० । एवं सोलसक०-णवणो० । सम्म० उक्क० अणुभा० संका० मिच्छ०-वारसक०-णवणोक० णियमा तं तु उक्कस्सादो अणुक्कस्समणंतगुणहीणं । अणंताणु०४ सिया अत्थि । जदि अत्थि सिया संका० । जदि संका० तं तु उक्कस्सादो अणुक्कस्समणंतगुणहीणं ।

§ १६२. अणुदिसादि सव्वड्ढा ति मिच्छ० उक्कस्साणु० संका० सम्म०-सोलसक०-णवणोक० णियमा उक्कस्सं । एघं सोलसक०-णवणोक० । सम्म० उक्क० अणुभागसंका० वारसक०-णवणोक० णियमा तं तु उक्कस्सादो अणुक्कस्समणंतगुणहीणं । अणंताणु०४ सिया

लेकर सहस्वार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियों जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वप्रकृति नहीं है । इसी प्रकार योनिनी तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त, भवनवासी देव, व्यन्तर देव और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए ।

§ १६१. मनुष्यत्रिकमे ओघके समान भङ्ग है । आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकके सम्यक्त्व कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । यदि है तो कदाचित् संक्रामक होता है । यदि संक्रामक होता है तो नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है । सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है । इसी प्रकार सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सम्यक्त्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायोंका नियमसे संक्रामक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो वह अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है । अनन्तानुवन्धीचतुष्क कदाचित् हैं और कदाचित् नहीं हैं । यदि हैं तो कदाचित् संक्रामक होता है और कदाचित् संक्रामक नहीं होता । यदि संक्रामक होता है तो कदाचित् उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और कदाचित् अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो वह अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है ।

§ १६२. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक जीव सम्यक्त्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है । इसी प्रकार सोलह कपाय और नौ नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । सम्यक्त्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक जीव बारह कपाय और नौ नोकषायोंका नियमसे संक्रामक होता है । किन्तु वह उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन

अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि सिया संका० । जदि संका० तं तु उक्खादो अणुक्खस्स-
मणंतगुणहीणं । एवं जाव० ।

✽ जहण्णओ खण्णियासो ।

§ १६३. एत्तो जहण्णसण्णियासो कायव्यो त्ति भण्णिदं होइ । संपहि पयडि-
परिवाडीए तण्णिदेसकरणहुत्तरो सुत्तपवंधो—

✽ मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागं संकामेत्तो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जइ
संकामओ णियमा अजहण्णाणुभागं संकामेदि ।

§ १६४. कुदो ? मिच्छत्तजहण्णाणुभागसंकामयसुहुमेइं दियहदसमुत्पत्तियसंत-
कम्मियम्मि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्खाणुभागसंकमस्सेव संभवदंसणादो ।

✽ जहण्णादो अजहण्णमणंतगुणव्वहियं ।

§ १६५. जहण्णादो अणंतगुणव्वहिययेजजहण्णाणुभागं संकामेदि, सम्म-सम्मा-
मिच्छत्ताणमुक्खाणुभागस्स तत्थ वि विणहुसरूवेण संकतिदंसणादो ।

✽ अट्ठणं कम्माणं जहण्णं वा अजहण्णं वा संकामेदि ।

अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है । अनन्तानुवन्धीचतुष्क कदाचित् हैं और कदाचित् नहीं हैं । यदि हैं तो उनका कदाचित् संक्रामक होता है और कदाचित् संक्रामक नहीं होता । यदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है तो अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है । इसी प्रकार अनाहारकमार्गणा तक जानना चाहिए ।

✽ अब जघन्य अनुभागसंक्रमके सन्निकर्षका कथन करते हैं ।

§ १६३. आगे जघन्य अनुभागसंक्रम करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब प्रकृतियोंकी परिपाटीके अनुसार उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध है—

✽ मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका यदि संक्रामक होता है तो नियमसे अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ।

§ १६४. क्योंकि मिथ्यात्वके सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक सत्कर्मरूप जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम ही सम्भव देखा जाता है ।

✽ जो जघन्यकी अपेक्षा अनन्तगुणे अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ।

§ १६५. जघन्यकी अपेक्षा अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका ही संक्रम करता है, क्योंकि वहाँ पर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका अविनष्टरूपसे संक्रम देखा जाता है ।

✽ आठ कर्मोंके जघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनु-
भागका भी संक्रामक होता है ।

§ १६६. कुदो ! मिच्छत्तेण समाणसामियत्ते वि विसेसपच्चयवसेणेदेसिमणुभागस्स तत्थ जहण्णोजहण्णभावसिद्धीए विरोहाभावादो ।

❀ जहण्णादो अजहण्णं छट्ठाणपदिदं ।

§ १६७. एत्थ छट्ठाणपदिदमिदि वुत्ते कत्थ वि जहण्णादो अणंतभागव्वहियं, कत्थ वि असंखेज्जभागव्वहियं, कत्थ वि संखेज्जभागव्वहियं, कत्थ वि संखेज्जगुणव्वहियं, कत्थ वि असंखेज्जगुणव्वहियं, कत्थ वि अणंतगुणव्वहियं च अजहण्णाणुभागं१ संक्रामेदि त्ति घेत्तव्वं, अंतरंगपच्चयवसेण जहण्णभावपाओग्गविसए वि पयदवियप्पाणमुप्पत्तीए पडिद्वंधाभावादो ।

❀ सेसाणं कम्मणं णियमा अजहण्णं । जहण्णादो अजहण्णमणंतगुणव्वहियं ।

§ १६८. वुत्तसेसकसाय-णोकसायाणमिह ग्गहण्डं सेसकम्मणिदेसो । तेसिमेत्थ जहण्णभावसंभवारैयणिरायरण्डं णियमा अजहण्णव्वयणं । तत्थ वि अणंतभागव्वहियादिवियप्पसंभवणिरायरण्डमणंतगुणव्वहियणिदेसो कदो । कुदो वुण तदणंतगुणव्वहियत्तमिदि णासंक्रणिज्जं, विसंजोयणाणुपुव्वसंजोगे खवणाए च लद्धजहण्णभावणमणंताणुव्वंधियादीणमेत्थाणंतगुणत्तसिद्धीए पडिसेहाभावादो ।

§ १६६. क्योंकि इनके जघन्य अनुभागके संक्रमका स्वामी मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रमके स्वामीके समान है तो भी विशेष प्रत्ययवश वहाँ पर इनका अनुभाग जघन्य भी सिद्ध होता है और अजघन्य भी सिद्ध होता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता ।

* यदि अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है तो जघन्यकी अपेक्षा छह स्थान पतित अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ।

§ १६७ यहाँ पर छह स्थानपतित ऐसा कहने पर जघन्यसे कहीं पर अनन्तवें भाग अधिक, कहीं पर असंख्यातवें भाग अधिक, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक, कहीं पर संख्यातगुणे अधिक, कहीं पर असंख्यातगुणे अधिक और कहीं पर अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्तरङ्ग कारण वश जघन्य अनुभागके योग्य स्थानमें भी प्रकृत विकल्पोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

* शेष कर्मोंके नियमसे अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है जो जघन्यकी अपेक्षा अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ।

§ १६८. पूर्वमें कहे गये कर्मोंसे शेष कपायों और नोकपायोंका यहाँ पर ग्रहण करनेके लिए सूत्रमें 'शेष' पदका निर्देश किया है । उनका यहाँ पर जघन्य अनुभाग सम्भव है ऐसी आशंकाके निराकरण करनेके लिए 'नियमसे अजघन्य' यह वचन दिया है । उसमें भी अनन्तवें भाग आदि विकल्प सम्भव हैं, इसलिए उनका निराकरण करनेके लिए 'अनन्तगुणे अधिक' पदका निर्देश किया है । उनका अनुभाग अनन्तगुणा कैसे है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विसंयोजनाके बाद पुनः संयोगके समय तथा क्षणोंके समय जघन्य अनुभागको प्राप्त होनेवाले अनन्तानुवन्धी आदिके अनुभागसे यहाँ पर अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें किसी प्रकारका प्रतिषेध नहीं है ।

१ ता०-आ०प्रत्यो च जहण्णाणुभाग इति पाठः ।

❀ एवमट्टकसायाणं ।

§ १६६. जहा मिच्छत्तस्स जहण्णसण्णियासो कओ एवमट्टकसायाणं पि पादेक्क-
णिहंभणाए कायव्वो, विसेसाभावादो त्ति भण्णिदं होदि ।

❀ सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागं संकामेत्तो मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-
अरांताणुबंधीणमकम्मंसिओ ।

§ २००. कुदो ? एदेसिमविणासे सम्मत्तजहण्णाणुभागसंकमुप्पत्तीए विप्पडि-
सिद्धत्तादो ।

❀ सेसाणं कम्माणं णियमा अजहण्णं संकामेदि ।

§ २०१. कुदो ? सुहुमहदसमुप्पत्तियकम्मेण चरित्तमोहक्खवणाए च लद्धजहण्ण-
भावाणं तेसिमेत्थ जहण्णभावाणुवलंभादो ।

❀ जहण्णादो अजहण्णमणंतगुणव्वभहियं ।

§ २०२. कुदो ? अट्टकसायाणं हदसमुप्पत्तियजहण्णाणुभागादो सेसकसाय-
णोकसायाणं पि खवणाए जण्णिदजहण्णाणुभागसंक्रमादो एत्थतणतदणुभागसंक्रमस्स तहाभाव-
सिद्धीए विप्पडिसेहाभावादो ।

* इसी प्रकार मध्यस्त्री आठ कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १६६. जिस प्रकार मिथ्यात्वकी मुख्यतासे जघन्य सन्निकर्षका विधान किया है उसी प्रकार आठ कषायोंकी अपेक्षा भी प्रत्येककी मुख्यतासे जघन्य सन्निकर्षका कथन करना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्वके कथनसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* सम्यक्त्वके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके सत्कर्मसे रहित होता है ।

§ २००. क्योंकि इन मिथ्यात्व आदिका विनाश हुए विना सम्यक्त्वके जघन्य अनुभाग संक्रमकी उत्पत्ति निषिद्ध है ।

* शेष कर्मोंके नियमसे अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ।

§ २०१. क्योंकि जिनमें सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मके द्वारा और चारित्र-
मोहनीयकी क्षणिके द्वारा जघन्यता प्राप्त हुई है उनका यहाँ अर्थात् सम्यक्त्वके जघन्य अनुभागसंक्रमके साथ जघन्यपना नहीं बन सकता ।

* जो अपने जघन्यकी अपेक्षा अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ।

§ २०२. क्योंकि आठ कषायोंके हतसमुत्पत्तिक रूपसे उत्पन्न हुए जघन्य अनुभागसे तथा शेष कषाय और नोकषायोंके भी क्षणिकमें उत्पन्न हुए जघन्य अनुभागसंक्रमसे यहाँ पर उत्पन्न हुए उनके जघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्यपना निषिद्ध है ।

❀ एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । एवरि सम्मत्तं विज्जमाणेहि भणियव्वं ।

§ २०३. सम्मत्तसण्णियासे सम्मामिच्छत्तमविज्जमाणेहि मिच्छत्तदीहि सह भणिदं । एत्थ पुण सम्मत्तं विज्जमाणेहि सहाणंतगुणव्भहियाजहण्णाणुभागसंजुत्तं वत्तव्वमिदि भणिदं होइ ।

❀ पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागं संकामंतो चट्टुण्हं कसायाणं णियमा अजहण्णमणंतगुणव्भहियं ।

§ २०४. एत्थ चट्टुण्हं कसायाणमिदि वुत्ते संजल गचउक्कस्स गहणं कायव्वं, पुरिसवेदजहण्णाणुभागसंक्रमे णिरुद्धे सेसक०-गोकसायाणमसंभवादो । तेसिं पुण अजहण्णाणुभागमणंतगुणव्भहियं चैव संकामेदि, उवरि किट्टिपजाएण लद्धजहण्णभावाणमेत्थ तदविरोहादो ।

❀ क्रोधादिति ए उवरिल्लाणं संकामओ णियमा अजहण्णमणंतगुणव्भहियं ।

§ २०५. क्रोधादितिगे संजलणसण्णिगे णिरुद्धे हेट्टिल्लाणं णत्थि सण्णियासो, असंतकम्मि ए तविरोहादो । उवरिल्लाणमत्थि, क्रोहसंजलणे णिरुद्धे माणमाया-लोह-

* इसी प्रकार सभ्यग्मिध्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि यहाँ पर जो सम्यक्त्व सत्कर्मवाले हैं उनके साथ यह सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

§ २०३. सम्यक्त्वकी मुख्यतासे जो सन्निकर्ष होता है उसमें सम्यग्मिध्यात्वसे रहित जीवोंके मिथ्यात्व आदिके साथ यह सन्निकर्ष कहा है । किन्तु यहाँ पर सम्यक्त्वसत्कर्म सहित जीवोंके साथ अनन्तगुणे अधिक जघन्य अनुभागसंक्रम संयुक्त सन्निकर्ष कहना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* पुरुषवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे चार कपायोंके अनन्तगुणे अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है ।

§ २०४. यहाँ पर 'चार कपायोंके' ऐसा कहने पर चार संज्वलनोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पुरुषवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय शेष कपायों और नोकपायोंका सद्भाव नहीं पाया जाता । मात्र तब चार संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका ही संक्रामक होता है, क्योंकि इनका कृष्टिरूपसे जघन्य अनुभागसंक्रम आगे पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर उनके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागसंक्रमके होनेमें विरोध नहीं आता ।

* क्रोधादि तीन संज्वलनोंके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव उपरिम संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है ।

§ २०५. संज्वलन संज्ञावाले क्रोधादित्रिकके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय पूर्ववर्ती सब प्रकृतियोंका सन्निकर्ष नहीं है, क्योंकि उनके सत्त्वसे रहित उक्त जीवके उनका सन्निकर्ष माननेमें विरोध आता है । हाँ उपरिम प्रकृतियोंका सन्निकर्ष है, क्योंकि क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभाग-

संजलणाणं, माणसंजलणे गिरुद्धे माया-लोहसंजलणाणं, मायासंजलणे गिरुद्धे लोहसंजलणस्स संक्रमसंभवोवलंभादो । तत्थाजहण्णभावणियमो अणंतगुणब्भहियत्तं च सुगमं ।

❀ लोहसंजलणे गिरुद्धे एत्थि सण्णियासो ।

§ २०६. तत्थण्णेसिमसंभवादो । सेसकसाय-गोकसायाणं जहण्णसण्णियासो एदेगेव सुत्तेण देसामासयभावेण सूचिदो ।

§ २०७. संपहि एदेण सूचिदत्थस्स फुडीकरणद्वमुच्चारणाणुगममिह कस्सामो । तं जहा—जहण्णए पयदं । दुविहो गिहेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० जह० अणुभागसंक्रा० सम्म०—सम्मामि० सिया अत्थि, सिया णत्थि । जदि अत्थि, सिया संक्रा । जइ संक्रा० णिय० अज० अणंतगुणब्भहियं । अट्टकसा० जह० अजहण्णं वा, जहण्णादो अज० छट्ठाणपदिदा । अट्टक०—णवणोक० णिय० अज० अणंतगुणब्भ० । एवमट्टक० ।

§ २०८. सम्म० जह० अणुभागसंक्रा० वारसक०—णवणोक० णिय० अज० अणंत-गुणब्भं । सेसं णत्थि । सम्मामि० जह० अणुभा०संक्रा० सम्म०—वारसक०—णवणोक० णियमा अज० अणंतगुणब्भ० । सेसा णत्थि । अणंताणुकोध० जह० अणु०संक्रा० दंसणतिय-

संक्रमके समय मान, माया और लोभसंज्वलनोंके, मानसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय माया और लोभ संज्वलनोंके तथा मायासंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय लोभसंज्वलनके संक्रमका सद्भाव पाया जाता है । वहाँ पर विवक्षित प्रकृतिके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय उक्त अन्य प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रमका नियम है और वह अनन्तगुणा अधिक होता है ये दोनों बातें सुगम हैं ।

* लोभसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय अन्य प्रकृतियोंका सन्निकर्ष नहीं होता ।

§ २०६. क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकृतियाँ नहीं पाई जातीं । यह सूत्र देशामर्षक है । शेष कषायों और नोकषायोंकी मुख्यतासे जघन्य सन्निकर्षका इसी सूत्रसे सूचन हो जाता है ।

§ २०७. अब इससे सूचित हुए अर्थको प्रकट करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका कथन करते हैं । यथा—जघन्य सन्निकर्षका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वसत्कर्म कदाचित् हैं और कदाचित् नहीं हैं । यदि हैं तो वह इनका कदाचित् संक्रामक होता है । यदि संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । वह मध्यकी आठ कषायोंके जघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है । यदि अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है तो जघन्यकी अपेक्षा छह स्थानपतित अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । शेष आठ कषाय और नौ नोकषायोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है । इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकको विवक्षित करके सन्निकर्ष कहना चाहिए ।

§ २०८. सम्यक्त्वके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव वारह कषायों और नौ नोकषायोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । वह शेषका सत्कर्मवाला नहीं है । सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव सम्यक्त्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है । वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे

वारसक०—णवणोक० णियमा अज० अणंतगुणब्भ० । तिण्हं कसायाणं जह० अज० वा, जहण्णादो अज० छट्ठाणपदिदा । एवं तिण्हं कसायाणं ।

§ २०६. क्रोहसंज० जह० अणु०संका० तिण्हं संज० णिय० अज० अणंतगुणब्भ० । सेसं णत्थि । माणसंज० जह० अणु०संका० दोण्हं संज० णिय० अज० अणंतगुणब्भ० । सेसं णत्थि । मायासंज० जह० अणु०संका० लोभसंज० णियमा अज० अणंतगुणब्भ० । सेसं णत्थि । लोहसंज० जह० अणुभागसंका० सेसाणमकम्मसिगो ।

§ २१०. णवुंसंजह० अणुभा० संका० सत्तणोक०—चदुसंज० णिय० अज० अणंतगुण० । इत्थिवेद० णिय० जह० । सेसं णत्थि । इत्थिवे० जह० अणु० संका० सत्तणोक०—चदुसंज० णिय० अज० अणंतगुणब्भ० । णवुंसं सिया अत्थि । जदि अत्थि णिय० जहण्णं । सेसं णत्थि । हस्संजह० अणु०संका० पंचणोक० णिय० जह० । पुरिसवेद-चदुसंज० णिय० अज० अणंतगुणब्भहियं । सेसं णत्थि । एवं पंचणोक० । पुरिसवे० जह० अणुभागसंका० चदुसंज० णिय० अज० अणंतगुणब्भ० ।

रहित है। अनन्तानुवन्धीक्रोधके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव तीन दर्शनमोहनीय, चारह कषाय और नौ नोकषायोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। अनन्तानुवन्धी मान आदि तीनके जघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है तो जघन्यकी अपेक्षा छह स्थानपतित अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कषायोंके जघन्य अनुभागको मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए।

§ २०६. क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव शेष तीन संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है। मानसंज्वलनके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव माया आदि दो संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है। माया-संज्वलनके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव लोभसंज्वलनके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है। लोभसंज्वलनके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है।

§ २१०. नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव सात नोकषायों और चार संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है। स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव सात नोकषायों और चार संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। नपुंसकवेद कदाचित् है। यदि है तो नियमसे उसके जघन्य अनुभागका संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है। हास्य प्रकृतिके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे पाँच नोकषायोंके जघन्य अनुभागका संक्रामक होता है। पुरुषवेद और चार संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है। इसी प्रकार शेष पाँच नोकषायोंके जघन्य अनुभागसंक्रामको मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। पुरुषवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे चार संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है। इसी

सेसं णत्थि । एवं मणुस०३ । णवरि मणुसिणी० णवुंस० जह० अणुभागसंका० इत्थिवे० णिय० अज० अणंतगुणम्म० । इत्थिवेद० जह० अणुभा०संका० णवुंस० णत्थि । पुरिसवेद० छण्णोकसायभंगो ।

§ २११. आदेसेण गोरइय० मिच्छ० जह० अणुभागसंका० विहत्तिभंगो । णवरि सम्म० सिया अत्थि । जदि अत्थि सिया संका० । जइ संका० णिय० अज० अणंतगुणम्म० । एवं वारसक०-णवणोक० । सम्म०-अणंताणु०४ विहत्तिभंगो । एवं पढमाए तिरिक्ख०-पंचि०तिरिक्ख०२-देवगदिदेवा । एवं चेत्र जोणिणी-भरण०-त्राणवैतर० । णवरि सम्म० णत्थि ।

§ २१२. विद्यादि सत्तमा त्ति मिच्छ० जह० अणु०संका० अणंताणु०४ सिया अत्थि । जदि अत्थि सिया संका० । जइ संका० जह० अजहण्णं वा, जहण्णादो अजहण्णं छट्ठाणपदिदं । वारसक०-णवणोक० णिय० जह० । एवं वारसक०-णवणोक० । अणंताणु०४ विहत्तिभंगो । एवं जोदिसि० । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० विहत्तिभंगो । सोहम्मादि जाव सव्वट्ठा त्ति विहत्तिभंगो । णवरि अपच्चक्खाणकोह० जह० अणु०संका०

प्रकार ओघ सन्निकर्षके समान मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमे नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे स्त्रीवेदके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । स्त्रीवेदके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव नपुंसकवेदके सत्कर्मसे रहित है । पुरुषवेदका भङ्ग छह नोकषायोंके समान है ।

§ २११. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वप्रकृति कदाचित् है । यदि है तो उसका कदाचित् संक्रामक होता है । यदि संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । इसी प्रकार बारह कषाय और नौ नोकषायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमको मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए । सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जघन्य अनुभागके संक्रामककी मुख्यतासे भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चद्विक और देवगतिमे सामान्य देवोंमे जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार योनिनीतिर्यञ्च, भयनवासी और व्यन्तरदेवोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे सम्यक्त्वका भंग नहीं है ।

§ २१२. दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमे मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवके अनन्तानुबन्धीचतुष्क कदाचित् हैं । यदि हैं तो कदाचित् संक्रामक होता है । यदि संक्रामक होता है तो जघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है । यदि अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है तो जघन्यकी अपेक्षा छह स्थानपतितत अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । बारह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे जघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । इसी प्रकार बारह कषाय और नौ नोकषायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमको मुख्य कर सन्निकर्ष कहना चाहिए । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जघन्य अनुभागसंक्रमको मुख्यकर भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इसी प्रकार ज्योतिषी देवोंमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । सौधर्म कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता

सम्म० सिया अत्थि । जदि अत्थि, सिया संका० । जदि संका० तं तु जहण्णादो अज० अणंतगुणम्म० । एवं जाव० ।

❀ णाणाजीवेहि भंगविचत्रो डुविहो—उक्कस्सपदभंगविचत्रो जहण्णपदभंगविचत्रो च ।

§ २१३. सुगममेदं णाणाजीवभंगविचयस्स जहण्णुकस्साणुभागसंक्रामयविसयत्तेण डुविहत्तपदुप्पाइयं सुत्तं । संपहि दोण्हमेदेसिं भंगविचयाणमट्टपदपरूवणं काऊण तदो उवरिमा परूवणा कायव्वा त्ति जाणावणट्टमुत्तरसुत्तमाह—

❀ तेसिमट्टपदं काऊण ।

§ २१४. तेसिमणंतरणिदिट्ठाणमुक्कस्स-जहण्णपदभंगविचयाणमट्टपदं काऊण पच्छा तदोघादेसपरूवणा कायव्वा त्ति सुत्तत्थसंबंधो । किं तमट्टपदं ? वुचदे—जे उक्कस्साणुभाग-संक्रामया ते अणुकस्साणुभागस्स असंक्रामया । जे अणुकस्साणुभागसंक्रामया ते उक्कस्साणु-भागस्स असंक्रामया । जेसिं सांतकम्ममत्थि तेसु पयदं, अकम्महेहि अव्ववहारो । एवं जहण्णा-जहण्णाणं पि वत्तव्वं । एवमट्टपदपरूवणं काऊणुकस्सपदभंगविचयस्स ताव णिहेसो कीरदे । तं जहा—

हे कि अप्रत्याख्यान क्रोधके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवके सम्यक्त्वसत्कर्म कदाचित् है । यदि है तो वह कदाचित् संक्रामक है । यदि संक्रामक है तो वह जघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है और अजघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है । यदि अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है तो जघन्यसे अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए ।

* नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय दो प्रकारका है—उत्कृष्टपदभङ्गविचय और जघन्यपदभङ्गविचय ।

§ २१३. नाना जीवविषयक भङ्गविचयके जघन्य और उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंके विषय-रूपसे दो भेदोंका कथन करनेवाला यह सूत्र सुगम है । अब इन दोनों भङ्गविचयोंके अर्थपदका कथन करके उसके बाद आगेकी प्ररूपणा करनी चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* उनका अर्थपद करके प्ररूपणा करनी चाहिए ।

§ २१४. अनन्तर पूर्व कहे गये उत्कृष्टपदभङ्गविचय और जघन्यपदभङ्गविचयका अर्थपद करके अनन्तर उनकी शोधप्ररूपणा और आदेशप्ररूपणा करनी चाहिए इस प्रकार उक्त सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है । वह अर्थपद क्या है ? कहते हैं—जो उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक होते हैं वे अनुकृष्ट अनुभागके असंक्रामक होते हैं । जो अनुकृष्ट अनुभागके संक्रामक होते हैं वे उत्कृष्ट अनुभागके असंक्रामक होते हैं । जिनके सत्कर्म हैं उनका प्रकरण है, क्योंकि कर्मरहित जीवोंसे प्रयोजन नहीं है । इसी प्रकार जघन्य और अजघन्यकी अपेक्षा भी कथन करना चाहिए । इस प्रकार अर्थपदका कथन करके उत्कृष्टपदभङ्गविचयका सर्वप्रथम निर्देश करते हैं—

❀ मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा उक्कस्साणुभागस्स असंकामया ।

§ २१५. कुदो ? मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसंकामयाणमद्दुवभावित्तादो । एसो पढमभंगो ? ।

❀ सिया असंकामया च संकामओ च ।

§ २१६. कुदो ? सव्वजीवाणमुक्कस्साणुभागस्स असंकामयाणं मज्जे कदाइमेयजीवस्स तदुक्कस्साणुभागसंकामयत्तेण परिणदस्सुवलंभादो । एसो विदिओ भंगो २ ।

❀ सिया असंकासया च संकामया च ।

§ २१७. कदाइमुक्कस्साणुभागस्सासंकामयसव्वजीवाणं मज्जे केत्तियाणं पि जीवाण-मुक्कस्साणुभागसंकामयभावेण परिणदाणमुवलंभादो । एवमेसो तइज्जो भंगो ३ ।

§ २१८. एवमणुक्कस्साणुभागसंकामयाणं पि तिण्ण भंगा विवज्जासेण कायव्वा । तं जहा—मिच्छत्ताणुक्कस्साणुभागस्स सव्वे जीवा संकामया १, सिया एदे च असंकामओ च २, सिया एदे च असंकामया च ३ । कथमिदं सुत्तेणाणुवइट्ठं णव्वदे ? ण, उक्कस्सभंगविचएणोव जाणाविदत्तादो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं ।

* कदाचित् सव जीव मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके असंकामक होते हैं ।

§ २१५. क्योंकि मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव ध्रुव नहीं हैं। यह प्रथम भङ्ग है १ ।

* कदाचित् नाना जीव असंकामक होते हैं और एक जीव संक्रामक होता है ।

§ २१६. क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागके असंकामक सव जीवोंके बीच कदाचित् मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमरूपसे परिणत एक जीव उपलब्ध होता है । यह दूसरा भङ्ग है २ ।

* कदाचित् नाना जीव असंकामक होते हैं और नाना जीव संक्रामक होते हैं ।

§ २१७. क्योंकि कदाचित् उत्कृष्ट अनुभागके असंकामक सव जीवोंके मध्यमे उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकरूपसे परिणत हुए कितने ही जीव उपलब्ध होते हैं । इस प्रकार यह तीसरा भङ्ग है ३ ।

§ २१८. इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंके भी तीन भङ्ग पलट कर करने चाहिए । यथा—कदाचित् मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागके सव जीव संक्रामक हैं १। कदाचित् नाना जीव संक्रामक हैं और एक जीव असंकामक है २ । तथा कदाचित् नाना जीव संक्रामक हैं और नाना जीव असंकामक हैं ३ ।

शंका—सूत्रमें नहीं कहा गया यह अर्थ कैसे जाना जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट भङ्गविचयसे ही इसका ज्ञान करा दिया गया है ।

* इसी प्रकार शेष कर्मोंका जानना चाहिए ।

§ २१६. सुगममेदमप्यणासुत्तं । एदेण सामण्णहिदेसेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि मिच्छत्तभंगाइप्पसंगे तत्थतणविसेसपरूवणद्धमुत्तरसुत्तं—

❀ एवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं संकामगा पुव्वं ति भाणिदव्वं ।

§ २२०. तं जहा—सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागस्स सिया सव्वे जीवो संकामया १, सिया एदे च असंकामओ च २, सिया एदे च असंकामया च ३ । एव-मणुक्कस्साणुभागसंकामयाणं पि त्रियज्जासेण तिण्हं भंगाणमालावो कायव्यो ति एस विसेसो सुत्तेणेदेण जाणाविदो ।

एवमोघेणुक्कस्सभंगविचओ समत्तो ।

§ २२१. आदेसेण सव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

❀ जहण्णाणुभागसंकमभंगविचओ ।

§ २२२. सुगमं ।

❀ मिच्छत्त-अडकसायाणं जहण्णाणुभागस्स संकामया च असंकामया च ।

§ २१६. यह अर्पणासूत्र सुगम है । इस सामान्य निर्देशसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमे भी मिथ्यात्वके भङ्गोंका अतिप्रसङ्ग प्राप्त होने पर उनमें विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामक जीव पहले कहने चाहिए ।

§ २२०. यथा—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके कदाचित् सब जीव संक्रामक हैं १ । कदाचित् नाना जीव संक्रामक हैं और एक जीव असंकामक है २ । तथा कदाचित् नाना जीव संक्रामक हैं और नाना जीव असंकामक है ३ । इसी प्रकार अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंके भी विपर्यय क्रमसे तीन भङ्गोंका आलाप करना चाहिए । इस प्रकार यह विशेष इस सूत्रके द्वारा जतलाया गया है ।

इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

§ २२१. आदेशसे सब मार्गणाओमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—आशय यह है कि जिस प्रकार अनुभागसत्कर्मकी अपेक्षा अनुभागविभक्तिके आश्रयसे मार्गणाओमे भङ्गविचयका विचार कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । उससे यहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है ।

* अब जघन्य अनुभागसंक्रमभङ्गविचयका कथन करते हैं ।

§ २२२. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य अनुभागके नाना जीव संक्रामक होते हैं और नाना जीव असंकामक होते हैं ।

§ २२३. एदेसिं कम्माणं जहण्णाणुभागस्स संकामया असंकामया च णियमा अत्थि ति वुत्तं होइ । कुदो एवं ? सुहुमेइं दियहदसमुत्पत्तियकम्मेण लद्धजहण्णभावणमेदेसिं तदविरोहादो ।

❀ सेसाणं कम्माणं जहण्णाणुभागस्स सव्वे जीवा सिया असंकामया ।

§ २२४. कुदो ? दंसण-चरित्तमोहक्खवयाणमणंताणुवंधिसंजोजयाणं च सव्वद्ध-मणुवलंभादो ।

❀ सिया असंकामया च संकामओ च ।

§ २२५. कुदो ? असंकामयाणं धुवभावेण कदाइमेयजीवस्स जहण्णभावपरिणदस्स परिष्फुडमुवलंभादो ?

❀ सिया असंकामया च संकामया च ।

§ २२६. कुदो ? असंकामयाणं धुवभावेण केत्तियाणं पि जीवाणं जहण्णाणु भाग-संकामयभावपरिणदाणमुवलंभादो । एवमोघो समत्तो । आदेसेण सव्वं विहत्तिभंगो ।

एवं भंगविचओ समत्तो ।

§ २२७. एत्थेदेण सूचिद्भागाभाग-परिमाण-खेत्त-फोसणाणं पि विहत्तिभंगो ।

§ २२३. इन कर्मोंके जघन्य अनुभागके संक्रामक और असंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—ऐसा क्यों है ?

समाधान—क्योंकि एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ जघन्यपनेको प्राप्त हुए इन जीवोंमें जघन्य अनुभागके संक्रामक और असंक्रामक नाना जीवोंके सद्भाव माननेमें कोई विरोध नहीं आता ।

* शेष कर्मोंके जघन्य अनुभागके कदाचित् सब जीव असंक्रामक होते हैं ।

§ २२४. क्योंकि दर्शनमोहनीय और चारित्रमोहनीयकी क्षण करनेवाले और अनन्तानु-वन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीव सर्वदा नहीं पाये जाते ।

* कदाचित् नाना जीव असंक्रामक होते हैं और एक जीव संक्रामक होता है ।

§ २२५. क्योंकि जघन्य अनुभागके असंक्रामक ये नाना जीव ध्रुवरूपसे और कदाचित् जघन्य अनुभागके संक्रामकरूपसे परिणत हुआ एक जीव स्पष्टरूपसे पाया जाता है ।

* कदाचित् नाना जीव असंक्रामक होते हैं और नाना जीव संक्रामक होते हैं ।

§ २२६. क्योंकि जघन्य अनुभागके असंक्रामक ये नाना जीव ध्रुवरूपसे और जघन्य अनुभागके संक्रामकभावसे परिणत हुए कितने ही जीव पाये जाते हैं । इस प्रकार ओघ कथन समाप्त हुआ । आदेशकी अपेक्षा सब कथन अनुभागविभक्तिके समान है ।

इस प्रकार भङ्गविचय समाप्त हुआ ।

§ २२७. यहाँ पर इस पूर्वोक्त कथनके द्वारा सूचित हुए भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शनको अनुभागविभक्तिके समान जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ पर भागाभाग आदि चार प्ररूपणाओंको अनुभागविभक्तिके समान जानने की सूचना की है, अतः यहाँ पर क्रमसे उनका विचार करते हैं। यथा—भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। यह ओघ-प्ररूपणा है। आदेशसे इसी विधिको ध्यानमे रखकर घटित कर लेना चाहिए। जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। यह ओघप्ररूपणा है। इसी प्रकार विचारकर आदेशसे जान लेना चाहिए।

परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव अनन्त हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव संख्यात हैं। यह ओघप्ररूपणा है। इसी प्रकार आदेशसे विचारकर जान लेना चाहिए। जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व और मध्यकी आठ कषायोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव अनन्त हैं। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीव संख्यात हैं तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैं। अनन्तानुवन्धी-चतुष्कके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैं तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव अनन्त हैं। चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीव संख्यात हैं तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव अनन्त हैं। यह ओघप्ररूपणा है। इसी प्रकार आदेशसे विचार कर जान लेना चाहिए।

क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे छव्वीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र सर्वलोक है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण है यह ओघप्ररूपणा है इसी प्रकार विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए। जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिध्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य और अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके जघन्य और अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग है। शेष प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र सब लोक है। यह ओघप्ररूपणा है। इसी प्रकार विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए।

स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघमे छव्वीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंने लोकके

❁ णाणाजीवेहि कालो ।

§ २२८. सुगमं ।

❁ मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंकांमया केवचिरं कालादो होंति ?

§ २२९. सुगमं ।

❁ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ २३०. तं कथं ? सत्तइ जणा बहुगा वा बहुक्कस्साणुभागा सव्वजहणमंतोमुहुत्तमेत्त-
कालं संकांमया होदूण पुणो कंडयघादवसेणाणुक्कस्सभावमुवगया, लद्धो सुत्तुद्धिद्धजहणकालो ।

❁ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

असंख्यातवें भाग, त्रस नालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब लोकका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब लोकका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है । यह ओघप्ररूपणा है । इसी प्रकार विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए । जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और मध्यकी आठ कपर्योके जघन्य और अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग क्षेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग, त्रसनालीके चौदह भागोंमेंसे कुछ कम आठ भाग और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । यह ओघप्ररूपणा है । इसी प्रकार विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए ।

* अब नाना जीवोंकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं ।

§ २२८. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका कितना काल है ?

§ २२९. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल अन्तमुहूर्त है ।

§ २३० शंका—वह कैसे ?

समाधान—सात आठ या बहुत जीव उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेके बाद सबसे जघन्य अन्तमुहूर्त काल तक उसके संक्रामक हुए । बादमे काण्डकघातवश अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक हो गये । इस प्रकार सूत्रमे निर्दिष्ट जघन्य काल प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट काल पत्न्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ २३१. तं जहा—एयजीवस्सुकस्साणुभागसंकमकालमंतोमुहुत्तपमाणं ठविय तप्पाओग्गपलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तदणुसंधाणवारसलागाहि गुण्येयवं । तदो पयदुकस्स-कालपमाणमुप्पज्जदि ।

❀ अणुकस्साणुभागसंकामया सव्वच्चा ।

§ २३२. कुदो ? सव्वकालमविच्छिण्णपवाहसरूवेणेदेसिमवट्टाणदंसणादो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं ।

§ २३३. जहा मिच्छत्तस्स पयदकालणिदेसो कदो तहा सेसकम्माणं पि कायव्वो, विसेसाभावादो । सामण्णणिदेसेणेदेण सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणं पि पयदकालणिदेसाइप्पसंगे तत्थ विसेससंभवपदुप्पायणट्टमिदमाह—

❀ एवरि सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणमुकस्साणुभागसंकामया सव्वच्चा ।

§ २३४. कुदो ? सम्मत्त-सम्मा मिच्छत्ताणमुकस्साणुभागसंकामयवेदगसम्माइट्ठीणमुव्वेल्ल-माणमिच्छाइट्ठीणं च पवाहयोच्छेदाणुवलंभादो ।

❀ अणुकस्साणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ?

§ २३५. सुगमं ।

❀ जहरणुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ २३१. यथा—एक जीवके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकसम्बन्धी अन्तर्मुहूर्त कालको स्थापित कर उसे नाना जीवोंसम्बन्धी उत्कृष्ट कालको प्राप्त करनेके लिए पल्यके असंख्यातर्वे भाग-प्रमाण शलाकाओंसे गुणित करना चाहिए । इस प्रकार करनेसे प्रकृत उत्कृष्ट काल उत्पन्न होता है ।

* उसके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है ।

§ २३२ क्योंकि सर्वदा अविच्छिन्न प्रवाहरूपसे मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका अवस्थान देखा जाता है ।

* इसी प्रकार शेष कर्मोंका काल जानना चाहिए ।

§ २३३. जिस प्रकार मिथ्यात्वके प्रकृत कालका निर्देश किया है उसी प्रकार शेष कर्मोंका भी करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । यह सामान्य निर्देश है । इससे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके प्रकृत कालके निर्देशमें अतिप्रसङ्ग प्राप्त होने पर वहाँ कालकी विशेषताका कथन करनेके लिए यह सूत्र कहते हैं—

इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है ।

§ २३४. क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रमण करनेवाले घटकसम्यद्दृष्टियोंके और उद्भूतना करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंके प्रवाहकी व्युच्छिन्ति नहीं पाई जाती ।

* उनके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका कितना काल है ?

§ २३५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २३६. दंसणमोहक्खवणादो अण्णत्थ तदणुवलंभादो । एवमोघो समत्तो ।
आदेसेण सव्वत्थ विहत्तिभंगो ।

❀ एत्तो जहण्णकालो ।

§ २३७. सुगमं ।

❀ मिच्छत्त-अट्ठकसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामया केवचिरं
कालादो होंति ?

§ २३८. सुगमं ।

❀ सव्वच्चा ।

§ २३९. कुदो ? सुहुमेइं दिवजीयाणं हदसमुत्पत्तियजहण्णसंतक्कम्मपरिणदाणं तिसु वि
कालेसु वोच्छेदाणुवलंभादो ।

❀ सम्मत्त-चट्ठसंजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णाणुभागसंक्रामया केवचिरं
कालादो होंति ?

§ २४०. सुगमं ।

❀ जहण्णेण्यसमत्तो ।

§ २४१. कुदो ? सम्मत्तस्स समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयम्मि त्थोभ-

§ २३६. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणोंके सिवा अन्यत्र यह काल नहीं पाया जाता । इस प्रकार ओषधरूपणा समाप्त हुई । आदेशसे सर्वत्र अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

* अब जघन्य कालको कहते हैं ।

§ २३७. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका कितना काल है ?

§ २३८. यह सूत्र सुगम है ।

* सब काल है ।

§ २३९. क्योंकि हृत्समुत्पत्तिकरूप जघन्य सत्कर्मसे परिणत हुए सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंका तीनों ही कालोंमें विच्छेद नहीं पाया जाता ।

* सम्यक्त्व, चार संज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका कितना काल है ?

§ २४०. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ २४१. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणोंमें एक समय अधिक एक आवलि काल रहने पर एक समयके लिए सम्यक्त्वका, सकषाय अवस्थामें एक समय अधिक एक आवलिकाल शेष रहने पर

संजलणस्स समयाहियावलियसकसायम्मि सेसाणं अप्पप्पणो णत्तकं चरिमफालिसंकम-
णावत्थाए लद्धजहण्णभावाणमेयसमयोवलद्धीए बाहाणुवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण संखेज्जा समया ।

§ २४२. कुदो ? संखेज्जवारमणुसंधाणवसेण तदुवलंभादो ।

❀ सम्मामिच्छत्त-अट्ठणोकसायाणं जहण्णाणुभागसंकामया केवचिरं
कालादो होंति ?

§ २४३. सुगमं एदं ।

❀ जहण्णुक्कस्सेण अंतोसुद्धत्तं ।

§ २४४. जहण्णेण ताव तेसिमप्पप्पणो चरिमाणुभागखंडयकालो धेत्तव्वो । उक्कस्सेण
सो चेव छायादिद्वंतेण लद्धाणुसंधाणो धेत्तव्वो ।

❀ अणंताणुबंधीणं जहण्णाणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ?

§ २४५. सुगमं ।

❀ जहण्णेण एयसमत्तो ।

§ २४६. कुदो ? विसंजोयणापुव्वसंजोगपटमसमए जहण्णपरिणामेण बद्धजहण्णाणु-
भागमावलियादीदमेयसमयं संकामिय विदियसमए अजहण्णभावपरिणदणाणाजीघेसु
तदुवलंभादो ।

एक समयके लिए सञ्चलनलोभका तथा अपने-अपने नवकबन्धकी अन्तिम फालिकी संक्रमण
अवस्थामे शेष प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागसंक्रम पाया जाता है, इसलिए जघन्य काल एक समय
प्राप्त होनेमे बाधा नहीं आती ।

* उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

§ २४२. क्योंकि संख्यातवार किये गये अनुसन्धानवश उक्त काल प्राप्त हो जाता है ।

* सम्यग्मिथ्यात्व और आठ नोकपायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका कितना
काल है ?

§ २४३. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ २४४. जघन्यसे तो उनका अपने अपने अन्तिम अनुभागकाण्डकका काल लेना चाहिए ।
तथा उत्कृष्टसे वही काल छायाके दृष्टान्त द्वारा अनुसन्धान करते हुए ग्रहण करना चाहिए ।

* अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका कितना काल है ?

§ २४५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ २४६. क्योंकि विसंयोजनापूर्वक संयोजना होनेके प्रथम समयमें जघन्य परिणामसे बन्धको
प्राप्त हुए जघन्य अनुभागको एक आवलिके बाद एक समय तक संक्रामा कर दूसरे समयमे जो जीव
अजघन्य अनुभागके संक्रमरूपसे परिणत हो जाते हैं उनके जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है ।

❀ उक्खसेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

§ २४७. कुदो ? आवलि० असंखे०भागमेत्ताणं चेव णिरंतरोवकमणवाराणमेत्थ संभवदंसणादो ।

❀ एदेसिं कम्माणमजहण्णाणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ?

§ २४८. सुगमं ।

❀ सव्वद्धा ।

§ २४९. एदं पि सुगमं । एवमोघो समत्तो । आदेसेण सव्वणोरइय०-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवा जाव णवगेवज्जा ति विहत्तिभंगो । मणुसेसु विहत्तिभंगो । णवरि इत्थि०-णवुंस० जह० जहण्णु० अंतोमु० । अज० सव्वद्धा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० मिच्छ०-अट्टक० जह० जह० एयस०, उक्क० अंतोमुहुत्तं । अज० सव्वद्धा । सेसं मणुसभंगो । णवरि मणुसिणी० पुरिस० छण्णोक०भंगो । अणुदिसादि सव्वद्धा ति विहत्तिभंगो । एवं जाव० ।

* उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है ।

§ २४७. क्योंकि आवलिके असंख्यातर्वे भागप्रमाण ही निरन्तर उपक्रमणवार यहाँ पर सम्भव देखे जाते हैं ।

* इन कर्मोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंका कितना काल है ?

§ २४८. यह सूत्र सुगम है ।

* सर्वदा है ।

§ २४९. यह सूत्र भी सुगम है । इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और नौप्रवेयक तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । मनुष्योंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंका काल सर्वदा है । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोंमें मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंका काल सर्वदा है । शेष भङ्ग मनुष्योंके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका भङ्ग छह नोकषायोंके समान है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्योंमें जिसप्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागसत्कर्मका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय बन जाता है उस प्रकार यह काल यहाँ नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर अन्तिम अनुभागकाण्डके पतनका काल विवक्षित है, इसलिए वह जघन्य भी अन्तर्मुहूर्त कहा है और उत्कृष्ट भी अन्तर्मुहूर्त कहा है । यहाँ इतना और विशेष जानना चाहिए कि मनुष्यनियोंमें नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम नहीं होता, इसलिए 'मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका भङ्ग छह नोकषायोंके समान है' ऐसा कहते समय पुरुषवेदके साथ नपुंसकवेदका उल्लेख नहीं किया है । शेष कथन सुगम है ।

❀ एाणाजीवेहि अंतरं ।

§ २५०. सुगममेदमहियारपरामरससुत्तं ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंकामयाणेमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ २५१. पुच्छासुत्तमेदं सुगमं ।

❀ जहणणेण्यसमय्यो ।

§ २५२. तं जहा—मिच्छत्तुक्कस्साणुभागसंकामयणाणाजीवाणं पथाहविच्छेदवसेणे-
समयमंतरिदाणं विदियसमए पुणरुभयो दिट्ठो, लद्धमंतरं जहणणेण्यसमयमेत्तं ।

❀ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।

§ २५३. कुदो ? उक्कस्साणुभागबंधेण विणा सब्जीवाणमेत्तियमेत्तकालमवट्ठाण-
संभवादो ।

❀ अणुक्कस्साणुभागसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ २५४. सुगमं ।

❀ एत्थि अंतरं ।

§ २५५. कुदो ? णाणाजीवविवक्खाए अणुक्कस्साणुभागसंकमस्स विच्छे-
दाणुवलट्ठीदो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं ।

* अब नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका कथन करते हैं ।

§ २५०. अधिकारका परामर्श करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ २५१. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है

§ २५२. यथा—मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक नाना जीवोंका प्रवाहके विच्छेदवश
एक समयके लिए अन्तर हो कर दूसरे समयमें उनकी पुनः उत्पत्ति देखी जाती है । इस प्रकार
जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ २५३. क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध हुए विना सब जीवोंका इतने काल तक अवस्थान
देखा जाता है

* उसके अनुकृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ २५४. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तरकाल नहीं है ।

§ २५५. क्योंकि नाना जीवोंकी मुख्यतासे अनुकृष्ट अनुभागके संक्रामका कभी भी विच्छेद
नहीं उपलब्ध होता ।

* इसी प्रकार शेष कर्मोंका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

§ २५६. सुगममेदमप्यणासुत्तं । संपहि एत्थतणविसेसपरूवणद्वमुत्तरसुत्तमोइण्णं ।

❀ एवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ २५७. सुगमं ।

❀ एत्थि अंतरं ।

§ २५८. एदं पि सुगमं ।

❀ अणुक्कस्साणुभागसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ २५९. सुगमं ।

* जहणणेण एयसमओ ।

§ २६०. दंसणमोहक्खत्रयाणं जहण्णंतरस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण छम्मासा ।

§ २६१. तदुक्कस्सविरहकालस्स णाणाजीवविसयस्स तप्पमाणत्तादो । एवमोघो समत्तो ।

§ २६२. आदेसेण सव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

❀ एत्तो जहणणयंतरं ।

§ २५६. यह अर्पणासूत्र सुगम है। अब यहाँ सस्वन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ २५७. यह सूत्र सुगम है।

* अन्तरकाल नहीं है।

§ २५८. यह सूत्र भी सुगम है।

* अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ २५९. यह सूत्र सुगम है।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है।

§ २६०. क्योंकि दर्शनमोहनीयके क्षणोंका जघन्य अन्तर तत्प्रमाण उपलब्ध होता है।

* उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है।

§ २६१. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणका नाना जीवविषयक उत्कृष्ट विरहकाल तत्प्रमाण है। इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई।

§ २६२. आदेशसे सब मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है।

* आगे जघन्य अन्तरका कथन करते हैं।

§ २६३. सुगमं ।

❁ मिच्छत्तस्स अट्टकसायस्स जहणणाणुभागसंकामयाणं केवचिरं अंतरं ?

§ २६४. सुगमं ।

❁ एत्थि अंतरं ।

§ २६५. कुदो ? पयदजहणणाणुभागसंकामयाणं सुहुमाणं णिरंतरसरूवेण सब्ब-कालमवट्टितादो ।

❁ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-चटुसंजलण-एवणोकसायाणं जहणणाणु-भागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ २६६. सुगमं ।

❁ जहणणेण्यसमत्तो ।

❁ उक्कस्सेण छुम्मासा ।

§ २६७. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । संपहि एत्थतणविसेसपटुप्पायणट्टमुत्तर-सुत्तमाह—

* एवरि तिण्णिणसंजलण-पुरिसवेदाणमुक्कस्सेण वासं सादिरेयं ।

§ २६८. तं जहा—क्रोधसंजलणस्स उक्कस्संतरे विवक्खिए सोदएणादिं कादूण

§ २६३ यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ २६४ यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तरकाल नहीं है ।

§ २६५. क्योंकि प्रकृत जघन्य अनुभागके संक्रामक सूक्ष्म जीव अन्तरके विना सदा काल अवस्थित रहते हैं ।

* सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ २६६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है ।

§ २६७. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । अब यह। सम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलन और पुरुषवेदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक वर्ष है ।

§ २६८. यथा—क्रोधसंजलनका उत्कृष्ट अन्तर विवक्षित होने पर स्वोदयसे अन्तरका प्रारम्भ

छम्मासमंतराविय पुणो माण-माया-लोभोदएहिं चढाविय पच्छा सोदयपडिलंभेण सादिरेय-
वासमेत्तमंतरमुप्पाएयव्वं । एवं माण-मायासंजलणाणं पि पयदुक्कस्संतरं वत्तव्वं । णवरि
माणसंजलणस्स माया-लोभोदएहि मायासंजलणस्स च लोभोदएण चढाविय अंतरावेयव्वं ।
कोहसंजलणस्स संपुण्णदोवासमेत्तमंतरं किण्ण जायदे ? ण, सव्वत्थ छम्मासाणं पडिवुण्णा-
णणुसंधाणसरूवेणासंभवादो । एवं चेव पुरिसवेदस्स वि सोदएणादिं कादूण परोदएणंतरिदस्स
सादिरेयवासमेत्तुक्कस्संतरसंभवो दट्ठव्वो ।

❀ णवुंसयवेदस्स जहरणाणुभागसंकामयंतरमुक्कस्सेण संखेज्जाणि
वासाणि ।

§ २६६. णवुंसयवेदोदएणादिं कादूण अणप्पिदवेदोदएण वासपुधत्तमेत्तमंतरिदस्स
तदुवलंभादो ।

❀ अणंताणुबंधीणं जहरणाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ २७०. सुगमं ।

❀ जहरणेण एयसमंओ ।

§ २७१. पयदजहणगाणुभागसंकामयाणमेयसमयमंतरिदाणं पुणो वि तदणंतरसमए
पादुब्भावविरोहाभावादो ।

❀ उक्कस्सेण असंसेज्जा लोगा ।

करके तथा छह माहका अन्तर करा कर पुनः मान, माया और लोभके उदयसे चढ़ा कर पश्चात्
स्वोदयका आश्रय करनेसे साधिक एक वर्षप्रमाण अन्तर उत्पन्न करना चाहिए। इसी प्रकार मान
और मायासंज्वलनोंका भी प्रकृत उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मान-
संज्वलनका माया और लोभके उदयसे तथा मायासंज्वलनका लोभके उदयसे चढ़ा कर अन्तर ले
आना चाहिए।

शंका—क्रोधसंज्वलनका पूरा दो वर्षप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर क्यों नहीं उत्पन्न होता ?

समाधान—नहीं क्योंकि सर्वत्र अनुसन्धानरूपसे पूरे छह माह असम्भव हैं।

इसी प्रकार स्वोदयसे अन्तरका प्रारम्भ करके परोदयसे अन्तरको प्राप्त हुए पुरुषवेदका भी
साधिक एक वर्षप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर सम्भव जानना चाहिए।

* नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वर्षप्रमाण है।

§ २६६. क्योंकि नपुंसकवेदके उदयसे अन्तरका प्रारम्भ करके अविवक्षित वेदके उदयसे
वर्षपृथक्त्वप्रमाण अन्तरको प्राप्त हुए उसका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर उपलब्ध होता है।

* अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ २७०. यह सूत्र सुगम है।

* जघन्य अन्तर एक समय है।

§ २७१. एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए प्रकृत जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका फिर
भी उसके अनन्तर समयमें प्रादुर्भाव होनेमे कोई विरोध नहीं आता।

* उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है।

§ २७२. जहण्णपरिणामेणादिं काद्णासंखेजलोगमेत्तेहिं अजहण्णपाओग्गपरिणामेहिं
चेव संजोजयंताणं णाणाजीवाणमेदमुक्कस्संतरं लब्भदि त्ति वुत्तं होइ । संपहि सव्वेसि-
मजहण्णाणुभागसंक्रामयाणमंतरविहाणड्डमुत्तरसुत्तारंभो—

❀ एदेसिं सव्वेसिमजहण्णाणुभागस्स केवचिरमंतरं ?

§ २७३. सुगमं ।

❀ एत्थि अंतरं ।

§ २७४. सव्वेसिमजहण्णाणुभागसंक्रामयाणमंतरेण विणा सव्वद्धमवट्ठाणदंसणादो ।

एवमोघो समत्तो ।

§ २७५. आदेसेण सव्वणोरइय-सव्वतिरिक्ख-मणुसअपज्ज-सव्वदेवा त्ति विहत्तिभंगो ।
मणुसतिए ओघं । णवरि मिच्छ-अट्ठक-जह-जह-एयसमओ, उक्क-असंखेज्जा लोगा ।
मणुसिणीसु खवगपयडीणं वासपुधत्तं । एवं जाव- ।

§ २७२. जघन्य परिणामसे प्रारम्भ करके असंख्यात लोकमात्र अजघन्य अनुभागसंक्रमके योग्य परिणामोंसे ही संयोजना करनेवाले नाना जीवोंके यह उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब उक्त सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंके अन्तरका विधान करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं—

* इन सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ २७३. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तरकाल नहीं है ।

§ २७४. क्योंकि उक्त सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तर कालके विना सदाकाल अवस्थान देखा जाता है ।

इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ २७५. आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमें अनुभाग-विभक्तिके समान भङ्ग है । मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । मनुष्यिनियोंमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें अन्य सब अन्तरकाल ओघके समान बन जाता है । मात्र मिथ्यात्व और आठ कषायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंके अन्तरकालमें कुछ विशेषता है । बात यह है कि ओघसे इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें इन प्रकृतियोंका जघन्य अनुभागसंक्रम करनेवाले जीव सर्वदा बने रहते हैं । परन्तु मनुष्यत्रिककी स्थिति नारकी आदिके समान है, इसलिए इस विशेषताका निर्देश करनेके लिए यहाँ पर उसका अलगसे उल्लेख किया है । तथा मनुष्यिनी अधिकसे अधिक वर्षपृथक्त्वप्रमाण काल तक क्षपकश्रेणि पर आरोहण न करें यह सम्भव है, इसलिए इसमें क्षपक प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २७६. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

❀ अप्पावहुअं ।

§ २७७. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं । तं च दुविहमप्पावहुअं जहणणुक्कस्साणु-
भागसंकमविषयभेदेण । तत्थुक्कस्साणुभागसंकमप्पावहुअमुक्कस्साणुभागविहत्तिभंगादो ण
भिज्जदि त्ति तेण तदप्पणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ जहा उक्कस्साणुभागविहत्ती तथा उक्कस्साणुभागसंकमो ।

§ २७८. जहा उक्कस्साणुभागविहत्ती अप्पावहुअविसिद्धा परूविदा तथा उक्कस्साणु-
भागसंकमो वि परूवेयव्वो, विसेसाभावादो त्ति भणिदं होदि ।

❀ एत्तो जहणणयं ।

§ २७९. एत्तो उक्कस्साणुभागसंकमप्पावहुअविहासणादो उवरि जहणणयमप्पावहुअं
वत्तइस्सामो त्ति पइज्जावक्कमेदं । तस्स दुविहो णिदेसो ओघादेसभेएण । तत्थोघणिदेसो ताव
कीरदे । तं जहा—

❀ सव्वत्थोवो लोहसंजलणस्स जहणणाणुभागसंकमो ।

§ २८०. कुदो ? सुहुमकिट्टिसरूवत्तादो ।

❀ मायासंजलणस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २७६. भाव सर्वत्र औदयिक भाव है ।

* अत्र अल्पबहुत्वको कहते हैं ।

§ २७७. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । जघन्य और उत्कृष्ट अनुभाग-
संक्रमरूप विषयके भेदसे वह अल्पबहुत्व दो प्रकारका है । उसमें उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमविषयक
अल्पबहुत्व उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिविषयक अल्पबहुत्वसे भिन्न प्रकारका नहीं है, इसलिए उसके साथ
इसकी मुख्यता करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिविषयक अल्पबहुत्व है उसी प्रकार उत्कृष्ट
अनुभागसंक्रमविषयक अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

§ २७८. जिस प्रकार अल्पबहुत्वविशिष्ट उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका कथन किया है उसी
प्रकार उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम अल्पबहुत्वका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि दोनोंमें कोई अलग
अलग विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* आगे जघन्य अल्पबहुत्वको कहते हैं ।

§ २७९ 'एत्तो' अर्थात् उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमविषयक अल्पबहुत्वका व्याख्यान करनेके बाद
जघन्य अल्पबहुत्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है । उसका निर्देश दो प्रकारका है—
ओघ और आदेश । उनमेंसे सर्वप्रथम ओघका निर्देश करते हैं—

* लोभसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ २८०. क्योंकि वह सूक्ष्म कृष्टिरूप है ।

* उससे मायासंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २८१. कुदो ? वादरकिट्टिसरूवेण पुव्वमेत्राणियट्टिपरिणाभेहि लद्धजहण्णभावत्तादो ।

❖ माणसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २८२. कुदो ? जहण्णसामित्तविसयीकयमायासंजलणचरिमणवक्कंधादो जहाकम-
मणंतगुणसरूवेणावट्टिदमायातदिय-विदिय-पढमसंगहकिट्टीहिंतो वि माणसंजलणणवक्कंधसरूव-
स्सेदस्साणंतगुणत्तदंसणादो ।

❖ कोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २८३. कुदो ? पुव्विल्लसामित्तविसयादो हेट्ठा अंतोमुहुत्तमोयरिय कोहवेदयचरिम-
समयणवक्कंधचरिमसमयसंकामयम्मि जहण्णभावमुवगयत्तादो ।

❖ सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

२८४. कुदो ? किट्टिसरूवकोहसंजलणजहण्णाणुभागसंकमादो फहयगयसम्मत्त-
जहण्णाणुभागसंकमस्साणंतगुणब्भहियत्ते विसंवादाणुवलंभादो ।

❖ पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २८५. किं कारणं ? सम्मत्तस्स अणुसमयोवट्टणकालादो पुरिसवेदणवक्कंधाणु-
समयोवट्टणाकालस्स थोवत्तदंसणादो ।

❖ सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २८१. क्योंकि वादर कृष्टिरूप होनेसे इसने पहले ही अनिष्टित्तरूप परिणामोंके द्वारा जघन्य-
पना प्राप्त कर लिया है ।

* उससे मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २८२. क्योंकि जघन्य स्वामित्वको विषय करनेवाले मायासंज्वलन सम्बन्धी अन्तिम
नवकवन्धसे तथा यथाक्रम अनन्तगुणरूपसे स्थित हुई मायाकी तीसरी, दूसरी और पहिली संग्रह-
कृष्टियोंसे भी मानसंज्वलनके नवकवन्धरूप यह जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा देखा जाता है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २८३. क्योंकि मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम जहाँ प्राप्त होता है उस स्थानसे
पीछे अन्तमुहूर्त जा कर क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें हुए नवकवन्धका अन्तिम समयमें संक्रमण
करनेवाले जीवके क्रोधसंज्वलनके अनुभागसंक्रमका जघन्यपना प्राप्त होता है ।

* उससे सम्यक्त्वका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २८४. क्योंकि कृष्टिरूप क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमसे स्पर्धकरूप सम्यक्त्वका
जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा अधिक होता है इसमें कोई विसंवाद नहीं उपलब्ध होता ।

* उससे पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २८५. क्योंकि सम्यक्त्वके प्रतिसमय होनेवाले अपवर्तनासम्बन्धी कालसे, पुरुषवेदके
नवकवन्धका प्रतिसमय होनेवाला अपवर्तनासम्बन्धी काल स्तोक देखा जाता है ।

* उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २८६. कुदो ? देसघादिएयड्ढाणियसरूवोदो पुव्विल्लादो सव्वघादिविड्ढाणियसरूव-
स्सेदस्स तहाभावसिद्धीए णाइयत्तादो ।

❖ अणंताणुबंधिमाणस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २८७. किं कारणं ? सम्मामिच्छताणुभागविण्णासो मिच्छत्तजहणणफद्दयादो अणंत-
गुणहीणो होऊग लद्धावद्दाणो पुणो दंसणमोहक्खवणाए संखेज्जसहस्समेत्ताणुभागखंडयघाद-
समुत्तलद्धजहणणभावो एसो वुण णक्कवंधसरूवो वि सम्मामिच्छत्तेण समाणपारंभो होदूण
पुणो मिच्छत्तजहणणफद्दयप्पहुडि उवरि वि अणंतफद्दएसु लद्धविण्णासो अपत्तघादो च तदो
अणंतगुणत्तमेदस्स सिद्धं ।

❖ कोधस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

§ २८८. कुदो ? पयडिविसेसादो । केत्तियमेत्तेण ? तप्पाओग्गाणंतफद्दयमेत्तेण ।

❖ मायाए जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

§ २८९. केत्तियमेत्तेण ? अणंतफद्दयमेत्तेण । कुदो ? साभावियादो ।

❖ लोभस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

§ २९०. एत्थ वि विसेसपमाणमणंतरणिदिट्टमेव

❖ हस्सस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २८६. क्योंकि देशघाति एक स्थानिकरूप पुरुषवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमसे सर्वघाति
द्विस्थानिकरूप इसका अनन्तगुणत्व न्यायप्राप्त है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २८७. क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वका अनुभागविन्यास मिथ्यात्वके जघन्य स्पर्धकसे
अनन्तगुणा हीन होकर अवस्थित है तथा दर्शनमोहनीयकी क्षणामे सख्यात हजारप्रमाण अनुभाग-
काण्डकोंके घातसे जघन्यपनेको प्राप्त हुआ है । परन्तु अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य अनुभाग-
विन्यास यद्यपि नवक्कवन्धरूप है और जहाँसे सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागका प्रारम्भ होता है
वहींसे इसका प्रारम्भ हुआ है तो भी मिथ्यात्वके जघन्य स्पर्धकसे लेकर उसके ऊपर भी अनन्त
स्पर्धकों तक यह पाया जाता है तथा इसका घात भी नहीं हुआ है, इसलिए यह अनन्तगुणा है यह
सिद्ध होता है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २८८. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । कितना अधिक है ? तत्प्रायोग्य अनन्त स्पर्धकप्रमाण
अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २८९. कितना अधिक है ? अनन्त स्पर्धकमात्र अधिक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २९०. यहाँ पर भी जो विशेषका प्रमाण है उसका निर्देश अनन्तर पूर्व किया ही है ।

* उससे हास्यका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६१. कुदो ? णमकबंधसरूवादो पुव्विल्लादो चिराणसंतसरूवस्सेदस्स तहाभाव-
सिद्धीए विरोहाभ वादो ।

❀ रदोए जहएणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २६२. कुदो ? सव्वत्थ रदिपुरस्सरत्तेणोव हस्सपवुत्तीए दंसणादो ।

❀ दुगुंछाए जहएणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २६३. अप्पसत्थयरत्तादो ।

❀ भयस्स जहएणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २६४. दुगुंछिदो देसच्चागमेत्तं कुणादि । भयोदएण पुण पाणच्चागमवि कुणादि ति
तिच्चाणुभागत्तमेदस्स दडुव्वं ।

❀ सोगस्स जहएणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २६५. कुदो ? छम्मासपजंततिव्वदुक्खकारणात्तादो ।

❀ अरदोए जहएणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २६६. कुदो ? पुरंगमकारणात्तादो ।

❀ इत्थिवेदस्स जहएणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २६७. कुदो ? अंतोमुहुत्तं हेडा ओयरिदूण पुव्वमेव खविदत्तादो ।

❀ एवुंसयवेदस्स जहएणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २६१. क्योंकि अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम नवकबन्धरूप है और इसका
प्राचीन सत्तारूप है, इसलिए इसके अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

* उससे रतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६२. क्योंकि सर्वत्र रतिपूर्वक ही हास्यकी प्रवृत्ति देखी जाती है ।

* उससे जुगुप्साका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६३. क्योंकि यह अत्यन्त अप्रशस्त है ।

* उससे भयका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६४. क्योंकि जिसे जुगुप्सा हुई है वह मात्र जुगुप्साके स्थानका त्याग करता है ।
किन्तु भयवश यह प्राणी प्राणोत्कका त्याग कर देता है, अतएव जुगुप्सासे इसका तीव्र अनुभाग
जानना चाहिए ।

* उससे शोकका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६५. क्योंकि यह छह माह तक तीव्र दुःखका कारण है ।

* उससे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६६. क्योंकि यह शोकसे भी आगेका कारण है ।

* उससे स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६७. क्योंकि अन्तर्मुहूर्त पूर्व ही इसका क्षय हो जाता है ।

* उससे नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६८. किं कारणं ? कारिसगिसमाणो इत्थिवेदाणुभागो । णवुंसयवेदाणुभागो पुण इट्ठावागगिसमाणो तेणाणंतगुणो जादो ।

❖ अपच्चक्खाणमाणस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ २६९. कुदो ! सुहुमेइं दियहदसमुत्पत्तिकम्मेण लद्धजहणणाणुभागस्सेदस्स अंतरकरणे कदे खवगपरिणामेहि घादिदावसेसणवुंसयवेदजहणणाणुभागसंकमादो अणंतगुणत्तसिद्धीए णाइयत्तादो ।

❖ कोहस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

❖ मायाए जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

❖ लोभस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

§ ३००. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❖ पच्चक्खाणमाणस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३०१. कुदो ? सयलसंजमघादित्तण्णहाणुववत्तीदो । देससंजमघादिअपच्चक्खाणलोभजहणणाणुभागादो अणंतगुणत्ताभावे ततो अणंतगुणसयलसंजमघादित्तमेदस्स जुज्जदे, विप्पडिसेहादो ।

❖ कोहस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

§ २६८. क्योंकि स्त्रीवेदका अनुभाग कारीषकी अग्निके समान है । परन्तु नपुंसकवेदका अनुभाग अवाकी अग्निके समान है, इसलिए यह अनन्तगुणा है ।

* उससे अप्रत्याख्यान मानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६९. क्योंकि इसका जघन्य अनुभाग सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मरूपसे प्राप्त होता है और नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अन्तरकरण करनेके बाद घात करनेसे जो शेष बचता है तत्प्रमाण होता है, इसलिए नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमसे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा सिद्ध होता है यह न्याय प्राप्त है ।

* उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यान मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यान लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३००. ये तीनों सूत्र सुगम हैं ।

* उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

३०१. क्योंकि अन्यथा यह सकलसंयमका घातक नहीं हो सकता । और देशसंयम का घात करनेवाले अप्रत्याख्यान लोभके जघन्य अनुभागसे इसे अनन्तगुणा नहीं माना जाता है तो देशसंयमसे अनन्तगुणे सकलसंयमका घात इसके द्वारा नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा मानना निषिद्ध है ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

❁ मायाए जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिओ ।

❁ लोभस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिओ ।

§ ३०२. एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❁ मिच्छत्तस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३०३. सयलपदत्थविसयसद्धणपरिणामपडिवंधित्तेण लद्धमाहप्पस्सेदस्स तहाभाव-
विरोहाभावादो ।

§ ३०४. एवमोघेण जहणणाणुपावहुअं परुविय एत्तो आदेसपरुवणद्धमुत्तरं सुत्तपबंधमाह—

❁ णिरयगईए सव्वत्थोवो सम्मत्तस्स जहणणाणुभागसंकमो ।

§ ३०५. कुदो ? देसघादिण्यट्ठाणियसरुवत्तादो ।

❁ सम्मामिच्छत्तस्स जहणणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३०६. कुदो ? सव्वघादिविद्धाणियसरुवत्तादो ।

❁ अणंताणु बंधिमाणस्स जहणणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३०७. कुदो ? सम्मामिच्छत्तुक्कस्साणुभागादो अणंतगुणभावेणावट्ठिदमिच्छत्त-
जहणणाणुपहृदि उवरि वि लद्धाणुभागविण्णासस्सेदस्स तत्तो अणंतगुणत्तसिद्धीए
पडिवंधाभावादो ।

❁ कोहस्स जहणणाणु भागसंकमो विसेसाहिओ ।

* उससे प्रत्याख्यान मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३०२ ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं ।

* उससे मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ ३०३ क्योंकि सकल पदार्थविषयक श्रद्धानरूप परिणामोंका रोकनेवाला होनेसे महत्त्वको प्राप्त हुए इसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

§ ३०४. इस प्रकार ओघसे जघन्य अल्पबहुत्वका कथन करके आगे आदेशका कथन करनेके लिए आगेकी सूत्रपरिपाटीका कथन करते हैं—

* नरकगतिमें सग्यक्त्वका जघन्य अनुभागसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ ३०५. क्योंकि यह देशघाति एकस्थानिकस्वरूप है ।

* उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ ३०६. क्योंकि यह सर्वघाति द्विस्थानिकस्वरूप है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २६६. क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसे अनन्तगुणरूपसे अवस्थित मिथ्यात्वके

* उससे लेकर उससे भी ऊपर अवस्थित हुए इस अनुभागके सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य अनु-
§ २६७. क्योंकि तगुणे सिद्ध होनेमें कोई स्कावट नहीं है ।

* उससे नपु नन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

❀ मायाए जहणणाणु भागसंकमो विसेसाहिओ ।

❀ लोभस्स जहणणाणु भागसंकमो विसेसाहिओ ।

§ ३०८. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❀ हस्सस्स जहणणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३०९. सुहुमेइं दियहदसमुप्पत्तियकम्मदो अणंतगुणहीणो पुच्चिल्लो णवक्रबंधाणु-
भागसंकमो । एसो वुण सुहुमाणुभागादो अणंतगुणो, असण्णिपंचिंदियहदसमुप्पत्तियकम्मेण
णेरइएसु लद्धजहण्णभावत्तादो । तदो सिद्धमेदस्स ततो अणंतगुणत्तं ।

❀ रदीए जहणणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३१०. एत्थ सामित्तभेदाभावे वि पुरंगमकारणत्तेणाणंतगुणत्तमं विरुद्धं ।

❀ पुरिसवेदस्स जहणणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३११. एत्थ कारणं रदी रमणमेत्तुप्पाइया पलालग्गिसण्णिहसत्तिविसेसो पुण
पुंवेदो तदो सामित्तविसयभेदाभावे वि सिद्धमेदस्साणंतगुणव्भहियत्तं ।

❀ इत्थिवेदस्स जहणणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३१२. किं कारणं ? कारिसग्गिसरिसतिव्वपरिणामणित्रंधणत्तादो ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभागसंकम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंकम विशेष अधिक है ।

§ ३०८. ये सूत्र सुगम हैं ।

* उससे हास्यका जघन्य अनुभागसंकम अनन्तगुणा है ।

§ ३०९. अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंकम सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हत-
समुत्पत्तिकर्मसे अनन्तगुणे हीन नवकवन्ध अनुभागसंकमरूप है और यह सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी
अनुभागसे अनन्तगुणा है, क्योंकि यह असञ्जी पञ्चेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिकर्मके साथ नारकियोंमें
जघन्यपनेको प्राप्त हुआ है, इसलिए यह अनन्तानुबन्धी लोभके जघन्य अनुभागसंकमसे अनन्तगुणा
है यह सिद्ध होता है ।

* उससे रतिका जघन्य अनुभागसंकम अनन्तगुणा है ।

§ ३१०. यद्यपि हास्यके जघन्य अनुभागसंकम और रतिके जघन्य अनुभागसंकमके स्वामीमें
भेद है फिर भी उससे आगेका कारण होनेसे इसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

* उससे पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसंकम अनन्तगुणा है ।

§ ३११. यहाँ पर कारण यह है कि रति रमणमात्रको उत्पन्न करनेवाली है । परन्तु पुरुषवेद
पलालकी अग्निके समान शक्ति विशेषरूप है, इसलिए इनके स्वामीमें भेद न होने पर भी उससे
इसका जघन्य अनुभागसंकम अनन्तगुणा है यह सिद्ध होता है ।

* उससे स्त्रीवेदका जघन्य अनुभागसंकम अनन्तगुणा है ।

§ ३१२. क्योंकि यह कारीषकी अग्निके समान तीव्र परिणामोंसे उत्पन्न होता है ।

- ❁ दुगुंछाए जहएणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।
 § ३१३. कुदो ? पयडिविसेसेणेव तस्स तहाभावेणावट्टाणादो ।
 ❁ भयस्स जहएणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।
 § ३१४. सुगममेदं, ओघादो अविस्सिद्धकारणत्तादो ।
 ❁ सोगस्स जहएणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।
 § ३१५. एदं पि सुगमं ओघसिद्धकारणत्तादो ।
 ❁ अरदीए जहएणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।
 § ३१६. एदं च सुवोहं, ओघम्मि परूविदकारणत्तादो ।
 ❁ एवुंसयवेदस्स जहएणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।
 § ३१७. किं कारणं ? इट्टगावागगिसरिसपरिणामकारणत्तादो ।
 ❁ अपच्चक्खाणमाणस्स जहएणाणु भागसंकमो अणंतगुणो ।
 § ३१८. कुदो ! णोकसायाणुभागादो कसायाणुभागस्स महल्लत्तसिद्धीए णाइयत्तादो ।
 ❁ कोधस्स जहएणाणु भागसंकमो विसेसाहित्रो ।
 ❁ मायाए जहएणाणु भागसंकमो विसेसाहित्रो ।
 ❁ लोभस्स जहएणाणु भागसंकमो विसेसाहित्रो ।

-
- * उससे जुगुप्साका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।
 § ३१३. क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेसे ही वह इस प्रकारसे अवस्थित है ।
 * उससे भयका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।
 § ३१४. यह सुगम है, क्योंकि ओघप्ररूपणामे जो इसका कारण बतलाया है उसी प्रकारका कारण यहाँ भी प्राप्त होता है ।
 * उससे शोकका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।
 § ३१५. यह भी सुगम है, क्योंकि ओघप्ररूपणामें इसके कारणकी सिद्धि कर आये हैं ।
 * उससे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।
 § ३१६. यह भी सुवोध है, क्योंकि ओघप्ररूपणामे इसका कारण कह आये हैं ।
 * उससे नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।
 § ३१७. क्योंकि अवाकी अग्निके समान परिणाम इसका कारण है ।
 * उससे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।
 § ३१८. क्योंकि नोकपायोंके अनुभागसे कषायोंका अनुभाग अधिक है यह न्याय-सिद्ध बात है ।
 * उससे अप्रत्याख्यानक्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।
 * उससे अप्रत्याख्यान मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।
 * उससे अप्रत्याख्यानलोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३१६. एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

✽ पञ्चक्खाणमाणस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३२०. कुदो ? सयलसंजमवादिच्चण्णहाणुवत्तीए तस्स सम्भावसिद्धीदो ।

✽ कोहस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

✽ मायाए जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

✽ लोभस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

§ ३२१. एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्तकारणावेक्खाणि सुगमाणि ।

✽ माणसंजलणस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३२२. कुदो ? जहाक्खादसंजमवादणसत्तिसमण्णदत्तादो ।

✽ कोहसंजलणस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

✽ मायासंजलणस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

✽ लोभसंजलणस्स जहणणाणुभागसंकमो विसेसाहिअो ।

§ ३२३. एत्थ सव्वत्थ पयडिविसेसो चेय विसेसाहित्तस्स कारणं दट्टव्वं । विसेस-
पमाणं च अणंताणि फहयाणि ति घेत्तव्वं ।

✽ मिच्छत्तस्स जहणणाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३१६. ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं ।

* उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ ३२०. क्योंकि अन्यथा यह मान सकलसंयमका घाती नहीं हो सकता, इसलिए वह पूर्वोक्तसे अनन्तगुणा सिद्ध होता है ।

* उससे प्रत्याख्यानक्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानमायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३२१. प्रकृति विशेषमात्र कारणोंकी अपेक्षा रखनेवाले ये तीनों ही सूत्र सुगम हैं ।

* उससे मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ ३२२. क्योंकि यह यथाख्यातसंयमका घात करनेवाली शक्तिसे युक्त है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे मायासंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे लोभसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३२३ यहाँ पर सर्वत्र प्रकृतिविशेष ही विशेष अधिक होनेका कारण जानना चाहिए और विशेषका प्रमाण अनन्त स्पर्धक हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए ।

* उससे मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

३२४. कुदो ? सयलपदत्थविसयसदहणलक्खणसम्मत्तसण्णिदजीवगुणवादणणहाणुव-
वत्तीदो । एवं णिरयोवो सुत्तयारेण परूविदो । एसो चैव पढमपुढवीए वि कायव्वो,
विसेसाभावादो । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चैव वत्तव्वं । सेसगईसु वि णिरयोधालावो
चैव किं चि विसेसाणुविदो कायव्वो ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरमाह—

❀ जहा णिरयगईए तहा सेसासु गदोसु ।

§ ३२५. अप्पावहुअं रोदव्वमिदि वक्कज्जाहारमेत्थ कादूण सुत्तत्थस्स समप्पणा
कायव्वा । तदो एदम्मि देसामासियसुत्ते णिलीणत्थविवरणं कस्सामो । तं जहा—मणुस-
तिए ओघभंगो । णवरि मणुसिणीसु पुरिसवेदजहण्णाणुभागसंकमो रदीए उवरि अणंतगुणो
कायव्वो, छण्णोकसाएहिं सह चिराणसंतंसरूबेण तत्थं जहण्णभावोवल्लंभादो । तिरिक्ख-
पंचिंदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाव सव्वद्धा ति णिरयोघभंगो । पंचि०तिरि०-
अपज्ज०—मणुसअपज्ज० उक्कस्सभंगो । संपहि सेसमग्गणाणं देसामासयभावेण एइंदिएसु
थोववहुत्तपदुप्पायणद्वुत्तरसुत्तमाह—

❀ एइंदिएसु सव्वत्थोवो सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो ।

§ ३२६. सुगमं ॥

❀ सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३२४. क्योंकि सकल पदार्थविषयक श्रद्धानलक्षण सम्यक्त्व संज्ञावाले जीवगुणका घात
अन्यथा वन नहीं सकता । इस प्रलार सूत्रकारने सामान्यसे नारकियोंमें अल्पबहुत्वका कथन किया ।
इसे ही पहली पृथिवीमें करना चाहिए, क्योंकि ओघप्ररूपणासे इसमें कोई विशेषता नहीं है । दूसरी
पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें इसी प्रकार कथन करना चाहिए । अब शेष गतियों-
में भी कुछ विशेषताको लिए हुए सामान्य नारकियोंके समान आलाप करना चाहिए इस बातका
ज्ञान कराते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिस प्रकार नरकगतिमें अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार शेष गतियोंमें उसका
कथन करना चाहिए ।

§ ३२५. 'अल्पबहुत्व ले जाना चाहिए' इस वाक्यका अच्याहार यहाँ पर करके सूत्रके अर्थकी
समाप्ति करनी चाहिए । इसलिए इस देशामर्षक सूत्रमें गर्भित हुए अर्थका विवरण करते हैं । यथा—
मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदके जघन्य
अनुभागसंक्रमको रतिके ऊपर अनन्तगुणा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका छद्म नोकषायोंके
साथ प्राचीन सत्कर्मरूपसे जघन्यपना पाया जाता है । सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक,
सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान
भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चा अपर्याप्त और मनुष्य, अपर्याप्तकोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है । अब शेष
मार्गणाओंके देशामर्षक रूपसे एकेन्द्रियोंमें अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्वका जघन्य अनुभागसंक्रम सबसे स्तोत्र है ।

§ ३२६. यह सूत्र सुगम है ।

* उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ ३२७. सुगमं ।

❀ हस्सस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

§ ३२८. कुदो ? सव्वघादिविद्वान्णियत्ते समाणे वि संते सम्मामिच्छत्तस्स विसयीकय-
दारुअसमाणान्तिमभागमुल्लंघिय परदो एदस्सावद्वान्णदंसणादो ।

❀ सेसाणं जहा सम्माइड्ढिवंधे तथा कायव्वो ।

§ ३२९. एत्थ सम्माइड्ढिवंधे ति णिहेसेण सम्मन्ताहिमुहसव्वविसुद्धमिच्छाइड्ढिजहण-
बंधस्स गहणं कायव्वं, अण्णहा अणंतगुणबंधियादीणं सम्माइड्ढिवंधवहिभूदानमप्पावहुअ-
विहाणाणुववत्तीदो । विसोहिपरिणामोवलक्खणमेत्तं चेदं तेण विसुद्धमिच्छाइड्ढिवंधे जारिस-
मप्पावहुअं परुविदं तारिसमेवेत्थ, सेसपयडीणं कायव्वं, विसोहिणिवंधणसुहुमेइं दियहदसमु-
पत्तियकम्मेण लद्धजहण्णभावाणं तब्भावविरोहाभावदो ति एसो सुत्तन्थसव्वभावो ।

§ ३३० संपहि तदुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—हस्सजहण्णाणुभागसंकमादो उवरि
रदीए जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । पुरिसवेदस्स जहण्णाणु० अणंतगुणो । इत्थिवेद०
जहण्णाणु० अणंतगुणो । दुगुंछा० जहण्णा० अणंतगुणो । भय० जहण्णाणु० अणंतगुणो ।
सोग० जह० अणंतगुणो । अरदीए जह० अणंतगुणो । णवुंस० जह० अणंतगुणो ।

§ ३२७. यह सूत्र सुगम है ।

* उससे हास्यका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ ३२८. क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व और हास्य इन दोनोंका जघन्य अनुभागसंक्रम सर्ववार्ति
द्विस्थानिकरूपसे समान है तो भी सम्यग्मिथ्यात्वके विषयरूप दारुसमान अनन्तवें भागको
उल्लंघन कर आगे इसका अवस्थान देखा जाता है ।

* शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका अल्पबहुत्व जिस प्रकार सम्यग्दृष्टि
बन्धमें किया है उस प्रकार करना चाहिए ।

§ ३२९. यहाँ पर सूत्रमे 'सम्माइड्ढिवंधे' ऐसा निर्देश करनेसे सम्यक्त्वके अभिमुख हुए
सर्वविशुद्ध मिथ्यादृष्टिके जघन्य बन्धका ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा सम्यग्दृष्टिके बन्धसे बाहर
हुए अनन्तानुबन्धी आदिके अल्पबहुत्वका विधान नहीं बन सकता है । यह कथन मात्र विशुद्ध
परिणामोंका उपलक्षणरूप है । इसलिए विशुद्ध मिथ्यादृष्टिके बन्धमें जिस प्रकारका अल्पबहुत्व कहा है
उसी प्रकारका ही यहाँ पर शेष प्रकृतियोंका करना चाहिए, क्योंकि विशुद्धिनिमित्तक सूक्ष्म एकेन्द्रिय-
सम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक कर्मरूपसे जघन्यपनेको प्राप्त हुए उक्त प्रकृतियोंके अनुभागोंका विशुद्ध
मिथ्यादृष्टिके बन्धके समान होनेमें कोई विरोध नहीं आता इस प्रकार यह इस सूत्रका अर्थ है ।

§ ३३०. अब उसकी उच्चारणको बतलाते हैं । यथा—हास्यके जघन्य अनुभाग संक्रमसे
रतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । उससे पुरुषवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्त-
गुणा है । उससे स्त्रीवेदका जघन्य अनुभाग संक्रम अनन्तगुणा है । उससे जुगुप्साका जघन्य अनु-
भाग संक्रम अनन्तगुणा है । उससे भयका जघन्य अनुभाग संक्रम अनन्तगुणा है । उससे शोकका
जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । उससे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है ।
उससे नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । उससे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य

अपच्चक्खाणमाण० जह० अणंतगुणो । कोधस्स जह० विसे० । मायाए जह० विसे० ।
लोभ० जह० विसे० । पच्चक्खाणमाण० जह० अणंतगुणो । कोध० जह० विसे० ।
मायाए जह० विसे० । लोभ० जह० विसे० । माणसंज० अणंतगुणो । कोध० विसे० ।
माया० विसे० । लोभ० विसे० । अणंताणु०माण० जहण्णाणु०सं० अणंतगुणो । कोह०
विसे० । मायाए० विसेसा० । लोह० विसे० । मिच्छत्तस्स जह० अणंतगुणो त्ति एव-
मेदीए दिसाए सेसमग्गणासु वि अप्पावहुअं जाणिय कायव्वं ।

एवमप्पावहुए समत्ते चउवीसमणिओगदाराणि समत्ताणि ।

❀ भुजगारे त्ति तेरस अणिओगदाराणि ।

§ ३३१. चउवीसमणियोगदारेसु परुविय समत्तेसु किमड्डमेसो भुजगारसण्णियो अहि-
यारो समागओ ? वुच्चदे—जहएणुक्कस्स भेयभिण्णाणुभागसंक्रमस्स सगंतोभाविदाजहण्णाणुक्कस्स
वियप्पस्स अवत्थाभेयपदुप्पायणड्डमागओ, तदवत्थाभूदभुजगारादिपदाणमेत्थ समुक्कित्तादि-
तेरसाणियोगदारेहि विसेसिऊण परुवणोवलंभादो ।

❀ तत्थ अड्डपदं ।

अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे अप्रत्याख्यानक्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानमायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे अप्रत्यानलोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे प्रत्याख्यानक्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यानमायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यान लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे मायासंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धीमानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। इस प्रकार इस दिशासे शेष मार्गणाओंमें भी अल्पवहुत्वं जानकर करना चाहिए।

इस प्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होने पर चौदह अनुयोगद्वार समाप्त हुए।

* भुजगार अधिकारका प्रकरण है। उसमें तेरह अनुयोगद्वार होते हैं।

§ ३३१. चौबीस अनुयोगद्वारोंका कथन समाप्त होने पर यह भुजगार संज्ञावाला अधिकार किसलिए आया है ? कहते हैं—जिसके भीतर अजघन्य और अनुत्कृष्ट भेद गर्भित हैं ऐसे जघन्य और उत्कृष्टके भेदसे दो प्रकारके अनुभाग संक्रमके अवस्थाभेदोंका कथन करनेके लिए यह अधिकार आया है, क्योंकि उसके अवस्थारूप भुजगार आदि पदोंका यहाँ-पर समुत्कीर्तना आदि तेरह अनुयोगद्वारोंके आश्रयसे पृथक् पृथक् कथन उपलब्ध होता है।

* उस विषयमें यह अर्थपद है।

§ ३३२. तम्मि भुजगारसंकमे भुजगारादिपदाणं सरूवविसयगिण्णयजणणट्टमट्टपदं वण्णइस्सामो त्ति वुत्तं होइ । किं तमट्टपदमिदि पुच्छासुत्तमाह—

❀ तं जहा ।

§ ३३३. सुगमं ।

❀ जाणि एहिं फहयाणि संकामेदि अणंतरोसक्काविदे अप्पदर-संकमादो बहुगाणि त्ति एस भुजगारो ।

§ ३३४. एदस्स भुजगारसंकमसरूवणिरूवयसुत्तस्स अत्थो वुच्चदे—जाणि अणुभाग-फहयाणि एहिं वट्टमाणसमए संकामेदि ताणि बहुआणि । कत्तो ? अणंतरोसक्काविदे अप्पदरसंकमादो अणंतरविदिककंतसमए थोवयरादो संकमपरिणदफहयकलावादो त्ति भणिदं होदि ? एस भुजगारो एवंलक्खणो भुजगारसंकमो त्ति दट्टव्वो । थोवयरफहयाणि संकामे-माणो जाधे तत्तो बहुवयराणि फहयाणि संकामेदि सो तस्स ताधे भुजगारसंकमो त्ति भावत्थो ।

❀ ओसक्काविदे बहुदरादो एहिमप्पदराणि संकामेदि त्ति एस अप्पदरो ।

§ ३३५. एत्थ ओसक्काविदसदो अणंतरविदिककंतसमयवाचओ त्ति वेत्तव्वो । अथवा

§ ३३२. उस भुजगारसंकमके विषयमे भुजगार आदि पदोंका स्वरूपविषयक निर्णयको उत्पन्न करनेके लिए अर्थपदका कथन करते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । वह अर्थपद क्या है ऐसी जिज्ञासाके अभिप्रायसे पृच्छासूत्रको कहते हैं—

* यथा

§ ३३३, यह सूत्र सुगम है ।

* जिन स्पर्धकोंको वर्तमान समयमें संक्रमित करता है वे अनन्तरपूर्व समयमें संक्रमको प्राप्त हुए अल्पतर संक्रमसे बहुत हैं यह भुजगारसंकम है ।

§ ३३४. अब भुजगारसंकमके स्वरूपका कथन करनेवाले इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—जिन अनुभागस्पर्धकोंका 'एहिं' अर्थात् वर्तमान समयमे संक्रमण करता है वे बहुत हैं । किससे बहुत हैं ? 'अणंतरोसक्काविदे अप्पदरसंकमादो' अर्थात् अनन्तर व्यतीत हुए पूर्व समयमे संक्रमरूपसे परिणत हुए स्तोक्तर स्पर्धककलापसे बहुत हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 'एस भुजगारो' अर्थात् इस प्रकारके लक्षणवाला भुजगारसंकम है ऐसा जानना चाहिए । स्तोक्तर स्पर्धकोंका संक्रम करनेवाला जीव जब उनसे बहुत स्पर्धकोंका संक्रम करता है यह उसका उस समय भुजगार संक्रम होता है यह इसका भावार्थ है ।

* अनन्तर पूर्व समयमें संक्रमको प्राप्त हुए बहुत स्पर्धकोंसे वर्तमान समयमें अल्पतर स्पर्धकोंको संक्रमित करता है यह अल्पतरसंकम है ।

§ ३३५. इस सूत्रमे 'ओसक्काविद' शब्द अनन्तर व्यतीत हुए समयका वाची है ऐसा यहाँ

बहुदुरादो पुव्विल्लसमयसंकमादो एण्हिमोसक्काविदे इदानीमपकर्षिते न्यूनीकृतेऽल्पतराणि स्पर्धकानि संक्रमयतोत्यल्पतरसंक्रम इति सूत्रार्थसंबंधः । सुगममन्यत् ।

❀ ओसक्काविदे एण्हिं च तत्तियाणि संकामेदि त्ति एस अवट्टिदसंकमो ।

§ ३३६. अनन्तरव्यतिक्रान्तसमये वर्तमानसमये च तावतामेव स्पर्धकानां संक्रमोऽवस्थितसंक्रम इति यावत् ।

❀ ओसक्काविदे असंकमादो एण्हिं संकामेदि त्ति एस अवत्तव्वसंकमो ।

§ ३३७. ओसक्काविदे अणन्तरहेट्टिमसमये असंकमादो संक्रमविरहलक्खणादो अवत्थाविसेसादो एण्हिमिदाणि वट्टमाणसमये संकामेदि त्ति संक्रमपज्जाएण परिणामेदि त्ति एस एवंलक्खणो अवत्तव्वसंकमो । असंकमादो जो संक्रमो सो अवत्तव्वसंकमो त्ति भावत्यो ।

❀ एदेण अट्टपदेण सामित्तं ।

§ ३३८. एदेणाणन्तरपरूविदेण अट्टपदेण णिच्छिदसरूवाणं भुजगारादिपदाणं सामित्तमिदाणि कस्सामो त्ति पइण्णावक्कमेदं । किमट्टमेत्थ सामित्तादीणं जोणोभूदा समुक्कित्ताणु सुत्तयारेण ण परूविदा ? ण, सुगमत्ताहिप्पाएण तदपरूवणादो ।

ग्रहण करना चाहिए । अथवा पहलेके समयमे किये गये बहुतर संक्रमसे 'एण्हिमोसक्काविदे' अर्थात् वर्तमान समयमे अपकर्षित करने पर अर्थात् कम करने पर अल्पतर स्पर्धकोंको संक्रमित करता है यह अल्पतरसंक्रम है इस प्रकार सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है । शेष कथन सुगम है ।

* अनन्तर व्यतीत हुए समयमें और वर्तमान समयमें उतने ही स्पर्धकोंका संक्रम करता है यह अवस्थितसंक्रम है ।

§ ३३६ अनन्तर व्यतीत हुए समयमे और वर्तमान समयमे उतने ही स्पर्धकोंका संक्रम अवस्थितसंक्रम है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* अनन्तर व्यतीत हुए समयमें संक्रम न करके वर्तमान समयमें संक्रम करता है यह अवत्तव्वसंक्रम है ।

§ ३३७. 'ओसक्काविदे' अर्थात् अनन्तर व्यतीत हुए समयमें असंकमसे अर्थात् संक्रम-विरहलक्षण अवस्थाविशेषसे आकर 'एण्हिं' अर्थात् वर्तमान समयमे 'संकामेदि' अर्थात् संक्रम पर्यायसे परिणत कराता है 'एस' अर्थात् इस प्रकारके लक्षणवाला अवक्तव्यसंक्रम है । असंकमरूप अवस्थाके बाद जो संक्रम होता है वह अवक्तव्यसंक्रम है यह इस कथनका भावार्थ है ।

* अब इस अर्थपदके अनुसार स्वामित्वका कथन करते हैं ।

§ ३३८. इस अनन्तर पूर्व कहे गये अर्थपदके अनुसार जिनके स्वरूपका निर्णय कर लिया है ऐसे भुजगार आदि पदोंके स्वामित्वको इस समय बतलाते हैं, इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है ।

शंका—यहाँ पर स्वामित्व आदिकी योनिरूप समुत्कीर्तनाका सूत्रकारने कथन क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि समुत्कीर्तनाका कथन सुगम है इस अमिप्रायसे सूत्रकारने उसका कथन नहीं किया ।

§ ३३६. एत्थ वक्खाणाइरिएहिं समुक्कित्ताणा कायव्वा । तं जहा—समुक्कित्ताणाणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओघेणादेसेण य । ओघो विहत्तिभंगो । एवरि वारसक०—णवणोक० अत्थि अवत्तव्वसंकमो वि । एवं मणुसत्तिए । आदेसेण सव्वणोरइय०—सव्वतिरिक्ख—मणुअपज्ज०—सव्वदेवा त्ति विहत्तिभंगो । एवं समुक्कित्ताणा गया ।

❀ मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो को होइ ?

§ ३४०. किं मिच्छाइड्डी सम्भाइड्डी देवो गोरइओ वा इच्चादिविसेसावेक्खमेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ मिच्छाइड्डी अण्णदरो ।

§ ३४१. एत्थ मिच्छाइड्ढिणिदेसेण सम्भाइड्ढिषडिसेहो कओ । अण्णदरणिदेसो चउगइ-गयमिच्छाइड्ढिगहणड्ढो ओगाहणादिविसेसपडिसेहड्ढो च । तदो मिच्छाइड्ढी चेव मिच्छत्ताणु-भागस्स भुजगारसंकामओ त्ति सिद्धं ।

❀ अप्पदर-अवट्ठिदसंकामओ को होइ ?

§ ३३६. अब यहाँ पर व्याख्यानाचार्यों को समुत्कीर्तना करनी चाहिए । यथा—समुत्कीर्तना-नुगमसे निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघ प्ररूपणाका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि वारह कपाय और नौ नोकपायोंका अवक्तव्यसंकम भी है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त और सब देवोंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—अनुभागविभक्तिमें सत्कर्मकी अपेक्षा जिस प्रकार ओघ और आदेशसे समुत्कीर्तनाका कथन किया है उसी प्रकार वह सब कथन यहाँ भी बन जाता है । मात्र उपशमश्रेणिमें वारह कषायों और नौ नोकषायोंका उपशम हो जानेके बाद जब तक ऐसा जीव उतरकर पुन नीचे नहीं आता या मरकर देव नहीं होता तब तक संक्रम नहीं होता । उसके बाद संक्रम होने लगता है, इसलिए यहाँ पर ओघसे इन प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंकमका निर्देश अलगसे किया है । साथ ही यह संक्रम मनुष्यत्रिकमे बन जानेसे यहाँ पर इसे भी अलगसे बतलाया है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

* मिथ्यात्वका भुजगार संक्रामक कौन होता है ?

§ ३४०. मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दृष्टि, देव या नारकी इनमेसे कौन होता है इत्यादि विशेषकी अपेक्षा रखनेवाला यह सूत्र है ।

* अन्यतर मिथ्यादृष्टि होता है ।

§ ३४१. यहाँ पर 'मिथ्यादृष्टि' पदके निर्देश द्वारा सम्यग्दृष्टिका निषेध किया है । चारों गतियोंके मिथ्यादृष्टिके ग्रहण करनेके लिए तथा अवगाहना आदि विशेषका निषेध करनेके लिए 'अन्यतर' पदका निर्देश किया है । इसलिए मिथ्यादृष्टि ही मिथ्यात्वके अनुभागका भुजगारसंकामक होता है यह सिद्ध हुआ ।

* अल्पतर और अवस्थितसंकामक कौन होता है ?

§ ३४२. सुगमं ।

❀ अरणदरो ।

§ ३४३. एसो अणदरणिदेसो मिच्छाइडि-सम्माइड्डीणमणदरगहणट्ठो, तत्थोभयत्थ वि पयदसामित्तस्स विप्पडिसेहाभावादो । तदो मिच्छाइड्डी सम्माइड्डी वा मिच्छत्तअप्पदरा-वट्ठिदाणं सामी होइ त्ति सिद्धं ।

❀ अवत्तव्वसंक्रामत्तो एत्थि ।

३४४. कुदो ? मिच्छत्तस्स सव्वकालमसंक्रमादो संक्रमसमुप्पत्तीए अणुवलंभादो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवज्जाणं ।

§ ३४५. जहा मिच्छत्तस्स भुजगारादिपदाणं सामित्तविहाणं कदमेवं सेसकम्माणं पि कायव्वं, विसेसाभावादो । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमिह पडिसेहो तत्थ विसेसंतरसंभवपदु-प्पायणफलो । सो च विसेसो भणिस्समाणो । एत्थ वि थोवयरो विसेसो अत्थि त्ति जाणावणट्ठमुत्तरसुत्तमाह—

❀ एवरि अवत्तव्वगो चं अत्थि ।

§ ३४६. वारसक०-णवणोकसायाणमुवसमसेठीए अणंताणुवंधीणं च विसंजोयणा-

§ ३४२. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्यतर जीव होता है ।

§ ३४३. सूत्रमे यह 'अन्यतर' पदका निर्देश मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि इनमेसे अन्यतर जीवके ग्रहणके लिए आया है, क्योंकि उन दोनोंमें ही प्रकृत स्वामित्वका निषेध नहीं है । इसलिए मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि कोई भी मिथ्यात्वके अल्पतर और अवस्थितसंक्रमोंका स्वामी है यह सिद्ध हुआ ।

* मिथ्यात्वका अवक्तव्यसंक्रामक नहीं है ।

§ ३४४. क्योंकि मिथ्यात्वकी सदाकाल असंक्रमरूप अवस्थासे संक्रमकी उत्पत्ति नहीं उपलब्ध होती ।

* इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको छोड़कर शेष कर्मोंका स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ३४५. जिस प्रकार मिथ्यात्वके भुजगार आदि पदोंके स्वामित्वका कथन किया है उसी प्रकार शेष कर्मोंका भी करना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्वके स्वामित्व कथनसे इन कर्मोंके स्वामित्व कथनमे कोई विशेषता नहीं है । यहाँ पर जो सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका निषेध किया है सो इन दोनों प्रकृतियोंमे विशेष फरक सम्भव है इतना कथन करना इसका फल है । और वह जो फरक है उसे आगे कहेंगे । यहाँ पर स्तोत्रतर विशेष है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यसंक्रामक भी होता है ।

§ ३४६. क्योंकि वारह कपाय और नौ नोकपायोंका उपशमश्रेणिमे तथा अनन्तानुबन्धियोंका

पुत्रसंजोगे अवत्तव्रसंक्रमदंसणादो । तदो वारसक०—णवणोक० अवत्त०संका० को होइ ?
 सव्योव्रसामणादो परिवदमाणओ देवो वा पढमसमयसंक्रामओ । अणंताणु० अवत्तव्र-
 संक्रामओ को होइ ! विसंजोयणादो संजुत्तो होदूगावलियादिक्कंतो त्ति सामित्तं कायव्वमिदि
 भावत्थो । एवमेदं परूविय संपहि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तगयसामित्तभेदपदुप्पायणडुमुत्तर-
 सुत्तपवंधो—

❀ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगारसंक्रामओ एत्थि ।

§ ३४७. कुदो ! तदणुभागस्स वड्ढिविरहेणावड्ढित्तादो ।

❀ अप्पदर-अवत्तव्वसंक्रामगो को होइ ?

§ ३४८. सुगमं ।

❀ सम्माइड्ढो अण्णदरो ।

§ ३४९. एत्थ सम्माइड्ढिण्णिदेसो मिच्छाइड्ढिपडिसेहफलो, तत्थ पयदसामित्तसंभव-
 विरोहादो । अण्णदरणिदेसो ओगाहणादिविसेसणिरायरणफलो । तदो अणादियमिच्छाइड्ढी
 सादिछव्वीससंतकम्मिओ वा सम्मत्तमुप्पाइय विदियसमए अवत्तव्वसंक्रामओ होइ । अप्पदर-
 संक्रामओ दंसणमोहक्खवओ, अण्णत्थ तदणुवलंभादो ।

❀ अवड्ढिसंक्रामओ को होइ ?

विसंयोजनापूर्वक संयोग होने पर अवक्तव्यसंक्रम देखा जाता है। इसलिए वारह कषाय और नौ
 नोकपायोंका अवक्तव्यसंक्रामक कौन होता है ? जो सर्वोपशामनासे गिरनेवाला अथवा मरकर देव
 होता है वह प्रथम समयमें संक्रमण करनेवाला जीव इनका अवक्तव्यसंक्रामक होता है। अनन्तानु-
 बन्धीचतुष्कका अवक्तव्यसंक्रामक कौन होता है ? विसंयोजनाके बाद संयुक्त होकर जिसका एक
 आवलि काल गया है वह इनका अवक्तव्यसंक्रामक होता है। इस प्रकार यहाँ पर स्वामित्व करना
 चाहिए यह इसका भावार्थ है। इस प्रकार इसका कथन करके अब सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व-
 गत स्वामित्वकी भिन्नता दिखलानेके लिए आगेकी सूत्रपरिपाटी आई है—

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगारसंक्रामक कोई नहीं होता ।

§ ३४७. क्योंकि उनका अनुभाग वृद्धिसे रहित होनेके कारण अवस्थित है ।

* अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रामक कौन होता है ?

§ ३४८. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्यतर सम्यग्दृष्टि होता है ।

§ ३४९. यहाँ पर सम्यग्दृष्टिपदके निर्देशका फल मिथ्यादृष्टिका निषेध करना है, क्योंकि
 मिथ्यादृष्टिको प्रकृत विषयका स्वामी होनेमें विरोध आता है। अन्यतर पदके निर्देशका फल अव-
 गाहना आदि विशेषोंका निराकरण करना है। इसलिए अनादि मिथ्यादृष्टि या छव्वीस प्रकृतियोंकी
 सत्तावाला सादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करके दूसरे समयमें अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी
 होता है। तथा अल्पतरसंक्रामक दर्शनमोहनीयका क्षपक होता है, क्योंकि अन्यत्र अल्पतरपद नहीं
 पाया जाता ।

* अवस्थितपदका संक्रामक कौन होता है ?

§ ३५०. सुगमं ।

❀ अएणदरो ।

§ ३५१. मिच्छाद्दुडी सम्माद्दुडी वा सामिओ त्ति भणिदं होइ । एवमोवेण सामित्तं गदं । मणुसतिए एवं चेव । णवरि वारसक०—णवणोक्क० अवत्त०संकमो कस्स ! अण्णदरस्स सव्वोवसामणादो परिवदमाणयस्स । सेसमग्गणामु विहित्तिभंगो ।

एवं सामित्तं समत्तं

❀ एत्तो एयजीवेण कालो ।

§ ३५२. एत्तो सामित्तविहासणादो उवरिमेयजीवेण कालो विहासियव्वो, तदणंतर-परुवणाजोगत्तादो त्ति वुत्तं होइ ।

❀ मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३५३. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ३५०. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्यतर जीव होता है ।

§ ३५१. मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि कोई भी जीव स्वामी है यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है । इस प्रकार ओवसे स्वामित्व समाप्त हुआ ।

मनुष्यत्रिकमे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें वारह कपाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रमका स्वामी कौन हैं ? सर्वोपशमनासे गिरनेवाला अन्यतर जीव स्वामी है । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—ओवप्ररूपणामे वारह कपाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्यपदका संक्रामक जो सर्वोपशमनासे गिरते समय विवक्षित प्रकृतियोंके संक्रमस्थलके आनेके पूर्व मरकर देव हो जाता है वह भी होता है । किन्तु मनुष्यत्रिकमे यह इस प्रकारसे प्राप्त हुआ स्वामित्व सम्भव नहीं है । इतनी ही यहाँ पर ओव प्ररूपणासे विशेषता जाननी चाहिए, इनमें शेष सब कथन ओवप्ररूपणाके समान है यह स्पष्ट ही है । मनुष्यत्रिकको छोड़कर नरकगति, तिर्यञ्चगति और देवगति तथा उनके अवान्तर भेदोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग बन जानेसे उसे अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है । तथा इसी प्रकार अन्य मार्गणाओंमें भी अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

* अब आगे एक जीवकी अपेक्षा कालको कहते हैं ।

§ ३५२. 'एत्तो' अर्थान् स्वामित्वका कथन करनेके बाद आगे एक जीवकी अपेक्षा कालका व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि यह उसके अनन्तर कथन करने योग्य है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रामकका कितना काल है ?

§ ३५३. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३५४. कुदो ! हेड्डिमाणुभागसंकमादो वंधवुड्डिवसेणोयसमयं भुजगारसंकामओ होदूण विदियसमए अवड्डिदसंकमेण परिणदम्मि तदुवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३५५. एदमणुभागड्डाणं वंधमाणो तत्तो अणंतगुणवड्डीए वड्डिदो पुणो विदियसमए वि तत्तो अणंतगुणवड्डीए परिणदो । एवमणंतगुणवड्डीए ताव वंधपरिणामं गदो जाव अंतो-मुहुत्तचरिमसमयो त्ति । एवमंतोमुहुत्तभुजगारबंधसंभगादो भुजगारसंकमुक्कस्सकालो वि अंतोमुहुत्तपमाणो त्ति णत्थि संदेहो, वंधावलियादीदक्कमेणेव संक्रमपज्जायपरिणामदंसणादो ।

❀ अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३५६. सुगमं ।

❀ जहणणक्कस्सेण एयसमओ ।

§ ३५७. तं जहा—अणुभागखंडयघादवसेणोयसमयमप्परयसंकामओ जादो विदिय-समयववड्डिदपरिणाममुवगओ, लद्धो जहणणक्कस्सेणोयसमयमेत्तो अप्पयरकालो ।

❀ अवड्डिदसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३५८. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ३५४. क्योंकि जो जीव अधस्तन अनुभागसंकमसे वन्धकी अनुभागवृद्धि वश एक समय तक भुजगारपदका संक्रामक होकर दूसरे समयमे अवस्थितसंकमरूप परिणत हो जाता है उसके मिथ्यात्वके भुजगारसंकमका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३५५. विवक्षित अनुभागस्थानका वन्ध करनेवाला जीव उससे अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे वृद्धको प्राप्त होकर पुन दूसरे समयमे भी अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे परिणत हुआ । इस प्रकार अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे तब तक वन्धपरिणामको प्राप्त हुआ जब जाकर अन्तर्मुहूर्तका अन्तिम समय प्राप्त होता है । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्त काल तक भुजगारवन्ध सम्भव होनेसे भुजगारसंकमका भी उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है इसमे सन्देह नहीं, क्योंकि वन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद ही क्रमसे संक्रमपर्यायरूप परिणाम देखा जाता है ।

* अल्पतर संक्रामकका कितना काल है ?

§ ३५६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३५७. यथा—कोई जीव अनुभागकाण्डकघात वश एक समयके लिए अल्पतर पदका संक्रामक हुआ और दूसरे समयमे अवस्थित परिणामको प्राप्त हुआ । इस प्रकार मिथ्यात्वके अल्पतरपदका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त हुआ ।

* अधस्थितसंकामकका कितना काल है ?

§ ३५८. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३५६. तं जहा—एयसमयं भुजगारबंधेण परिणमिय तदणंतरसमए तत्तियं चैव बंधिय तदियसमए पुणो वि बंधवुद्धीए परिणदो होदूण बंधावलियवदिकमे ताए चैव परिवाडीए संकामओ जादो लद्धो पयदजहण्णकालो ।

❀ उक्कस्सेण तेवडिसागरोवमसदं सादिरेयं

§ ३६०. तं जहा—एगो मिच्छाड्डी उवसमसम्मत्तं घेत्तण परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गदो । तत्थ मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गमणुक्कस्साणुभागं बंधिये अंतोमुहुत्तकालं तिरिक्खमणुस्सेसु अवड्ढिदसंकामओ होदूण पुणो पलिदोवमासंखेज्जभागाउएसु भोगभूमिएसु उववण्णो तत्थावड्ढिदसंकमं कुणमाणो अंतोमुहुत्तावसेसे रगाउए वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय देवेसुववण्णो ततो पढमच्छावड्ढिमणुपालिय अंतोमुहुत्तावसेसे सम्मामिच्छत्तमवड्ढिदसंकमाविरोहेण मिच्छत्तं वा पडिवण्णो । पुणो वि अंतोमुहुत्तेण वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय विदियच्छावड्ढिमवड्ढिदसंकमणुपालेदूण तदवसाणे पयदाविरोहेण मिच्छत्तं गंतूणेक्कतीससागरोवमिएसु उववण्णो तदो णिप्पिडिदो संतो मणुसेसुववण्णो जाव संकिलेसं ण पूरेदि ताव अवड्ढिदसंकमेणेवावड्ढिदो । तदो संकिलेसवसेण भुजगारबंधं काऊण बंधावलियवदिकमे तस्स संकामओ जादो लद्धो पयदुक्कस्सकालो दोअंतोमुहुत्तेहि पलिदोवमासंखेज्जभागेण च अब्भहियतेवड्ढिसागरोवमसदमेत्तो ।

❀ सम्मत्तस्स अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३५६. यथा—एक समय तक भुजगारबन्धरूप परिणामन करके दूसरे समयमे उतना ही बन्ध करके तीसरे समयमे फिर भी बन्धकी वृद्धिरूपसे परिणत होकर बन्धावलिके बाद उसी परिपाटीसे संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत जघन्य काल प्राप्त हुआ ।

* उत्कृष्ट काल साधिक एकसौ त्रेसठ सागर है ।

§ ३६०. यथा—एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर परिणामवशा मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ और वहाँ मिथ्यात्वके तत्प्रायोग्य अनुत्कृष्ट अनुभागका बन्धकर अन्तर्मुहूर्तकाल तक तिर्यञ्चो और मनुष्योंमें अवस्थितपदका संक्रामक होकर फिर पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण आयुवाले भोगभूमिजोमे उत्पन्न हुआ । तथा वहाँ अवस्थितपदका संक्रम करता हुआ अपनी आयुमे अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहनेपर तथा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर देवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्तर प्रथम छयासठ सागर कालतक उसका पालन करके अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर सम्यग्मिथ्यात्वको या अवस्थित सक्रममे विरोध न आवे इस प्रकार मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । इसके बाद फिर भी अन्तर्मुहूर्तकालमे वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करके दूसरे छयाछठ सागर काल तक अवस्थितसंक्रमका पालनकर उसके अन्तमे प्रकृत स्वामित्वके अविरोधरूपसे मिथ्यात्वको प्राप्तकर इक्कीस सागरकी आयुवाले जीवोंमे उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहाँसे निकलकर मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ तथा जब तक संक्लेशकी नहीं प्राप्त हुआ तब तक अवस्थित संक्रमरूपसे अवस्थित रहा । अनन्तर संक्लेशवशा भुजगारबन्ध करके बन्धावलिके व्यतीत होनेपर उसका संक्रामक हो गया । इस प्रकार दो अन्तर्मुहूर्त और पल्यका असंख्यातर्वा भाग अधिक एकसौ त्रेसठ सागरप्रमाण प्रकृत उत्कृष्ट काल प्राप्त हुआ ।

* सम्यक्त्वके अल्पतरसंक्रामकका कितना काल है ?

§ ३६१. सुगमं ।

❀ जहणेण एयसमओ ।

§ ३६२. दंसणमोहक्खण्णाए एयमणुभागखंडयं पादिय सेसाणुभागं संकामेमाणस्स पढमसमयम्मि तदुवलंभादो ।

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३६३. कुदो ? सभ्तस्स अट्टवस्सट्ठिदिसंतप्पहुडि जाव समयाहियावलियअक्खीण-दंसणमोहणीयो त्ति ताव अणुसमयोवट्ठणं कुणमाणो अंतोमुहुत्तमेत्तकालमप्पयरसंकामओ होइ, तत्थ पडिसमयमगंतगुणहाणीए तदणुभागस्स हीयमाणक्कमेण संकंतिदंसणादो ।

❀ अवट्ठिदसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३६४. सुगमं ।

❀ जहणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३६५. दुचरिमाणुभागखंडयं घादिय तदगंतरसमए अप्पयरभावेण परिणदस्स पुणो चरिमाणुभागखंडयुक्कीरणकालो सव्वो चेवावट्ठिदसंकामयस्स जहण्णकालत्तेण गहियव्वो ।

❀ उक्कस्सेण वेत्थावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ३६६. तं जहा—एक्को अणादियमिच्छाइट्ठी पढमसम्मत्तमुप्पाइय विदियसमए

§ ३६१. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३६२. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणद्वारा एक अनुभागकाण्डकका पतन करके शेष अनुभागका संक्रमण करनेवाले जीवके प्रथम समयमें जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३६३. क्योंकि सम्यक्त्वके आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे लेकर जब तक दर्शनमोहनीयकी क्षणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहता है तब तक प्रत्येक समयमें अनुभागकी अपवर्तना करनेवाला जीव अन्तर्मुहूर्त काल तक अल्पतरपदका सक्रामक होता है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक समयमें अनन्तगुणज्ञानिरूपसे सम्यक्त्वके अनुभागका हीयमानक्रमसे संक्रमण देखा जाता है ।

* अवस्थितसंक्रामकका कितना काल है ?

§ ३६४. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३६५. क्योंकि द्विचरम अनुभागकाण्डकका घात करके तदनन्तर समयमें अल्पतरपदसे परिणत होकर पुनः अन्तिस अनुभागकाण्डकका जितना उत्कीरण करनेका काल है यह सभी अवस्थितसंक्रामकका जघन्य काल है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए ।

* उत्कृष्ट काल साधिका दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ ३६६. यथा—कोई एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर दूसरे

अवत्तव्यसंक्रामओ होदूण तदियादिसमएसु अवट्टिदसंकमं कुणमाणो उवसमसम्मत्तद्वाक्खएण मिच्छत्तं गदो । पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तकालमुव्वेत्तणपरिणामेणच्छिदो चरिमुच्चेल्लगफालीए सह उवसमसम्मत्तं पडिवण्णो पुणो वेदयभावेण पढमछावट्टिमणुपलिय तदवसाणे मिच्छत्तेण पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तकालमवट्टिदसंकमेणच्छिदो पुव्वं व सम्मत्तपडिलंभेण विदियछावट्टिमणुपालेयूण तदवसाणे पुणो वि मिच्छत्तं गंतूणुव्वेत्तणाचारिमफालीए अवट्टिदसंकमस्स पज्जवसाणं करोदि, तेण लद्धो पयदुकस्सकालो तीहि पलिदो० असंखे०भागेहि सादिरेयवेछावट्टिसागरोवममेत्तो ।

❀ अवत्तव्यसंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३६७. सुगमं ।

❀ जहणुक्कस्सेण एयसमओ ।

§ ३६८. असंक्रामदो संक्रामयभावमुव्वगयपढमसमए चेव तदुवलंभणियमादो ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स अप्पयर-अवत्तव्यसंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहणुक्कस्सेण एयसमयं ।

§ ३६९. अवत्तव्यसंक्रामयस्स एयसमओ सम्मत्तस्सेव परूवेयव्वो । अप्पयरसंक्रामयस्स वि दंसणमोहक्खण्णए अणुभागखंडयवादाणंतरमेयसमयसंभवो दट्ठव्वो ।

समयमे अवक्तव्यपदका संक्रामक हुआ । पुन तृतीय आदि समयोंमें अवस्थितसंक्रमको करता हुआ उपशमसम्यक्त्वके कालका क्षय होनेसे मिथ्यात्वमे गया और पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक उद्वे लनारूप परिणामसे परिणत हुआ । फिर अन्तिम उद्वे लना फालिके साथ उपशम सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुन वेदकसम्यक्त्वके साथ प्रथम छयासठ सागरप्रमाण कालको वितारकर उसके अन्तमें मिथ्यात्वमे जाकर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक अवस्थित संक्रमके साथ रहा । तथा पहलेके समान सम्यक्त्वको प्राप्त करके दूसरे छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन करके उसके अन्तमें मिथ्यात्वमे जाकर उद्वे लनाकी अन्तिम फालिके पतनतक अवस्थित संक्रमके अन्तको प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस विधिसे प्रकृत उत्कृष्ट काल तीन बार पल्यके असंख्यातवें भागोंसे अधिक दो छयासठ सागर कालप्रमाण प्राप्त हुआ ।

❀ अवत्तव्यसंक्रामकका कितना काल है ?

§ ३६७. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३६८. क्योकि संक्रम रहित अवस्थासे संक्रामकभावको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमें ही अवक्तव्यसंक्रमकी प्राप्ति नियम है ।

❀ सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रामकका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३६९. इसके अवक्तव्यसंक्रामकके एक समय कालका कथन सम्यक्त्वके समान ही करना चाहिए । तथा अल्पतर संक्रामकका भी एक समय काल दर्शनमोहनीयकी क्षणोंमें अनुभागकाण्डक घातके अनन्तर एक समय तक सम्भव है ऐसा जान लेना चाहिए ।

❁ अवडिदसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३७०. सुगमं ।

❁ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३७१. चरिमाणुभागखंडयुकीरणद्वाए तदुवलंभादो ।

❁ उक्कसेण वेछावडिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ३७२. एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणा सुगमा, सम्मतस्सेव सादिरेयवेछावडि-
सागरोवमेत्तावडिदुक्कस्सकालसिद्धीए पडिवंधाभावादो ।

❁ सेसाणं कम्माणं भुजगारं जहणणेण एयसमओ ।

§ ३७३. सुगमं ।

❁ उक्कसेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३७४. अणंतगुणवडिकालस्स तप्पमाणत्तोवएसादो ।

❁ अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३७५. सुगमं ।

❁ जहणणुक्कसेण एयसमओ ।

§ ३७६. एदं पि सुगमं । एदेण सामण्णणिद्वेसेण घुरिसवेद-चदुसंजलणाणं पि अप्पयर-

* अवस्थितसंकामकका कितना काल है ?

§ ३७०. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल अन्तमुहूर्त है ।

§ ३७१. क्योंकि अन्तिम अनुभागकाण्डके उत्कीरण कालके भीतर यह काल उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ ३७२. इस सूत्रकी अर्थप्ररूपणा सुगम है, क्योंकि सम्यक्त्वके समान इसके अवस्थित-
पदके साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण कालकी सिद्धि होनेमे कोई रुकावट नहीं आती ।

* शेष कर्मोंके भुजगारसंकामकका जघन्य काल एक समय है ।

§ ३७३. यह सूत्र सुगम है ।

* उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

§ ३७४. क्योंकि अनन्तगुणवृद्धिका उत्कृष्ट काल तत्प्रमाण है ऐसा आंगमका उपदेश है ।

* अल्पतरसंकामकका कितना काल है ?

§ ३७५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३७६. यह सूत्र भी सुगम है । यह सामान्य निर्देश है । इससे पुरुषवेद और चार

संक्रामयुक्तसकालस्य एयसमयत्ताइप्पसंगे तण्णिवारणहुवारेण तत्थ विसेसपरुवणहुमुगरिम-
मुत्तदयमाह—

❀ एवरि पुरिसवेदस्स उक्कसेण दोआवलियाओ समज्जणाओ ।

§ ३७७. कुदो ! पुरिसवेदोदयखवयस्स चरिमसमयसवेदप्पहुडि समयूणदोआवलिय-
मेत्तकालं पुरिसवेदाणुभागस्स पडिसमयमणंतगुणहीणकमेण संकमदंसणादो ।

❀ चदुयहं संजलणाणमुक्कसेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३७८. कुदो ? खवयसेठीए किट्टिवेदयपढमसमयप्पहुडि चदुसंजलणाणुभागस्स
अणुसमयोवड्डणाधाददंसणादो ।

❀ अवट्ठिदं जहणणेण एयसमओ ।

❀ उक्कसेण तेवट्ठिसावरोवमसदं सादिरेयं ।

§ ३७९. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❀ अवत्तच्चं जहणणुकसेण एयसमओ ।

§ ३८०. सुगमं । एवमोघो समत्तो । आदेसेण मणुसतिए विहत्तिभंगो । पव्वरि
वारसक०—णवणोक्क० अवत्तच्चमोघं । सेसमग्गणासु' विहत्तिभंगो ।

संज्वलनोंके भी अल्पतरसंक्रामकका उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होने पर उसके निवारण द्वारा उस विषयमें विशेष कथन करने के लिए आगेके दो सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवलि है ।

§ ३७७ क्योंकि पुरुषवेदके उदयसे क्षपकश्रे णिपर चढ़े हुए जीवके सर्वदभागके अन्तिम समयसे लेकर एक समय कम दो आवलिप्रमाण काल तक पुरुषवेदके अनुभागका प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी हानिरूपसे संक्रम देखा जाता है ।

* चार संज्वलनोंका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३७८ क्योंकि क्षपकश्रे णिमें कृष्टिवेदके प्रथम समयसे लेकर चार संज्वलनोंके अनुभागका प्रत्येक समयमें अपवर्तनाघात देखा जाता है ।

* अवस्थितसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है ।

* उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ त्रेसठ सागर है ।

§ ३७९ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

* अवक्तव्यसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३८०. यह सूत्र सुगम है । इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । आदेशसे मनुष्यत्रिकमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग हैं । इतनी विशेषता है कि वारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग हैं ।

विशेषार्थ—अनुभागविभक्तिमें न तो ओघसे वारह कषाय और नौ नोकषायोंका अवक्तव्य पदकी अपेक्षा कालका निर्देश किया है और न मनुष्यत्रिकमें ही-इन्के अवक्तव्यपदके

❀ एत्तो एयजीवेण अंतरं ।

§ ३८१. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं ।

❀ मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३८२. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ३८३. तं जहा—भुजगारसंकामओ एयसमयमवट्टिदसंकमेणंतरिय पुणो वि विदिय-समए भुजगारसंकामओ जादो ।

❀ उक्कस्सेण तेवट्टिसागरोवमसदं सादिरेयं ।

§ ३८४. तं जहा—भुजगारसंकामओ अवट्टिदभावमुवणमिय तिरिक्ख-मणुस्सेसु अंतोमुहुत्तमेत्तकालं गभिऊण तिपलिदोवमिएसुववण्णो समट्टिदिमणुवालिय थोवावसेसे जीविदव्वए ति उवसमसम्मत्तं घेत्तण तदो वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय पढम-विदियछावट्टीओ परिभमिय तदवसाणे समयविरोहेण मिच्छत्तमुवणमिय एकत्तीसं सागरोवमिएसु देवेसुववण्णो तत्तो चुदो मणुत्सेसुप्पज्जिय अंतोमुहुत्तेण संकिल्लेसं पूरिय भुजगारसंकामओ जादो । तत्थ

कालका निर्देश किया है, क्योंकि इनका अभाव होनेके बाद पुनः इनका सत्त्व सम्भव नहीं है, इसलिए वहाँ इनका अवक्तव्यपद नहीं बन सकता । परन्तु अनुभागसंकमकी दृष्टिसे इनका ओघसे अवक्तव्यपद बन जाता है । तदनुसार मनुष्यत्रिकमे तो वह सम्भव है ही । यही कारण है कि यहाँ पर मनुष्यत्रिकमे इनके अवक्तव्यपदका काल अलगसे कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

* आगे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरको कहते हैं ।

§ ३८१. अधिकारकी संहाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वके भुजगारसंकामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ३८२. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ ३८३. यथा—भुजगारपदका संक्रम करनेवाला जीव अवस्थितपद द्वारा उसका एक समयके लिए अन्तर करके फिर भी दूसरे समयमे भुजगारपदका संक्रामक हो गया । इस प्रकार मिथ्यात्वके भुजगारसंकामकका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ त्रेसठ सागर है ।

§ ३८४. यथा—भुजगारपदका संक्रमण करनेवाला जीव अवस्थितपदको प्राप्त कर तथा तिर्यञ्चों और मनुष्योंमे अन्तर्मुहूर्तकाल गमाकर तीन पल्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ और अपनी स्थितिका पालनकर जीवनमें थोड़ा काल शेष रहनेपर उपशमसम्यक्त्वको ग्रहणकर अनन्तर वेदक-सम्यक्त्वको प्राप्तकर तथा पहले और दूसरे छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण कर उसके अन्तमे आगममे जैसी विधि बतलाई है उसके अनुसार मिथ्यात्वको प्राप्तकर इकतीस सागरकी आयुवाले देवोंमे उत्पन्न हुआ । अनन्तर वहाँसे च्युत होकर और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तके द्वारा संक्लेशको पूरे तीरसे प्राप्त करके भुजगारपदका संक्रामक हो गया । इस प्रकार वहाँ पर यह उत्कृष्ट

लद्धमेदमुकस्संतरं वेअंतोमुहुत्ताहियतिपलिदोवमेहि सादिरेयतेवट्टिसागरोवमसदमेत्तं ।

❁ अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३८५. सुगमं ।

❁ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३८६. तं कथं ? दंसणमोहक्खवणाए मिच्छत्तस्स तिचरिमाणुभागखंडयचरिम-
फालिं पादिय तदणंतरमप्पयरसंकमं कादूणंतरिय पुणो दुचरिमाणुभागखंडयं धादिय अप्पयर-
भावमुवगयम्मि लद्धमंतरं होइ ।

❁ उक्कस्सेण तेवट्टिसागरोवमसदं सादिरेयं ।

§ ३८७. कुदो ? अवट्टिदसंकमकालस्स पहाणभावेणेत्थ विवक्खियत्तादो ।

❁ अवट्टिदसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३८८. सुगमं ।

❁ जहणणेण एयसमओ ।

§ ३८९. भुजगारेणप्पयरेण वा एयसमयमंतरिदस्स तदुवलंभादो ।

❁ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

अन्तर दो अन्तमुहूर्त और तीन पल्य अधिक एकसौ त्रेसठ सागर प्राप्त होता है ।

* अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ३८५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

§ ३८६. शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि जो दर्शनमोहनीयकी क्षणामे मिथ्यात्वके त्रिचरम अनुभागकाण्डक-
की अन्तिम फालिका पतनकर तथा उसके बाद अल्पतरसंक्रमको करनेके बाद उसका अन्तर करके
पुन द्विचरमानुभागकाण्डकका घात करके अल्पतरपदको प्राप्त हुआ है उसके मिथ्यात्वके अल्पतरपदका
जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर साधिक एकसौ त्रेसठ सागर है ।

§ ३८७. क्योंकि इसके अन्तररूपसे यहाँ पर अवस्थितसंक्रमका काल प्रधानरूपसे विवक्षित है ।

* अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ३८८. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ ३८९. क्योंकि भुजगार या अल्पतरपदके द्वारा एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए
अवस्थितपदका उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

३६०. कुदो ? भुजगारुक्कस्सकालेणंतरिदस्स तदुवलद्वीदो ।

❁ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ?

§ ३६१. सुगमं ।

❁ जहणुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३६२. एत्थ जहणुणंतरे विवक्खिए सम्मत्तस्स चरिमाणुभागखंडयकालो धेत्तव्यो । सम्मामिच्छत्तस्स तिचरिमाणुभागखंडयषट्ठाणंतरमप्पदरं कादूणंतरिय दुचरिमाणुभागखंडए पादिदे लद्धमंतरं कायव्वं । दोण्हमुक्कस्संतरे इच्छिज्जमाणे पढमाणुभागखंडयघादाणंतरमप्पयरं कादूणंतरिय विदियाणुभागखंडए णिट्ठिदे लद्धमंतरं कायव्वं ।

❁ अवट्ठिदसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३६३. सुगमं ।

❁ जहणुणेण एयसमओ ।

§ ३६४. अप्पयरसंकमेणेयसमयमंतरिदस्स तदुवलद्वीदो ।

❁ उक्कस्सेण उवडुपोग्गलपरियट्ठं ।

§ ३६५. पढमसम्मत्तमुप्पाइय मिच्छत्तं गंतूण सव्वलहुं उव्वेल्लणचरिमफालि पादिय

§ ३६०. क्योंकि भुजगारपदके उत्कृष्ट कालके द्वारा अन्तरको प्राप्त हुए अवस्थितपदका उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ३६१. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३६२. यहाँ पर जघन्य अन्तरकालके विवक्षित होनेपर सम्यक्त्वके अन्तिम अनुभागकाण्डकका काल लेना चाहिए । सम्यग्मिथ्यात्वके त्रिचरम अनुभागकाण्डकके पतनके बाद अल्पतर करके तथा उसका अन्तर करके द्विचरम अनुभागकाण्डकके पतन होने पर अन्तर प्राप्त करना चाहिए । तथा दोनों प्रकृतियोंके अल्पतरपदके उत्कृष्ट अन्तरको लानेकी इच्छा होनेपर प्रथम अनुभागकाण्डकका घात करनेके बाद अल्पतरपद तथा उसका अन्तर करके द्वितीय अनुभागकाण्डकके समाप्त होनेपर अन्तर प्राप्त करना चाहिए ।

* अवस्थित संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ३६३. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ ३६४. क्योंकि अल्पतरपदके संक्रमद्वारा एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए अवस्थितपदका उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

§ ३६५. क्योंकि प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके और पुनः मिथ्यात्वमें जाकर अति शीघ्र

अंतरिदस्स पुणो उवड्ढुपोग्गलपरियट्ठावसाणे सम्मत्तुप्पायणतदियसभयम्मि पयदंतरसमाणणोव-
लद्धीदो ।

❖ अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ३६६. सुगमं ।

❖ जहणणेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ३६७. तं कथं ? पढमसम्मत्तुप्पत्तिविदियसमए अवत्तव्वसंक्रमं कादूणावट्ठिद-
संक्रमेणंतरिदस्स सव्वलहुमुव्वेज्जणाए णिस्संतीकरणाणंतरं पडिवण्णसम्मत्तस्स विदियसमए
लद्धमंतरं होइ ।

❖ उक्कस्सेण उवड्ढुपोग्गलपरियट्ठं ।

§ ३६८. तं जहा—पढमसम्मत्तुप्पायणविदियसमए अवत्तव्वं कादूणंतरिय उवड्ढुपोग्गल-
परियट्ठावसाणे गहिदसम्मत्तस्स विदियसमए लद्धमंतरं होइ ।

❖ सेसाणं कम्माणं मिच्छत्तभंगो ।

§ ३६९. एत्थ सेसगहणेण च तिमोहपयडीणं सव्वासिं संगहो कायव्वो । तेसिं-
मिच्छत्तभंगेण भुजगार-अप्पयरावट्ठिदसंक्रामयाणं जहण्णक्कस्संतरपरूवणा कायव्वा, विसेसा-

उद्वेलनाकी अन्तिम फालिका पतन करके अन्तरको प्राप्त हुए अवस्थितपदके पुनः उपार्धपुद्गल परिवर्तनके अन्तमें सम्यक्त्वको उत्पन्न कर उसके तीसरे समयमें प्रकृत अन्तरकालकी समाप्ति देखी जाती है ।

* अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

३६६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है ।

§ ३६७ शंका—वह कैसे ?

समाधान—प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके दूसरे समयमें अवक्तव्यसंक्रमको करके तथा अवस्थितसंक्रमके द्वारा जो अन्तरको प्राप्त हुआ है और अतिशीघ्र उद्वेलनाके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिका अभाव करनेके बाद सम्यक्त्वको प्राप्त हुए उस जीवके दूसरे समयमें पुनः अवक्तव्यसंक्रम करने पर उसका उक्त अन्तरकाल प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

§ ३६८. यथा—प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके दूसरे समयमें अवक्तव्यसंक्रमको करनेके बाद उसका अन्तर करके उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण कालके अन्तमें सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके दूसरे समयमें पुनः अवक्तव्यसंक्रम करने पर उक्तप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है । ।

* शेष कर्मोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ३६९. यहाँ पर सूत्रमें शेष पदके ग्रहण करनेसे चारित्रमोहनीयसम्बन्धी सब प्रकृतियोंका संग्रह करना चाहिए । तात्पर्य यह है कि उनके मिथ्यात्वके भङ्गके समान भुजगार, अल्पतर और

भावादो । णवरि सव्वेसिमवत्तव्वसंकामयंतरसंभवगओ विसेसो, अत्थि ति तदंतरपमाण-
विणिण्णयड्डमुत्तरसुत्तकलावमाह—

❀ एवरि अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ४०० सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४०१. वारसक०—णवणोक्क० सव्वोवसामणादो परिवदिय अवत्तव्वसंकमं
कादूणंतरिय पुणो वि सव्वलहुमुवसमसेडिमारुहिय सव्वोवसामणं काऊण परिवदमाणयस्स
पढमसमयम्मि लद्धमंतरं होइ । अणंताणुवंधीणं विसंजोयणापुव्वसंजोणेणादिं कादूग पुणो वि
अंतोमुहुत्तेण विसंजोजिय संजुत्तस्स लद्धमंतरं वत्तव्वं ।

* उक्कस्सेण उवहूपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४०२. पुव्वविहाणेणादिं कादूणद्वपोग्गलपरियट्टं परिभमिय पुणो पडिवण्ण-
तव्वभावम्मि तदुव्वलद्धीदो । एवमवत्तव्वसंकामयंतरं गयं । विसेसमेदेसिं परूविय अणंताणुवंधि-
गयमण्णं च विसेसजादं परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

अवस्थितपदका संक्रम करनेवाले जीवोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालकी प्ररूपणा करनी चाहिए,
क्योंकि इस कथनमे परस्पर कोई विशेषता नहीं है । मात्र इन सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यपदके
संक्रामकोंके अन्तरकालमे कुछ विशेषता है, इसलिये उस अन्तरके प्रमाणका निर्णय करनेके लिए
आगेका सूत्रकलाप कहते हैं—

* मात्र इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका अन्तरकाल
कितना है ?

§ ४००. यह सूत्र सुगम-है ।

* जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

§ ४०१. क्योंकि जो जीव वारह कषाय और नौ नोकषायोंका सर्वोपशमनासे गिरते हुए
अवक्तव्यसंक्रम करके तथा उसका अन्तर करके फिर भी अतिशीघ्र उपशमश्रेणि पर आरोहण करके
और सर्वोपशमना करके गिरते हुए अपने अपने संक्रमके प्रथम समयमे अवक्तव्यपद करता है उसके
इसके अवक्तव्यपदका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त प्राप्त होता है । तथा अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना
पूर्वक होनेवाले संयोगद्वारा अवक्तव्यपदके अन्तरका प्रारम्भ कराके फिर भी अन्तमुहूर्तमे
विसंयोजनापूर्वक संयोजना करनेवालेके प्राप्त हुए अन्तरका कथन करना चाहिए ।

* उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है ।

§ ४०२. क्योंकि पूर्व विधिसे इनके अवक्तव्यपद पूर्वक अन्तरका प्रारम्भ करके और
उपार्ध पुद्गल परिवर्तनकाल तक परिभ्रमण करके पुनः अवक्तव्यपदके प्राप्त होने पर उत्कृष्ट अन्तर
उक्त प्रमाण प्राप्त होता है । इस प्रकार अवक्तव्यपदके संक्रामकोंके अन्तरका कथन किया ।
इस प्रकार वारह कषाय और नौ नोकषायसम्बन्धी विशेषताका कथन करके अब अनन्तानु-
बन्धीसम्बन्धी अन्य विशेषताका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ अणंताणुबंधोणमवडिदसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ४०३. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ४०४. एदं पि सुगमं ।

❀ उक्कस्सेण वेछावडिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ४०५. सुगमं । एवमोघो समतो । आदेसेण सव्वगइमग्गणावयवेसु विहत्तिभंगो ।

पवरि मणुसतिए वारसक०—णवणोक० अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं ।

❀ णाणाजीवेहि भंगविचओ ।

§ ४०६. सुगमं ।

* मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा भुजगारसंकामया च अप्पयरसंकामया च अवडिदसंकामया च ।

§ ४०७. मिच्छत्तभुजगारादिपदाणं तिण्हमेदेसिं संकामया णाणाजीवा णियमा अत्थि ति सुत्तत्थसंबंधो । कुदो वुण सव्वद्धमेदेसिमत्थित्तिणियमो ? अणंतजीवरासिविसयत्तेण पडिवोच्छेदामावादो ।

* अनन्तानुबन्धियोंके अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४०३. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है ।

§ ४०४. यह सूत्र भी सुगम है ।

* उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ ४०५. यह सूत्र सुगम है । इस प्रकार ओषधप्ररूपणा समाप्त हुई । आदेशसे सब गति सवन्धी अवान्तर भेदोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमें वारह कपाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्यसंकामकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है ।

विशेषार्थ—कर्मभूमिके मनुष्यत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण है । इसलिए इस कालके प्रारम्भमें और अन्तमें दो बार उपशमश्रेणि पर चढ़ाने और उतारनेसे वारह कपाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्यपदका मनुष्यत्रिकमें उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त हो जाता है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

* अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचयको कहते हैं ।

§ ४०६. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक और अवस्थितसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं ।

§ ४०७. मिथ्यात्वके भुजगार आदि इन तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं ऐसा यहाँ पर सूत्रार्थका सम्बन्ध करना चाहिए ।

❀ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं एव भंगा ।

§ ४०८. कुदो ? तदवट्टिदसंकामयाणं धुवत्तेण अप्पयरावत्तव्वयाणं भयणिज्जंतदंसणादो।

❀ सेसाणं कम्माणं सव्वजीवा भुजगार-अप्पयर-अवट्टिदसंकामया ।

§ ४०९. कुदो ? तिण्हमेदेसिं पदाणं धुवभावित्तदंसणादो ।

❀ सिया एदे च अवत्तव्वसंकामओ च, सिया एदे च अवत्तव्व-संकामया च ।

§ ४१०. कुदो ? पुव्विल्लधुवपदेहिं सह कदाइमवत्तव्वसंकामयजीवाणमेगाणेगसंखा-विसेसिदाणमद्दुवभावेण संभवोवलंभादो । एवमोघेण भंगविचयो परूविदो । आदेशेण सव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

शंका—मिथ्यात्वके इन तीन पदवालोंके सर्वदा सद्भावका नियम कैसे है ?

समाधान—क्योंकि मिथ्यात्वके इन पदोंको करनेवाली अनन्त जीवराशि है, इसलिए उसका विच्छेद नहीं होता ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके नौ भङ्ग हैं ।

§ ४०८. क्योंकि इनके अवस्थितसंक्रामक ध्रुव होनेके साथ अल्पतर और अवक्तव्यपद भजनीय देखे जाते हैं ।

विशेषार्थ—यहाँ पर अवस्थितपदकी अपेक्षा प्रत्येक संयोगी एक भङ्ग, अवस्थितपदके साथ दो पदोंमेसे अन्यतरके संयोगसे द्विसंयोगी चार भङ्ग और त्रिसंयोगी चार भङ्ग ऐसे कुल नौ भङ्ग ले आना चाहिए । मात्र सर्वत्र अवस्थित पदसे युक्त नाना जीव ध्रुव रखने चाहिए । तथा शेष पदोंके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेक्षा प्रत्येकके दो दो भङ्ग मिलाना चाहिए ।

* शेष कर्मोंके भुजगारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक और अवस्थितसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं ।

§ ४०९. क्योंकि ये तीनों पद ध्रुव देखे जाते हैं ।

* कदाचित् इन तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव हैं और अवक्तव्यपदका संक्रामक एक जीव है । कदाचित् इन तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव हैं और अवक्तव्यपदके संक्रामक नाना जीव हैं ।

§ ४१०. क्योंकि पहलेके ध्रुवपदोंके साथ कदाचित् एक और अनेक संख्याविशिष्ट अवक्तव्य संक्रामकोंका अध्रुवरूपसे सद्भाव उपलब्ध होता है । इस प्रकार ओघसे भंगविचयका कथन किया । आदेशसे सब मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर आदेशसे यद्यपि सब मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है । फिर भी मनुष्यत्रिकमे ओघके समान ही जानना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट है ।

§ ४११. भागाभाग-परिमाण-खेत-फोसणाणं च विहत्तिभंगो कायव्वो । णवरि
सव्वत्थ वारसक०—णवणोक्र० अवत्त० पयडिभुजगारसंक्रमअवत्तव्वभंगो ।

❀ एाणाजीवेहि कालो ।

§ ४१२. अहियारसंभालणवयणमेदं सुगमं ।

❀ मिच्छत्तस्स सव्वे संकामया सव्वद्धा ।

§ ४१३. कुदो ? मिच्छत्तभुजगारादिपदसंकामयाणं तिसु त्रि कालेसु वोच्छेदा-
णुवलंभादो ।

❀ सम्मन्त-सम्ममिच्छत्ताणमप्पयरसंकामया केवचिरं कालादो होंति ?

§ ४१४. सुगमं ।

❀ जहरणेण एयसमत्थो ।

§ ४१५. कुदो ? दंसणमोहक्खवयणाणाजीवाणमेयसमयमणुभागखंडयघादणवसेण-
प्पयरभावेण परिणदाणं पयदजहण्णकालोवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण संखेज्जा समया ।

§ ४११. भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शनका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि वारह कषाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्यपदका भङ्ग प्रकृतिभुजगार संक्रमके अवक्तव्यपदके समान जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अनुभागविभक्ति अनुयोगद्वारमे इन अधिकारोंका जिसप्रकार कथन किया है; न्यूनाधिकतासे रहित उसी प्रकार यहाँ पर कथन करनेसे इनका अनुगम हो जाता है । मात्र वहाँ पर सत्कर्मकी अपेक्षा विवेचन किया है और यहाँ पर संक्रम पदपूर्वक वह विवेचन करना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

* अथ नाना जीवोंकी अपेक्षा कालको कहते हैं ।

§ ४१२. यह वचन अधिकारकी सम्हाल करनेके लिए आया है, जो सुगम है ।

* मिथ्यात्वके सब पदोंके संक्रामकोंका काल सर्वदा है ।

§ ४१३. क्योंकि मिथ्यात्वके भुजगार आदि पदोंके संक्रामकोंका तीनों ही कालोंमे विच्छेद नहीं पाया जाता ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामकोंका कितना काल है ?

§ ४१४. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ४१५. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षयणाके समय अनुभागकाण्डकघातवश एक समयके लिए अल्पतरपदसे परिणत हुए नाना जीवोंके प्रकृत जघन्य काल उपलब्ध होता है-।

* उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

§ ४१६. तेसिं चैव संखेज्जवारमणुसंधिदपवाहाणमप्पयरकालस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो।

✽ एवरि सम्मत्तस्स उक्कसेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४१७. कुदो ? अणुसमयोवट्टणाकालस्स संखेज्जवारमणुसंधिदस्स गहणादो ।

✽ अवट्टिदसंकामया सव्वच्चा ।

§ ४१८. सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमवट्टिदसंकामयपवाहस्स सव्वकालमवोच्छिण्ण-
सरूवेणावट्टाणादो ।

✽ अवत्तव्वसंकामया केवचिरं कालादो होंति ?

§ ४१९. सुगमं ।

✽ जहणणेण एअसमओ ।

§ ४२० संखेज्जाणमसंखेज्जाणं वा णिस्संतकस्मियजीवाणं सम्मत्तुप्पयणाए परिणदाणं
विदियसमयम्मि पुव्वावरकोडिववच्छेदेण तदुवलंभादो ।

✽ उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

§ ४२१. तदुवक्कमणशाराणमेत्तियमेत्ताणं णिरंतरसरूवेणावलंभादो ।

✽ अणंताणुबंधीणं भुजगार-अप्पयर-अवट्टिदसंकामया सव्वच्चा ।

§ ४१६. क्योंकि संख्यातवार प्रवाहक्रमसे अनुसन्धानको प्राप्त हुए उन्हीं जीवोंके अल्पतर
पदका काल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है ।

* इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४१७. क्योंकि संख्यात वार अनुसन्धानको प्राप्त हुए प्रति समयसम्बन्धी अपवर्तनाकालका
यहाँ पर ग्रहण किया है ।

* अवस्थितसंक्रामकोंका काल सर्वदा है ।

§ ४१८. क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवस्थितसंक्रामकोंका प्रवाह सर्वदा विच्छिन्न
हुए बिना अवस्थित रहता है ।

* अवक्तव्यसंक्रामकोंका कितना काल है ?

§ ४१९. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ४२०. क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित जो संख्यात या असंख्यात
जीव सम्यक्त्वके उत्पन्न करनेमें परिणत हुए हैं उनके दूसरे समयमें अवक्तव्य संक्रामकोंका जघन्य
काल एक समय उस अवस्थामें पाया जाता है जब इससे एक समय पूर्व या एक समय बाद अन्य
जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न कर अवक्तव्यपदवाले न हों ।

* उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४२१. क्योंकि सम्यक्त्वके अन्तर रहित उपक्रमवार इतने ही पाये जाते हैं ।

* अनन्तानुबन्धियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदोंके संक्रामकोंका काल
सर्वदा है ।

§ ४२२. कुदो ? तिसु वि कालेसु वोच्छेदेण विणा एदेसिमवट्टाणादो ।

❀ अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ?

§ ४२३. सुगमं ।

❀ जहणेण एयसमओ ।

§ ४२४. विसंजोयणापुव्वसंजोजयाणं केत्तियाणं पि जीवाणमेयसमयमवत्तव्वसंक्रमं कादूण विदियसमए अवत्थंतरगयाणमेयसमयमेत्तकालोवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ।

§ ४२५. तदुवकमणवारणमुक्कस्सेणेत्तियमेत्ताणमुवलंभादो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं । एवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमुक्कस्सेण संखेज्जा समया ।

§ ४२६. सुगमं । एवमोधो समतो । आदेसेण सव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो । णवरि मणुसतिए वारसक०—णवणोक० अवत्त० ओधं ।

❀ एत्तो अंतरं ।

§ ४२२. क्योंकि तीनों ही कालोंमें विच्छेदके विना इन पदोंके संक्रामकोंका अवस्थान पाया जाता है ।

* अवत्तव्वसंक्रामकोंका कितना काल है ?

§ ४२३. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ४२४. क्योंकि जो नाना जीव विसंयोजनापूर्वक संयोजना करके एक समयके लिए अवत्तव्वपदके संक्रामक होकर दूसरे समयमें दूसरी अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं उनके उक्त पदके संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय पाया जाता है ।

* उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४२५. क्योंकि इनके उपक्रमणवार उत्कृष्टरूपसे इतने ही पाये जाते हैं ।

* इसी प्रकार शेष कर्मोंका काल जानना चाहिए । मात्र इतनी विशेषता है कि इनके अवत्तव्वसंक्रामकोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

§ ४२६. यह सूत्र सुगम है । इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । आदेशसे सब मार्गणाओमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकमे वारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवत्तव्वसंक्रामकोंका काल ओघके समान है ।

विशेषार्थ—ओघसे वारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवत्तव्वसंक्रामकोंका जो काल कहा है वह गतिमार्गणामे मनुष्यत्रिकमे ही घटित होता है, इसलिए यहाँ पर मनुष्यत्रिकमे यह भङ्ग ओघके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

* आगे नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरको कहते हैं ।

§ ४२७. एत्तो उवरि णाणाजीवविसेसिदमंतरं परूवेमो ति पइण्णासुत्तमेदं ।

❁ मिच्छत्तस्स णाणाजीवेहि भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंकामयाणं एत्थि अंतरं ।

§ ४२८. कुदो ? सव्वद्वात्ति कालणिद्देसेण गिरुद्धंतरपसरत्तादो ।

❁ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?

§ ४२९. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

❁ जहणणेण एयसमओ, उक्कस्सेण छुम्मासा ।

§ ४३०. कुदो ? दंसगमोहक्खवयाणं जहण्णुक्कस्सविरहकालस्स तप्पमाणत्तोवएसादो ।

❁ अवट्ठिदसंकामयाणं एत्थि अंतरं ।

§ ४३१. कुदो ? सव्वकालमेदेसि वोच्छेदाभावादो ।

❁ अवत्तव्वसंकामयंतरं जहणणेण एयसमओ, उक्कस्सेण चउवीस-महोरत्ते सादिरेगे ।

§ ४३२. कुदो ? णिस्संतकम्मियमिच्छाइट्ठोण मुवसमसम्मत्तज्जहणविरहकालस्स जहण्णुक्कस्सेण तप्पमाणत्तोवएसादो ।

§ ४२७. इससे आगे नाना जीवोंसे विशेषित करके अन्तरका कथन करते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र है ।

* नाना जीवोंकी अपेक्षा मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदके संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४२८. क्योंकि मिथ्यात्वके इन पदोंके संक्रामक जीव सर्वदा पाये जाते हैं । इस प्रकार कालका निर्देश करनेसे इनके अन्तरका निषेध हो जाता है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४२९. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है ।

§ ४३०. क्योंकि दर्शनमोहनीयके क्षणोंका जघन्य और उत्कृष्ट विरहकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है ।

* अवस्थितसंक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४३१. क्योंकि इनका सर्वदा विच्छेद नहीं होता ।

* अवत्तव्वसंकामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है ।

§ ४३२. क्योंकि इनकी सत्तासे रहित मिथ्यादृष्टियोंके उपशमसम्यक्त्वका विरहकाल जघन्य और उत्कृष्टरूपसे उक्त कालप्रमाण पाया जाता है ।

❁ अणंताणुबंधीणं भुजगार-अप्पयर-अवट्टिदसंक्रामयाणं एत्थि अंतरं ।

§ ४३३. कुदो ? तच्चिसेसियजीवाणमाणंतियदंसणादो ।

❁ अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहणणेण एयसमओ ।

❁ उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये ।

§ ४३४. सुगममेदं सुत्तदयं । अणंताणुबंधिविसंजोयणाणं च संजुत्ताणं पि पयदंतर-संसिद्धीए वाहाणुवलंभादो ।

❁ एवं सेसाणं कम्माणं ।

§ ४३५. अणंताणुबंधीणं व वारसकसाय-णवणोकसायाणं पि भुजगारादिपदाणमंतर-परिक्खा कायव्वा त्ति सुगममेदमप्पणासुत्तं । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं गओ दु थोवयरो विसेसो अत्थि त्ति तण्णिण्णयकरणट्टिमिदमाह—

❁ एवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमंतरमुक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्साणि ।

§ ४३६. कुदो ? वासपुधत्तमेत्तुक्कस्संतरेण विणा उवसमसेटिविसयाणमवत्तव्व-संक्रामयाणमेदेसिं संभवाणुवलंभादो । एवमौघो समत्तो । आदेसेण सव्वमग्गणासु बिहत्तिभंगो । णवरि मणुसतिए वारसक०-णवणोक० अवत्त०संक्रामयंतरमौघो त्ति वत्तव्वं ।

अनन्तानुवन्धियोंके भुजगार, अव्यपतर और अवस्थित पदोंके संक्रामकोंका अन्तर-काल नहीं है ।

§ ४३३ क्योंकि अनन्तानुवन्धियोंके इन पदोंसे युक्त अनन्त जीव देखे जाते हैं ।

* अव्यक्तव्यपदके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है ।

* उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है ।

§ ४३४. ये दोनों सूत्र सुगम हैं । तथा अनन्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना करके सयुक्त होने-वाले जीवोंके प्रकृत अन्तरकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं आती ।

* इसी प्रकार शेष कर्मोंका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

§ ४३५ अनन्तानुवन्धियोंके समान वारह कपाय और नौ नोकषायोंके भी भुजगार आदि पदोंके अन्तरकालकी परीक्षा करनी चाहिए इस प्रकार यह अर्पणासूत्र सुगम है । मात्र अव्यक्तव्य-संक्रामकोंके अन्तरमें थोड़ी सी विशेषता है, इसलिए उसके निर्णय करनेके लिए यह सूत्र कहते हैं—

* मात्र इतनी विशेषता है कि इनके अव्यक्तव्यपदके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वर्षप्रमाण है ।

§ ४३६ क्योंकि उपशमश्रे णिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है और उपशमश्रे णि हुए बिना इन कर्मोंके अव्यक्तव्यपदके संक्रामकोंका सद्भाव नहीं पाया जाता । इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । आदेशसे सब मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्य-त्रिकर्मों वारह कपाय और नौ नोकषायोंके अव्यक्तव्यपदके संक्रामकोंका अन्तरकाल ओघके समान है ऐसा कहना चाहिए ।

§ ४३७. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

❀ अप्पावहुअं ।

§ ४३८. भुजगारादिपदसंकामयाणं पमाणविसयणिण्णयसमुप्पायणद्धमप्पावहुअ-
मिदाणि कस्सामो त्ति अहियारसंभालणापरमिदं सुत्तं ।

❀ सव्वथोवा मिच्छत्तस्स अप्पयरसंकामया ।

§ ४३९ कुदो ? एयसमयसंचिदत्तादो ।

❀ भुजगारसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ४४०. कुदो ? अंतोमुहुत्तमेत्तभुजगारकालब्भंतरसंभवग्गहणादो ।

* अवट्टिदसंकामया संखेज्जगुणा ।

§ ४४१. कुदो ? भुजगारकालादो अवट्टिदकालस्स संखेज्जगुणत्तादो ।

* सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वथोवा अप्पयरसंकामया ।

§ ४४२. कुदो ? दंसणमोहक्खवयजीवाणमेव तदप्पयरभावेण परिणदाणमुवलंभादो ।

* अवत्तव्वसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ४४३. कुदो ? पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तणिस्संतकम्मियजीवाणमेयसमयग्गि सम्मत्त-
ग्गहणसंभवादो ।

§ ४३७. भाव सर्वत्र औदयिक भाव है ।

* अब अल्पवहुत्वको कहते हैं ।

§ ४३८. भुजगार आदि पदोंके संक्रामकोंके प्रमाणविषयक निर्णयके उत्पन्न करनेके लिए इस समय अल्पवहुत्वको करते हैं इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी सम्हाल करता है ।

* मिथ्यात्वके अल्पतरसंकामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ४३९. क्योंकि इनका संचयकाल एक समय है ।

* उनसे भुजगारसंकामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ४४०. क्योंकि अन्तर्मुहूर्तप्रमाण भुजगारके भीतर भुजगारसंकामक [जितने जीव संभव हैं उनका ग्रहण किया है ।

* उनसे अवस्थितसंकामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ४४१. क्योंकि भुजगारपदके कालसे अवस्थितपदका काल संख्यातगुणा है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंकामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ४४२. क्योंकि जो दर्शनमोहकी क्षण करतें हैं वे ही अल्पतरभावसे परिणत होते हुए उपलब्ध होते हैं ।

* उनसे अवक्तव्यसंकामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ४४३. क्योंकि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जीवोंके एक समयमे सम्यक्त्वकी प्राप्ति सम्भव है ।

* अवट्टिदसंकामया असंखेज्जगुणा ।

४४४. कुदो ? संकमपाओगतदुभयसंतकम्मियमिच्छाइट्टि-सम्माइट्ठीणं सव्वेसिमेव गहणादो ।

* सेसाणं कम्माणं सत्त्वथोवा अवत्तव्वसंकामया ।

§ ४४५. कुदो ? वारसकसाय-णवणोकसायाणमवत्तव्वसंकामयभावेण संखेजाणमुवसामय-जीवाणं परिणमणदंसणादो । अणंताणुवंधीणं पि पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तजीवाणं तवभावेण परिणदाणमुवलंभादो ।

* अप्पयरसंकामया अणंतगुणा ।

§ ४४६. कुदो ? सव्वजीवाणमसंखेज्जभागपमाणत्तादो ।

* भुजगारसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ४४७. गुणगारपमाणमेत्थ अंतोमुहुत्तमेत्तं संचयकालाणुसारेण साहेयव्वं ।

* अवट्टिदसंकामया संखेज्जगुणा ।

§ ४४८. कुदो ? भुजगारकालादो अवट्टिदकालस्स तावदिगुणत्तोवलंभादो ।

एवमोघो समत्तो ।

§ ४४९. आदेसेण मणुसेसु मिच्छ० सव्वथोवा अप्पयरसंकामया । भुजगारसंका०

* उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ४४४. क्योंकि जिनके संक्रमके योग्य उक्त दोनों कर्मोंकी सत्ता है ऐसे मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि सभीका यहाँ पर ग्रहण किया है ।

* शेष कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ४४५. क्योंकि वारह कपाय और नौ नौकषायोंके अवक्तव्यपदके संक्रमभावसे परिणत हुए संख्यात उपशामक जीव देखे जाते हैं । तथा अनन्तानुबन्धियोंके भी अवक्तव्यसंक्रमसे परिणत हुए पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव उपलब्ध होते हैं ।

* उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ ४४६. क्योंकि ये सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

* उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ४४७ यहाँ पर गुणाकारका प्रमाण अन्तर्मुहूर्त सव्वयकालके अनुसार साध लेना चाहिए ।

* उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ४४८. क्योंकि भुजगारपदके कालसे अवस्थितपदका काल संख्यातगुणा पाया जाता है ।

इसप्रकार ओचप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ४४९. आदेशसे मनुष्योंमें मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे

असंखेजगुणा । सोलसक०—णवणोक० सव्वत्थोवा अवत्त०संका० । अप्प०संका० असंखे०-
गुणा । भुज०संका० असंखे०गुणा । अवट्ठि०संका० संखे०गुणा । सम्म०—सम्मामि०
विहत्तिभंगो । एवं मणुसपज्ज०—भणुसिणीसु । णवरि संखेजगुणं कायव्वं । सेसमग्गणासु
विहत्तिभंगो ।

एवमप्यावहुए समत्ते भुजगारसंकमो त्ति समत्तमणिओगद्वारं ।

❀ पदणिकखेवे त्ति तिण्णि अणुओगद्वाराणि ।

§ ४५०. पदणिकखेवो त्ति जो अहियारो जहण्णुक्खस्सवट्ठि-हाणि-अवट्ठणपदाणं परू-
वओ त्ति लद्धपदणिकखेवववएसो तस्सेदाणिमत्थपरूवणं कस्सामो । तत्थ य तिण्णि अणुओग-
द्वाराणि णादव्व्राणि भवंति । काणि ताणि तिण्णि अणुओगद्वाराणि त्ति पुच्छावकमुत्तरं—

❀ तं जहा—

§ ४५१. सुगमं ।

❀ परूवणा सामित्तमप्यावहुअं च ।

§ ४५२. एवमेदाणि तिण्णि चेवाणिओगद्वाराणि पदणिकखेवविसयाणि; अण्णेसिं
तत्थासंभवादो । एदेसु ताव परूवणाणुगभं वत्तइस्सामो त्ति सुत्तमाह—

भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । सोलह
कषाय और नौ नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव
असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अवस्थितसंक्रामक
जीव संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इसी
प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यनिर्योमे अल्पबहुत्व है । इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणेके
स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर भुजगारसंक्रम अनुयोगद्वारंसमाप्त हुआ ।

* पदनिक्षेपमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं ।

§ ४५०. जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानपदोंका कथन करनेवाला होनेसे
पदनिक्षेप इस संज्ञाको धारण करनेवाला पदनिक्षेप नामक जो अधिकार है उसकी इस समय अर्थ-
प्ररूपणा करते हैं । उसमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं । वे तीन अनुयोगद्वार कौन हैं इस प्रकारकी
सूचना करनेवाले आगेके पृच्छावाक्यको कहते हैं—

* यथा ।

§ ४५१. यह सूत्र सुगम है ।

* प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ।

§ ४५२. इस प्रकार पदनिक्षेपको विषय करनेवाले ये तीन ही अनुयोगद्वार है, क्योंकि अन्य
अनुयोगद्वार वहाँ पर असम्भव हैं । इनमेंसे सर्व प्रथम प्ररूपणानुगमको बतलाते हैं इस अभिप्रायसे
सूत्र कहते हैं—

❀ परूवणाए सव्वेसिं कम्माणमत्थि उक्कस्सिया वड्ढी हाणी अवट्ठाणं ।

❀ जहणिया वड्ढी हाणी अवट्ठाणं ।

§ ४५३. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि , एवं सव्वकम्मविसयत्तेण परूविद-जहण्णुक्कस्सवड्ढिहाणि-अवट्ठाणाणमविसेसेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु वि अहप्पसंगे तत्थ वड्ढि-संकमाभावपदुप्पायणट्ठमुत्तरसुत्तमाह—

❀ एवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं वड्ढी एत्थि ।

§ ४५४. कुदो ? तदुभयाणुभागस्स वड्ढिविरुद्धसहावत्तादो । तम्हा जहण्णुक्कस्सहाणि-अवट्ठाणाणि चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमत्थि त्ति सिद्धं । एवमोघेण परूवणा समत्ता । आदेसेण सव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो । संपहि सामित्तपरूवणट्ठमुवरिमो सुत्तपबंधो—

❀ सामित्तं ।

§ ४५५. सुगममेदमहियारसंभालणव्रयणं । तं च सामित्तं दुविहं जहण्णुक्कस्सपदविसय-भेएण । तस्सुकस्सपदविसयमेव ताव सामित्तणिदेसं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वड्ढी कस्स ?

§ ४५६. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

* प्ररूपणाकी अपेक्षा सब कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान हैं ।

* तथा सब कर्मोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान है ।

§ ४५३. ये दोनों सूत्र सुगम हैं । इस प्रकार सब कर्मोंके विषयरूपसे कहे गये जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानका सामान्यसे सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके विषयमे भी अतिप्रसङ्ग होने पर वहाँ वृद्धिसंक्रमके अभावका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* मात्र इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी वृद्धि नहीं होती ।

§ ४५४ क्योंकि उन दोनोंका अनुभाग वृद्धिके विरुद्ध स्वभाववाला है । इसलिए सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान तथा उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान ही होते हैं यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार ओवसे प्ररूपणा समाप्त हुई । आदेशसे सब मार्गणाओंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । अब स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* अब स्वामित्वको कहते हैं ।

§ ४५५. अधिकारकी सम्भाल करनेवाला यह वचन सुगम है । जघन्य और उत्कृष्टपदोंको विषय करनेरूप भेदसे वह स्वामित्व दो प्रकारका है । उनमे से उत्कृष्ट पदविषयक स्वामित्वका ही सर्व प्रथम निर्देश करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* मिध्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कौन है ?

§ ४५६. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

❀ सण्णपाओग्गजहण्णएण अणुभागसंकमेण अचिच्छदो उक्कस्स-
संकिलेसं गदो तदो उक्कस्सयमणुभागं पबद्धो तस्स आवलियादीदस्स
उक्कस्सिया वड्ढी ।

§ ४५७. एत्थ सण्णपाओग्गजहण्णएणुभागसंकमविसेसणमेइं दियादिपाओग्गजहण्णएणु-
भागसंकमपडिसेहट्टं । किमट्टं तप्पडिसेहो कीरदे ? ण, तदवत्थापरिणामस्स उक्कस्साणुभाग-
बंधविरोहत्तादो । उक्कस्ससंकिलेसं गदो त्ति णिदेसेणाणुकस्ससंकिलेसपरिणामपडिसेहो कओ ।
किंफलो तप्पडिसेहो ? ण, उक्कस्ससंकिलेसेण विणा उक्कस्साणुभागबंधो ण होदि त्ति
जाणावणफलत्तादो । एदस्सेव फुडीकरणट्टमिदं बुच्चदे—तदो उक्कस्सयमणुभागं पबद्धो त्ति ।
तदो उक्कस्ससंकिलेसपरिणामादो उक्कस्साणुभागं पञ्जवसाणाणुभागबंधट्टाणं बंधिदुमाठत्तो त्ति
बुत्तं होदि । उक्कस्साणुभागबंधपढमसमए चेव संकमपाओग्गभावो णत्थि, किं तु बंधावलिया-
दीदस्स चेव होइ त्ति पदुप्पायणट्टमिदमाह—तस्स आवलियादीदस्स उक्कस्सिया वड्ढि त्ति ।
एत्थ वड्ढिपमाणमसंखेज्जलोगमेत्ताणि छट्टाणाणि अणंतरहेट्टिमसमयतप्पाओग्गजहण्णचउ-
ट्टाणाणुभागसंकमे उक्कस्साणुभागबंधम्मि सोहिदे सुद्धसेसम्मि तप्पमाणदंसणादो । एवमुक्कस्स-

* संज्ञियोंके योग्य जघन्य अनुभागसंकमके साथ स्थित हुआ जो जीव उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करता है, बन्धसे एक आवलिके बाद वह उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है ।

§ ४५७. यहाँ पर सूत्रमे जो संज्ञियोंके योग्य जघन्य अनुभागसंकमरूप विशेषण दिया है वह एकेन्द्रियादि जीवोंके योग्य जघन्य अनुभागसंकमका निषेध करनेके लिए दिया है ।

शंका—उसका निषेध किसलिए करते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उस प्रकारकी अवस्थासे युक्त परिणाम उत्कृष्ट अनुभागबन्धका विरोधी है ।

सूत्रमे 'उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ' इस प्रकारके निर्देशद्वारा अनुत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामका निषेध किया ।

शंका—उसके निषेधका क्या फल है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेशके विना उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध नहीं होता है इस बातका ज्ञान कराना उसका फल है ।

पुन. इसी बातके स्पष्ट करनेके लिए 'उससे उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध किया' यह वचन कहा है । 'तदो' अर्थात् उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामसे उत्कृष्ट अनुभागको अर्थात् अन्तिम अनुभागबन्ध-स्थानको बाँधनेके लिए प्रारम्भ किया यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उत्कृष्ट अनुभागबन्धके प्रथम समयमें ही संक्रमके योग्य कर्म नहीं होता । किन्तु बन्धावलिके व्यतीत होने पर ही वह संक्रमके योग्य होता है इस बातका कथन करनेके लिए 'एक आवलि व्यतीत होने के बाद उसकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है' यह वचन कहा है । यहाँ पर वृद्धिका प्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण छह स्थान हैं, क्योंकि अनन्तर अधस्तन समयके तत्प्रायोग्य जघन्य चतुःस्थान अनुभागसंकमको उत्कृष्ट अनुभागबन्धमेसे घटा देने पर शेष बचे हुए अनुभागमे असंख्यात लोकप्रमाण छह स्थान देखे जाते हैं । इस प्रकार

वह्नीए सामित्तविणिण्णयं कादूण संपहि एत्थ उक्कस्सावट्ठाणस्स वि सामित्तविहाणट्ठमुत्तर-
सुत्तावयारो—

❀ तस्स चैव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं ।

§ ५५८. जो उक्कस्सवह्नीए सामित्तेण परिणदो तस्सेव तदणंतरसमए उक्कस्सयमवट्ठाणं
दट्ठव्वं । कुदो ? तत्थुक्कस्सवह्नीपमाणेण संक्रमट्ठाणावट्ठाणदंसणादो । संपहि उक्कस्सहाणि-
विसयसामित्तगवेसणट्ठमुत्तरसुत्तं—

❀ उक्कस्सिया हाणी कस्स ?

§ ४५९. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ जस्स उक्कस्सयमणुभागसंतकम्मं तेण उक्कस्सयमणुभागखंडय-
मागाइदं तम्मि खंडये घादिदे तस्स उक्कस्सिया हाणी ।

§ ४६०. जस्स उक्कस्सयमणुभागसंतकम्मं जादं तेण विसोहिपरिणदेण सव्वुक्कस्सय-
मणुभागखंडयमागाइदं तदो तम्मि खंडये घादिज्जमाणे घादिदे तत्थुक्कस्सिया हाणी होइ,
तत्थाणुभागसंतकम्मस्साणंताणं भागाणमसंखेज्जलोगमेत्तच्छट्ठाणावच्छिण्णाणमेक्कारेण हाणि-
दंसणादो । संपहि किमेषा उक्कस्सिया हाणी उक्कस्सवह्नीपमाणा, आहो ऊणा अहिया वा त्ति
एवंविहसंदेहणिरायरणमुहेण अप्पावहुअसाहणट्ठमेत्थ किंचि अत्थपरुवणं कुणमाणो
सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

उत्कृष्ट वृद्धिके स्वामित्वका निर्णय करके अब यहाँ पर उत्कृष्ट अवस्थानके भी स्वामित्वका विधान
करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार हुआ है—

❀ तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

§ ४५८. जो उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी
जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उत्कृष्ट वृद्धिके प्रमाणसे संक्रमका अवस्थान देखा जाता है । अब
उत्कृष्ट हानिविषयक स्वामित्वका विचार करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ?

§ ४५९. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

❀ जिसके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म है वह जब उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकको ग्रहण कर
उस काण्डकका घात करता है तब वह उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

§ ४६०. जिसके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म विद्यमान है, विशुद्धिसे परिणत हुए उसने सबसे
उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकको ग्रहण किया । अनन्तर जब वह उस काण्डकका घात करते हुए पूरी तरहसे
घात कर देता है तब उसके उत्कृष्ट हानि होती है, क्योंकि वहाँ पर अनुभागसत्कर्मके असंख्यात-
लोकप्रमाण छह स्थानोंसे युक्त अनन्त भागोंकी हानि देखी जाती है । अब यह उत्कृष्ट हानि क्या
उत्कृष्ट वृद्धिके बराबर है अथवा उससे न्यून या अधिक है इस प्रकार इस तरहके सन्देहको दूर
करनेके अभिप्रायसे अल्पवहुत्वकी सिद्धि करनेके लिए कुछ अर्थप्ररूपणाको करते हुए आगेकी सूत्र-
परिपाटीका कथन करते हैं—

❖ तप्पाओग्गजहएणाणुभागसंकमादो उक्कस्ससंकित्तेसं गंतूणं जं
बंधदि सो बंधो बहुगो ।

§ ४६१. कतो एदस्स बहुत्तं विवक्खियं ? उवरि भणिस्समाणाणुभागखंडयायामादो ।

❖ जमणुभागखंडयं गेएहइ तं विसेसहीणं ।

§ ४६२. केत्तियमेत्तेण ? तदणंतिमभागमेत्तेण । कुदो ? वड्ढिदाणुभागस्स णिरवसेस-
घादणसत्तीए असंभवादो ।

❖ एदमप्पावहुअस्स साहणं ।

§ ४६३. एदमणंतरपरूविदमुक्कस्सबंधवुड्ढिदो उक्कस्साणुभागखंडयसिसेसहीणत्तमुवरि
भणिस्समाणमप्पावहुअस्स साहणं, अण्णहा तण्णिण्णयोत्रायाभावादो त्ति भणिदं होइ ।

❖ एवं सोलसकसाय-एवणोकसायाणं ।

§ ४६४. जहा मिच्छत्तस्स तिण्हमुक्कस्सपदाणं सामित्तविण्णिण्णयो कओ एवमेदेसिं पि
कम्माणं कायव्वो, विसेसाभावादो ।

❖ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सिया हाणो कस्स ?

§ ४६५. सुगमं ।

* तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागसंक्रमसे उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त करके जिसका बन्ध
करता है वह बन्ध बहुत है ।

§ ४६१. शंका— किससे इसका बहुत्व विवक्षित है ?

समाधान—आगे कहे जानेवाले अनुभागकाण्डकके आयामसे इसका बहुत्व विवक्षित है ।

* उससे जिस अनुभागकाण्डकको ग्रहण करता है वह विशेष हीन है ।

§ ४६२. कितना हीन है ? उसका अनन्तवाँ भाग हीन है, क्योंकि वृद्धिको प्राप्त अनुभागका
पूरी तरहसे घात करनेरूप शक्तिका होना असम्भव है ।

* यह वक्ष्यमाण अल्पबहुत्वका साधक है ।

§ ४६३ यह जो पहले उत्कृष्ट बन्धवृद्धिसे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकविशेषकी हीनता कही है सो
वह आगे कहे जानेवाले अल्पबहुत्वका साधक है, अन्यथा उनका निर्णय नहीं हो सकता यह उक्त
कथनका तात्पर्य है ।

* इसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और
उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी जानना चाहिए ।

§ ४६४. जिस प्रकार मिथ्यात्वके तीन उत्कृष्ट पदोंके स्वामीका निर्णय किया उसी प्रकार इन
कर्मोंके भी उक्त पदोंके स्वामीका निर्णय करना चाहिए, क्योंकि इनके स्वामित्वके निर्णय करनेमें
अन्य कोई विशेषता नहीं है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी कौन है ?

§ ४६५. यह सूत्र सुगम है ।

❀ दंसणमोहणीयक्खवयस्स विदियअणुभागखंडयपढमसमयसंका-
मयस्स तस्स उक्कस्सिया हाणी ।

§ ४६६. दंसणमोहक्खणाए अपुव्वकरणपढमाणुभागखंडयं घादिय विदियाणुभाग-
खंडए वट्टमाणस्स पढमसमए पयदक्कमाणमुक्कस्सहाणी होइ, तत्थ सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताण-
मणुभागसंतक्कम्मस्साणंताणं भागाणमेक्कवारेण हाणी होदूणाणंतिमभागे' समवट्टाण-
दंसणादो ।

❀ तस्स चेव से काले उक्कस्सयमवट्टाणं ।

§ ४६७. तस्स चेव उक्कस्महाणिसामियस्स तदणंतरसमए उक्कस्सयमवट्टाणं होइ, वट्टि-
हाणीहि विणा तत्तियमेत्ते चेव तदवट्टाणदंसणादो । एवमोघो समत्तो ।

§ ४६८. आदेशेण मणुसतिए ओधं । एवं गोरइयस्स । णवरि सम्मामि० उक्क० हाणी
णत्थि । सम्मत्त० विहत्तिभंगो । एवं पढमषुढवि-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खदुग-देवा
सोहम्मादि जाव सहस्सार ति । विदियादि जाव सत्तमा ति एवं चेव । णवरि सम्मत्त०
उक्क० हाणी णत्थि । एवं जोणिणि०-भवण०-त्राण०-जोदिसिए ति । पंचि०तिरिक्ख-

* जो दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव द्वितीय अनुभागकाण्डकका प्रथम
समयमें संक्रमण कर रहा है वह उनकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है ।

§ ४६६ दर्शनमोहनीयकी क्षपणामे अपूर्वकरण परिणामोंके द्वारा प्रथम अनुभागकाण्डकका
घातकर जो दूसरे अनुभागकाण्डकमे विद्यमान है अर्थात् जिसने दूसरे अनुभागकाण्डकके घातका
प्रारम्भ किया है वह उसके प्रथम समयमे प्रकृत कर्मोंकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है, क्योंकि वहाँ पर
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुभागोंकी एकवारमे हानि होकर अनन्तवें
भागप्रमाण अनुभागमे अवस्थान देखा जाता है ।

* तथा वही जीव अनन्तर समयमें उनके उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी है ।

§ ४६७ जो उत्कृष्ट हानिका स्वामी है उसीके अनन्तर समयमे उत्कृष्ट अवस्थान होता है,
क्योंकि वृद्धि और हानिके विना उत्तनेमे ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोंका
अवस्थान देखा जाता है ।

इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ४६८. आदेशसे मनुष्यत्रिकमे ओघके समान भङ्ग हैं । इसी प्रकार नारकियोंमें जानना
चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमे सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि नहीं है । तथा सम्यक्त्वका
भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इसी प्रकार पहिली पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यञ्च,
पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चद्विक, सामान्य देव और मौधर्म कल्पसे लेकर सहस्वार कल्प तकके देवोंमे जानना
चाहिए । दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि नहीं है । इसी प्रकार योनिनी तिर्यञ्च, भवन्वासी, व्यन्तर
और ज्योतिषी देवोंमे जानना चाहिये । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनन्तादि

१ ता०प्रती '—वारेण हो (हा) दूणाणतिभागे'आ०प्रती '—वारेण होइदूणाणंतिमभागे'इति पाठ ।

अपज०—मणुसअपज०—आणदादि सब्बडा त्ति विहत्तिभंगो । एवं जाव० ।

एवमुक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

§ ४६६. संपहि जहण्णसामित्तविहासणद्धुमुवरिमो सुत्तसंदब्बो—

❀ मिच्छत्तस्स जहण्णिया वड्ढो कस्स ?

§ ४७० सुगमं ।

❀ सुहुमेइंदियकम्मेण जहण्णएण जो अणंतभागेण वड्ढिदो तस्स जहण्णिया वड्ढी ।

§ ४७१. जो जीवो सुहुमेइंदियकम्मेण जहण्णएण अच्छिदो संतो परिणाम-पच्चएणाणंतभागेण वड्ढिदो तस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति सुत्तत्थसब्भावो ।

कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकको छोड़कर अन्यत्र दर्शनभोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ नहीं होता, इसलिए सामान्य नारकी, प्रथम पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यञ्चद्विक, सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानिका निषेध किया है। किन्तु इन मार्गणाओंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि उत्पन्न होता है और उसके सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि भी देखी जाती है। फिर भी वह ओघके समान सम्भव न होनेसे उसे अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकी, योनिनी तिर्यञ्च, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिपी देवोंमें कृतकृत्यवेदक सम्यग्दृष्टि नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें सम्यग्मिथ्यात्वके समान सम्यक्त्वके जाननेकी सूचना की है। वहां सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सिवा अन्य सब प्रकृतियोंका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है। अब रहीं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनन्त कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव ये मार्गणाएँ सो इनमें अनुभाग-विभक्तिमें जिस प्रकार स्वामित्वका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ स्वामित्वके प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए इनमें अनुभागविभक्तिके समान स्वामित्वके जाननेकी सूचना की है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ।

§ ४६६. अब जघन्य स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रसंदर्भको प्रकाशमें लाते हैं—

❀ मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ?

§ ४७०. यह सूत्र सुगम है।

❀ जो जीव सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कर्मके साथ उसमें अनन्तभागवृद्धि करता है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है।

§ ४७१. जो जीव सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ स्थित होता हुआ परिणामवश अनन्तभागवृद्धिको प्राप्त हुआ उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व होता है इस प्रकार सूत्रार्थका सद्भाव है।

❀ जहणिया हाणी कस्स ?

§ ४७२. सुगमं ।

❀ जो वद्धाविदो तम्मि घादिदे तस्स जहणिया हाणी ।

§ ४७३. सुहुमणिगोदजहण्णाणुभागसंक्रमादो जो वद्धाविदो अणुभागो सव्वजीव-
रासिपडिभागिओ तम्मि चैव त्रिसोहिपरिणामवसेण घादिदे तस्स जहणिया हाणी होइ,
जहण्णवद्धि विसईक्याणुभागस्सेव तत्थ हाणिसरूवेण परिणामदंसणादो । ण चाणंतिमभागस्स
खंडयघादो णत्थि ति पच्चवट्ठेयं, संसारावत्थाए छव्विहाए हाणीए खंडयघादस्स
पवुत्तिअव्वुवगमादो । तस्स च णिबंधणमेदं चैव सुत्तमिदि ण किंचि त्रिप्पडिसिद्धं ।

❀ एगदरत्थमवट्ठाणं ।

§ ४७४. कुदो ? जहण्णवद्धि-हाणीणमण्णदरस्स से काले अवट्ठाणसिद्धीए पवाहाणुव-
लंभादो ?

❀ एवमट्ठकसायाणं ।

§ ४७५. सुगममेदमप्पणासुत्तं, मिच्छत्तादो सामित्तमेदाभावमेदेसिमवलंबिय
पयट्ठत्तादो ।

* जघन्य हानिका स्वामी कौन है ?

§ ४७२. यह सूत्र सुगम है ।

* अनन्तवृद्धिरूप जो अनुभाग बढ़ाया गया उसका घात करने पर वह जघन्य
हानिका स्वामी है ।

§ ४७३. सूक्ष्म निगोदके जघन्य अनुभागसंक्रमसे सब जीव राशिका भाग देकर जो अनुभाग
बढ़ाया गया उसका ही विशुद्ध परिणामवश घात करने पर उसके जघन्य हानि होती है, क्योंकि
जघन्य वृद्धिके विषयभावको प्राप्त हुए अनुभागका ही वहाँ पर हानिरूपसे परिणमन देखा जाता है ।
अनन्तर्वे भागका काण्डकघात नहीं होता ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं, क्योंकि संसार अवस्थामे
छह प्रकारकी हानिरूपसे काण्डकघातकी प्रवृत्ति स्वीकार की गई है । और इस बातके ज्ञानका कारण
यही सूत्र है, इसलिए कुछ भी विप्रतिपत्ति नहीं ह ।

* तथा इनमेंसे किसी एक स्थान पर अनन्तर समयमें वह जघन्य अवस्थानका
स्वामी है ।

§ ४७४. क्योंकि जघन्य वृद्धि और जघन्य हानि इनमेंसे किसीका अनन्तर समयमे अवस्थान-
रूप प्रवाह उपलब्ध होता है ।

* इसी प्रकार आठ कपायोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानका
स्वामी जानना चाहिए ।

§ ४७५. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि मिथ्यात्वसे इनके स्वामियोंमे भेद नहीं है इस
तथ्यका अवलम्बन कर इस सूत्रकी प्रवृत्ति हुई है ।

❀ सम्मत्तस्स जहणिया हाणी कस्स ?

§ ४७६. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ दंसणमोहणीयक्खवयस्स समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयस्स तस्स जहणिया हाणी ।

§ ४७७. कुदो ? तत्थाणुसमयोवट्टणावसेण सुट्टु थोवीभूदाणुभागसंतकम्मादो तक्काले थोवयराणुभागसंकमहाणिदंसणादो ।

❀ जहणणयमवट्टाणं कस्स ?

§ ४७८. सुगमं ।

❀ तस्स चेव दुचरिमे अणुभागखंडए हदे चरिमअणुभागखंडए वट्टमाणक्खवयस्स ।

§ ४७९. तस्स चेव दंसणमोहक्खवयस्स दुचरिमाणुभागखंडयं घादिय तदणंतरसमयतप्पाओग्गजहण्णहाणीए परिणदस्स चरिमाणुभागखंडयविदियसमयप्पहुडि जावंतोमुहुत्तं जहण्णावट्टाणसंकमो होइ, तत्थ पयारंतरासंभवादो ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स जहणिया हाणी कस्स ?

§ ४८०. सुगमं ।

* सम्यक्त्वकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ।

§ ४७६. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके जब उसकी क्षपणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहता है तब वह सम्यक्त्वकी जघन्य हानिका स्वामी है ।

§ ४७७. क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक समयमें होनेवाली अपवर्तनाके कारण अत्यन्त थोड़े अनुभाग सत्कर्मसे उस समय स्तोक्ततर अनुभागकी संक्रम हानि देखी जाती है ।

* इसके जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ?

§ ४७८. यह सूत्र सुगम है ।

* जब वही क्षपक द्विचरम अनुभागकाण्डकका घात होनेके बाद चरम अनुभागकाण्डकमें अवस्थित रहता है तब वही दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव उसके जघन्य अवस्थानका स्वामी है ।

§ ४७९. द्विचरम अनुभागकाण्डकका घातकर अनन्तर समयमें तत्प्रायोग्य जघन्य हानिरूपसे परिणत हुए उसी दर्शनमोहनीयके क्षपक जीवके अन्तिम अनुभागकाण्डकके दूसरे समयसे लेकर अन्तमुहूर्त काल तक जघन्य अवस्थानसंक्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है ।

* सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ?

§ ४८०. यह सूत्र सुगम है ।

❖ दंसणमोहणीयकखवयस्स दुचरिमे अणुभागखंडए हदे तस्स जहणिया हाणी ।

§ ४८१. कुदो ? दुचरिमाणुभागखंडयसंकमादो अणंतगुणहाणीए हाइदूण चरिमाणु-भागखंडयसरूपेण परिणदस्स पढमसमए जहण्णभावसिद्धीए वाहाणुवलंभादो ।

❖ तस्स चेव से काले जहण्णयमवट्टाणं ।

§ ४८२. तस्स चेव जहण्णहाणिसंकमसामियस्स से काले जहण्णयभवट्टाणं होइ, तत्थ जहण्णहाणिपमाणेणेत्र संकमावट्टाणदंसणादो ।

❖ अणंताणुबंधीणं जहणिया वड्डी कस्स ?

§ ४८३. सुगमं ।

❖ विसंजोएदूण पुणो मिच्छत्तं गंतूण तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण विदियसमए तप्पाओग्गजहण्णाणुभागं बंधिऊण आवलियादीदस्स तस्स जहणिया वड्डी ।

§ ४८४. एदस्स सुत्तस्स अत्थो । तं जहा—अणोताणुबंधिचउकं विसंजोएदूण पुणो तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण मिच्छत्तं गंतूण विदियसमए वि तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण परिणदो संतो जो तप्पाओग्गजहण्णाणुभागं बंधिऊणावलियादीदो तस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति

❖ जो दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव सम्यग्मिथ्यात्वके द्विचरम अनुभागकाण्डकका घात कर चुकता है वह उसकी जघन्य हानिका स्वामी है ।

§ ४८१. क्योंकि द्विचरम अनुभागकाण्डकसंक्रमसे अनन्तगुणहानिद्वारा अन्तिम अनुभाग-काण्डकरूपसे परिणत हुए जीवके प्रथम समयमे जघन्यभावकी सिद्धि होनेमे कोई बाधा नहीं उपलब्ध होती ।

❖ तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है ।

§ ४८२ जो जघन्य हानिसंक्रमका स्वामी है उसीके अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान होता है, क्योंकि वहाँ पर जघन्य हानिके प्रमाणरूपसे ही संक्रमका अवस्थान देखा जाता है ।

❖ अनन्तानुबन्धियोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ?

§ ४८३. यह सूत्र सुगम है ।

❖ जो विसंयोजना करके पुनः मिथ्यात्वमें जाकर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामसे दूसरे समयमें तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध कर एक आवलि काल व्यतीत करता है वह उनकी जघन्य वृद्धिका स्वामी है ।

§ ४८४. इस सूत्रका अर्थ, यथा—अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके पुनः तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामके साथ मिथ्यात्वमें जाकर दूसरे समयमे भी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामसे परिणत होकर जिसने तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध कर एक आवलि काल व्यतीत किया है उसके प्रकृत

सुत्तत्थसंबंधो । एत्थ तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेणे त्ति णिदेसो पढमसमयजहण्णाणु-
भागबंधादो विदियसमए जहण्णवुद्धिसंगहण्णो । एत्थ पढमसमयजहण्णबंधादो विदिय-
समयतप्पाओग्गजहण्णाणुभागबंधो कदमाए वड्डीए वड्ढिदो ? अणंतगुणवड्डीए । कुदो एवं
चेव ? संजुत्तपढमसमयप्पहुडि जाव अंतोमुहुत्तं ताव अणंतगुणवड्डीए संकिलेसवड्ढि त्ति
परमाइरिओवएसादो । एवं वुत्तविहाणेण विदियसमए वड्ढिदूण तत्तो आवलियादीदस्स
तस्स जहण्णिया वड्डी, अगइच्छाविदबंधावलियस्स णवक्रबंधस्स संकमपाओग्गभावाणुव-
वत्तीदो । एत्थ मिच्छत्तस्सेव सुहुमहदसमुत्पत्तियकम्मादो अणंतभागवड्डीए वड्ढिदस्स जहण्ण-
सामित्तं कायव्वमिदि णासंका कायव्वा, णवक्रबंधसरूवादो एदम्हादो तस्साणंतगुणत्तेण
तहा कादुमसकियत्तादो । णाणंतगुणत्तमसिद्धं, उवरिमसुत्तवलेण सिद्धसरूवत्तादो ।

❀ जहण्णिया हाणी कस्स ?

§ ४८५. सुगमं ।

❀ विसंजोएज्जण पुणो मिच्छत्तं गंतूण अंतोमुहुत्तसंजुत्ते वि तस्स
सुहुमस्स हेडदो संतकम्मं ।

जघन्य स्वामित्व होता है । इस प्रकार यह सूत्रार्थका सम्बन्ध है । यहाँ पर सूत्रमे 'तप्पाओग्ग-
विसुद्धिपरिणामेण' यह निर्देश प्रथम समयमे होनेवाले जघन्य अनुभागवन्धसे दूसरे समयमे होनेवाली
जघन्य वृद्धिके संग्रहके लिए दिया है ।

शंका—यहाँ पर प्रथम समयके जघन्य बन्धसे दूसरे समयका तत्प्रायोग्य जघन्य अनुभाग-
वन्ध कौनसी वृद्धिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुआ है ?

समाधान—अनन्तगुणवृद्धिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुआ है ।

शंका—ऐसा किस कारणसे है ?

समाधान—क्योंकि संयुक्त होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त कालतक अनन्तगुण-
वृद्धिरूपसे संक्लेशकी वृद्धि होती है ऐसा परम आचार्योंका उपदेश है ।

इस प्रकार उक्त विधिसे दूसरे समयमे वृद्धि करके वहाँसे एक आवलिके बाद स्थित हुए
जीवके जघन्य वृद्धि होती है, क्योंकि अतिस्थापनारूपसे स्थापित बन्धावलि कालके भीतर नवक-
वन्ध संक्रमके योग्य नहीं होता । यहाँ पर मिथ्यात्व कर्मके समान सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हत-
समुत्पत्तिककर्मसे जिसका अनन्तानुबन्धीचतुष्क अनन्तभागवृद्धिके द्वारा वृद्धिगत हुआ है उसके
जघन्य स्वामित्व करना चाहिए ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नवकवन्धरूप इससे वह
अनन्तगुणा है, इसलिए वैसा करना अशक्य है । वह अनन्तगुणा है यह बात असिद्धभी नहीं है,
क्योंकि उपरिम सूत्रके वलसे सिद्ध ही है ।

❀ उनकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ?

§ ४८५. यह सूत्र सुगम है ।

❀ विसंयोजना करके तथा पुनः मिथ्यात्वमें जाकर संबुक्त होनेके बाद अन्तर्मुहूर्त
काल होने पर भी जिसके उक्त प्रकृतियोंका सत्कर्म सूक्ष्म एकेन्द्रियके सत्कर्मसे कम है ।

§ ४८६. पयदजहण्णसामित्तसाहणमडुमिदं ताव पुव्वमेव णिदिट्ठमडुपदं विसंजोयणा-
पुव्वसंजोगविसयणवक्कंथाणुभागस्स अंतोमुहुत्तकालभावियस्स सुहुमाणुभागादो अणंतगुण-
हीणत्तपटुप्पायणपरत्तादो । ण च तत्तो एदस्साणंतगुणहीणत्ताभावे तप्परिहारेणेत्य सामित्त-
विहाणं जुत्तं, तथा संते तत्थेव सामित्तविहाणे लाहदंसणादो । एदेण पुव्विल्लं पि जहण्ण-
वड्डिसामित्तं समत्थियं दट्ठव्वं, एयंताणुवड्डिचरिमाणुभागादो अणंतगुणहीणस्स तस्स
सुहुमाणुभागादो हेट्ठदो समवट्ठाणे विसंवादाणुवलंभादो । एवमेदं सामित्तसाहणमडुपदं
परुविय संपहि एत्थ जहण्णहाणिसंभवक्कमपदंसणमिदमाह—

❀ तदो जो अंतोमुहुत्तसंजुत्तो जाव सुहुमकम्मं जहण्णयं ण पावदि
ताव घादं करेज्ज ।

§ ४८७. जदो एवं तदो जो अंतोमुहुत्तसंजुत्तो जीवो सो जाव सुहुमकम्मं जहण्णं
ण पावइ ताव संकिलेसादो विसोहिं गंतूणाणुभागखंडयधादं सिया करेज्ज, संते संभवे
सकारणसामग्गीवसेण तप्पवुत्तीए पडिबंधाभावादो । एदेण सुहुमाणुभागसंतकम्ममवोलीणस्स
खंडयघादासंभवासंका पडिसिद्धा दट्ठव्वा । तत्तो हेट्ठा चेव एयंताणुवड्डिकालस्स परिच्छेद-

§ ४८६. प्रकृत जघन्य स्वामित्वकी सिद्धिके लिए पहले ही इस अर्थपदका निर्देश किया है,
क्योंकि यह वचन विसंयोजनापूर्वक पुनः संयुक्त होनेपर अन्तर्मुहूर्तकाल तक होनेवाले नवकवन्धसम्बन्धी
अनुभागके सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागसे अनन्तगुणी हीनताके कथन करनेमें तत्पर है । यदि
कहा जाय कि उससे यह अनन्तगुणा हीन नहीं है, इसलिए उसके परिहार द्वारा यहीं पर स्वामित्वका
विधान करना युक्त है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसी अवस्थामें वहीं पर स्वामित्व
का विधान करनेमें लाभ देखा जाता है । इस वचन द्वारा पूर्वोक्त जघन्य वृद्धिके स्वामित्वको भी
समर्थित जान लेना चाहिए, क्योंकि वह एकान्तानुवृद्धिके अन्तिम अनुभागसे अनन्तगुणा हीन है,
इसलिए उसके सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागसे कम होकर अवस्थित रहनेमें कोई विसंवाद
नहीं पाया जाता । इस प्रकार स्वामित्वका साधन करनेवाले इस अर्थपदका कथन करके अब यहाँ
पर जघन्य हानिके सम्भव क्रमको दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त कालतक संयुक्त हुआ जो जीव जबतक जघन्य सूक्ष्म
एकेन्द्रियसम्बन्धी कर्मको नहीं प्राप्त करता है तब तक घात करता है ।

§ ४८७. यत्त ऐसा है अतः अन्तर्मुहूर्त कालतक संयुक्त हुआ जो जीव है वह जबतक
जघन्य सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी कर्मको नहीं प्राप्त करता है तब तक संक्लेशसे विशुद्धिको प्राप्त करके
कदाचित् अनुभागकाण्डकघात करता है, क्योंकि सम्भव होने पर अपनी कारणसामग्रीके कारण
बस्की उत्पत्ति होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इससे जिसका सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभाग-
सत्कर्म अभी गत नहीं हुआ है ऐसे उस जीवके काण्डकघात असम्भव है ऐसी आशंकाका निषेध
जान लेना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे ही एकान्तानुवृद्धिके कालका सद्भाव स्वीकार किया गया

ब्भुवगमादो । एवं च संभयो होइ ति कयणिच्छयो पयदजहण्णसामित्तविहाणमेत्थेव जुत्तं पेच्छमाणो तण्णिद्वारणदुमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ तदो सव्वत्थोवाणुभागे घादिज्जमाणे घादिदे तस्स जहण्णिया हाणी ।

§ ४८८. जदो एस संभयो तदो तस्स अंतोमुहुत्तसंजुत्तमिच्छाइड्डिस्स सत्थाणविसोहि-
णित्रंघणखंडयघादपरिणदस्स जहण्णिया हाणी दद्वुवा ति सुत्तत्थसंबंधो । एत्थ
सव्वत्थोवाणुभागे घादिज्जमाणे घादिदे ति वुत्ते छविहाए हाणीए वि खंडयघादसंभवे
जहण्णसामित्तविरोहेणाणंतभागहाणीए खंडयघादेण परिणदो ति घेत्तव्वं ।

❀ तस्सेव से काले जहण्णयमवट्ठाणं ।

§ ४८९. तस्यैवानंतरनिर्दिष्टहानिसंक्रमस्वामिनः तदनंतरसमये जघन्यकमवस्थान-
मिति यावत् ।

❀ कोहसंजलणस्स जहण्णिया वड्ढी मिच्छत्तभंगो ।

§ ४९०. ण एत्थ किंचि वीत्तव्वमत्थि, मिच्छत्तजहण्णवड्ढिसामित्तसुत्तेणेव गयत्थादो ।

❀ जहण्णिया हाणी कस्स ?

§ ४९१. सुगमं ।

है । ऐसा सम्भव है ऐसा निश्चय करनेके वाद प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान यहीं पर युक्त है
ऐसा समझते हुए उसका निर्धारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* अनन्तर सबसे स्तोक घाते जानेवाले अनुभागके घातित होने पर वह जघन्य
हानिका स्वामी है ।

§ ४८८. यत ऐसा सम्भव है अत अन्तर्मुहूर्त काल तक संयुक्त हुए तथा स्वस्थान विशुद्धि
निमित्तक काण्डकघातरूपसे परिणत हुए उस मिथ्यादृष्टि जीवके जघन्य हानि जाननी
चाहिए इस प्रकार सूत्रार्थका सम्बन्ध है । यहाँ पर सूत्रमे 'सव्वत्थोवाणुभागे घादिज्जमाणे घादिदे'
ऐसा कहने पर यद्यपि छह प्रकारकी हानि द्वारा काण्डकघात सम्भव है तो भी जघन्य स्वामित्वकी
अविरोधिनी अनन्तभागहानिके द्वारा होनेवाले काण्डकघातरूपसे परिणत हुआ ऐसा ग्रहण
करना चाहिए ।

* तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है ।

§ ४८९. जो अनन्तर हानिसंक्रमका स्वामी कह आये है उसीके तदनन्तर समयमे जघन्य
अवस्थान होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* क्रोधसंज्वलनकी जघन्य वृद्धिके स्वामीका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ४९०. यहाँ पर कुछ वक्तव्य नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धिके स्वामित्वका
कथन करनेवाले सूत्रसे ही यह सूत्र गतार्थ हो जाता है ।

* उसकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ?

§ ४९१. यह सूत्र सुगम है ।

❀ खवयस्स चरिमसमयबंधचरिमसमयसंकामयस्स ।

§ ४६२. एत्थ चरिमसमयबंधो ति वुत्ते कोहतदियसंगहकिट्टिवेदयचरिमसमयवद्ध-
णवक्रंधाणुभागो धेत्तव्यो । तस्स चरिमसमयसंकामओ णाम माणवेदगद्धाए दुसमऊण-
दोआवल्लियचरिमसमए वट्टमाणो ति गहेयव्वं । तस्स कोधसंजलणाणुभागसंकमणिबंधणा
जहणिया हाणी होइ ।

❀ जहणायमवट्टाणं कस्स ?

§ ४६३. सुगमं ।

❀ तस्सेव चरिमे अणुभागखंडए वट्टमाणयस्स ।

§ ४६४. तस्सेव खवयस्स जहणायमवट्टाणं होइ ति सामित्तसंबंधो कायव्वो ।
कदमाए अवत्थाए वट्टमाणस्स तस्स सामित्ताहिसंबंधो ? चरिमे अणुभागखंडए वट्टमाणयस्स ।
चरिमाणुभागखंडयं णाम किट्टिकारयचरिमावत्थाए धेत्तव्वं, उवरिमणुसमयोवट्टणाविसए
खंडयघादासंभवादो । तदो दुचरिमाणुभागखंडयं घादिय चरिमाणुभागखंडयपढमसमए
त्पाओग्गहाणीए परिणदस्स विदियसमए पयदजहणसामित्तं दट्टव्वं ।

* अन्तिम समयमें हुए बन्धका अन्तिम समयमें संक्रम करनेवाला क्षपक जीव उसको
जघन्य हानिका स्वामी है ।

§ ४६२ यहाँ पर सूत्रमें 'अन्तिम समयमें हुआ बन्ध' ऐसा कहने पर उससे क्रोधकी तीसरी
संग्रहकृष्टिका वेदन करनेवालेके अन्तिम समयमें बंधे हुए नवकबन्धका अनुभाग लेना चाहिए ।
उसका अन्तिम समयमें सक्रमण करनेवाला ऐसा कहनेसे मानवेदक कालके दो समय कम दो
आवल्लिके अन्तिम समयमें विद्यमान जीव लेना चाहिए । उसके क्रोधसंज्वलनके अनुभागसंक्रम-
सम्बन्धी जघन्य हानि होती है ।

* जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ?

§ ४६३. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान वही जीव जघन्य अवस्थानका स्वामी है ।

§ ४६४. वही क्षपक जघन्य अवस्थानका स्वामी है इस प्रकार स्वामित्वका सम्बन्ध
करना चाहिए ।

शंका—किस अवस्थामें विद्यमान हुए उसके स्वामित्वका सम्बन्ध होता है ?

समाधान—अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान जीवके होता है । अन्तिम अनुभागकाण्डक
कृष्टिकारककी अन्तिम अवस्थामें होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आगे प्रत्येक समयमें
होनेवाली अपवर्तनाके स्थलपर काण्डकघातका होना असम्भव है । इसलिए द्विचरम अनुभागकाण्डक-
का घात करके अन्तिम अनुभागकाण्डकके प्रथम समयमें तत्प्रायोग्य हानिरूपसे परिणत हुए जीवके
द्वितीय समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए ।

❀ एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।

§ ४६५. कुदो ? वड्डीए मिच्छत्तभंगेण हाणि-अवट्ठाणाणं पि खवयस्स चरिमसमय-णवकबंधचरिमफालिविसयत्तेण चरिमाणुभागखंडयविसयत्तेण च सामित्तपरूवणं पडि विसेसाभावादो ।

❀ लोहसंजलणस्स जहणिया वड्डी मिच्छत्तभंगो ।

§ ४६६. सुगमं ।

❀ जहणिया हाणी कस्स ?

§ ४६७. सुगमं ।

❀ खवयस्स समयाहियावलियसकसायस्स ।

§ ४६८. समयाहियावलियसकसायो णाम सुहुमसांपराइओ सगद्धाए समयाहिया-वलियसेसाए वट्टमाणो घेत्तव्वो । तस्स पयदजहण्णसामित्तं दट्ठव्वं, एत्तो सुहुमदरहाणीए लोहसंजलणाणुभागसंकमणिवंधणाए अण्णत्थाणुमलद्वीदो ।

❀ जहणयमवट्ठाणं कस्स ?

§ ४६९. सुगमं ।

* इसी प्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेदका जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ४६५. क्योंकि वृद्धिकी अपेक्षा मिथ्यात्वके भङ्ग तथा हानि और अवस्थानकी अपेक्षा भी क्षपकके अन्तिम समयमें होनेवाले नवकबन्धके अन्तिम फालिके विषयरूपसे और अन्तिम अनुभाग-काण्डके विषयरूपसे स्वामित्वके कथन करनेके प्रति कोई विशेषता नहीं है ।

* लोभसंज्वलनकी जघन्य वृद्धिके स्वामीका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ४६६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य हानिका स्वामी कौन है ?

§ ४६७. यह सूत्र सुगम है ।

* जिस क्षपकके संज्वलनलोभकी क्षपणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष है वह उसका जघन्य हानिका स्वामी है ।

§ ४६८. यहाँ पर 'समयाधिकआवलिसकसाय' पदसे अपने कालमें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने पर विद्यमान सूक्ष्मसाम्परायिक जीव लेना चाहिये । उसके प्रकृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि इससे लोभ संज्वलनके अनुभागके संक्रमसे होनेवाली सूक्ष्म हानि अन्यत्र नहीं उपलब्ध होती ।

* जघन्य अवस्थानका स्वामी कौन है ।

§ ४६९. यह सूत्र सुगम है ।

❀ दुचरिमे अणुभागखंडए हदे चरिमे अणुभागखंडए वट्टमाणयस्स ।

§ ५००. क्रोहसंजलणजहण्णावट्टाणसंक्रमसामित्तसुत्तस्सेव णिरवयवमेदस्स सुत्तस्सत्थ-
परूवणा कायव्वा ।

❀ इत्थिवेदस्स जहण्णिया वड्डी मिच्छत्तभंगो ।

§ ५०१. कुदो ? सुद्धमहदसमुत्पत्तियक्रमेण जहण्णण्णाणंतभागवड्डीए वट्टिदम्मि
सामित्तपडिलंभं पडि ततो एदस्स भेदाभावादे ।

❀ जहण्णिया हाणी कस्स ?

§ ५०२. सुगमं ।

❀ चरिमे अणुभागखंडए पढमसमयसंक्रामिदे तस्स जहण्णिया हाणी ।

§ ५०३. इत्थिवेदस्स दुचरिमाणुभागखंडयचरिमफालि संक्रामिय चरिमाणुभाग-
खंडयपढमसमए वट्टमाणस्स जहण्णिया हाणी होइ, तत्थ खवगपरिणामेहि घादिदावसेसस्स
तदणुभागस्स सुद्ध जहण्णहाणीए हाइदूण संकंतिदंसणादो ।

❀ तस्सेव विदियसमए जहण्णयमवट्टाणं ।

§ ५०४. तस्सेव चरिमाणुभागखंडयसंक्रमे वट्टमाणखत्रयस्स विदियसमये जहण्णय-

* द्विचरम अनुभागकाण्डकका घात कर अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान जीव
उसके जघन्य अवस्थानका स्वामी है ।

§ ५०० क्रोहसंजलनके जघन्य अवस्थानरूप संक्रमके स्वामित्वका कथन करनेवाले सूत्रके
समान ही पूरी तरहसे इस सूत्रके अर्थका कथन करना चाहिए ।

* स्त्रीवेदकी जघन्य वृद्धिके स्वामित्वका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ५०१. क्योंकि मूत्रम एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य हतसमुत्पत्तिक कर्मसे अनन्तभागवृद्धिमें
विद्यमान जीव जघन्य स्वामी है इस दृष्टिसे मिथ्यात्वकी अपेक्षा इसमें कोई भेद नहीं है ।

* जघन्य हानिका स्वामी कौन है ?

§ ५०२. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तिम अनुभागकाण्डकका प्रथम समयमें संक्रम करके स्थित हुआ जीव जघन्य
हानिका स्वामी है ।

§ ५०३. स्त्रीवेदके द्विचरम अनुभागकाण्डककी अन्तिम फालिका संक्रम करके अन्तिम
अनुभागकाण्डकके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके जघन्य हानि होती है, क्योंकि वहाँ पर क्षपक
परिणामोंके द्वारा घात करनेसे शेष बचे हुए उसके अनुभागका अत्यन्त जघन्य हानिके द्वारा घात
करके संक्रमण देखा जाता है ।

* तथा वही दूसरे समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है ।

§ ५०४. अन्तिम अनुभागकाण्डकके संक्रममें विद्यमान उसी क्षपक जीवके दूसरे समयमें

मवट्टाणं होइ । कुदो ? पढमसमए जहण्णहाणिविसयीकयतेणुभागस्स विदियसमए तत्तिय-
मेत्तपमाणेणावट्टाणदंसणादो ।

❀ एवं एवुंसयवेद-छएणोकसायाणं ।

§ ५०५. सुगममेदमप्पणासुत्तं । एवमोघो समत्तो ।

§ ५०६. आदेशेण गोरइय० मिच्छ०-वारसक०-णवणोक० जह० वट्टी कस्स ?
अण्णदरस्स अणंतभागेण वट्टिदूण वट्टी, हाइदूण हाणी, एयदरत्थावट्टाणं । अणंताणु०४
ओघं । सम्म० जह० कस्स ? अण्णदर० समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयस्स ।
एवं पढमपुढवि-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खदो-देवा सोहम्मादि जाव सहस्सार ति । एघं
छसु हेट्टिमासु पुढवीसु । णवरि सम्म० णत्थि । एवं जोणिणी०-भरण०-त्राण०-जोदिसि० ।
पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० विहत्तिभंगो । मणुसतिय मिच्छ०-अट्टक० जह०
वट्टी कस्स ? अण्णद० सुहुमेइं दियपच्छायदस्स अणंतभागेण वट्टिदूण वट्टी, हाइदूण हाणी,
एगदरत्थावट्टाणं । सम्म०-सग्गामि०-अणंताणु०४ ओघं । चदुसंजल०-णवणोक० ओघं ।

जघन्य अवस्थान होता है, क्योंकि प्रथम समयमें जघन्य हानिके विषयभूत अनुभागका दूसरे समय-
में उतने ही प्रमाणरूपसे अवस्थान देखा जाता है ।

* इसी प्रकार नपुंसकवेद और छह नोकपायोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और
जघन्य अवस्थानका स्वामी जानना चाहिए ।

§ ५०५. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

इसी प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ५०६. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, वारह कपाय और नौ नोकपायोंकी जघन्य वृद्धिका
स्वामी कौन है ? जो अनन्तभागवृद्धिरूपसे वृद्धि करता है ऐसा अन्यतर जीव जघन्य वृद्धिका स्वामी
है, तथा जो अनन्तभागहानिरूपसे हानि करता है ऐसा अन्यतर जीव जघन्य हानिका स्वामी है ।
तथा इनमेसे किसी एक स्थानमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघ
के समान है । सम्यक्त्वकी जघन्य हानिका स्वामी कौन है ? जिसके दर्शनमोहनीयकी क्षणामे एक
समय अधिक एक आवलि काल शेष है वह उसकी जघन्य हानिका स्वामी है । इसी प्रकार पहली
पृथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चद्विक, सामान्य देव और सौधर्म कल्पसे लेकर
सहस्वार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । इसी प्रकार नीचेकी छह पृथिवियोंमें जानना चाहिए ।
किन्तु इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्वका हानिसंक्रम नहीं होता । इसी प्रकार योनिनी
तिर्यञ्च, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च
अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । मनुष्यत्रिकमें
मिथ्यात्व और आठ कपायोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कौन है ? जिसने सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यायसे
आकर अनन्तभागवृद्धिरूप वृद्धि की है ऐसा अन्यतर तीन प्रकारका मनुष्य जघन्य वृद्धिका स्वामी है,
अनन्तभागहानि करने पर यही अन्यतर मनुष्य जघन्य हानिका स्वामी है और इनमेसे किसी एक
स्थल पर जघन्य अवस्थानका स्वामी है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका
भंग ओघके समान है । चार संज्वलन और नौ नोकपायोंका भङ्ग भी ओघके समान है । किन्तु इतनी

णवरि सुहुमेह्दियपच्छायदस्स अणंतभागेण वड्ढिदस्स तस्स जह० वड्ढो । मणुसिणी० पुरिस० छण्णोक० भंगो । आणदादि णवगेवजा त्ति विहत्तिभंगो । णवरि सम्म०—अणंताणु० देवोधं । अणुदिसादि सव्वट्ठे त्ति विहत्तिभंगो । णवरि सम्म० देवोधं । अणंताणु० जह० हाणिसंकमो कस्स ? अण्णद० अणंताणु० चउकं विसंजोएंतस्स दुचरिमे अणुभागखंडए हदे तस्स जह० हाणी । तस्सेव से काले जहण्णयमवट्ठाणं । एवं^१ जाव० ।

❀ अप्पाबहुअं ।

§ ५०७. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं ।

सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया हाणी ।

§ ५०८. एत्थ सव्वग्गहरोण मिच्छत्ताणुभागसंक्रमविसयाणमुक्कस्सवड्ढि—हाणि—अवट्ठाणपदाणं गहणं कायव्वं, तेसु सव्वेसु सव्वेहितो वा थोवा उक्क० हाणी । सा च उक्क० हाणी उक्कसाणु० खंडयपमाणा ।

विशेषता है कि जिसने सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर अनन्तभागवृद्धि की है वह जघन्य वृद्धिका स्वामी है। मनुष्यनियौं पुरुषवेदका भङ्ग छह नोकपायोंके समान है। आनत कल्पसे लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है। इतनी विशषता है कि सम्यक्त्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कके जघन्य हानिसंक्रमका स्वामी कौन है? अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर जीव द्विचरम अनुभागकाण्डकका घात कर देता है वह जघन्य हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ पर आदेशसे स्वामित्वको समझनेके लिए इन बातों पर विशेषरूपसे ध्यान रखना चाहिए कि दर्शनमोहनीयकी क्षणका प्रारम्भ मनुष्यत्रिकमे ही होता है, इसलिए सम्यग्मिथ्यात्वकी जघन्य हानि और अवस्थान इन्हीं मार्गणाओंमें घटित होते हैं, गतिसम्बन्धी अन्य मार्गणाओंमें नहीं। यद्यपि मनुष्यत्रिकमे तो सम्यक्त्वकी हानि और अवस्थान दोनों बन जाते हैं। परन्तु गतिसम्बन्धी अन्य जिन मार्गणाओंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न होता है उनमें इसकी केवल हानि ही बनती है और जिन मार्गणाओंमें कृतकृत्यवेदकसम्यग्दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता उनमें इसकी हानि भी नहीं बनती। शेष कथन स्पष्ट ही है।

* अत्र अल्पबहुत्वको कहते हैं ।

§ ५०७. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है ।

§ ५०८ यहाँ पर सूत्रमें 'सर्व' पदके ग्रहण करनेसे मिथ्यात्वके अनुभागसंक्रमविषयक उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान इन तीनों पदोंका ग्रहण करना चाहिए। उन सबसे या उन सबसे उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है और वह उत्कृष्ट हानि उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकप्रमाण है ।

१. ता० प्रती '—मवट्ठाणं ।..... एव' इति पाठः ।

❀ वड्ढो अवड्ढाणं च विसेसाहियं ।

§ ५०६. उक्कस्सवड्ढि-अवड्ढाणाणि समाणविसयसामित्तेण तुल्लाणि होदूण तत्तो विसेसाहियाणि त्ति वुत्तं होइ । कुदो वुण तत्तो एदेसिं विसेसाहियणिच्छयो ? ण, वड्ढिदाणु-भागस्स णिरवसेसघादणसत्तीए असंभवेण तच्चिणिच्छयादो गोदमसिद्धं, पुव्वमप्पावहुअ-साहण्डं सामित्तमुत्ते परूविदड्ढपदावड्ढंभवलेण तच्चिणिण्णयसिद्धीदो ।

❀ एवं सोलसकसाय-एवणोकसायाणं ।

§ ५१०. सुगममेदमप्पणासुत्तं, विसेसाभावमस्सिऊण पयड्ढत्तादो ।

❀ सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणमुक्कस्सिया हाणी अवड्ढाणं च सरिसं ।

§ ५११. कुदो ? उक्कस्सहाणीए चेव उक्कस्सावड्ढाणसामित्तदंसणादो ।

एवमोघो समत्तो ।

५१२. आदेशेण विहत्तिभंगो ।

एवमुक्कस्सप्पावहुअं समत्तं ।

* उससे उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ५०६. उत्कृष्ट वृद्धि और अवस्थान स्वामीके समान होनेसे तुल्य होकर भी उत्कृष्ट हानिसे विशेष अधिक हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—उससे ये विशेष अधिक हैं इसका निश्चय कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वड़े हुए अनुभागका पूरी तरहसे घात करनेकी शक्ति न होनेसे उत्कृष्ट हानिसे ये दोनों विशेष अधिक हैं इसका निश्चय होता है और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि पहले अल्पवहुत्वकी सिद्धि करनेके लिए स्वामित्व सूत्रमें कहे गये अर्थपदके अवलम्बन करनेसे उक्त विषयके निश्चयकी सिद्धि होती है ।

* इसी प्रकार सोलह कषाय और नौ नोकपायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी जानना चाहिए ।

§ ५१०. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि विशेषके अभावके आश्रयसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान सदृश हैं ।

§ ५११. क्योंकि उत्कृष्ट हानिके होने पर ही उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व देखा जाता है ।

इस प्रकार ओव प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ५१२. आदेशसे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—अनुभ गविभक्तिमे आदेशसे सब प्रकृतियोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका जिस प्रकार अल्पवहुत्व कहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

❀ जहणाय ।

§ ५१३. उक्त्स्सप्पावहुअसमत्तिसमणंतरमिदाणि जहणायमप्पावहुअं वण्णइस्सामो त्ति पइण्णासुत्तमेदं ।

❀ मिच्छत्तस्स जहणिया वड्डी हाणी अवट्ठाणसंकमो च तुल्लो ।

§ ५१४. कुदो ? तिण्हेमेदेसिं सुहुमहदसमुप्पत्तियजहण्णाणुभागस्स अणंतिमभागे पडिन्नद्वत्तादो ।

❀ एवमट्ठकसायाणं ।

§ ५१५. जहा मिच्छत्तस्स जहणवट्ठिहाणि-अवट्ठाणाणमभिण्णविसयाणं सरिसत्तमेवमेदेसिं पि कम्माणं दट्ठव्यं ।

❀ सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा जहणिया हाणी ।

§ ५१६. कुदो ? अणुसमयोवट्ठणाए पत्तघादसम्मत्ताणुभागस्स समयाहियावलिय-अक्खीणदंसणमोहणीयम्मि जहणहाणिभावमुवगयस्स सव्वत्थोवत्ते विरोहाणुवलंभादो ।

❀ जहणायमवट्ठाणमणंतगुणं ।

§ ५१७ कुदो ? अणुसमयोवट्ठणापारंभादो पुच्चमेव चरिमाणुभागखंडयविसाए जहणभावमुवगयत्तादो ।

* अब जघन्य अल्पबहुत्वको कहते हैं ।

§ ५१३. उक्तष्ट अल्पबहुत्वकी समाप्तिके बाद अब जघन्य अल्पबहुत्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र है ।

* मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम तुल्य है ।

§ ५१४. क्योंकि ये तीनों सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिके जघन्य अनुभागके अनन्तवें भागमें प्रतिबद्ध हैं ।

* इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान संक्रमका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

§ ५१५. जिस प्रकार मिथ्यात्वके अभिन्न विषयवाले जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान समान हैं उसी प्रकार इन कर्मोंके भी जानने चाहिए ।

* सम्यक्त्वकी जघन्य हानि सबसे स्तोत्र है ।

§ ५१६. क्योंकि प्रतिसमय होनेवाली अपवर्तनाके द्वारा घातको प्राप्त हुआ सम्यक्त्वका अनु-भाग दर्शनमोहनीयकी क्षणामें एक समय अधिक एक आवलि कालके शेष रहने पर जघन्यपनेको प्राप्त हो जाता है, इसलिए उसके सबसे स्तोत्र होनेमें विरोध नहीं पाया जाता ।

* उससे जघन्य अवस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ५१७. क्योंकि प्रति समय होनेवाली अपवर्तनाके प्रारम्भ होनेके पूर्व ही अन्तिम अनुभाग-काण्डकमें इसका जघन्यपना उपलब्ध होता है ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स जहणिया हाणी अवहाणसंकमो च तुल्लो ।

§ ५१८. कुदो ? दोण्हेदेसिं दंसणमोहकखवयदुचरिमाणुभागखंडयपमाणेण हाइदूण लद्धजहण्णभावाणमण्णोण्णेण समाणत्तसिद्धीए विप्पडिसेहाभावादो ।

❀ अणंताणुबंधीणं सव्वत्थोवा जहणिया वड्डी ।

§ ५१९. कुदो ? तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण संजुत्तविदियसमयणवक्कंधस्स जहण्ण-वड्ढिभावेणेह विवक्खियत्तादो ।

❀ जहणिया हाणी अवहाणसंकमो च अणंतगुणो ।

§ ५२०. कुदो ? अंतोयुहुत्तसंजुत्तस्स एयंताणुवड्डीए वड्ढिदाणुभागविसए सव्व-त्थोवाणुभागखंडयघादे कदे जहण्णहाणि-अवहाणाणं सामित्तदंसणादो ।

❀ चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं सव्वत्थोवा जहणिया हाणी ।

§ ५२१. कुदो ? तिण्णिसंजलण-पुरिसवेदाणं सगसगचरिमसमयणवक्कंधचरिम-समयसंक्रामयखवयम्मि लोभसंजलणस्स समयाहियावलियसकसायम्मि पयदजहण्णसामित्ताव-लंबणादो ।

❀ जहणयमवहाणं अणंतगुणं ।

* सम्यग्भिध्यात्वका जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम तुल्य है ।

§ ५१८. क्योंकि दर्शनमोहके क्षपक जीवके द्विचरम अनुभागकाण्डकप्रमाण हानि होकर जघन्यपनेको प्राप्त हुए दोनोंमें परस्पर समानताकी सिद्धि होनेसे किसी प्रकारकी विप्रतिपत्ति नहीं है।

* अनन्तानुबन्धियोंकी जघन्य वृद्धि सबसे स्तोक है ।

§ ५१९. क्योंकि तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामसे संयुक्त होनेके दूसरे समयमें हुआ नवकबन्ध वृद्धिरूपसे यहाँ पर विवक्षित है ।

* उससे जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम अनन्तगुणो हैं ।

§ ५२०. क्योंकि संयुक्त होनेके बाद अन्तर्मुहुर्त काल तक एकान्तानुवृद्धिरूपसे जो अनुभागकी वृद्धि होती है उसमें सबसे स्तोक अनुभागकाण्डकघातके होने पर जघन्य हानि और अवस्थानका स्वामित्व देखा जाता है ।

* चार संज्वलन और पुरुषवेदकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है ।

§ ५२१. क्योंकि तीन संज्वलन और पुरुषवेदका जघन्य स्वामित्व अपने अपने बन्धके अन्तिम समयमें हुए नवकबन्धका अपने अपने संक्रमके अन्तिम समयमें संक्रमण करनेवाले क्षपक जीवके होता है और लोभसंज्वलनका जघन्य स्वामित्व क्षपक जीवके सकषाय अवस्थामें एक समय अधिक एक आवलि वाल रहने पर होता है, अतएव प्रकृतमें इस जघन्य स्वामित्वका अवलम्बन लिया गया है ।

* उससे जघन्य अवस्थान अनन्तगुणा है ।

§ ५२२. केण कारणेण ? चिराणसंतकम्मचरिमाणुभागखंडयम्मि पयदजहण्णावट्ठाण-
सामित्तवलंगणादो ।

❀ जहणिया वड्ढो अणंतगुणा ।

§ ५२३. कुदो ? एत्तो अणंतगुणसुहुमाणुभागविसए लद्धजहण्णभावत्तादो ।

❀ अट्ठणोकसायाणं जहणिया हाणो अवट्ठाणसंकमो च तुल्लो थोवो ।

§ ५२४. कुदो ! दोण्हेमेदेसिं पदाणमप्पप्पणो चरिमाणुभागखंडयविसए जहण्ण-
सामित्तदंसणादो ।

❀ जहणिया वड्ढो अणंतगुणा ।

§ ५२५. कुदो सुहुमाणुभागविसए पयदजहण्णसामित्तसमुवलद्वीदो ।

एवमोघो गदो ।

§ ५२६. आदेसेण गेरइय० मिच्छ०—वारसक०—गवणोक० जह० वड्ढो हाणी
अवट्ठाणसंकमो च सरिसो । अणंताणु०४ ओघं । एवं सव्वणेरइय०—तिरिक्ख-पंचिदिय-
तिरिक्खतिय३—देवा जाव सहस्सार ति । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०—मणुसअपज्ज० जह०
विहत्तिभंगो । सणुसतिए ३ ओघं । णवरि मणुसिणीसु पुरिसवेद० छण्णोकसायभंगो ।

§ ५२२. क्योंकि प्राचीन सत्कर्मसम्बन्धी अन्तिम अनुभागकाण्डके समय प्राप्त होनेवाले
प्रकृत जघन्य अवस्थानविषयक स्वामित्वका यहाँ पर अवलम्बन लिया गया है ।

* उससे जघन्य वृद्धि अनन्तगुणी है ।

§ ५२३. क्योंकि जघन्य अवस्थानसंक्रमसे अनन्तगुणे सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागके
आश्रयसे इसका जघन्यपना प्राप्त होता है ।

* आठ नोकषायोंके जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम परस्पर तुल्य होकर
सबसे स्तोक हैं ।

§ ५२४. क्योंकि इन दोनों पदोंका अपने अपने अन्तिम अनुभागकाण्डके समय जघन्य
स्वामित्व देखा जाता है ।

* उनसे जघन्य वृद्धि अनन्तगुणी है ।

§ ५२५. क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागमे अनन्तभागवृद्धि होने पर प्रकृत जघन्य
स्वामित्व उपलब्ध होता है ।

इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ५२६. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंके जघन्य वृद्धि,
जघन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम तुल्य हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग आघके समान
हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्य देव और सहस्वार
कल्प तरुके देवोंमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अनुभाग-

आणदादि जाव णवगेवजा त्ति विहत्तिभंगो । णवरि अणंताणु०४ ओघं । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति मिच्छत्त०—सोलसक०—णवणोक० जह० हाणी अवट्ठाणं च सरिसं । एघं जाव० ।

एवमप्पावहुए समत्ते पदणिक्खेवो समत्तो ।

❖ वड्डीए तिणिण अणिओगद्वाराणि समुक्कित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च ।

§ ५२७. पदणिक्खेवविसेसो वड्डी णाम । तत्थेदाणि तिणिण चेवाणिओगद्वाराणि भवंति, सेसाणमेत्थेवंतंभावदंसणादो । एवमुद्दिट्ठसमुक्कित्तणादिअणियोगद्वारेसु समुक्कित्तणा ताव कीरदि त्ति जाणावणट्ठमिदमाह—

❖ समुक्कित्तणा ।

§ ५२८. सुगमं ।

❖ मिच्छत्तस्स अत्थि छव्विहा वड्डी, छव्विहा हाणी अवट्ठाणं च ।

§ ५२९. काओ ताव छव्वड्डीओ^१ ? अणंतभागवड्ढि-असंखेज्जभागवड्ढि-संखेज्जभागवड्ढि-संखेज्जगुणवड्ढि-असंखेज्जगुणवड्ढि-अणंतगुणवड्ढिसण्णिदाओ । एवं हाणीओ वि वत्तव्वाओ । तत्थ छव्वड्डीणं परूवणा जहा अणुभागविहत्तीए तथा णिरवसेस-

विभक्तिके समान भङ्ग है । मनुष्यत्रिकमे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमे पुरुषवेदका भङ्ग छह नोकषायोंके समान है । आनतकल्पसे लेकर नौ अवेयक तकके देवोंमे अनुभाग-विभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमे मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंकी जघन्य हानि और अवस्थान ये दोनों पद समान हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होनेपर पदनिक्षेप समाप्त हुआ ।

* वृद्धिमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पवहुत्व ।

§ ५२७. पदनिक्षेप विशेषको वृद्धि कहते हैं । उसमे ये तीन ही अनुयोगद्वार होते हैं, क्योंकि शेष अनुयोगद्वारोंका इन्हींमें अन्तर्भाव देखा जाता है । इस प्रकार सूचित किये गये समुत्कीर्तना आदि अनुयोगद्वारोंमेसे सर्व प्रथम समुत्कीर्तनाका कथन करते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र कहते हैं—

* अब समुत्कीर्तनाको कहते हैं ।

§ ५२८. यह सूत्र सुगम है ।

* मिथ्यात्वकी छह प्रकारकी वृद्धि, छह प्रकारकी हानि और अवस्थान है ।

शंका—छह वृद्धियाँ कौन हैं ?

समाधान—अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागवृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणवृद्धि और अनन्तगुणवृद्धि इन नामोंवाली छह वृद्धियाँ हैं ।

§ ५२९. इसी प्रकार छह हानियोंका भी कथन करना चाहिए । उनमेसे छह वृद्धियोंकी प्ररूपणा जिस प्रकार अनुभागविभक्तिमें की है उसी प्रकार सबकी सब यहाँ पर करनी चाहिए,

१. आ०प्रतौ छव्वड्डीणं परूवणाओ इति पाठ ।

मेत्थ वि कायव्या, विसेसाभावादो । संपहि हाणीणं परुवणे कीरमाणे सच्चुकस्साणुभागसंत-
 कम्मिएण चरिमुव्वंके घादिदे पढमो अणंतभागहाणिवियप्पो होइ, तेणेव चरिम-दुचरिमु-
 व्वंकेसु घादिदेसु विदिओ अणंतभागहाणिवियप्पो होइ । एवमणेण विहाणेण हेड्डा
 ओयारेयव्वं जाव कंडयमेत्तमोइण्णस्स पच्छाणुपुव्वीए पढमसंखेज्जभागवड्ढिड्डाणं ति । पुणो तेण
 सह उवरिमाणुभागे घादिदे असंखेज्जभागहाणिपारंभो होइ । एत्तो पढुडि असंखेज्जभाग-
 हाणिविसओ जाव पच्छाणुपुव्वीए पढमं संखेज्जभागवड्ढिड्डाणमुप्पणं ति । एत्तो हेड्डा
 घादेमाणस्स संखेज्जभागहाणिविसओ होइण ताव गच्छइ जाव पच्छाणुपुव्वीए उक्कस्ससंखेज्जस्स
 सादिरेयद्वमेत्ता संखेज्जभागवड्ढिवियप्पा परिहीणा ति । तत्थ पढमदुगुणहीणट्टाणमुप्पज्जइ ।
 एत्तो पढुडि संखेज्जगुणहाणीए विसओ होइण ताव गच्छइ जाव जहण्णपरित्तासंखेज्जछेदणय-
 मेत्तदुगुणहाणीओ हेड्डा ओदिण्णाओ ति । तत्तो पढुडि असंखेज्जगुणहाणिविसओ होइण ताव
 गच्छइ जाव पच्छाणुपुव्वीए संखेज्जभागवड्ढिवियप्पाणमसंखेजे भागे संखेज्जगुणवड्ढि-असंखेज्ज-
 गुणवड्ढिसयल्लद्वणं तत्तो हेड्डिमचदुवड्ढिअद्वणं च विसईकरिय चरिमड्ढंकट्टाणं पत्तो ति ।
 एत्थ चरिमड्ढंकट्टाणं मोत्तूण सेसरुव्वण्णट्टाणमेत्तं कंडयघादं करमाणस्स असंखेज्जगुणहाणीए
 चरिमवियप्पो होइ ति भावत्थो । पुणो चरिमड्ढंकट्टाणेण सह कंडयघादं कुणमाणस्साणंतगुण-
 हाणी पारमदि । एत्तो पढुडि जाव सच्चुकस्साणुभागकंडयं ति ताव घादेमाणस्स अणंतगुण-
 हाणिविसओ होइ । तत्तो हेड्डिमाणुभागस्स पज्जवसाणट्टाणेण सह घादाणुवलंभादो ।

क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । अब हानियोंका कथन करने पर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग-
 सत्कर्मवाले जीवके द्वारा अन्तिम ऊर्वंकका घात करनेपर प्रथम अनन्तभागहानिरूप भेद होता है ।
 उसीके द्वारा अन्तिम और द्विचरम ऊर्वंकका घात करने पर दूसरा अनन्तभागहानिरूप भेद होता
 है । इस प्रकार इस विधिसे नीचे काण्डकप्रमाण उतरे हुए जीवके पश्चादानुपूर्वीसे प्रथम संख्यात
 भागवृद्धिरूप स्थानके प्राप्त होने तक उतारना चाहिए । पुनः उसके साथ उपरिम अनुभागका घात
 करनेपर असंख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है । यहाँसे लेकर पश्चादानुपूर्वीसे प्रथम संख्यातभागवृद्धि-
 के उत्पन्न होने तक असंख्यातभागहानिके विषयरूप स्थान होते हैं । इससे नीचे घात किये जानेवाले
 अनुभागके पश्चादानुपूर्वीसे उत्कृष्ट संख्यातके साधिक अर्धभागप्रमाण संख्यातभागवृद्धिके विकल्प
 परिहीन होने तक संख्यातभागहानिका विषय होकर जाता है । वहाँ पर प्रथम द्विगुण हीन स्थान
 उत्पन्न होता है । यहाँसे लेकर जयन्य परीतासंख्यातके अर्द्धच्छेदप्रमाण द्विगुणहानियों नीचे उतरने
 तक संख्यातगुणहानिका विषय होकर जाता है । वहाँसे लेकर पश्चादानुपूर्वीसे संख्यात भागवृद्धिके
 भेदोंके असंख्यात बहुभागोंको, संख्यातगुणवृद्धि और असंख्यातगुणवृद्धिके सब अध्यानको तथा
 उससे नीचे चार वृद्धियोंके अध्यानको विषय करके अन्तिम अष्टाङ्कस्थानके प्राप्त होने तक असंख्यात-
 गुणहानिका विषय होकर जाता है । यहाँ पर अन्तिम अष्टाङ्क स्थानको छोड़कर शेष एक कम घट-
 स्थानप्रमाण काण्डकघात करनेवाले जीवके असंख्यातगुणहानिका अन्तिम विकल्प होता है यह उक्त
 कथनका भावार्थ है । पुनः अन्तिम अष्टाङ्कस्थानके साथ काण्डकघात करनेवालेके अनन्तगुणहानि-
 का प्रारम्भ होता है । यहाँ से लेकर सबसे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकके प्राप्त होने तक उसका घात
 करनेवालेके अनन्तगुणहानिका विषय होता है, क्योंकि उससे नीचेके अनुभागका अन्तिम स्थानके
 साथ घात नहीं उपलब्ध होता । इसी प्रकार अवस्थानसंक्रमकी सम्भावना का भी कथन करना

एवमवट्टाणसंकमस्स वि संभवो वत्तव्वो, वड्ढि-हाणिविसयं सव्वत्थोवावट्टाणपसरस्स पडिसेहा-
भावादो । अवत्तव्वपदमेत्थ ण संभइ, मिच्छंत्ताणुभागविसए तदणुवलंभादो ।

❖सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमत्थि अणंतगुणहाणी अवट्टाणमवत्त व्वयं च।

चाहिए, क्योंकि वृद्धि और हानिरूप दोनों स्थानोंपर सर्वत्र ही अवस्थानके होनेका निषेध नहीं है । अवक्तव्यपद यहाँ पर सम्भव नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वके अनुभागका आलम्बन लेकर उसकी उपलब्धि नहीं होती ।

विशेषार्थ—यहाँ पर मिथ्यात्वके अनुभागसंक्रममे छह वृद्धियाँ, छह हानियाँ और अवस्थान संक्रम कैसे सम्भव है इसका ऊहापोह किया है । उनमेसे छह वृद्धियोंका व्याख्यान अनुभाग-विभक्तिके समय कर आये हैं, इसलिए यहाँ पर छह हानियोंका ही मुख्य रूपसे विशेष विचार किया है । यहाँ पर जो कुछ कहा गया है उसका सार यह है कि जो उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म है उसको यदि घात किया जाय तो ऊपरसे घात करते हुए नीचेकी ओर आया जायगा । उसमें भी सबसे जघन्य अनुभागकाण्डक अन्तिम ऊर्वक प्रमाण होगा । उससे बड़ा अनुभागकाण्डक चरम और द्विचरम ऊर्वकप्रमाण होगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक ऊर्वकस्थानके द्वारा अनुभागकाण्डकका प्रमाण बढ़ते हुए जब तक काण्डकप्रमाण अर्थात् आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ऊर्वकस्थान नीचे उतरकर असंख्यातभागवृद्धिस्थान नहीं मिलता तब तक अनन्तभागहानि ही होती रहती है । यहाँ हानिका प्रकरण है, इसलिए ऊपरसे नीचेकी ओर गये हैं और यही पश्चादानुपूर्वी है । यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि यहाँ पर अनन्तभागहानिमे जो अनुभागकाण्डकका प्रमाण कहा है सो वह अन्तिम ऊर्वकप्रमाण भी हो सकता है, चरम और द्विचरम ऊर्वकप्रमाण भी हो सकता है, चरम द्विचरम और त्रिचरम ऊर्वकप्रमाण भी हो सकता है और इस प्रकार उत्तरोत्तर अनुभागकाण्डकके प्रमाणमे वृद्धि करते हुए वह आवलिके असंख्यातवें भागके बराबर चरमादि ऊर्वकप्रमाण भी हो सकता है । इतने ऊर्वकप्रमाण अन्तिम अनुभागका घात होने तक अनन्तभागहानि ही होती है । हाँ इससे अधिक अनुभागका घात करने पर असंख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है जो जब तक संख्यातभागहानि स्थाननहीं प्राप्त होता है तब तक जाती है । उसके बाद संख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है जो जब तक संख्यातगुणहानिस्थान नहीं प्राप्त होता तब तक जाती है । यह संख्यात-गुणहानिस्थान कितने स्थान नीचे जाने पर उत्पन्न होता है इसकी मीमांसा करते हुए बतलाया है कि जहाँके संख्यातभागहानिका प्रारम्भ हुआ है वहाँसे उत्कृष्ट संख्यातके साधिक अर्धभागप्रमाण संख्यातभागवृद्धिके विकल्प कम करने पर यह संख्यातगुणहानिस्थान उत्पन्न होता है । इससे आगे जब तक आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण संख्यातगुणहानियाँ होकर असंख्यातगुणहानि नहीं उत्पन्न होती है तब तक अनुभागकाण्डकघात संख्यातगुणहानिका ही विषय रहता है । उसके आगे अन्तिम अष्टाङ्कस्थानके पूर्व तक जितना भी अनुभागकाण्डकघात है वह सब असंख्यातगुणहानिका विषय रहता है । उसके आगे यदि अन्तिम अष्टाङ्कके साथ काण्डकघात करता है तो अनन्तगुण-हानिका प्रारम्भ होता है । यहाँसे आगे जितना भी घात है वह सब अनन्तगुणहानिका ही विषय है । परन्तु यहाँ पर इतना विशेष समझना चाहिए कि काण्डकघातके द्वारा पूरे अनुभागका घात नहीं होता । यहाँ पर वृद्धियों और हानियोंके जितने स्थान उत्पन्न होते हैं उतने ही अवस्थानविकल्प भी बन जाते हैं । मात्र मिथ्यात्वके अनुभागका अवक्तव्यसंक्रम कभी नहीं होता, क्योंकि इसके संक्रमका अभाव होकर पुनः संक्रमकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है ।

❖सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अनन्तगुणहानि, अवस्थान और अवक्तव्यपद होते हैं ।

§ ५३०. दंसणमोहकखवणाए अणंतगुणहाणिसंभवो हाणीदो अणत्थ सव्वत्थोवाव-
ट्टाणसंक्रमसंभवो असंक्रमादो संक्रामयत्तमुवगयम्मिं^१ अवत्तव्यसंक्रमो तिण्हमेदेसिमेत्थ संभवो
ण विरुज्जंदं । सेसपदाणमेत्थ णत्थि संभवो ।

❀ अणंताणुवन्धीणमत्थि छुव्विहा वड्ढी छुव्विहा हाणी अवट्टाण-
मवत्तव्वयं च ।

§ ५३१. मिच्छत्तभंगेणोव छुभ्येयभिण्णवड्ढि हाणोणमवट्टाणस्स य संभवविसयो
णिरवसेसमेत्थाणुगंतव्वो । अवत्तव्वसंक्रमो पुण विसंजोयणापुव्वसंजोगे दट्ठव्वो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं ।

§ ५३२. एत्थ सेसग्गहणेण वारसक०—णवणोक० गहणं कायव्वं । तेसिमणंताणु-
बंधीणं व छुव्विहाणि-अवट्टाणावत्तव्वयाणं समुक्कित्तणा कायव्वा, विसेसाभावादो । णवरि
सव्वोवसामणापडिवादे अवत्तव्वसंभवो वत्तव्वो । एवमोघो समूत्तो ।

§ ५३३. आदेसेण मणुसत्तिए ओघभंगो । सेससव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ५३०. दर्शनमोहनीयकी क्षणामे अनन्तगुणहानि सम्भव हैं, हानिके सिवा अन्यत्र सर्वत्र
ही अवस्थानसंक्रम सम्भव है और असंक्रमसे संक्रमरूप अवस्थाको प्राप्त होने पर अवत्तव्यसंक्रम
होता है । इस प्रकार उन तीनोंका सद्भाव यहाँ पर विरोधको नहीं प्राप्त होता । मात्र शेष पद यहाँ
पर सम्भव नहीं है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके छह प्रकारकी वृद्धियाँ, छह प्रकारकी हानियाँ, अवस्थान
और अवत्तव्यपद होते हैं ।

§ ५३१. जिस प्रकार मिथ्यात्वके प्रसङ्गसे कथन कर आये हैं उसी प्रकार छह प्रकारकी वृद्धियों
छह प्रकारकी हानियों और अवस्थानकी सम्भावना पूरी तरहसे यहाँ पर जान लेना चाहिए । परन्तु
अवत्तव्यसंक्रम प्रियोजनापूर्वक सयोगके होने पर जानना चाहिए ।

* इसी प्रकार शेष कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए ।

§ ५३२. यहाँ पर शेष पदके ग्रहण करनेसे वारह कपाय और नौ नोकपायोंका ग्रहण करना
चाहिए । अर्थात् उनके अनन्तानुबन्धियोंके समान छह वृद्धि, छह हानि, अवस्थान और अवत्तव्य-
पदोंकी समुत्कीर्तना करनी चाहिए, क्योंकि उनके कथनमें उनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है ।
इसकी विशेषता है कि सर्पोपशमनासे गिरने पर अवत्तव्यपद सम्भव है ऐसा कहना चाहिए ।

इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ५३३ आदेशसे मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भङ्ग है । शेष सब मार्गणाओंमें अनुभाग-
विभक्तिके समान भङ्ग है ।

निर्णयार्थ—मनुष्यत्रिकमें ओघप्ररूपणाकी सब विशेषताएँ सम्भव होनेसे उनमें ओघके
समान जाननेकी सूचना की है । परन्तु गतिसम्बन्धी अन्य सब मार्गणाओंमें ओघसम्बन्धी सब
प्ररूपणा यदित न होकर अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग बन जानेसे उनमें अनुभागविभक्तिके
समान जाननेकी सूचना की है ।

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

❀ सामित्तं ।

§ ५३४. समुक्त्तणाणंतरं सामित्तमहिकयं ति अहियारसंभालणसुत्तमेदं ।

❀ मिच्छत्तस्स छ्विहा वड्डी पंचविहा हाणी कस्स ?

§ ५३५. किमिच्छाइडिस्स आहो सम्माइडिस्स, किं वा दोण्हं पि पयदसामित्तमिदि पुच्छा कया होइ । एत्थ पंचविहा हाणि ति वुत्ते अणंतगुणहाणिं मोत्तण सेसपंचहाणीणं संगहो कायव्वो ।

❀ मिच्छाइडिस्स अणणयरस्स ।

§ ५३६. ण ताव सम्माइडिस्सि मिच्छत्ताणुभागविसयछवड्डीणमत्थि संभवो, तत्थ तव्वंधाभावादो । ण च वंधेण विणा अणुभागसंकमस्स वड्डी लब्भदे, तथाणुवल्लदीदो । तथा पंचविहा हाणी वि तत्थ णत्थि, सुट्ठु वि मंदविसोहीए कंडयघादं करेमाणसम्माइडिस्सि अणंतगुणहाणिं मोत्तण सेसपंचहाणीणमसंभवादो । तदो मिच्छाइडिस्सेव णिरुद्धछवड्डी-पंचहाणीणं सामित्तमिदि सुणिण्णीदत्थमेदं सुत्तं । अणणदरग्गहणमेत्थोगाहणादिविसेसपडि-सेहट्टं दट्टव्वं ।

❀ अणंतगुणहाणी अवट्टिदसंकमो कस्स ?

§ ५३७. सुगममेदं सुत्तं, पण्हमेत्तवावारादो ।

* अब स्वामित्वको कहते हैं ।

§ ५३४. समुत्कीर्तनाके बाद स्वामित्व अधिकृत है, इसलिए अधिकारकी सम्हाल करनेके लिए यह सूत्र आया है ।

* मिथ्यात्वको छह प्रकारकी वृद्धियों और पाँच प्रकारकी हानियोंका स्वामी कौन है ?

§ ५३५. क्या मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि या दोनों ही प्रकृतमे स्वामी हैं इस प्रकार पृच्छा की गई है । यहाँ पर पाँच प्रकारकी हानि ऐसा कहने पर अनन्तगुणहानिको छोड़कर शेष पाँच हानियोंका संग्रह करना चाहिए ।

* अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उनका स्वामी है ।

§ ५३६. सम्यग्दृष्टिके तो मिथ्यात्वकी अनुभागविषयक छह वृद्धियोंकी सम्भावना है नहीं, क्योंकि वहाँ पर मिथ्यात्वका बन्ध नहीं होता । और बन्धके बिना अनुभागसंक्रमकी वृद्धि नहीं उपलब्ध होती, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता । उसी प्रकार पाँच हानिर्वा भी वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि अत्यन्त मन्द विशुद्धिसे भी काण्डकवात करनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके अनन्तगुणहानिको छोड़कर शेष पाँच हानियों असम्भव हैं । इसलिए मिथ्यादृष्टिके ही विवक्षित छह वृद्धियों और पाँच हानियोंका स्वामित्व है इस प्रकार इस सूत्रका अर्थ सुनिर्णीत है । यहाँ पर सूत्रमे जो 'अन्यतर' पदका ग्रहण किया है सो वह अवगाहना आदि विशेषके निषेधके लिए जानना चाहिए ।

* अनन्तगुणहानि और अत्रस्थितसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ५३७. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रश्नमात्रमे इसका व्यापार हुआ है ।

❀ अरण्यरस्स ।

§ ५३८. मिच्छाइड्ढि-सम्माइड्ढीणमण्णदरस्स तदुभयविसयसामित्तसंवधो त्ति भणिदं होइ ।

❀ सम्मत्त-सम्मासिच्छत्ताणअणंतगुणहाणिसंकमो कस्स ?

५३९. सुगममेदं सामित्तसंवंधविसेसावेक्खं पुच्छासुत्तं ।

❀ दंसणमोहणीयं खवेंतस्स ।

५४०. कुदो ? दंसणमोहक्खवणादो अण्णत्थेदेसिमण्णभागघादासंभवादो तदो अण्ण-विसयपरिहारेणेत्येव सामित्तमिदि सम्ममवहारिदं ।

❀ अवट्ठाणसंकमो कस्स ?

§ ५४१. सुगमं ।

❀ अण्णदरस्स ।

§ ५४२. कुदो ? मिच्छाइड्ढि-सम्माइड्ढीणं तदुवलद्वीए विरोहाभावादो ।

❀ अवत्तव्वसंकमो कस्स ?

§ ५४३. सुगमं ।

❀ विदियसमयउवसमसम्माइड्ढिस्स ।

* अन्यतर जीव उनका स्वामी है ।

§ ५३८. मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि इनमेंसे अन्यतरके उन दोनोंके स्वामित्वका सम्बन्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अनन्तगुणहानिसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ५३९. स्वामित्वके सम्बन्धविशेषकी अपेक्षा करनेवाला यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव उसका स्वामी है ।

§ ५४०. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके सिवा अन्यत्र इन प्रकृतियोंका अनुभागघात होना असम्भव है, इसलिए अन्य विषयके परिहार द्वारा यहीं पर स्वामित्व है इस प्रकार सम्यक्के प्रकारसे अवधारण किया ।

* उनके अवस्थानसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ५४१. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्यतर जीव उसका स्वामी है ।

§ ५४२. क्योंकि मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टिके उसकी उपलब्धि होनेमें विरोध नहीं आता ।

* उनके अवत्तव्वसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ५४३. यह सूत्र सुगम है ।

* द्वितीय, समयवर्ती उपशमसम्यग्दृष्टि जीव उसका स्वामी है ।

§ ५४४. कुदो ? तत्थासंकमादो संकभप्पवुत्तीए परिप्फुडमुवलंभादो ।

❀ सेसाणं कम्माणं मिच्छत्तभंगो ।

§ ५४५. कसाय-णोकसायाणमिह सेसभावेण णिदेसो । तेसिं पयदसामित्तविहाणे मिच्छत्तभंगो कायव्वो, ततो एदेसिं सामित्तगयविसेसाभावादो त्ति सुत्तथो । णवरि अवत्तव्व-संकमसामित्तसंभवगओ तेसिं विसेसलेसो अत्थि त्ति तण्णिहेसकरणट्टमुत्तरं सुत्तजुगलमाह—

❀ एवरि अणंताणुबंधीणमवत्तव्वं विसंजोएदूण पुणो मिच्छत्तं गंतूण आवलियादीदस्स ।

❀ सेसाणं कम्माणमवत्तव्वमुवसामेदूण परिवदमाणस्स ।

§ ५४६. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुवोहाणि । एवमोघेण सामित्ताणुगमो कओ ।

§ ५४७. संपहि सुत्तपरूविदत्थविसयणिणयकरणट्टमेत्थुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—सामित्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण विहत्तिभंगो । णवरि वारसक०—णवणोक० अवत्त० भुज०संकमावत्तव्वभंगो । एवं मणुसतिए । सेससव्व-मग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ५४८. संपहि सामित्तसुत्तेण सूचिदकालादिअणिओगद्वाराणं विहासणट्ट-

§ ५४४. क्योंकि वहाँ असंक्रमसे संक्रमरूप प्रवृत्ति स्पष्टरूपसे पाई जाती है ।

* शेष कर्मोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ५४५. यहाँ पर 'शेष' पद द्वारा कषायों और नोकषायोंका निर्देश किया है । उनके प्रकृत स्वामित्वका विधान करते समय मिथ्यात्वके समान भङ्ग करना चाहिए, क्योंकि उससे इनकी स्वामित्वगत कोई विशेषता नहीं है यह इस सूत्रका अर्थ है । मात्र अवक्तव्यसंक्रमके सम्बन्धसे स्वामित्वसम्बन्धी उनमें थोड़ीसी विशेषता है, इसलिए उसका निर्देश करनेके लिए आगेके दो सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसे विसंयोजनाके बाद पुनः मिथ्यात्वमें जाकर एक आवलि काल हुआ है वह अनन्तानुबन्धियोंके अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी है ।

* तथा उपशामनाके बाद गिनेवाला जीव शेष कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी है ।

§ ५४६. ये दोनों ही सूत्र सुबोध हैं ।

इस प्रकार ओघसे स्वामित्वका अनुगम किया ।

§ ५४७ अब चूर्णिसूत्रद्वारा कहे गये अर्थका निर्णय करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाको बतलाते हैं । यथा—स्वामित्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रमका भङ्ग भुजगारसंक्रमके अवक्तव्यके भङ्गके समान है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । शेष सब मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ५४८. अब स्वामित्वसम्बन्धी सूत्रके द्वारा सूचित हुए कालादि अनुयोगद्वारोंका विशेष

मेत्युच्चारणाणुगमं वत्तइस्सामो—कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो । ओघेण विहत्तिभंगो ।
णपरि वारसक०—णवणोक० अवत्त० जहण्णुक० एयसमओ । मणुसतिए विहत्तिभंगो ।
णपरि वारसक०—गणणोक० अवत्त० ओघं । सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो ।

§ ५४६. अंतराणु० दुविहो णि० । ओघेण विहत्तिभंगो । णपरि वारसक०—णव-
णोक० अवत्त० भुज०संक्रमअवत्तव्यभंगो । मणुसतिए भुज०संक्रामगभंगो । सेससव्वमग्गणासु
विहत्तिभंगो ।

§ ५५०. णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागो परिमाणं खेत्तं पोसणं कालो अंतरं
भावो ति एदेसिमणिओगद्वाराणं विहत्तिभंगो । णपरि सव्वत्थ वारसक०—णवणोक० अवत्त०
भुज०संक्रामगभंगो । एवमेदेसिं सुगमाणमुल्लंघणं कादूणप्पावहुअपरुवणहुमुवरिमं
सुत्तपवंधमाह—

❀ अप्पावहुअं ।

§ ५५१. अहियारसंभालणसुत्तमेदं सुगमं ।

❀ सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अणंतभागहाणिसंक्रामय ।

व्याख्यान करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका अनुगम करते हैं । कालानुगममे निर्देश दो प्रकारका है—
ओघ और आदेश । ओघसे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कपाय
और नौ नोकपायोंके अवक्तव्यसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । मनुष्यत्रिकमें
अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कपाय और नौ नोकपायोंके
अवक्तव्यसंक्रमका भङ्ग ओघके समान है । शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—अनुभागविभक्तिमे वारह कपाय और नौ नोकपायोंका अवक्तव्यपद सम्भव
नहीं है जो यहाँ ओघसे वन जाता है । इसलिए यहाँ ओघप्ररूपणांमे और मनुष्यत्रिकमे इस पदका
काल अलगमे कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ५५६. अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि ओघसे वारह कपाय और नौ नोकपायोंके
अवक्तव्यसंक्रमका भङ्ग भुजगारसंक्रमके अवक्तव्यपदके समान है । मनुष्यत्रिकमें भुजगार
संक्रामकके समान भङ्ग है । शेष मार्गणाओंमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है ।

§ ५५०. नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर
और भाव इन अनुयोगद्वारोंका भङ्ग अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि सर्वत्र
वारह कपाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्यसंक्रमका भङ्ग भुजगारसंक्रामकके अवक्तव्यपदके समान
है । इस प्रकार अत्यन्त सुगम इन अनुयोगद्वारोंका उल्लंघन करके अल्पवहत्वका कथन करनेके लिए
प्रायोंके मृत्रप्रवन्धको वदत है—

* अत्र अल्पवहत्त्वस्यो कथने हैं ।

§ ५५१ अत्रिकारकी मन्हाल करनेवाला यह मृत्र सुगम है ।

* मिथ्यान्वकी अनन्तभागदानिके संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ५५२. कुदो ? एगकंडयविसयत्तादो ।

❀ असंखेज्जभागहाणिसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५५३. चरिसुव्वंक्रहाणादो प्पहुडि अणंतभागहाणिअद्धाणमेगकंडयमेत्त चेव होदि । एदेसिं पुण तारिसाणि अद्धाणाणि रूवाहियकंडयमेत्ताणि हवंति, तदो तव्विसयादो पयद-विसयो असंखेज्जगुणो ति सिद्धमेदेसिं ततो असंखेज्जगुणत्तं ।

❀ संखेज्जभागहाणिसंकामया संखेज्जगुणा ।

§ ५५४. तं जहा—रूवाहियअणंतभागहाणि—असंखेज्जभागहाणिअद्धाणपमाणेण एगं संखेज्जभागहाणिअद्धाणं कादूणेवंविहाणि दोण्णि तिण्णि चत्तारि ति गणिज्जमाणे उकस्ससंखेज्जयस्स सादिरेयद्धमेत्ताणि अद्धाणाणि वेत्तण संखेज्जभागहाणीए विसओ होइ, तेत्तियमेत्तमद्धाणं गंतूग तत्थ दुगुणहाणीए समुप्पत्तिदंसणादो । तदो विसयाणुसारेणुकस्स-संखेज्जयस्स सादिरेयद्धमेत्तो गुणगारो तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्तो वा ।

❀ संखेज्जगुणहाणिसंकामया संखेज्जगुणा ।

§ ५५५. तं कथं ? संखेज्जभागहाणिसंकामएहिं लद्धद्धाणपमाणेणोयमद्धाणं कादूण तारिसाणि जहण्णपरित्तासंखेज्जयस्स रूवूणद्धच्छेदणयमेत्ताणि जाव गच्छंति ताव संखेज्जगुण-हाणिविसओ चेव, ततो प्पहुडि असंखेज्जगुणहाणिसमुप्पत्तीदो । तदो एत्थ वि विसयाणुसारेण रूवूणजहण्णपरित्तासंखेज्जच्छेदणयमेत्तो तप्पाओग्गसंखेज्जरूवमेत्तो वा गुणगारो ।

§ ५५२. क्योंकि ये एक काण्डकको विषय करते हैं ।

❀ उनसे असंख्यातभागहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५५३. क्योंकि अन्तिम ऊर्वकस्थानसे लेकर अनन्तभागहानिका अध्वान एक काण्डक-प्रमाण ही होता है । परन्तु इनके वैसे अध्वान एक अधिक काण्डकप्रमाण होते हैं, इसलिए उसके विषयसे प्रकृत विषय असंख्यातगुणा हैं । इस कारण इनका उनसे असंख्यातगुणत्व सिद्ध है ।

❀ उनसे संख्यातभागहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५५४. यथा—एक अधिक अनन्तभागहानि और असंख्यातभागहानिके अध्वानप्रमाणसे एक संख्यातभागहानिअध्वानको करके इस प्रकारके दो, तीन, चार इत्यादि क्रमसे गिनने पर उत्कृष्ट संख्यातके साधिक अर्धमात्र अध्वानोको ग्रहण कर संख्यातभागहानिका विषय होता है, क्योंकि तत्प्रमाण अध्वान जाकर वहाँ पर द्विगुणहानिकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए विषयके अनुसार उत्कृष्ट संख्यातका साधिक अर्धभागप्रमाण अथवा तत्प्रायोग्य संख्यात अंकप्रमाण गुणकार होता है ।

❀ उनसे संख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५५५. क्योंकि संख्यातभागहानिके संक्रामकोंके द्वारा प्राप्त हुए अध्वानके प्रमाणसे एक अध्वानको करके वैसे अध्वान जब तक जवन्य परीतासंख्यातके एक कम अर्धच्छेदप्रमाण हो जाते हैं तब तक संख्यातगुणहानिका ही विषय रहता है, क्योंकि वहाँसे लेकर असंख्यातगुणहानिकी उत्पत्ति होती है । इसलिए यहाँ पर भी विषयके अनुसार एक कम जवन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेद प्रमाण अथवा तत्प्रायोग्य संख्यात अङ्कप्रमाण गुणकार होता है ।

❀ असंखेज्जगुणहाणिसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५५६. पुव्वाणुपुव्वीए चरिमसंखेज्जभागवड्ढिकंडयस्सासंखेज्जदिभागे चैव संखेज्ज-
भागहाणि-संखेज्जगुणहाणीओ समप्यंति । तेण कारणेण चरिमसंखेज्जभागवड्ढिकंडयस्स सेसा
असंखेज्जा भागा संखेज्जा संखेज्जगुणवड्ढिसयलद्वाणं च असंखेज्जगुणहाणिसंकामयाणं विसयो
होइ । तदो तत्थ विसयाणुसारेण अंगुलस्सासंखेज्जभागमेत्तो गुणगारो तप्पाओग्गासंखेज्ज-
रुवमेत्तो वा ।

❀ अणंतभागवड्ढिसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५५७. तं कथं ? पुव्वुत्तासेसहाणिसंकामयरासी एयसमयसंचिदो, खंडयघादाणं
तस्समयं भोत्तणण्णत्थ हाणिसंकमसंभवादो । एसो वुण रासी आवलियाए असंखेज्जभाग-
मेत्तकालसंचिदो, पंचण्हं वड्ढीणमावलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तकालोवएसादो । तदो कंडय-
मेत्तविसयत्ते वि संचयकालपाहम्मणासंखेज्जभागमेत्तमेदेसिं सिद्धं । गुणगारपमाणमेत्थासंखेज्जा
लोगा ति वत्तव्वं । कुदो एवं चे ? हाणिपरिणामाणं सुट्टु दुल्लहत्तादो, वड्ढिपरिणामाणमेव
पायेण संभवादो ।

❀ असंखेज्जभागवड्ढिसंकामया असंखेज्जगुणा ।

* उनसे असंख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५५६. पूर्वानुपूर्वोंके अनुसार अन्तिम संख्यातभागवृद्धि काण्डकके असंख्यातवें भागमे ही
संख्यातभागहानि और संख्यातगुणहानि समाप्त होती हैं । इस कारणसे अन्तिम संख्यातभाग-
वृद्धिकाडक शेष असंख्यात बहुभाग और संख्यातगुणवृद्धिका सकल अध्वान असंख्यातगुणहानिके
संकामकोका विषय हैं । इसलिए यहाँ पर विषयके अनुसार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण अथवा
तत्प्रायोग्य असंख्यात अङ्कप्रमाण गुणकार हैं ।

* उनसे अनन्तभागवृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५५७. क्योंकि पूर्वोक्त समस्त हानियोंकी संक्रामकराशि एक समयमें सञ्चित है, क्योंकि
काण्डकघातोंके उस समयको छोडकर अन्यत्र हानिसंक्रम सम्भव नहीं है । परन्तु यह राशि आवलिके
असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सञ्चित हुई है, क्योंकि पाँच वृद्धियोंके आवलिके असंख्यातवें
भागप्रमाण कालका उपदेश पाया जाता है । इसलिए इसका विषय काण्डकमात्र रहते हुए भी सञ्चय-
कालकी प्रमुखतासे पूर्वोक्त हानियोंके संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं यह सिद्ध होता है ।
यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है ऐसा कहना चाहिए ।

शंका—एमा क्यों है ?

समाधान—क्योंकि हानिके कारणभूत परिणाम अत्यन्त दुर्लभ हैं । प्राय करके वृद्धिके
कारणभूत परिणाम ही सम्भव हैं ।

* उनसे असंख्यातभागवृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

५५८. दोणहमावलियासंखेजभागमेत्तकालपडिवद्धत्ते समाणे संते वि पुव्विल्लकालादो एदस्स कालो असंखेजगुणो, पुव्विल्लकालस्स चैव असंखेजगुणत्तं । कधमेसो कालगओ विसेसो परिच्छिण्णो ? महाबंधपरूविदकालप्पावहुआदो । अहवा विसयं पेक्खिअणोदस्सासंखेजगुणत्तं समत्थेयव्वं ।

❀ संखेजभागवड्ढिसंकामया संखेजगुणा ।

§ ५५९. को गुणगारो ? उक्कस्ससंखेजयस्स अद्धं सादिरेयं, विसयाणुसारेण तदुवलंभादो, तप्पाओग्गसंखेजरूवमेत्तोवक्कमणसंक्रमणगारेण तदुवलंभादो ?

❀ संखेजगुणवड्ढिसंकामया संखेजगुणा ।

§ ५६०. एत्थ वि विसयं कालं च पहाणीकादूण पुव्वं व गुणगारसमत्थणा कायव्वा ।

❀ असंखेजगुणवड्ढिसंकामया असंखेजगुणा ।

§ ५६१. को गुणगारो ? अंगुलस्स असंखेजदिभागो । तप्पाओग्गसंखेजरूवमेत्तो वा विसय-कालाणमणुसरणे जहाकमं तदुवलद्वीदो ।

❀ अणंतगुणहाणिसंकामया असंखेजगुणा ।

§ ५५८. यद्यपि दोनों वृद्धियोंका काल आवलिके असंख्यातवें भागरूपसे समान है तो भी पूर्वोक्त वृद्धिके कालसे इसका काल असंख्यातगुणा है, इसलिए पूर्वोक्त वृद्धिके संक्रामकोंसे इसके संक्रामक असंख्यातगुणे सिद्ध होते हैं ।

शंका—यह कालगत विशेषता किस प्रमाणसे जानी जाती है ?

समाधान—महाबन्धमें कहे गये कालविषयक अल्पबहुत्वसे जानी जाती है । अथवा विषयकी अपेक्षा इसके असंख्यातगुणे होनेका समर्थन करना चाहिए ।

* उनसे संख्यातभागवृद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५५९. गुणकार क्या है ? उत्कृष्ट संख्यातका साधिक अर्धभागप्रमाण गुणकार है, क्योंकि विषयके अनुसार उसकी उपलब्धि होती है तथा तत्प्रायोग्य संख्यात अङ्कप्रमाण उपक्रमण संक्रमण-गुणकारके द्वारा उसकी उपलब्धि होती है ।

* उनसे संख्यातगुणवृद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५६०. यहाँ पर भी विषय और कालको प्रधान करके पहलेके समान गुणकारका समर्थन करना चाहिए ।

* उनसे असंख्यातगुणवृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५६१. गुणकार क्या है ? अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण या तत्प्रायोग्य संख्यात अङ्क-प्रमाण गुणकार है, क्योंकि विषय और कालके अनुसार यथाक्रमसे उसकी उपलब्धि होती है ।

* उनसे अनन्तगुणहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५६२. किं कारणं ? असंखेजगुणवृद्धिसंक्रामयरासी आवलि० असंखे०भागमेत्त-
कालसंचिदो होइ । किंतु थोवविसयो, एयछट्टाणवमंतरे चैय तव्विसयणिवंधदंसणादो । अणंत-
गुणहाणिसंक्रामयरासी पुण जइ वि एयसमयसंचिदो तो वि असंखेजलोगमेत्तछट्टाणपडिवद्धो ।
तदो सिद्धमेदेसिं ततो असंखेजगुणत्तं ।

❀ अणंतगुणवृद्धिसंक्रामया असंखेजगुणा ।

§ ५६३. को गुणगारो ? अंतोमुहुत्तं । कुदो ? दोण्हमेदेसिमभिण्णविसयत्ते वि
अणंतगुणवृद्धिसंक्रामयकालस्स अंतोमुहुत्तपमाणोवएसे सुत्तवलेण तव्विण्णयादो ।

❀ अवट्टिदसंक्रामया संखेजगुणा ।

§ ५६४. कुदो ? अणंतगुणवृद्धिकालादो अवट्टिदसंक्रमकालस्स संखेजगुणत्तावलंबणादो ।

❀ सम्मत्त-सम्माभिच्छत्ताणं सव्वथोवा अणंतगुणहाणिसंक्रामया ।

§ ५६५. कुदो ? दंसणमोहक्खवयजीवाणं चैय तव्भावेण परिणामोवलंबादो ।

❀ अवत्तव्वसंक्रामया असंखेजगुणा ।

§ ५६६. कुदो ? पलिदोवमासंखेजभागमेत्तजीवाणं तव्भावेण परिणदाणमुवलंबादो ।

❀ अवट्टिदसंक्रामया असंखेजगुणा ।

§ ५६२. क्योंकि असंख्यातगुणवृद्धिका संक्रमण करनेवाली राशि आवलिके असंख्यातवें
भागप्रमाण कालके द्वारा संचित होकर भी स्तोक विषयवाली होती है, क्योंकि एक षट्स्थानके भीतर
ही उसके विषयका सम्बन्ध देखा जाता है। परन्तु अनन्तगुणहानिका संक्रमण करनेवाली राशि यद्यपि
एक समयमे संचित हुई है तो भी असंख्यात लोकप्रमाण षट्स्थानप्रतिबद्ध है, इसलिए उनसे ये
असंख्यातगुणे हैं यह सिद्ध हुआ।

* उनसे अनन्तगुणवृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं।

§ ५६३. गुणकार क्या है ? अन्तर्मुहूर्त है, क्योंकि यद्यपि इन दोनोंका विषय एक है तो भी
अनन्तगुणवृद्धिके संक्रामकोंका काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है इस उपदेशका निर्णय सूत्रके वलसे होता है।

* उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं।

§ ५६४. क्योंकि अनन्तगुणवृद्धिके कालसे अवस्थितसंक्रमका काल संख्यातगुणा पाया
जाता है।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी अनन्तगुणहानिके संक्रामक जीव सबसे
स्तोक हैं।

§ ५६५. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षण करणवाले जीवोंका ही उस रूपसे परिणमन उपलब्ध
होया है।

* उनसे अवक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं।

§ ५६६. क्योंकि पत्यके अमंख्यातवें भागप्रमाण जीव उस रूपसे परिणमन करते हुए पाये
जाते हैं।

* उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं।

§ ५६७. कुदो ? तव्वदिरित्तासेससम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मियजीवाणमवड्ढिद-
संकामयभावेणावट्ठाणदंसणादो । एत्थ गुणगारपमाणं अवलि० असंखे० भागमेत्तो घेत्तव्वो ।

❖ सेसाणं कम्माणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया ।

§ ५६८. कुदो ? अणंताणुबंधीणं विसंजोयणापुव्वसंजोगे वट्टमाणपलिदोवमासंखेज्ज-
भागमेत्तजीवाणं सेसकसाय-णोकसायाणं पि सव्वोवसामणापडिवादपढमसमयमहिड्ढिदसंखेज्जोव-
सामयजीवाणमवत्तव्वभावेण परिणदाणमुवलद्वीदो ।

❖ अणंतभागहाणिसंकामया अणंतगुणा ।

§ ५६९. कुदो ? सव्वजीवाणमसंखेज्जभागपमाणत्तादो ।

❖ सेसाणं संकामया मिच्छत्त भंगो ।

§ ५७०. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

एवमोघेणप्पावहुअं समत्तं ।

§ ५७१. आदेसेण मणुसतिए विहत्तिभंगो । णवरि बारसक०-णवणोक० अणंताणु०
भंगो । सेससव्वमग्गणासु विहत्तिभंगो । एवं जाव अणाहारि ति ।

एवं वड्ढिसंकमो समत्तो ।

§ ५६७. क्योंकि पूर्वोक्त दो पदवाले जीवोंके सिवा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके सत्कर्म-
वाले शेष सब जीव अवस्थितसंक्रम करते हुए पाये जाते हैं । यहाँ पर गुणकारका प्रमाण आवलिके
असंख्यातवें भागप्रमाण लेना चाहिए ।

❖ शेष कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ५६८. क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंके विसंयोजनापूर्वक संयोगमे विद्यमान हुए पल्यके
असंख्यातवें भागप्रमाण जीव तथा शेष कषायों और नोकषायोके भी सर्वोपशमनासे गिरते हुए
संक्रमके प्रथम समयमे स्थित हुए संख्यात उपशामक जीव अवक्तव्यभावसे परिणमन करते हुए
उपलब्ध होते हैं ।

❖ उनसे अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ ५६९. क्योंकि ये सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं ।

❖ शेष पदोंके संक्रामक जीवोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ५७०. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

इस प्रकार ओघसे अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

§ ५७१. आदेशसे मनुष्यत्रिकमे अनुभागविभक्तिके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि
बारह कषाय और नौ नोकषायोंका भङ्ग अनन्तानुबन्धीके समान है । शेष सब मार्गणाओंमे अनुभाग
विभक्तिके समान भङ्ग है ।

इस प्रकार वृद्धिसंक्रम समाप्त हुआ ।

❀ एत्तो द्वाणाणि कायव्वाणि ।

§ ५७२. सण्णादिचउवीसाणिओगद्वाराणं सभुजगार—पदणिकखेव-वड्डीणं समत्ति-समणंतरमेत्तो संकमद्वाणपरूवणा कायव्वा त्ति पइण्णावकमेदं । किमद्दमेसा द्वाणपरूवणा आगया? वड्डीए परूविदछवड्ढि-हाणीणभणंतरवियप्पपदुप्पायणद्दुमागया ? ण, वड्ढिपरूवणाए चेव गयत्थत्तादो णिरत्थयमिदं, तत्थापरूविदबंधसमुत्पत्तिय-हदसमुत्पत्तिय-हदहदसमुत्पत्तियभेदाणं पादेकमसंखेजलोगमेत्तच्छुवाणसरूवाणमिह परूवणोवलंभादो ।

❀ जहा संतकम्मद्वाणाणि तथा संकमद्वाणाणि ।

§ ५७३. जहा संतकम्मद्वाणाणि बंधसमुत्पत्तियादिभेयभिण्णाणि अणुभागविहत्तीए सवित्थरं परूविदाणि तथा संकमद्वाणाणि वि एत्थाणुगंतव्वाणि, दव्वट्टियणयावलंबणेण तत्तो एदेसिं विसेसाभावादो त्ति भणिदं होदि ।

❀ तथा वि परूवणा कायव्वा ।

§ ५७४. तथापि पर्यायार्थिकनयानुग्रहार्थं तेषामिह पुनः प्ररूपणा कर्तव्यैवेत्यर्थः । संपदि तेषु परूविज्जमाणेषु तत्थ संकमद्वाणपरूवणादाए इमाणि चत्तारि अणियोगद्वाराणि भवंति—समुक्त्तणा परूवणा पमाणमप्पावहुअं च । तत्थ समुक्त्तणा—सव्वेसिं कम्माणमत्थि

* अब इससे आगे अनुभागसंक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए ।

§ ५७२. भुजगार, पदनिक्षेप और वृद्धिके साथ संज्ञा आदि चौबीस अनुयोगद्वारोंका कथन समाप्त होनेके बाद आगे संक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र है ।

शंका—यह स्थानप्ररूपणा किसलिए आई है ?

समाधान—वृद्धिके द्वारा कही गई छह वृद्धियों और छह हाकियोंके अवान्तर भेदोंका कथन करनेके लिए यह प्ररूपणा आई है । वृद्धिप्ररूपणाके द्वारा काम चल जाता है, इसलिए इसका कथन करना निरर्थक न ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर नहीं कहे गये अलग अलग प्रत्येक अमनस्यात लोकप्रमाण पदस्थानस्वरूप बन्धसमुत्पत्तिक, हतसमुत्पत्तिक और हतहतसमुत्पत्तिकरूप भेदोंका वहाँ पर कथन पाया जाता है ।

* जिस प्रकार सत्कर्मस्थान हैं उसी प्रकार संक्रमस्थान हैं ।

§ ५७३. जिस प्रकार बन्धसमुत्पत्तिक आदिके भेदसे अनेक प्रकारके सत्कर्मस्थान अनुभाग-विभक्तिमें विस्तारके साथ कहे हैं उसी प्रकार वहाँ पर संक्रमस्थान भी जानने चाहिए, क्योंकि द्रव्याधिकनयकी अपेक्षा उनसे इनमें विशेष भेद नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* तो भी उनकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

§ ५७४. तथापि पर्यायार्थिकनयका अनुग्रह करनेके लिए उनकी वहाँ पर पुनः प्ररूपणा करनी ही चाहिए यह उक्त तात्पर्य है । अब उनका कथन करने पर उनसे संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणामे ये चार अनुयोग द्वार होते हैं—समुत्कीर्तना, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व । उनसे समुत्कीर्तना—

बंधममुपत्तियसंकमट्टाणाणि हदसमुपत्तियसंकमट्टाणाणि हदहदसमुपत्तियसंकमट्टाणाणि च ।
णवरि सम्मत-सम्मामिच्छताणं णत्थि बंधसमुपत्तियसंकमट्टाणाणि । एवं सुगमत्तादो
समुक्कित्तणामुल्लंथिऊण परूवणं पमाणं च एकदो भण्णमाणो सुत्तपबंधमुत्तरमाहवेदि—

❀ उक्कस्सए अणुभागबंधट्टाणे एगं संतकम्मं तमेगं संकमट्टाणं ।

§ ५७५. उक्कस्सए अणुभागबंधट्टाणे एयं संतकम्ममेगो संतकम्मवियप्पो त्ति वुत्तं
होइ, बंधाणंतरसमए बंधट्टाणस्सेव संतकम्मववएससिद्धीदो । तमेव संकमट्टाणं पि,
बंधावलियवदिकमाणंतरं तस्सेव संकमट्टाणभावेण परिणयत्तादो । तदो पज्जवसाणबंधट्टाणस्स
संतकम्मट्टाणत्ताणुवादमुहेण संकमट्टाणभावविहाणमेदेण सुत्तेण कयं ति दडुच्चं ।

❀ दुचरिमे अणुभागबंधट्टाणे एवमेव ।

§ ५७६. दुचरिमाणुभागबंधट्टाणं णाम चरिमाणुभागबंधट्टाणस्स अणंतरहेट्टिम-
बंधट्टाणं तत्थ एव च संतकम्मट्टाण-संकमट्टाणभावपरूवणा कायव्वा, अणंतरपरूविदण्णाएण
तदुभयववएससिद्धीए पडिवंधाभावादो । एवं तिचरिमादिवंधट्टाणेषु वि तदुभयभावसंभवो
णेदव्वो त्ति परूवणदुत्तरसुत्तावयारो—

❀ एवं ताव जाव पच्छाणुपुव्वीए पढममाणंतगुणहीणबंधट्टाण-
मपत्तो त्ति ।

सब कर्मोंके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान, हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान और हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान
होते हैं । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान ५७५
होते । इस प्रकार सुगम होनेसे समुत्कीर्तनाको उल्लंघन कर प्ररूपणा और प्रमाणका एक साथ कथन
करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं—

* उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थानमें एक सत्कर्म होता है । वह एक संक्रमस्थान है ।

§ ५७५. उत्कृष्ट अनुभागबन्धस्थानमें एक सत्कर्म अर्थात् एक सत्कर्मविकल्प होता है यह
उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि बन्धके अनन्तर समयमें बन्धस्थानको ही सत्कर्म संज्ञाकी सिद्धि
है । तथा वही संक्रमस्थान भी है, क्योंकि बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद वही संक्रमस्थानरूपसे
परिणत हो जाता है । इसलिए इस सूत्रके द्वारा अन्तिम बन्धस्थानका सत्कर्मस्थानके अनुवादकी
मुख्यतासे संक्रमस्थानभावका विधान किया ऐसा जानना चाहिए ।

* द्विचरम अनुभागबन्धस्थानमें इसी प्रकार जानना चाहिए ।

§ ५७६. अन्तिम अनुभागबन्धस्थानके अनन्तर अधस्तन बन्धस्थानको द्विचरम अनुभाग-
बन्धस्थान कहते हैं । वहाँ पर इसीप्रकार सत्कर्मस्थान और संक्रमस्थानभावका कथन करना चाहिए,
क्योंकि अनन्तर कहे गये न्यायके अनुसार उक्त दोनों संज्ञाओंकी सिद्धिमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।
इसी प्रकार त्रिचरम आदि बन्धस्थानोंमें भी उक्त दोनों भावोंका सम्भव जान लेना चाहिए इस
प्रकारका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार किया है—

* इस प्रकार पश्चादानुपूर्वीसे जब तक प्रथम अनन्तगुणहीन बन्धस्थान नहीं प्राप्त
होता तब तक जानना चाहिए ।

§ ५७७. एवमणेण विहाणेण पच्छाणुपुव्वीए तावणेद्वं जाव पढममणंतगुणहीण-
बंधाणमपावेरुग तत्तो उवरिमड्ढंकाणं पत्तो त्ति । कुदो ? तेसिं सव्वेसिं बंधसमुपत्तिय-
संतकम्मडाणत्तसिद्धीए पडिसेहाभावादो । तत्तो हेट्ठा वि एसा चेव परूवणा होइ, किंतु
एत्थंतरे को वि विसेससंभवो अत्थि त्ति पदुप्पाएमाणो सुत्तपबंधमुत्तरमाह—

❀ पुव्व्वाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे जं चरिममणंतगुणं बंधायां
तस्स हेट्ठा अणंतरमणंतगुणेहीणभेदम्मि अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि
घादट्ठाणाणि ।

§ ५७८. एदस्स सुत्तस्स अत्थविहासणं कस्सामो । तं जहा—पुव्व्वाणुपुव्वी णाम
सुद्धमहदसमुपत्तियसव्वजहणसंतकम्मडाणप्यहुडि छव्वड्डीए अवट्ठिदाणमणुभागबंधाणाणमादीदो
परिवाडीए गणणा । ताए गणिज्जमाणे जं चरिममणंतगुणबंधाणं पज्जवसाणट्ठाणादो हेट्ठा
स्वूणछट्ठाणमेत्तमोसरिदूणवट्ठिदं तस्स हेट्ठा अणंतरमणंतगुणहीणबंधाणमपावेदूण एदम्मि
अंतरे घादट्ठाणाणि समुप्यज्जंति । केत्तियमेत्ताणि ताणि त्ति बुत्ते असंखेज्जलोगमेत्ताणि त्ति तेसिं
पमागणिदोसो कदो । कुदो ? रूवूणछट्ठाणपमाणउवरिमबंधाणोसु पादेकमसंखेज्जलोगमेत्ता-
णुभागघादहेदुविसोहिपरिणामेहिं घादिज्जमाणोसु रूवूणछट्ठाणविकखंभपरिणामट्ठाणायामहद-
समुपत्तियट्ठाणाणं हदहदसमुपत्तिट्ठाणसहगयाणमसंखेज्जलोगमेत्ताणमुप्यत्तीए विरोहाभावादो ।

§ ५७७. 'एव' अर्थात् इस विधिसे पश्चादानुपूर्वीके अनुसार प्रथम अनन्त गुणहीन बन्ध-
स्थानको नहीं प्राप्त करके उससे आगे अष्टाकस्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए. क्योंकि उन
मन्त्रके बन्धममुत्पत्तिकसत्कर्मस्थानत्वकी सिद्धिमें कोई प्रतिषेध नहीं है। इससे नीचे भी यही प्ररूपणा
है। किन्तु यहाँ पर अन्तरालमें कुछ विशेष सम्भव है, इसलिए उसका कथन करते हुए आगेके सूत्र-
प्रबन्धको कहते हैं—

* पूर्वानुपूर्वीसे गणना करने पर जो अन्तिम अनन्तगुणित बन्धस्थान है और
उसके नीचे अनन्तरवर्ती जो अनन्तगुणहीन बन्धस्थान है, इन दोनोंके मध्यमें असंख्यात
लोकप्रमाण घातस्थान होते हैं ।

§ ५७८. इस सूत्रके अर्थका व्याख्यान करते हैं। यथा—सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी सबसे
जयन्त्य हतममुत्पत्तिक सत्कर्मस्थानसे लेकर छह वृद्धिरूपसे अवस्थित अनुभागबन्धस्थानोंकी प्रारम्भसे
परिपाटीक्रमसे गणना करना पूर्वानुपूर्वी कहलाती है। उसके अनुसार गणना करने पर जो अन्तिम
अनन्तगुणित बन्धस्थान अन्तिम स्थानसे नीचे एक कम छह स्थानमात्र उतरकर स्थित है, उसके
नीचे अनन्तर अनन्तगुणहीन बन्धस्थानको नहीं प्राप्त करके इस अन्तरालमें घातस्थान उत्पन्न होते
हैं। वे कितने होते हैं ऐसा पृच्छने पर असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं इस प्रकार उनके प्रमाणका निर्देश
क्रिया, क्योंकि एक कम पदस्थानप्रमाण उपरिम बन्धस्थानोंका अलग-अलग असंख्यात लोकप्रमाण
अनुभागघातके हेतुभूत परिणामोंके द्वारा घात करने पर हतहतसमुत्पत्तिकस्थानोंके साथ प्राप्त हुए
असंख्यात लोकप्रमाण एक कम पदस्थानप्रमाण विष्कम्भवाले तथा परिणामस्थानप्रमाण आयामवाले

एदेसिं च परूवणा अणुभागविहत्तीए सवित्थरमणुगया त्ति णेह पुणो परूविज्जदे । संपहि एदेसिमसंखेज्जलोगमेत्तघादङ्गाणाणं बंधसमुत्पत्तियभावपडिसेहमुहेण संतकम्मसंकमङ्गाणत्त-
विहाणं कृणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ ताणि संतकम्मङ्गाणाणि ताणि चेव संकमङ्गाणाणि ।

§ ५७६. ताणि समणंतरणिदिट्ठघादङ्गाणाणि संतकम्मङ्गाणाणि, हदसमुत्पत्तियसंत-
कम्मभावेणावड्ढिदाणं तब्भावाविरोहादो । ताणि चेव संकमङ्गाणाणि । कुदो ? तेसिसुत्पत्ति-
समणंतरसमयप्पहुडि ओकङ्कुणादिवसेण संकमपञ्जायपरिणामे पडिसेहाभावादो । ताणि
चेवे त्ति एत्थतणएवकारो ताणि संतकम्मसंकमङ्गाणाणि चेव, ण पुणो बंधङ्गाणाणि त्ति
अवहारणफलो । एवमेत्थंतरे घादङ्गाणसंभवगयविसेसं पदुप्पाइय संपहि एत्तो हेट्ठिमबंधङ्गाण-
पडिवद्धसंकमङ्गाणाणि परूवेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ—

❀ तदो पुणो बंधङ्गाणाणि संकमङ्गाणाणि च ताव तुल्लाणि जाव
पच्छाणुपुव्वीए विदियमणंतगुणहीणबंधङ्गाणं ।

§ ५८०. तदो अणंतरणिदिट्ठघादङ्गाणसमुत्पत्तिविसयादो हेट्ठिमाणंतगुणहीणबंधङ्गाण-
प्पहुडि पुणो वि बंधङ्गाणाणि संकमङ्गाणाणि च ताव सरिसाणि होदूण गच्छंति जाव पच्छाणु-
पुव्वीए छङ्गाणमेत्तमोसरिऊण विदियमणंतगुणहीणबंधङ्गाणसंधिमपत्ताणि त्ति । कुदो ! तत्थ

हृतसमुत्पत्तिकस्थानोंकी उत्पत्ति होनेमे कोई विरोध नहीं आता । इनकी प्ररूपणा अनुभागविभक्तित्मे
विस्तारके साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर पुनः प्ररूपणा नहीं करते । अब ये असंख्यात लोकप्रमाण
घातस्थान वन्धसमुत्पत्तिकरूप नहीं होकर सत्कर्म और संक्रमस्थानरूप हैं इस बातका विधान करते
हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ वे सत्कर्मस्थान हैं और वे ही संक्रमस्थान हैं ।

§ ५७६. अनन्तर पूर्व कहे गये वे घातस्थान सत्कर्मस्थान हैं, क्योंकि वे हृतसमुत्पत्तिक
सत्कर्मरूपसे अवस्थित हैं, इसलिए उनके उन रूप होनेमे कोई विरोध नहीं आता । और वे ही
संक्रमस्थान हैं, क्योंकि उत्पत्ति होनेके अनन्तर समयसे लेकर अपकर्षण आदिके वशसे उनका
संक्रमपर्यायरूपसे परिणामन करनेमे कोई प्रतिवन्ध नहीं है । 'ताणि चेव' इस प्रकार यहाँ पर जो
एवकार है सो इस अवधारणाका यह फल है कि वे सत्कर्मस्थान और संक्रमस्थान ही हैं । परन्तु
वन्धस्थान नहीं हैं । इस प्रकार यहाँ पर अन्तरालमे घातस्थानोंमे सम्भव विशेषताका कथन करके अब
यहाँसे नीचे वन्धस्थानोंसे सम्बन्ध रखनेवाले संक्रमस्थानोंका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको
कहते हैं—

❀ वहाँ से लेकर पश्चादानुपूर्वीसे द्वितीय अनन्तगुणहीन वन्धस्थानके प्राप्त होने
तक जितने वन्धस्थान और संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं वे सब तुल्य होते हैं ।

§ ५८०. 'तदो' अर्थात् अनन्तर पूर्व कहे गये घातस्थानसमुत्पत्तिविषयसे नीचे जो अनन्त-
गुणहीन वन्धस्थान है उससे लेकर पुनरपि वन्धस्थान और संक्रमस्थान तब तक सदृश होकर जाते

तदुभयसंभवे विरोहाणुबलंभादो । संतकम्मट्टाणत्तमेदेसिं किण्ण परूविदं ! ण, अणुत्त-
सिद्धत्तादो । एवमेदासिं परूवणं कादूण संपहि विदियअणंतगुणहीणबंधट्टाणस्स उवरिल्ले अंतरे
पुवं व वादट्टाणाणि हांति त्ति परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ विदियअणंतगुणहीणबंधट्टाणस्सुवरिल्ले अंतरे असंखेज्जलोग-
मेत्ताणि वादट्टाणाणि ।

५२१. कुदो ? एगच्छट्टाणेणूणाणुभागसंतकम्मियमादिं कादूण जाव पच्छाणुपुव्वीए
विदियअट्टंक्कुट्टाणे त्ति ताव एदेसु ट्टाणेषु घादिज्जमाणेषु पयदंतरे असंखेज्जलोगमेत्त-
वादट्टाणाणमुप्यत्तीए परिष्फुडमुवलंभादो ।

❀ एवमणंतगुणहोणबंधट्टाणस्सुवरि अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि
वादट्टाणाणि ।

§ ५२२. एवमणंतरपरूविदविहाणेण असंखेज्जलोगमेत्तवादट्टाणाणि त्ति चरिमादिहेट्टि-
मासेसअट्टंक्कुव्वंकाणमंतरेसु अव्रामोहेण परूवेयव्वाणि त्ति भणिदं होदि । णवरि सुहुमहद-
समुप्यत्तियजहण्णट्टाणादो उवरिमाणं संखेजाणमट्टंक्कुव्वंकाणमंतरेसु हदसमुप्यत्तियसंकमट्टाणाण-

हैं जब तक परचादानुपूर्वमे पदस्थानमात्र उतर कर दूसरे अनन्तगुणहीन बन्धस्थानकी सन्धिको
नहीं प्राप्त होते, क्योंकि वहाँ पर उन दोनोंके सम्भव होनेमे कोई विरोध नहीं पाया जाता ।

शंका—ये सत्कर्मस्थान भी हैं ऐसा क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि यह बात बिना कहे ही सिद्ध है ।

इसप्रकार इनका कथन करके अब द्वितीय अनन्तगुणहीन बन्धस्थानके उपरिम अन्तरमे
पहलेके समान बातस्थान होते हैं इस बातका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* द्वितीय अनन्तगुणहीनबन्धस्थानके उपरिम अन्तरमें असंख्यात लोकप्रमाण
घातस्थान होते हैं ।

§ ५२३. क्योंकि पदस्थानसे न्यून अनुभागसत्कर्मसे लेकर परचादानुपूर्वसे द्वितीय अष्टाक-
स्थानके प्राप्त होने तक इन स्थानोंके घात करने पर प्रकृत अन्तरमें असंख्यात लोकप्रमाण घात-
स्थानोंकी उर्वात्त म्यष्टरूपमे उपलब्ध होती हैं ।

* इस प्रकार प्रत्येक अनन्तगुणहीन बन्धस्थानके अन्तरालमें असंख्यात लोकप्रमाण
घातस्थान होते हैं ।

§ ५२४. इस प्रकार अन्तर पूर्व कहे गये विधानके अनुसार अन्तिम आदि अधस्तन सव
अष्टाक और उर्वकोंके अन्तरालोंमें असंख्यात लोकप्रमाण घातस्थानोंका व्यामोह रहित होकर कथन
करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी
हनममुत्पन्निक जन्य स्थानसे लेकर उपरिम संख्यात अष्टाक और उर्वकोंके अन्तरालोंमे हत-

मुप्पत्ती णत्थि ति वत्तव्वं । सुत्तेण विणा कथमेदं परिच्छिज्जदे ? ण, सुत्ताविरुद्धपरमगुरू-
परंपरागयविसिद्धोवएसवलेण तदवगमादो । संपहि उत्तथविसयणिण्णयदढीकरणडुमुवसंहार-
वक्कमाह—

❀ एवमणंतगुणहीणबंधद्वाणस्स उवरिल्ले अंतरे असंखेज्जलोगमेत्ताणि
घादद्वाणणि भवन्ति एत्थि अण्णम्मि ।

§ ५८३. सुगममेदमुवसंहारवक्कं । णवरि अट्टंकुव्वंकाणं विचालेसु चेव घादद्वाणाणि
होन्ति, णाण्णत्थे ति जाणावणट्टं 'णत्थि अण्णम्मि' ति भण्णिदं । एवमेदमुवसंहारिय संपहि
बंध-संकमद्वाणाणमण्णोण्णविसयावहारणक्कमपदंसणट्टमिदमाह—

* एवं जाणि बंधद्वाणाणि ताणि णियमा संकमद्वाणाणि ।

§ ५८४. किं कारणं ? पुव्वुत्तेण णाएण सव्वेसिं बंधद्वाणाणं संकमद्वाणत्तसिद्धीए
विरोहाभावादो ।

❀ जाणि संकमद्वाणाणि ताणि बंधद्वाणाणि वा ए वा ।

§ ५८५. कुदो ? बंधद्वाणेहिंतो पुधमूदघादद्वाणेसु वि संकमद्वाणाणमणुवुत्ति-
दंसणादो ।

समुत्पत्तिक संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति नहीं होती ऐसा कहना चाहिए ।

शंका—सूत्रके बिना इस तथ्यका ज्ञान कैसे होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सूत्रके अविरोधी परम गुरुओंके परम्परासे आए हुए विशिष्ट
उपदेशके बलसे इस तथ्यका ज्ञान होता है ।

अब उक्त विषयके निर्णयको दृढ़ करनेके लिए उपसंहाररूप सूत्रको कहते हैं—

* इस प्रकार प्रत्येक अनन्तगुणहीन बन्धस्थानके उपरिम अन्तरालमें असंख्यात
लोकप्रमाण धातस्थान होते हैं, अन्यमें नहीं ।

§ ५८३. यह उपसंहार वचन सुगम है । इतनी विशेषता है कि अष्टांक और उर्वकोंके
अन्तरालोंमें ही धातस्थान होते हैं, अन्यत्र नहीं होते इस बातका ज्ञान करानेके लिए 'एत्थि
अण्णम्मि' यह वचन कहा है । इस प्रकार इसका उपसंहार करके अब बन्धस्थानों और संक्रम-
स्थानोंके परस्पर विषयका अवधारणक्रम दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस प्रकार जो बन्धस्थान हैं वे नियमसे संक्रमस्थान हैं ।

§ ५८४ क्योंकि पूर्वोक्त न्यायसे सब बन्धस्थानोंके संक्रमस्थानरूपसे सिद्धि होनेमें कोई
विरोध नहीं आता ।

* तथा जो संक्रमस्थान हैं वे बन्धस्थान हैं भी और नहीं भी हैं ।

§ ५८५. क्योंकि बन्धस्थानोंसे पृथग्भूत धातस्थानोंमें भी संक्रमस्थानोंकी अनुवृत्ति देखी
जाती है ।

❀ तदो बंधद्वाणाणि थोवाणि ।

§ ५८६. जदो एवं घादद्वाणेषु बंधद्वाणाणं संभवो णत्थि तदो ताणि थोवाणि ति भणितं होइ ।

❀ संतकम्मद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ५८७. कुदो ? बंधद्वाणेहितो असंखेज्जगुणघादद्वाणेषु वि संतकम्मद्वाणाणं संभवदंसणादो ।

❀ जाणि च संतकम्मद्वाणाणि ताणि संक्रमद्वाणाणि ।

§ ५८८. कुदो ? बंध-घादद्वाणसरूवसंतकम्मद्वाणाणं सव्वेसिमेव संक्रमद्वाणत्तसिद्धीए अणंतग्मेव परुविदत्तादो । एवमेत्तिएण पबंधेण संक्रमद्वाणाणं परूवणं पमाणाणुगमं च कादृण संपहि तेसिं सव्वाओ पयडीओ अस्सिरुण सत्थाण-परत्थाणेहि अप्पावहुअपरूवणङ्क-मुत्तगसुत्तमाह—

❀ अप्पावहुअं जहा सम्माइड्डिगे बंधे तथा ।

§ ५८९. जहा सम्माइड्डिवंधे बंधद्वाणाणमप्पावहुअं परुविदं सव्वकम्माणं तथा एत्थ वि संक्रमद्वाणाणमप्पावहुअं परूवेयवमिदि भणितं होइ । एदेण सुत्तेण परत्थाणप्पावहुअं सूचिदं । सत्थाणप्पावहुअं पि देसामासयभावेण सूचिदमिदि वेत्तव्वं । तदो सत्थाण-परत्थाण-

* इसलिए बन्धस्थान थोड़े हैं ।

§ ५८६. यतः इस प्रकार घातस्थानोंमें बन्धस्थान सम्भव नहीं हैं अतः वे स्तोक हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* उनसे सत्कर्मस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५८७. क्योंकि बन्धस्थानोंसे असंख्यातगुणे घातस्थानोंमें भी सत्कर्मस्थानोंकी सम्भावना देखी जाती है ।

* जो सत्कर्मस्थान हैं वे संक्रमस्थान हैं ।

§ ५८८. क्योंकि बन्धस्थान और घातस्थानरूप सभी सत्कर्मस्थान संक्रमस्थान है इसकी सिद्धिका कथन पहले ही कर आये हैं । इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा संक्रमस्थानोंका कथन और प्रमाणानुगम करके अब उनकी सब प्रकृतियोंका आश्रय लेकर स्वस्थान और परस्थान दोनों प्रकारसे अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिस प्रकार सम्यग्दृष्टिके बन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार यहाँ पर जानना चाहिए ।

§ ५८९. जिन प्रकार सम्यग्दृष्टिसम्बन्धी बन्ध अनुयोगद्वारमें सब कर्मोंके बन्धस्थानोंका अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी संक्रमस्थानोंके अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस सूत्रके द्वारा परस्थान अल्पबहुत्वका सूचन किया है । तथा देशामर्षक-

भेदेण दुविहं पि अप्पावहुअमेत्थ वत्तइस्सामो । तं जहा, सत्थाणे पयदं—मिच्छत्तस्स सव्व-
त्थोवाणि बंधसमुत्पत्तियसंकमद्वाणाणि । हदसमुत्पत्तियसंकमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । हद-
हदसमुत्पत्तियसंकमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । को गुणगारो ? असंखेज्जा लोगा । कारणं
सुगमं । एवं सव्वकम्मणं । णवरि सम्म०—सम्मामि० सव्वत्थोवाणि घादद्वाणाणि, दंसणमोह-
क्खवणाए चैव तेसिमुवलंभादो । संकमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । केत्तियमेत्तेण ! एगरूव-
मेत्तेण । कुदो ! उक्कस्साणुभागद्वाणस्स वि तत्थ पवेसुवलंभादो । एवं सत्थाणप्पावहुअं समत्तं ।

§ ५६०. संपहि परत्थाणप्पावहुअं वत्तइस्सामो । तं जहा—सव्वत्थोवाणि सम्मामि०
अणुभागसंकमद्वाणाणि । कुदो ? संखेज्जसहस्सपमाणत्तादो । सम्मत्त०अणुभागसंकम-
द्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । कुदो ? अंतोमुहुत्तपमाणत्तादो । हस्सबंधसमुत्पत्तियसंकमद्वा०
असंखेज्जगुणाणि । हदसमुत्पत्तिय०द्वा० असंखेज्जगुणाणि । हदहदसमुत्पत्तिय०द्वा० असंखेज्ज-
गुणाणि । रदीए बंधसमु०संकमद्वा० असंखेज्जगुणाणि । हदसमुत्प०संकमद्वा० असंखेज्ज-
गुणाणि । हदहदसमुत्पत्तियसंकमद्वा० असंखेज्जगुणाणि । पुरिसवेदस्स बंधसमुत्पत्तियसंकम-
द्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । हदसमुत्पत्तियसंकमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । हदहदसमुत्पत्तिय-
संकमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । इत्थिवेदस्स बंधसमुत्पत्तियसंकमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।
हदसमुत्पत्तियसंकमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । हदहदसमुत्पत्तियसंकमद्वा० असंखेज्जगुणाणि ।

भावसे स्वस्थान अल्पवहुत्वका भी सूचन किया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इसलिये स्वस्थान
और परस्थानके भेदसे दोनों प्रकारके अल्पवहुत्वको यहाँ पर बतलाते हैं । यथा— स्वस्थानका प्रकरण
है । मिथ्यात्वके बन्धसमुत्पत्तिक संक्रमस्थान सबसे स्तोक है । उनसे हतसमुत्पत्तिक संक्रमस्थान
असंख्यातगुणे हैं । उनसे हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । गुणकार क्या है ?
असंख्यात लोक गुणकार है । कारण सुगम है । इसी प्रकार सब कर्मोंके उक्त स्थानोंका अल्प
बहुत्व जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके घातस्थान सबसे
स्तोक हैं, क्योंकि वे दर्शनमोहनीयकी क्षणायमे ही उपलब्ध होते हैं । उनसे संक्रमस्थान विशेष
अधिक है । कितने अधिक हैं । एक अङ्कप्रमाण अधिक हैं, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागस्थानका भी
उनमें प्रवेश देखा जाता है । इस प्रकार स्वस्थान अल्पवहुत्व समाप्त हुआ ।

§ ५६०. अब परस्थान अल्पवहुत्वको बतलाते हैं । यथा—सम्यग्मिथ्यात्वके अनुभागसंक्रम-
स्थान सबसे स्तोक हैं, क्योंकि वे संख्यात हजार है । उनसे सम्यक्त्वके अनुभागसंक्रमस्थान
असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि वे अन्तर्मुहूर्तके समयप्रमाण हैं । उनसे हास्यके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रम-
स्थान असंख्यातगुणे है । उनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे हतहत-
समुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे रतिके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे है ।
उनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे है । उनसे हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यात-
गुणे हैं । उनसे पुरुषवेदके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे हतसमुत्पत्तिक-
संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे हतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे स्त्रीवेदके
बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

विसे० । मिच्छत्तस्स बंधसमुत्पत्तियसंकमट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । हदसमुत्प०संकम-
ट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । हदहदसमुत्प०संकमट्ठा० असंखेज्जगुणाणि । एत्थ सव्वत्थ गुणगारो
असंखेज्जा लोगा । विसेसो च सव्वत्थासंखेज्जलोगपडिभागिओ वेत्तव्वो । जेसिं कम्माण
मणुभागसंतकम्ममणंतगुणं तेसिमणुभागसंकमट्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि । जेसिं पुण विसेसा-
हियमणुभागसंतकम्मं सव्वेसिं संकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि ति । एत्थमत्थपदं साहणं
काऊणप्पावहुगमिदं सकारणमणुमग्गिदं ।

एवमप्पावहुअं समत्तं । तदो अणुभागसंकमट्ठाणपरूवणा समत्ता । एवं 'संकाभेदि
कदि वा' ति एदस्स पदस्स अत्थं समाणिय अणुभागसंकमो समत्तो ।



सक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे अनन्तानुबन्धीलोभके हतहतसमुत्पत्तिकसंकमस्थान विशेष
अधिक हैं । उनसे मिध्यात्वके बन्धसमुत्पत्तिकसंकमस्थान असंख्यातगुणे है । उनसे हतसमुत्पत्तिक-
सक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे हतहतसमुत्पत्तिकसंकमस्थान असंख्यातगुणे हैं । यहाँ पर
सर्वत्र गुणकार असख्यात लोक और विशेष असंख्यात लोकका भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना
प्रहण करना चाहिए । जिन कर्मोंका अनुभागसत्कर्म अनन्तागुणा है उनके अनुभागसंकमस्थान
असंख्यातगुणे हैं । और जिनका अनुभागसत्कर्म विशेष अधिक है उन सबके सक्रमस्थान विशेष
अधिक हैं । इस प्रकार यहाँ पर अर्थपदका साधन करके इस अल्पबहुत्वका सकारण विचार किया ।

इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । अनन्तर अनुभागसंकमस्थान समाप्त हुआ । इस प्रकार
'संकाभेदि कदि वा' इस पदके अर्थका व्याख्यान करके अनुभागसंकम समाप्त हुआ ।





सिरि-जइवसहाइरियविरइय-चुणिसुत्तसमण्डं

सिरि-भवंतगुणहरभडारओवइडं

क सा य पा हु डं

तस्स

सिरि-वीरसेणाइरियविरइया टीका

जयधवला

तत्थ

बंधगो णाम छट्ठो अत्थाहियारो

पणामिय मोक्खपदेसं पदेससंकंतिविरहियं सव्वगयं ।

पयडिय धम्मवएसं वोच्छामि पदेससंकमं णीसंकं ॥

प्रदेशके संक्रमणसे रहित और सर्वग मोक्षप्रदेशको अर्थात् सिद्धपरमेष्ठीको प्रणाम करके धर्मोपदेशको प्रकट करते हुए नि शंक होकर प्रदेशसंक्रम अधिकारको कहता हूँ ॥ १ ॥

❁ पदेससंकमो ।

§ १. पयडि-ट्टिदि-अणुभागसंकमविहासणाणंतरमिदाणिभवसरपत्तो पदेससंकमो 'गुण-हीणं वा गुणविसिद्धं' इदि गाहासुत्तावयवपडिवदो विहासियच्चो ति अहिया संभालणसुत्त-मेदं । एवमहिकयस्स पदेससंकमस्स सरूवविसेसणिद्वारणद्वसुत्तरो पुच्छाणिदेसो—

❁ तं जहा ।

§ २. सुगमं ।

❁ मूलपदेससंकमो एत्थि ।

§ ३. कुदो सहावदो चेव मूलपयडीणमण्णोणविसयसंकंतीए असंभवादो ।

❁ उत्तरपयडिपदेससंकमो ।

§ ४. उत्तरपयडिपदेससंकमो अत्थि ति सुत्तत्थसंबंधो । कुदो तासिं समयाविरोहेण परोप्परविसयसंकमस्स पडिसेहाभावादो ।

❁ अट्टपदं ।

§ ५. तत्थ उत्तरपयडिपदेससंकमे अट्टपदं भणिससामो ति, पडण्णावकमेदं । किमट्ट पद णाम ? जत्तो विवक्खियस्स पयत्थस्स परिच्छिती तमट्टपदमिदि भण्णदे ।

* अब प्रदेशसंक्रमको कहते हैं ।

§ १. प्रकृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम और अनुभागसंक्रमका व्याख्यान करनेके बाद इस समय गाथासूत्रके 'गुणहीणं वा गुणविसिद्धं' इस अवयवसे सम्बन्ध रखनेवाले अवसर प्राप्त प्रदेशसंक्रमका व्याख्यान करना चाहिए इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी सम्हाल करता है । इस प्रकार अधिकार प्राप्त प्रदेशसंक्रमके स्वरूपविशेषका निश्चय करनेके लिए आगेके पृच्छासूत्रका निर्देश करते हैं—

* यथा—

§ २. यह सूत्र सुगम है ।

* मूलप्रकृतिप्रदेशसंक्रम नहीं है ।

§ ३. क्योंकि स्वभावसे ही मूल प्रकृतियोंके परस्पर प्रदेशोंका संक्रम असम्भव है ।

* उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रम है ।

§ ४. उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रम है, ऐसा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध करना चाहिए, क्योंकि उनके परमाणुओंका समयके अविरोधपूर्वक परस्पर संक्रम होनेका निषेध नहीं है ।

* उस विषयमें यह अर्थपद है ।

§ ५. यहाँ उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रमके विषयमें अर्थपदको कहते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वचन है ।

शंका:—अर्थपद किसे कहते हैं ?

समाधान—जिसमें विवक्षित पदार्थका ज्ञान होता है उसे अर्थपद कहते हैं । आगे उसे वचनान्तं हैं—

❖ जं पदेसग्गमण्णपयडिं णिज्जदे जत्तो पयडीदो तं पदेसग्गं णिज्जदि तिस्से पयडोए सो पदेससंकमो ।

§ ६. जं पदेसग्गमण्णपयडिं णिज्जदि सो पदेससंकमो ति सुत्तत्थसंबंधो । सो कस्स ? किंपडिग्गहपयडीए आहो पडिगेज्झमाणपयडीए ति आसंक्रिय इदमाह—‘जत्तो पयडीदो’ इच्चादि । जत्तो पयडीदो तं पदेसग्गमण्णपयडिं णिज्जदे तिस्से चेव पडिगेज्झमाणपयडीए सो पदेससंकमो होइ, णाण्णपयडीए ति भणिदं होइ । एदेण परपयडिसंकंतिलक्खणो चेव पदेससंकमो ण ओकडुक्कडुणलक्खणो ति जाणाविदं, ट्टिदि-अणुभागाणं च ओकडुक्कडुणाहि पदेसग्गस्स अण्णभावावत्तीए अणुवलंभादो । संपहि एदस्सेवत्थस्स उदाहरणमुहेण फुडो-करणट्टमुत्तरसुत्तमाह—

❖ जहा मिच्छत्तस्स पदेसग्गं सम्मत्ते संबुहदि तं पदेसग्गं मिच्छत्तस्स पदेससंकमो ।

§ ७. ‘जहा’ तं जहा ति भणिदं होदि । मिच्छत्तसरूपेण ट्टिदं पदेसग्गं जदा सम्मत्ता-यारेण परिणमिज्जदि तदा पदेसग्गं मिच्छत्तस्स पदेससंकमो होइ, णाण्णस्से ति भणिदं होइ ।

❖ एवं सव्वत्थ ।

* जो प्रदेशाग्र जिस प्रकृतिसे अन्य प्रकृतिको ले जाया जाता है वह प्रदेशाग्र यतः ले जाया जाता है इसलिए उस प्रकृतिका वह प्रदेशसंक्रम है ।

§ ६. जो प्रदेशाग्र अन्य प्रकृतिको ले जाया जाता है वह प्रदेशसंक्रम है इस प्रकार इस सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध है । वह किसका होता है, क्या प्रतिग्रह प्रकृतिका होता है या प्रतिग्राह्यमान प्रकृतिका होता है इस प्रकार आशंका करके ‘जत्तो पयडीदो’ इत्यादि वचन कहा है । जिस प्रकृतिसे वह प्रदेशाग्र अन्य प्रकृतिको ले जाया जाता है उसी प्रतिग्राह्यमान प्रकृतिका वह प्रदेशसंक्रम होता है, अन्य प्रकृतिका नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस वचन द्वारा परप्रकृति-संक्रमलक्षण ही प्रदेशसंक्रम है, अपकर्षण उत्कर्षणलक्षण नहीं यह ज्ञान कराया गया है, क्योंकि जिस प्रकार अपकर्षण-उत्कर्षणके द्वारा स्थिति और अनुभागका अन्यरूप होना पाया जाता है उस प्रकार उन द्वारा प्रदेशाग्रका अन्यरूप होना नहीं पाया जाता ।

* जैसे मिथ्यात्वका प्रदेशाग्र सम्यक्त्वमें संक्रान्त किया जाता है, अतः वह प्रदेशाग्र मिथ्यात्वका प्रदेशसंक्रम है ।

§ ७ सूत्रमे ‘जहा’ पद ‘तं जहा’ के अर्थमे आया है ऐसा समझना चाहिए । मिथ्यात्वरूपसे स्थित हुआ प्रदेशाग्र जब सम्यक्त्वरूपसे परिणमाया जाता है तब वह प्रदेशाग्र मिथ्यात्वका प्रदेशसंक्रम होता है, अन्यका नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिये ।

§ ८. जहा मिच्छत्तस्स पदेससंकमो णिदरिसिदो एवं सेसकभाणं पि सगसगपडि-
ग्गहाविरोहेण णिदरिसेयव्वो त्ति भणिदं होइ ।

❀ एदेण अट्टपदेण तत्थ पंचविहो संकमो ।

§ ९. एदेणाणंतरपरूविदेण अट्टपदेण उत्तरपयडिपदेससंकमे विहासणिजे तत्थ इमो
पंचविहो संकमवियप्पो णायव्वो त्ति भणिदं होइ—

❀ नं जहा ।

§ १०. सुगममेदं पयदसंकमवियप्पसरूवणिदेसावेक्खं पुच्छावकं ।

❀ उव्वेल्लणसंकमो विज्झादसंकमो अधापवत्तसंकमो गुणसंकमो
सव्वसंकमो च ।

§ ११. एवमेदे उव्वेल्लणादयो पंचवियप्पा पदेससंकमस्स होंति त्ति सुत्तत्थसमुच्चयो ।
तत्थुव्वेल्लणसंकमो णाम करणपरिणामेहि विणा रज्जुव्वेल्लणकमेण कम्मपदेसाणं परपयडि-

§ ८ जिस प्रकार मिथ्यात्वके प्रदेशसंक्रमका उदाहरण दिया है उसी प्रकार शेष कर्मोंका भी अपनी अपनी प्रतिग्रह प्रकृतियोंके अविरोधरूपसे उदाहरण दिखलाना चाहिये यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर प्रदेशसंक्रमका विचार चल रहा है । मूल प्रकृतियोंका तो परस्परमें संक्रम नहीं होता, उत्तर प्रकृतियोंका यथायोग्य संक्रम अवश्य होता है । तदनुसार जिस प्रकृतिके प्रदेश अन्य प्रकृतिमें संक्रान्त किये जाते हैं उस प्रकृतिका वह प्रदेशसंक्रम कहलाता है । उदाहरण मूलमें दिया ही है । तात्पर्य यह है कि उत्कर्षण और अपकर्षण एक ही प्रकृतिमें होता है । पर प्रदेशसंक्रमके लिए दो प्रकारकी प्रकृतियाँ विवक्षित होती हैं । एक वे जिनमें अन्य प्रकृतियोंके प्रदेशोंका संक्रमण होता है, इन्हें प्रतिग्रह प्रकृतियाँ कहते हैं और दूसरी वे जिनके प्रदेशोंका अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण होता है, इन्हें प्रतिग्राह्यमान प्रकृतियाँ कहते हैं । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अमुक प्रकृतियाँ प्रतिग्रहरूप हैं और अमुक प्रकृतियाँ प्रतिग्राह्यमान हैं इस प्रकार वे कुछ वटी हुई नहीं हैं । यथा समय समयानुसार सभी प्रकृतियाँ प्रतिग्रहरूप हैं और सभी प्रकृतियाँ प्रतिग्राह्यमानरूप हैं । आगममें नियम दिये हैं उनके अनुसार यह सब विधि जान लेनी चाहिये । इस विधिका विशेष विचार प्रकृतिसंक्रम अधिकारमें कर ही आये है, इसलिए पुनरुक्त दोषके भयसे यहाँ पर पुनः विचार नहीं किया है ।

❀ इस अर्थपदके अनुसार प्रदेशसंक्रम पाँच प्रकारका है ।

§ ९. इस पहले कहे गये अर्थपदके अनुसार उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रमका व्याख्यान करने योग्य है । उसमें यह पाँच प्रकारका संक्रम जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

❀ यथा ।

§ १०. प्रकृत संक्रमके भेदोंके स्वरूपके निर्देशकी अपेक्षा रखनेवाला यह पृच्छामूत्र सुगम है ।

❀ उट्टेलनासंक्रम, विध्यातसंक्रम, अधःप्रवृत्तसंक्रम, गुणसंक्रम और सर्वसंक्रम ।

§ ११. उम प्रकार प्रदेशसंक्रमके ये उट्टेलना आदिक पाँच भेद होते हैं यह सूत्रार्थका समु-
धय है । उनमेंसे करणपरिणामोंके विना रस्तीके उकेलनेके समान कर्मप्रदेशोंका परप्रकृतिरूपसे

सरूवेण संछोहणा । तस्स भागहारो अंगुलस्सासंखेज्ज दिभागो । एदस्स विसयो वुच्चदे—तं जहा—सम्माइट्ठी मिच्छत्तं गंतूण जाव अंतोमुहुत्तं ताव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमधापवत्तसंकमं कुण्ह । तत्तो परमुव्वेत्तणासंकमं पारभिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्ठिदिघादं कुणमाणस्स जाव पलिदो० असंखे०भागमेत्तो तदुव्वेत्तणाकालो ताव णिरंतरमुव्वेत्तणभागहारेण विसेसहीणो पदेससंकमो होइ । विसेसहाणीए कारणं भज्जमाणदच्चं समयं पडि विसेसहीणं होदूण गच्छदि त्ति वत्तच्चं । एवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं चरिमट्ठिदिखंडयम्मि गुणसंकमो सव्वसंकमो च जायदे । एवमुव्वेत्तणसंकमसरूवपरूवणं कयं ।

§ १२. संपहि विज्झादसंकमस्स परूवणा कीरदे । तं जहा—वेदगसम्मत्तकालवभंतरे सव्वत्थेव मिच्छत्त सम्मामिच्छत्ताणं विज्झादसंकमो होइ जाव दंसणमोहक्खवयअधापवत्त-करणचरिमसमयो त्ति । उवसमसम्माइट्ठिम्मि वि गुणसंकमकालादो उवरि सव्वत्थ विज्झाद-संकमो होइ । एदस्स वि भागहारो अंगुलस्सासंखे०भागो । णवरि उव्वेत्तणभागहारादो असंखे०गुणहीणो । एवमण्णासिं वि पयडीणं जहासंभवं विज्झादसंकमविसओ अणुगंतव्वो ।

§ १३. संपहि अधापवत्तसंकमस्स लक्खणं वुच्चदे । बंधपयडीणं सगबंधसंभवविसए जो पदेससंकमो सो अधापवत्तसंकमो त्ति भण्णदे । तस्स पडिभागो पलिदो० असंखे०भागो । तं जहा—चरित्तमोहपयडीणं पणुवीसण्हं पि सगबंधपाओगविसए वज्जमाणपयडिपडिगहेण अधापवत्तसंकमो होइ ।

संक्रान्त होना उद्वेलनासंक्रम है । उसका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अब इसका विषय कहते हैं । यथा—सम्यग्दृष्टि जीव मिथ्यात्वमे जाकर अन्तर्मुहूर्त तक सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अधःप्रवृत्तसंक्रम करता है । उसके बाद उद्वेलनासंक्रमका प्रारम्भ कर सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका स्थितिघात करनेवाले उसके पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण उद्वेलना कालके अन्त तक निरन्तर उद्वेलना भागहारके द्वारा विशेष हीन प्रदेशसंक्रम होता है । यहाँ पर भज्यमान द्रव्य प्रत्येक समयमे विशेष हीन होता जाता है इसे विशेष हानिका कारण कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अन्तिम स्थितिकाण्डकमे गुणसंक्रम और सर्वसंक्रम हो जाता है । इस प्रकार उद्वेलना संक्रमके स्वरूपका कथन किया ।

§ १२. अब विध्यातसंक्रमका कथन करते हैं । यथा—वेदकसम्यक्त्वके कालके भीतर दर्शनमोहनीयकी क्षणसम्बन्धी अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक सर्वत्र ही मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका विध्यातसंक्रम होता है । तथा उपशमसम्यग्दृष्टिके भी गुणसंक्रमके कालके बाद सर्वत्र विध्यातसंक्रम होता है । इसका भी भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि उद्वेलनाके भागहारसे यह असंख्यातगुणा हीन है । इसी प्रकार अन्य प्रकृतियोंके भी यथासम्भव विध्यातसंक्रमका विषय जानना चाहिए ।

§ १३. अब अधःप्रवृत्तसंक्रमका लक्षण कहते हैं—बन्धप्रकृतियोंका अपने बन्धके सम्भव विषयमे जो प्रदेशसंक्रम होता है उसे अधःप्रवृत्तसंक्रम कहते हैं । उसका प्रतिभाग पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । यथा—चारित्रमोहनीयकी पच्चीसों प्रकृतियोंका अपने बन्धके योग्य विषयमे बध्यमान प्रकृतिप्रतिग्रहरूपसे अधःप्रवृत्तसंक्रम होता है ।

§ १४. संपहि गुणसंकमस्स लक्खणं वुच्चदे । तं जहा—समयं पडि असंखेज्जगुणाए सेहीए जो पदेससंकमो सो गुणसंकमो ति भण्णदे । तं जहा—अपुव्वकरणपढमसमयप्पहुडि दंसणमोहक्खवणाए चरित्तमोहक्खवणाए उवसमसेटिम्मि अणंताणुवंधिविसंजोयणाए सम्मत्तुप्पायणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छताणमुव्वेल्लणचरिमखंडए च गुणसंकमो होइ । एदस्स वि भागहारो पल्लिदो० असंखे० भागो होंतो वि अधापवत्तभागहारादो असंखे० गुणहीणो ।

§ १५. संपहि सव्वसंकमस्स सरूवं वुच्चदे । तं जहा—सव्वस्सेव पदेसग्गस्स जो संकमो सो सव्वसंकमो ति भण्णदे । सो कत्थ होइ ? उव्वेल्लणाए विसंजोयणाए खवणाए च चरिमट्ठिदिखंडयचरिमफालिसंकमो होइ । तस्स भागहारो एयरूवमेत्तो । एवमेसो पंचविहो संकमो सुत्तेणेदेण णिद्धिद्वो । एत्थुवसंहारगाहा—

उव्वेल्लण-विब्भादो अधापवत्त-गुणसंकमो चेय ।

तह सव्वसंकमो ति य पंचविहो सकमो रोयो ॥१॥

§ १६. एवमेदेसिं पदेससंकमभेदाणं सरूवणिदेसं कादूण संपहि तेसिं चेव दव्वगय-विसेसजाणावण्हं अप्पावहुअमेत्थ कुणमाणो सुत्तपवंधमुत्तरं भणइ—

❀ उव्वेल्लणसंकमे पदेसग्गं थोवं ।

§ १७. कुदो ? अंगुलासंखेज्जभागपडिभागियत्तादो ।

§ १४. अत्र गुणसंकमका लक्षण कहते हैं । यथा—प्रत्येक समयमे असंख्यात गुणित श्रेणिरूपसे जो प्रदेशसंकम होता है उसे गुणसंकम कहते हैं । यथा—अपूर्वकरणके प्रथम समयसे लेकर दर्शनमोहनीयकी क्षणामें, चारित्रमोहनीयकी क्षणामें, उपअमश्रेणामें, अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनामें, सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्रतात्वकी उद्वेगनाके अन्तिम काण्डकमें गुणसंकम होता है । इसका भी भागहार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होकर भी अधःप्रवृत्त-भागहारसे असंख्यातगुणा हीन हैं ।

§ १५. अत्र सर्वसंकमके स्वरूपको कहते हैं । यथा—सभी प्रदेशोंका जो संकम होता है उसे सर्वसंकम कहते हैं । वह कहाँ पर होता है ? उद्वेगनामें, विसंयोजनामें और क्षणामें अन्तिम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके संकमके समय होता है । उसका भागहार एक अद्भुतप्रमाण है । इस प्रकार यह पाँच प्रकारका संकम इस सूत्रद्वारा दिखलाया गया है । इस विषयमें यहाँ पर उपसंहार गाथा—

उद्वेगलसंकम, विध्यातसंकम, अधःप्रवृत्तसंकम, गुणसंकम और सर्वसंकम इस प्रकार पाँच प्रकारका संकम जानना चाहिये ॥१॥

§ १६. इस प्रकार इन प्रदेशसंकमके भेदोंके स्वरूपका निर्देश करके अब उन्हींकी द्रव्यगत विशेषताका ज्ञान करानेके लिए यहाँ पर अल्पबहुत्वको करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

❀ उद्वेगलसंकममें प्रदेशाग्र सत्रसे स्तोक है ।

§ १७. क्योंकि उसे लानेका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

❖ विज्झादसंकमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ।

§ १८. कुदो ? दोण्हमेदेसिमंगुलासंखेज्जभागपडिभागियत्ते समाणे वि पुव्विल्लभाग-
हारादो विज्झादभागहारस्सासंखेज्जगुणहीणत्तव्भुवगमादो ।

❖ अधापवत्तसंकमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ।

§ १९. किं कारणं ? पत्तिदोवमासंखेज्जभागपडिभागियत्तादो ।

❖ गुणसंकमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ।

§ २०. किं कारणं ? पुव्विल्लभागहारादो एदस्स असंखेज्जगुणहीणभागहारपडि-
वद्धत्तादो ।

❖ सव्वसंकमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ।

§ २१. किं कारणं ? एगरूवभागहारपडिवद्धत्तादो । एवं दव्वप्पावहुअमुहेण
पंचण्हमेदेसिं संकमभेदाणं भागहारविसेसो वि जाणाविदो । तदो एदेण सूचिदभागहारप्पा-
वहुअं पि विलोमकमेण शेदव्वं । एवमेदेसिं संकमपभेदाणं सरूवपरूवणं कादूण संपहि एदेण
अट्टपदेण उत्तरपयडिपदेससंकमाणुगमे कायव्वे तत्थ इमाणि चउवीसमणिओगद्वाराणि—
समुक्कित्तणा भागाभागो जाव अप्पावहुए त्ति । भुजगार-पदणिकखेव-वृद्धि-ट्टाणाणि च ।
तत्थ समुक्कित्तणा दुविहा जहण्णुक्कस्सभेएण । तत्थुक्कस्से पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघेण
आदेसेण य । ओघेण अट्टावीसं पयडीणमत्थि उक्कस्सओ पदेससंकमो । एवं चदुगदीसु ।

* उससे विध्यातसंक्रममें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है ।

§ १८. क्योंकि इन दोनोंको लानेका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागरूपसे समान होने
पर भी पहलेके भागहारसे विध्यातसंक्रमका भागहार असंख्यातगुणा हीन स्वीकार किया गया है ।

* उससे अधःप्रवृत्तसंक्रममें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है ।

§ १९. क्योंकि इसे लानेके लिए भागहार पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

* उससे गुणसंक्रममें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है ।

§ २०. क्योंकि पूर्व द्रव्यके भागहारसे यह द्रव्य असंख्यातगुणे हीन भागहारसे सम्बन्ध
रखता है ।

* उससे सर्वसंक्रममें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है ।

§ २१. क्योंकि यह द्रव्य एक अङ्कप्रमाण भागहारसे सम्बन्ध रखता है । इस प्रकार द्रव्योंके
अल्पबहुत्वके द्वारा इन पाँच संक्रमभेदोंके भागहारविशेषका भी ज्ञान करा दिया है । इसलिए इस द्वारा
रचित हुए भागहारोंके अल्पबहुत्वको भी विलोमक्रमसे ले जाना चाहिए । इस प्रकार इन संक्रमके
भेदोंके स्वरूपका कथन करके अब इस अर्थपदके अनुसार उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रमका अनुगम करते
समय उस विषयमें समुत्कीर्तना और भागाभागसे लेकर अल्पबहुत्व तक ये चौबीस अनुयोगद्वार
होते हैं । तथा भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि और स्थान ये अनुयोगद्वार और होते हैं । उनमेंसे समुत्कीर्तना
दो प्रकारकी हैं—जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेंसे उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—
ओघ और आदेश । ओघसे अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम है । इसी प्रकार चारों

णवरि पंचिदि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० अणुदिसादि सव्वट्ठ ति सत्तावीसण्हं पयडीणं अत्थि उक्कस्सओ पदेससंकमो । एवं जाव० । एवं जहण्णयं पि रोदव्वं ।

§ २२. भागाभागो दुविहो—जीवविसयो पदेसविसओ च । तत्थ जीवभागाभाग-मुवरि जहावसरमणुवत्तइस्सामो । पदेसभागाभागो ताव वुच्चदे । सो दुविहो—जहण्णओ उक्कस्सओ च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मोह० अट्टावीसंपयडीणं पदेसविहत्तिभागाभागभंगो । णवरि दंसणतियचदुसंजलणभागाभागे सम्मत्त-लोहसंजलणदव्वमसंखे०भागो ।

§ २३. एत्थ सत्थाणभागाभागे कीरमाणे मिच्छत्तदव्वमसंखेज्जाणि खंडाणि कादूण तत्थ बहुभागा सव्वसंकमदव्वं होइ । सेसमसंखेज्जे भागे कादूण तत्थ बहुभागा गुणसंकमदव्वं होइ । सेसेयभागो विज्झादसंकमदव्वं होइ । सम्मत्तदव्वमसंखेज्जे भागे कादूण तत्थ बहुभागा अधापवत्तसंकमदव्वं होइ । सेसमसंखेज्जे भागे कादूण तत्थ बहुभागा सव्वसंकमदव्वं होइ । सेसमसंखेज्जे भागे कादूण तत्थ बहुभागा

गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इसी प्रकार जघन्य प्रदेशसंक्रमका भी कथन करना चाहिए ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति न होनेसे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट और जघन्य किसी प्रकारका प्रदेशसंक्रम नहीं पाया जाता । तथा अनुदिशादि देवोंमें मिथ्यात्वगुणस्थान न होनेसे सम्यक्त्वप्रकृतिका किसी भी प्रकारका प्रदेशसंक्रम नहीं पाया जाता । इन मार्गणाओंमें इसीलिए सत्ताईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशसंक्रम कहा है । किन्तु इनके सिवा गतियोंके जितने अवान्तर भेद हैं उनमें मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनोंकी प्राप्ति सम्भव है, इसलिए उनमें अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशसंक्रम कहा है ।

§ २२. भागाभाग दो प्रकारका है—जीवविषयक भागाभाग और प्रदेशविषयक भागाभाग । उनमेंसे जीवभागाभागको यथावसर आगे बतलावेंगे । यहाँ पर प्रदेशभागाभागको कहते हैं । वह दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट भागाभाग प्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट भागाभागके समान है । इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोहनीय और चार संज्वलनोंके भागाभागमें सम्यक्त्व और लोभसंज्वलनका द्रव्य असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ २३. यहाँ पर स्वस्थानभागाभागके करने पर मिथ्यात्वके द्रव्यके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण सर्वसंक्रम द्रव्य है । शेष एक भागके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण गुणसंक्रमद्रव्य है । तथा शेष एक भागप्रमाण विध्यातसंक्रम द्रव्य है । सम्यक्त्वके द्रव्यके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण अधःप्रवृत्तसंक्रम द्रव्य है । शेष एक भागके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण सर्वसंक्रमद्रव्य है । शेष एक भागके असंख्यात भाग

गुणसंकमदव्वं होइ । सेसेयभागमेत्तमुव्वेत्तणसंकमदव्वं होइ । सम्मामिच्छत्तदव्वमसंखेज्जाणि खंडाणि कादूण तत्थ बहुभागा सव्वसंकमदव्वं होइ । सेसमसंखेज्जाणि खंडाणि कादूण तत्थ बहुखंडपमाणं गुणसंकमदव्वं होइ । सेसमसंखे०खंडाणि कादूण तत्थ बहुभागा अधापवत्तसंकमदव्वं होइ । सेसमसंखे०खंडाणि कादूण तत्थ बहुभागा 'विज्जादसंकमदव्वं होइ । सेसेयभागमेत्तमुव्वेत्तणसंकमदव्वं होइ । एवं वारसक०—इत्थि-णवुंसयवेदारइ-सोगाणं । णवरि उव्वेत्तणसंकमो णत्थि । पुरिसवेद-क्रोह-भाण-मायासंजलणाणमप्यप्पणो दव्वमसंखेज्जखंडाणि कादूण तत्थ बहुभागा सव्वसंकमदव्वं होइ । सेसेयखंडपमाणमधापवत्तसंकमदव्वं होइ । हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणमप्यप्पणो दव्वमसंखेज्जखंडाणि कादूण तत्थ बहुखंडपमाणं सव्वसंकमदव्वं होइ । सेसमसंखेज्जाणि खंडाणि कादूण तत्थ बहुखंडपमाणं गुणसंकमदव्वं होइ । सेसेयभागमेत्तमधापवत्तसंकमदव्वं होइ । लोहसंजलणस्स णत्थि भागाभागविहाणं । किं कारणं ? एगो चेव अधापवत्तसंकमो त्ति । एवं मणुसतिए । आदेसभागाभागो जहण्ण-भागाभागो च जाणिदूण णेदव्वो । तदो पदेसभागाभागो समत्तो ।

§ २४. सव्वसंकम-णोसव्वसंकमो त्ति दुविहो णिद्वेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वपयडीणं सव्वुक्कस्सयं पदेसगं संकममाणयस्स सव्वसंकमो । तदूणं संकामेमाणस्स णोसव्वसंकमो । एवं जाव० ।

करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण गुणसंकमद्रव्य है । तथा शेष एक भागप्रमाण उद्वेलनासंकम द्रव्य है । सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण सर्वसंकम द्रव्य है । शेष एक भागके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण गुणसंकम द्रव्य है । शेष एक भागके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण अधःप्रवृत्तसंकम द्रव्य है । शेष एक भागके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण विध्यातसंकमद्रव्य है । तथा शेष एक भागप्रमाण उद्वेलनासंकमद्रव्य है । इसीप्रकार वारह कपाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, और शोकके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन प्रकृतियोंका उद्वेलनासंकम नहीं होता । पुरुषवेद, क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन और माया-संज्वलनके अपने अपने द्रव्यके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण सर्वसंकमद्रव्य है । तथा शेष एक भागप्रमाण अधःप्रवृत्तसंकमद्रव्य है । हास्य, रति, भय और जुगुप्साके अपने अपने द्रव्यके असंख्यात खंड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण सर्वसंकमद्रव्य है । शेष एक भागके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण गुणसंकमद्रव्य है । तथा शेष एक भागप्रमाण अधःप्रवृत्तसंकमद्रव्य है । लोभसंज्वलनका भागाभागविधान नहीं है, क्योंकि इसमें एकमात्र अधःप्रवृत्तसंकम होता है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । आदेश भागाभाग और जघन्य भागाभाग जानकर लेजाना चाहिए । इस प्रकार प्रदेशभागाभाग समाप्त हुआ ।

§ २४. सर्वसंकम और नोसर्वसंकमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके सर्वोत्कृष्ट प्रदेशाग्रका संक्रम करनेवाले जीवके सर्वसंकम होता है । तथा इससे न्यून प्रदेशाग्रका संक्रम करनेवाले जीवके नोसर्वसंकम होता है । इसीप्रकार अनाहारक मार्गण तक जानना चाहिए ।

§ २५. उक्त्ससंक्रमो अणुक्त्ससंक्रमो जहण्णसंक्रमो अजहण्णसंक्रमो चि विहत्ति-
भंगो । णवरि संकामयालावो कायव्वो ।

§ २६. सादि-अणादि-ध्रुव-अध्रुवानुगमेण दुविहो णिद्देशो—ओघेण आदेसेण य ।
ओघेण मिच्छ०—सम्म०—सम्मामिच्छत्ताणमुक्क०-अणुक्क०-जह०-अजहण्णपदेससंक्रमो किं
सादिओ ४ ? सादी अद्भवो । सेसपयडीणमुक्क०-जह०पदे० किं सादि०४ ? सादी
अद्भवो । अणु०-अजह०पदे० किं सादि०४ ? सादिओ अणादिओ ध्रुवो अद्भवो वा ।
सेसमग्गणासु सव्वपय० उक्क०-अणुक्क०-जह०-अजह० पदे०संक्र० किं० सादि०४ ?
सादी अद्भवो । एवं जाव० ।

§ २७. एवमेदेसिमणिओगद्वाराणं सुगमत्ताहिप्पाएण परूवणमकादूण संपहि सामित्त-
परूवणद्धमुत्तरं सुत्तपबंधमाह—

❀ एत्तो सामित्तं ।

§ २५. उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जघन्यसंक्रम और अजघन्यसंक्रमका भङ्ग प्रदेश-
विभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि प्रदेशसत्कर्मके स्थान पर प्रदेशसंक्रमका आलाप
करना चाहिए।

§ २६. सादि, अनादि, ध्रुव और अध्रुवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और
आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य
प्रदेशसंक्रम क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? सादि और अध्रुव है। शेष प्रकृतियोंका
उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेशसंक्रम क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? सादि, और अध्रुव है।
अनुत्कृष्ट और अजघन्य प्रदेशसंक्रम क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? सादि, और अध्रुव है।
ध्रुव और अध्रुव है। शेष मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य
प्रदेशसंक्रम क्या सादि है, अनादि है, ध्रुव है या अध्रुव है? सादि और अध्रुव है। इसी प्रकार
अनाहारक मार्गणातक यथायोग्य जानना चाहिए।

विशेषार्थ—मिथ्यात्व प्रकृति सर्वदा प्रतिग्रह प्रकृति नहीं है, तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व
प्रकृति ही सादि हैं, अतः इनके उत्कृष्ट आदि चारों सादि और अध्रुव हैं। अब वहीं शेष प्रकृतियाँ सो
इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम गुणितकर्मांश जीवके और जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षपितकर्मांशजीवके यथा-
योग्य स्थानमें होते हैं, अतः ये भी सादि और अध्रुव हैं। तथा इनके अनुत्कृष्ट और अजघन्य
प्रदेशसंक्रम उपशमश्रेणिके प्राप्त होनेके पूर्व तक अनादि हैं, उपशमश्रेणिके गिरनेके बाद सादि हैं
तथा भव्योंकी अपेक्षा अध्रुव और अभव्योंकी अपेक्षा ध्रुव हैं। गतिसम्बन्धी अवान्तर मार्गणाएँ
कादाचित्तक हैं, अतः इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि चारों सादि और अध्रुव हैं। इसी प्रकार
अन्य मार्गणाओंमें भी यथायोग्य जान लेना चाहिए।

§ २७ इस प्रकार ये अनुयोगद्वार सुगम हैं इस अभिधायसे परूपण न करके अब स्वामित्वका
कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं—

❀ आगे स्वामित्वको कहते हैं ।

§ २८. एत्तो अणंतरसामित्तमणुवत्तइस्सामो त्ति पइण्णासुत्तमेदं ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सयपदेससंकमो कस्स ?

§ २९. सुगमं ।

❀ गुणिटकम्मंसिओ सत्तमादो पुढवीदो उव्वट्टिदो ।

§ ३०. जो गुणिटकम्मंसिओ सत्तमपुढवीदो उव्वट्टिदो सो पयदुक्कस्ससंकमदव्व-
सामिओ होदि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । किमट्टमेसो तत्तो उव्वट्टाविदो ? ण, गेरइयचरिमसमए चेव-
पयदुक्कस्ससामित्तविहाणोवायाभावेण तहाकरणादो । कुदो तत्थ तदसंभवो चे-? मणुसगदीदो
अण्णत्थ दंसणमोहक्खवणाए असंभवादो । ण च दंसणमोहक्खवणादो . अण्णत्थ सव्वसंक्रम-
सरूवो मिच्छत्तुक्कस्सपदेससंकमो अत्थि तम्हा गुणिटकम्मंसिओ सत्तमपुढवीदो उव्वट्टिदो
त्ति सुसंबद्धमेदं ।

❀ दो तिरिण भवग्गहणाणि पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तएसु उववणो ।

§ ३१. किमट्टमेसो पंचिंदियतिरिक्खेसुप्पाइदो ? ण सत्तमपुढवीदो उव्वट्टिदस्स
दो-तिण्णिपंचिंदियतिरिक्खभवग्गहणेहिं विणा तदणंतरमेव मणुसगदीए उप्पज्जणासंभवादो ।

§ २८. इससे आगे स्वामित्वको वतलावेंगे इस प्रकार यह प्रतिज्ञासूत्र है ।

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ २९. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीसे निकला ।

§ ३०. जो गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीसे निकला वह प्रकृत उत्कृष्ट संक्रमद्रव्यका
स्वामी है ऐसा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिए ।

शंका—इस जीवको वहाँसे किसलिए निकाला है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि नारकियोंके अन्तिम समयमे ही प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वके विधानका
अन्य उपाय न होनेसे वैसा किया है ।

शंका—वहाँ अर्थात् नरकमे उत्कृष्ट स्वामित्व असम्भव क्यों है ?

समाधान—क्योंकि मनुष्यगतिके सिवा अन्यत्र दर्शनमोहनीयकी क्षण होना असम्भव
है और दर्शनमोहनीयकी क्षणके सिवा अन्यत्र सर्वसंक्रमरूप मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम
पाया नहीं जाता, इसलिए गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीसे निकला इस प्रकार यह सूत्र
सुसम्बद्ध हैं ।

* वहाँसे निकलकर तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्तकोंमें दो-तीन भव धारण करके
उत्पन्न हुआ ।

§ ३१. शंका—इसे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें किसलिए उत्पन्न कराया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सातवीं पृथिवीसे निकला हुआ जीव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें दो-
तीन भव धारण किये बिना वहाँसे निकलनेके वाद ही मनुष्यगतिमे नहीं उत्पन्न हो सकता ।

❀ अंतोमुहुत्तेण मणुसेसु आगदो ।

§ ३२. पंचिदियतिरिक्खेसु तसद्धिदिं समाणिय पुणो एइंदिएसुप्पजिय अंतोमुहुत्त-
कालेणेव मणुसगइमागदो ति भणिदं होइ ।

❀ सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेदुमाढत्तो ।

§ ३३. एत्थ सव्वलहुणिद्वेसेण गब्भादिअट्टवस्साणमंतोमुहुत्तब्भहियाणमुवारि
दंसणमोहक्खवणाए अब्भुद्धिदो ति घेतव्वं ।

❀ जाधे मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते सव्वं संबुभमाणं संबुद्धं ताधे तस्स
मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पएससंकमो ।

§ ३४. पुव्वुत्तविहाणेणागंतूण मणुसेसुप्पजिय सव्वलहुं दंसणमोहक्खवणाए
अब्भुद्धिदेण जाधे मिच्छत्तसव्वदव्वमुदयावलयवज्जं सम्मामिच्छत्तस्सुवारि सव्वसंकमेण
संबुद्धं ताधे तस्स जीवस्स मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो होइ । तत्थ गुणसेदिणिज्जरा-
सहिदगुणसंकमदव्वेणणदिवद्धुगुणहाणिमेत्तुक्कस्ससमयपवद्वाणमेक्खारेणेव सम्मामिच्छत्तसरूवेण
संकतिदंसणादो ।

❀ सम्मत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ३५. सुगमं ।

* पुनः अन्तर्मुहूर्तमें मनुष्योंमें आ गया ।

§ ३२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें त्रसस्थितिको समाप्त करके पुन एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर
अन्तर्मुहूर्तकालमें ही मनुष्योंमें आ गया यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है ।

* वहाँ अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ ।

§ ३३. यहाँ पर सूत्रमें जो 'सव्वलहु' पदका निर्देश किया है उससे गर्भसे लेकर आठ वर्ष
और अन्तर्मुहूर्तके बाद दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ ऐसा ग्रहण करना चाहिए ।

* जिस समय मिथ्यात्वको सम्यग्मिथ्यात्वमें सर्वसंक्रमरूपसे संक्रमित किया उस
समय उसके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ३४. पूर्वोक्त विधिमें आकर और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी
क्षपणाके लिए उद्यत हुए उसने जब मिथ्यात्वके उदयावलिके सिवा अन्य सब द्रव्यको सम्यग्मि-
थ्यात्वमें सर्वसंक्रमके द्वारा संक्रमित किया तब उस जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है,
क्योंकि वहाँ पर गणश्रेणि निर्जरा सहित गुणसंक्रम द्रव्यसे न्यून डेढ़ गुणहानिप्रमाण उत्कृष्ट समय-
प्रवर्द्धोंका एक वारमें ही सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे संक्रम देखा जाता है ?

* सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामी कौन है ?

§ ३५. यह सूत्र सुगम है ।

❀ गुणितकम्मंसिएण सत्तमाए पुढवीए णेरइएण मिच्छत्तस्स उक्कस्स-
पदेससंतकम्ममंतोमुहुत्तेण होहिदि त्ति सम्मत्तमुप्पाइदं, सव्वुक्कस्सियाए
पूरणाए सम्मत्तं पूरिदं, तदो उवसंतद्वाए पुण्णाए मिच्छत्तमुदीरयमाणस्स
पढमसमयमिच्छाइडिस्स तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ३६. एत्थ गुणितकम्मंसियणिद्देसेणागुणितकम्मंसियपडिसेहो कओ । सत्तम-
पुढिविणेरइयणिद्देसेण वि अणेरइयपडिसेहो अण्णपुढविणेरइयपडिसेहो च कओ त्ति दडुवो ।
मिच्छत्तस्स उक्कस्सयं पदेससंतकम्मं अंतोमुहुत्तेण होइदि त्ति सम्मत्तमुप्पाइदमिदि भणिदे
अंतोमुहुत्तेण चरिमसमयणेरइयभावेण परिणमिय मिच्छत्तपदेससंतकम्ममुक्कस्सं काहिदि त्ति
एदम्मि अवत्थाविसेसे तिण्णि वि करणाणि कादूण तेण पढमसम्मत्तमुप्पाइदमिदि वुत्तं
होइ । सव्वुक्कस्सियाए पूरणाए सम्मत्तं पूरिदमिदि भणिदे सव्वजहण्णगुणसंकमभाग-
हारेण सव्वुक्कस्सगुणसंकमपूरणकालेण च सम्मत्तमावूरिदमिदि भणिदं होइ । एवं च पूरिदूण
कमेण मिच्छत्तं पडिवण्णस्स पढमसमए चैव पयदुक्कस्ससामित्तं होइ, गाण्णत्थे त्ति
जाणावणट्टमिदं वयणं—‘तदो उवसंतद्वाए पुण्णाए मिच्छत्तमुदीरयमाणस्स’ इच्चादि । एतदुक्कं
भवति, तहा पूरिदसम्मत्तो तेण दव्वेणाविणट्टेणुवसमसम्मत्तकालमंतोमुहुत्तमेत्तमणुपालेऊण
तदवसाणे मिच्छत्तमुदीरयमाणो पढमसमयमिच्छाइडि जादो । तस्स पढमसमयमिच्छाइडिस्स

* जिस गुणितकर्मांशिक सातवीं पृथिवीके नारकीके अन्तर्मुहूर्त वाद, मिथ्यात्वका
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होगा, अतएव जिसने अन्तर्मुहूर्त पहले ही सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सबसे
उत्कृष्ट पूरणाके द्वारा सम्यक्त्वको पूरित किया । तदनन्तर जो उपशमसम्यक्त्वके कालके
पूरा होनेपर मिथ्यात्वकी उदीरणा कर रहा है ऐसे प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके
सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ३६. यहाँ पर ‘गुणितकर्मांशिक’ पदके निर्देश द्वारा अगुणितकर्मांशिका निषेध किया
गया है । ‘सातवीं पृथिवीका नारकी’ इस पदके निर्देश द्वारा भी जो नारकी नहीं हैं या अन्य
पृथिवियोंके नारकी हैं उनका निषेध किया गया जानना चाहिए । ‘मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म
अन्तर्मुहूर्तमे होगा ऐसी अवस्थामे सम्यक्त्वको उत्पन्न किया’ ऐसा कहने पर उससे इस अवस्था-
विशेषमें तीनों ही करणोंको करके उसने प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न किया यह उक्त कथनका तात्पर्य
है । सबसे उत्कृष्ट पूरणाके द्वारा सम्यक्त्वको पूरित किया ऐसा कहनेपर, उससे सबसे जघन्य गुणसंक्रम
भागहार और सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमकालके द्वारा सम्यक्त्वको पूरित किया यह उक्त कथनका
तात्पर्य है । इस प्रकार पूरित करके क्रमसे मिथ्यात्वको प्राप्त हुए उस जीवके प्रथम समयमे ही
प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, अन्यत्र नहीं इस बातका ज्ञान करानेके लिए ‘तदनन्तर उपशम-
सम्यक्त्वके कालके समाप्त होने पर मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाले जीवके’ इत्यादिरूपसे यह
वचन दिया है । उक्त कथनका यह तात्पर्य है कि जो उस प्रकारसे सम्यक्त्वको पूरितकर उस
द्रव्यको नष्ट किये बिना अन्तर्मुहूर्तप्रमाण सम्यक्त्वके कालको पालनकर उसके अन्तमे मिथ्यात्वकी

पयदुकस्ससामित्ताहिसंबंधो ति । किं कारणमेत्थेवुकस्ससामित्तं जादमिदि चे ? सम्मत्तस्स तदवत्थाए मिच्छत्तगुणणिबंधणमधापवत्तसंकमपजाएण सच्चुकस्सएण परिणमणदंसणादो । संपहि एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणडुमुत्तरं सुत्तावयवमाह—

❀ सो वुण अधापवत्तसंकमो ।

§ ३७. सो वुण सामित्तसमयभाविओ अधापवत्तसंकमो चेव, णाण्णो । कुदो एवं चे ? बंधसंबंधाभावे वि सहावदो चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं मिच्छाइड्डिमि अंतोमुहुत्तमेत्तकालमधापवत्तसंकमपवुत्तीए संभववुवगमादो । एदेगुव्वेल्लणचरिमफालीए सामित्तविहाणासंका पडिसिद्धा, अधापवत्तभागहारदो उव्वेल्लणकालभंतरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण्णमत्थरासीए असंखेज्जगुणत्तादो । तं कुदोवगम्मदे ? एदम्हादो चेव सुत्तादो । एत्थ सामित्तविसईक्यदव्वस्स पमाण्णगमे कीरमाणे दिवड्डुगुणहाणिगुणिदुकस्ससमयपवद्धं ठविय ततो गुणसंकमेण सम्मत्तस्सुवरि संकंतदव्वमिच्छामो ति किंचूणचरिमगुणसंकमभागहारो तस्स भागहारत्तेण ठवेयव्वो । पुणो ततो पढमसमयमिच्छाइड्डिणा अधापवत्तेण संकामिददव्वमिच्छामो ति अधापवत्तसंकमभागहारो वि तस्स भागहारत्तेण ठवेयव्वो । एवं

उदीरणा करता हुआ प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हो गया उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका सम्बन्ध होता है ।

शंका—यहीं पर उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त हुआ इसका क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि उस अवस्थामे मिथ्यात्वगुणनिमित्तक सर्वोत्कृष्ट अधःप्रवृत्त संक्रमरूप पर्यायके द्वारा सम्यक्त्वके द्रव्यका मिथ्यात्वरूपसे परिणमन देखा जाता है ।

❀ और वह अधःप्रवृत्तसंक्रम होता है ।

§ ३७. और वह स्वामित्वके समय होनेवाला अधःप्रवृत्तसंक्रम ही है, अन्य नहीं ।

❀ शंका—ऐसा क्यों होता है ?

समाधान—क्योंकि बन्धका सम्बन्ध नहीं होने पर भी स्वभावसे ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें अन्तर्मुहूर्त काल तक अधःप्रवृत्तसंक्रमकी प्रवृत्तिकी सम्भावना स्वीकार की गई है ।

इस द्वारा उद्वेलनाकी अन्तिम फालिकी अपेक्षा स्वामित्वके विधानकी आशंकाका निषेध हो गया, क्योंकि अधःप्रवृत्तभागहारसे उद्वेलनाकालके भीतर नानागुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याम्यस्तराशि असंख्यातगुणी होती है ।

शंका—वह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

यहाँ पर स्वामित्वरूपसे विषय किये गये द्रव्यके प्रमाणका अनुगम करने पर डेढ़ गुणहानिसे गुणित उत्कृष्ट समयप्रवृद्धको स्थापित कर उससे गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्वके ऊपर संक्रान्त हुए द्रव्यकी इच्छासे कुछ कम अन्तिम गुणसंक्रम भागहारको उसके भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए । पुनः उससे प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा अधःप्रवृत्तके द्वारा संक्रम कराये

ठविदे पयदुकस्ससामित्तविसईकयदव्वमागच्छदि । एवं सम्मत्तस्स सामित्ताणुगमं कादूण
संपहि सम्मामिच्छत्तस्स सामित्तविहासणडुमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ३८. सुगमं ।

❀ जेण मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसग्गं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं तेणेव
जाधे सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते संपक्खित्तं ताधे तस्स सम्मामिच्छत्तस्स
उक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ३९. एदस्स सामित्तसुत्तस्सावयवत्थपरूवणा सुगमा त्ति समुदायत्थविवरणमेव
कस्सामो । तं जहा—जेण गुणित्कम्मंसिएण मणुसगइमागंतूण सव्वलहुं दंसणमोह-
क्खवणाए अंबुद्धिदेण जहाकममधापवत्तापुव्वकरणाणिवोलिय अपियट्टिकरणद्वाए संखेज्जदि-
भागसेसे मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेसग्गं सगासंखे०भागभूदगुणसेट्ठिणिज्जरासहिदगुणसंकमदव्व-
परिहीणं सव्वसंकमेण सम्मामिच्छत्ते संपक्खित्तं तेणेव मिच्छत्तुक्कस्सपदेससंकमसामिएण जाधे
सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते पक्खित्तं ताधे तस्स सम्मामिच्छत्तविसयो उक्कस्सओ पदेससंकमो होइ
त्ति एसो सुत्तत्थसंगहो ।

❀ अणंताणुबंधीणमुक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

द्रव्यकी इच्छासे उसके भागहाररूपसे अधःप्रवृत्तसंक्रम भागहारको भी स्थापित करना चाहिए ।
इस प्रकार स्थापित करने पर प्रकृत स्वामित्वका विषयभूत द्रव्य आता है । इस प्रकार सम्यक्त्वके
स्वामित्वका अनुगम करके अब सम्यग्मिथ्यात्वके स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र
कहते हैं—

* सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ३८. यह सूत्र सुगम है ।

* जिसने मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रको सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त किया वही जब
सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त करता है तब उसके सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेश-
संक्रम होता है ।

§ ३९. इस स्वामित्वसूत्रकी अर्थप्ररूपणा सुगम है, इसलिए समुदायरूप अर्थका विवरण ही
करते हैं । यथा—जिस गुणितकर्मांशिक जीवने मनुष्यगतिमें आकर अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी
क्षणाके लिए उद्यत होकर क्रमसे अधःप्रवृत्त और अपूर्वकरणको वितारकर अनिष्टिकरणके
संख्यातवें भागके शेष रहने पर अपने असंख्यातवें भागरूप गुणिश्रेणि निर्जरासहित गुणसंक्रम
द्रव्यसे हीन मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रको सर्वसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रक्षिप्त किया ।
तथा मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामी वही जीव जब सम्यग्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त
करता है तब उसके सम्यग्मिथ्यात्वविषयक उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । इस प्रकार यह सूत्रार्थ-
संग्रह है ।

* अनन्तानुबन्धियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ४० सुगमं ।

❀ सो चैव सत्तमाए पुढवीए णेरइयो गुणिदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेणएव तेसि चैव उक्कस्सपदेससंतकम्मं होहिदि त्ति उक्कस्सजोगेण उक्कस्ससंकिलेसेण च णोदो, तदो तेण रहस्सकाले सेसे सम्मत्तमुप्पाइयं । पुणो सो चैव सव्वलहुमणांताणुबंधीयां विसंजोएदुमाढत्तो तस्स चरिमट्टिदिखंडयं चरिम-समयसंखुहमाणयस्स तेसिमुक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ४१. एदस्स सुत्तस्स अत्यपरूवणं कस्सामो । तं जहा—सो चैवाणंतरपरूविद-लक्खणो सत्तमपुढवीए णेरइओ गुणिदकम्मंसिओ पयदकम्माणमुक्कस्सपदेससंकमसामिओ होइ त्ति सुत्तत्थसंबंधो । सो वुण कदमम्मि अवत्थाविसेसे कदरेण वावारविसेसेण परिणदो पयदुक्कस्ससंकमसामित्तमल्लियदि त्ति आसंकाए इदमुत्तरं 'अंतोमुहुत्तेण' इच्चादि । अंतो-मुहुत्तेण णेरइयचरिमसमयम्मि तेसि चैव अणंताणुबंधीणमोघुक्कस्सयं पदेससंतकम्मं होहिदि त्ति एदम्मि अंतरे जहासंभवमुक्कस्सजोगेणुक्कस्ससंकिलेससहगदेण परिणदो त्ति भणिदं होइ । किमट्टमेसो उक्कस्सजोगमुक्कस्ससंकिलेसं वा णिज्जदे ? ण, बंधेण बहुपोगलगाहणदं बहुदव्वु-कड्डणणिमित्तं च तहा करणादो । तदो तेण रहस्सकालेण सम्मत्तमुप्पाइदमिच्चादि सुत्तावयव-

§ ४०. यह सूत्र सुगम है ।

* उसी सातवीं पृथिवीके गुणितकर्माशिक नारकीके अन्तर्मुहूर्तकालके द्वारा उन्हीं अनन्तानुबन्धियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होगा । किन्तु अन्तर्मुहूर्त पहले ही वह उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेशसे परिणत हुआ । अनन्तर उसने स्वल्प काल शेष रहनेपर सम्यक्त्वको उत्पन्न किया । पुनः वही अतिशीघ्र अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करनेके लिए उद्यत हुआ उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रम करते समय अनन्तानुबन्धियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ४१. इस सूत्रके अर्थका कथन करते हैं । यथा—वही पहले कहे गये लक्षणवाला सातवीं पृथिवीका गुणितकर्माशिक नारकी जीव प्रकृत कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामी है इस प्रकार सूत्रार्थका सम्बन्ध है । परन्तु वह किस अवस्थाविशेषमें किस व्यापार विशेषसे परिणत होकर प्रकृत उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके स्वामित्वको प्राप्त करता है ऐसी आशंका होनेपर यह उत्तर है—'अन्तर्मुहूर्तके द्वारा' इत्यादि । अन्तर्मुहूर्तके द्वारा नारकियोंके अन्तिम समयमें उन्हीं अनन्तानुबन्धियोंका श्रेष्ठ उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होगा कि इसी बीच यथासम्भव उत्कृष्ट संक्लेशके साथ प्राप्त हुए उत्कृष्ट योगसे परिणत हुआ यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यह उत्कृष्ट योग और उत्कृष्ट संक्लेशको किसलिए प्राप्त कराया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बन्धके द्वारा बहुत पुद्गलोंका ग्रहण करनेके लिए और बहुत पुद्गलोंका उत्कर्षण करनेके लिए उस प्रकार कराया गया है ।

कलावेण संकिलेसादो णियत्तिदूण विसोहिसमावरणेण पढमसम्मत्तमुप्पाइय त्कालब्भंतरे चेव अणंताणुबंधिविसंओयणाए परिणदो त्ति जाणाविदं, अण्णहा पयदुक्कस्ससामित्तविहाणाणुव-
वत्तीदो । एवं विसंजोएमाणस्स तस्स गेरइयस्स चरिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स
तेसिमणंताणुबंधीणमुक्कस्सओ पदेससंकमो होदि, तत्थ सव्वसंकमेणाणंताणुबंधिव्वस्स
कम्मट्टिदिअब्भंतरसंगलिदस्स थोवूणस्स सेसकसायाणमुवरि संकमंतस्सुकस्सभावसिद्धीए
विरोहाभावादो ।

❀ अट्टएहं कसायाणमुक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ४२. सुगमं ।

❀ गुणितकम्मंसिओ सव्वलहुं मणुसगइमागदो, अट्टवस्सिओ
खवणाए अब्भुट्टिदो, तदो अट्टएहं कसायाणमपच्छिमट्टिदिखंडयं चरिमसमय-
संछुहमाणयस्स तस्स अट्टएहं कसायाणमुक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ४३. गयत्थमेदं सुत्तं । एवमट्टकसायाणं सामित्तविणिण्णयं कादूण छण्णोकसायाणं
पि एसो चेव सामित्तालावो कायव्वो, विसेसाभावादो त्ति पदुप्पायणट्टमप्पणासुत्तं भणइ—

❀ एवं छण्णोकसायाणं ।

§ ४४. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

‘तदो तेण रहस्सकालेण सम्मत्तमुप्पाइदं’ इत्यादि रूपसे जो सूत्र वचनकलाप कहा है सो उस द्वारा संक्लेशसे निवृत्त होकर विशुद्धिको पूरित करनेके साथ सम्यक्त्वको उत्पन्न कर उस कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनासे परिणत हुआ यह ज्ञान कराया गया है, अन्यथा प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता । इस प्रकार विसंयोजना करनेवाले उस नारकीके अन्तिम स्थितिकाण्डकको संक्रमित करनेके अन्तिम समयमें उन अनन्तानुबन्धियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर कर्मस्थितिके भीतर गल कर थोड़े कम हुए तथा शेष कपायोंके ऊपर संक्रमण करते हुए अनन्तानुबन्धीके द्रव्यके उत्कृष्टभावकी सिद्धिमें विरोध नहीं आता ।

* आठ कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ४२. यह सूत्र सुगम है ।

* कोई गुणितकर्मांशिक जीव अतिशीघ्र मनुष्यगतिमें आया । तथा आठ वर्षका होकर क्षणके लिए उद्यत हुआ । अनन्तर आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रम करते हुए उसके आठ कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ४३. यह सूत्र गतार्थ है । इस प्रकार आठ कपायोंके स्वामित्वका निर्णय करके छह नोकपायोंका भी इसी प्रकार स्वामित्वालाप करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई अन्य विशेषता नहीं है इस प्रकार कथन करनेके लिए अर्पणासूत्रको कहते कहते हैं—

* इसी प्रकार छह नोकपायोंका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ४४. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

❀ इत्थिवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ४५. सुगमं ।

❀ गुण्णिकम्मंसिओ असंखेज्जवस्साउएसु इत्थिवेदं पूरेदूण तदो कमेण पूरिदकम्मंसिओ खवणाए अब्भुड्ढिदो, तदो चरिमड्ढिदिखंबयं चरिमसामय-संछुहमाणयस्स तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ४६. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । तं जहा—गुण्णिकम्मंसिओ पल्लिदोवमस्सा-संखेज्जदिभागमेत्तकालेणणियं कम्मड्ढिदिं वादरपुढविजीवेसु तसकाइएसु च समयाविरोहेणाणु-पालेऊण तदो असंखेज्जवस्साउएसु पल्लिदोवमस्सासंखेज्जदिभागमेत्ताउड्ढिदीए समुप्पज्जिऊण तत्थ णवुंसयवेदवंधवोच्छेदं कादूण तत्थ वंधगद्वाए संखेज्जे भागे इत्थिवेदवंधगद्दं पवेसिय वंधगद्दामाहपेणित्थिवेददव्वं पूरेमाणो गच्छदि जाव सगाउड्ढिदिचरिमसमयो ति । एवमित्थि-वेददव्वमुक्कस्सं करिय तत्थेव कम्मड्ढिदिं समाणिय तत्तो णिस्सरिऊण दसवस्ससहस्साउएसु देवेसुववणो । तत्थ सम्मत्तं घेत्तण सगाउड्ढिदिमणुपालिय तत्तो चुदो मणुसेसुववणो । एवमित्थिवेदं पूरेदूण मणुसेसुववणस्स खवयचरिमफालीए सामित्तविहाणड्ढिमिदं वयणं—‘तदो कमेण पूरिदकम्मंसिओ’ इच्चादि । एत्थ संचयाणुगमे विहत्तिभंगो-। णवरि दिवड्ढुगुणहाणीणं संखेज्जाभागमेत्तित्थिवेदुक्कस्ससंचयदव्वं थोवूणमेत्थ सामित्तविसयीकयदव्वमिदि घेत्तव्वं,

❀ स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ४५. यह सूत्र सुगम है ।

❀ कोई गुणितकर्मांशिक जीव असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें स्त्रीवेदको पूरण करके अनन्तर क्रमसे पूरित कर्मांशिक होकर क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । अनन्तर अन्तिम स्थिति-काण्डकको अन्तिम समयमें संक्रमित करनेवाले उस जीवके स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ४६ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा - कोई एक गुणितकर्मांशिक जीव पल्यके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण कालसे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कालको वादर पृथिवी जीवोंमें और त्रस-कायिकोंमें समयके अविरोधपूर्वक विताकर अनन्तर, असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें पल्यके असंख्यातवर्षे भागप्रमाण आयुस्थितिके साथ उत्पन्न होकर पश्चात् वहाँ पर नपुंसकवेदकी बन्धव्युच्छित्ति करके तथा उस बन्धव्युच्छित्तके संख्यात बहुभागको स्त्रीवेदके बन्धककालमें प्रवेश कराके बन्धककालके माहात्म्य-वशा स्त्रीवेदके द्रव्यको पूरण करता हुआ अपनी आयुस्थितिके अन्तिम समयको प्राप्त होता है । इस प्रकार स्त्रीवेदके द्रव्यको उत्कृष्ट करके और वहाँ पर कर्मस्थितिको समाप्तकर वहाँसे निकल कर दस हजार वर्षकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ । पश्चात् वहाँ पर सम्यक्त्वको ग्रहणकर और अपनी आयुस्थितिका पालनकर वहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार स्त्रीवेदको पूरण करके मनुष्योंमें उत्पन्न हुए उस जीवके क्षपकसम्बन्धी स्त्रीवेदकी अन्तिम फालिमे स्वामित्वका विधान करनेके लिए यह वचन आया है—‘तदो कमेण पूरिदकम्मंसिओ’ इत्यादि । यहाँ पर सञ्चयका अनुगम करने पर उनका भद्र अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि डेढ़ गुण-दानियोंके कुछ कम संख्यात बहुभागप्रमाण स्त्रीवेदका उत्कृष्ट सञ्चयद्रव्य यहाँ पर स्वामित्वका विषय

अधद्विदिगलणाए गुणसेठिणिज्जराए गुणसंकमेण च गदासेसदव्वस्स तदसंखेज्जादिभाग-
पमाणत्तादो ।

❀ पुरिसवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ४७. सुगमं ।

❀ गुणिदकम्मंसिओ इत्थि-पुरिस-एवुंसयवेदे पूरेदूण तदो सव्वलहं
खवणाए अब्भुड्ढिदो पुरिसवेदस्स अपच्छिम्मद्विद्विखंडयं चरिअसमयसंछुह-
माणयस्स तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ४८. एदस्स सुत्तस्सत्थे भण्णमाणे विहत्तिसामित्तसुत्ताणुसारेण वत्तव्वं, तिवेद-
पूरिदकम्मंसियम्मि सामित्तविहाणं पडि ततो एदस्स विसेसाभावादो । णवरि णवुंसयवेदं
पक्खिविदूण जम्मि इत्थिवेदो पुरिसवेदस्सुवरि पक्खित्तो तदवत्थाए विहत्तिसामित्तं जादं ।
एत्थ पुण णवुंसय-इत्थिवेदसव्वसंकमं पडिच्छिऊणंतोमुहुत्तादीदेण जम्मि समए पुरिसवेद-
चरिमफाली सव्वसंकमेण छण्णोकस एहि सह कोहसंजलणे पक्खित्ता ताधे पुरिसवेदुक्कस्स-
पदेससंकमसामित्तमिदि एसो एत्थतणो विसेसो । जण्णं च परोदएणेव सामित्तमेत्थ गहेयव्वं,
सोदएण दीहयरपठमद्विदिम्मि गुणसेठीए बहुदव्वहाणिप्पसंगादो ।

❀ एवुंसयवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

किया गया द्रव्य है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अधःस्थितिगलना, गुणश्रेणिनिर्जरा और गुणसंक्रमके द्वारा गया हुआ समस्त द्रव्य उसके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है ।

* पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ४७. यह सूत्र सुगम है ।

* कोई एक गुणितकर्मांशिक जीव स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदको पूरण करके अनन्तर अतिशीघ्र क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । पुनः पुरुषवेदके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रम करनेवाले उस जीवके पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ४८ इस सूत्रके अर्थका कथन करने पर वह अनुभागविभक्तिके स्वामित्वसूत्रके अनुसार कहना चाहिये, क्योंकि जिसने तीन वेदोंको पूरण किया है ऐसा कर्मांशिक जीव स्वामी है इस दृष्टिसे उससे इसमें कोई भेद नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदको संक्रमित कराके जहाँ स्त्रीवेद पुरुषवेदके ऊपर प्रक्षिप्त होता है उस अवस्थामे अनुभागविभक्तिसम्बन्धी स्वामित्व प्राप्त हुआ है । परन्तु यहाँ पर नपुंसकवेद और स्त्रीवेदका सर्वसंक्रम करके अन्तर्मुहूर्तके बाद जिस समय पुरुषवेदकी अन्तिम फालि सर्वसंक्रमके द्वारा छह नोकपायोंके साथ क्रोधसंज्वलनमे प्रक्षिप्त होती है उस समय पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामित्व होता है इतनी यहाँ पर विशेषता है । दूसरी विशेषता यह है कि यहाँ पर परोदयसे ही स्वामित्व ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्वोदयसे प्रथम स्थितिके अपेक्षाकृत बड़ी होनेपर गुणश्रेणिके द्वारा बहुत द्रव्यकी हानिका प्रसङ्ग आता है ।

* नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ४६. सुगमं ।

❀ गुणितकर्मसिञ्चो ईसाणादो आगदो सव्वलहुं खवेदुमाढत्तो, तदो एवुंसयवेदस्स अपच्छिमडिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स एवुंसयवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ५०. जो गुणितकर्मसिञ्चो जाव सकं ताव ईसाणदेवेसु चैव णवुंसयवेदकम्मं गुणेदूण तत्थेव कम्मडिदिं समाणिय तत्तो चुदो संतो मणुसेसुप्यज्जिय सव्वलहुमडुवस्साण-मंतोमुहुत्ताहियाणमुवा खवगसेढिमारुहिय अपियडिकरणद्वाए संखेज्जेसु भागेषु समइकंतेसु णवुंसयवेदस्सापच्छिमडिदिखंडयं पुरिसवेदस्सुवरि सव्वसंकमेण संछुहमाणयस्स तस्स दिवडुगुणहाणिमेत्तगुणितसमयपवद्वाणं संखेज्जे भागे धेत्तण णवुंसयवेदस्स उक्कस्सओ पदेस-संकमो होइ ति एसो एत्थ सुत्तत्थसंगहो । एत्थ वि परीदएणेव सामित्तं दायव्वं, सोदएण पढमडिदीए गुणसेढिसरूवेण गलमाणवहुदव्वपरिरक्खणहं ।

❀ कोहसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ५१. सुगमं ।

❀ जेण पुरिसवेदो उक्कस्सओ संछुद्धो कोधे तेणेव जाधे माणे कोधो सव्वसंकमेण संछुभदि ताधे तस्स कोधस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ४६. यह सूत्र सुगम है ।

* कोई एक गुणितकर्मांशिक जीव ईशान कल्पसे आकर अतिशीघ्र क्षय करनेके लिए उद्यत हुआ । अनन्तर नपुंसकवेदके अन्तिम स्थितिकाण्डकको अन्तिम समयमें संक्रमित करनेवाले उसके नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ५०. जो गुणितकर्मांशिक जीव जब तक शक्य हो तब तक ईशानकल्पके देवोंमें ही नपुंसक-वेदकर्मको गुणित करके तथा वहीं पर कर्मस्थितिको समाप्त करके वहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । पुनः अतिशीघ्र अन्तर्मुहूर्त अधिक आठ वर्षके बाद क्षयकश्रंणपर आरोहण करके अनिष्टित्तिकरणके कालमेंसे संख्यात बहुभागके व्यतीत होने पर नपुंसकवेदके अन्तिम स्थितिकाण्डकको पुरुषवेदके उपर सर्वसंक्रमके द्वारा संक्रमित करता है उसके डेढ़ गुणहानिगुणित समयप्रवद्धोंके संख्यात बहुभागको ग्रहण कर नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है इस प्रकार यह यहाँ पर सूत्रार्थसंग्रह है । यहाँ पर भी परोदयमें ही स्वामित्व देना चाहिए, क्योंकि स्वोदयसे प्रथम स्थितिके गुणश्रेणिरूप होनेके कारण बहुत द्रव्यका गलन सम्भव है, अतः उसकी रक्षा करना आवश्यक है ।

* क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ५१. यह सूत्र सुगम है ।

* जिसने उत्कृष्ट पुरुषवेदको क्रोधमें संक्रमित किया है वही जीव जब क्रोधको सर्वसंक्रमके द्वारा मानमें संक्रमित करता है तब उसके क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ५२. जेण तिण्हं वेदाणं पूरिदकम्मंसिएण पुरिसवेदो उक्कस्सओ कोहसंजलणे संछुद्धो तेणेव ततो अंतोमुहुत्तमुवरि गंतूण जाधे कोधसंजलणणो सव्वसंक्रमेण माणसंजलणे संछुब्भदे ताधे तस्स जीवस्स कोहसंजलणविसयो उक्कस्सओ य एस संकमो होइ ति सुत्तत्थसंबंधो । परोदएणेव सामित्तावहारणमेत्थ वि कायव्वं; सोदएण सामित्तविहाणे पढमट्टिदीए बहुदव्वहाणिप्पसंगादो । एवं कोहसंजलणस्स सामित्तपरूवणं कादूण संपहि माण-माया-संजलणाणं पि एसो चेव सामित्तालावो थोवयरविसेसाणुविद्धो कायव्वो ति पटुप्पायणट्ठ-मुत्तरसुत्तदयमाह—

❀ एदस्स चेव माणसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कायव्वो । एवरि जाधे माणसंजलणो मायासंजलणे संछुब्भइ ताधे ।

❀ एदस्स चेव माया- संजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कायव्वो । एवरि जाधे मायासंजलणो लोभसंजलणे संछुब्भइ ताधे ।

§ ५३. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । एवरि माया-लोहोदएहि वड्ढिदस्स माणसंजलणसामित्तं वत्तव्वं । लोभोदएणेव सेट्टिमारूढस्स मायासंजलणसामित्तं होइ ति दट्ठव्वं ।

❀ लोभसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ५२. तीन वेदोंके कर्माशको पूरित कर जिसने उत्कृष्ट पुरुषवेदको क्रोधसंज्वलनमे संक्रमित किया है वही जब वहाँसे अन्तर्मुहूत आगे जाकर क्रोधसंज्वलनको सर्वसंक्रमके द्वारा मानसंज्वलनमें संक्रमित करता है तब उस जीवके क्रोधसंज्वलनविषयक यह उत्कृष्ट संक्रम होता है इस प्रकार यह सूत्रार्थसम्बन्ध है । यहाँ पर भी परोदयसे ही स्वामित्वका निश्चय करना चाहिए, क्योंकि स्वोदयसे स्वामित्वका कथन करने पर प्रथम स्थितिके द्वारा बहुत द्रव्यकी हानिका प्रसङ्ग आता है । इस प्रकार क्रोधसंज्वलनके स्वामित्वका कथन करके अब मान और मायासंज्वलनका भी यही स्वामित्वसम्बन्धी आलाप अपेक्षाकृत थोड़ी विशेषताको लिए हुए करना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके दो सूत्र कहते हैं—

* इसी जीवके मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि जब मानसंज्वलन मायासंज्वलनमें प्रक्षिप्त होता है उस समय मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

* तथा इसी जीवके मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि जब मायासंज्वलन लोभसंज्वलनमें संक्रमित होता है तब मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ५३. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । इतनी विशेषता है कि माया और लोभके उदयसे श्रेणि पर आरोहण करनेवाले जीवके मानसंज्वलनका स्वामित्व कहना चाहिए । तथा मात्र लोभके उदयसे श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके मायासंज्वलनका स्वामित्व होता है ऐसा जानना चाहिए ।

* लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ५४. सुगमं ।

❁ गुणितकर्मसिञ्चो सञ्चलहुं खवणाए अब्भुद्धिदो अंतरं से काले कादूण लोहस्स असंक्रामगो होहिदि त्ति तस्स लोहस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो ।

§ ५५. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे । तं जहा—जो गुणितकर्मसिञ्चो सत्तमपुठवीए दव्वमुक्कस्सं कादूण समयाविरोहेण मणुसगइमागंतूण तत्थ तप्पाओग्गसंखेज्जवस्समेत्तदो-मणुसभवग्गहणेसु चत्तारि वारे कसाए उवसामेज्जण तदो सञ्चलहुं खवणाए अब्भुद्धिदो तस्स अणियद्धिक्करणं पविद्धस्स अंतरकरणं कादूण से काले लोहस्सासंक्रामगो होहिदि त्ति एदम्मि अवत्थाविसेसे वट्टमाणस्स लोहसंजलणपदेससंकमो उत्तस्सओ होइ, अथापवत्तसंकमेण तत्थ दिव्वहुगुणहाणिमेत्तगुणितकर्मसियसमयपवट्टाणमसंखेज्जदिभागस्स सेससंजलणाणमु वरि संकंतिदंसणादो । किमट्टमेसो चत्तारि वारे कसायोवसामणाए पयट्टाविदो ? ण, तत्था-वज्जमाणणवुंसयवेदारइ-सोगादिपयडीणं गुणसंकमदव्वपडिग्गहणहुं तहाकरणादो । तं कथ-मेदेण सुत्तेणाणुवइट्टमेदं चदुक्खुत्तो कसायाणमुवसामणं लब्भदे ? ण, वक्खाणादो तदुवलद्वीए उवरि भणिस्समाणुक्कस्सवट्टिसामित्तसुत्तत्रलेण च तदवगमादो ।

§ ५४. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव क्षपणाके लिए उद्यत हो करके तदनन्तर समयमें लोभका असंक्रामक हो जायगा उसके इस अवस्थामें रहते हुए लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रम होता है ।

§ ५५. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—जो गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीमें उत्कृष्ट द्रव्य करके समयके अविरोधपूर्वक मनुष्य गतिमें आकर और वहाँ पर तत्प्रायोग्य संख्यात वर्षप्रमाण कालके भीतर दो मनुष्यभवोंको ग्रहण करके उनमें रहते हुए चार वार कपायोंका उपशम करके अनन्तर अतिशीघ्र क्षपणाके लिए उद्यत हो तथा अनिवृत्तिकरणमें प्रवेशपूर्वक अन्तरकरण करके अनन्तर समयमें लोभका असंक्रामक होगा उसके इस विशेष अवस्थामें रहते हुए लोभ-संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर अध प्रवृत्तसंकमके द्वारा डेढ़ गुणहानिगुणित सत्कर्मरूप समयप्रवृत्तोंके असंख्यातवै भागका शेष संज्वलनोंके ऊपर संक्रम देखा जाता है ।

शंका—इसे चार वार कपायोंकी उपशामनारूपसे किसलिए प्रवृत्त कराया है ।

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ पर नहीं बँधनेवाली नपुंसकवेद, अरति और शोक आदि प्रकृतियोंके गुणसंकमके द्वारा द्रव्यको ग्रहण करनेके लिए बैसा किया है ।

शंका—उस सूत्रमें तो यह बात नहीं कही गई है फिर यह चार वार कपायोंकी उपशामना कैसे प्राप्त होनी है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एक तो व्याख्यानसे उसकी उपलब्धि होती है । दूसरे आगे कहे जानेवाले उत्कृष्ट वृद्धिसम्बन्धी स्वामित्वविषयक सूत्रके बलसे इसका ज्ञान होता है ।

§ ५६. एवमोघेण सव्वकम्माणमुक्कस्ससामित्तविणिण्णयं सुत्ताणुसारेण कादूण एत्तो एदेण सुत्तेण सूचिदादेसपरूवणद्धु^१मुच्चारणागंथमिहाणुवत्तइस्सामो । तं जहा—सामित्तं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सयं च । उक्क० पयदं । दुविहो णिदेसो । ओघं मूलगंथसिद्धं । आदेसेण शेरइय० मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदेससंकमो कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्मं सियस्स जो अंतोमुहुत्तमोसकिऊण सम्मत्तं पडिवज्जिय गुणसंकमेण सव्वुकस्सियाए पूरणाए पूरिदो से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो । सम्मत्त० सो चैव आलावो कायव्वो । णवरि विज्झादं पडिदूणंतोमुहुत्तेण मिच्छत्तं गदो तस्स पढमसमयमिच्छादिट्ठिस्स उक्कस्सपदेससंकमो । जइ एवं, सम्मामिच्छत्तस्स वि सम्मत्तेण सह सामित्तणिदेसो कायव्वो, अंगुलस्सासंखेज्जदिभागपडिभागियविज्झादगुणसंकमादो अथापवत्तसंकमदव्वस्सासंखेज्ज-गुणत्तदंसणादो त्ति । सच्चमेदं, जइ सम्मामिच्छत्तविसए विज्झादगुणसंकमो अंगुलस्सासंखेज्ज-भागपडिभागिओ त्ति एत्थ विवक्खिओ होज्ज । णवरि ण तहाविहो एत्थ उच्चारणाहिप्पायो । किंतु मिच्छत्तस्सेव पलिदो० असंखे०भागमेत्तो सम्मामिच्छत्तगुणसंकमभागहारो त्ति एवंविहो उच्चारणाहिप्पाओ, अथापवत्तसंकमपरिहारेण तव्विसयसामित्तविहाणण्णहाणुववत्तीदो ।

§ ५६. इस प्रकार सूत्रानुसार ओघसे सब कर्मोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्णय करके आगे इस सूत्रसे सूचित हुए आदेशका कथन करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाग्रन्थको बतलाते हैं । यथा— स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है । ओघनिर्देश मूलग्रन्थसे सिद्ध है । आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्त बाद सम्यक्त्वको प्राप्तकर गुणसंक्रमके द्वारा सबसे उत्कृष्ट पूरणाके रूपसे पूरित हो अनन्तर समयमें विध्यातसंक्रमको प्राप्त होगा उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । सम्यक्त्व प्रकृतिका वही आलाप करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि विध्यातसंक्रमको प्राप्त कर जो अन्तर्मुहूर्तमें मिथ्यात्वमें गया उस प्रथम समयवता मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

शंका—यदि ऐसा है तो सम्यग्मिथ्यात्वके भी स्वामित्वका निर्देश सम्यक्त्वके साथ करनी चाहिए, क्योंकि अङ्गलके असंख्यातवें भागरूपसे प्रतिभागको प्राप्त हुए विध्यातसंक्रम और गुणसंक्रमसे अधःप्रवृत्तसंक्रमका द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है ?

समाधान—यह सत्य है, यदि सम्यग्मिथ्यात्वके विषयमें विध्यातसंक्रम और गुणसंक्रम यहाँ पर अङ्गलके असंख्यातवें भागका प्रतिभागी विवक्षित होता । परन्तु उस प्रकारका यहाँ पर उच्चारणाका अभिप्राय नहीं है । किन्तु मिथ्यात्वके समान पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण सम्यग्मिथ्यात्वका गुणसंक्रमभागहार है इस तरह इस प्रकारका उच्चारणाका अभिप्राय है, क्योंकि अन्यथा अधःप्रवृत्तसंक्रमके परिहार द्वारा तद्विषयक स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता । चूर्णिसूत्रके

चुण्णिसुत्ताहिप्पाएण पुण सम्मामिच्छत्तविसयविज्झादगुणसंकमभागहारो अंगुलस्सासंखेज्ज-
भागमेत्तो, उवरि भणिसस्साणुकस्सहा सिमित्तमुत्तवलेण तहाभूदाहिप्पायसिद्धीदो । तम्हा
दोण्हमेदेसिमहिप्पायाणं थप्पभावेण वक्खणं कायव्वं । सोलसक०—उण्णोक० उक० पदेस-
संकम० कस्स ? अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स जो अंतोमुहुत्तकम्मं गुणेहिदि त्ति सम्मत्तं
पडिवण्णो । पुणो अणंताणु०चउकं विसंजोएदि तस्स विसंजोएतस्स चरिमट्ठिदिखंडयं
चरिमसमयसंकामयस्स उक० पदे०संक० । तिण्हं वेदाणमुक० पदे०संक० कस्स ?
अण्णद० जो पूरिदकम्मंसिओ गोरइएसु उववण्णो अंतोमु० सम्मत्तं पडिवण्णो, पुणो
अणंताणु०चउकं विसंजोएदि तस्स चरिमट्ठिदिखंडयचरिमसमयसंकामयस्स उक०
पदे०संक० । एत्थ विज्झादसंकमेणित्थि-एवुंसयवेदाणमुकस्ससामित्तविहाणे उच्चारणा-
हिप्पाओ जाणिय वत्तव्वो, अण्णहा मिच्छइट्ठिमि अधापवत्तसंकमेण तदुकस्ससामित्ते
लाहदंसणादो । एवं सत्तमाए ।

§ ५७. पढमाए जाव छट्ठि त्ति मिच्छ०-सम्मामि० उक० पदेससंक० कस्स ?
अण्णद० जो गुणिदकम्मंसिओ संखेज्जतिरियभवे अदिच्च अप्पणो गोरइएसुववण्णो
अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो, सब्बुकस्सियाए पूरणद्वाए पूरिदूण से काले विज्झादं पडिहिदि
त्ति तस्स उक० पदे०संक० । सम्मत्त० सो चेवालावो । णवरि विज्झादं पडिदूण अंतोमु०

अभिप्रायसे तो सम्यग्मिथ्यात्वविषयक विध्यात और गुणसंक्रम भागहार अङ्गुलके असंख्यातवें
भागप्रमाण हैं, क्योंकि ऊपर कहे जानेवाले उत्कृष्ट हानिसम्बन्धी स्वामित्वविषयक सूत्रके बलसे उस
प्रकारके अभिप्रायकी सिद्धि होती है, इसलिए इन दोनों ही अभिप्रायोंको स्थापित करके व्याख्यान
करना चाहिए ।

सोलह कपाय और छह नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर गुणित-
कर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्तमें कर्मोंको गुणितकर्मांशिक करेगा । किन्तु इसी बीच सम्यक्त्वको प्राप्त
हो अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उस विसंयोजना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थिति-
काण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । तीन वेदोंका उत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर पूरितकर्मांशिक जीव नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त-
में सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः जो अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम
स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । यहाँ पर
विध्यातसंक्रमके द्वारा स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करने पर उच्चारणाका
अभिप्राय जानकर कहना चाहिए, अन्यथा मिथ्यादृष्टि जीवमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा उनके उत्कृष्ट
स्वामित्वके प्राप्त करनेमें लाभ देखा जाता है । उसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए ।

§ ५७. पहिलीसे लेकर छट्टी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव संख्यात तिर्यञ्चभवोंको उल्लंघन
कर अपने अपने नारकियोंमें उत्पन्न हो अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । अनन्तर सबसे
उत्कृष्ट पूरणकालके द्वारा पूरण करके अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेगा उसके उत्कृष्ट प्रदेश-
संक्रम होता है । सम्यक्त्वका वही आलाप है । इतनी विशेषता है कि विध्यातको प्राप्त करके अन्त-

मिच्छत्तं गदो तस्स पढमसमयमिच्छादिट्टिस्स उक्क० पदे०संक० । सो वुण अधापवत्तसंकमो । सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदे०संक० कस्स ? जो गुणिट्कम्मंसिओ संखेज्जतिरियभवे कादूण पयदणोरइएसु उववण्णो, अंतोसु० सम्मत्तं पडिवण्णो । पुणो अणंताणु०चउक्कं विसंजोएदि तस्स चरिमे ट्टिदिखंडए चरिमसमयसंकाभयस्स उक्क० पदे०संक० । तिण्हं वेदाणं णारयभंगो ।

§ ५८. तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्खतिय०३ मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे०संक० कस्स ? जो गुणिट्कम्मंसिओ संखेज्जतिरियभवं कादूणप्पणो तिरिक्खेसु उववण्णो, सच्चलहुं सम्मत्तं पडिवज्जिय सच्चुकस्सियाए गुणसंकमद्वाए पूरेदूण से काले विज्झादं पडिहिदि त्ति तस्स उक्क० पदे०संक० । सम्मत्तस्स सो चेव उवसंतद्वाए पुण्णाए मिच्छत्तं पडिवण्णो तस्स पढमसमयमिच्छादिट्टिस्स सम्मत्त० उक्क० पदे०संक० । सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० जो गुणिट्कम्मंसि० अप्पणो तिरिक्खेसु उववण्णो सच्चलहुं सम्मत्तं पडिवण्णो, पुणो अणंताणुबंधिचउक्कं विसंजोएदि तस्स चरिमे ट्टिदिखंडए चरिम-समयसंकाभंत० तस्स उक्क० पदे०संक० । पुरिसवे०-णवुंस० णारयभंगो । णवरि अप्पणो तिरिक्खेसुवज्जावेयव्यो । इत्थिवेद० उक्क० पदे०संक० कस्स ? जो गुणिट्कम्मंसि० अप्पणो तिरिक्खेसु असंखेज्जवस्साउएसु उववज्जिदूण पलिदो० असंखे०भागेण कालेण

मुहूर्तमे मिथ्यात्वमे गया उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । और वह अधःप्रवृत्तसंक्रम होता है । सोलह कपाय और छह नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव संख्यात तिर्यञ्चभवोंको करके प्रकृत नारकियोंमे उत्पन्न हो अन्तमुहूर्तमे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः जो अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका संक्रम करनेके अन्तिम समयमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । तीन वेदोंका भङ्ग नारकियोंके समान है ।

§ ५८. सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकपे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव तिर्यञ्चोंके संख्यात भवोंको करके अपने अपने तिर्यञ्चोंमे उत्पन्न हो अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्तकर सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रम कालके द्वारा पूरण करके अनन्तर समयमें विध्यातसंक्रमको प्राप्त करेगा उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । सम्यक्त्वका वही आलाप है । किन्तु जो उपशमसम्यक्त्वके कालको पूराकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । सोलह कपाय और छह नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर गुणितकर्मांशिक जीव अपने अपने तिर्यञ्चोंमे उत्पन्न हो, अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्तकर अनन्तर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकके संक्रम करनेके अन्तिम समयमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके स्वामित्वका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अपने अपने तिर्यञ्चोंमे उत्पन्न कराना चाहिए । स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव अपने अपने असंख्यात वर्षकी आयुवाले तिर्यञ्चोंमे उत्पन्न हो, पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा स्त्रीवेदको पूरण करके

इत्थिवेदं पूरेदूण सम्मत्तं पडिव० । पुणो अणंताणु०चउकं विसंजोएदि तस्स चरिमे
ट्टिदिखंडए चरिमसमयसंक्रामयस्स तस्स उक० पदेस०संक० ।

§ ५६. पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० सम्म०-सम्मामि० उक० पदे०संक०
कस्स ? जो गुणिट्ठकम्मंसिओ तिरिक्खेसु उववण्णो, सव्वलहुं सम्मत्तं पडिवण्णो, सव्वुक्कस्सियाए
पूरणाए पूरेऊण मिच्छत्तं गदो, अविण्णट्ठासु गुणसेठीसु मदो अपज्जत्तएसु उववण्णो तस्स
पढमसमयउववण्णल्लयस्स उक० पदे०सं० । सोलसक०-उण्णोक० उक० पदे०संक०
कस्स० ? जो गुणिट्ठकम्मंसिओ संखेज्जतिरियभवं कादूण अपज्जत्तेसु उववण्णो तस्स
अंतोमुहुत्तउववण्णल्लयस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक० पदेससंक० । तिण्णं वेदाणं उक्कस्स-
पदेससंकमो कस्स ? जो पूरेदकम्मंसिओ अपज्जत्तएसु उववण्णो तस्स अंतोमुहुत्तं
उववण्णल्लयस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स तस्स उक्कस्सपदेससंकमो ।

§ ६०. मणुसतिए औघं । णवरि सम्मत्त० उक० पदे०संक० कस्स ? जो गुणिट्ठ-
कम्मंसिओ संखेज्जतिरियभवं कादूण तदो मणुसेसु उववण्णो सव्वलहुं सम्मत्तं पडिवण्णो,
सव्वुक्कस्सियाए पूरणाए पूरेदूण मिच्छत्तं गदो तस्स पढमस० मिच्छा० उक० पदे०सं० ।
अणंताणु०चउकस्स वि एवं चैव मणुसेसुप्पाइय विसंजोयणचरिमफालीए सामित्तं वत्तव्वं ।

§ ६१. देवेसु पढमपुढविभंगो । णवरि पुरिसवेद० उक० पदेस०संक० कस्स ?

सम्यक्त्वको प्राप्त हो पुन. अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थिति-
काण्डकका सक्रम करनेके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ५६. पञ्चंन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मि-
थ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्माशिक जीव तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होकर,
अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त हो सबसे उत्कृष्ट पूरणाके द्वारा पूरण करके मिथ्यात्वमें गया । फिर
गुणश्रेणियोंके नष्ट होनेसे पहले मरकर अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समय-
में उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । सोलह कपाय और छह नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम किसके
होता है ? जो गुणितकर्माशिक जीव तिर्यञ्चोंके सख्यात भव करके विवक्षित अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न
हुआ, उत्पन्न होने अन्तर्मुहूर्तमें तत्प्रायोग्य विशुद्ध हुए उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । तीन
वेदोंका उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम किसके होता है ? जो पूरितकर्माशिक जीव अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ,
उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्तमें तत्प्रायोग्य विशुद्ध हुए उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ६०. मनुष्यत्रिकमें श्रोत्रके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वका उत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्माशिक जीव तिर्यञ्चोंके सख्यात भव करके अनन्तर
मनुष्योंमें उत्पन्न हो अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त करके तथा सबसे उत्कृष्ट पूरणाके द्वारा पूरण करके
मिथ्यात्वमें गया उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । अनन्तानुबन्धी
चतुष्कका भी इसी प्रकार मनुष्योंमें उत्पन्न कराके विसंयोजनाकी अन्तिम फालिके पतनके समय
उत्कृष्ट स्थायित्व रहना चाहिए ।

§ ६१. देवोंमें प्रथम पृथिवीके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेश-

जो गुणितकम्मंसिओ ईसाणिएसु णवुंस० पूरेदूण असंखेज्जवस्साउएसु पलिदो० असंखे०-
भागमेत्तकालेण इत्थिवेदं पूरेदूण सम्मत्तं लद्धूण पलिदोवमट्ठिदिएसु देवेषु उववण्णो, तत्थ
य भवट्ठिदिमणुपालेदूण अंतोमु० कम्मं गुणेहदि ति अणंताणु०चउकं विसंजोएदि तस्स
चरिभे ट्ठिदिखंडए चरिमसमयसंका०तस्स उक० पदे०संक० । णवुंसयवेद० उक०
पदे०संक० कस्स ? जो गुणितकम्मंसिओ ईसाणिगेसु णवुंसवे० अंतोमु० पूरेहदि ति
सम्मत्तं पडिवण्णो पुणो अणंताणु०चउकं० विसंजोएदि तस्स चरिभे ट्ठिदिखंडए चरिम-
समयसंका० तस्स उक० पदेससंक० । एवं सोहम्मीसाणे । भवण-त्राणवे-जोदिसि-
सणक्कुमारादि जाव सहस्सारे ति पढमपुढविभंगो ।

§ ६२. आणदादि णवगेवज्जा ति मिच्छ०-सम्मामि० उक० पदे०संक० कस्स ?
अण्णद० जो गुणितकम्मंसिओ संखेज्जतिरियभवं कादूण मणुसेसु उववण्णो, सव्वलहुं
दव्वलिगी जादो, अंतोमुहुत्तं मदो देवो जादो । अतोमु० सम्मत्तं पडिव० सव्वुक्कस्सगुण-
संकमेण संकामेदूण से काले विज्झादं पडिहदि ति तस्स उक० पदे०संक० । सम्म०
सो चेव भंगो । णवरि उवसंतद्वाए पुण्णाए मिच्छत्तं गदो-तस्स-पढमसमयमिच्छादिट्ठिस्स
उक० पदे०संक० । सोलसक०-उण्णोक० मिच्छत्तभंगो । णवरि सम्मत्तं पडिवज्जिऊण

संक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव ऐशान कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदको पूरण करके
पुनः असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा स्त्रीवेदको पूरण
करके तथा सम्यक्त्वको प्राप्त करके पत्यप्रमाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्न हुआ और वहाँ पर। भव-
स्थितिका पालन कर अन्तर्मुहूर्तमें कर्मको गुणितकर्मांशिक करगा कि इसी बीच अनन्तानुबन्धी-
चतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम
होता है । नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव ऐशान
कल्पके देवोंमें नपुंसकवेदको अन्तर्मुहूर्तमें पूरण करेगा कि इसी बीच सम्यक्त्वको प्राप्त करके
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डके संक्रम करनेके
अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पमें जानना
चाहिए । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सनत्कुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें पहिली
पृथिवीके समान भङ्ग है ।

§ ६२. आनरत कल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव तिर्यन्चोंके संख्यात भवोंको करके
मनुष्योंमें उत्पन्न हो अतिशीघ्र द्रव्यलिङ्गी हो गया । पुनः अन्तर्मुहूर्तमें मरकर आनतादि कल्पोंका
देव हो गया । पश्चात् अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हो सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके द्वारा संक्रम
करके अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त होगा उसके विध्यातको प्राप्त होनेके अनन्तर पूर्व समयमें
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । सम्यक्त्वका वही भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यक्त्वके
कालके पूर्ण होनेपर मिथ्यात्वमें गया उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है ।
सोलह कषाय और छह नोकषायोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वको
प्राप्तकर जो अनन्तर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डका

पुणो अणंताणु० विसंजोएदि तस्स चरिमे ङ्घिदिखंडए चरिमसमय०संका० तस्स उक्क० पदेस०संक० । तिहं वेदाणमेवं चेव । णवरि पूरिदकम्मंसिओ मणुसेसुववज्जावेव्वो ।

§ ६३. अणुदिसादि सव्वट्ठा ति मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदेससंक० कस्स ? जो गुणितकम्मंसिओ संखेज्जतिरियभवपरिबमणं कादूण मणुसेसु उववण्णो, सव्वलहुं सम्म० पडिव०, अविणट्ठासु गुणसेठीसु मदो देवेषु उववण्णो तस्स पढमसमयउववण्ण०-तस्स उक्क० पदे०संक० । सोलसक०-उण्णोक्क० एवं चेव । णवरि देवेषु उववज्जिऊग अंतो-मुहुत्तं अणंताणु०चउक्कं विसंजोएदि तस्स चरिमे ङ्घिदिखंडए चरिमसमयसंका०तस्स उक्क० पदे०संक० । एवं तिहं वेदाणं । णवरि पूरिदकम्मंसिओ मणुसेसु उववज्जावेदव्वो । एवं जाव अणाहारि ति ।

एवमुक्क०सामित्तं समत्तं ।

❀ एत्तो जहएणव ।

§ ६४ एत्तो उवरि जहण्णयं सामित्तमहिकयं ति अहियारसंभालणवक्कमेदं ।

❀ मिच्छत्तस्स जहएणओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ६५. सुगमं ।

संक्रम करनेके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। तीन वेदोंका इसी प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पूरित कर्माशिक जीवको मनुष्योंमें उत्पन्न कराना चाहिए।

§ ६३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुणितकर्माशिक जीव तिर्यन्चोंके संख्यात भवोंमें परिभ्रमण करके मनुष्योंमें उत्पन्न हो अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः गुणश्रेणियोंके नष्ट होनेके पूर्व ही मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ, प्रथम समयमें उत्पन्न हुए उस देवके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। सोलह कपाय और छह नोकपायोंका उत्कृष्ट स्वामित्व इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जो देवोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डके संक्रम करनेके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार तीन वेदोंका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि पूरित कर्माशिक जीवको मनुष्योंमें उत्पन्न कराना चाहिए। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ।

❀ आगे जघन्य स्वामित्वको कहते हैं।

§ ६४. इससे आगे जघन्य स्वामित्व अधिकृत है इस प्रकार यह वचन अधिकारकी संभाल करता है।

❀ मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ६५. यह मूत्र सुगम है।

✽ खविदकम्मंसिञ्चो एइंदियकम्मेण जहणणएण मणुसेसु आगदो, सव्वलहुं चैव सम्मत्तं पडिवणणो, संजमं संजमासंजमं च बहुसो लभिदाउगो, चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता वेञ्जावट्टिसागरो० सादिरेयाणि सम्मत्तमणुपालिदं, तदो मिच्छत्तं गदो, अंतोमुहुत्तेण पुणो तेण सम्मत्तं लद्धं, पुणो सागरोवमपुथत्तं सम्मत्तमणुपालिदं, तदो दंसणमोहणीयक्खवणाए अब्भुट्टिदो तस्स चरिमसमयअधापवत्तकरणस्स मिच्छत्तस्स जहणणञ्चो पदेससंकमो ।

§ ६६. एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे । तं जहा—एत्थ खविदकम्मंसियणिहेसो सेसकम्मंसियपडिसेहफलो । एइंदियकम्मेण जहणणएणे त्ति वयणेण भवसिद्धियाणमभवसिद्धियाणं च साहारणमूदं खविदकम्मंसियलक्खणमुवइड्डं, सुहुमेइंदिएसु छावासयविसुद्धखविदकिरियाए कम्मट्टिदिमेत्तकालमच्छिदस्स तदुभयसाहारणजहणणेइंदियकम्मसमुप्पत्तिदंसणादो । एवमेइंदिएसु कम्मट्टिदिं समयाविरोहेणाणुपालेऊण तदो मणुस्सेसु आगदो । किमट्टमेसो मणुसगइमाणीदो ? सम्मत्तुप्पत्तियादिगुणसेट्ठिणिज्जराहि बहुकम्मपोग्गलग्गालाणं कादूण भवसिद्धियाओग्गजहणणसंतकम्ममुप्पायणड्डं । एदस्स चैव अत्थविसेसस्स जाणावणट्ट-

✽ किसी एक क्षपितकर्मांशिक जीवने एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ मनुष्योंमें आकर अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त किया, अनेकवार संयम और संयमासंयमको प्राप्त किया, चार बार कषायोंका उपशम किया, साधिक दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन किया, अनन्तर मिथ्यात्वमें गया, पुनः अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त किया और सागरपृथक्त्व कालतक सम्यक्त्वका पालन किया, अनन्तर दर्शनमोहनोयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ, अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान उसके मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंकम होता है ।

§ ६६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—यहाँ पर 'क्षपितकर्मांशिक' पदके निर्देशका फल शेष कर्मांशिकोंका निषेध करना है । 'एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ' इस वचनसे भव्यों और अभव्योंके क्षपितकर्मशिकका साधारणभूत लक्षण कहा गया है, क्योंकि जो सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें छह आवश्यकोंसे विशुद्ध क्षपित क्रियाके साथ कर्मस्थितिप्रमाण काल तक रहा है उसके भव्य और अभव्य दोनोंके साधारणभूत एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्म पाया जाता है । इस प्रकार एकेन्द्रियोंमें कर्मस्थितिका समयके अविरोधसे पालनकर अनन्तर मनुष्योंमें आया ।

शंका—इसे मनुष्यगतिमें किसलिए लाया गया है ?

समाधान—सम्यक्त्वकी उत्पत्तिसे लेकर गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा बहुत कर्म पुद्गलोंका गालन करके भव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्मको उत्पन्न करनेके लिये इसे मनुष्यगतिमें लाया गया है ।

‘मिदं वयणं—‘सञ्चलहं सम्मत्तं पडिवण्णो संजमं संजमासंजमं च बहुसो लहिदाउगो’ ति ।
 एइं दि एहिं तो आगंतूण मणुस्सेसुप्पज्जिय तत्थ अट्टवस्साणमं तो मुहुत्तं भहियाणमुवरि सम्मत्तं
 संजमं च जुगवं पडिवज्जिय संजमगुणसेठिणिज्जरं कादूण तदो कमेण पालिदो० असंखे०-
 भागमेत्तसम्मत्त-संजमासंजमाणं ताणुं विसंजोयणकंडयाणि थोवूणट्टसंजमकंडयाणि च
 कुणमाणो गुणसेठिणिज्जरावावारेण पालिदो० असंखे० भागमेत्तकालमच्छिदो ति वुत्तं होइ ।
 ‘चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता’ इच्चेदेण वि सुत्तावयवेण चउण्हमेव कसाथोवसामणवाराणं
 संभवो णादिरित्ताणमिदि जाणाविदं । एवं च गुणसेठिणिज्जराए जहण्णीकय-
 दव्वस्स पुणो वि पयदसामित्तोवज्जोगिविसेसंतरपदुप्पायणट्टमिदं वुत्तं—वेछावट्टिसागरो०
 सादिरेयं सम्मत्तमणुपालिदो ति । किमट्टमेवं सादिरेयं वेछावट्टिसागरोवमाणि
 सम्मत्तमणुपालाविदो ? ण, तत्तियमेत्तमिच्छत्तगोपुच्छाणमधट्टिदिगलणेण णिज्जरं कादूण
 जहण्णसामित्तविहाणट्टं तहाकरणादो । एवं छावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय तदो मिच्छत्तं
 गदो ति किमट्टं वुच्चदे ? ण, मिच्छत्तेणाणंतरिदस्स पुणो सागरोवमपुधत्तमेत्तकालं सम्मत्ते-
 णावट्टाणविरोहादो । तदेव प्रदशयन्नाह—पुणो तेण सम्मत्तं लद्धमिच्चादि । णेदं घडदे,

इसी अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिए ‘अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त हो अनेक वार संयम
 और संयमासंयमको प्राप्त किया, यह वचन आया है । एकेन्द्रियोंसे आकर तथा मनुष्योंमें उत्पन्न
 होकर वहाँ आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके बाद सम्यक्त्व और संयमको एक साथ प्राप्तकर तथा
 संयमगुणश्रेणिनिर्जरा करके अनन्तर क्रमसे पल्यके असंख्यातवें भाग वार सम्यक्त्व, संयमासयम
 और अनन्तानुबन्धीके विसयोजनारूप काण्डकोंको करके तथा कुछ कम आठ संयमकाण्डकोंको करके
 गुणश्रेणिनिर्जराके व्यापार द्वारा पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाणकाल तक स्थित रहा यह उक्त
 कथनका तात्पर्य है । ‘चार वार कपायोंका उपशम किया’ इत्यादि सूत्र वचन द्वारा भी कपायोंके
 चार ही उपशम वार सम्भव हैं अधिक नहीं यह ज्ञान कराया गया है । इस प्रकार गुणश्रेणिनिर्जरा
 द्वारा जिसने द्रव्यको जघन्य किया है उसके प्रकृत स्वामित्वमें उपयोगी और भी विशेषताका कथन
 करनेके लिए ‘साधिक दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन किया, यह वचन कहा है ।

शंका—इस प्रकार साधिक दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन किसलिए
 कराया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वकी तावन्मात्र गोपुच्छाओंकी अधःस्थितिगलनाके
 द्वारा निर्जरा करके जघन्य स्वामित्वका विधान करनेके लिए वैसा किया है ।

शंका—इस प्रकार दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण करके अनन्तर मिथ्यात्वमे गया
 ऐसा किसलिए कहते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि मिथ्यात्वके द्वारा अन्तरको नहीं प्राप्त हुए उक्त जीवका पुनः
 सागरपृथक्त्व काल तक सम्यक्त्वके साथ रहनेमें विरोध आता है ।

धतः इसी बातको दिखलाते हुए ‘पुनः उसने सम्यक्त्वको प्राप्त किया’ इत्यादि वचन
 कहा है ।

वेछावडिसा० सम्मत्तेणावडिदजीवस्स पुणो सागरोवमपुधत्तमेत्तकालं परिव्वमणासंभवादो ।
 ण एस दोसो, एदस्स सुत्तस्साहिप्पाए वेछावड्डीओ सम्मत्तेण परिव्वमिदस्स वि पुणो सागरो-
 वमपुधत्तमेत्तकालं सम्मत्तगुणेणावड्ढाणसंभवदंसणादो । ण विहत्तिसामित्तसुत्तेणेदस्स विरोहो
 आसंकणिज्जो; ततो उवएसंतरपदंसणड्ढमेदस्स पयड्ढत्तादो । एवं वेछावडिसागरोवम-
 वहिबूदसागरोवमपुधत्तमेत्तवेदयसम्मत्तकालमणंतरपरूविदोववत्तीए ति एसमणुपालिय
 अपच्छिमे मणुसभवग्गहणे देसूणपुव्वकोडिं संजमगुणसेट्ठिणिज्जरं कादूण तदो दंसणमोहक्खवणाए
 अब्भुट्ठिदो । एवं च दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्ठियस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए मिच्छत्तस्स
 जहण्णपदेससंकमो होइ ति सामित्ताहिसंगंधो, तस्स ताधे विज्झादसंकमेण जहण्णभाव-
 सिद्धीए विप्पडिसेहाभावादो । अधापवत्तकरणचरिमसमयादो उवरि सामित्तविहाणमेत्थ
 किण्ण कयं ? ण, तत्थ गुणसंकमपारंभेण संकमदव्वस्स जहण्णभावानुववत्तीदो । हेट्ठा तरिहि
 अधापवत्तकरणविसोहीदो अणंतगुणहीणविसोहीए विज्झादसंकमो जहण्णो होदि ति
 णासंकणिज्जं, विज्झादसंकमस्स परिणामविसेसणिरवेक्खत्तादो । कथमेदं परिच्छिज्जदे ?

शंका—यह वचन नहीं बनता, क्योंकि जो जीव दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहा है उसका पुनः सागर पृथक्त्व काल तक उसके साथ परिभ्रमण करना नहीं बन सकता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस सूत्रके अभिप्रायसे जिसने दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिभ्रमण किया है उसका फिर भी सागर पृथक्त्व काल तक सम्यक्त्व गुणके साथ अवस्थान होना सम्भव दिखाई देता है। प्रकृतमे प्रदेशविभक्तिविषयक स्वामित्व सूत्रके साथ इस सूत्रका विरोध है ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न उपदेशके दिखलानेके लिए यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है।

इस प्रकार दो छयासठ सागर कालके बाहर सागर पृथक्त्व काल तक वेदकसम्यक्त्व का पहले कहा गया काल बन जाता है, इसलिए उसका पालन कर अन्तिम मनुष्यभवमे कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक संयम गुणश्रेणिनिर्जरा करके अनन्तर दर्शनमोहनीयकी क्षणके लिए उद्यत हुआ। इस प्रकार दर्शनमोहनीयकी क्षणके लिए उद्यत हुए जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है इस प्रकार स्वामित्वका अभिसम्बन्ध करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसके अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा जघन्यभावकी सिद्धिमे किसी प्रकारका निषेध नहीं है।

शंका—अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसे ऊपर स्वामित्वका कथन यहाँ पर क्यों नहीं किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ पर गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो जानेसे संक्रम द्रव्यका जघन्यपना नहीं बन सकता।

शंका—तो नीचे अधःप्रवृत्तकरणकी विशुद्धिसे अनन्तगुणी हीन विशुद्धि होती है, अतः अधःप्रवृत्तकरण जघन्य हो जायगा ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विध्यातसंक्रम परिणामविशेषकी

एदम्हादो चैव सुत्तादो । अंतोमुहुत्तमेत्तगुणसेठिणिज्जरालाहसंगहणदं च अधापवत्तकरण-
चरिमसमए सामित्तविहाणं संजुत्तं पेच्छामहे ।

§ ६७. एत्थ सामित्तविसईकयदव्वपमाणाणयणमेवं कायव्वं । तं जहा—दिवड्ड-
गुणहाणिगुणिदेइं दियसमयपवद्वं ठविय तत्तो उक्कड्ढिददव्वमिच्छामो ति तस्सोकड्डुकड्डुण-
भागहारो अंतोमुहुत्तोवड्ढिदो भागहारत्तेण ठवेयव्वो । पुणो उक्कड्ढिददव्वादो सागरोवम-
पुधत्ताहियवेछावड्ढिसागरोवमकालब्भंतरे गलिदसेसदव्वमिच्छिय त्कालब्भंतरणाणागुणहाणि-
सलागाणमण्णोण्णव्भत्थरासी भागहारो ठवेयव्वो । एव ठविदे सामित्तसमयगलिद-
सेसासेसमिच्छत्तदव्वमागच्छइ । एत्तो विज्झायसंकमेण संकामिददव्वमिच्छामो ति
अंगुलस्सासंखेज्जदिभागमेत्तो विज्झादसंकमभागहारो अवहारभावेण ठवेयव्वो । एवं ठविदे
सामित्तविसईकयजहण्णदव्वमागच्छइ ।

❀ सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं जहण्णत्रो पदेससंकमो कस्स ?

§ ६८. सुगमं ।

❀ एसो चैव जीवो मिच्छत्तं गदो, तदो पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं

अपेक्षा न करके होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है । तथा अन्तर्मुहूर्त काल तक होनेवाली गुणश्रेणि-
निर्जराके लाभका सग्रह करनेकेलिए अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें स्वामित्वका कथन संयुक्त
है ऐसा हम समझते हैं ।

§ ६७. यहाँ पर स्वामित्वके विषयभावको प्राप्त हुए द्रव्यका प्रमाण इस प्रकार लाना चाहिए ।
यथा—डेढ़ गुणहानिसे गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवृद्धको स्थापित कर उसमेंसे उत्कर्षणको
प्राप्त हुए द्रव्यकी इच्छा करके उसका अन्तर्मुहूर्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार भागहाररूप-
से स्थापित करना चाहिए । पुनः उत्कर्षित द्रव्यमेंसे सागरपृथक्त्व अधिक दो छयासठ सागर-
प्रमाण कालके भीतर गलकर शेष वचे हुए द्रव्यको लानेकी इच्छासे उस कालके भीतर जितनी नाना
गुणहानिशलाकाएँ हों उनकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए ।
इस प्रकार स्थापित करने पर स्वामित्व समयमें गलकर शेष वचा हुआ मिथ्यात्वका समस्त द्रव्य
आता है । इसमेंसे विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रमको प्राप्त हुए द्रव्यको लानेकी इच्छासे अङ्गुलके
असंख्यातवें भागप्रमाण विध्यातसंक्रमभागहारको भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए । इस
प्रकार स्थापित करने पर स्वामित्वके विषयभावको प्राप्त हुआ जघन्य द्रव्य आता है ।

❀ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ६८. यह सूत्र सुगम है ।

❀ यही जीव मिथ्यात्वमें गया । अनन्तर पण्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालकों

गंतूण अप्पणो दुचरिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयउव्वेल्लमाणयस्स तस्स जहणणओ पदेससंकमो ।

§ ६६. एसो चेवाणंतरणिदिट्ठो मिच्छत्तजहणणसामित्ताहिमुहो खविदकम्मंसियजीवो दंसणमोहकखण्णाए अणभुट्ठिय पुव्वमेवंतोमुहुत्तमत्थि त्ति संकिलेसमावरिय परिणामपच्चण मिच्छत्तं गदो तदो अंतोमुहुत्तेणुव्वेल्लणमाढविय पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालं गंतूण जहाकम्मपप्पणो दुचरिमट्टिदिखंडयस्स चरिमसमयउव्वेल्लमाणो जादो तस्स पयद-कम्माणं जहणणसामित्तं होदि । चरिमुव्वेल्लगंडयचरिमफालीए जहणणसामित्तमेदं किण्ण दिण्णं ? ण, तत्थ सव्वसंकमेण संकमंताणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जहणणभावविरोहादो । तो क्खहि चरिमट्टिदिखंडयदुचरिमादिफालीसु पयदसामित्तविहाणं कस्सामो त्ति णासंकणिज्जं, तत्थ वि गुणसंकमसंभवेण जहण्णभावाणुव्वत्तीदो ।

§ ७०. एत्थ जहणणसामित्तविसईकयदव्वपमाणमेवमणुगंतव्वं । तं जहा—वेळावट्टि-सागरोव्वमाणमादीए पढमसम्मत्तमुप्पाएतेण मिच्छत्तस्स दिवड्डुगुणहाणिमेत्तएइं दियसमय-पवद्वेहिंतो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुवरि गुणसंकमेण संकामिददव्वमुक्कड्डुणपडिमागिय-

विताकर जब वह अपने अपने द्विचरम स्थितिकाण्डककी अन्तिम समयमें उद्वेलना करता है तब उसके उक्त कर्मोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ६६. यही अनन्तर पूर्व कहा गया मिथ्यात्वके जघन्य स्वामित्वके अभिमुख हुआ क्षपित-कर्मांशिक जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत होनेके अन्तमुहूर्त पूर्व ही संक्लेशको पूरकर परिणामवश मिथ्यात्वमे गया । अनन्तर अन्तमुहूर्तमे उद्वेलना आरम्भ करके पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालको विताकर जब क्रमसे अपने अपने द्विचरम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें उद्वेलना करनेवाला हुआ तब प्रकृत कर्मोंका जघन्य स्वामित्व होता है ।

* शंका—अन्तिम उद्वेलनाकाण्डककी अन्तिम फालिके समय यह जघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया ?

समाधान—नही, क्योंकि वहाँ पर सर्वसंक्रमके द्वारा संक्रमको प्राप्त हुए सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्यपना होनेमें विरोध आता है ।

शंका—तो अन्तिम स्थितिकाण्डककी द्विचरम आदि फालियोंके समय प्रकृत जघन्य स्वामित्वका कथन करना चाहिए ?

समाधान—ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी गुणसंक्रम सम्भव होनेसे जघन्यपना नहीं बन सकता ।

§ ७० यहाँ पर जघन्य स्वामित्वके विषयभावको प्राप्त हुए द्रव्यके प्रमाणका अनुगम करना चाहिए । तथा—दो छथासठ सागरप्रमाण कालके प्रारम्भमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके जो मिथ्यात्वके डेढ़ गुणहानिप्रमाण एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवृत्तियोंसे गुणसंक्रम भागहारके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर द्रव्य संक्रमित होता है उससेसे उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यके

मिच्छामो ति- अंतोमुहुत्तोवट्टिदुकड्डुणभागहारपदुप्पणगुणसंक्रमभागहारो. खविदकम्मंसिय-
कम्मट्टिदिसंचयस्स भागहारत्तेण ठवेयव्वो । एदं धेत्तूण वेछावट्टिसागरोवमाणि सागरोवम-
पुधत्तमेत्तकालं च अधट्टिदिगलणाए गालिदं ति तक्कालव्भंतरणाणागुणहाणिसलागाण-
मणोण्णव्भत्थरासी एदस्स भागहारभावेण ठवेयव्वो । पुणोः दीहुव्वेल्लणकालपञ्चसाणे
उव्वेल्लणसंक्रमेण सामित्तं जादमिदि उव्वेल्लणकालव्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणमणोण्ण-
व्भत्थरासी उव्वेल्लणभागहारो च एदस्स भागहारत्तेण ठवेयव्वो । एवं ठविदे पयद-
सामित्तविसहकयजहण्णदव्वमुप्पज्जदि ति धेत्तव्वं ।

❖ अणंताणुबंधीणं जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ७१. सुगमं ।

❖ एइंदियकम्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो, संजमं संजमासंजमं च
वहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एइंदिएसु पलिदोवमस्स
असंखे०भागमच्छिदो जाव उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलिदा ति ।
तदो पुणो तसेसु आगदो, सव्वलहुं सम्मत्तं लद्धं, अणंताणुबंधीणो च
विसंजोइदा, पुणो मिच्छत्तं गंतूण अंतोमुहुत्तं संजोएदूण पुणो तेण सम्मत्तं

प्रतिभागकी इच्छासे अन्तर्मुहूर्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षण भागहारसे गुणित गुणसंक्रमभागहारको
क्षपितकर्माशिकक कर्मस्थितिक भीतर संबन्धित हुए सब्चयके भागहाररूपसे स्थापित करना
चाहिए । पुनः इसे ग्रहणकर दो छयासठ सागर और सागरप्रथक्त्व कालके भीतर अधःस्थितिगलना-
के द्वारा द्रव्य गलित हुआ है, इसलिए उस कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त
राशिको इसके भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए । पुनः दीर्घ उद्वेलना कालके अन्तमे
उद्वेलना मक्रमके द्वारा स्वामित्व उत्पन्न हुआ है, इसलिए उद्वेलना कालके भीतर प्राप्त हुईं नाना
गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको और उद्वेलनाभागहारको उसके भागहाररूपसे
स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रकृत स्वामित्वके विषयभावको प्राप्त हुआ
जवन्य द्रव्य उत्पन्न होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए ।

❖ अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ७१. यह सूत्र सुगम है ।

❖ जो एकेन्द्रियसम्वन्धी सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया । वहाँ पर संयम और संयमा-
संयमको अनेक वार प्राप्तकर और चार वार कषायोंका उपशम कर अनन्तर एकेन्द्रियोंमें
तायत्प्रमाण पल्पके असंख्यातर्वे भागप्रमाण कालतक रहा जब तक उपशामकसम्वन्धी
समयप्रवट्टोंको गलाया । अनन्तर पुनः त्रसोंमें आया तथा अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त
कर अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना की । पुनः मिथ्यात्वमें जाकर और अन्तर्मुहुत्त काल
तक संयुक्त होकर पुनः उसने सम्यक्त्वको प्राप्त किया । अनन्तर दो छयासठ सागर काल

लङ्, तदो सागरोवमवेच्छावट्टीओ अणुपालिदं, तदो विसंजोएडुमाढत्तो तस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए अणंताणुबंधीणं जहएणओ पदेससंकमो ।

§ ७२. एत्थेइं दियजहण्णकम्मावलंणं पयदसामियस्स खविदकम्मंसियत्तपटुप्पायणदं । तसेसु तस्साणयणं संजम-संजमासंजम-सम्मत्ताणंताणुबंधिविसंजोयणाकंडएहि बहुपोग्गल-गालणदं । चदुक्खुत्तो कसायोवसामणकरणं पि तदट्टमेवे ति दट्टव्वं । पुणो एइं दियेसु पलिदो० असंखे० भागमेत्तकालावट्टाणं पि उवसामयसमयपवट्टाणं तत्थतणट्टिदिखंडय-जणिदथूलयरगोबुच्छायारेणाधट्टिदीए णिग्गालणदं । तत्तो पुणो वि तसेसु आगमणब्भुवगमो सव्वलहुं सम्मत्तं पडिवज्जावणफलो । तत्थाणंताणुबंधिविसंजोयणं पि तेसि णिस्संती-करणफलं । पुणो मिच्छत्थावणमणंताणुबंधीणं विसंजोयणावसेणासब्भूदाणं संतकम्ममुप्पा-यणफलं । ण तदवलंणस्स पयदाणुवजोगित्तमासंकणिज्जं, अणंताणुबंधिचिराणसंतकम्मस्स णिम्मूलावणयणं कादूण पुणो मिच्छत्तं गयस्स अंतोमुहुत्तमेत्तणवक्कबंधसमयपवट्टेहिं सह सेसकसाएहितो त्कालपडिच्छिदट्टव्वं धेत्तण पुणो सम्मत्तपडिलंभेण वेच्छावट्टिसागरोव-माणमणुपालणेण णिरुद्धदव्वस्स सुट्टु जहण्णीभावसंपादणाए पयदोवजोगित्तसिद्धीदो । एवं वेच्छावट्टिसागरोवमाणि सन्मत्तमणुपालिय जहण्णीक्याणंताणुबंधिकम्मो तदवसाणे,

तक उसके साथ रहा । अनन्तर जब विसंयोजनाका आरम्भ करता है तब उसके अधः-प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें अनन्तानुबन्धियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ७२. यहाँ पर प्रकृत स्वामी क्षपितकर्मांशिक होता है इस बातका कथन करनेके लिए एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मका अवलम्बन किया है । संयम, संयमासंयम, सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंके विसंयोजनाकाण्डकोंके द्वारा बहुत पुद्गलोंके गलानेके लिए उक्त जीवको त्रसोंमें लाया गया है । तथा इसीलिए चार बार कपायोंका उपशम कराया गया है ऐसा जानना चाहिए । पुनः उपशामकसम्बन्धी समयप्रवट्टोंके स्थितिकाण्डकोंसे उत्पन्न हुई स्थूलतर गोपुच्छाओंकी अधः-स्थितिके द्वारा गलानेके लिए उसे एकेन्द्रियोंमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रखा है । अनन्तर वहाँसे फिर भी त्रसोंमें आगमनके स्वीकारके फलस्वरूप अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त कराया है । तथा वहाँ पर अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करानेका फल भी उनका निसत्त्व करना है । पुनः मिथ्यात्वमे स्थापित करनेका फल विसंयोजनाके वशसे असद्भावको प्राप्त हुए अनन्तानु-बन्धियोंके सत्कर्मको उत्पन्न करना है । यहाँ पर उसका अवलम्बन करना प्रकृतमे उपयोगी नहीं है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंके प्राचीन सत्कर्मका निर्मूल अपनयन करके पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके अन्तर्मुहूर्तप्रमाण नवकवन्धके समयप्रवट्टोंके साथ शेष कषायोंमेंसे तत्काल संक्रमित हुए द्रव्यको ग्रहणकर पुनः सम्यक्त्वके प्राप्त होनेसे और उसका दो छयासठ सागर काल तक पालन करनेसे विवक्षित द्रव्यके अत्यन्त जघन्यरूपसे सम्पादन करनेमें प्रकृतमे उपयोगीपनेकी सिद्धि होती है । इस प्रकार दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन-कर जो अनन्तानुबन्धीकर्मको जघन्य करके उसके अन्तमे विसंयोजना करनेके लिए उद्यत हुआ है

विसंजोएदुमाढतो तस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए विज्झादसंक्रमेण पयदकम्माणं जहण्णओ पदेससंकमो होइ ।

§ ७३. एत्थ जहण्णसामित्तविसईकयदव्वपमाणाणुगमो एवं कायव्वो । तं जहा— दिवङ्गुणहाणिगुणिदएइं दियसमयपवद्धं ठविय अंतोमुहुत्तोवट्टिदोकड्डु कड्डुणभागहारपटुप्पण्णेण अधापवत्तसंकमभागहारेणोवट्टिदे संजुत्तपढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तमेत्तकालमधापवत्तसंकमेण सेसकसाएहितो पडिच्छिदाणंताणुवंधिदव्वमुक्कड्डुणपडिभागियमागच्छइ । पुणो वेछावट्टि- सागरोवमब्भंतरगलिदसेसदव्वमिच्छामो त्ति तक्कालब्भंतरणाणागुणहाणिसलागाणमण्णोण- व्वासजणिदरासिणा तम्मि ओवट्टिदे गलिदसेसदव्वं होइ । ततो विज्झादसंक्रमेण गददव्व- मिच्छामो त्ति अंगुलस्सासंखेज्जभागमेत्तव्भागहारेण ओवट्टिदे जहण्णसामित्तविसईकय- दव्वमागच्छदि । अहवा एत्थ वि वेछावट्टिसागरोवमाणमवसाणे मिच्छत्तं णेदूणंतोमुहुत्तेण पुणो वि सम्मत्तपडिलंभेण सागरोवमपुधत्तमेत्तकालं गालिय विसंजोयणाए अब्भुट्टिदस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए जहण्णसामित्तमिदि एसो वि सुत्तयाराहिप्पाओ एदम्मि सुत्ते णिलीणो त्ति वक्ख्खाणेयव्वो । कथमेदं णव्वदे ? उवरि भणिस्समाणप्पावहुअसुत्तादो । तत्थेव तस्सोववत्ति भणिस्सामो ।

❀ अट्टएहं कसायाणं जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ?

उसके अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे विध्यातसंक्रमके द्वारा प्रकृत कर्मोंका जघन्य प्रदेश- संक्रम होता है ।

§ ७३. यहाँ पर जघन्य स्वामित्वके विषयभावको प्राप्त हुए द्रव्यके प्रमाणका अनुगम इस प्रकार करना चाहिए । यथा—डेढ़ गुणहानिसे गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समप्रवद्धको स्थापितकर अन्तमुर्हुत्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारसे गुणित अध प्रवृत्तसंक्रमभागहारसे भाजित करने पर सयुक्त होनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमुर्हुत्त काल तक अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा शेष कपायोंसे संक्रमित हुआ अनन्तानुवन्धीका द्रव्य उत्कर्षणका प्रतिभागी होकर आता है । पुन. दो छयासठ सागर कालके भीतर गलित हुए शेष द्रव्यकी इच्छासे उस कालके भीतर प्राप्त हुईं नाना गुणहानि- शलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे उसके अपवर्तित करने पर गलित होनेके बाद शेष वचा हुआ द्रव्य आता है । पुन उससेसे विध्यातसंक्रमके द्वारा गये हुए द्रव्यकी इच्छासे अङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण उसके भागहारके द्वारा भाजित करने पर जघन्य स्वामित्वके विषयभावको प्राप्त हुआ द्रव्य आता है । अथवा यहाँ पर भी दो छयासठ सागर कालके अन्तमे मिथ्यात्वमे ले जाकर अन्त- मुर्हुत्तके बाद फिर भी सम्यक्त्वको प्राप्त कर और सागरप्रयत्न काल तक उसके साथ रह कर विसंयोजनाके लिए उद्यत हुए जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे जघन्य स्वामित्व होता है । इस प्रकार यह भी सूत्रकारका अभिप्राय इस सूत्रमे गमित है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए ।

शंका—यह किस प्रमाणमे जाना जाता है ?

समाधान—आगे कहे जानेवाले अल्पवहुत्व सूत्रसे जाना जाता है । उसकी उपपत्तिका कथन यहीं पर करेंगे ।

* आठ कपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ७४. सुगमं ।

❀ एइंदियकम्मेण जहरणएण तसेसु आगदो, संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो, चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एइंदिएसु गदो, असंखेज्जाणि वस्साणि अच्छिदो जाव उवसामयसमयपवद्धा णिग्गलंति । तदो तसेसु आगदो, संजमं सव्वलहुं लद्धो, पुणो कसायक्खवणाए उवडिदो तस्स अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए अट्टएहं कसायाणं जहरणओ पदेससंकमो ।

§ ७५. एत्थ एइंदियकम्मेण जहणएण तसेसु आगमणकारणं पुवं व वत्तवं । एवमणेयवारं सम्मत्ताणुविद्धसंजमादिपरिणामेहिं गुणसेठिणिज्जरं कादूण पुणो चदुक्खुत्तो कसायोवसामणाए च वावदो । एत्थ वि कारणं गुणसेठिणिज्जरावहुत्तं गुणसंकमेण बहुदव्वावणयणं च दट्टुवं । एवमेत्थ गुणसेठिणिज्जराए बहुदव्वगालणं कादूण पुणो वि मिच्छत्तपडिवादेणेइंदिएसु पइट्ठो ति जाणावणट्टमिदं वयणं—‘तदो एइंदिएसु गओ’ ति । गेदं णिरत्थयं, पलिदो० असंखे० भागमेत्तमप्ययरकालं तत्थच्छिऊण द्विदिखंडयघादवसेणुव-सामयसमयपवद्धं गालणाए सहलत्तदंसणादो ति पटुप्पायणट्टमेदं बुत्तं—‘असंखेज्जाणि वस्साणि अच्छिदो’ इच्चादि । ण च तत्थतणवंधवहुत्तमस्सिऊण पयदत्थविहडावणं जुत्तं,

§ ७४. यह सूत्र सुगम है ।

* जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया । संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त किया । तथा चार बार कषायोंका उपशम करके अनन्तर एकेन्द्रियोंमें गया । वहाँ उपशामकसम्बन्धी समयप्रवद्धोके गलनेमें लगनेवाले असंख्यात वर्ष काल तक रहा । अनन्तर त्रसोंमें आकर और अतिशीघ्र संयमको प्राप्त कर पुनः कषायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ उसके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें आठ कषायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ७५. यहाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कर्मके साथ त्रसोंमें आनेके कारणका पहलेके समान कथन करना चाहिए । इस प्रकार अनेक बार सम्यक्त्वसे युक्त संयम आदि रूप परिणामोंके द्वारा गुणश्रेणिनिर्जरा करके पुनः चार बार कषायोंकी उपशामना करनेमें व्यापृत हुआ । यहाँ पर गुण-श्रेणिनिर्जराके बहुत्वरूप और गुणसंक्रमके द्वारा बहुत द्रव्यके अपनयनरूप कारणको जानना चाहिए । इस प्रकार यहाँ पर गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा बहुत द्रव्यका गालन करके फिर भी मिथ्यात्वमें गिरकर एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट हुआ इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिए ‘अनन्तर एकेन्द्रियोंमें गया’ यह वचन कहा है और यह वचन निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अल्पतर काल तक वहाँ रहकर स्थितिकाण्डकघातके वशसे उपशामकसम्बन्धी समय-प्रवद्धोंकी गलनेरूप सफलता देखी जाती है, इसलिए इस बातके कथन करनेके लिए ‘असंख्यात वर्ष तक रहा’ इत्यादि वचन कहा है । यदि कहा जाय कि वहाँ पर होनेवाले बहुत बन्धके आश्रयसे प्रकृत

बंधादो णिज्जराए तत्थ बहुत्तोवलंभादो । एवमुवसामयसमयपवद्धे गालिय तदो तसेसु आगदो, सव्वलहुं संजमं लद्धो । पुणो कसायक्खवणाए उवड्ढिदो ति । एतदुक्तं भवति— मणुसेसुप्पज्जिय गब्भादिअट्ठवस्साणमुवरि सम्मत्तं संजमं च जुगवं पडिवज्जिय देसूण-पुव्वकोडिमेत्तकालं गुणसेढिणिज्जरमणुपालिय पच्छा अंतोमुहुत्तसेसे सिज्झिदव्वए कदासेस-परिकरो कसायक्खवणाए अब्भुड्ढिदो ति । एवमवड्ढिदस्स तस्स अधापवत्तकरणचरिम-समए विज्झादसंकमेण अट्ठकसायाणं जहण्णओ पदेससंकमो होइ ति सामित्त-संवंधो । एत्थुवसंहारपरूवणा सुगमा । एवमेदं सामित्तमुवसंहरिय एदेण सरिससामित्ता-लावाणमरदि-सोगाणमप्पणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भण्णइ—

एवमरइ-सोगाणं

§ ७६. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

❀ हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं पि एवं चेव । एवरि अपुव्वकरणस्सा-वलियपविट्ठस्स ।

§ ७७. हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणमेवं चेव खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण खवणाए उवड्ढियस्स जहण्णसामित्तं होइ । विसेसो दु अधापवत्तकरणं वोलिय अपुव्वकरणं पविट्ठस्स

अर्थ विघटित हो जाता है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर-वन्धकी अपेक्षा बहुत निर्जरा उपलब्ध होती है । इस प्रकार उपशामकसम्बन्धी समयप्रवृद्धोंको गलाकर अनन्तर त्रसोमे आया और अतिशीघ्र संयमको प्राप्त हुआ । पुनः कपायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । कहनेका तात्पर्य यह है कि मनुष्यमे उत्पन्न होकर गर्भसे लेकर आठ वर्षके बाद सम्यक्त्व और संयमको युगपत् प्राप्त होकर कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक गुणश्रेणिनिर्जराका पालनकर पश्चात् सिद्ध होने के लिए अन्तमुद्धृत काल शेष रहने पर पूरी तैयारीके साथ कपायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । इस प्रकार अवस्थित हुए उसके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा आठ कपायोंका जघन्य प्रदेश-संक्रम होता है ऐसा यहाँ स्वामित्वका सम्बन्ध करना चाहिए । यहाँ पर उपसंहारकी प्ररूपणा सुगम है । इस प्रकार इस स्वामित्वका उपसंहार करके इसके स्वामित्वके सदृश कथनवाले अरति और शोककी मुख्यता करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ इसी प्रकार अरति और शोका जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ७६. यह अर्पणासूत्र सुगम है

❀ हास्य, रति, भय और जुगुप्साका भी जघन्य स्वामित्व इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन कर्मोंका जघन्य स्वामित्व जिसे अपूर्णकरणमें प्रविष्ट हुए एक आवलि हुआ है उसके होता है ।

§ ७७. हास्य, रति, भय और जुगुप्साका इसी प्रकार क्षपितकर्माशिकविधिसे आकर क्षपणाके लिए उद्यत हुए जीवके जघन्य स्वामित्व होता है । विशेषता इतनी है कि अधःकरणको विताकर अपूर्णकरणमे प्रविष्ट हुए जीवके प्रथम आवलिके अन्तिम समयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा यह

पठमावलियचरिमसमए अधापवत्तसंकमेणेदं सामित्तं कायव्वमिदि । जइ एवं, अपुव्वकरण-
चरिमसमए जहण्णसामित्तमेदेसिं दाहामो, अपुव्वगुणसेठिणिज्जराए णिज्जिण्णसेसाणं तत्थ
सुट्ठु जहण्णभावोव्वत्तोदो त्ति ण पच्चवट्ठाणं कायव्वं, तत्थतण्णगुणसेठिणिज्जरादो समयं
पडि अरइ—सोगादिअव्वज्झमाणपयडीहितो गुणसंकमेण दुक्कमाणदव्वस्सासंखेज्जगुणत्तेण
तहा कादुमसक्कियत्तादो ।

❀ कोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ७८. सुगमं ।

❀ उवसामयस्स चरिमसमयपवद्धो जाधे उवसामिज्जमाणो उवसंतो
ताधे तस्स कोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंकमो ।

§ ७९. अण्णदरकम्मंसियलक्खणेणागंतूण उवसमसेठिमारूढस्स जाधे क्रोधसंजलण-
चरिमसमयजहण्णणवक्कंधो वंधावलियवदिकंतसमयप्पहुडि संक्रमणावलियव्वभंतरे कमेणोव-
सामिज्जमाणो उवसंतो ताधे तस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ त्ति घेत्तव्वं ।

❀ एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।

§ ८० जहा कोहसंजलणस्स उवसामयचरिमसमयणवक्कंधसंक्रमणचरिमसमयम्मि
जहण्णसासित्तं दिण्णं एवमेदेसिं पि कम्माणं कायव्वं, विसेसाभावादो ।

स्वामित्व करना चाहिए । यदि ऐसा है तो अपूर्वकरणके अन्तिम समयमे इन कर्मोंका जघन्य
स्वामित्व देना चाहिए, क्योंकि अपूर्व गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा निर्जीर्ण होकर शेष वचे अनन्त
कर्म परमाणुओंकी अत्यन्त जघन्यरूपसे उपपत्ति बन जाती है सो ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं है,
क्योंकि वहाँ होनेवाली गुणश्रेणि निर्जराकी अपेक्षा प्रत्येक समयमे नहीं बँधनेवाली अरति और
शोक आदि प्रकृतियोंमेंसे गुणसंक्रमके द्वारा प्राप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यातगुणा होनेसे वैसा करना
अशक्य है ।

* क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ७८. यह सूत्र सुगम है ।

* उपशामकके अन्तिम समयवर्ती समयप्रबद्ध जब उपशामको प्राप्त होता हुआ उपशान्त
होता है तब उसके क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ७९. अन्यतर क्षपितकर्माशिकविधिसे आकर उपशामश्रेणि पर आरूढ़ हुए जीवके जब क्रोध-
संज्वलनका अन्तिम समयवर्ती जघन्य नवकवन्ध वन्धावलिके बाद प्रथम समयसे लेकर
संक्रमणावलिके भीतर क्रमसे उपशामको प्राप्त होता हुआ उपशान्त होता है तब उसके प्रकृत जघन्य
स्वामित्व होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

* इसी प्रकार मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेदका जघन्य स्वामित्व
जानना चाहिए ।

§ ८०. जिस प्रकार उपशामकके अन्तिम समयवर्ती नवकवन्धके संक्रमणके अन्तिम समयमे
क्रोधसंज्वलनका जघन्य स्वामित्व दिया है उसी प्रकार इन कर्मोंका भी जघन्य स्वामित्व करना
चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है ।

❀ लोहसंजलणस्स जहणणओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ८१. खविद-गुणिकम्मंसियादिविसेसावेक्खमेदं पुच्छासुत्तं ।

❀ एहंदिक्कम्मेण जहणणएण तसेसु आगदो, संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण कसाएसु किं पि णो उवसामेदि । दोहं संजमद्धमणुपालिदूण खवणाए अब्भुट्टिदो तस्स अपुव्वकरणस्स आवलियपविट्ठस्स लोहसंजलणस्स जहणणओ पदेससंकमो ।

§ ८२. एत्थेहंदिक्कम्मेण जहणणएण तसेसु आगमणे बहुसो संजमादिपडिलंभे च कारणं पुव्वं परूविदमेव । संपहि सइं पि कसाए णो उवसामेदि ति एत्थ कारणं वुच्चदे— जइ चारित्तमोहोवसामयगुणसेठिणिज्जराणुपालणट्ठमेसो सेठिमारुहिज्जदे, तो तत्थावज्झमाण-पयडीहितो गुणसंकमेण पडिच्छिज्जमाणदव्वं गुणसेठिणिज्जरादो समयं पडि असंखेज्ज-गुणमत्थि । एवं संते लोहसंजलणस्स तत्थुवचओ चेवे ति । एदेण कारणेण कसाएसु किं पि णो उवसामेदि ति वुत्तं । तदो सेसगुणसेठिणिज्जराओ जहावुत्तेण कमेणाणुपालिय पुणो अंतोमुहुत्तसेसे सिज्झिदव्वए ति कसायक्खवणाए उवट्टिदो तस्स अधापवत्तकरणं वोलाविय अपुव्वकरणे आवलियपविट्ठस्स अधापवत्तसंकमेण लोहसंजलणजहणणसामित्तं होइ ति एसो सुत्तत्थसव्भावो ।

❀ लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ८१. क्षपितकर्मांशिक और गुणितकर्मांशिक आदिरूप विशेषताकी अपेक्षा करनेवाला यह पृच्छासूत्र है ।

❀ जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आकर तथा संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्तकर कषायोंका एक बार भी उपशम नहीं करता है । मात्र दीर्घकाल तक संयमका पालनकर क्षपणाके लिये उद्यत हुआ है उसके अपूर्वकरणमें प्रविष्ट होनेके आवलिके अन्तिम समयमें लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ८२. यहाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आनेका और अनेकवार संयम आदि प्राप्त करनेका कारण पहले अनेक बार कह ही आये हैं । तत्काल एकवार भी कषायोंका उपशम नहीं करता है' यह जो सूत्रवचन कहा है सो इसके कारणका निर्देश करते हैं—यदि चारित्र-मोहके उपशामकसम्बन्धी गुणश्रेणिनिर्जराके पालन करनेके लिए यह जीव श्रेणिपर आरोहण करता है तो वहाँ पर नहीं बंधनेवाली प्रकृतियोंसे गुणसंक्रमके द्वारा संक्रमित होनेवाला द्रव्य गुणश्रेणि-निर्जराकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणा होता है और ऐसा होने पर लोभसंज्वलनका वहाँ पर उपचय ही होगा । इस कारणसे वह कषायोंका एक बार भी उपशम नहीं करता है ऐसा कहा है, इसलिए शेष गुणश्रेणिनिर्जराओंका यथोक्त क्रमसे पालनकर पुन सिद्ध होनेके लिए अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर जो कषायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ उसके अधःप्रवृत्तकरणको विताकर अपूर्वकरणमें एक आवलिकाल प्रविष्ट होने पर उसके अन्तिम समयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा लोभसंज्वलनका जघन्य स्वामित्व होता है यह इस सूत्रका अर्थ है ।

❀ णवुंणयवेदस्स जहणणओ पदेससंकमो कस्स ?

§ ८३. सुगमं ।

❀ एइंदियकस्मेण जहणणएण तसेसु आगदो तिपलिदोवमिएसु उववणो, तिपलिदोवमे अंतोमुहुत्ते सेसे सम्मत्तमुप्पाइदं । तदो पाए सम्मत्तेण अपडिवदिदेण सागरोवमञ्जावट्टिमणुपालिदेण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धो, चत्तारि वारे कसाए उवसामिदा । तदो सम्भामिच्छत्तं गंतूण पुणो अंतोमुहुत्तेण सम्मत्तं घेत्तूण सागरोवमञ्जावट्टिमणुपालिदूण मणुसभवग्गहणे सव्वचिरं संजममणुपालिदूण खवणाए उवट्टिदो तस्स अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए णवुंसयवेदस्स जहणणओ पदेससंकमो ।

§ ८४. एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणा विहत्तिसामित्ताणुसारेण परूवेयव्वा । णवरि वेछोवट्टिसागरोवमाणमव णो मिच्छत्तं गंतूण सोदएण मणुसेसुप्पणस्स तत्थ सामित्तं दिण्णं, अण्णहा जहण्णसामित्तविहाणाणुववत्तीदो । एत्थ पुण मिच्छत्तमगंतूण पुरिसवेदोदएणेव खवयसेट्टिमारुहमाणयस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए जहण्णसामित्तमिदि एसो विसेसो णायव्वो ।

* नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ?

§ ८३. यह सूत्र सुगम है ।

* जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ त्रसोंमें आया । वहाँ तीन पल्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ । तीन पल्यमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्वको उत्पन्न किया । अनन्तर वहाँसे लेकर सम्यक्त्वसे च्युत न होकर तथा छयासठ सागर काल तक उसका पालन करते हुए जिसने संयमासंयम और संयमको अनेकवार प्राप्त किया और चार वार कषायोंका उपशम किया । अनन्तर सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त कर पुनः अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको ग्रहण कर और छयासठ सागर काल तक उसका पालनकर अन्तमें मनुष्यभवको प्राप्तकर चिरकाल तक संयमका पालन करते हुए जो क्षपणाके लिए उद्यत हुआ उसके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ८४. इस सूत्रके अर्थका कथन प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वसूत्रके अनुसार करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि दो छयासठ सागरके अन्तमें मिथ्यात्वमे जाकर स्वोदयसे मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवके वहाँ पर स्वामित्व दिया है, अन्यथा जघन्य प्रदेशस्वामित्व नहीं बन सकता । किन्तु यहाँ पर मिथ्यात्वमे नहीं जाकर पुरुषवेदके उदयसे ही क्षपकश्रेणि पर आरोहण करनेवाले जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्व दिया है इस प्रकार दोनोंमें इतना विशेष जान लेना चाहिए ।

❀ एवं चैव इत्थिवेदस्स वि । एवरि तिपलिदोवमिएसु ए
अच्छिदाउगो ।

८५. एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो । एवमोघेण सव्वकम्माणं चुण्णिमुत्ताणुसारेण
जहण्णसामित्तविहासणा कया । एत्तो एदेण सद्धिदादेसजहण्णसामित्तविहासणद्धमुच्चारणं
वत्तइस्सामो । तं जहा—

* ८६. जहण्णाए पयदं । दुविहो णिदेसो । ओघो मूलगंथसिद्धो । आदेसेण गोरइय०
मिच्छ० जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० जो खविदकम्मंसिओ विवरीयं गंतूण दीहाए
आउट्टिदीए उववज्जिदूण अंतोमुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो, पुणो अणंताणु०चउकं विसंजोएदूण
तत्थ भवट्टिदिमणुपालिय से काले मिच्छत्तं गाहिदि त्ति तस्स जह० पदे०संक०। एवमित्थि-
णवुंस०वेदाणं । सम्म०—सम्मामि० जह० पदेससंक० कस्स ? अण्णद० जो खविद-
कम्मंसि० विवरीदं गंतूण गोरइएसु उववण्णो, दीहाए उव्वेल्लणद्दाए उव्वेल्लेऊण दुचरिम-
ट्टिदिखंडयस्स चरिमसमयसंक्रमंतयस्स तस्स जह० पदे०संकमो । अणंताणु०चउक०
जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णदरो खविदकम्मंसिओ विवरीयं गंतूण गोरइएसु दीहाउ-
ट्टिदिएसुववण्णो अंतोमुहुत्तं सम्मत्तं पडिवण्णो । पुणो जणंताणु०४ विसंजोएदूण
मिच्छत्तं गदो सव्वलहुं पुणो वि सम्मत्तं पडिवण्णो, तत्थ भवट्टिदिमणुपालेऊण थोवावसेसे

* इसी प्रकार स्त्रीवेदका भी जघन्य संक्रमस्वामित्व जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि यह तीन पल्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ नहीं होता है ।

§ ८५. इस सूत्रका अर्थ सुगम है । इस प्रकार ओघसे चूणिसूत्रके अनुसार सब कर्मोंके
जघन्य स्वामित्वका व्याख्यान किया । अब आगे इससे सूचित होनेवाले समस्त जघन्य स्वामित्वका
व्याख्यान करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं । यथा—

§ ८६. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघ मूल
ग्रन्थसे सिद्ध है । आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो
अन्यतर क्षपितकर्मा शिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयुवाले नारकियोंमें उत्पन्न होकर सम्यक्त्वको
प्राप्त हुआ । पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके और वहाँ भवस्थिति काल तक उसका
पालन कर अनन्तर समयमें मिथ्यात्वको ग्रहण करेगा उसके जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । इसी
प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रमका स्वामित्व जानना चाहिए । सम्यक्त्व
और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव
विपरीत जाकर नारकियोंमें उत्पन्न हुआ । तथा दीर्घ उद्वेलनाकालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मि-
थ्यात्वकी उद्वेलना करके उसके अन्तिम समयमें द्विचरम स्थितिकाण्डकका संक्रम करता है
उसके उक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम
किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयुवाले नारकियोंमें
उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना
करके मिथ्यात्वमें गया । तथा फिर भी अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त कर वहाँ भवस्थिति काल तक
उसका पालन करते हुए जीवनके थोडा भेप रहने पर जब मिथ्यात्वके अभिमुख होता है तब उसके

जीविद्व्यए ति मिच्छताहिमुहचरिमसमयसम्माइडिस्स जह० पदे०संक० । वारसक०—
भय-दुगुंछाणं जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसिओ विवरीयं गंतूण
गेरइएसु उववण्णो तस्स पढमसमयउववण्णल्लयस्स जह० पदे०संकमो । पंचणोक० जह०
पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसियस्स विवरीयं गंतूण गेरइय० उववण्णस्स तस्स
अंतोमुहुत्तववण्णल्लयस्स तेसिं जह० पदे०संक० । एवं सत्तमाए ।

§ ८७. पढमादि जाव छट्टि ति मिच्छ०—इत्थिवे०—णवुंस० जह० पदे०संक०
कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि० विवरीयं गंतूण दीहाए आउड्ढिदीए उववज्जिदूण अंतो-
मुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो । अणंताणु०चउक्क विसंजोएदूण तत्थ भवड्ढिदिमणुपालिय
चरिमसमयणिप्पिडिमाणयस्स तस्स जह० पदेससंकमो । सम्म० सम्मामि०-वारसक०-
सत्तणोक० णिरओघभंगो । अणंताणु०४ जह० पदेससंकमो कस्स ? अण्ण० खविदकम्मंसियस्स
विवरीयं गंतूण दीहाए आउड्ढिदीए उववज्जिदूण सम्मत्तं पडिवण्णो, पुणो अणंताणु०चउक्कं
विसंजोएदूण संजुत्तो, तदो अंतोमुहुत्तसम्मत्तं पडिवण्णो, तत्थ भवड्ढिदिमणुपालेदूण चरिम-
समयणिप्पिदमाण० तस्स० जह० पदेससंक० ।

§ ८८. तिरिक्खणं पढमपुढवीभंगो । णवरि तिपलिदोवमिएसु उववजावेयव्वो ।
णवरि इत्थि-णवुंस० जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि० खइयसम्माइड्ढी

सम्यक्त्वके अन्तिम समयमे जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर नारकियोंमे उत्पन्न हुआ उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे उक्त कर्मोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । पाँच नोकपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर नारकियोंमे उत्पन्न हुआ उसके वहाँ उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त होने पर उसके अन्तिम समयमे उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमे जानना चाहिए ।

§ ८७ पहली पृथिवीसे लेकर छटी पृथिवी तकके नारकियोंमे मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसक-वेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर दीघे आयुवाले नारकियोंमे उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पश्चात् अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके वहाँ भवस्थिति काल तक उसका पालन करते हुए रहा, उसके वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमे उक्त कर्मोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और सात नोकपायोंके जघन्य स्वामित्वका भङ्ग नारकियोंके समान है । अनन्तानुवन्धी-चतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर दीघे आयुवाले नारकियोंमे उत्पन्न होकर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके संयुक्त हुआ । तदनन्तर अन्तर्मुहूर्तमे सम्यक्त्वको प्राप्त हो वहाँ उसका भवस्थिति काल तक पालन कर जो निकल रहा है उसके वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमे अनन्तानुवन्धी चतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ८८. तिर्यञ्चोमे जघन्य स्वामित्वका भङ्ग पहिली पृथिवीके समान है । इतनी विशेषता है कि इन्हे तीन पत्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराना चाहिए । इतनी और विशेषता है कि स्त्रीवेद और

विवरीयं गंतूण तिरिक्खेसु तिपल्लिदोवमिएसु उववण्णो तस्स चरिमसमयणिप्पिदमाण० जह० पदे०संकमो । एवं पंचि०तिरिक्खतिए । णवरि जोणिणी० इत्थिवे०—णवुंसयवेद० मिच्छत्तभंगो ।

§ ८६. पंचि०तिरिक्खअपज्ज०—मणुसअपज्ज० सम्म०—सम्मामि० जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि० विवरीयं गंतूण दीहाए उव्वेल्लणद्धाए उव्वेल्लमाणो अपज्जत्तएसु उववण्णो, जाधे दुचरिमड्ढिदिखंडयचरिमसमयसंकामओ जादो ताधे तस्स जह० पदे०संक० । सोलसक०—भय-दुगुंछा० जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि० विवरीयं गंतूण अपज्ज० उववण्णो तस्स पढमसमयउववण्णल्लयस्स जहण्णपदेससंकमो । सत्तणोक० जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि० विवरीयं गंतूण अपज्ज० अंतोमु० उववण्णल्लयस्स० ।

§ ८०. मणुसतिए ओघं । णवरि मणुसिणी० पुरिसवे० भय-दुगुंछभंगो ।

§ ८१. देवेषु मिच्छ० जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि० विवरीयं गंतूण चउवीससंतकम्मिओ दीहाए आउड्ढिदीए उववज्जिय चरिमसमयणिप्पिदमाण० तस्स जह० पदे०संकमो । सम्म०—सम्मामि०-आरसक०—णवणोक० तिरिक्खभंगो । णवरि

नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक ज्ञायिकसम्यग्दृष्टि जीव विपरीत जाकर तीन पल्यकी आयुवाले तिर्यञ्चोमे उत्पन्न हुआ उसके वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिषमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि योनिनी तिर्यञ्चोमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य स्वामित्वका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है ।

§ ८६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ उद्वेलनाकालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करता हुआ अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ । वह जब द्विचरम स्थितिकाण्डकका उसके अन्तिम समयमें सक्रमण करता है तब उसके उक्त कर्मों का जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ, प्रथम समयमें उत्पन्न हुए उसके उक्त कर्मोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । सात नोकपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर अपर्याप्तकोंमें उत्पन्न हुआ उनके वहाँ उत्पन्न होनेके बाद अन्तर्मुहूर्तके अन्तिम समयमें जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है ।

§ ८०. मनुष्यत्रिकोंमें जघन्य स्वामित्वका भङ्ग ओषके समान है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदका भङ्ग भय और जुगुप्साके समान है ।

§ ८१. देवोंमें मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर चौबीस सत्कर्मके साथ दीर्घ आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें विद्यमान है, उसके मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । सम्यक्त्व,

जम्मि तिण्णि पलिदोवमाणि तम्मि तेत्तीसं सागरोवमा० उववज्जावेयव्वो । अणंताणु०-
 चउक० जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसियस्स विवरीयं गंतूण अट्ठावीस-
 संतकम्म० सम्माइट्ठी० तेत्तीससागरोवमिण्णसु देवेसुववज्जिय चरिमसमयणिप्पिदमाण०
 तस्स जह० पदे०संक० । एवं सोहम्मादि णव्वगेवज्जा त्ति । णवरि सगट्ठिदी । भवण०-वाण०-
 जोदिसि० पढमपुढविभंगो । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति मिच्छ०-अणंताणु० ४-इत्थिवे०^१-
 णवुंस० देवोधं । सम्मामि० मिच्छत्तभंगो । बारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछा० जह०
 पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि० खइयसम्मादिट्ठिस्स विवरीयं गंतूण देवेसु
 पढमसमयउववण्णल्लयस्स । चहुणोक० जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि०
 विवरीयं गंतूण खइयसम्मादिट्ठिदेवेसु अंतोमुहुत्तद्वउववण्णल्लयस्स तस्स जह० पदे०संक० ।
 एवं जाव० । एवं जहण्णयं सामित्तं समत्तं ।

❀ एयजीवेण कालो ।

सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि जहाँ पर तीन पल्य कहे हैं वहाँ पर तेतीस सागरप्रमाण आयुवालोंमें उत्पन्न कराना चाहिए। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर अट्ठाईस सत्कर्मके साथ सम्यग्दृष्टि होकर तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें विद्यमान है उसके उक्त कर्मोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार सौधर्म कल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें सब कर्मोंका जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें सब कर्मोंके जघन्य स्वामित्वका भङ्ग पहली पृथिवीके समान है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य स्वामित्वका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य स्वामित्वका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक क्षायिकसम्यग्दृष्टि जीव विपरीत जाकर देवोंमें उत्पन्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें उक्त कर्मोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है। चार नोकषायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर क्षायिक सम्यक्त्वके साथ देवोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्त काल बिता चुका है उसके अन्तर्मुहूर्तके अन्तिम समयमें उक्त कर्मोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ।

* एक जीवकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं।

§ ६२. एतो एयजीवेण त्रिसेसिओ कालो विहासियवो ति अहियारसंभालण-
वयणमेदं ।

❀ सव्वेसिं कम्माणं जहण्णुक्कस्सपदेससंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ६३. सुगमं ।

❀ जहण्णुक्कस्सेण एयसमञ्चो ।

§ ६४. कुदो ? सव्वेसिं कम्माणं जहण्णुक्कस्सपदेससंकमाणमेयसमयादो उपरि-
मवट्ठाणासंभवादो । संपहि एदेण सुत्तेण सूचिदत्थविवरणमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—
कालो दुविहो—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण
मिच्छ० उक्क० पदे०संक० केव० ? जहण्णुक्क० एयस० । अणुक्क० जह० अंतोमु०, उक्क०
छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरे० । सम्मा० उक्क० पदेस०संका० जहण्णुक्क० एयस० । अणुक्क०
जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । सम्मामि० उक्क० पदे०संका० जहण्णुक्क०
एयस० । अणु० जह० अंतोमु०, उक्क० वेच्छावट्ठिसागरो० सादिरे० । सोलसक०-णवणोक०
उक्क० पदे०संका० केव० ? जहण्णुक्क० एयस० । अणुक्क० तिण्णि षंगा । जो सो सादिओ
सपज्जवसिदो जह० अंतोमु०, उक्क० उवट्ठुपोगलपरियट्ठं ।

§ ६२ आगे एक जीवकी अपेक्षा कालका व्याख्यान करते हैं इस प्रकार यह अधिकारकी
सम्हाल करनेवाला वचन है ।

❀ सब कर्मोंके जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका कितना काल है ?

§ ६३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ६४ क्योंकि सब कर्मोंके जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमोंका एक समयसे अधिक काल
तक अवस्थान पाया जाना असम्भव है । अब इस सूत्रके द्वारा सूचित होनेवाले अर्थके विवरण-
स्वरूप उच्चारणको बतलाते हैं । यथा—काल दो प्रकारका है, जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका
प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वके उत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रमका कितना काल है ? जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागरप्रमाण
है । सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है । सम्याग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।
अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर-
प्रमाण है । सोलह कपाय और नौ नोऊपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका कितना काल है ? जघन्य
और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके तीन भङ्ग हैं । उनमेंसे जो सादि-सान्त
भङ्ग है उसकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल उपाय पुद्गलपरिवर्तन-
प्रमाण है ।

§ ६५. आदेशेण गोरइय० मिच्छ० उक्क० पदे०संक्रा० जहण्णुक्क० एयस० । अणु० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । सम्म० उक्क० पदे०संक्रा० जहण्णुक्क० एयसमओ । अणु० जह० एयस०, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो । सम्मामि०-अणंताणु० ४ उक्क० पदे०संक्रा० जहण्णु० एयस० । अणु० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमं ।

विशेषार्थ—स्वामित्वके अनुसार सब कर्मोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता है, इसलिए सर्वत्र इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। मात्र सब कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके कालमें फरक है जिसका खुलासा इस प्रकार है—मिथ्यात्वका प्रदेशसंक्रम मात्र सम्यग्दृष्टिके होता है और २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर कहा है। सम्यक्त्वका प्रदेशसंक्रम मिथ्यात्व गुणस्थानमें होता है। यतः मिथ्यात्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और मिथ्यात्वमें रहते हुए सम्यक्त्वका अधिकसे अधिक सत्त्व पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहता है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। सम्यग्मिथ्यात्वका प्रदेशसंक्रम मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी होता है और उसकी सत्तावाले सम्यग्दृष्टिके भी होता है। इन गुणस्थानोंमें कमसे कम रहनेका काल अन्तमुहूर्त है यह तो स्पष्ट ही है। साथ ही यदि कोई जीव मध्यमें वेदक काल तक मिथ्यात्वमें रहकर मिथ्यात्वमें रहनेके पहले और बादमें कुल मिलाकर दो छयासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहे। तथा वहाँसे आकर पुनः मिथ्यात्वमें सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके काल तक रहता हुआ उसका संक्रम करे तो यह सम्भव है। साथ ही सम्यक्त्वके साथ प्रथम छयासठ सागर कालमें प्रवेश करनेके पूर्व भी वह सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तावाला होकर अपने संक्रमके उत्कृष्ट काल तक उसका संक्रम करे तो यह भी सम्भव है। इन्हीं सब बातोंका विचार कर यहाँ पर सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर कहा है। सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम क्षणके समय होता है। इसके पहले इनका अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, इसलिए भव्योंकी अपेक्षा तो यह अनादि-सान्त और सादि-सान्त है। किन्तु अभव्योंके सदाकाल होनेके कारण अनादि-अनन्त है। सादि-सान्त विकल्प उन भव्योंके होता है जो उपशमश्रेणि पर आरोहण कर चुके हैं और ऐसे जीव या तो अन्तमुहूर्तमें क्षपकश्रेणि पर आरोहण कर अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्त कर देते हैं या उपार्ध पुद्गलपरिवर्तन काल तक उसके साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ पर उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल उपार्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है।

§ ६५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेत्तीस सागर है। सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस

वारसक०—णवणोक० उक्क० पदे०संका० जहणुक्क० एयस० । अणु० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमं० । एवं सव्वणेरइय० । णवरि सगड्ढिदी । णवरि सत्तमाए अणंताणु०४ अणु० जह० अंतोमु० ।

§ ६६. तिरिक्खेसु मिच्छ० उक्क० पदे०संका० जहणु० एयस० । अणु० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० देसणाणि । सम्म० णारयभंगो । सम्मामि० उक्क०

सागर है। बारह कपाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी आयुस्थिति कहनी चाहिए। तथा इतनी और विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है।

विशेषार्थ—सामान्यसे और प्रत्येक पृथिवीकी अपेक्षा सब नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अपने स्वामित्व कालमें एक समयके लिए ही होता है इसलिए इसका सर्वत्र जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किसी नारकीका सम्यग्दृष्टि होकर कम से कम अन्तमुहूर्त तक और अधिक से अधिक कुछ कम तेतीस सागर तक मिथ्यात्वका अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके साथ रहना सम्भव है, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यह सम्भव है कि कोई एक जीव सम्यक्त्वकी उद्वेलना करते हुए उसके संक्रममें एक समय शेष रहने पर नरकमें उत्पन्न हो और यह भी सम्भव है कि अन्य कोई जीव नरकमें उद्वेलनाके उत्कृष्ट काल तक वहाँ रहकर उसका संक्रम करे, इसलिए सम्यक्त्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल प्रत्येक असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र उत्कृष्ट काल तेतीस सागर प्राप्त करनेके लिए अधिकतर समय तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रखकर प्रारम्भमें और अन्तमें मिथ्यात्वमें रखकर उसका संक्रम कराके प्राप्त करना चाहिए। सोलह कपायों और नौ नोकषायोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह तो स्पष्ट ही है। जघन्य कालका खुलासा इस प्रकार है—कोई एक अनन्तानुबन्धीचतुष्कका विसयोजक जीव सासादनमें जाकर और अनन्तानुबन्धीका एक समय तक संक्रामक होकर अन्य गतिमें चला जाय यह सम्भव है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय कहा है। बारह कपाय और नौ नोकषायोंका जिस नारकीके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है वह उसके बाद कमसे कम अन्तमुहूर्त काल तक नरकमें अवश्य रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है। यह जघन्य और उत्कृष्ट काल सब नरकोंमें भी वन जाता है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है। इतना विशेष जान लेना चाहिए कि सातवें नरकमें सम्यग्दृष्टि नारकी मिथ्यात्वमें जाकर अन्तमुहूर्त काल व्यतीत हुए बिना मरणको नहीं प्राप्त होता, इसलिए वहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त कहा है।

§ ६६. तिर्यन्चोमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है।

पदे०संका० जहणु० एयसमओ । अणु० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो०
सादिरेयाणि । सोलसक०—णवणोक० उक्क० पदे०संका० जहणु० एयस० । अणु० जह०
खुदाभवग्गहणं, अणंताणु०४ एयस०, उक्क० सव्वेसिमणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियड्ढा ।
एवं पंचिदियतिरिक्खतिय० । णवरि जम्हि अणंतकालं तम्हि तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडि-
पुधत्तेणव्वहियाणि । सम्मामि० अणु० जह० एयस०, उक्क० तिण्णि पलिदो०
पुव्वकोडिपुध० ।

§ ६७. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०—मणुसअपज्ज० सत्तावीसं पयडीणं उक्क० पदे०-

सम्यक्त्वका भङ्ग नारकियोंके समान है । सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य है । सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल जुल्लकभवग्रहणप्रमाण है, अनन्तानुवन्धीचतुष्कका एक समय है तथा सवका उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनोंके बराबर है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर अनन्त काल कहा है वहाँ पर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहना चाहिए । तथा सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमें सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है, इसलिए इनमे मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है । सम्यक्त्वका भङ्ग नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही है । सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके जघन्य काल एक समयका खुलासा नारकियोंके समान कर लेना चाहिए । उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहनेका कारण यह है कि उत्तम भोगभूमिमें वेदक सम्यक्त्वके साथ रखकर तो कुछ कम तीन पल्य काल प्राप्त हो ही जाता है । साथ ही इसके पूर्व तिर्यञ्च पर्यायमे सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ताके साथ यथासम्भव अधिकसे अधिक काल तक रखे और इस प्रकार साधिक तीन पल्य कास ले आवे । तिर्यञ्चोमें रहनेके जघन्य काल और उत्कृष्ट कालको ध्यानमे रख कर वहाँ सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल जुल्लक भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल कहा है । मात्र अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जघन्य काल एक समय नारकियोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य होनेसे उनमें अनन्तकालके स्थानमें इसे कहना चाहिए यह सूचना की है । इनके सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके उत्कृष्ट कालका निर्देश भी अलगसे इसी दृष्टिसे किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६७. पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च अपर्याप्तकोमे और मनुष्य अपर्याप्तकोमे सत्ताईस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका

संका० जहण्णुक्क० एयस० । अणु० जह० अंतोमु०, सम्म०-सम्मामि० एगस०, सव्वेसिमुक्क० अंतोमु० ।

§ ६८. मणुसत्ति ए मिच्छ०-सम्म० तिरिक्खभंगो । सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक्क० उक्क० पदे०संका० जहण्णु० एयस० । अणुक्क० जह० अंतोमु०, सम्मामि०-अणंताणु०४ एयस०, उक्क० तिण्णि पल्लिदो० पुव्वको० ।

§ ६९. देवेषु मिच्छ० उक्क० पदेससंका० जहण्णुक्क० एयस०, अणुक्क० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमं । एवं वारसक०-णवणोक्क० । सम्म० णारयभंगो । सम्मामि०-अणंताणु०४ उक्क० पदे०संका० जहण्णु० एयस० । अणु० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमं । एवं भवणादि णवणोवज्जा त्ति । णवरि सगद्धिदी । अणुदिसादि सव्वद्वा त्ति मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे०संका० जहण्णु० एयस० । अणु० जह०

जघन्य काल अन्तमुहूर्त है, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल एक समय है और सबका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त है ।

विशेषार्थ—उक्त जीवोंमें एक मात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होनेसे मिथ्यात्वका प्रदेशसंक्रम-सम्भव नहीं, इसलिए उसके कालका निर्देश नहीं किया । शेष प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त वन जानेसे उक्त प्रमाण कहा है । मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य काल नारकियोंके समान एक समय भी वन जाता है, इसलिए उसका अलगसे निर्देश किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६८. मनुष्यत्रिकमे मिथ्यात्व और सम्यक्त्वका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुन्धी चतुष्कका एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिककी जघन्य स्थिति अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि-पृथक्त्व अधिक तीन पल्य होनेसे इनमें सम्यग्मिथ्यात्व आदि छव्वीस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेश-संक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहा है । मात्र सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुन्धीचतुष्कका जघन्य काल एक समय भी वन जाता है, इसलिए इसका अलगसे निर्देश किया है । शेष कथन सुगम है ।

§ ६९. देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है । इसी प्रकार वारह कपाय और नौ नोकपायोंका भङ्ग जानना चाहिए । सम्यक्त्वका भङ्ग नारकियोंके समान है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है । इसी प्रकार भवनवासी देवोंसे लेकर नौ भ्रूवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । अनुद्दिशले, लेकस्सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व

जहण्णाट्टिदी समयूणा, उक्क० उक्कस्सट्टिदी । सोलसक०—णवणोक० उक्क० पदे०संका०
जहण्णुक० एयस० । अणु० जह० अंतोमु०, उक्क० उक्कस्सट्टिदी । एवं जाव० ।

§ १००. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ० जह०
पदे०संका० जहण्णुक० एयसमओ । अजह० जह० अंतोमु०, उक्क० छावट्टिसागरो०
सादिरेयाणि । सम्म० जह० पदे०संका० जहण्णुक० एयस० । अज० जह० एयस०, उक्क०
पल्लिदो० असंखे०भागो । सम्मामि० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० । अजह० जह०
अंतोमु०, उक्क० वेळावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । सोलसक०—णवणोक० उक्कस्सभंगो ।

और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अनुत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समयकम जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट
स्थितिप्रमाण है । सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट
काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट
स्थितिप्रमाण है । इस प्रकार अनाहारकमार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें सन्यक्त्वके जघन्य और उत्कृष्ट कालको ध्यानमे रखकर यहाँ पर मिथ्यात्वके
अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल तैतीस सागर कहा है । यह काल
वारह कषाय और नौ नोकषायोंका भी बन जाता है, इसलिए उसे मिथ्यात्वके समान जाननेकी
सूचना की है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके विषयमे भी जानना
चाहिए । मात्र इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय नारकियोंके समान बन जानेसे
यह एक समय कहा है । सम्यक्त्वका भङ्ग नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही है । भवनवासी
आदि नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमे अन्य सब काल इसी प्रकार बन जाता है । मात्र तैतीस सागरके
स्थानमे अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा भवनत्रिकमे मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका
उत्कृष्ट काल कहते समय वह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि
इन देवोंमे सम्यग्दृष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते, अतएव वहाँ भवके प्रथम समयसे सम्यग्दर्शन
सम्भव नहीं होनेसे मिथ्यात्वका सम्यक्त्व प्राप्तिके पूर्व संक्रम नहीं बन सकता । अनुदिश आदिमे
सब जीव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, अतएव उनमे सम्यक्त्वका प्रदेशसंक्रम सम्भव नहीं होनेसे उसका
निर्देश नहीं किया । मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक
समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण कहनेका कारण उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके एक समयको कम करना है ।
शेष कथन सुगम है ।

§ १०० जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व-
के जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका
जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर है । सम्यक्त्वके जघन्य प्रदेश-
संक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक
समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेश-
संक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल
अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । सोलह कषाय और नौ
नोकषायोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंका अपने-अपने जघन्य स्वामित्वके समय जघन्य प्रदेशसंक्रम

§ १०१. आदेशेण णेरइय० मिच्छ० जह० पदे०संका० जहणु एयस० । अजह० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । सम्म० ओधं । सम्मामि०-अणंताणु०४ जह० पदे०संका० जहणु० एयस० । अजह० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं सत्तणोकसाय० । णवरि अज० जह० अंतोमु० । वारसक०-भय-दुगुंछ० जह० पदे०संका० जहणु० एयस० । अजह० जह० दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । एवं सत्तमाए । णवरि वारसक०-भय-दुगुंछ० अज० जह० वावीसं सागरो० । अणंताणु०४ अंतोमु० ।

होता है, इसलिए उसका सर्वत्र जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अब रहा अजघन्य प्रदेशसंक्रमके कालका विचार सो सम्यग्दर्शनका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर होनेसे मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक छयासठ सागर कहा है। यहाँ पर साधिक छयासठ सागरसे उपशम सम्यक्त्व और मिथ्यात्वकी क्षणा होनेके पूर्व तकका वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल लेना चाहिए। उसमें भी जब तक मिथ्यात्वका संक्रमण होता रहता है उस समय तकका काल लेना चाहिए। सम्यक्त्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय जघन्य संक्रमके एक समय पश्चात् सम्यक्त्व प्राप्त कराकर ले आना चाहिए। तथा उत्कृष्ट काल पत्यके असख्यातवें भागप्रमाण इसके उत्कृष्ट उद्वेलना कालको ध्यानमें रखकर ले आना चाहिए। सम्यग्मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर जिस प्रकार अनुत्कृष्टका घटित करके बतला आये हैं उस प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है यह स्पष्ट ही है।

§ १०१. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। सम्यक्त्वका भङ्ग ओषके समान है। सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सात नोकषायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है। बारह कषाय, भय और जुगुप्साके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रमका एक समय कम दसहजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि बारह कषाय, भय और जुगुप्साके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल बारह सागर है और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है।

विशेषार्थ— यहाँ व आगे सर्वत्र सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपने-अपने स्वामित्वकी अपेक्षा एक समय है यह स्पष्ट है, अतः उसका सर्वत्र उल्लेख न कर केवल अजघन्य प्रदेशसंक्रमके जघन्य व उत्कृष्ट कालका खुलासा करेंगे। नरकमें सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरको ध्यानमें रखकर यहाँ पर मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल कहा है। सम्यक्त्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जो काल ओषके समान बतलाया है वह यहाँ भी वन जाता है, अतः इस प्रकृतियोंको यहाँ पर ओषके समान जाननेकी सूचना की है। सम्यग्मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल

§ १०२. पढमाए जाव छट्टि ति मिच्छ० जह० पदे०संक्रा० जहण्णु० एयस० । अजह० जह० अंतोसु०, उक्क० सगड्ढिदी देसूणा । सम्म० ओवं । सम्मामि०—अणंताणु०४ जह० पदे०संक्रा० जहण्णु० एयस० । अज० जह० एयस०, उक्क० सगड्ढिदी । एवं पंचणोक्क० । णवरि अज० जह० अंतोसु० । बारसक०-भय-दुगुंछ० जह० पदे०संक्रा० जहण्णु० एयस० । अज० जह० जहण्णुड्ढिदी समयूणा, उक्क० उक्कस्सड्ढिदी । एवमित्थिवेद-णवुंसय० । णवरि अजह० जहण्णुक्कस्सड्ढिदी भाणिदव्वा ।

एक समय ऐसे जीवके जानना चाहिए जो इसके उद्वेलनासंक्रममें एक समय शेष रहने पर नरकमें उत्पन्न हुआ है । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय ऐसे जीवके जानना चाहिए जो अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाके वाट सासादनमें आकर तथा पुनः सयुक्त होकर एक समय एक आवलिकाल तक नरकमें रहकर अन्य गतिको प्राप्त हो गया है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर स्पष्ट ही है, क्योंकि यथा योग्य मिथ्यात्व और सम्यक्त्वमें रखकर सम्यग्मिथ्यात्वका और मिथ्यात्वमें रखकर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका यह काल प्राप्त किया जा सकता है । सात नोकषायोंका उत्कृष्ट काल अनन्तानुबन्धीके समान ही घटित कर लेना चाहिए । मात्र जघन्य कालमें फरक है । कात यह है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भवस्थितिमें अन्तर्मुहूर्तकाल शेष रहने पर जघन्य प्रदेशसंक्रम होकर अन्तम अन्तर्मुहूर्तमें अजघन्य प्रदेशसंक्रम होना सम्भव है तथा पाँच नोकषायोंका नरकमें उत्पन्न होनेके बाद जघन्य प्रदेशसंक्रम होनेके पूर्व प्रथम अन्तर्मुहूर्तमें अजघन्य प्रदेशसंक्रम होना सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय कम दसहजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । सातवें नरकमें यह काल इसी प्रकार बन जाता है । मात्र वहाँ की जघन्य आयु एक समय अधिक बाईस सागर है, इसलिए उनमें बारह कषाय, भय और जुगुप्साके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल बाईस सागर कहा है । इनमेंसे एक समय इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका काल घटा दिया है । तथा जो सम्यग्दृष्टि अन्तमें मिथ्यादृष्टि होता है वह सातवें नरकमें अन्तर्मुहूर्त हुए बिना मरण नहीं करता, इसलिए यहाँ अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ १०२. पहिली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वका भङ्ग ओघके समान है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार पाँच नोकषायोंका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय कम अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

§ १०३. तिरिक्खेसु उक्कस्सभंगो । णवरि हस्स-रदि-अरदि-सोग-पुरिसवे० जह० पदे० जहण्णु० एयस० । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । पंचिदियतिरिक्खतिय० उक्कस्सभंगो । णवरि हस्स-रदि-अरदि-सोग-पुरिसवे० अजह० जह० अंतोमु० ।

§ १०४. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० सोलसक०-भय-दुगुंछा० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० । अज० जह० खुदाभवग्गहणं समयूणं, उक्क० अंतोमु० । सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० । अज० जह० एगस०, उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक० जह० पदे०संका० जहण्णु० अंतोमु० ।

विशेषार्थ—पूर्वमे सामान्य नारकियोंमे कालका स्पष्टीकरण कर आये हैं। उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिये। मात्र यहाँ पर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य व उत्कृष्ट काल जो जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि इन नारकोंमें उक्त प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम जघन्य स्थितिवालोंमें नहीं होता, अतः यहाँ पर इन प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य व उत्कृष्ट काल जघन्य व उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बन जाता है। गेप कथन सुगम है।

§ १०३. तिर्यञ्चोंमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति, शोक और पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पद्गल परिवर्तनप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति, शोक और पुरुषवेदके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोंमें और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे हास्य आदि पाँच नोकषायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम ऐसे जीवके होता है जो क्षुपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होता है। उसमे भी उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्तवाढ होता है। तथा इसके पहले इन प्रकृतियोंका अन्तर्मुहूर्त तक अजघन्य प्रदेशसंक्रम होता है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। गेप सब काल अपने अपने स्वामित्पको ध्यानमें रखकर उत्कृष्टके समान घटित कर लेना चाहिए।

§ १०४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय कम चुल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिश्र्यात्वके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। सात नोकषायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है।

विशेषार्थ—उक्त जीवोंमें सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम प्रथम नमयमें होता है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय कम चुल्लक-

§ १०५. मणुसतिए मिच्छ० सम्म० तिरिक्खभंगो । सम्मामि०-सोलसक०-
णवणोक० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० । अजह० जह० एयस०,+ उक्क० तिण्णि
पलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि ।

§ १०६. देवेषु मिच्छ० पंचणोक० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयसमओ । अजह०
जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० । एवं सम्मामि०-अणंताणु०४ । णवरि अज०
जह० एयस० । सम्म० ओघं । वारसक०-चदुणोक० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० ।
अजह० जह० दसवस्ससहस्साणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोघमं ।

भवग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । इनमें सन्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलनाकी अपेक्षा एक समय तक संक्रम हो यह भी संभव है और कायस्थितिप्रमाण काल तक संक्रम होता रहे यह भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है । सात नोकपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम इन जीवोंमें अन्तर्मुहूर्तके बाद प्राप्त होता है । इसके पहिले अजघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । तथा जिसके जघन्य प्रदेशसंक्रम नहीं होता उसके कायस्थितिप्रमाण काल तक इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम होता रहता है । यतः ये दोनों काल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण हैं, अतः यहाँ इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ १०५ मनुष्यत्रिकमे मिथ्यात्व और सन्यक्त्वका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है । सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमे मिथ्यात्व और सन्यक्त्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रमका काल तिर्यञ्चोंके समान बन जानेसे उनके समान कहा है । सम्यग्मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय उद्वेलनाकी अपेक्षा और सोलह कषाय, भय व जुगुप्साके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय उपशम श्रेणिसे उतरते समय एक समय इनका संक्रम कराकर मरणकी अपेक्षा बन जाता है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंका यह काल एक समय कहा है । तथा उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट है । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल इसकी सत्तावाले जीवको यथायोग्य सन्यक्त्व और मिथ्यात्वमे रख कर यह काल ले आना चाहिए ।

§ १०६. देवोंमे मिथ्यात्व और पाँच भोकपायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय है । सन्यक्त्वका भङ्ग ओघके समान है । वारह कषाय और चार नोकपायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागरप्रमाण है ।

विशेषार्थ—देवोंमें सन्यक्त्वका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेत्तीस सागर है, इसलिए तो इनमे मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट

§ १०७. भवणादि जाव णवगेवजा ति मिच्छ०—पंचणोक० जह० जहणु०
 एयस० । अज० जह० अंतोमु०, + उक० सगडिदी । एवं सम्मामि०—अणंताणु०४ ।
 णवरि अजह० जह० एयस० । सम्म० ओघं । वारसक०—भयदुगुंछ० जह० प०सं०
 जहणु० एयस० । अजह० जह० जहणुडिदी समयूणा, उक० उकस्सडिदी । इत्थिवे०—
 णवुंसं० जह० प०संका० जहणु० एयस० । अजह० जहणुक्क० जहणुक्कस्सडिदी ।

§ १०८. अणुदिसादि सब्बडा ति मिच्छ०—सम्मामि० जह० पदे०संका० जहणु०
 एयस० । अजह० जहणुक्क० जहणुक्कस्सडिदी । एवमित्थि०—णवुंसं० । एवं वारसक०—

काल तेतीस सागर कहा है । तथा तत्प्रायोग्य देवके देव होनेके अन्तर्मुहूर्त वाद पाँच नोकषायोंका जवन्य प्रदेशसंक्रम होता है, इसके पहले अन्नमुहूर्त तक अजवन्य प्रदेशसंक्रम होता है । तथा अन्य देवोंकी पूरी पर्याय तक इनका अजवन्य प्रदेशसंक्रम सम्भव है, इसलिए यहाँ पर उक्त प्रकृतियोंके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका यह काल इसीप्रकार बन जाता है । मात्र जवन्य काल एक समय प्राप्त होता है सो इसका खुनासा सामान्य नारकियोंके समान कर लेना चाहिए । सम्यक्त्वका भङ्ग ओघके समान है यह स्पष्ट ही है । वारह कपाय और भय व जुगुप्साका जवन्य प्रदेशसंक्रम क्षयितकर्मा शिक नारकीके प्रथम समयमें होता है । स्त्री व नपुंसक वेदका जवन्य प्रदेशसंक्रम तेतीस सागरकी आयुवालोंके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए वारह कपायादि उक्त प्रकृतियोंके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य काल दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है ।

§ १०७. भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व और पाँच नोकषायोंके जवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य काल एक समय है । सम्यक्त्वका भङ्ग ओघके समान है । वारह कपाय, भय और जुगुप्साके जवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य काल एक समय कम जवन्य स्थितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य काल जवन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ — भवनवासी आदि देवोंमें वारह कपाय, भय और जुगुप्साका जवन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए यहाँ इनके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य काल एक समय एक समय कम जवन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है जो अपने न्यामित्यको जानकर घटित कर लेना चाहिए ।

§ १०८. अनुविशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जवन्य काल जवन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका

भय-दुगुंछ०-पुरिसवे० । णवरि अजह० जह० जहण्णाड्ढिदी समयूणा । अणंताणु०४
हस्स-रदि-अरदि-सोग० जह० पदे०संक्रा० जहण्णु० एयस० । अजह० जह० अंतोमुहुतं,
उक० सगाड्ढिदी । णवरि सव्वडे इत्थिवे०-णवुंसवे०-मिच्छ०-सम्मामि० अजह०
सगाड्ढिदी समयूणा । एवं जाव० ।

एवं कालाणुगमो समत्तो ।

❀ अंतरं ।

§ १०६. सुगममेदमहियारसंभालगवक्कं ।

❀ सव्वेसिं कम्माणमुक्कस्सपदेससंकामयस्स एत्थि अंतरं ।

जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार वारह कषाय, भय, जुगुप्सा और पुरुषवेदका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थिति-प्रमाण है । अनन्तानुधन्धीचतुष्क, हास्य, रति, अरति और शोकके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय कम अपनी स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—अनुदिश आदिमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम दीर्घ आयुवालोंमें वहाँसे निकलनेके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण कहा है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल जघन्य स्थिति-प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें ऐसे जीवोंके भी होता है जो जघन्य आयु लेकर वहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण विशेष रूपसे कहा है । उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । इन देवोंमें अनन्तानुधन्धीचतुष्कका अजघन्य प्रदेशसंक्रम अन्त-मुहूर्त तक होकर उनकी विसंयोजना होना सम्भव है । तथा वेदक सम्यग्दृष्टिके जीवन भर इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम होता रहता है, इसलिए तो इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्त-मुहूर्त और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है । अब रहीं चार नोकषाय प्रकृतियों से इनका जघन्य प्रदेशसंक्रम वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तमुहूर्त वाद होना सम्भव है, इसलिए इनके भी अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है । सर्वार्थसिद्धिमें यह काल इसी प्रकार घटित हो जाता है । मात्र वहाँ जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिका भेद नहीं होनेसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय कम स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त होनेसे से अलगसे कहा है । शेष कथन स्पष्ट है ।

इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ ।

* अब अन्तरका कथन करते हैं ।

§ १०६. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है ।

* सब कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ११०. होउ णाम खवगसंबंधेण लद्धुक्कस्सभावाणं मिच्छतादिकम्माणमंतराभावो, ण वुण सम्मत्ताणंताणुबंधीणमंतराभावो जुत्तो, तेसिमखवयविसयत्तेण लद्धुक्कस्सभावाण-मंतरसंबवे विप्पडिसेहाभावादो ? ण एस दोसो, गुणिदकम्मंसियलक्खणोणोयत्तरं परिणदस्स पुणो जहण्णदो वि अद्धपोगलपरियट्टमेत्तकालव्भंतरे तब्भावपरिणामो णत्थि त्ति एवंविहा-हिप्पाएणेदस्स सुत्तस्स पयट्टत्तादो । एसो ताव एको उवएसो चुणिसुत्तयारेण सिस्साणं परूविदो । अण्णेणोवएसेण पुण सम्मत्ताणंताणुबंधीणं अंतरसंभवो अत्थि त्ति तप्पमाणाव-हारणं उत्तरसुत्तं भणइ—

❀ अधवा सम्मत्ताणंताणुबंधीणं उक्कस्ससंक्रामयस्स अंतरं केवचिरं ?

§ १११. अण्णेणोवएसेण सम्मत्ताणंताणुबंधीणमुक्कस्सपदेससंक्रामयंतरं संभवइ । पुण केवचिरमंतरं होइ त्ति पुच्छा कया होइ ।

❀ जहण्णेण असंखेज्जा लोगा ।

§ ११२. गुणिदकम्मंसियलक्खणोणागंतूण गोरइयचरिमसमयादो हेट्ठा अंतोमुहुत्ते-मोसरिय पढमसम्मत्तमुप्पाइय जहावुत्तपदेसे सम्मत्ताणंताणुबंधीणमुक्कस्सपदेससंक्रामस्सार्दि

§ ११०. शंका—मिथ्यात्व आदि कर्मोका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम क्षण करेनेवाले जीवके होनेके कारण इनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर न होओ यह ठीक है । किन्तु सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरका अभाव युक्त नहीं है, क्योंकि इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम क्षणको विषय नहीं करता, इसलिए उनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव होनेसे उसका निषेध नहीं बनता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुणितकर्मा शिक लक्षणसे एक चार परिणत हुए जीवके पुन. जघन्य रूपसे भी उसके योग्य परिणाम अर्धपुद्गल परिवर्तनप्रमाण कालके भीतर नहीं होता इस प्रकार ऐसे अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है ।

यह एक उपदेश है जो सूत्रकारने शिष्योंके लिए कहा है । परन्तु अन्य उपदेशके अनुसार सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव है, इसलिए उसके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगे का सूत्र कहते हैं—

❀ अथवा सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ १११. अन्यके उपदेशानुसार सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तर सम्भव है । परन्तु यह कितना है यह पृच्छा इस सूत्र द्वारा की गई है ।

❀ जघन्य अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ११२. गुणितकर्मा शिक लक्षणसे आकर नारकीके अन्तिम समयसे पीछे अन्तर्मुहूर्त रहकर अर्थान् नारकीके अन्तिम समयके प्राप्त होनेके अन्तर्मुहूर्त पहिले प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्नकर यथोक्त स्थानमें सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम पूर्वक उसका अन्तर करके अनुत्कृष्ट

कादूण अंतरिय अणुक्कस्सपरिणामेसु असंखे०लोगपमाणेसु तेत्तियमेत्तकालमच्छिऊण पुणो सव्वलहुं गुणिदकिरियासंबंधमुवसामिय पुव्वुत्तेणेव कमेण पडिवण्णतवभावम्मि तदुवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ११३. पुव्वुत्तविहाणेणेवादिं करिय अंतरिदस्स देसूणाद्वपोग्गलपरियट्टमेत्तकालं परिभमिय तदवसाणे गुणिदकम्मंसिओ होदूण सम्मत्तमुप्पाइय पुव्वं व पडिवण्णतवभावम्मि तदुवलद्वीदो ।

§ ११४. एवमोघेणुक्कस्सपदेससंकामयंतरसंभवासंभवणिण्णयं कादूण संपहि एदेण सूचिददेसपरूवणड्डुमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—अंतरं दुविहं जह० उक्क० । उक्क० पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे० संका० णत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतोमुहुत्तं, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । णवरि सम्मामि० अणु० जह० एयस० । सम्म० मिच्छत्तभंगो । अणंताणु०४ उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतोमु०, उक्क० वेळावट्टिसागरो० सादिरेयाणि । वारसक०-णवणोक्क० उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।^१

प्रदेशसंक्रमके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण परिणामोंमे उतने ही काल तक रहकर पुनः अतिशीघ्र गुणितक्रियाविधिको उपशमा कर पूर्वोक्त क्रमसे ही उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट भावके प्राप्त होने पर उक्त अन्तर प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ११३. पूर्वोक्त विधिसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरका प्रारम्भ करके तथा कुछ कम अर्ध पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण काल तक परिभ्रमण करके उसके अन्तमे गुणित कर्मांशिक होकर तथा सम्यक्त्वको उत्पन्नकर पहिलेके समान उत्कृष्ट भावके प्राप्त होने पर उक्त अन्तरकाल प्राप्त होता है ।

§ ११४. इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरसम्बन्धी सम्भवासम्भव भावका निर्णय करके अब इससे सूचित होनेवाले आदेशका कथन करनेके लिए उच्चारणको बतलाते हैं । यथा—अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्थ-पुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकका जघन्य अन्तर एक समय है । सम्यक्त्वका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है । बारह कपाय और नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

१ ता० प्रतौ 'अणु० जह० अंतोमु० एयस०' इति पाठः ।

§ ११५. आदेशेण शेरइय० मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे०संक० णत्थि अंतरं ।
अणु० जह० एयस०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० देसूणाणि । एवं सम्म०-अणंताणु०४ ।
णवरि अणु० जह० अंतोमुहुत्तं । बारसक०-णवणोक० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक०
जहण्णुक० एयसमओ । एवं सब्बशेरइय० । णवरि सगद्धिदी देसूणा ।

विशेषार्थ—सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम क्षणके समय होता है इससे यहाँ पर उनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया है। अब रहा अनुत्कृष्टके अन्तरकालका विचार सो सादि मिथ्यादृष्टिका मिथ्यात्वमें रहनेका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी दर्शन-मोहनीयका संक्रमण नहीं होता, इसलिए इस अपेक्षासे भी मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त ले आना चाहिए। कोई सादि मिथ्यादृष्टि प्रत्येक असख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करके उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण काल तक उसकी सत्तारहित रहता है। तथा कोई सादि मिथ्या दृष्टि प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वका सर्वसंक्रम द्वारा अभाव करके और दूसरे समयमें उपशम सम्यग्दृष्टि होकर तीसरे समयमें पुनः उसका संक्रम करने लगता है, इसलिए यहाँ पर सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। सम्यक्त्वका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र यहाँ पर सम्यक्त्वकी सत्तावाले सादि मिथ्यादृष्टिको अन्तर्मुहूर्त तक सम्यक्त्वमें रख कर मिथ्यात्वमें ले जाकर जघन्य अन्तर घटित करना चाहिए। तथा उत्कृष्ट अन्तर उद्वेलनाके बाद उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण काल तक मिथ्यात्वमें रखकर तदनन्तर, उपशमसम्यक्त्व प्राप्त कराके पुनः मिथ्यात्वमें ले जाकर लाना चाहिए। विसयोजनापूर्वक सम्यक्त्वका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है यह देखकर अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण कहा है। बारह कषाय और नौ नोकपायोंका उपशम श्रेणीमें मरणकी अपेक्षा एक समय और चढ़कर उतरनेकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त संक्रमका अन्तर बन जाता है, इसलिए यहाँ पर इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है।

§ ११५ आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसी प्रकार सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। बारह कषाय और नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियों और प्रत्येक पृथिवीके नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल न होनेका कारण यह है कि इनमें दो बार इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सम्भव नहीं। इसी प्रकार आगेकी मार्गणाओंमें भी जानना चाहिए। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके

§ ११६. तिरिक्खेसु मिच्छ०—सम्मामि०—सम्म० उक्क०णत्थि अंतरं । अणु० जह० एगस०, सम्म० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । अणंताणु०४ उक्क० णत्थि अंतरं । अणु० जह० अंतोमु०, उक्क० तिपिण पलिदो० देसूणाणि । बारसक०—णवणोक्क० उक्क० णत्थि अंतर । अणुक्क० जहणु० एयसमओ ।

अन्तरकालका खुलासा इस प्रकार है—यहाँ पर मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता है इसलिए तो इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । तथा प्रारम्भमे और अन्तमे सम्यक्त्वमे रखकर मध्यमे कुछ कम तेतीस सागरकाल तक मिथ्यात्वमे रखनेसे मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । तथा प्रारम्भमे और अन्तमे सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रमण करावे और मध्यमे उद्वेलना द्वारा उसका अभाव हो जानेसे कुछ कम तेतीस सागरकाल तक उसकी सत्ताके विना रखे । इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र यह अन्तर मध्यमे कुछ कम तेतीस सागरकाल तक सम्यक्त्वके साथ रखकर प्राप्त करना चाहिए । सम्यक्त्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त कहनेका कारण यह है कि इसका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम ऐसे जीवके होता है जो सम्यक्त्वसे च्युत होकर मिथ्यात्वके प्रथम समयमे स्थित है । यहाँ जो सम्यक्त्वका जघन्य काल अन्तमुहूर्त है वही इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तरकाल जानना चाहिए । बारह कषाय और नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका काल एक समय है वही यहाँ इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल होता है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है । यह सामान्यसे नारकियोंमे अन्तरकालका विचार है । प्रत्येक पृथिवीमें यह अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र जहाँ पर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ पर वह कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए ।

§ ११६. तिर्यञ्चों मे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, सम्यक्त्वका अन्तमुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उवार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्त कुछ कम तीन पल्य है । बारह कषाय और नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है ।

विशेषार्थ—यहाँ पर अन्य सब अन्तरकाल नारकियोंके समान घटित कर लेना चाहिए । केवल मिथ्यात्व आदि तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उवार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहनेका कारण यह है कि तिर्यञ्च पर्यायमे कोई भी जीव इतने काल तक रहकर प्रारम्भमें और अन्तमे इनका संक्रम करे और मध्यमें न करे यह सम्भव है, इसलिए तो इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है, तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका ऐसा तिर्यञ्च ही असंक्रामक हो सकता है जिसने इनकी विसंयोजना की है और यह काल कुछ कम तीन पल्य ही हो सकता है, इसलिए तिर्यञ्चोंमे इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ११७. पंचि०तिरि०३ मिच्छ०—सम्मामि०—सम्म० उक्क० पदे० संका० णत्थि अंतरं । अणु० जह० एयस०, सम्म० अतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० पुव्वकोडि-पुधत्तेणव्वहियाणि । सोलसक०—णव्वणोक० तिरिक्खभंगो ।

§ ११८. पंचिदियतिरि०अपज्ज०—मणुसअपज्ज० पणुवीसपय० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणु० एयस० । सम्म०—सम्मामि० उक्क० अणुक्क० पदे०संका० णत्थि अंतरं ।

§ ११९. मणुसतिए मिच्छ०—सम्मामि०—सम्म० उक्क० पदे०संका० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतोमु०, सम्मामि० एयस०, उक्क० तिण्णिपलिदो० पुव्वकोडिपुध० । अणंताणु०४ तिरिक्खभंगो । बारसक०—णव्वणोक० उक्क० पदे० संका० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणु० अंतोमु० । णवरि पुरिसवे० तिण्णिसंज० अणु० जह० एयस० ।

§ ११७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, सम्यक्त्वका अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य होनेसे यहाँ पर मिथ्यात्व आदि तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

§ ११८. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमे पच्चीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि इन जीवोंमें पच्चीस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण भवके प्रथम समयमे न होकर मध्यमे होता है। साथ ही वह पर्याप्त पर्यायसे आकर होता है, इसलिए इनमे पच्चीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणके अन्तरका तो निषेध किया है और अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है। तथा शेष तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण भवके प्रथम समयमे होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट दोनों प्रकारके प्रदेशसंक्रमणका अन्तर सम्भव न होनेसे दोनोंके अन्तरका निषेध किया है।

§ ११९. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, सम्यग्मिथ्यात्वका एक समय है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग तिर्यञ्चोंके समान है। बारह कपाय और नौ नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और तीन संव्वलनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और

उक्क० अंतोमु० । णवरि मणुसिणी पुरिसवे० अणु० जहणु० अंतोमु० ।

§ १२०. देवगदीए देवेसु मिच्छ०—सम्मामि०—सम्म० उक्क० णत्थि अंतरं ।
अणु० जह० एयस०, सम्म० अंतोमु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसूणाणि ।
अणंताणु०४ सम्मत्तभंगो । बारसक० णवणोक० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणु०
एयसमओ । एवं भवणादि जाव णवगेवजा त्ति । णवरि सगड्ढिदी देसूणा ।

उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है । इतनी और विशेषता है कि मनुष्यिनियोंपे पुरुषवेदके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमे मिथ्यात्व आदि सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम गुणितकर्मा-
शिक जीवके होता है और मनुष्यत्रिक पर्यायके चालू रहते जीवका दो बार गुणितकर्मा शिक होना
सम्भव नहीं है. इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया
है. अब रहा अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर काल सो सम्यक्त्व और मिथ्यात्वका जघन्य काल
अन्तर्मुहूर्त होनेसे इनमे मिथ्यात्व और सम्यक्त्व कर्मके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर
अन्तर्मुहूर्त कहा है । कारण कि सम्यक्त्व गुण-स्थानमे सम्यक्त्वका और मिथ्यात्व गुणस्थानमे
मिथ्यात्वका संक्रम नहीं होता । परन्तु दोनों गुणस्थानोंमे सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रम सम्भव है,
इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । कारणका विचार
ओघ प्ररूपणाके समय कर आये हैं । इन तीनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर
पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है यह स्पष्ट ही है जो अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे
और अन्तमें अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके कराने से प्राप्त होता है ऐसा यहाँ समझना चाहिये । अनन्ता-
नुबन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर तिर्यञ्चोंके समान यहाँ घटित हो
जानेसे उसे अलगसे नहीं कहा है । सो तिर्यञ्चोंमे इन प्रकृतियोंके अन्तरको जान कर यहाँ पर भी
उसे साध लेना चाहिए । यहाँ पर बारह कषाय और नौ नोकषायोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त उपशमश्रेणिकी अपेक्षासे कहा है । कारण कि मात्र उपशम-
श्रेणिमे अन्तर्मुहूर्त काल तक इन प्रकृतियोंका संक्रम नहीं होता । किन्तु इतनी विशेषता है कि
पुरुषवेद और तीन संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम क्षपकश्रेणिमे एक समयके लिए होता है । किन्तु
इसके पहले और बादमें उनका अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट
प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर उपशमश्रेणिकी अपेक्षा अन्तर्मुहूर्त
कहा है । मात्र मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय नहीं
बनता, क्योंकि परोदयसे क्षपकश्रेणि पर चढ़े हुए जीवके पुरुषवेदकी क्षपणाके अन्तिम समय मे
उसका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्यिनियोंमे इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ १२०. देवगतिमे देवोंमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रा-
मकका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, सम्यक्त्वका
अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका
भङ्ग सम्यक्त्वके समान है । बारह कषाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तर
नहीं है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार भवन-
वासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयकतकके देवोंमे कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अनुत्कृष्ट प्रदेश-
संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए ।

§ १२१. अणुदिसादि सव्वट्टा ति मिच्छ०-सम्मामि०-अणंताणु०४ उक्क०
अणुक्क० णत्थि अंतरं । बारसक०-णवणोक० उक्क० णत्थि अंतरं । अणुक्क० जहणु०
एयस० । एवं जाव० ।

❀ एत्तो जहणणयं ।

§ १२२. एत्तो उक्कसंतरं विहासणादो उवरि जहणणयमंतरमिदाणि विहासइस्सामो
त्ति अहियारसंभालणव्रकमेदं ।

❀ कोहसंजलण-भाणसंजलण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं जहणणपदेस-
संकामयस्संतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ १२३. सुगमं ।

विशेषार्थ—अपने अपने स्वामित्वको देखते हुए नारकियोंके समान देवोंमें भी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं बनता यह स्पष्ट ही है। तथा इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जो अलग अलग जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल कहा है सो उसे जिस प्रकार हम नारकियोंमें घटित कर बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। मात्र यहाँ उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण ही कहना चाहिए। अन्य कोई विशेषता न होनेसे इसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है।

§ १२१. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानु-
बन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है। बारह कपाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—उक्त देवोंमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें प्राप्त होता है। तथा अनन्तानुबन्धीका वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद विसजो-
जनाके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव नहीं होनेसे उसका निषेध किया है। तथा बारह कपाय और नौ नोकषायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम भी वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद अपने स्वामित्वके अनुसार होता है, इसलिए वहाँ इनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव न होनेसे उसका तो निषेध किया है और अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका एक समय अन्तर प्राप्त होनेसे जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका वह एक समय कहा है।

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

* इससे आगे जघन्य अन्तरकालका व्याख्यान करते हैं ।

§ १२२. इससे अर्थात् उत्कृष्ट अन्तरकालके व्याख्यानके बाद अब जघन्य अन्तरकालका व्याख्यान करते हैं इस प्रकार यह सूत्रवचन अधिकारकी सम्हाल करता है ।

* क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रा-
मका जघन्य अन्तरकाल कितना है ।

§ १२३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ १२४. तं जहा—चिगाणसंतक्रममेदेसिमुवसामिय घोलमाणजहणजोगेण बद्ध-
चरिमसमयणवक्रबंधमंक्रामयचरिमसमयम्मि जहणसंकमस्सादिं कादूण विदियादिसमएसु
अंतरिय उवरिं चट्टिय ओडण्णो संतो पुगो वि सव्वलहुमंतोमुहुत्तेण विसुज्झिदूण सेठिसमा-
रोहणं करिय पुवुत्तपदेमे तेणेव विहिणा जहणपदेससंक्रामओ जादो, लद्धमंतरं ।

❀ उक्कस्सेण उवडूपोग्गलपरियट्टं ।

§ १२५. तं कथं ? पुवुत्तक्रमेणेवादिं करिय अंतरिदो संतो देसूणद्वपोग्गलपरियट्ट-
मेत्तकालं परियट्टिदूण पुणो अंतोमुहुत्तसेसे संसारे उवसमसेठिमारुहिय जहणपदेससंक्रामओ
जादो, लद्धमुक्कस्संतरं ।

❀ सेसाणं कम्माणं जाणिऊण रोदव्वं ।

§ १२६. सेसाणं कम्माणमंतरमत्थि णत्थि ति णादूण रोदव्वमिदि सोदाराणमत्थ
समप्पणं कयमेदेण सुत्तेण ।

§ १२७. संपहि एदेण सुत्तेण सूचिदत्थस्स पख्खणट्टमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं
जहा—जह० पयदं । दुविहो णिहेसो—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०
जह० पदे०संका० णत्थि अंतरं । अजह० जह० एयस०, उक्क० उवडूपोग्गलपरियट्टं ।

* जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है ।

§ १२४. यथा—जो इन कर्मोंके प्राचीन सत्कर्मको उपशमा कर घोलमान जघन्य योगके
द्वारा अन्तिम समयमे बाँधे गये नवकवन्धके संक्रमके अन्तिम समयमे जघन्य संक्रमका प्रारम्भ
करके और द्वितीयादि समयोंमे उसका अन्तर करके ऊपर चढ़कर उपशमश्रेणिसे उत्तर आया है ।
तथा फिर भी सबसे लघु अन्तमुहूर्तके द्वारा विशुद्ध होकर और उपशमश्रेणि पर आरोहण करके
पूर्वोक्त स्थानमे जाकर उसी विधिसे उक्त कर्मोंके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक हुआ है इस प्रकार
उक्त कर्मोंको जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तरकाल प्राप्त हो गया ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है ।

§ १२५. वह कैसे ? पूर्वोक्त विधिसे ही जघन्य संक्रमका प्रारम्भ करके और उसका अन्तर
करके कुछ कम अर्धपुद्गलपरिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके पुनः संसारके अन्तमुहूर्त प्रमाण
शेष रहने पर उपशमश्रेणि पर आरोहण करके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक हो गया, इस प्रकार
उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त हुआ ।

* शेष कर्मोंका अन्तरकाल जानकर ले आना चाहिए ।

§ १२६. शेष कर्मोंका अन्तरकाल है या नहीं है ऐसा जानकर उसे ले आना चाहिए । इस
प्रकार इस सूत्र द्वारा श्रोताओंको अर्थका ज्ञान कराया गया है ।

§ १२७. अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए अर्थका कथन करनेके लिए उच्चारणको वतलाते हैं ।
यथा—जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व,
सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेश-

अणंताणु०४ जह० णत्थि अंतरं । अजह० जह० एयस०, उक० वेछावड्डिसा० सादिरे-
याणि । वारसक०-णवणोक० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक० अंतोमु० ।
णवरि तिणिसंजल०-पुरिसवे० जह० पदे०संका० जह० अंतोमु०, उक० उव०पोगल-
परियड्डं ।

संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है । बारह कपाय और नौ नोकषायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि तीन संज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है ।

विशेषार्थ—ओघसे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षपित कर्मांशिक जीवके क्षणका प्रारम्भ कर अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मि यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षपितकर्मांशिक जीवके अन्तमे उद्वेलना करते हुए द्विचरमकाण्डकके पतनके अन्तिम समयमे होता है । यत यह विधि दूसरी बार सम्भव नहीं है, इसलिए इन कर्मोंके जघन्य प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया है । इन कर्मोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता है इसलिए तो इनके अजघन्यप्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम अर्धपुद्गलपरिवर्तनके प्रारम्भमें और अन्तमें हो, मध्यमें न हो यह सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण कहा है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षपित कर्मांशिक जीवके उनकी विसंयोजना करते समय अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका काल एक समय होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और अधिकसे अधिक साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण काल तक इनका अभाव रहता है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है । बारह कपाय, लोभसंज्वलन, छह नोकपाय, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षपितकर्मांशिक जीवके क्षणके समय ही यथास्थान प्राप्त होता है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं बननेसे उसका निषेध किया है । तथा इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है और उपशमश्रेणिमें इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तमुहूर्त काल प्राप्त होनेसे उत्कृष्टरूपसे वह तत्प्रमाण कहा है । अब रहे क्रोधसंज्वलन आदि तीन संज्वलन और पुरुषवेद सो इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गलपरिवर्तनप्रमाण पहले मूलमें ही घटित करके वतला आये हैं, इसलिए वहाँसे जान लेना चाहिए । तथा इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त बारह कपाय आदिके समान ही प्राप्त होता है, इसलिए इस अन्तरकालका कथन उनके साथ किया है ।

§ १२८. आदेसे० गोरइय० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ जह०
णत्थि अंतरं । अजह० जह० एयस०, मिच्छ० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो०
देसूणाणि । बारसक०-भय-दुगुंछ० जह० अजह० णत्थि अंतरं । सत्तणोक० जह० पदे०-
संका० णत्थि अंतरं । अजह० जहणु० एयसमओ । एवं सत्तमाए । पढमाए जाव छट्ठि
त्ति एवं चेव । णवरि सगाट्टिदी देसूणा । इत्थिवेद०-णवुंस० जह० अजह० पदे०संका०
णत्थि अंतरं । अणंताणु०४ अजह० जह० अंतोमु० ।

§ १२८. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साके जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । सात नोक्षायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमे जानना चाहिए । पहली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमे इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा इनमे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—सामान्य नारकियोंमें और प्रत्येक पृथिवीके नारकियोंमे सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल न होनेका कारण यह है कि इनमे इनका दोबार जघन्य प्रदेशसंक्रम सम्भव नहीं है । इसी प्रकार गतिमार्गणाके सब अवान्तर भेदोंमे भी जानना चाहिए । अजघन्यप्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका खुलासा इस प्रकार है—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता है और आगे-पीछे अजघन्यप्रदेशसंक्रम होता रहता है, इसलिए तो इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । तथा मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम अपने स्वामित्वके अनुसार सम्यक्त्वसे च्युत होनेके अन्तिम समयमे होता है और उसके बाद मिथ्यात्वका असंक्रामक हो जाता है, इसलिए मिथ्यात्व गुणस्थानके जघन्य काल अन्तर्मुहूर्तकी अपेक्षा इसके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है सो इसे इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके उत्कृष्ट अन्तरकालके समान घटित कर लेना चाहिए । उससे इसमें कोई विशेषता न होनेके कारण इसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है । बारह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमे प्राप्त होता है, इसलिए इनके दोनों प्रकारके प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं बननेसे उसका निषेध किया है । सात नोक्षायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । यह सामान्य नारकियों और सातवीं पृथिवीके नारकियोंमे अन्तरकालका विचार है । अन्य पृथिवियोंमें इसे इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र उनमे जो विशेषता है उसका अलगसे उल्लेख किया है । बात यह है कि एक तो प्रत्येक पृथिवीके नारकियोंकी भवस्थिति अलग अलग है इसलिए जहाँ भी अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ वह अपनी अपनी भवस्थिति

§ १२६. तिरिक्खेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० णत्थि अंतरं । अजह० जह० एयस०, मिच्छ० अंतोमु०, उक्क० उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । अणंताणु०४ जह० पदे०संका० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतोमु०, उक्क० तिण्णि पलिदो० देसूणाणि । बारसक०-चदुणोक० जह० अजह० पदे०संका० णत्थि अंतरं । हस्स-रदि-अरदि-सोग-पुरिसवे० ज० पदे०संका० णत्थि अंतरं । अज० जहणु० एयस० । एवं पंचिदियतिरिक्खतिय३ । णवरि मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० णत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, मिच्छ० अंतोमु०, उक्क० तिण्णिपलिदो० पुव्वकोडिपुध० ।

प्रमाण जानना चाहिए । दूसरे इनमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवके अन्तिम समयमें प्राप्त होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं बनता, इसलिए उसका निषेध किया है । तीसरे इनमें अनन्तानुबन्धी चतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम भी भवके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है, अतः विसंयोजित अनन्तानुबन्धीके जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्तको ध्यानमें रखकर यहाँ पर इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

§ १२६. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय है, मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य प्रमाण है । बारह कषाय और चार नोकषायों के जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है । हास्य, रति, अरति, शोक और पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय है, मिथ्यात्वका अन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य प्रमाण है ।

विशेषार्थ—वहाँ पर अन्तरकालका सब स्पष्टीकरण प्रथमादि छह पृथिवियों के समान कर लेना चाहिए । जो थोड़ी-बहुत विशेषता है उसका खुलासा इस प्रकार है । तिर्यञ्चोंमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंको भी बारह कषाय, भय और जुगुप्सामे सम्मिलित कर उनके दोनों प्रकारके प्रदेशसंक्रमका निषेध किया है । एक विशेषता तो यह है । दूसरी विशेषता है तिर्यञ्चोंकी कायस्थितिकी अपेक्षासे । बात यह है कि तिर्यञ्चोंकी कायस्थिति बहुत अधिक है, इसलिए उनमें मिथ्यात्व आदि तीन प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । तीसरी विशेषता अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजनाकी अपेक्षासे । बात यह है कि तिर्यञ्चोंमें वेदकसम्यक्त्वकी अपेक्षा अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजनाका काल कुछ कम तीन पल्यसे अधिक नहीं है, इसलिए इनमें इन प्रकृतियों के अजघन्य प्रदेश-

१३०. पंचि०तिरि०अपञ्ज०-मणुसअपञ्ज०-सोलसक०-भय-दुगुंछा० जह०
अजह० गत्थि अंतरं । सम्म०-सम्मामि०-२-सत्तणोक० जह० गत्थि अंतरं । अजह०
जहणु० एयस० ।

१३१. मणुसतिए दंसणतियस्स जह० पदेस०संका० गत्थि अंतरं । अजह०
जह० एयस०, उक्क० तिण्णिपलिदो० पुव्वकोडिपुध० । अणंताणु०चउ० जह० पदे०-
संका० गत्थि अंतरं । अज० जह० एयस०, उक्क० तिण्णिपलिदो० देसू० । णवकसाय-
अट्टणोक १य-जह०पदे०संका० गत्थि अंतरं । अजह० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।
तिण्णिसंज्ज०-पुरिसवेद० जह० पदे०संका० जह० अंतोमु०, उक्क० पुव्वकोडिपुध०
अजह० जहणुक्क० अंतोमु० । णवरि मणुसिणी०-पुरिसवे० जह० पदे०संका० गत्थि
अंतरं । अजह० जह० एयस०, उक्क० अंतोमु० ।

संक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य कहा है । यह सामान्य तिर्यञ्चोंकी अपेक्षा विशेषता क स्पष्टीकरण है । पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकमें अन्य सब अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है । मात्र इनकी कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य होनेसे इनमें मिथ्यात्व आदि तीन प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उक्त काल प्रमाण प्राप्त होनेसे वह उतना कहा है ।

§ १३०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्व, सन्यग्मिथ्यात्व और सात नोकपायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है ।

विशेषार्थ—इन जीवोंमें सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य संदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें प्राप्त होता है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा सम्यक्त्व और सन्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम द्विचरम काण्डके पतनके अन्तिम समयमें और सात नोकपायों का जघन्य प्रदेशसंक्रम इनमें उत्पन्न होनेके अन्तमुहूर्त बाद प्राप्त होता है । इस कारण यतः इनमें उक्त नौ प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है और अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय प्राप्त होनेसे वह उक्त काल प्रमाण कहा है ।

§ १३१ मनुष्यत्रिकमें दर्शनमोहनीयत्रिकके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पूर्व कोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । नौ कपाय और आठ नोकपायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । तीन संज्वलन और पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है ।

§ १३२. देवगईए देवेसु मिच्छ०-अणंताणु०चउ० जह० णत्थि अंतरं । अज० जह० अंतोसु०, उक्क० एकत्तीसं सागरो० देसुणाणि । एवं सम्म०-सम्मामि० । णवरि अज० जह० एयस० । वारसक०-चदुणोक० जह० अज० णत्थि अंतरं । पंचणोक० जह० पदे०संका० णत्थि अंतरं । अजह० जहणु० एयस० । एवं भवणादि जाव णवगेवज्जा ति । णवरि सगट्टिदी देसुणा ।

§ १३३. अणुदिसादि सञ्चट्ठा ति मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-तिण्णिवे०-भयद्गुं० जह० अजह० णत्थि अंतरं । हस्स-रइ-अरइ-सोग ज० पदे०संका० णत्थि अंतरं । अजह० जहणु० एयस०, एवं जाव० ।

विशेषार्थ—साधारण ओघप्ररूपणाके समय जो अन्तरकाल घटित करके बतला आये हैं उसके अनुसार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए । मात्र कायस्थिति और इनमे वेदकसम्यक्त्वके साथ अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनाकाल आदिकी अपेक्षा जो विशेषता आती है उसे अलगसे जान लेना चाहिए ।

§ १३२. देवगतिमे देवोंमे मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके विषयमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है । वारह कपाय और चार नोकषायोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । पाँच नोकषायोंके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ त्रैवेयकतकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवस्थितिके अन्तिम समयमे प्राप्त होनेसे इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया है । तथा इनमे उक्त प्रकृतियोंका अजघन्य प्रदेशसंक्रम कमसे-कम अन्तर्मुहूर्त काल तक और अधिकसे-अधिक कुछ कम इकतीस सागर काल तक न होकर इस कालके पूर्व और बादमें हो यह सम्भव है, इसलिए इनमे उक्त प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका यह अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । मात्र इन प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम उद्वेलनाके समय द्विचरम काण्डके पतनके समय होता है, अतः इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम इसके बाद भी प्राप्त होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है । शेष प्रकृतियोंका अन्तरकाल यहां पर भी तिर्यञ्चोंके समान बन जानेसे उसे उनके समान यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए । विशेष खुलासा हम पहले कर ही आये हैं । भवनवासी आदिमे यह अन्तरकाल इसी प्रकार है । मात्र उनकी भवस्थिति अलग अलग होनेसे जहा कुछ कम इकतीस सागर अन्तरकाल कहा है वहाँ उसका विचार कर लेना चाहिए ।

§ १३३ अनुदिसासे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय, तीन वेद, भय और जुगुप्सा के जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । हास्य, रति, अरति और शोकके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । अजघन्य

❀ सणियासो ।

§ १३४. एतो उवरि सणियासो अहिकाओ ति अहियार पडिबोहण सुत्तमेदं ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंकामओ सम्मत्ताणंताणुबंधीणमसंकामओ ।

§ १३५. कुदो ? सम्माइट्टिमि सम्मतस्स संकमाभावादो, अणंताणुबंधीणं च पुव्वमेव विसंजोइयत्तादो ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स णियमा अणुकस्सं पदेसं संकामेदि ।

§ १३६. कुदो ? मिच्छत्तुकस्सपदेससंकमं पडिच्छिउण अंतोमुहुत्तेण सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्स पदेससंकमुप्पत्तिदंसणादो ।

❀ उक्कस्सादो अणुकस्समसंखेज्जगुणहीणं ।

§ १३७. कुदो ? सम्मामिच्छत्तुकस्सपदेससंकमादो सव्वसंकमसरूवादो एत्थतणसंकमस्स गुणसंकमसरूवस्स असंखे०गुणहीणत्ते संदेहाभावादो ।

प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ—इन देवोंमें मिथ्यात्व आदि २३ प्रकृतियोंमेंसे कुछका जघन्य प्रदेशसंक्रमण या तो भवस्थितिके प्रथम समयमें या अन्तिम समयमें प्राप्त होनेसे यहां इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रमणके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा चार नोकपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रमण वहाँ उत्पन्न होनेके अन्तर्मुहूर्त बाद प्राप्त होता है। यतः यह एक पर्यायमें दो वार सम्भव नहीं है, इस लिए इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमणके अन्तरकालका निषेध कर अजघन्य प्रदेशसंक्रमणका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है।

इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ।

* अब सन्निकर्षका अधिकार है।

§ १३४. इससे आगे अर्थात् एक जीवकी अपेक्षा अन्तरकालके कथनके बाद अब सन्निकर्ष अधिकार प्राप्त है इस प्रकार अधिकारका ज्ञान करानेवाला यह सूत्र है।

* मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धियोंका असंक्रामक होता है।

§ १३५. क्योंकि सम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें सम्यक्त्वका प्रदेशसंक्रमण नहीं होता और अनन्तानुबन्धियोंकी पहले ही विसंयोजना हो लेती है।

* वह सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमण करता है।

§ १३६. क्योंकि मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका अन्य प्रकृतियोंमें संक्रमण करनेके अन्तर्मुहूर्त बाद सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रमणकी उत्पत्ति देखी जाती है।

* किन्तु वह अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा अनन्तगुणाहीन होता है।

§ १३७. क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमण सर्वसंक्रमणस्वरूप है, और यहाँ पर होनेवाला संक्रमण गुणसंक्रमण स्वरूप है, अतः उससे यह असंख्यातगुणा हीन है इसमें सन्देह नहीं है॥

❀ सेसाणं कम्माणं संकामत्रो णियमा अणुक्कस्सं संकामेदि ।

§ १३८. कुदो ? सव्वेसिमप्पणो गुणिट्ठकम्मंसियक्खवयचरिमफालीसंकमे लद्धुक्कस्सभावाणमेत्थाणुक्कस्सभावसिद्धीए विसंवादाभावादो ।

❀ उक्कस्सादो अणुक्कस्सं णियमा असंखेज्जगुणहीणं ।

§ १३९. किं कारणं ? अप्पणो खवयचरिमफालिसंकमादो एत्थतणसंकमस्स असंखेज्जगुणहीणत्तं मोत्तण पयारंतरा संभवादो ।

❀ एवरि लोभसंजलणं विसेसहीणं संकामेदि ।

§ १४०. कुदो ? दंसणमोहक्खवणाविसए लोहसंजलणस्स अधापवत्तसंकमादो चरित्त-मोहक्खवयसामित्तविसईकयअधापवत्तसंकमस्स गुणसेट्ठिणिज्जरापरिहीणगुणसंकमदव्वस्सा-संखेज्जदिभागमेत्तेण विसेसाहियत्तदंसणादो ।

❀ सेसाणं कम्माणं साहेयव्वं ।

§ १४१. सम्मत्तादिसेसपयडीणं एदेणाणुमाणेणुक्कस्ससण्णियासविहाणं जाणिरुण भाणिट्ठमिदि सिस्साणमत्थसमप्पणं क्रयमेदेण सुत्तपदेण । संपहि एदेण सुत्तेण समप्पिट्ठस्स परिप्फुडीकरणद्धुच्चारणाणुगममिह कस्सामो । तं जहा—सण्णियासो दुविहो, जह० उक्कस्सओ च । उक्क० पयदं । दुविहो णिदेसो—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० उक्क०

* वह शेष कर्मोंका संक्रामक होता हुआ नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमण करता है ।

§ १३८. क्योंकि सबका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अपने-अपने गुणितकर्मांशिक क्षपकसम्बन्धी अन्तिम फालिके-संक्रमणके समय प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर उनके प्रदेशसंक्रमके अनुत्कृष्ट-रूपसे सिद्ध होनेमें किसी प्रकारका विसंवाद नहीं है ।

* किन्तु वह अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन होता है ।

§ १३९. क्योंकि अपने अपने क्षपकसम्बन्धी अन्तिम फालिके संक्रमणसे यहाँ पर होनेवाला संक्रमण असंख्यातगुणा हीन होता है इसके सिवा प्रकृतमे अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है ।

* इतनी विशेषता है कि लोभसंजलनको विशेषहीन संक्रमण करता है ।

§ १४०. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणविषयक लोभसंजलनके अधःप्रवृत्तसंक्रमसे चारित्र मोहक्षपकसम्बन्धी स्थायित्वको विषय करनेवाला अधःप्रवृत्तसंक्रम गुणश्रेणिनिर्जरासे हीन गुण-संक्रमद्रव्यके असंख्यातवाँ भाग अधिक देखा जाता है ।

* शेष कर्मोंका सन्निकर्ष साध लेना चाहिए ।

§ १४१. सम्यक्त्व आदि शेष प्रकृतियोंका भी इस अनुमानसे उत्कृष्ट सन्निकर्ष विधान जान कर कहना चाहिए । इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा शिष्योंको अर्थका समर्पण किया गया है । अब इस सूत्रके द्वारा समर्पित अर्थका स्पष्टीकरण करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका अनुगम करते हैं । यथा—सन्निकर्ष दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका

पदे०संका० सम्मामि०-वारसक०-णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणं । णवरि सुत्ताहिप्पाएण लोहसंजलणं विसेसहीणं । एसो अत्थो उवरि वि जहासंभवमणुगंतव्वो । सम्म०-असंकामय० अणंताणुवंधी णत्थि । एवं सम्मामि० । णवरि मिच्छ० णत्थि । सम्म० उक्क० पदे०संका० सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणं मिच्छ० असंकाम० ।

§ १४२. अणंताणु०क्रोध० उक्क० पदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि० वारसक०-णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणं । तिण्हं कसायाणं णिय० तं तुविट्ठाणपदिदं अणंतभागहीणं वा असंखे० भागहीणं वा । सम्म० असंका० । एवं तिण्हं कसायाणं ।

§ १४३. अपच्चक्खाण-क्रोध० उक्क० पदे०संका० चदुसंज०-णवणोक० णियमा अणुक्क० असंखे०गुणहीणं । सत्तकसा० णिय० तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभागही० असंखे०-भागहीणं वा । सेसं णत्थि । एवं सत्तकसायाणं ।

§ १४४. कोहसंज० उक्क० पदे०संका० दोसंजल० णियमा अणु० असंखे०-

है—ओष और आदेश । ओषसे मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इतनी विशेषता है कि चूर्णिसूत्रके अभिप्रायानुसार लोभसंज्वलनके विशेषहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । यह अर्थ आगे भी यथासम्भव जानना चाहिए । वह सम्यक्त्वका असंक्रामक होता है और उसके अनन्तानुबन्धी चतुष्कका सत्त्व नहीं होता । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता । सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके असंख्यात गुणेहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । वह मिथ्यात्वका असंक्रामक होता है ।

§ १४२. अनन्तानुबन्धी क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंका नियमसे संक्रामक होता है जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो कदाचित् अनन्त भागहीन और कदाचित् असंख्यात भागहीन इस प्रकार द्विस्थान पतित प्रदेशोंका संक्रामक होता है । वह सम्यक्त्वका असंक्रामक होता है । इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १४३. अप्रत्याख्यानावरण क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव चार संज्वलन और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । सात कषायोंका नियम से संक्रामक होता है जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो कदाचित् अनन्तभागहीन और कदाचित् असंख्यात भागहीन द्विस्थान पतित अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसके शेष प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं पाया जाता । इसी प्रकार सात कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १४४. क्रोधसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव दो संज्वलनोंका नियमसे असंख्यात

गुणहीणं । सेसं णत्थि । माणसंज० उक्क० पदे०संक्रा० । मायासंजल० णिय० अणु० असंखे० गुणहीणं । सेसं णत्थि । मायासंज० उक्क० पदे० संक्रा० सव्वेत्तिमसंक्रामगो । लोभसंज० उक्क० पदेससंक्रा० तिण्णिसंज०-णवणोक० णिय० अणु० असंखे०गुणहीणं । सेसं णत्थि ।

§ १४५. इत्थिवे० उक्क० पदे० संक्रा० तिण्णिसंज०-सत्तणोक० णियमा अणु० असंखे०गुणहीणं । णवुंसं सिया अत्थि सिया णत्थि । जदि अत्थि णिय० अणु० असंखे०भागहीणं । णवुंसं उक्क० पदे०संक्रा० तिण्णिसंज०-अट्टगोक० णिय० अणु० असंखे०गुणहीणं । पुरिसवे० उक्क० पदे० संक्रा० तिण्णिसंजल० णिय० अणुक्क० असंखे०गुणही० छण्णोक०, णिय अणुक्क० असंखे०भागहीणं ।

§ १४६. हससस्स उक्क० पदे०संक्रा० पंचणोक० णिय० तं तु विट्ठाणपडि० अणंतभागही० असंखे०भागही०, पुरिसवे० णिय० अणुक्क० असंखे०भागही०, तिण्हं संजल० णिय० अणुक्क० असंखे०, गुणहीणं । एवं पंचणोक० ।

§ १४७. आदेसेण गोरइय० मिच्छ० उक्क० पदे०संक्रा० सम्मामि० णिय० उक्कस्सं । सोलसक०-णवणोक० णिय० अणुक्क० असंखे०गुणहीणं, एवं सम्मामि०-सम्म०

गुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसके शेष प्रकृति अर्थात् सव्वलन लोभका संक्रम नहीं है । मानसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मायासंज्वलनके नियमसे असख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसके शेष अर्थात् लोभसंज्वलनका संक्रम नहीं है । मायासंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सबका असक्रामक होता है । लोभसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव तीन संज्वलन और नौ नोकपायोंके नियमसे असख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसके शेष प्रकृतियोंका सत्त्व नहीं है ।

§ १४५. स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव तीन संज्वलन और सात नोकपायोंके नियमसे असख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इस जीवके नपुंसकवेदका सत्त्व कदाचित् है और कदाचित् नहीं है । यदि है तो नियमसे असख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक हाता है । नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव तीन संज्वलन और आठ नोकपायोंके नियमसे असख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । पुरुषवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव तीन संज्वलनके नियमसे असख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । छह नोकपायोंके नियमसे असख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है ।

§ १४६. हास्यके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव पाँच नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे कदाचित् अनन्तभागहीन और कदाचित् असख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । पुरुषवेदके नियमसे असख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । तीन संज्वलनोंके नियमसे असख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । पाँच नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १४७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके नियमसे असख्यातगुणे

उक्क० पदे०संका० सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक० पिय० अणुक्क० असंखे०गुणही०

§ १४८. अणंताणु०कोह० उक्क० पदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि० पिय० अणुक्क० असंखे०गुणही०, पण्णारसक०-छण्णोक० पिय० तं तु विट्ठाणपदिदं अणंत-भागहीणं असंखे०भागहीणं । तिण्णं वेदाणं पिय० अणुक्क० असंखे०भोगहीणं । एवं पण्णारसक०-छण्णोक० ।

§ १४९. इत्थिवेद० उक्क० पदे०संका० सोलसक०-अट्ठणोक० पिय० अणुक्क० असंखे०भागही० । मिच्छ०-सम्मामि० पिय० अणु० असंखे०गुणही० । एवं पुरिस-णवुंसयवेदाणं । एवं सब्बणोरइय-तिरिक्ख०-पंचि० तिरि०तिय-देवा भवणादि जावणवगेवज्जा ति ।

§ १५०. पंचि०तिरि० अपज्ज०-मणु०अपज्ज० सम्म० उक्क० पदे०संका० सम्मामि० पिय० तं तु विट्ठाणपदिदं अणंतभागही० असंखे०भागहीणं वा । सोलसक०-णवणोक० पिय० अणु० असंखे०भागही० । एवं सम्मामि० ।

हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है।

§ १४८. अनन्तानुवन्धी क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। पन्द्रह कपाय और छह नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे कदाचित् अनन्तभागहीन और कदाचित् असंख्यातभागहीन इन द्विस्थान पतित अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। तीन वेदोंका नियमसे असंख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार पन्द्रह कपाय और छह नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ १४९. स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कपाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। यह सामान्य नारकियोंमें जो सन्निकर्ष कहा है इसी प्रकार सब नारकी, तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिक, सामान्यदेव और भवनवासियोंसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए।

§ १५०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्वका नियमसे संक्रामक होता है। जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभागहीन या असंख्यातभागहीन द्विस्थानपतित अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके असंख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ १५१. अणंताणु० क्रोध० उक्क० पदे० संका० पण्णारसक०-उण्णोक्क० णिय० तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभागही० असंखे० भागही० । तिण्हं वेदाणं णिय० अणुक्क० असंखे० भागही० । एवं पण्णारसक०-उण्णोक्कसायाणं ।

§ १५२. इत्थिवे० उक्क० पदे० संका० सोलसरु०-अट्टणोक्क० णिय० अणुक्क० असंखे० भागही० । एवं णवुंस० । एवं पुरिसवे० । णवरि सम्म०-सम्मामि० णिय० अणुक्क० असंखे० ।

§ १५३. मणुसतिए ओघं । णवरि मणुसिणी-इत्थिवे० उक्क० पदेसंका० णवुंस० णत्थि ।

§ १५४. अणुदिसादि सव्वट्ठा ति मिच्छ० उक्क० पदे० संका० सम्मामि० णिय० तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभागही० असंखे० भागही० वा । सोलसरु०-णवणोक्क० णिय० अणु० असंखे० गुणही० । एवं सम्मामि० ।

§ १५५. अणंताणु० क्रोध० उक्क० पदे० संका० मिच्छ०-सम्मामि० तिण्णिवे० णिय० अणुक्क० असंखे० भागही० । पण्णारसक०-उण्णोक्क० णिय० तं तु विट्ठाणपदि०

§ १५१. अनन्तानुवन्धी क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव पन्द्रह कषाय और छह नोकषायोंका नियमसे संक्रामक होता है जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभागहीन या असंख्यातभागहीन द्विस्थानपतित अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । तीन वेदोंके नियमसे असंख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार पन्द्रह कषाय और छह नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १५२. स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कषाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है ।

§ १५३. मनुष्यत्रिकमे ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियमोंमें स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवके नपुंसकवेद नहीं है ।

§ १५४. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभागहीन या असंख्यातभागहीन द्विस्थानपतित अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातगुणहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १५५. अनन्तानुवन्धी क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और तीन वेदोंके नियमसे असंख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । पन्द्रह कषाय

अणंतभागही० असंखे०भागही० । एवं पण्णारसक०-उण्णोक्क० ।

§ १५६, इत्थिवे० उक्क० पदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-अट्टणोक्क०
णिय० अणुक्क० असंखे०भागहीणं । एवं पुरिस० णवुंस० । एत्थ सव्वत्थ तिवेदसण्णियासो
परिसाहिय वत्तव्वो । एवं जाव० ।

एवमुक्कस्ससण्णियासो समत्तो ।

❀ सव्वेसिं कम्माणं जहणणसण्णियासो वि साहेयव्वो ।

§ १५७, एदेण सुत्तेण जहणणसण्णियासो ओघादेसभेयमिण्णो सवित्थरमेत्थाणु-
गंतव्वो त्ति सिस्साणमत्थसमपण्णं कयं होइ । संपहि एदेण सुत्तेण सव्विदत्थविवरण-
मुच्चारणावलेणाणुवत्तइस्सामो । तं जहा—जह० पय० दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० ।
ओघेण मिच्छ० जह० पदे०संका० सम्मामि०-पुरिस०-तिण्णिसंजल० णिय० अजह०
असंखे० गुणव्वम० । णवक्क०-अट्टणो० णिय० अज० असंखे०भागव्वमहियं । सम्मामि०
जह० पदे०संका० तेरसक०-अट्टणोक्क० णियमा अज० असंखे०भागव्वमहियं । पुरिसवे०-

और छह नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभागहीन या असंख्यात-भागहीन द्विस्थानपतित अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार पन्द्रह कषाय और छह नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १५६ स्त्रीवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार सर्वत्र तीन वेदोंके सन्निकर्षको साधकर कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ ।

❀ सब कर्मोंका जघन्य सन्निकर्ष भी साध लेना चाहिए ।

§ १५७ ओघ और आदेशके भेदसे भेदको प्राप्त हुआ जघन्य सन्निकर्ष विस्तारके साथ यहाँ पर साध लेना चाहिए । इस प्रकार इस सूत्रद्वारा शिष्योंको अर्थका समर्पण किया गया है । अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए अर्थके विवरणको उच्चारणके वलसे वतलाते हैं । यथा—जघन्य सन्निकर्षका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्व, पुरुषवेद और तीन संज्वलनोंके नियमसे असंख्यातगुणे अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । नौ कषाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातवें भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव तेरह कषाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । पुरुषवेद और तीन संज्वलनके नियमसे असंख्यातगुणा

तिणिसंज० णिय० अज० असंखे०गुणब्भ० । एवं सम्म० । णवरि सम्मामि०
णिय० अजह० असंखे०भागब्भहियं ।

§ १५८. अणंताणु०कोधस्स जह० पदे०संका० मिच्छ०-णत्रक०-अट्टणोक०
णिय० अजह० असंखे०भागब्भहियं । सम्मामि०-पुरिसवे०-तिणिसंज० णिय०
अजह० असंखे०गुणब्भ० । तिण्हं कसा० णिय० तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभागब्भ०
असंखे०भागब्भहियं वा । एवं तिण्हं कसायाणं ।

§ १५९ अपच्चक्खाणकोह० जह० पदे०संका० इत्थिवेद-णवुंस०-हस्सरदि-
भय-दुगुंछ०-त्तोहसंज० णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० । पुरिसवे०-तिणिसंज०
णिय० अजह० असंखे०गुणब्भहियं । सत्तक०-अरदि-सोग० णिय० तं तु विट्ठाणपदि०
अणंतभागब्भ० असंखे०भागब्भहि० वा । एवं सत्तकसाय-अरदिसोगाणं ।

§ १६०. कोहसंज० जह० पदे०संका० अट्टक० णिय० अज० असंखे०गुणब्भ०
मिच्छ० सिया अत्थि । जदि अत्थि णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० । एवं सम्मामि० ।
णवरि असंखे०गुणब्भ० । एवं माणसंजल्ल० । णवरि पंचक० भाणिदब्बा । एवं माया-

अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार सम्यक्त्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यातभाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है ।

§ १५८. अनन्तानुबन्धी क्रोधके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, नौ कषाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । सम्यग्मिथ्यात्व, पुरुषवेद और तीन संज्वलनोंके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । तीन कषायोंके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थान पतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १५९. अप्रत्याख्यान क्रोधके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा और लोभसंज्वलनके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । पुरुषवेद और तीन संज्वलनके नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । सात कषाय, अरति और शोकके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार सात कषाय, अरति और शोककी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १६०. क्रोधसंज्वलनके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव आठ कषायोंके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसके मिथ्यात्व कदाचित् है । यदि है तो नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार अर्थात् मिथ्यात्वके समान सम्यग्मिथ्यात्वका सन्निकर्ष है । इतनी विशेषता है कि इसके असंख्यातगुण

संजल० । णवरि दुविहं लोभं णिय० अजह० असंखे० गुणव्भ० । लोहसंज० जह० पदे० संका० एकारसक०-तिण्णिवे० अरदि-सोग० णिय० अजह० असंखे० गुणव्भ० । हस्स-रदि-भय-दुगुंछ० णियमा० अजह० असंखे० भागव्भ० ।

§ १६१. इत्थिवे० जह० पदे० संका० णवक०-सत्तणोक० णिय० अज० असंखे०-भागव्भ० । तिण्णिसंज०-पुरिसवे० णिय० अज० असंखे० गुणव्भ० । एवं णवुंस० । पुरिसवे० कोहसंजलणभंगो । णवरि एकारसक० णिय० अजह० असंखे० गुणव्भ० ।

§ १६२. हस्सस्स जह० पदे० संका० एकारसक०-तिण्णिवे०-अरदि-सो० णिय० अज० असंखे० गुणव्भ० । लोहसंज० णिय० अजह० असंखे० भागव्भ० । रदि०-भय-दुगुं० णिय० तं तु विट्ठाणपदिदं अणंतभागव्भ० असंखे० भागव्भ० । एवं रदि-भय-दुगुंछ० ।

§ १६३. आदेसे० णेरइय०-मिच्छ० जह० पदे० संका० सम्मामि० णिय० अजह० असंखे० गुणव्भ० । वारसक०-णवणोक० णिय० अजह० असंखे० भागव्भ० ।

अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार मानसंज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके आठ कषायोंके स्थानमे पाँच कषाय कहलाना चाहिए। इसी प्रकार मायासंज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह दो प्रकारके लोभों के नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। लोभसंज्वलनके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कषाय, तीन वेद, अरति और शोकके नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। हास्य, रति, भय और जुगुप्साके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है।

§ १६१. स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव नौ कषाय और सात नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। तीन संज्वलन और पुरुषवेदके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। पुरुषवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्षका भङ्ग क्रोधसंज्वलनके समान है। इतनी विशेषता है कि यह ग्यारह कषायोंके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है।

§ १६२. हास्यके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कषाय, तीन वेद, अरति और शोकके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। लोभसंज्वलनके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। रति, भय और जुगुप्साके नियमसे जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। याद अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार रति, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ १६३. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। वारह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सम्यक्त्वके

सम्म० जह० पदे०संका० सम्मामि० गिय० अजह० असंखे०भागव्भ० । सोलसक०-
णवणोक० णि० अज० असंखे०भागव्भ० । मिच्छ० असंका० । एवं सम्मामि० । णवरि
सम्म० असंका० ।

§ १६४. अणंताणु०क्रोधस्स जह० पदे०संका० सम्म०-सम्मामि० गिय०
अजह० असंखे०गुणव्भ० । वारसक०-णवणोक० गिय० अजह० असंखे०भागव्भ० ।
तिण्हं कसायाणं गिय० तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभागव्भ० असंखे०भागव्भ० वा । एवं
तिण्हं कसायाणं ।

§ १६५. अपच्चक्खाणक्रोध० जह० पदे०संका० सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०चउक्क-
भंगो । सत्तणोक०-अणंताणु०४ गिय० अजह० असंखे०भागव्भ० । एकारसक०-भय-
दुगुं० गिय० तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभागव्भ० असंखे०भागव्भ० । एवमेकारसक०
भय-दुगुंछा० ।

§ १६६. इत्थिवेद० जह० पदे०संका० सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ भंगो ।
सोलसक०-अट्ठणोक० गिय० अजह० असंखे०भागव्भ० । एवं पुरिसवेद०-णवुंसेवेद० ।

जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य
प्रदेशोंका संक्रामक होता है । सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक
अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । मिथ्यात्वका असंक्रामक होता है । इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व
की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विज्ञेयता है कि यह सम्यक्त्वका असंक्रामक
होता है ।

§ १६४. अनन्तानुवन्धी क्रोधके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यक्त्व और सम्यग्-
मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । बारह कषाय
और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है ।
तीन कषायोंके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक
होता है । यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभाग अधिक या असंख्यात
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निक-
र्ष जानना चाहिए ।

§ १६५. अप्रत्याख्यान क्रोधके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मि-
थ्यात्वका भङ्ग अनन्तानुवन्धी चतुष्कके समान है । सात नोकषाय, और अनन्तानुवन्धीचतुष्कके
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । ग्यारह कषाय, भय और
जुगुप्साके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक
होता है । यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तभाग अधिक या असंख्यात
भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय, भय
और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १६६. स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग
अनन्तानुवन्धीचतुष्कके समान है । सोलह कषाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसकवेदकी
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १६७. हस्सस्स जह० पदे०संका० इत्थिवेदभंगो । णवरि रदीए णिय० तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभागम्भ० असंखे०भागम्भ० । एवं रदीए । एवमरदिसोमाणं । एवं सत्तमाए । पढमाए जाव छट्ठित्ति एवं चैव । णवरि अणंताणु०४ जह० पदे०संका० सम्म०असंका० । मिच्छ० णिय० अजह० असंखे०भागम्भ० । इत्थिवेद० जह० पदे०संका० मिच्छ०-आरसक०-अट्ठणोक० णिय० अजह० असंखे०भागम्भ० । सम्मामि० णिय० अजह० असंखे०गुणम्भ० । एवं णवुंस० ।

§ १६८. तिरिक्ख-पंचि०तिरिक्खदुग० पढमपुढविभंगो । णवरि इत्थिवे०-णवुंस० जह० पदे०संका० मिच्छ० सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ असंक्राम० । जोणिणी पढमपुढविभंगो ।

§ १६९. पंचिदियतिरिक्खअपज्ज० सम्म० जह० पदे०संका० सोलसक०-णवणोक० णिय० अजह० असंखे०भागम्भ० । सम्मामि० णिय० अज० असंखे०भागवमहि० । सम्मामि० जह० पदे०संका० सोलसक०-णवणोक० णिय० अज० असंखे०भागम्भ० ।

§ १६७. हास्यके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि रतिके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें जानना चाहिए। पहिली पृथिवीसे लेकर छठी पृथिवी तकके नारकियोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें अनन्तानुवन्धीचतुष्कका संक्रामक जीव सम्यक्त्वका असंक्रामक होता है। मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, वारह कषाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ १६८. सामान्य तिर्यञ्च और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चद्विकमे पहली पृथिवीके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धीचतुष्कका असंक्रामक होता है। योनिनी तिर्यञ्चोंमें पहली पृथिवीके समान भङ्ग है।

§ १६९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्वके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है।

१७०. अणंताणु०क्रोध० जह० पदे०संका० वारसक०-णत्रणोक० णिय० अजह० असंखे० भाग०भ० । सम्म०-सम्मामि० णिय० अजह० असंखे० गुण०भ० । तिण्हं कसा० णिय० तं तु० विट्ठाणपदि० अणंतभाग०भ० असंखे० भाग०भ० । एवं तिण्हं कसायाणं ।

१७१. अपच्चक्खाणक्रोध० जह० पदे० संका० सम्म०-सम्मामि० अणंताणु०-चउकभंगो । अणंताणु०चउ०-सत्तणोक० णिय० अजह० असं०भाग०भ०-एकारसक०-भय-दुगुं० णियमा तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभाग०भ० असंखे०भाग०भ० वा । एवमेकारसक० भय-दुगुं० ।

१७२. इत्थिवेद० जह० पदे०संका० सोलसक० अट्टणोक० णिय० अजह० असंखे०भाग०भ० । सम्म०-सम्मामि० णिय० अजह० असंखे०गुण०भ० । एवं पुरसवे० णवुंस० । एवं हस्स-रदी० । णवरि रदि विट्ठाणपदि० । एवं रदीए । एव-मरदि-सोगाणं । एवं मणुसअपज्ज० ।

१७०. अनन्तानुवन्धी क्रोधके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव वारह कषाय और नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। तीन कषायोंके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार अनन्तानुवन्धी मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१७१. अपत्याख्यान क्रोधके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवके सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग अनन्तानुवन्धीचतुष्कके समान है। अनन्तानुवन्धीचतुष्क और सात नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। ग्यारह कषाय, भय और जुगुप्साके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार ग्यारह कषाय, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

१७२. स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कषाय और आठ नोकषायोंके असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार पुरुषवेद और नपुंसकवेद की मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार हास्यकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है इसके रतिका द्विस्थानपतित सन्निकर्ष कहना चाहिए। इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष इसी प्रकार कहना चाहिए। इसी प्रकार अर्थात् तिर्यञ्च अपयाप्तकोंके समान मनुष्य अपयाप्तकोंमें भी सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ १७३. मणुसति ए ओघं । णवरि भणुसिणी० पुरिस० जह० पदे०संका०
एकारसक०-इत्थिवेद णवुंस०-अरदि-सोगाणं णिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । लोभसंज०
हस्स-रदि-भय-दुगुंछा० णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० ।

§ १७४. देवेसु तिरिक्खभंगो । एवं सोहम्मादि णवगेवजा ति । भवण०-त्राण०-
जोदिसि० णारयभंगो । अणुदिसादि सव्वट्ठा ति मिच्छ० जह० पदे०संका० सम्मामि०
णिय० तं तु विट्ठाणपदि० अणंतभागब्भ०, असंखे०भागब्भ० । वारसक०-णवणोक० णिय०
अज० असंखे०भागब्भ० । एवं सम्मामि० ।

§ १७५. अणंताणु०क्रोध० जह० पदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि०-वारसक०
णवणोक० णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० । तिण्हं क० णिय० तं तु विट्ठाणपदि० ।
एवं तिण्हं क० ।

§ १७६. अपच्चक्खाणकोह० जह० पदे०संका० एकारसक०-पुरिसवे०-भय-
दुगुंछा० णिय० तं तु विट्ठाणपदिदं । छण्णोक० णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० ।

§ १७३. मनुष्यत्रिकमे ओघके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति और शोकके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। लोभसंज्वलन, हास्य, रति, भय और जुगुप्साके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है।

§ १७४. देवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इसी प्रकार सौधर्म कल्पसे लेकर नौग्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। वारह कषाय और नौ नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ १७५. अनन्तानुवन्धी क्रोधके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। तीन कषायोंके जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार मान आदि तीन कषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए।

§ १७६. अप्रत्याख्यान क्रोधके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। छह नोकपायोंके

एवमेकारसक०-पुरिसवे०-भय-दुगुं० ।

§ १७७. इत्थिवे० जह० पदे०संका० बारसक०-अट्टणोक० णिय० अजह० असंखे० भागधम० । एवं णवुंस० । एवं हस्स० । णवरि रदीए विट्ठाणपदि० । एवं रदीए । एवमरदि-सोगाणं । एवं जाव० ।

§ १७८. एदम्मि जहणसण्णियासे कत्थ वि कत्थ वि पदविसेसे विसंवादो अत्थि, तत्थुच्चारणाइरियाहिप्पायमणुमाणिय विवरीयपदेसविण्णासावलंबणेणाण्णहा वासमत्थणा कायत्त्रा ।

§ १७९. संपहि एत्थुद्देसे सुगमत्ताहिप्पाएण चुण्णिसुत्तायारेण परूविदाणं णाणा-जीवभंगविचयादीणमट्टण्हमणियोगद्वाराणं उच्चारणाबल्लेण परूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा—णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—जह० उक्क० च । उक्क० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसे० । ओघे० सव्वपयडी० उक्क० पदेसस्स सिया सव्वे असंकामया, सिया असंकामया च संकामओ च, सिया असंकामया च संकामया च ३ । अणुक्कस्सपदेसस्स सिया सव्वे संकामया, सिया संकामया च असंकामओ च, सिया संकामया च असंकामया च ३ । एवं चदुसु गदीसु । णवरि मणुसअपज्ज० उक्क०

नियमसे असख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार ग्यारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए ।

§ १७७ स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव बारह कषाय और आठ नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार हास्यकी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके रतिका द्विस्थानपतित सन्निकर्ष होता है । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

§ १७८ इस जघन्य सन्निकर्षमे कहीं-कहीं पदविशेषमें विसंवाद है सो वहाँ पर उच्चारणा-चार्यके अभिप्रायका अनुमान करके विपरीत प्रदेशावन्यासके अवलम्बन द्वारा अन्तर प्रकारसे उसकी अवस्थितिका विचार करना चाहिए ।

§ १७९ 'अव इस स्थल पर सुगम है' इस अभिप्रायसे चूर्णिसूत्रकार द्वारा नहीं कहे गये 'नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्गविचय' आदि आठ अनुयोगद्वारोंका उच्चारणाके बलसे कथन करते हैं । यथा—नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्ग विचय दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकार है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के कदाचित् सब जीव असंक्रामक हैं १, कदाचित् नाना जीव असंक्रामक हैं और एक जीव संक्रामक है २ तथा कदाचित् नाना जीव असंक्रामक हैं और नाना जीव संक्रामक है । ३ अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके कदाचित् सब जीव संक्रामक हैं १, कदाचित् नाना जीव संक्रामक हैं और एक जीव असंक्रामक है २ तथा कदाचित् नाना जीव संक्रामक हैं और नाना जीव असंक्रामक हैं ३ । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट

अणुक० पदे०संका० अडु भंगा । एवं जहण्णयं पि गेदव्वं ।

§ १८०. भागाभागो दुविहो—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० उक्क० पदे०संका० सब्बजीवाणं केव० भागो १ असंखे० भागो । अणु० असंखेज्जा १ भागा । सोलसक०-णवणोक० उक्क० पदे०संका० अणंतभागो । अणुक० अणंत भागा । एवं तिरिक्खा० ।

§ १८१. आदेसेण गोरइय० सब्बपयडी० उक्क० पदे०संका० सब्बजी० असंखे०-भागो । अणुक० असंखेज्जा भागा । एवं सब्बगोरइय-सब्बपंचि०तिरिक्ख०-मणुस-अपज्ज०-देवगदिदेवा भवणादि जाव अवरजिदा त्ति । मणुस्सेसु णारयभंगो । णवरि मिच्छ० उक्क० पदे०संका० संखे०भागो । अणुक० संखेज्जा भागा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी०-सब्बडु०देवा० सब्बवयडी उक्क० पदे०संका० संखे०भागो । अणुक० संखेज्जा भागा । एवं जाव० ।

§ १८२. जहण्णयं पि उक्कस्सभंगेण गेदव्वं ।

प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंके आठ भङ्ग होते हैं। इसी प्रकार जघन्य संक्रमकी मुख्यतासे भी जानना चाहिए।

§ १८०. भागाभाग दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव अनन्त बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए।

§ १८१ आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव सब जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिमे सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमे जानना चाहिए। मनुष्योंमे नारकियोंके समान भङ्ग हैं। इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए।

§ १८२. जघन्य प्रदेश भागाभागको भी उत्कृष्टके समान ले जाना चाहिए।

विशेषार्थ—यद्यपि सामान्य मनुष्य असंख्यात हैं तथापि उनमें मिथ्यात्वके संक्रामक (सम्यग्दृष्टि) संख्यात हैं। उनमेंसे संख्यातवें भाग उत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक है। शेष बहु भाग अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक है।

§ १८३. परिमाणं दुविहं-जह० उक्० च । उक्स्से पयदं दुविहो । णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ०-सम्मामि० उक्० पदे०संका० केत्तिया ? संखेजा । अणुक्० केत्ति० ? असंखेजा । सम्म० उक्० अणुक्० पदे०संका० केत्तिया ? असंखेजा । अणंताणु० चउक्० उक्० पदे०संका० केत्ति० ? असंखेजा । अणुक्० केत्ति० ? अणंता । एवं वारसक०-णवणोक० । णवरि उक्० पदे०संका० केत्ति० ? संखेजा ।

§ १८४. आदेसेण गोरइय० सव्वपयडी उक्० अणुक्० पदे०संका० केत्ति० ? असंखेजा । एवं सव्वगोरइय-सव्वपंचि०-तिरिक्खमणुसअपज्ज० देवा भवणादि जाव सहस्सार ति । तिरिक्खेसु दंसणतिय उक्० अणुक्० केत्ति ? असंखेजा । सोलसक०-णवणोक० उक्० पदे०संका० केत्ति० ? असंखेजा । अणुक्० केत्ति० ? अणंता । मणुसेसु मिच्छ० उक्० अणुक्० पदे०संका० केत्तिया ? संखेजा । सेसकम्माणमुक्० केत्ति० ? संखेजा । अणुक्० असंखेजा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी सव्वट्टुदेवा उक्० अणुक्० पदे०संका० केत्ति० ? संखेजा । आणदादि अवराइदा ति सव्वपयडी उक्० पदे०संका० केत्ति० ? संखेजा । अणुक्० पदे०संका० केत्ति० ? असंखेजा । एवं जाव० ।

§ १८३ परिमाण दो प्रकारका है— जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सम्यक्त्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार वारह कपाय और नौ नोकषायोंकी अपेक्षा परिमाण जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं ।

§ १८४ आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवों में जानना चाहिए । सामान्य तिर्यञ्चोंमें दर्शनमोहनीयत्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं ? अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । मनुष्योंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंमें संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । आनत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

§ १८५. जहण्णए पयदं । दुविहो णिदेसो—ओघे० आदेसे० । ओघे० मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० केत्ति० ? संखेज्जा । अजह० केत्ति० ? असंखे० । सोलसक०-णवणोक० जह० पदे०संका० केत्ति० ? संखेज्जा । अजह० केत्ति० ? अणंता । एवं तिरिक्खा ।

§ १८६. आदेसेण शेरइय० सव्वपयडी० जह० केत्ति० ? संखेज्जा । अजह० केत्ति० ? असंखेज्जा । एवं सव्वशेरइय०-सव्वपंचिदिय-तिरिक्ख-मणुसअपज्ज०-देवगइ-देव भवणादि जाव अवराइद ति । मणुसेसु मिच्छ० जह० अजह० पदे०संका० केत्ति० ? संखेज्जा । सेसकम्माणं जह० संखेज्जा । अजह० केत्ति० ? असंखेज्जा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० सव्वइदेवा सव्वपयडी जह० अजह० पदे०संका० केत्ति० ? संखेज्जा । एवं जाव० ।

§ १८७. खेत्तं दुविहं—जह० उक्क० च । उक्कसे पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदेसे० । ओघेण दंसणतिय उक्क० अणुक्क० पदे०संका० लोगस्स असंखे०भागे । सोलसक०-णवणोक० उक्क० पदे०संका० लोगस्स असंखे०भागे । अणुक्क० सव्वलोगे । एवं तिरिक्खेसु । सेसगइमग्गणासु सव्वपयडी उक्क० अणुक्क० पदे०संका० लोग० असंखे०-भागे । एवं जाव० । एवं जहण्णयं पि शेदव्वं ।

§ १८५. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए ।

§ १८६. आदेशसे नारकियोंमे सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । अजघन्य प्रकृतियोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिमे सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमे जानना चाहिए । मनुष्योंमें मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । शेष कर्मोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यात हैं । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । मनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गण तक ले जाना चाहिए ।

§ १८७. क्षेत्र दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे दर्शनमोहनीयत्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवों का क्षेत्र कितना है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र सर्व लोक है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । गतिसम्बन्धी शेष मार्गणाओंमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गण तक जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार जघन्य क्षेत्रको भी ले जाना चाहिए ।

§ १८८. पोसणं दुविहं—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णिद्देशो—ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ० उक्क० पदे०संका० केव० पोसिदं ? लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोद्दस० देसूणा । सम्म०सम्मामि० उक्क० पदे०संका० लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० लोग० असंखे०भागो, अट्टुचोद्दस भागा वा देसूणा सव्वलोगो वा । सोलसक०णवणोक० उक्क०पदेस० लोगस्स असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वलोगो ।

विशेषार्थ—ओघसे सब प्रकृतियोंमेंसे किन्हीं प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यात हैं और किन्हीं प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात हैं, इसलिए इनका क्षेत्र लोकके असख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । मात्र सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव अनन्त हैं, इसलिए इनका सर्वलोक क्षेत्र प्राप्त होनेसे वह तत्प्रमाण कहा है । सामान्य तिर्यञ्चोमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमें क्षेत्रप्ररूपणाको ओघके समान जाननेकी सूचना की है । गतिसम्बन्धी शेष मार्गणाओंका क्षेत्र ही लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । आगे अनाहारक मार्गणा तक यह यथायोग्य इसी प्रकार घटित किया जाने योग्य है यह जानकर उसे इसी प्रकार जानने की सूचना की है । जघन्य क्षेत्रमें उत्कृष्टसे अन्य कोई विशेषता नहीं है ऐसा समझकर उसे भी इसी प्रकार ले जाने की सूचना की है ।

§ १८८ स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने कितने क्षेत्रका स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्र का स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सब लोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—ओघसे एक सम्यक्त्व प्रकृतिको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रम अपनी अपनी क्षणके समय यथा योग्य स्थानमें होता है । सम्यक्त्व का भी उत्कृष्ट प्रदेश-संक्रम स्वामित्वके अनुसार सातवें नरकके नारकीके होता है । यतः इन सब जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं है, अतः ओघसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । अब रहा अनुत्कृष्टका विचार सो मिथ्यात्वका संक्रम सम्यग्दृष्टिके ही सम्भव है, अतः सम्यग्दृष्टियोंके स्पर्शनको देखकर मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक चारों

§ १८६. आदेसेण गेरइएसु मिच्छ० उक्क० अणुक्क० पदेससंकाम० लोगस्स असंखे० । सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक० उक्क० पदे०संका० लोगस्स असंखे०-भागो । अणुक्क० लोगस्स असंखे०भागो छ चोदस भागा वा देसूणा । एवं विदियादि जाव सत्तमा त्ति । णवरि सगपोसणं । पढमाए खेतं ।

§ १९०. तिरिक्खेसु मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदे०संका० लोग० असंखे०भागो । अणुक्कस्स० लोग० असंखे०भागो छ चोदस० देसूणा । सम्म०-सम्मामि०-उक्क० पदे०-

गतियोंके जीव होते हैं, परन्तु उनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं होता । मात्र अतीत काल की अपेक्षा इनका स्पर्शन या तो विहारवत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और एकेन्द्रिय आदिके मारणान्तिक समुद्घात और उपपादपदकी अपेक्षा सर्वलोक प्रमाण बन जाता है । यह देखकर इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और सर्वलोक प्रमाण कहा है । तथा सोलह कषाय और नौ नोकषायोंका प्रदेश संक्रमण निर्बाधरूपसे सर्वत्र सर्वदा होता रहता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन वर्तमान और अतीत दोनों प्रकारके कालोंकी अपेक्षा एकमात्र सर्वलोक कहा है ।

§ १८६. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार द्वितीयादि पृथिवियोंके नारकियोंमे स्पर्शन जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए । पहली पृथिवीमें स्पर्शनका भङ्ग क्षेत्रके समान है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वका संक्रमण सम्यग्दृष्टि ही करता है और नरकमे सम्यग्दृष्टियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाणसे अधिक नहीं है इसलिए तो नारकियोंमे मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा शेष प्रकृतियोंका संक्रमण मारणान्तिकसमुद्घात और उपपादपदके समय भी सम्भव है, किन्तु नारकियोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है, इसलिए यहाँ पर शेष सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । द्वितीयादि पृथिवियोंमे यह स्पर्शन इसी प्रकार बन जाता है । मात्र त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागके स्थानमे अपना-अपना स्पर्शन कहना चाहिए । पहली पृथिवीके सब नारकियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ही है । इनका क्षेत्र भी इतना ही है इसलिए यहाँ पर पहली पृथिवीमे स्पर्शनको क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

§ १९०. तिर्यञ्चोंमे मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

संका० लोग० असंखे०भागो । अणुक० लो० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सोलसक०-
णवणोक० उक० पदेससंक्रामएहि लोग० असंखे०भागो । अणुक० सव्वलोगो वा । एवं
पंचिदियतिरिक्खतिए । णवरि पणुवीसं पयडीणं अणु० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो
वा । पंचिदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज० एवं चेव । णवरि मिच्छत्तं णत्थि ।
मणुसतिए एवं चेव । णवरि मिच्छ० उक० अणुक० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो ।

सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंने सर्वलोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पञ्चीस प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वका संक्रमण नहीं होता । मनुष्यत्रिकमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छहवटे चौदह भाग प्रमाण है, इसलिए सामान्य तिर्यञ्चों में मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और त्रसनाली के कुछ कम छह वटे चौदह भाग प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्ता वाले तिर्यञ्चोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और मारणान्तिक समुत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सर्व लोक प्रमाण प्रमाण दोनों कालोंकी अपेक्षासे है यह स्पष्ट ही है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें और सब स्पर्शन तो सामान्य तिर्यञ्चोंके समान बन जाता है । मात्र इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण होनेसे इनमें सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण और सब लोक प्रमाण कहा है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों में अन्य सब स्पर्शन तो तिर्यञ्चत्रिकके समान बन जाता है । मात्र इनमें एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होनेसे मिथ्यात्वका संक्रमण सम्भव नहीं है, इस लिए उसका निषेध किया है । मनुष्यत्रिकमें अन्य सब स्पर्शन तो उक्त अपर्याप्तकोंके समान बन जाता है । मात्र इनमें सम्यग्दृष्टि जीव होनेके कारण मिथ्यात्वका संक्रमण सम्भव है । परन्तु इनमें ऐसे जीवोंका वर्तमान और अतीत स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग से अधिक प्राप्त न होनेके कारण मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशों के सक्रामक जीवोंका भी उक्त क्षेत्रप्रमाण स्पर्शन कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ १६१. देवेषु मिच्छ० उक्क० पदे०संका०लोग०असंखे०भागो । अणुक्क० लो०ग० असंखे०भागो अडुचोदस०देसूणा । सेसकम्माणमुक्क० खेत्तं । अणुक्क० लो०ग० असंखे०भागो, अडु णवचोदस० देसूणा । णवरि पुरिस०-णवुंस० उक्क० पदे०संका० अडुचोदस० देसूणा । एवं सोहम्मीसाण० ।

§ १६२. भवण०-त्राणवे०-जोदिसि० मिच्छ० उक्क० पदे०संका० लो०ग० असंखे०-भागो । अणुक्क० लो०ग० असंखे०भागो अडुडु अडुचोदस० देसूणा । सेसकम्माणं उक्क० पदे०-संका० लो०ग० असंखे०भागो । अणुक्क० लो० असंखे०भागो, अडुडुअडु-णव-चोदस०देसूणा ।

§ १६१. देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सौधर्म और ऐशान कल्पवासी देवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टि देवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण होनेसे इनमें मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन उक्त क्षेत्र प्रमाण कहा है । देवोंका उक्त स्पर्शन तो है ही । मारणान्तिक समुद्रातकी अपेक्षा इनका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण है और इन सब स्पर्शनोंके समय शेष सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रम होता है, इसलिए यहाँ पर देवोंमें शेष प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण कहा है । यहाँ पर पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंके स्पर्शनमें अन्य प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंके स्पर्शनसे कुछ विशेषता है, इसलिए उसका निर्देश अलगसे किया है । बात यह है कि सौधर्म और ऐशान कल्पकी अपेक्षा सामान्य देवोंमें पुरुषवेद और नपुंसक-वेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विहारवत्स्वस्थान आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण बन जानेसे वह अलगसे कहा है । यह स्पर्शन सौधर्म और ऐशान कल्पमें अविकल घटित हो जाता है, इसलिए इसे सामान्य देवोंके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

§ १६२. भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ १६३. सणक्कुमारादि अच्चुदा त्ति सव्वपयडि० उक्क० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो । अणुक्क० सगपोसणं । उवरि खेत्तं । एवं जाव० ।

§ १६४. जह० पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ० जह० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो । अजह० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोद० देसूणा । सम्म०-सम्मामि० जह० अजह० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोद० देसूणा सव्वलोगो वा । सोलसक०-णवणोक० जह० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो । अजह० सव्वलोगो ।

विशेषार्थ—सम्यग्दृष्टि उक्त देवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण होनेसे इनमें मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन उक्तप्रमाण कहा है । शेष कर्मोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रम उक्त देवोंकी सब अवस्थाओंमें भी सम्भव है, इसलिए उनमें उनके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भाग प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ १६३. सनत्कुमारसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन अपने-अपने कल्पके स्पर्शनके समान जानना चाहिए । आगे नौ ग्रैवेयक आदिमें स्पर्शन क्षेत्रके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—आगे सनत्कुमार आदि कल्पोंमें मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि देवोंके स्पर्शनमें कोई फरक नहीं है, इसलिए वहाँ सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन एक साथ कहा है । साथ ही जिस कल्पमें जो स्पर्शन है वही प्राप्त होता है, इसलिए उसे अपने-अपने स्पर्शनके समान जाननेकी सूचना की है । नौ ग्रैवेयक आदिमें स्पर्शन क्षेत्रके समान होनेसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंके स्पर्शनको क्षेत्रके समान जाननेकी सूचना की है । शेष कथन सुगम है ।

§ १६४. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशों के संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठवटे चौदह भाग प्रमाण और सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशके संक्रामक जीवोंने सर्वलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—ओघसे मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षणित कर्मांशिक जीवके क्षणिक समय होता है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इसके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन जो लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण कहा है सो इसका खुलासा

§ १६५. आदेसेण णेरइय० मिच्छ० जह० अजह० पदे०संका० लोग० असंखे० भागो । सेसा० जह० लोग० असंखे०भागो । अजह० लोग० असंखे०भागो, छ-चोदस भागा वा देखणा । एवं विदियादि जाव सत्तमा ति । णवरि सगपोसणं । पढमाए खेत्तं ।

§ १६६. तिरिक्खेसु मिच्छ० जह० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो । अजह० लोग० असंखे०भागो छचोदस० देखणा । सम्म०-सम्मामि० जह० अजह०

जैसा इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रम एकेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव है । किन्तु ऐसे जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा अतीत स्पर्शन विहारवत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण और मारणा-न्तिक समुद्रात व उपपादपदकी अपेक्षा सर्वलोकप्रमाण प्राप्त होनेसे बड़, तत्प्रमाण कहा है । सोलह कपाय और नौ नोकषायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम अधिकतरका क्षणके समय और कुछका उप-शमनाके समय प्राप्त होता है । यत्. ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इन कर्मोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम कुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीवोंको छोड़कर प्रायः सब जीव करते हैं, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है ।

§ १६५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन कहना चाहिए । पहली पृथिवीके नारकियोंमें क्षेत्रके समान स्पर्शन है ।

विशेषार्थ—नरकमें सर्वत्र सम्यग्दृष्टियोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । शेष प्रकृतियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षणिककर्मशिक जीवोंके यथास्थान होता है और ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । इनके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है । शेष कथन सुगम है ।

§ १६६. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्या-

पदे०संका० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । सोलसक०-णवणोक० जह० पदे०-संका० लोग० असंखे०भागो । अजह० सव्वलोगो ।

§ १६७. पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० तिरिक्खभंगो । सोलसक०-णवणोक० जह० खेतं । अजह० पदे०-संका० लोग० असंखे०भागो सव्वलोगो वा । एवं पंचिदियतिरिक्ख०अपज्ज०-मणुसअपज्ज० । णवरि मिच्छ० णत्थि । एवं मणुसतिए । णवरि मिच्छ० जह० अजह० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो ।

तवें भागप्रमाण और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम उत्तम भोगभूमिमे क्षपितकर्मांशिक जीवके अन्तिम समयमे सम्भव है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है अतः इनमे मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । तथा सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्चोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण है अतः इनमे मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवेंभागप्रमाण और सब लोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है यह स्पष्ट ही है, क्योंकि सम्यक्त्वका जघन्य और अजघन्य दोनों प्रकारका स्पर्शन तो मिथ्यादृष्टियोंके होता ही है । सम्यग्मिथ्यात्वका भी यह संक्रम मिथ्यादृष्टियोंके सम्भव है और मिथ्यादृष्टि तिर्यञ्चोंका स्पर्शन उक्त प्रमाण है । सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके जघन्य संक्रमके स्वामित्व पर अलग-अलग विचार करने पर विदित होता है कि इन प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागसे अधिक नहीं बन सकता इसलिए यह उक्त क्षेत्रप्रमाण कहा है । तथा इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम एकेन्द्रियादि सब तिर्यञ्चोंके सम्भव है, इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है ।

§ १६७. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सर्वलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अर्थात् ओर मनुष्य अर्थात्त्रिकोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ये मिथ्यात्वके संक्रामक नहीं होते । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि उनमें मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

विशेषार्थ—सामान्य तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी मुख्यतासे ही कहा है । तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामकोंका जो स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोमे है वह

§ १६८. देवेसु मिच्छ० जह० पदे०संका० लोगस्स असंखे०भागो । अजह० लोग० असंखे०भागो अट्टुचोद्दस० देखूणा । सम्म०-सम्मामि० जह० अजह० पदे०-संका० लोग० असंखे०भागो, अट्टुणव चोद्दस० देखूणा । सेसाणं जह० खेत्तं । अजह० [लोग० असंखे०] अट्टुणव चोद्दस० देखूणा । एवं सब्बदेवाणं । णवरि सगपोसणं शेदव्वं । णवरि जोदिसि० सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो, अट्टुड्ड अट्टुचोद्द० दे० । अजह० लो० असंखे०भागो अट्टुड्डुअट्टुणवचोद्दस० देखूणा । एवं जाव० ।

पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे भी बन जाता है । इसलिए इनमे उक्त तीनों प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामकोंका स्पर्शन सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहा है । सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होने से उसे क्षेत्रके समान जानने की सूचना की है । तथा उक्त तिर्यञ्चोंके सर्वत्र इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम सम्भव है, अतः उक्त तिर्यञ्चोंके स्पर्शनको देखकर यहाँ पर इनके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और अतीत स्पर्शन सर्वलोकप्रमाण कहा है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें यह स्पर्शन अविकल बन जाता है इसलिए उनमे पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र इनमे मिथ्यात्वका संक्रम नहीं होता, इसलिए उसका निषेध किया है । मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव सम्यग्दृष्टि होते हैं और मनुष्योंमें ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है जो तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सम्भव है । मात्र इस विशेषताको छोड़कर अन्य सब स्पर्शन इनमे उक्त अपर्याप्त जीवोंके समान बन जानेसे उनके समान जानने की सूचना की है ।

§ १६८ देवोंमें मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । शेष प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंके स्पर्शनका भङ्ग क्षेत्रके समान है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन ले जाना चाहिए । इतनी और विशेषता है कि ज्योतिषी देवोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बटे चौदह भाग-प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ और कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—ज्योतिषी देवोंकी जघन्य आयु पत्यके आठवें भागसे कम नहीं होती, अतएव इनमे इसके पूर्व मारणान्तिक समुद्घात सम्भव नहीं है । यही कारण है कि इनमे सम्यक्त्व और

§ १६६. कालो दुविहो—जहण्णमुक्कस्सं च । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघेण आदेसेण य । ओघेण मिच्छ०-सम्मामि०-वारसक०-णवणोक्क० उक्क० पदे०संका० केवचिरं० ? जह० एयसमओ । उक्क० संखेज्जा समया । अणुक्क० सव्वद्धा । सम्म०-अणंताणु०चउक्क० उक्क० पदे०संका० जह० एयस० । उक्क० आवलि० असंखे०-भागो । अणुक्क० सव्वद्धा ।

§ २००. आदेसेण गेरइएसु सव्वपयडी० उक्क० पदे०संका० जह० एयस० । उक्क० आवलि० असंखे०भागो । अणुक्क० सव्वद्धा । एवं सव्वगेरइय-सव्वतिरिक्ख०-देवा जाव सहस्सार ति । मणुसतिय आणदादि सव्वद्धा ति सव्वपयडी० उक्क० पदे०संका०

सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम नौ बटे चौदह भागप्रमाण न बतलाकर मात्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण बतलाया है । शेष कथन सुगम है ।

§ १६६. काल दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, वारह कषाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका कितना काल है ? जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है । सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है ।

विशेषार्थ—ओघसे मिथ्यात्व आदि २३ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम मनुष्योंमें लपणके समय प्राप्त होता है । यह सम्भव है कि नाना मनुष्य एक साथ इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम करें और दूसरे समयमें अन्य मनुष्य न करें । साथ ही यह भी सम्भव है कि नाना मनुष्य अलग-अलग संख्यात समय तक इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करते रहे, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । सम्यक्त्व और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सातवें नरकके नारकी करते हैं । ये जीव एक समय तक इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करके द्वितीयादि समयोंमें अन्य जीव न करें यह तो सम्भव है ही । साथ ही यहाँ पर सम्यक्त्वका उपक्रमणकाल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम इतने काल तक भी सम्भव है, इसलिए ओघसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । सभी अट्ठाईस प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है ।

§ २००. आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यञ्च, सामान्य देव और सहस्रार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्यत्रिक और आननकल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट-

जह० एयस० । उक्क० संखेज्जा समया । अणुक्क० सव्वद्धा । मणुसअपज्ज० सत्तावीसं
पयडीणं उक्क० पदे०संका० जह० एयसमओ । उक्क० आवलि० असंखे०भागो ।
अणुक्क० जह० अंतोमुहुत्तं । उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । णवरि सम्म०-सम्मामि०
अणुक्क० जह० अंतोमु० । उक्क० पलिदो० असंखे० भागो-णवरि सम्म०-सम्मामि०
अणुक्क० जह० एयस० । एवं जाव० ।

§ २०१. जहण्णए पयदं । दुविहो णि०-ओघे०-आदेसे० । ओघेण सवपयडी० जह०
पदे०संका० जह० एयस० । उक्क० संखेज्जा समया । अजह० सव्वद्धा । एवं चदुसु
गदीसु णवरि मणुसअपज्ज० अजह० अणुक्क०भंगो । णवरि सोलसक०-भय-दुगुंछा०अजह०

काल संख्यात समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है । मनुष्य अपर्याप्तकों
मे सत्ताईस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल
आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्यकाल अन्तमुहूर्त
है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व और
सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय है । इसी प्रकार
अनाहारक मार्गणातक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—यहाँ पर जिन मार्गणाओंकी संख्या संख्यातसे अधिक है उनमे सब प्रकृतियों
के उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आवलिके असं-
ख्यातवें भाग प्रमाण है तथा जिनका परिमाण संख्यात है उनमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके
संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है मात्र
इसका एक अपवाद है वह यह कि आनतकल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देव यद्यपि परिमाण
मे असंख्यात होते हैं फिर भी इनमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल
एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय बतलाया है सो इसका कारण स्वामित्वसम्बन्धी
विशेषता है । वात यह है कि इनमे गुणितकर्मांशिक मनुष्य आकर सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश
संक्रम करते हैं, इसलिए इनमे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल
एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय ही बनता है । सर्वत्र सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके
संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही है । मात्र मनुष्य अपर्याप्तकोंका जघन्य काल अन्त-
मुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इनमे सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट
प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंके जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण
कहा है । इसमे इतनी और विशेषता है कि यह सान्तर मार्गणा होनेसे इनमे सम्यक्त्व
और सम्यग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव एक समय तक रहे और दूसरे समयमे
असंक्रामक हो जायें यह सम्भव है, इसलिए यह काल एक समय कहा है ।

§ २०१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब
प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल
संख्यात समय है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार चारों
गतियोंमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमे सब प्रकृतियोंके अजघन्य
प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंके कालका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है । इतनी और विशेषता है कि

जह० खुदाभव० समऊर्णं । एवं जाव० ।

§ २०२. अंतरं दुविहं—जह० उक्क० । उक्कस्से पयदं । दुविहो णि०—ओघे० आदे० । ओघेण सव्वपयडी० उक्क० पदे०संक्रा० जह० एयसमओ । उक्क० अणंतकालमसंखेज्जा पोगलपरियट्ठा । अणुक्क० गत्थि अंतरं । एवं चदुसु, गदीसु । णवरि मणुसअपज्ज० अणुक्क० जह० एयस० । उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ।

§ २०३. एवं जहण्णयं पि शेदव्वं । णवरि ओघे तिण्णिसंजल० पुरिस० जह० एयसमओ उक्क० सेटीए असंखे०भागो । एवं मणुसतिए । णवरि मणुसिणी० पुरिस० उक्कस्सभंगो ।

सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवग्रहणप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

विशेषार्थ—मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनमें इनके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय कम लुल्लक भवग्रहप्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ २०२. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असख्यात पुद्गल परिवर्तनप्रमाण है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकोंमें अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

§ २०३. इसी प्रकार जघन्य प्रदेशसंक्रामकोंके अन्तरकालको भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि ओघसे तीन सज्वलन और पुरुषवेदका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रेणीके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें पुरुषवेदका भङ्ग उत्कृष्टके समान है ।

विशेषार्थ—ओघसे नाना जीव सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक एक समयके अन्तरसे हों यह तो सम्भव है ही । साथ ही गुणित कर्मा शिक जीवोंके उत्कृष्ट अन्तरकालको देखते हुए वे अनन्तकाल तक न हों यह भी सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है । इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही है । चारों गतियाँ निरन्तर मार्गणाएँ होनेसे उनमें भी यह अन्तरकाल बन जाता है । इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । मात्र मनुष्य अपर्याप्त सान्तर मार्गणा है, इसलिए उनमें उक्त मार्गणाके अन्तरकालके अनुसार सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल कहा है । यहाँ पर उत्कृष्ट की अपेक्षा जिस प्रकार विचार किया है उसी प्रकार जघन्यकी अपेक्षा भी विचार कर लेना चाहिए । जो इसमें विशेषता है उसका अलगसे निर्देश कर दिया है ।

§ २०४. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

❀ अप्पाबहुअं ।

§ २०५. सुगममेदमहियारसंभालण वक्कं ।

❀ सव्वत्थोवो समत्ते उक्कस्सपदेससंकमो ।

§ २०६. कुदो ? सम्मत्तदव्वे अथापवत्तभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो ।

❀ अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सओ पदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २०७. कुदो ? मिच्छत्तसयलदव्वादो आवलियाए असंखेज्जभागपडिभागेण परिहीणदव्वं घेत्तूण सव्वसंकमेगेदस्सुक्कस्ससामित्तविहाणादो । एत्थ गुणगारो गुणसंकम-
भागहारपदुप्पण्णअथापवत्तभागहारमेत्तो ।

❀ कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २०८. कुदो ? दोण्हमेदेसि सामित्तभेदाभावे वि पयडिविसेसमेत्तेण तत्तो एदस्साहियभावोवलद्धीदो ।

❀ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ लोभे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २०४. भाव सर्वत्र औद्यिक भाव है ।

* अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ २०५. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्रवचन सुगम है ।

* सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ २०६. क्योंकि सम्यक्त्वके द्रव्यको अधःप्रवृत्त भागहारसे भाजित करने पर वह उसमेसे एक भागप्रमाण है ।

* उससे अप्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २०७. क्योंकि मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यसे आवलिके असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागसे हीन द्रव्यको ग्रहण कर सर्वसंक्रमके आश्रयसे इसके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया गया है ।

* उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २०८. क्योंकि इन दोनोंके स्वामीमे भेद नहीं होने पर भी प्रकृतिविशेषके कारण उसमे इसका अधिकपना उपलब्ध होता है ।

* उससे अप्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

❁ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❁ लोभे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❁ अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❁ कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❁ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❁ लोभे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २०६. एदाणि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्तकारणपडिवद्दाणि सुगमाणि ।

❁ मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २१०. केत्तियमेत्तेण ? आवलि० असंखे० भागेण खंडिदेय खंडमेत्तेण ।

❁ सम्मामिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २११. मिच्छत्तं संकामिय पुणो जेण कालेण सम्मामिच्छत्तं सव्वसंकमेण संकामेदि

तकालव्भंतरे णट्ठासेसदव्वं सम्मामिच्छत्तमूलदव्वादो असंखेज्जगुणहीणं ति कट्टु तत्थ तम्मि सोहिदे सुद्धसेसमेत्तेण विसेसाहियत्तमिदि बुत्तं होइ ।

❁ लोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो अणंतगुणो ।

§ २१२. कुदो ? देसघादित्तादो ।

* उससे प्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धीमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धीक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धीमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धीलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २०६ ये सूत्र प्रकृति विशेषमात्र कारणसे सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए सुगम हैं ।

* उससे मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २१०. कितना अधिक है ? आवलीके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है ।

* उससे सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २११. मिथ्यात्वको सक्रमण करके पुन जितने कालमें सम्यग्मिथ्यात्वका सर्वसंक्रमके द्वारा संक्रमण करता है उस कालके भीतर नष्ट हुआ समस्त द्रव्य मिथ्यात्वके मूल द्रव्यसे असंख्यात गुणा हीन है ऐसा समझकर उसे उससेसे कम कर देने पर जो शेष बचे उतना विशेष अधिक है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २१२. क्योंकि यह देशघाति प्रकृति है ।

❀ हस्से उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २१३. कुदो ? दोण्हं देसघादित्ताविसेसेवि अधापवत्तसव्वसंकमविसयसामित्त-
भेदावलंबणेण तहाभावसिद्धीए विरोहाभावादो ।

❀ रदोए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २१४. पयडिविसेसेण ।

❀ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।

§ २१५. कुदो ? हस्सरइबंधगद्दादो संखेज्जगुणकुरवित्थिवेदबंधगद्दाए संचिदत्तादो ।

❀ सोगे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २१६. एत्थ वि अद्दाविसेसमस्सिऊण संखेज्जभागाहियत्तं दट्टुव्वं कुरवित्थिवेद-
बंधगद्दादो णेरइयाणमरदिसोगबंधगद्दाए संखेज्जभागब्भहियत्तदंसणादो ।

❀ अरदोए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २१७. पयडिविसेसमेत्तमेव कारणमेत्थाणुगंतव्वं ।

❀ एवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २१८. कुदो ? अद्दाविसेसमस्सिऊण हस्सरइबंधगद्दाए संखेज्जभागसंचयस्स
अहियत्तवलंभादो ।

* उससे हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २१३. क्योंकि देशघातिरूपसे दोनोंमें भेद नहीं है तो भी अध प्रवृत्तसंक्रम और सर्व-
संक्रमविषयक स्वामित्वरूप भेदका अवलम्बन करनेसे उस प्रकारकी सिद्धि होनेमें कोई विरोध
नहीं आता ।

* उससे रतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २१४. इसका कारण प्रकृति विशेष है ।

* उससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

§ २१५. क्योंकि हास्य और रतिके बन्धककालसे संख्यातगुणे कुरुक्षेत्रसम्बन्धी स्त्रीवेदके
बन्धककाल द्वारा इसका सञ्चय हुआ है ।

* उससे शोकका उत्कृष्ट प्रदेशसञ्चय विशेष अधिक है ।

§ २१६. यहाँ पर भी कालविशेषका आश्रय कर संख्यातभाग रूपसे अधिकता जाननी
चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्रमें स्त्रीवेदके बन्धककालसे नारकियोमें अरति-शोकका बन्धककाल संख्यातवें
भाग अधिक देखा जाता है ।

* उससे अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २१७. यहाँ पर प्रकृतिविशेष मात्र कारण जानना चाहिए ।

* उससे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २१८. क्योंकि कालविशेषका आश्रय कर हास्य-रतिके बन्धककालसे संख्यात भागमें हुए
सञ्चयमें विशेष अधिकता उपलब्ध होती है ।

❀ दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २१६. कुदो ? ध्रुवंधित्तादो ।

❀ भए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २२०. सुगममेदं पयडिविसेसमेत्तकारणपडिवद्धत्तादो ।

❀ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २२१. कुदो ? दोण्हं ध्रुवंधित्तेण समाणविसयसामित्तपडिलंभे वि, पयडिविसेस-
मस्सिऊण पुव्विज्जादो एदस्स विसेसाहियत्तसिद्धीए विरोहाभावादो ।

❀ कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।

§ २२२. को गुणगारो ? एगरूवचउभागाहियाणि छरूवाणि । कुदो ? कसाय-
चउभागेण सह सयत्तणोकसायभागस्स कोहसंजलणायारेण परिणदस्सुवलंभादो । एत्थ
संदिट्ठीए मोहणीयसव्वदव्वमेत्तियमिदि घेत्तव्वं ४० । तदद्धमेत्तं कसायदव्वमेदं २० ।
णोकसायदव्वं पि एत्तियं चेव होइ २० । पुणो एदस्स पंचभागमेत्तो पुरिसवेदुक्कस्ससंकमो
एत्तिओ होइ ४ । एदं छगुणं करिय चउभागाहिए कदे कोहसंजलणदव्वमेत्तियं
होइ २५ ।

❀ माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २२३. केत्तियमेत्तेण ? पंचमभागमेत्तेण । तस्स संदिट्ठी ३० ।

* उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २१६. क्योंकि यह ध्रुववन्धिनी प्रकृति है ।

* उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २२०. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि यह प्रकृतिविशेषमात्र कारणसे, सम्बन्ध रखता है ।

* उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २२१. क्योंकि दोनों ध्रुववन्धी होनेसे इनका स्वामी समान विषयसे सम्बन्ध रखता है तो
भी प्रकृति विशेषका आश्रय कर पूर्व प्रकृतिसे इसके विशेष अधिकके सिद्ध होनेमें कोई विरोध
नहीं आता ।

* उससे क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

§ २२२. गुणकार क्या है ? एकका चतुर्थभाग अधिक छहरूप गुणकार है, क्योंकि कपायके
चतुर्थभागके साथ नोकपायोंका समस्त भाग क्रोधसंज्वलनरूप से परिणत होता हुआ उपलब्ध होता
है । यहाँ पर संदृष्टिके लिये मोहनीयका समस्त द्रव्य ४० ग्रहण करना चाहिए । उसका अर्धमात्र
कपायका द्रव्य इतना है २० । नोकपायोंका द्रव्य भी इतना ही होता है २० । पुनः इसका पाँचवाँ
भागमात्र पुरुषवेदका उत्कृष्ट संक्रम इतना होता है ४ । इसे छहसे गुणा करके उसने इसका चतुर्थभाग
अधिक करने पर क्रोधसंज्वलनका द्रव्य इतना होता है २५ ।

* उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २२३. कितना अधिक है ? पाँचवाँ भागमात्र अधिक है । उसकी संदृष्टि ३० है ।

❖ मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिअो ।

§ २२४. केत्तियमेत्तेण ? छ्भागमेत्तेण । तस्स संदिट्ठी ३५ ।

एवमोघप्पावहुअमुक्कस्सं समत्तं ।

§ २२५. एत्तो आदेसप्पावहुअपरूवणहुमुत्तरसुत्तपवंधमाह—

❖ णिरयगईए सव्वत्थोवो सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंकमो ।

§ २२६. कुदो ? मिच्छत्तादो गुणसंकमेण पडिच्छिदद्वमधापवत्तभागहारेण खंडिदेय-
खंडपमाणत्तादो ।

❖ सम्मामिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २२७. कुदो ? दोण्हमेयविसयसामित्तपडिलंभे वि सम्मत्तमूलदव्वादो सम्मा-
मिच्छत्तमूलदव्वस्सासंखेज्जगुणत्तमस्सिऊण तहाभावसिद्धीदो ।

❖ अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २२८. दोण्हमधापवत्तसंकमविसयत्ते वि दव्वगयविसेसोवलंभादो । तं कथं ?
मिच्छत्तदव्वं गुणसंकमभागहारेण खंडिदेयखंडमेत्तं सम्मामिच्छत्तदव्वं अधापवत्तभागहार
पडिभागेण संकमदि । अपच्चक्खाणमाणदव्वं पुण मिच्छत्तादो पयडिविसेसहीणं होऊणा-
धापवत्तसंकमेण उक्कस्सं जादमेदेण कारणेण तत्तो एदस्सासंखेज्जगुणत्तं सिद्धं ।

* उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २२४. कितना अधिक है ? छठवाँ भागमात्र अधिक है । उसकी संदृष्टि ३५ है ।

इस प्रकार उत्कृष्ट ओघ अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

§ २२५. आगे आदेश अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहते हैं—

* नरकगतिमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ २२६. क्योंकि मिथ्यात्वके द्रव्यमे से गुणसंक्रमके द्वारा संक्रमित हुए द्रव्यको अधःप्रवृत्त-
भागहारसे भाजित करके जो एक भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम है ।

* उससे सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २२७. क्योंकि दोनोंका स्वामित्व एक विषयको अवलम्बन करनेवाला है तो भी सम्यक्त्व
के मूलद्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वका मूल द्रव्य असंख्यात गुणा है, इसलिए उस प्रकारकी सिद्धि होती है ।

* उससे अप्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २२८. क्योंकि ये दोनों अधःप्रवृत्तसंक्रमको विषय करते हैं तो भी द्रव्यगत विशेषता
उपलब्ध होती है ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—मिथ्यात्वके द्रव्यको गुणसंक्रम भागहारके द्वारा भाजित करके जो एक भाग
लब्ध आवे उतना सम्यग्मिथ्यात्वका द्रव्य है जो अधःप्रवृत्तभागहारके प्रतिभागरूपसे संक्रमित होता
है । परन्तु अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य मिथ्यात्वसे प्रकृति विशेष रूपसे हीन होकर अधःप्रवृत्तसंक्रमके
द्वारा उत्कृष्ट हुआ है । इस कारणसे उससे यह असंख्यात गुणासिद्ध होता है ।

- ❁ कोधे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ लोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ लोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २२६. एत्थ सव्वत्थ पयडिविसेसमेत्तमेव विसेसाहियत्तकारणमणुगंतव्वं ।

- ❁ मिच्छत्ते उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २३०. किं कारणं ? अधापवत्तसंकमादो पुव्विन्लादो गुणसंकमदव्वस्सेदस्सा-
संखेज्जगुणत्ते विसंवादाणुवलंभादो ।

- ❁ अणंताणुबंधिमाणे उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २३१. केण कारणेण ? सव्वसंकमेण पडिलद्धु कस्स भावत्तादो ।

- ❁ कोधे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

* उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २२६. यहाँ सर्वत्र प्रकृति विशेषमात्र ही विशेष अधिकपनेका कारण जानना चाहिए ।

* उससे मिथ्यात्ममें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २३०. क्योंकि पहलेके अधःप्रवृत्तसंकमसे इस गुणसंकमद्रव्यके असंख्यातगुणे होनेमे विसंवाद नहीं पाया जाता ।

* उससे अनन्तानुबन्धीमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २३१. क्योंकि सर्वसंकमके द्वारा इसका उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ है ।

* उससे अनन्तानुबन्धीक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धीमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

❀ लौभे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २३२. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❀ हस्से उक्कस्सपदेससंकमो अणंतगुणो ।

§ २३३. कुदो ? सव्वघादिपदेसगं पेक्खिअण देसघादिपदेसगस्साणंतगुणत्ते संदेहाभावादो ।

❀ रदीए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २३४. पयडिविसेसेण ।

❀ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।

❀ सोगे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ अरदीए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ एवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ भए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २३५. एत्थ सव्वत्थ ओघाणुसारेण कारणमणुगंतव्वं ।

* उससे अनन्तानुबन्धीलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २३२. ये सूत्र सुगम हैं ।

* उससे हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २३३. क्योंकि सर्वघाति द्रव्यको देखते हुए देशघाति द्रव्यके अनन्तगुणे होनेसे सन्देह नहीं है ।

* उससे रतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २३४. क्योंकि यह प्रकृति विशेष है ।

* उससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

* उससे शोकका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २३५. यहाँ पर सर्वत्र ओघके अनुसार कारण जानना चाहिए ।

❀ माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २३६. केतियमेत्तो विसेसो ? पुरिसवेददव्वस्स सादिरेयवउभामेत्तो ।

❀ कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ लोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २३७. एदाणि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्तकारणपडिवद्दाणि सुबोहाणि । एवं णिरयोघो परूविदो । एवं चेव सत्तसु पुढवीसु; विसेसाभावादो ।

❀ एवं सेसासु गदीसु णेदव्वं ।

§ २३८. एदेण सुत्तेण सेसगदीणमप्पावहुअं सूचिदं । तं जहा—तिरिक्खपंचिदिय-तिरिक्खतिय देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति णिरयोघो । अणुद्दिसाणुत्तरदेवेसु एवं चेव । णवरि सम्मत्तसंकमो णत्थि; इत्थि-णवुंसयवेदाणं पि तत्थ विज्झादसंकमो चेवेत्ति विसेसमव-हारिऊणप्पावहुअमणुगंतव्वं । मणुसतिए ओघभंगो । पंचि०तिरिक्ख-अपज्ज०-मणुस-अपज्जत्तएसु पुरदो भण्णमाणेइंदिअप्पावहुअभंगो ।

* उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २३६. विशेषका प्रमाण कितना है ? पुरुषवेदके द्रव्यका साधिक चतुर्थ भागमात्र विशेष का प्रमाण है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २३७. ये सूत्र प्रकृतिविशेषमात्र कारणसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिए सुगम हैं । इस प्रकार सामान्यसे नारकियोंमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अल्पवहुत्वका कथन किया । इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ पर अन्य कोई विशेषता नहीं है ।

* इसी प्रकार शेष गतियोंमें ले जाना चाहिए ।

§ २३८. इस सूत्र द्वारा शेष गतियोंमें अल्पवहुत्वका सूचन किया है । यथा—सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्यदेव और भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान भङ्ग है । अनुदिश और अनुत्तर देवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वका संक्रम नहीं है । तथा वहाँ पर स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भी विध्यातसंक्रम ही है । इस प्रकार इस विशेषताको जानकर अल्पवहुत्व समझ लेना चाहिए । मनुष्यत्रिकमें श्रोत्रके समान भङ्ग है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें श्रागे कहे जाने वाले एकेन्द्रिय सम्बन्धी अल्पवहुत्वके समान भङ्ग है ।

§ २३६. संपहि सेसमगणाणं देसामासयभावेणिंदियमगणावयवमूदेयिंदिएसु पय-
दप्पाबहुअपरुवणहुमुत्तरसुत्तपबंधमाढवेइ ।

❖ तदो एइंदिएसु सव्वत्थोवो सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंकमो ।

§ २४०. तदो गइमगणाप्पाबहुअविहासणादो अणंतरमेइंदिएसु अप्पाबहुअगवेसणे
कीरमाणे तत्थ सव्वत्थोवो सम्मत्ते उक्कस्सपदेससंकमो ति वुत्तं होइ ।

❖ सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २४१. कुदो ? दोण्हमेदेसिं अधापवत्तेण सामित्तपडिलंभाविसेसे वि दव्वविसेस-
मस्सिऊण तत्तो एदस्सासंखेज्जगुणव्भहियकमेणावट्टाणदंसणादो ।

❖ अपच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २४२. एत्थकारणपरुवणाए णारयभंगो ।

❖ कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ लोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेशसंकमो विसेसाहिओ ।

❖ कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २३६. अब शो ष मार्गणाओंके देशामर्षकभावसे इन्द्रियमार्गणाके अवयवभूत एकेन्द्रियोंमे
प्रकृत अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धका आलोचन करते हैं—

* इसके बाद एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ २४०. इसके बाद अर्थात् गतिमार्गणामे अल्पबहुत्वका व्याख्यान करनेके बाद एकेन्द्रियोंमे
अल्पबहुत्वकी गवेषणा करने पर वहाँ सम्यक्त्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है ।

* उससे अप्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २४१. क्योंकि इन दोनोंके अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा स्वामित्वके प्राप्त करनेमे विशेषता न
होने पर भी द्रव्यविशेषकी अपेक्षा उससे इसका असंख्यातगुणे अधिकरूपसे अवस्थान देखा जाता है ।

* उससे अप्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २४२. यहाँ पर कारणका कथन करनेमे नारकियोंके समान कारण जानना चाहिए ।

* उससे अप्रत्याख्यानक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

- ❁ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ लोभे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ अणंताणुवंधिमाणो उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ कोहे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ लोभे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ हस्से उक्कस्सपदेससंकमो अणंतगुणो ।
- ❁ रदोए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।
- ❁ सोगे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ अरदोए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ एवुंसयवेदे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ दुगुंछाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ भए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ पुरिसवेदे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

-
- * उससे प्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे प्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे अनन्तानुबन्धीमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उ से अनन्तानुबन्धीक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे अनन्तानुबन्धीमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे अनन्तानुबन्धीलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है ।
 - * उससे रतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे स्त्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे शोकका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
 - * उससे पुरुषवेदको उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

❖ माणसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ मायासंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ लोभसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २४३. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एवं जाव० तदो उक्कस्सपदेसप्पाबहुअं समत्तं ।

❖ एत्तो जहणणपदेससंकमदंडओ ।

§ २४४. एत्तो उवरि जहणणपदेससंकमपडिवद्धप्पाबहुअदंडओ कायवो ति अहियारसंभालणवक्कमेदं ।

❖ सव्वत्थोवो सम्मत्ते जहणणपदेससंकमो ।

§ २४५. सम्मामिच्छतादिसेससव्वपयडीणं जहणणपदेससंकमेहितो : सम्मत्तजहणणपदेससंकमो थोवयरो ति सुत्तथो ।

❖ सम्मामिच्छत्ते जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २४६. कुदो ? दोण्हमेदेसिं सामित्तभेदाभावे पि सम्मत्तमूलदव्वादो सम्मामिच्छत्तमूलदव्वस्सासंखेज्जगुणक्रमेणावट्टाणदंसणादो । सम्मत्ते उव्वेल्लिदे जो सम्मामिच्छत्तुव्वेल्लणकालो तस्स एयगुणहाणोए असंखेज्जदिभागपमाणत्तभुवगमादो च ।

* उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २४३. ये सूत्र सुगम हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए । इस प्रकार उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

* इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रम दण्डकका अधिकार है ।

§ २४४: इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रमसे 'सम्बन्ध रखनेवाला अल्पबहुत्वदण्डक करना चाहिए । इस प्रकार अधिकारकी 'सम्हाल करनेवाला यह सूत्र वचन है ।

* सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ २४५. सम्यग्मिथ्यात्व आदि शेष 'सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशसंक्रमसे सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेश संक्रम स्तोक है यह इस सूत्रका अर्थ है ।

* उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणों है ।

§ २४६. क्योंकि इन दोनोंके स्वामित्वमे भेद नहीं होने पर भी सम्यक्त्वके 'मूल द्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वके मूलद्रव्यका असंख्यातगुणित क्रमसे अवस्थान देखा जाता है । तथा सम्यक्त्वकी उद्वेलना होने पर जो सम्यग्मिथ्यात्वका उद्वेलनाकाल रहता है उसकी एक गुणहानि असंख्यातवें भागप्रमाण स्वीकार की गई है । अर्थात् वह काल एक गुणहानिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

❀ अणंताणुबंधिमाणे जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २४७. किं कारणं ? विसंजोयणापुव्वसंजोगणवक्कवंधसमयपव्वद्वाणमंतोमुहुत्तमेत्ताणमुवरि सेसकसायाणमधापवत्तसंकममुक्कड्डणापडिभागेण पडिच्छिय सम्मत्तपडिलंभेण वेछावड्डिसागरोवमाणि परिहिंडिय तप्पज्जवसाणे विसंजोयणाए उवड्डिदस्स अधापवत्तकरणचरिमसमए विज्झादसंकमेणेदस्स जहण्णसामित्तं जादं । सम्मामिच्छत्तस्स पुण वेछावड्डिसागरोवमाणि सागरोवमपुधत्तं च परिभमिय दीहुव्वेत्तणकालेण उव्वेत्तमाणस्स दुचरिमड्डिदिखंडयचरिमफालीए उव्वेत्तणभागहारेण जहण्णं जादं । तदो उव्वेत्तणभागहारमाहप्पेणणोण्णव्भत्थरासिमाहप्पेण च सम्मामिच्छत्तदव्वादो एदमसंखेज्जगुणं जादं ।

❀ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ लोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २४८. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❀ मिच्छत्ते जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २४९. किं कारणं; अणंताणुबंधीणं विसंजोयणापुव्वसंजोगेणवक्कवंधस्सुवरि अधापवत्तभागहारेण पडिच्छिदसेसकसायदव्वस्सुकड्डणापडिभागेण वेछावड्डिसागरोवमगालणाए

❀ उससे अनन्तानुबन्धीमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यात गुणा है ।

§ २४७. क्योंकि विसंयोजनापूर्वक संयोग होने पर अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर जो नवकवन्धके समयप्रवद्ध प्राप्त होते हैं उनके ऊपर शेष कपायोंके अधःप्रवृत्तसंक्रमको उत्कर्षणके प्रतिभागरूपसे निक्षिप्त करके सम्यक्त्वकी प्राप्ति द्वारा दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण करके उसके अन्तमे विसंयोजनाके लिए उपस्थित हुए जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे विध्यातसंक्रमके द्वारा इसका जघन्य स्वामित्व हुआ है । परन्तु सम्यग्मिध्यात्वका दो छयासठ सागर और सागरपृथक्त्व काण्टककी अन्तिम फालिके प्राप्त होने पर उद्वेलनाभागहारके आश्रयसे जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ है, इसलिए उद्वेलनाभागहारके माहात्म्यवश और अन्योन्याभ्यस्तराशिके माहात्म्यवश सम्यग्मिध्यात्वके द्रव्यसे इसका द्रव्य असंख्यातगुणा हो गया है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धीमायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

❀ उससे अनन्तानुबन्धीलोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २४८. ये सूत्र सुगम हैं ।

❀ उससे मिध्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २४९. क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंका विसंयोजनापूर्वक संयोगद्वारा नवकवन्धके ऊपर अधःप्रवृत्तभागहार द्वारा प्राप्त हुए शेष कपायोंके द्रव्यके उत्कर्षण-अपकर्षणभागहाररूप प्रतिभागके

जहण्णसामित्तं जादमेदस्स पुण अधापवत्तभागहारेण विणा कम्मट्ठिदिजहण्णसंचयादो उक्कट्टिददव्वस्स सादिरेयबेळावट्टिसागरोवमाणमधट्टिदिगालणाए जहण्णभावो संजादो तेण कारणेणाणंताणुबंधिलोभजहण्णपदेससंकमादो मिच्छत्तजहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो शेदं घडदे; मिच्छत्तस्सेवाणंताणुबंधीणं बेळावट्टिसागरोवमवहिब्भूदसागरोवमपुधत्तमेत्तकालगालणाभावादो । ण, सागरोवमपुधत्तकालपडिबद्धणोण्णभत्थरासीए अधापवत्तभागहारादो असंखेज्जगुणहीणत्तावलंबणेण पयदप्पाबहुअसमत्थाणं वि जुत्तिमंतयं । उव्वेज्जकालभंतरणाणागुणहाणिसलागणोण्णभत्थरासीदो वि असंखेज्जगुणहीणस्स तस्स सागरोवमपुधत्तपडिबद्धणोण्णभत्थरासीदो असंखेज्जगुणत्तविरोहादो । तम्हा जहावुत्तेण गाएण हेट्टुवरि णिवदेयव्वमेदेणप्पाबहुएणे त्ति ? ण एस दोसो, अणंताणुबंधीणं मिच्छत्तभंगेण सागरोवमपुधत्तं गालिय विसंजोयणाए अब्भुट्टिदम्मि जहण्णसामित्तावलंबणादो । ण सागरोवमपुधत्तपरिभमण्डं बेळावट्टीणमवसाणे मिच्छत्तभुवणमंतस्स सेसकसाएहितो अधापवत्तसंकमेण बहुदव्वपडिच्छणमेत्थासंकणिज्जं; तस्स वयाणुसारित्तभुवगमादो । ण सामित्तसुत्तेण सह विरोहो वि; तत्थ सागरोवमपुधत्तणिद्देसाभावे वि एदम्हादो चेव तदत्थित्तसमत्थणादो ।

आश्रयसे दो छयासठ सागर काल तक गलने पर जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ है । परन्तु इसका अधःप्रवृत्त भागहारके बिना कर्मस्थितिके भीतर हुए जघन्यसंचयमेसे उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रव्यको साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण काल तक अधःस्थितिके द्वारा गलाने पर जघन्यपना प्राप्त हुआ है । इस कारण अनन्तानुबन्धीलोभके जघन्य प्रदेशसंकमसे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंकम असंख्यातगुणा है ।

शंका—यह अल्पबहुत्व घटित नहीं होता, क्योंकि मिथ्यात्वके समान अनन्तानुबन्धियोंका दो छयासठसागरके बाहर सागरपृथक्त्व काल तक गलन नहीं होता ? यदि सागरपृथक्त्वकालसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्योन्याभ्यस्त राशि अधःप्रवृत्तभागहारसे असंख्यातगुणी हीन है इस बातका अवलम्बन करनेसे प्रकृत अल्पबहुत्वका समर्थन किया जाय सो ऐसा करना भी युक्तियुक्त नहीं है, क्योंकि उद्वेलनाकालके भीतर प्राप्त हुई नानागुणहानियोंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे भी असंख्यातगुणेहीन उसके सागरपृथक्त्वकालसे प्रतिबद्ध अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणे होनेका विरोध है । इसलिए यथोक्त न्यायके अनुसार इस अल्पबहुत्वको नीचे-ऊपर निक्षिप्त करना चाहिए ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वके समान सागरपृथक्त्व काल तक गलाकर अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनाके लिए उद्यत होने पर जघन्य स्वामित्वका अवलम्बन किया है । यदि कोई ऐसी आशंका करे कि सागरपृथक्त्व काल तक परिभ्रमण करनेके लिए दो छयासठ सागर कालके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके शेष कषायोंमें से अधःप्रवृत्तसंकमके द्वारा बहुत द्रव्य संक्रमित हो जाता है सो यहाँ पर ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आयको व्ययके अनुसार स्वीकार किया है । इससे स्वामित्व सूत्रके साथ विरोध आता है यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्वामित्व सूत्रमे यद्यपि सागरपृथक्त्वका निर्देश नहीं है तो भी इससे ही उस के अस्तित्वका समर्थन होता है ।

❀ अपञ्चक्रवाणमाणे जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २५०. कुदो ? वेडावड्डिसागरोवमपरिब्भमणेण विणा लद्धजहण्णभावत्तादो ।

❀ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ लोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ पञ्चक्रवाणमाणे जहणणपदेससकमो विसेसाहिओ ।

❀ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ लोभे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २५१. एत्थ सव्वत्थ विसेसपमाणमावलि० असंखे० भागेण खंडिदेयखंडमेत्तं ।

❀ णवुंसयवेदे जहणणपदेससंकमो अणंतगुणो ।

§ २५२. जइवि तिपलिदोत्रमाहियवेडावड्डिसागरोवमाणि परिगालिय णवुंसयवेदस्स जहण्णसामित्तं जादं, तो वि पुच्चिल्लदव्वादो अणंतगुणमेव णवुंसयवेददव्वं होइ; देसघाइ पडिभागियत्तादो ।

❀ इत्थिवेदे जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

* उससे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य-प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २५०. क्योंकि दो छयासठ सागर काल तक भ्रमण किये विना- इसका जघन्यपना प्राप्त होता है ।

* उससे अप्रत्याख्यानक्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यानमायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यानलोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानक्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानमायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यानलोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २५१. यहाँ पर सर्वत्र विशेष अधिकका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भागसे भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे उतना है ।

* उससे नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २५२. यद्यपि तीन पल्ल्य अधिक दो छयासठ सागरको गलाकर नपुंसकवेदका जघन्य स्वामित्व उत्पन्न हुआ है तो भी पहलेके द्रव्यसे नपुंसकवेदका द्रव्य अनन्तगुणा ही है, क्योंकि प्रति- भाग होकर इसे देशघातिका द्रव्य मिला है ।

* उससे स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यात गुणा है ।

§ २५३. कुदो ? णवुंसयवेदजहण्णसामियस्से विथिवेदजहण्णसामियस्स तिसु पलिदोवमेसु परिभमणाभावादो ।

❀ सोगे जहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २५४. कुदो ? इत्थिवेदजहण्णसामियस्सेव पयदजहण्णसामियस्स वेछावट्ठि-सागरोवमाणमपरिभमणादो ।

❀ अरदोए जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २५५. कुदो ? पयडिविसेसेणेव सब्बकालमेदेसिमण्णोण्णं पेक्खिऊण सब्बत्थ विसेसहीणाहियभावेणावट्ठाणदंसणादो ।

❀ कोहसंजलणे जहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो

§ २५६. कुदो ? विज्झादभागहारोवट्ठिददिवड्ढुगुणहाणिमेत्तेइन्द्रियसमयपवद्धेहितो अधापत्तभागहारो वट्ठिदपंचिदिय समयपवद्धेस्सासंखेज्जगुणत्तुवल्लभादो ।

❀ माणसंजलणे जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २५७. किं कारणं ? कोहसंजलणदव्वमेयसमयपवद्धस्स चउब्भागमेत्तं । माणसंजलण-दव्वं पुण तत्तिभागमेत्तं, तेण विसेसाहियं जादं ।

❀ पुरिसवेदे जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २५८. कुदो ? समयपवद्धदुभागपमाणत्तादो ।

§ २५३. क्योंकि नपुंसकवेदके स्वामीके समान स्त्रीवेदका स्वामी तीन पल्यके भीतर परिभ्रमण नहीं करता ।

* उससे शोकका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २५४. क्योंकि स्त्रीवेदके जघन्य स्वामीके समान प्रकृत जघन्य स्वामी दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण नहीं करता ।

* उससे अरतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २५५. क्योंकि प्रकृतिविशेषके कारण ही सर्वदा इनका एक दूसरेको देखते हुए सर्वत्र विशेषहीन अधिक रूपसे अवस्थान देखा जाता है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २५६. क्योंकि विध्यातभागहारसे भाजित डेढ़गुणहानिमात्र एकेन्द्रिय सम्यन्धी समयप्रवद्धोंसे अघःप्रवृत्तभागहारसे भाजित पञ्चेन्द्रियसम्यन्धी समयप्रवद्ध असंख्यातगुणे उपलब्ध होते हैं ।

* उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २५७. क्योंकि क्रोधसंज्वलनका द्रव्य एक समय प्रवद्धके चौथे भागप्रमाण है । परन्तु मानसंज्वलनका द्रव्य उसके तृतीय भागप्रमाण है, इसलिए यह उससे विशेष अधिक है ।

* उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २५८. क्योंकि यह समयप्रवद्धके द्वितीय भागप्रमाण है ।

❖ मायासंजलणे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २५६. कुदो ? दोण्हं पि समयप्रबद्धमाणत्ताविसेसे वि णोकसायभागादो कसाय-
भागस्स पयडिविसेसमेत्तेणाहियत्तदंसणादो ।

❖ हस्से जहणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २६०. कुदो ? अधापवत्तभागहारो वड्ढिदिवड्ढगुणहाणिमेत्तेइं दियसमयप्रबद्धेसु
असंखेज्जाणं पंचिदियसमयप्रबद्धाणमुवलंभादो ।

❖ रदीए जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६१. केत्तियमेत्तेण ? पयडिविसेसमेत्तेण ।

❖ दुगुंछाए जहणपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।

§ २६२. कुदो ? हस्सरदिपडिवक्खबंधकाले वि दुगुंछाए बंधसंभवादो ।

❖ भए जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६३. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❖ लोभसंजलणे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६४. केत्तियमेत्तेण ? चउअभागमेत्तेण । कुदो ? णोकसायपंचभागमेत्तेण भयदब्बेण
कसायचउअभागमेतलोहसंजलणजहणसंकमदब्बे ओवड्ढिदे सचउअभागेरूवागमदंसणादो ।

* उससे मायासंजलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २५६. क्योंकि दोनोंके ही समयप्रबद्धोंके प्रमाणमें विशेषताके नहीं होने पर भी नोकषायके
भागसे कषायका भाग प्रकृतिविशेष होनेके कारण अधिक देखा जाता है ।

* उससे हास्यका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २६०. क्योंकि अध.प्रवृत्तभागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण एकेन्द्रिय सम्बन्धी
समयप्रबद्धोंमें असंख्यात पञ्चेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्ध उपलब्ध होते हैं ।

* उससे रतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६१. कितना अधिक है ? प्रकृति विशेषमात्र अधिक है ।

* उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

§ २६२. क्योंकि हास्य और रतिकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धके समय भी जुगुप्साका बन्ध
सम्भव है ।

* उससे भयका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६३. क्योंकि यह प्रकृति विशेष है ।

* उससे लोभसंजलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६४. कितना अधिक है ? चतुर्थ भागमात्र अधिक है, क्योंकि नोकषायोंके पाँचवें भागमात्र
भयके द्रव्यसे कषायोंके चतुर्थ भागमात्र लोभसंजलनके जघन्य सक्रमद्रव्यको भाजित करने पर
चतुर्थभागके साथ एक पूर्णाङ्ककी प्राप्ति देखी जाती है ($\frac{1}{5} - \frac{1}{5} = \frac{1}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{25} = 1\frac{1}{5}$) ।

§ २६५. एवमोघप्पावहुअं परूविय संपहि आदेसपरूवणाए णिरयगइपडिवद्धमप्पावहुअं कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ ।

❖ णिरयगइए सव्वत्थोवो सम्मत्ते जहणणपदेससंकमो ।

§ २६६. सुगमं ।

❖ सम्मामिच्छत्ते जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २६७. एदंपि सुगमं, ओघम्मि परूविदकारणत्तादो ।

❖ अणंताणुबंधिमाणे जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २६८. एत्थ वि कारणमोघपरूवणाणुसारेण वत्तव्वं ।

❖ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ लोभे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६९. एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुवोहाणि ।

❖ मिच्छत्ते जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २७०. दोण्हमेदेसिं जइवि थोवण तेत्तीससागरोवमेत्तगोवुच्छागालणेण सम्माइट्टिचरिमसमयम्मि विज्झादसंकमेण जहण्णसामित्तमविसिद्धं तो वि पुव्विज्जलादो एदस्सासंखेज्जगुणत्तमविरुद्धं, अधापवत्तभागहारसंभवासंभवं कय विसेसोवत्तीदो ।

§ २६५. इस प्रकार ओघ अल्पवहुत्वका कथन करके अब आदेश अल्पवहुत्वका कथन करने पर नरकगतिसे सम्बद्ध अल्पवहुत्वको करते हुए आगेका सूत्रप्रबन्ध कहते हैं—

* नरकगतिमें सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ २६६. यह सूत्र सुगम है ।

* उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २६७. यह भी सुगम है, क्योंकि ओघप्ररूपणाके समय इसके कारणका कथन कर आये हैं ।

* उससे अनन्तानुबन्धीमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २६८. यहाँ पर भी कारणका कथन ओघप्ररूपणाके अनुसार कहना चाहिए ।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६९. ये तीनों ही सूत्र सुबोध हैं ।

* उससे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २७०. इन दोनोंका ही यद्यपि कुछ कम तेत्तीस सागरप्रमाण गोपुच्छाओंके गलानेसे सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा जघन्य स्वामित्व अवस्थित है तो भी पहलेसे यह असंख्यातगुणा है इसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अध प्रवृत्तभागहारकी सम्भावना और असम्भावनाके निमित्तसे यह विशेषता बन जाती है ।

❁ मायासंजलणे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २५६. कुदो ? दोणहं पि समयप्रवद्धमाणत्ताविसेसे वि णोकसायभागादो कसाय-
भागस्स पयडिविसेसमेत्तेणाहियत्तदंसणादो ।

❁ हस्से जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २६०. कुदो ? अधापवत्तभागहारो वड्ढिददिवड्ढगुणहाणिमेत्तेइं दियसमयप्रवद्धेसु
असंखेज्जाणं पंचिदियसमयप्रवद्धाणमुवलंभादो ।

❁ रदीए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६१. केत्तियमेत्तेण ? पयडिविसेसमेत्तेण ।

❁ दुगुंछाए जहणणपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।

§ २६२. कुदो ? हस्सरदिपडिवक्खबंधकाले वि दुगुंछाए बंधसंभवादो ।

❁ भए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६३. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❁ लोभसंजलणे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६४. केत्तियमेत्तेण ? चउव्भागमेत्तेण । कुदो ? णोरुसायपंचभागमेत्तेण भयदव्वेण
कसायचउव्भागमेत्तलोहसंजलगजहणणसंक्रमदव्वे ओरड्ढिदे सचउव्भागेरुव्भागमदंसणादो ।

* उससे मायासंजलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २५६. क्योंकि दोनोंके ही समयप्रवद्धोंके प्रमाणमे विशेषताके नहीं होने पर भी नोकषायके
भागसे कषायका भाग प्रकृतिविशेष होनेके कारण अधिक देखा जाता है ।

* उससे हास्यका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २६०. क्योंकि अध.प्रवृत्तभागहारसे भाजित डेढ़ गुणहानिप्रमाण एकेन्द्रिय सम्बन्धी
नमयप्रवद्धोंमें असंख्यात पञ्चेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवद्ध उपलब्ध होते हैं ।

* उससे रतिकी जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६१. कितना अधिक है ? प्रकृति विशेषमात्र अधिक है ।

* उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

§ २६२. क्योंकि हास्य और रतिकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धके समय भी जुगुप्साका बन्ध
सम्भव है ।

* उससे भयका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६३. क्योंकि यह प्रकृति विशेष है ।

* उससे लोभसंजलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६४. कितना अधिक है ? चतुर्थ भागमात्र अधिक है, क्योंकि नोरुपायोंके पाँचवें भागमात्र
भयके द्रव्यमे कषायोंके चतुर्थ भागमात्र लोभसंजलनके जघन्य संक्रमद्रव्यको भाजित करने पर
चतुर्थभागके साथ एक पूर्णाङ्ककी प्राप्ति देवी जाती है ($\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 1\frac{1}{4}$) ।

§ २६५. एवमोघप्पाबहुअं परूविय संपहि आदेसपरूवणाए णिरयगइपडिवद्धमप्पा-
बहुअं कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ ।

❀ णिरयगइए सव्वत्थोवो सम्मत्ते जहणणपदेससंकमो ।

§ २६६. सुगमं ।

❀ सम्मामिच्छत्ते जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २६७. एदंपि सुगमं, ओघम्मि परूविदकारणत्तादो ।

❀ अणंताणुबंधिमाणे जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २६८. एत्थ वि कारणमोघपरूवणाणुसारेण वत्तव्वं ।

❀ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ लोभे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६९. एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुबोहाणि ।

❀ मिच्छत्ते जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २७०. दोण्हमेदेसिं जइवि थोवूण तेतीससागरोवमेतगोवुच्छागालणेण सम्मा-
इट्टिवरिमसमयम्मि विज्झादसंक्रमेण जहणणसामित्तमविसिद्धं तो वि पुच्चिल्लादो एद-
स्सासंखेज्जगुणत्तमविरुद्धं, अधापवत्तभागहारसंभवासंभवं कय विसेसोवत्तीदो ।

§ २६५. इस प्रकार ओघ अल्पबहुत्वका कथन करके अब आदेश अल्पबहुत्वका कथन करने पर नरकगतिसे सम्बद्ध अल्पबहुत्वको करते हुए आगेका सूत्रप्रबन्ध कहते हैं—

* नरकगतिमें सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ २६६ यह सूत्र सुगम है ।

* उससे सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २६७. यह भी सुगम है, क्योंकि ओघप्ररूपणाके समय इसके कारणका कथन कर आये हैं ।

* उससे अनन्तानुबन्धीमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २६८. यहाँ पर भी कारणका कथन ओघप्ररूपणाके अनुसार कहना चाहिए ।

* उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६९. ये तीनों ही सूत्र सुबोध हैं ।

* उससे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २७०. इन दोनोंका ही यद्यपि कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण गोपुच्छाओंके गलानेसे सम्यग्दृष्टिके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा जघन्य स्वामित्व अवस्थित है तो भी पहलेसे यह असंख्यातगुणा है इसमें कोई विरोध नहीं आता, क्योंकि अध प्रवृत्तभागहारकी सम्भावना और असम्भावनाके निमित्तसे यह विशेषता बन जाती है ।

❖ अपञ्चखाणभाणे उक्कस्सपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २७१. किं कारणं ? खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण शेरइएसुप्पण्णपढमसमए अधापवत्तसंक्रमेणेदस्स सामित्तावलंघणादो ।

❖ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ लोभे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ पञ्चखाणभाणे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ लोभे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २७२. एत्थ सव्वत्थ विसेसपमाणमावलि० असंखे० भागपडिमागियमिदि घत्तव्वं ।

❖ इत्थिवेदे जहणणपदेससंकमो अणंतगुणो ।

§ २७३. जइ पि सम्मत्तगुणपाहम्मे णित्थीवेदस्स वंधवोच्छेदं कादूण तेत्तीससागरो-व्रमाणि देवणाणि गालिय विज्झादसंक्रमेण जहणणसामित्तं जादं । तो वि देसघादिमाह-प्पेणाणंतगुणत्तमेदस्स पुच्चिल्लादो ण विरुज्झदे ।

* उससे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २७१. क्योंकि क्षपितकर्माशिकलक्षणसे आकर नारकियोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अध प्रवृत्तर्मक्रमके द्वारा इसके स्वामित्वका अवलम्बन किया गया है ।

* उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यान मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे अप्रत्याख्यान लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान मानका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे प्रत्याख्यान लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २७० यहाँ पर सर्वत्र विशेष का प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो लब्ध प्रापे उतना लेना चाहिए ।

* उससे स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है ।

§ २७३ यद्यपि सम्मत्तगुणके माहात्म्यवश स्त्रीवेदकी बन्धव्युच्छिन्नि करके उसके साथ कुछ कम नेतीन भाग नलाकर विध्यातसंक्रमके द्वारा जघन्य स्वामित्व हुआ है तथापि देशघाति होनेके माहात्म्यवश इनका पूर्व प्रकृतिके प्रदेशसंक्रमसे अनन्तगुणा होना विरोधको नहीं प्राप्त होता ।

❀ एवुंसयवेदे जहणणपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।

§ २७४. कुदो ? बंधगद्धावसेणेदस्स तत्तो संखे०गुणत्तं पडि विरोहाभावादो ।

❀ पुरिसवेदे जहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २७५. कुदो ? खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण गेरइएसुप्पणस्स पडिवक्ख-
बंधगद्धामेत्तगलणेण पुरिसवेदस्स अधापवत्तसंकमणिबंधणजहणणसामित्तावलंभादो ।

❀ हस्से जहणणपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।

§ २७६. कुदो ? पुरिसवेदबंधगद्धादो हस्सरइबंधगद्धाए संखेज्जगुणकमेणावट्टाण-
दंसणादो ।

❀ रदीए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २७७. पयडि विसेसमेत्तेण ।

❀ सोगे जहणणपदेससंकमो संखेज्जगु० ।

§ २७८. कुदो ? बंधगद्धापडिवद्धगुणगारस्स तहाभावोवलंभादो ।

❀ अरदीए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २७९. केत्तियमेत्तेण ? पयडिविसेसमेत्तेण ।

❀ दुगुंछाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २८०. केत्तियमेत्तेण हस्सरदिवंधगद्धा पडिवद्धसंखेज्जदिभागमेत्तेण ।

* उससे नपुंसकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

§ २७४. क्योंकि बन्धककालके वशसे इसके उससे संख्यातगुणे होनेमे विरोध नहीं आता ।

* उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २७५. क्योंकि क्षपितकर्मांशिक लक्षणसे आकर नारकियोंमे उत्पन्न हुए जीवके प्रतिपक्ष
बन्धककालके गलनेसे पुरुषवेदके अधःप्रवृत्तसंक्रम निमित्तक जघन्य स्वामित्व उपलब्ध होता है ।

* उससे हास्यका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

§ २७६. क्योंकि पुरुषवेदके बन्धक कालसे हास्य-रतिके बन्धककालका संख्यात गुणित रूपसे
अवस्थान देखा जाता है ।

* उससे रतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २७७. क्योंकि इसका कारण प्रकृति विशेषमात्र है ।

* उससे शोकका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

§ २७८. बन्धक कालसे सम्बन्ध रखनेवाले गुणकारकी इस प्रकारसे उपलब्धि होती है ।

* उससे अरतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २७९. कितना अधिक है ? प्रकृति विशेषमात्र अधिक है ।

* उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २८०. कितना अधिक है ? हास्य-रतिके बन्धककालके संख्यातवें नाग अधिक है ।

❁ अए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २८१. केत्तियमेत्तेण ? पयडिविसेसमेत्तेण ।

❁ माणसंजलणे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २८२. केत्तियमेत्तेण ? चउव्भागमेत्तेण ।

❁ क्रोहसंजलणे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❁ मायासंजलणे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❁ लोहसंजलणे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २८३. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एवं णिरयोधंजहणणप्पावहुअं गयं । एसो चेव अप्पावहुआलावो सत्तसु पुढवीसु अणुगंतव्वो, विसेसाभावादो ।

❁ जहा णिरयगईए तहा तिरिक्खगईए ।

§ २८४. सुगममेदमप्पणासुत्तमप्पावहुआलावगयविसेसाभावमस्सिरुण पयट्टत्तादो । तदो णेरइयगईए अप्पावहुगमण्णाहियं तिरिक्खगईए वि जोजेयव्वं । एवं पंचिदियतिरिक्खत्तिए मणुसत्तिए ओघभंगो । णवरि मणुस्सिणीसु मायासंजलणस्सुवरि पुरिसवेदजहणणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो । तदो हस्से जहणणपदेससंकमो संखेज्जगुणो । सेसमोघभंगेण शेदव्वं । पंचि०तिरि०अपज्ज० मणुसअपज्जत्तएसु एइंदियभंगेणप्पावहुअमुवरि कस्सामो ।

* उससे भयका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २८१. कितना अधिक है ? प्रकृतिविशेषमात्र अधिक है ।

* उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २८२. कितना मात्र अधिक है ? चतुर्थभागमात्र अधिक है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २८३ ये सूत्र सुगम हैं । इस प्रकार सामान्य नारकियोंका जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । यही अल्पबहुत्वका कथन सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है ।

* जिस प्रकार नरकगतिमें है उसी प्रकार तिर्यञ्चगतिमें जानना चाहिए ।

§ २८४. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि अल्पबहुत्वगत विशेषता नहीं है इस बातका आश्रय लेकर इस सूत्रकी प्रवृत्ति हुई है । इसलिए नरकगतिमें जो अल्पबहुत्व है उसे न्यूनाधिकताके बिना तिर्यञ्चगतिमें भी लगाना चाहिए । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें जानना चाहिए । मनुष्यत्रिकमें आगेके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियोंमें मायासंज्वलनके ऊपर पुरुषपदेका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । उससे हास्यका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है । शेष आघभंगके साथ ले जाना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें अल्पबहुत्व एकेंद्रियोंके समान आगे करेंगे । यतः यह प्ररूपणा तिर्यञ्चगति सामान्य

जेणेसा तिरिक्खगइसामणप्पणा देसामासिया तेणेसो सब्बो अत्थविसेसो एत्थंतब्भूदो ति दट्ठव्वो । संपहि देवगईए णाणत्तपट्ठप्पायणट्ठमुत्तरसुत्तमाह—

❀ देवगईए णाणत्तं; एवुंसयवेदादो इत्थिवेदो असंखेज्जगुणो ।

§ २८५. देवगईए वि णिरयगईभंगेणप्पावहुअं णेदव्वं । णाणत्तं पुण णवुंसयवेद-जहण्णपदेससंकमादो उवरि इत्थिवेदजहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो कायव्वो ति । णिरयगईए तिरिक्खगईए च इत्थिवेदादो णवुंसयवेदस्स संखेज्जगुणतोवलंभादो । किं कारणमेदं णाणत्तमिदि चे वुच्चदे-णवुंसयवेदस्स तिपलिदोवमिएसु गलिदसेसस्स वेछावट्ठि-सागरोवमपरिभ्रमणेण देवगईए जहण्णसामित्तं । इत्थिवेदस्स पुण तिपलिदोवमिएसु अणु-प्पाइय ओघभंगेण वेछावट्ठिसागरोवमाणि गालाविय जहण्णसामित्तविहाणमेदेण कारणेण णाणत्तमेदं णादव्वं ।

§ २८६. एवं गइमग्गणाए अप्पावहुअविणिणायं कादूण संपहि सेसमग्गणाणमुवलक्खणभावेणेइं दिएसु पयदप्पावहुअपरूवणट्ठमुत्तरं सुत्तपवंधमणुवत्तइस्सामो ।

एइंदिएसु सव्वत्थोवो सम्मत्ते जहण्णपदेससंकमो ।

§ २८७. सुगमं ।

की मुख्यतासे देशामर्षक है, इसलिए यह सब अर्थ विशेष इसमें अन्तर्भूत है ऐसा जानना चाहिए । अब देवगतिमें नानात्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ देवगतिमें इतना भेद है कि नपुंसकवेदसे स्त्रीवेद असंख्यातगुणा है ।

§ २८५. देवगतिमें भी नरकगतिके समान अल्पबहुत्व जानना चाहिए । परन्तु इतना भेद है कि नपुंसकवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रमसे आगे स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा करना चाहिए, क्योंकि नरकगति और तिर्यञ्चगतिमें स्त्रीवेदसे नपुंसकवेद संख्यातगुणा उपलब्ध होता है ।

शंका—नानात्वका क्या कारण है ?

समाधान—कहते हैं—नपुंसकवेदका तीन पत्यकी आयुवालोंमें गलकर जो अन्तमें शेष बचता है उसके साथ दो छयासठ सागर कालके भीतर परिभ्रमण करनेके अनन्तर देवगतिमें जघन्य स्वामित्व प्राप्त होता है । परन्तु स्त्रीवेदका तीन पत्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न न कराकर ओघके समान दो छयासठ सागर काल गला कर जघन्य स्वामित्व कहा गया है । इस कारणसे अल्पबहुत्व सम्बन्धी यह भेद जान लेना चाहिए ।

§ २८६. इस प्रकार गतिमार्गणामें अल्पबहुत्वका निर्णय करके अब शेषमार्गणाओंके उपलक्षणरूपसे एकेन्द्रियोंमें प्रकृतअल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको बतलाते हैं—

❀ एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है ।

§ २८७. यह सूत्र सुगम है ।

❖ सम्मामिच्छते जहणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २८८. सुगममेदमोघादो अविंसिड्ढकारणपरूवणत्तादो ।

❖ अणंताणुबंधिमाणे जहणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २८९. कुदो ? अधापवत्तभागहारवग्गेण खंडिददिवड्ढगुणहाणिमेत्तजहण-
समयपवद्वपमाणत्तादो । तं पि कुदो ? विसंजोयणापुव्वसंजोगेण सेसकसाएहितो अधा-
पवत्तसंक्रमेण पडिच्छिड्ढखविदकम्मंसियदव्वेण सह समयाविरोहेण सव्वलहुमेइंदिएसुप्प-
णस्स पढमसमए अधापवत्तसंक्रमेण पयदजहणगसामित्तावलंबणादो ।

❖ कोहे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ मायाए जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❖ लोहे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २९०. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❖ अपवत्तखाणमाणे जहणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो ।

§ २९१. कुदो ? खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण दिवड्ढगुणहाणिमेत्तजहण-
समयवद्वेहिं सह एइंदिएसुप्पणपढमसमए अधापवत्तसंक्रमेण पडिलद्वजहणभावत्तादो ।
एत्थ गुणगारो अधापवत्तभागहारमेत्तो ।

❖ सम्यग्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २८८. यह सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इसके कारणका कथन ओघके समान ही है ।

❖ उससे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २८९. क्योंकि वह अधःप्रवृत्तभागहारके वर्गसे भाजित डेढ़ गुणहानिमात्र जघन्य समय-
प्रवद्वप्रमाण है ।

शंका—वह भी कैसे ?

समाधान—क्योंकि विसयोजनापूर्वक संयोगके कारण शेष कषायोंमे से अधःप्रवृत्त सक्रम
प्राप्त हुए क्षपित कर्मा शिक द्रव्यके साथ यथाविधि अनि शीघ्र एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न हुए जीवके प्रथम
समयमे अधःप्रवृत्त संक्रमके द्वारा प्रकृत जघन्य स्वामित्वका अवलम्बन किया गया है ।

❖ उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । ;

❖ उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

❖ उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २९०. ये सूत्र सुगम हैं ।

❖ उससे अप्रत्याख्यान मानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है ।

§ २९१. क्योंकि क्षपितकर्मा शिक लक्षणसे आकर डेढ़ गुणहानिमात्र जघन्य समयप्रवद्वों
के साथ एकेन्द्रियोंमे उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा जघन्यपनेकी प्राप्ति होती
है । यद्वा पर गुणकार अधःप्रवृत्त भागहार प्रमाण है ।

- ❁ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ लोभे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ पच्चक्खाणमाणे जहणणपदेशसंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ मायाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- ❁ लोभे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।
- § २६२. एदाणि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्तकारणगव्भाणि सुगमाणि ।
- ❁ पुरिसवेदे जहणणपदेससंकमो अणंतगुणो ।
- § २६३. कुदो ? देसघादिकारणावेक्खित्तादो ।
- ❁ इत्थिवेदे जहणणपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।
- § २६४. कुदो ? बंधगद्धावसेण तावदिगुणत्तोवलंभादो ।
- ❁ हस्से जहणणपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।
- § २६५. एत्थ वि बंधगद्धावसेण संखेज्जगुणत्तसिद्धी दट्ठव्वा ।
- ❁ रदोए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

- * उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
- * उससे अप्रत्याख्यान मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
- * उससे अप्रत्याख्यान लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
- * उससे प्रत्याख्यान मानका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
- * उससे प्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
- * उससे प्रत्याख्यान मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
- * उससे प्रत्याख्यान लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।
- § २६२. इन सूत्रोंमें प्रकृति विशेषमात्र कारण गमित है, इसलिए ये सुगम है ।
- * उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है ।
- § २६३. क्योंकि इसका कारण देशघातिपना है ।
- * उससे स्त्रीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।
- § २६४. क्योंकि बन्धककालवश उतने गुणोंकी उपलब्धि होती है ।
- * उससे हास्यका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।
- § २६५. यहाँ पर भी बन्धक कालवश संख्यातगुणों की सिद्धि जान लेनी चाहिए ।
- * उससे रतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६६. पयडिविसेसवसेण विसेसाहियत्तमेत्थ दडुब्बं ।

❀ सोगे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६७. कुदो ? पुवित्रल्लबंधगद्धादो संखेज्जगुणबंधगद्धाए संचिददव्वाणुसारेण संक्रमपवृत्तिअव्भुवगमादो ।

❀ अरदोए जहणणपदेससंकमो संखेज्जगुणो ।

• २६८. पयडिविसेसमेत्तमेत्थ कारणं ।

❀ एवुंसयवेदे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६९. केत्तियमेत्तेण ? इत्थिपुरिसवेदबंधगद्धापारिसुद्धहस्सरदिवंधगद्धापडिवद्ध-संचयमेत्तेण ।

❀ दुगुंछाए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ ३००. केत्तियमेत्तेण ? इत्थिपुरिसवेदबंधगद्धासंचयमेत्तेण ।

❀ भए जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ ३०१. केत्तियमेत्तो विसेसो ? पयडिविसेसमेत्तो ।

❀ माणसंजलणे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ ३०२. केत्तियमेत्तो विसेसो ? चउव्भागमेत्तो ।

❀ कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ २६६. प्रकृति विशेष होनेके कारण यहाँ पर विशेष अधिकपना जान लेना चाहिए ।

* उससे शोकका जघन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है ।

§ २६७. क्योंकि पूर्व प्रकृतिके बन्धक कालसे संख्यातगुणे बन्धक कालमे सञ्चित हुए द्रव्यके अनुसार संक्रमकी प्रवृत्ति स्वीकार की गई है ।

* उससे अरतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६८. प्रकृति विशेषमात्र यहाँ पर कारण है ।

* उससे पुरुषवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ २६९. कितना अधिक है ? स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धककालसे न्यून हास्य रतिके बन्धक कालके भीतर जितना सञ्चय होता है उतना अधिक है ।

* उससे जुगुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३००. कितना अधिक है ? स्त्रीवेद-पुरुषवेदके बन्धककालमे हुआ सञ्चयमात्र अधिक है ।

* उससे भयका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३०१. विशेषका प्रमाण कितना है ? प्रकृतिविशेषमात्र विशेषका प्रमाण है ।

* उससे मान संज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३०२. विशेषका प्रमाण कितना है ? चतुर्थ भागमात्र विशेषका प्रमाण है ।

* उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ।

❀ मायाए जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

❀ लोहे जहणपदेससंकमो विसेसाहिओ ।

§ ३०३. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एवमेइंदिएसु जहणपपाबहुअं समत्तं । एदं चैव सव्वत्रियलिंदिएसु पंचिंतिरिक्खमणुस-अपज्जत्तएसु वि विहासियव्वं, विसेसा-भावादो । पंचिंदिएसु ओघभंगो । एवं जाव ।

एवं जहणपदेससंकमपपाबहुअं समत्तं ।

तदो चउओसमणिओगद्वाराणि समत्ताणि ।

❀ भुजगारस्स अट्टपदं ।

§ ३०४. एत्तो पदेससंकमस्स भुजगारो कायव्वो; पत्तावसरत्तादो । तत्थ य ताव्व अट्टपदं परूवइस्सामो त्ति जाणावणट्टमेदं सुत्तं ।

❀ एण्ह पदेसे बहुदरगे संकामेदि त्ति उसक्काविदे, अप्पदरसंकमादो एसो भुजगारसंकमो ।

§ ३०५. एदस्स सुत्तस्स पदसंबंधो एवं कायव्वो । तं जहा—उसक्काविदे अणंतर-विदिकंतसमए अप्पयरसंकमादो थोव्वयरपदेससंकमादो एण्हं वट्टमाणसमए बहुदरगे बहुवयरसंखावच्छिण्णे कम्मपदेसे संकामेदि त्ति एसो एवं लक्खणो भुजगारसंकमो दट्टव्वो

* उससे मायासंज्वलनका जघन्य देशसंक्रम विशेष अधिक है ।

* उससे लोभसंज्वलनका जघन्य देशसंक्रम विशेष अधिक है ।

§ ३०३. ये सूत्र सुगम हैं । इस प्रकार एकेन्द्रियोंमे जघन्य अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । इसे ही सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमे समझ लेना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । पञ्चेन्द्रियोंमे ओषके समान भङ्ग है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार जघन्य प्रदेश संक्रम अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

इससे चौबीस अनुयोगद्वार समाप्त हुए ।

भुजगार अनुयोगद्वार

* अब भुजगार के अर्थपदको कहते हैं ।

§ ३०४. इससे आगे प्रदेशसंक्रमका भुजगार करना चाहिए, क्योंकि उसका अवसर प्राप्त है । उसमे भी सर्व प्रथम अर्थ पदको बतलाते हैं । इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र आया है ।

* अनन्तर व्यतीत हुए समयमें हुए अल्पतर संक्रमसे वर्तमान समयमें बहुत प्रदेशोंका संक्रम करता है यह भुजगार संक्रम है ।

§ ३०५. इस सूत्रका पदसम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिए । यथा—‘ओसक्काविदे’ अर्थान् अनन्तर व्यतीत हुए समयमे ‘अप्पयरसंकमादो’ अर्थात् स्तोक्ततर प्रदेश संक्रमसे ‘एण्ह’ अर्थान् वर्तमान समयमे ‘बहुदरगे’ अर्थात् बहुत संख्यासे युक्त कर्मे प्रदेशोंको संक्रमित करता है इसलिए

ति । कुदो उण तारिसस्स संक्रमभेदस्स भुजगार-ववएसो ? णं, बहुदरीकरणं च भुजगारो
ति तस्स तव्ववएसोववत्तीदो ।

❀ एण्हं पदेसअप्पदरगे संकामेदि ओसक्काविदे बहुदरपदेससंक्र-
मादो । एस अप्पयरसंक्रमो ।

§ ३०६. अत्रापि पूर्ववत्पदघटना, ततोऽयं सूत्रार्थः—इदानीमल्पतरकान् प्रदेशान्
संक्रामयतीत्ययमल्पतरसंक्रमः । कुतोऽल्पतरत्वमिदानींतनस्य प्रदेशसंक्रमस्य विवक्षितमिति
चेदनन्तरातिक्रान्तसमयसम्बन्धिवहुतरप्रदेशसंक्रमविशेषादिति ।

❀ ओसक्काविदे एण्हं च तत्तिगे चेव पदेसे संकामेदि ति एस
अवद्धिदसंक्रमो ।

§ ३०७. अनन्तरव्यतिक्रान्तसमये साम्प्रतिके च समये तावत एव प्रदेशानननाधिकान्
संक्रामयतीत्यतोऽवस्थितसंक्रम इत्युक्तं भवति ।

❀ असंक्रमादो संकामेदि ति अवत्तव्वसंक्रमो ।

§ ३०८. पूर्वसंक्रमादिदानीमेव संक्रमपर्यायमभूतपूर्वमास्कन्दयतीत्यस्यां विवक्षाया-
मवक्तव्यसंक्रमस्यात्मलाभ इत्युक्तं भवति । अस्य चावक्तव्यव्यपदेशोऽवस्थात्रयप्रति-

‘एसो’ अर्थान् इस प्रकारके लक्षणवाला भुजगार संक्रम जानना चाहिए ।

शंका—इस प्रकारके संक्रमके भेदकी भुजगार संज्ञा क्यों है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि बहुतर करना भुजगार है, इसलिए इसकी भुजगार संज्ञा बन
जाती है ।

* अनन्तर व्यतीत हुए समयमें हुए बहुतर संक्रमसे वर्तमान समयमें अल्पतर
प्रदेशोंका संक्रम करता है यह अल्पतर संक्रम है ।

§ ३०६. यहाँ पर भी पहलेके समान पदघटना है, इसलिए सूत्रका अर्थ इस प्रकार होता है—
इस समय अल्पतर प्रदेशोंको संक्रामाता है, इसलिए यह अल्पतर संक्रम है । इस समयके प्रदेशोंका
अल्पतरपना किसकी अपेक्षासे विवक्षित है ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं कि अनन्तर व्यतीत हुए
नमय सम्बन्धी बहुतर प्रदेशसंक्रम विशेषकी अपेक्षासे यह विवक्षित है ।

* अनन्तर व्यतीत हुए समयमें और वर्तमान समयमें उतने ही प्रदेशोंको संक्रामाता
है यह अवस्थितसंक्रम है ।

§ ३०७. अनन्तर व्यतीत हुए समयमें और वर्तमान समयमें न्यूनाधिकतासे रहित उतने ही
प्रदेशोंको संक्रामाता है, इसलिए यह अवस्थित संक्रम है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* अयंक्रमसे प्रदेशोंको संक्रामाता है यह अवक्तव्य संक्रम है ।

§ ३०८. पहले असंक्रमरूप अवस्था थी उससे इस समय ही संक्रमरूप अभूतपूर्व पर्यायको
प्राप्त होता है इन प्रकार इस विवक्षाके होने पर अवक्तव्य संक्रमका आत्मलाभ होता है यह उक्त
कथनका तात्पर्य है । इसकी अवक्तव्य संज्ञा अवस्थात्रयके प्रतिपादक शब्दोंके द्वारा अनभिज्ञाप्य

पादकैरभिलापैरनभिलाप्यत्वादिति प्रतिपत्तव्यम् ।

❀ एदेण अट्टपदेण तत्थ समुक्कित्ताणा ।

§ ३०६. एदेणाणंतरं णिद्धिट्ठेणट्टपदेण भुजगारसंकमे परूवणिज्जे तेरसाणियोगद्वाराणि तत्थ णादव्वाणि भवन्ति समुक्कित्ताणा जाव अप्पावहुए त्ति । तत्थ ताव सामित्तादीणमणियोगद्वाराणं जोणीभूदा समुक्कित्ताणा अहिकीरदि त्ति जाणाविदमेदेण सुत्तेण । तत्थ विओघादेसभेदेण दुविहणिदेससंभवे ओघणिदेसं ताव कुणमाणो सुत्तपत्रंधमुत्तरं भणइ ।

❀ मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिद-अवत्तव्व-संक्रामया अत्थि ।

§ ३१०. मिच्छत्तस्स पदेसग्गभेदेहि चउहि मि पयारेहि संक्रामेता जीवा अत्थि त्ति समुक्कित्तिदं होदि । तत्थेदेसिं पदाणं संभवविसयो इत्थमणुगंतव्वो । तं जहा—अट्टावीस-संतकम्मियमिच्छाइट्ठिणा वेदगसम्मत्ते पडिवण्णे पढमसमये मिच्छत्तस्स विज्झादेणावत्तव्व-संकमो होइ । पुणो विद्यादिसमएसु भुजगारसंकमो अवट्ठिदसंकमो अप्पयरसंकमो वा होइ जाव आवलियसम्माइट्ठि त्ति । ततो उवरि सव्वत्थ वेदयसम्माइट्ठिमि अप्पयरसंकमो जाव दंसणमोहक्खवणाए अपुव्वकरणं पविट्ठस्स गुणस्संकमपारंभो त्ति गुणसंकमविसए सव्वत्थेव भुजगारसंकमो दट्ठव्वो । उव्वसमसम्मत्तं पडिवण्णस्स वि पढमसमए अवत्तव्व-संकमो विद्यादिसमएसु भुजगारसंकमो जाव गुणसंकमचरिमसमयो त्ति । तदो विज्झाद-संकमविसए सव्वत्थ अप्पयरसंकमो त्ति वेत्तव्वं ।

होनेसे है ऐसा यहाँ जान लेना चाहिए ।

* इस अर्थपदके अनुसार प्रकृतमें समुत्कीर्तना कहते हैं ।

§ ३०६. 'एदेण' अर्थात् अनन्तर निर्दिष्ट किये गये अर्थपदके अनुसार भुजगार संक्रमकी प्ररूपणा करने पर उसके विषयमे समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुत्व तक ये तेरह अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं उनमेसे सर्व प्रथम स्वामित्व आदि अनुयोगद्वारोंका योनिभूत समुत्कीर्तना अधिकृत है—यह इस सूत्र द्वारा जताया गया है । उसमे भी ओघ और आदेशसे दो-प्रकारका निर्देश सम्भव होने पर सर्व प्रथम ओघ निर्देशको करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको कहते हैं ।

* मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक जीव हैं ।

§ ३१०. मिथ्यात्वके प्रदेशोंके इन चार प्रकारोंसे संक्रमण करनेवाले जीव हैं इस प्रकार इस सूत्र-द्वारा यह समुत्कीर्तना की गई है । उसमेसे इन पदोंका सम्भव विषय यहाँ पर समझ लेना चाहिए । यथा—अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्तावाले मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा वेदकसम्यक्त्वके प्राप्त होने पर प्रथम समयमे मिथ्यात्वका विध्यात संक्रमके द्वारा अवक्तव्य संक्रम होता है । पुन-द्वितीयादि समयोंमे भुजगार संक्रम, अवस्थित संक्रम या अल्पतर संक्रम होता है । जो सम्यग्दृष्टिके एक आवलिप्रमाण काल जाने तक होता है । उसके आगे सर्वत्र वेदकसम्यग्दृष्टिके दर्शनमोहनीयकी क्षणामे अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके गुण संक्रमके प्रारम्भ होने तक अल्पतर संक्रम होता है । गुणसंक्रमकी अवस्थामे सर्वत्र ही भुजगारसंक्रम जानना चाहिए । उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त हुए जीवके भी प्रथम समयमे अवक्तव्यसंक्रम होता है और द्वितीयादि समयोंमे गुणसंक्रमके अन्तिम समय तक भुजगार संक्रम होता है । इसके बाद विध्यातसंक्रमके होने पर सर्वत्र अल्पतरसंक्रम ग्रहण करना चाहिए ।

❀ एवं सोलसकसाय-पुरिसवेद-भय दुगुंछाणं ।

§ ३११. एदेसिं च कम्माणं मिच्छत्तस्सेव भुजगार-अप्पयर-अवट्टिद-अवत्तव्वसंक्रामयाण-मत्थित्तं समुत्तिकित्थिवामेदि भण्णिदं होइ । जत्थागमादो णिज्जरा थोवा, तत्थ भुजगारसंक्रमो, जत्थागमादो णिज्जरा बहुगी एयंतणिज्जरा चैव वा, तत्थ अप्पयरसंक्रमो । जम्हि विसए दोण्हं पि सरिसभावो, तम्हि अवट्टिदसंक्रमो । असंक्रमादो संक्रमो जत्थ, तत्थावत्तव्वसंक्रमो त्ति पुव्वं व सव्वमेत्थाणुगंतव्वं । णरि अवत्तव्वसंक्रमो वारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं संव्वोवसामणापडिवादे अणंताणुवंधीणं च विसंजोयणा [ण] अपुव्वसंजोगे दट्टव्वो ।

❀ एवं चैव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-इत्थिवेद-एवुंसयवेद-हंसस-रइ-अरइ-सोगाणं । एवरि अवट्टिदसंक्रामगा एत्थि ।

§ ३१२. संपहि भुजगार-अपदरावत्तव्वसंक्रामयसंभवो एदेसु सुगमो त्ति कट्टु अवट्टिद-संक्रामसंभवे किं चि कारणपरूवणं कस्सामो । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ताव पावट्टिद-संक्रमसंभवो; वंधसंवंधेण विणा तेसिमागमणिज्जराणं सरिसीकारणो वायाभावादो । इत्थि-वेदादीणं पि सांतरवंधीणं सगबंधकाले भुजगारसंक्रमो चैव; णिज्जरादो तत्थागमस्स बहुत्तोवलंभादो । अवंधकाले वि अप्पयरसंक्रमो चैव; पडिसमयं तेसिं पदेसग्गस्स तत्थ

* इसी प्रकार सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके विषयमें जानना चाहिए ।

§ ३११. इन कर्मोंके मिथ्यात्वके समान भुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामकोंके अस्तित्वका समुत्कीर्तन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । जहाँपर आगमके अनुसार निर्जरा स्तोक है वहाँ पर भुजगारसंक्रम होता है, जहाँ पर आगमके अनुसार निर्जरा बहुत है—एकान्तसे निर्जरा ही है वहाँपर अल्पतरसंक्रम होता है, जहाँपर दोनोंकी ही समानता है वहाँपर अर्वास्थितसंक्रम होता है और जहाँपर असंक्रम अवस्थाके बाद संक्रम है वहाँपर अवक्तव्यसंक्रम होता है । इस प्रकार पहलेके समान सब यहाँ पर जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका अवक्तव्यसंक्रम सर्वोपशामनासे गिरने पर और अनन्तानुबन्धियोंका अवक्तव्यसंक्रम विसयोजनापूर्वक संयोगके होने पर जानना चाहिए ।

* इसी प्रकार सम्यक्त्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकके विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है इनके अवस्थित संक्रामके जीव नहीं हैं ।

§ ३१२. अब इन प्रकृतियोंके विषयमें भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकोंकी जानकारी सुगम है इसलिए अवस्थित संक्रमकी असम्भावनामे जो कुछ कारण है उसका कथन करते हैं—सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका तो अवस्थितसंक्रम इसलिए सम्भव नहीं है, क्योंकि बन्धके सम्बन्धके बिना उनके आगमन और निर्जराको एक समान करनेका कोई उपाय नहीं है । स्त्रीवेद आदि भी सांतर बन्ध प्रकृतियोंका अपने बन्धकालमें भुजगारसंक्रम ही होता है, क्योंकि वहाँ पर निर्जराकी अपेक्षा प्रदेशोंका आगमन बहुत देखा जाता है । अबन्धकालमें भी अल्पतरसंक्रम ही होता है, क्योंकि प्रति समय वहाँ पर उनके प्रदेशोंकी निर्जराको छोड़कर सञ्चय नहीं पाया जाता ।

गलणं मोत्तण संचयाणुवलद्धीदो । तदो ण तेसिमवड्ढिसंकमसंभवो त्ति । किं कारणमेदे-
सिं बंधकाले आगमणिज्जराणं सरिसत्ताभावो चे वुच्चदे—इत्थिवेद-हस्स-रदीणमेयसमय-
णिज्जरा समयपवद्धस्स संखेज्जदिभागमेत्ती होइ । णवुंसयवेदारइसोगाणं पि संखेज्जभागूण-
समयपवद्धमेत्ता होइ; बंधगद्धापडिभागेण संचयगोवुच्छाणमवट्ठाणब्भुवगमादो । आगमो
पुण सव्वेसिमेयसमयपवद्धो संपुण्णो लब्भदे; तक्कालियणप्रकबंधस्स णिप्पडिवक्खमेदेसिं
बंधकाले समागमणदंसणादो । एदेण कारणेण परावत्तणपयडीणमवट्ढिसंकमो णत्थि त्ति
सिद्धं पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालं णिरंतरबंधेण विणा आगमणिज्जराणं सरिस-
भावाणुप्पत्तीदो ।

एवमोघसमुक्त्तिणा गदा ।

§ ३१३. आदेशेण गोरइयं० मिच्छ०-अणंताणु०४चउक०-सम्मत्त-सम्मा(मिच्छ-
त्ताणमोघं । वारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ० अत्थि भुज० अप्प० अवट्ठि० । इत्थि०
णउंस० हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि भुज० अप्प० । एवं सव्वगोरइयतिरिक्ख४ देवा
भयणादि जाव णग्गेवज्जा त्ति पंचिंदियतिरिक्खमणुसअपज्ज० सम्म०-सम्मामि०
तिणिवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि भुज० अप्प० । [मिच्छ०]सोलसक० भयदुगुंछ० अत्थि
भुज०अप्प० अवट्ठि० । मणुसतिए ओघं । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थि-

इसलिए इनका भी अवस्थितसंक्रम सम्भव नहीं है ।

शंका—इनका बन्धकालमे आगमन और निर्जरा समान नहीं होते इसका क्या कारण है ?

समाधान—स्त्रीवेद हास्य और रतिकी एक समयमे होनेवाली निर्जरा समयप्रवद्धके संख्यातर्वे भागप्रमाण होती है । नपुंसकवेद, अरति और शोककी भी संख्यातर्वों भाग कम समय-प्रवद्धप्रमाण निर्जरा होती है, क्योंकि बन्धकालको प्रतिभाग करके सब्चय गोपुच्छाओंका अवस्थान उपलब्ध होता है । परन्तु उक्त सभी कर्मोंकी आय सम्पूर्ण एक समयप्रवद्धप्रमाण उपलब्ध होती है, क्योंकि इन कर्मोंके बन्धकालके भीतर तत्काल होनेवाले नवकबन्धका प्रतिपन्नके बिना आगमन देखा जाता है । इस कारणसे बदल-बदल कर बंधनेवाली प्रकृतियोंका अवस्थितसंक्रम नहीं होता यह सिद्ध हुआ, क्योंकि पल्यके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण काल तक निरन्तर बन्धके बिना आगमन और निर्जराकी समानता नहीं बन सकती ।

इस प्रकार ओघसमुक्तीर्तना समाप्त हुई ।

§ ३१३. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, सम्यक्त्व और सम्यग्मि-
थ्यात्वका भङ्ग ओघके समान है । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर
और अवस्थित संक्रामक जीव हैं । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार
और अल्पतरसक्रामक जीव हैं । इसी प्रकार सब नारकी, तिर्यञ्चचतुष्क, सामान्य देव और भवन-
वासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमे जानना चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और
मनुष्य अपर्याप्तकोंमे सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, तीन वेद, हास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार
और अल्पतरसंक्रामक जीव हैं । मिथ्यात्व, सालह कपाय, भय और जुगुप्साके भुजगार अल्पतर

णवुंस० अत्थि अप्प० । अणंताणु०४-चदुणो० अत्थि भुज० अप्प० । वारंसक०-
पुरिसवेद-भय-दुगुंछां० अत्थि भुज० अप्प० अयट्ठि० । एवं जाव० ।

❀ सामित्तं ।

§ ३१४. एवं समुत्क्रित्तिदाणं भुजगारादिपदाणमिदाणि सामित्तमहिक्कीरदि त्ति अहि-
यारसंभालणमेदेण कयं होइ । तस्स दुविहो णिदेसो ओघादेसभेएण । तत्थोघेण पयडि
परिवाडीए भुजगारादिपदाणं । मित्त विहाणं कुणमाणो पुच्छावक्कमाह ।

❀ मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामत्रो को होइ ?

§ ३१५. सुगमं ।

❀ पढमसम्मत्तमुप्पादयमाणो पढमसमए अवत्तव्वसंक्रामगो ।
सेसेसु समएसु जाव गुणसंक्रमो ताव भुजगारसंक्रामगो ।

§ ३१६. पढमसम्मत्तमुप्पादेमाणो तदुत्पत्तिपढसमए मिच्छत्तस्साक्कव्वसंक्रमं
कुणइ । पुव्वमसंक्रंतस्स तस्स ताघे चेय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसरुवेण संक्रंतिदंसणादो ।
सेसेसु पुण विदियादिसमएसु भुजगारसंक्रामगो होदि जाव गुणसंक्रमचरिमसमओ
त्ति । कुदो ? पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेठीए गुणसंक्रमेण मिच्छत्तपदेसग्गस्स तत्थ संक्रंति-

और अवस्थित संक्रामक जीव हैं । मनुष्यत्रिकमे ओघके समान भङ्ग हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थ-
सिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतरसंक्रम जीव हैं ।
अनन्तानुबन्धीचतुष्क और चार नोकषायोंके भुजगार और अल्पतरसंक्रामक जीव हैं । वारह कपाय,
पुरुषवेद, भय और जुगुप्ताके भुजगार, अल्पतर और अवस्थितसंक्रामक जीव हैं । इसी प्रकार
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

❀ अब स्वामित्वका अधिकार है ।

§ ३१४. इस प्रकार जिनकी समुत्कीर्तना की है ऐसे स्वामित्व आदि पदों का इस समय
स्वामित्व अधिकृत है इस प्रकार इस सूत्र द्वारा अधिकारकी संहाल की गई है । उसका निर्देश दो
प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेक्षा प्रकृतियोंके क्रमानुसार भुजगार आदि
पदोंके स्वामित्वको विधान करते हुए पुच्छावाक्यको कहते हैं—

❀ मिथ्यात्वका भुजगार संक्रामक कौन है ?

§ ३१५. यह सूत्र सुगम है ।

❀ प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाला जीव प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रामक है ।
शेष समयोंमें गुणसंक्रमके होने तक भुजगार संक्रामक है ।

§ ३१६. प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाला जीव उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें
मिथ्यात्वका अवक्तव्यसंक्रम करता है, क्योंकि पहले संक्रमित नहीं होनेवाले उसका उस समय
ही सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे संक्रमण देखा जाता है । परन्तु द्वितीयादि शेष समयोंमें
गुणसंक्रमके अन्तिम समय तक भुजगार संक्रामक होता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें असंख्यात
गुणित श्रेणिरूपसे गुणसंक्रमके द्वारा मिथ्यात्वके प्रदेशोंका सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमें संक्रमण

दंसणादो । एवं पढमसम्मत्तप्पत्तीए विदियादिसमएसु अंतोमुहुत्तमेत्तगुणसंकमकालपडि-
बद्धं भुजगारसंकमसामित्तं परुविय-पयारंतरेण वि तस्स संभवपदुप्पायणद्वमुवरिमसुत्तं मणइ ।

❀ जो वि दंसणमोहणीयखवगो, अपुव्वकरणस्स पढमसमयमादिं-
कादूण जाव मिच्छत्तं सव्वसंकमेण-संखुहदि त्ति ताव-मिच्छत्तस्स भुजगार-
संकामगो ।

§ ३१७. जो वि दंसणमोहणीयखवगो सो वि मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो
होदित्ति एत्थ पदाहिसंबंधी । तत्थ वि अधापवत्तकरणपढमसमयप्पहुडि भुजगारसंकम-
सामित्ताइप्पसंगे तण्णिवारणद्वमिदं वुत्तमपुव्वकरणपढमसमयमादिं कादूण इच्चादि ।
अपुव्वकरणद्वाए सव्वत्थ अणियट्टिकरणद्वाए च जाव मिच्छत्तस्स सव्वसंकमसमयो,
ताव अंतोमुहुत्तमेत्तकालं गुणसंकमेण भुजगारसंकामगो होइ, त्ति भणिदं होइ ।
एवमेसो विदियो सामित्तपयारो णिदिहो । संपहि तदियो वि पयारो मिच्छत्तभुजगार-
पदेससंकामयस्स संभवइ त्ति पदुप्पाएमाणो सुत्तपबंधमुत्तरमाह—

❀ जो वि पुव्वुप्पणणेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो सम्मत्तमागदो तस्स
पढमसमयसम्माइडिस्स जं बंधादो आवलियादीदं मिच्छत्तस्स पदेसग्गं तं
विज्झादसकमेण संकामेदि । आवलियचरिमसमयमिच्छाइडिमादिं कादूण

देखा ज ता है । इस प्रकार प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होने पर द्वितीयादि समयोंमें अन्तर्मुहूर्त
प्रमाण गुणसंक्रमकालसे सम्बन्ध रखनेवाले भुजगारसंक्रम सम्बन्धी स्वामित्वा कथन करके
प्रकारान्तरसे भी वह सम्भव है इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ और जो भी दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव है वह अपूर्वकरणके प्रथम समयसे
लेकर जिस स्थान पर सर्वसंक्रमके द्वारा मिथ्यात्वका संक्रमण करता है उस स्थान तक
मिथ्यात्वका भुजगार संक्रामक है ।

§ ३१७. जो भी दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव है वह भी मिथ्यात्वका भुजगारसंक्रामक होता
है इस प्रकार यहाँ पर पदसम्बन्ध करना चाहिए । उसमें भी अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे
लेकर भुजगार संक्रमके स्वामित्वा अतिप्रसङ्ग प्राप्त होने पर उसका निवारण करनेके लिए
'अपूर्वकरण के प्रथम समयसे लेकर' इत्यादि वचन कहा है । अपूर्वकरणके कालमें सर्वत्र और
अनिवृत्तिकरणके कालमें जब जाकर मिथ्यात्वका सर्व संक्रम होता है वहाँ तक अन्तर्मुहूर्त काल
तक गुणसंक्रमके द्वारा भुजगार संक्रामक होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस प्रकार यह
दूसरा स्वामित्वा प्रकार निर्दिष्ट किया है । अब मिथ्यात्वके भुजगार प्रदेश संक्रामकाका तीसरा
प्रकार भी सम्भव है इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धकी कहते हैं—

❀ तथा जो भी पूर्वोत्पन्न (वेदक) सम्यक्त्वके साथ मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वमें आया
है उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके बन्धकी अपेक्षा जो एक आवलि पूर्वके अर्थात्
द्विचरमावलि मिथ्यात्वके प्रदेश है उन्हें विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रामता है । आवलिके

जाव चरिमसमयमिच्छाइडि ति । एत्थ जे समयपवद्धा ते समयपवद्धे पढमसमयसम्माइडि ति ए संकामेइ । सेकालप्पहुडि जस्स जस्स बंधावलिया पुण्णा तदो तदो सो संकामिज्जदि । एवं पुव्वुप्पाइदेण सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवज्जइ तं दुसमयसम्माइडिमादिं कादूण जाव आवलियसम्माइडि ति ताव मिच्छत्तस्स भुजगारसंकमो होज्ज ।

§ ३१८. एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुच्चदे । तं जहा—जो जीवो पुव्वुप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो सम्मत्तं गंतूण पुणो अविणह्वेदगपाओग्गकालव्भंतरे चैव सम्मत्तमुवगओ तस्स पढमसमयसम्माइडिस्स मिच्छत्तं^१ चिराणसंतकम्मं सव्वमेव संक्रमपाओग्गं होइ । तं पुण सो विज्झादसंकमेणावत्तव्वभावेण संकामेदि ति ण तत्थ भुजगारसंकमसंभवो । किंतु मिच्छाइडिचरिमावलियणवकबंधसमयपवद्धे अस्सिरुण तस्स विदियादिसमएसु भुजगारसंकमो संभवइ । तं कधमावलियचरिमसमयमिच्छाइडिप्पहुडि जाव चरिमसमयमिच्छाइडि ति । एत्थंतरे जे वद्धा समयपवद्धा ते पढमसमयसम्माइडी ण संकामेइ । कुदो ? तत्थ तेसिं बंधावलियाए असमत्तीदो । णरि आवलियचरिमसमयमिच्छाइडिणा वद्धसमयपवद्धो तत्थ संक्रमपाओग्गो होदि; मिच्छाइडिचरिमसमए पूरिदबंधावलियत्तादो । जइ एवं, तमादि

चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिसे लेकर अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि तक इस अन्तकालमें जो समयप्रवद्ध हैं उन समयप्रवद्धोंको प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव नहीं संक्रमाता है । तदनन्तर कालसे लेकर जिस जिसकी बन्धावलि पूर्ण होती जाती है वहाँ से लेकर उस उस समयप्रवद्धको वह संक्रमाता है । इस प्रकार पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्त्वके साथ जो सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उस सम्यग्दृष्टिके दूसरे समयसे लेकर सम्यग्दृष्टि होनेके एक आवलि काल तक वह मिथ्यात्वका भुजगार संक्रामक है ।

§ ३१९= अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—जो जीव पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्त्वके साथ मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको प्राप्त करके पुनः नहीं नष्ट हुए वेदककालके भीतर ही सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके मिथ्यात्वका प्राचीन सत्कर्म सभी संक्रमणके योग्य हैं । परन्तु उसे वह विध्यातसंक्रमके द्वारा अवक्तव्य रूपसे संक्रमाता है, इसलिए वहाँ पर भुजगारसंक्रम सम्भव नहीं है । किन्तु मिथ्यादृष्टिकी अन्तिम आवलिके नवकबन्ध समयप्रवद्धोंका आलम्बन लेकर उसके द्वितीयादि समयोंमें भुजगार संक्रम सम्भव है ।

शंका—सो कैसे ?

समाधान—उक्त आवलिके चरम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिसे लेकर अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके होने तक इस अन्तरालमें जो समयप्रवद्धबन्धको प्राप्त हुए हैं उन्हें प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीव नहीं संक्रमाता है, क्योंकि वहाँ पर उनकी बन्धावलि समाप्त नहीं हुई है । इतनी विशेषता है कि उक्त आवलिके अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके द्वारा बन्धको प्राप्त हुआ समयप्रवद्ध

कादूणे त्ति गोदं वयणं घडदे; समयूणावलियचरिमसमयमिच्छाइडिमादिं कादूणे त्ति वत्तव्वं ? सच्चमेदं; आवलियचरिमसमयमिच्छाइडिमुवलक्खणं कादूण सेससमय-मिच्छाइडिणं गहणणिमित्तं सुत्ते तस्स णिदेसो कदो । पर्वतादीनि क्षेत्राणीत्यादिवत् । तदो सम्माइडिपढमसमए असंकमपाओग्गाणं समयूणावलियमेत्त समयपवद्धाणं मज्जे सम्मा-इडि विदियसमयप्पहुडि जहाकमं बंधावलियवदिक्कंतवसेण जस्स जस्स संकमपाओग्गभावो होइ; सो सो समयपवद्धो संकामिज्जदि । एवं संकामिज्जमाणेषु तेषु तं विदियसमयसम्मा-इडिमादिं कादूण जाव आवलिय सम्माइडि त्ति ताव एत्थ भुजगारसंकमसंभवो होज्ज । किं कारणं ? एत्थतणणिज्जरादो संकमपाओग्गभावेण दुक्कमाणसमयपवद्धस्स बहुत्ते संते भुजगारसंकमसंभवस्स तत्थ परिष्कुडमुलंभादो । तदो एदम्मि विसए मिच्छत्तस्स भुजगार-संकमसामित्तं होइ त्ति सिद्धं । संपहि एत्थ भुजगारसंकमो चेवेत्ति अवहारणपडिसेहद्ध-मिदमाह—

❀ एह्हु सव्वत्थ आवलियाए भुजगारसंकमो जहएणेण एयसमओ ।
उक्कसेणावलिया समयूणा ।

वहाँ पर संक्रमके योग्य होता है, क्योंकि उसकी मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमे बन्धावलि पूर्ण हो गई है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उससे 'लेकर' यह वचन नहीं बनता । किन्तु इसके स्थानमे 'एक समय कम आवलिके अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिसे लेकर' ऐसा कहना चाहिए ?

समाधान—यह सत्य है । किन्तु आवलिके अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिको उपलक्षण करके शेष समयवर्ती मिथ्यादृष्टियोंका ग्रहण करनेके लिए सूत्रमे उक्त वचनका निर्देश किया है । जिस प्रकार लोकमें पर्वतसे लगे हुए क्षेत्रका ज्ञान करानेके लिए 'पर्वतादि क्षेत्र' वचनका व्यवहार होता है उसी प्रकार प्रकृतमे जान लेना चाहिए ।

इसलिए सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमे असंकमके योग्य एक समय कम आवलिमात्र समय-प्रबद्धोंमेसे सम्यग्दृष्टिके दूसरे समयसे लेकर क्रमसे बन्धावलिके व्यतीत होनेके कारण जो जो समय-प्रबद्ध संक्रमणके योग्य होता है वह वह समयप्रबद्ध संक्रमाया जाता है । इस प्रकार उन समय-प्रबद्धोंको संक्रामित करते हुए द्वितीय समयवर्ती सम्यग्दृष्टिसे लेकर सम्यग्दृष्टिके एक आवलिकाल होने तक यहाँ पर भुजगारसंकम सम्भव है, क्योंकि यहाँ पर होनेवाली निर्जरासे संक्रमके योग्यरूपसे प्राप्त होनेवाले समयप्रबद्धके बहुत होने पर वहाँ पर भुजगारसंकमकी सम्भावना स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है इसलिए इस स्थल पर जीव मिथ्यात्वके भुजगार संक्रमका स्वामी होता है यह सिद्ध हुआ । अब यहाँ पर भुजगारसंकम है ही इस निश्चयका निषेध करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ मात्र सर्वत्र आवलिकालके भीतर भुजगारसंकम न होकर उसका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलि है ।

§ ३१६. पुव्वुत्तावलियमेत्तकालम्भंतरे सव्वत्थ भुजगारसंकमो चेवेत्ति णावहारणमिद्द कायव्वं; किंतु आगमणिज्जरावसेण जहण्णोणेयसमयमुक्कस्सेण समयूणावलियमेत्तकालं, एदम्मि विसए भुजगारसंकमो संभवदि त्ति वुत्तं होइ ।

❀ एवं तिसु कालेसु मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो ।

§ ३२०. एवमेदेसु चेवाणंतरणिदिट्ठेसु तिसु उद्देसेसु मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो होइ, णाण्णत्थे त्ति भणिदं होइ । संपहि एदेसिं चैव तिण्हं भुजगारसंकमविसयाणमुवसंहार-मुहेण फुडीकरणट्टमुत्तरपवंधमाह—

❀ तं जहा ।

§ ३२१. सुगमं ।

❀ उवसामग-दुसमयसम्माइट्ठिमादिं कादूण जाव गुणसंकमो त्ति ताव णिरंतरं भुजगारसंकमो । खवगस्स वा जाव गुणसंकमेण खविज्जदि मिच्छत्तं ताव णिरंतरं भुजगारसंकमो । पुव्वुप्पादिदेण वा सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवज्जदि नं दुसमयसम्माइट्ठिमादिं कादूण जाव आवलिय-सम्माइट्ठि त्ति एत्थ जत्थ वा तत्थ वा जहण्णेण एयसमयं, उक्कस्सेण आव-

§ ३१६. पूर्वोक्त आवलिमात्र कालके भीतर सर्वत्र भुजगारसंक्रम होता ही है ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए किन्तु होनेवाली आय और निर्जराके कारण जघन्यसे एक समय तक और उत्कृष्टसे एक समय कम एक आवलि तक इस कालके भीतर भुजगारसंक्रम सम्भव है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* इस प्रकार तीन कालोंमें जीव मिथ्यात्वका भुजगार संक्रामक है ।

§ ३२०. इस प्रकार पहले वतलाये गये इन्हीं तीन स्थानोंमें जीव मिथ्यात्वका भुजगार संक्रामक है, अन्यत्र नहीं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इन्हीं तीन भुजगारसंक्रम विषयोंका उपसंहार द्वारा स्पष्ट करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* यथा—

§ ३२१. यह सूत्र सुगम है ।

* उपशामक सम्यग्दृष्टिके द्वितीय समयसे लेकर गुणसंक्रमके अन्तिम समय तक निरन्तर भुजगार संक्रम होता है । अथवा चपक्रके जब तक गुणसंक्रमके द्वारा मिथ्यात्वकी चपणा होती है तब तक निरन्तर भुजगारसंक्रम होता है । अथवा पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्त्वके साथ जो सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उस सम्यग्दृष्टिके दूसरे समयसे लेकर सम्यग्दृष्टिके एक आवलिकाल होने तक इस कालके भीतर जहाँ-कहीं जघन्यसे एक समय

लिया समयूणा भुजगारसंकमो होज्ज । एवमेदेसु तिसु कालेसु मिच्छत्तस्स
भुजगारसंकमो ।

§ ३२२. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एदेसि पुणरुत्तभावो ण आसंक्रणिज्जो;
पुव्वुत्तत्थो व संहारमुहेण पयट्ठाणं तथाभावविरोहादो । एवमेत्तिण पवंधेण मिच्छत्त-
भुजगारसंकमसामित्तं परूविय संपहि सेसपदाणं सामित्तविहाणमुत्तरपवंधमाह—

❀ सेसेसु समएसु जइ संकामगो अप्पयरसंकामगो वा अवत्तव्व-
संकामगो वा ।

§ ३२३. पुव्वुत्तोवसामगखवगगुणसंकमकालं पुव्वुप्पणसम्मत्तमिच्छाइट्ठि पच्छा-
यदवेदयसम्माइट्ठि पढमावलिय विदियादि समए च मोत्तण सेसेसु समएसु जइ मिच्छत्तस्स
संकामगो तो जहासंभवं सो अप्पयरसंकामगो अवत्तव्वसंकामगो वा होदि ति घेतव्वो;
पयारंतरा संभवादो ।

❀ उवड्ठिदसंकामगो मिच्छत्तस्स को होइ ?

§ ३२४. सुगमं ।

❀ पुव्वुप्पादिदेण सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवज्जदि जाव आवलिय-
सम्माइट्ठि ति एत्थ होज्ज अवड्ठिदसंकामगो अणणम्मि एत्थि ।

तक और उत्कृष्टसे एक समय कम एक आवलितक भुजगारसंकम हो सकता है । इस
प्रकार इन कालोंके भीतर मिथ्यात्वका भुजगारसंकम होता है ।

§ ३२२. ये सूत्र सुगम हैं । ये सूत्र पुनरुक्त हैं ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि
पूर्वोक्त अर्थके उपसंहार द्वारा ये सूत्र प्रवृत्त हुए हैं, इसलिए पुनरुक्त दोष होनेमें विरोध आता है ।
इस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा मिथ्यात्वके भुजगारसंकमके स्वामित्वका कथन करके अब शेष पदोंके
स्वामित्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहते हैं—

* शेष समयोंमें यदि संक्रामक है तो या तो अल्पतरसंकामक होता है या
अवक्तव्य संक्रामक होता है ।

§ ३२३. पूर्वोक्त उपशामक और क्षपकके गुणसंकमके कालको छोड़कर तथा पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्व
पूर्वक मिथ्यादृष्टि होकर जो पुनः वेदकसम्यग्दृष्टि हुआ है उसकी प्रथमावलिके द्वितीयादि समयोंको
छोड़कर शेष समयोंमें यदि मिथ्यात्वका संक्रामक होता है तो यथासम्भव वह अल्पतरसंकामक या
अवक्तव्यसंकामक होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई प्रकार नहीं है ।

* मिथ्यात्वका अवस्थित संक्रामक कौन है ?

§ ३२४. यह सूत्र सुगम है ।

* पूर्व उत्पादित सम्यक्त्वके साथ जो सम्यक्त्वको प्राप्त होता है वह सम्यग्दृष्टि
होनेके एक आवलिकाल तक इस अवस्थामें अवस्थितसंकामक हो सकता है । अन्यत्र
अवस्थितसंकामक नहीं होता ।

§ ३२५. एदम्मि चेव पुव्वुप्पाइदसम्मत्तमिच्छाइद्विपच्छायदवेदगसम्माइद्विपठमा-
वलियविसयमिच्छाइद्विचरिमावलियणवक्रंधसंवंधेणागमणिज्जराणं सरिसत्तावलंगणेणा-
वट्टिदसंकमसंभवो णाण्णत्थे त्ति सुत्तत्थ समुच्चयो ।

❖ सम्मत्तस्स भुजगारसंकामगो को होदि ?

§ ३२६. सुगमं ।

❖ सम्मत्तमुव्वेल्लमाण्यस्स अपच्छिमे ट्टिदिखंडए सव्वम्हि चेव
भुजगारसंकामगो ।

§ ३२७. कुदो ? तत्थगुणसंक्रमणियमदंसणादो ।

❖ तव्वदिरित्तो जो संकामगो सो अप्पयरसंकामगो वा अवत्तव्व-
संकामगो वा ।

§ ३२८. किं कारणं ? उव्वेल्लणचरिमट्टिदिखंडयादो अण्णत्थ जहासंभवमप्पदरा-
वत्तव्वसंकमाणं चेव संभवदंसणादो ।

❖ सम्मामिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगो को होइ ?

§ ३२९. सुगमं ।

❖ उव्वेल्लमाण्यस्स अपच्छिमे ट्टिदिखंडए सव्वम्हि चेव ।

§ ३२५. जिसने पहले सम्यक्त्वको उत्पन्न किया वह मिथ्यादृष्टि होकर जब पुन. वेदकसम्य-
दृष्टि होता है तब उसके प्रथम आवलियमें मिथ्यादृष्टिकी अन्तिम आवलिके नवकवन्धके सम्बन्धसे
आय और निर्जराकी सदृशाताका अवलम्बन लेनेसे अवस्थित संक्रमकी सम्भावना जाननी चाहिए
अन्यत्र नहीं यह सूत्रका समुच्चय अर्थ है ।

❖ सम्यक्त्वका भुजगारसंक्रामक कौन है ?

§ ३२६. यह सूत्र सुगम है ।

❖ सम्यक्त्वकी उद्वेलना करते हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकमें सर्वत्र ही जीव भुज-
गार संक्रामक है ।

§ ३२७. क्योंकि वहाँ पर नियमसे गुणसंक्रम देखा जाता है ।

❖ इसके सिवा जो संक्रामक है वह या तो अन्यतरसंक्रामक है या अवक्तव्य-
संक्रामक है ।

§ ३२८. क्योंकि उद्वेलनाके अन्तिम स्थितिकाण्डकके सिवा अन्यत्र यथासम्भव अन्यतर
संक्रम और अवक्तव्य संक्रमकी ही सम्भावना देखी जाती है ।

❖ सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगारसंक्रामक कौन है ?

§ ३२९. यह सूत्र सुगम है ।

❖ उद्वेलना करते हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकमें सर्वत्र ही सम्यग्मिथ्यात्वका
भुजगारसंक्रामक है ।

§ ३३०. कुदो ? तत्थ गुणसंकमणियमदंसणादो ।

✽ खवगस्स वा जाव गुणसंकमेण संखुहदि सम्मामिच्छत्तां ताव भुजगारसंकामगो ।

§ ३३१. कुदो ? दंसणमोहकखवयापुच्चकरणपढमसमयप्पहुडि जाव खवसंकमो त्ति ताव सम्मामिच्छत्तस्स गुणसंकमसंभवसेण तत्थ भुजगारसिद्धीए विसंवादाभावादो ।

✽ पढमसंमत्तमुप्पादयमाणयस्स वा तदियसमयप्पहुडि जाव विज्झादसंकमपढमसमयादो त्ति ।

§ ३३२. णिस्संतकम्मिय मिच्छाइट्ठिणा पढमसंमत्ते उप्पादिदे पढमसमयम्मि सम्मामिच्छत्तस्स संतं होदूण विदियसमए अवत्तव्वसंकमो होइ । पुणो तदियादिसमएसु गुणसंकमवसेण भुजगारसंकमो होदूण गच्छदि जाव विज्झादसंकमपारंभपढमसमयो त्ति । एदं णिस्संतकम्मिय मिच्छाइट्ठि पडुच्च वुत्तं । संतकम्मिय मिच्छाइट्ठिणा पुण उवसमसंमत्ते समुप्पाइदे तप्पढमसमयप्पहुडि जाव गुणसंकमचरिमसमयो त्ति ताव भुजगारसंकमसामित्तम विरुद्धं दडुव्वं; उव्वेज्जलणसंकमादो गुणसंकमपारंभसमए चैव भुजगारसंभवं पडि विरोहाभावादो । एवमेसो सम्मामिच्छत्तस्स भुजगारसंकमसामित्तविसयो तीहि पयारेहि णिदिट्ठो । जदो एदं देसामासियं तदो सम्माइट्ठिणा; मिच्छत्ते पडिवण्णे तप्पढमसमयम्मि

§ ३३०. क्योंकि वहाँ पर गुणसंक्रमका नियम देखा जाता है ।

✽ अथवा क्षपकके जब तक गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वका संक्रमण होता है तब तक वह उसका भुजगारसंक्रामक है ।

§ ३३१. क्योंकि दर्शनमोहनीयके क्षपकके अपूर्वकरणके पहले समयसे लेकर सर्वसंक्रम होने तक सम्यग्मिथ्यात्वका गुणसंक्रम सम्भव होनेसे वहाँ भुजगारकी सिद्धिमें कोई विसंवाद नहीं है ।

✽ अथवा प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तीसरे समयसे लेकर विध्यातसंक्रमके प्रथम समयके प्राप्त होने तक सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगारसंक्रामक है ।

§ ३३२. सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित मिथ्यादृष्टि जीवके द्वारा प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करने पर प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वका सत्त्व होकर दूसरे समयमें अवक्तव्यसंक्रम होता है । पुनः तृतीय आदि समयोंमें गुणसंक्रमवश भुजगारसंक्रम होकर विध्यातसंक्रमके प्रारम्भके प्रथम समयके प्राप्त होने तक जाता है । यह सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित मिथ्यादृष्टिकी अपेक्षा कथन किया है । सत्कर्म मिथ्यादृष्टि के द्वारा तो उपशमसम्यक्त्व उत्पन्न करने पर उसके पहले समयसे लेकर गुणसंक्रमके अन्तिम समय तक भुजगारसंक्रमका स्वामित्व निर्विरोध जानना चाहिए, क्योंकि उद्वेलनासंक्रमके बाद गुणसंक्रमके प्रारम्भ होनेके समयमें ही भुजगार सम्भव होनेके प्रति कोई विरोध नहीं आता । इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगारसंक्रमविषयक यह निर्देश तीन प्रकारसे कहा है । यतः यह देशामर्षक है अतः सम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त होने पर उसके प्रथम

अधापवत्तसंकमेण भुजगारसंकमो होइ तथा उव्वेल्लमाण मिच्छाइट्ठिणा वेदयसम्मत्ते गहिदे तस्स पढमसमए वि विज्झादसंकमेण भुजगारसंकमसंभवो वत्तव्वो ।

❀ तव्वदिरित्तो जो संकागो सो अप्पदरसंकागो वा अवत्त-संकागो वा ।

§ ३३३. पुव्वुत्त भुजगारसंकागो अण्णो जो संकागो सो जहासंभवमप्पयर-संकागो वा अवत्तव्वसंकागो वा होइ; तत्थ पयारंतरासंभवादो ।

❀ सोलसकसायाणं भुजगारसंकागो अप्पदरसंकागो अवट्ठिद-संकागो अवत्तव्वसंकागो को होदि ?

§ ३३४. सुगममेदं पुच्छावक्कं ।

❀ अण्णदरो ।

§ ३३५. अणंताणुबंधीणं ताव भुजगारसंकागो अण्णदरो मिच्छाइट्ठी सम्माइट्ठी वा होइ, मिच्छाइट्ठिमि णिरंतबंधीणं तेसिं तदविरोहादो । सम्माइट्ठिमि वि गुणसंकमपरिण-दम्मि सम्मतग्गहणपढमावलियाए वा विदियादिसमएसु तदुवल्लदो । अप्पयरसंकागो वि अण्णयरो मिच्छाइट्ठी सम्माइट्ठी वा होइ; उहयत्थ वि अप्पयरसंभवे विरोहाणुवलंभादो । तथा अवट्ठिदसंकागो वि अण्णदरो मिच्छाइट्ठी सासणसम्माइट्ठी वा होइ; तत्तो अण्णत्थ तदणुवलंभादो । मिच्छाइट्ठिस्स सम्मत-

समयमे अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा भुजगारसंक्रम होता है । उसी प्रकार उद्वेलना करनेवाले मिथ्या-दृष्टिके वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमे भी विध्यातसंक्रमके द्वारा भुजगारसंक्रम सम्भव है ऐसा कहना चाहिए ।

* उससे भिन्न जो संक्रामक है वह या तो अल्पतर संक्रामक है या अवक्तव्य संक्रामक है ।

§ ३३३. पूर्वोक्त भुजगारसंक्रामकसे अन्य जो संक्रामक है वह यथासम्भव या तो अल्पतर संक्रामक है या अवक्तव्यसंक्रामक है, क्योंकि वहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है ।

* सोलह कपायोंका भुजगारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक, अवस्थितसंक्रामक और अवक्तव्यसंक्रामक कौन है ?

§ ३३४. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* अन्यतर जीव है ।

§ ३३५. अनन्तानुबन्धियोंका तो भुजगारसंक्रामक अन्यतर मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव है, क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीवके निरन्तर बंधनेवाली उक्त प्रकृतियोंका भुजगारसंक्रम होनेमें कोई विरोध नहीं आता । सम्यग्दृष्टि जीवके भी गुणसंक्रम रूपसे परिणत होने पर या सम्यक्त्वको ग्रहण करने की प्रथम आवलिके द्वितीयादि समयोंमे भुजगारसंक्रमकी उपलब्धि होती है । इनका अल्पतरसंक्रामक भी अन्यतर मिथ्यादृष्टि या सम्यग्दृष्टि जीव है, क्योंकि दोनों ही स्थलोंमे अल्पतरसंक्रमके होनेमे कोई विरोध नहीं पाया जाता । तथा अवस्थित संक्रामक भी मिथ्यादृष्टि या सासादन सम्यग्दृष्टि जीव है, क्योंकि इन दो स्थानोंके सिवा अन्यत्र उसकी उपलब्धि नहीं होती ।

मुवगयस्स पढमावलियाए आयव्वयाणं सरिसत्तावलंबणेण मिच्छत्तस्सेव तेसिमवट्ठाणसंभवो
 किण्ण होइ ? ण, तत्थ मिच्छाइट्ठि चरिमावलियाए पडिच्छिददव्ववसेण भुजगारसंकमं मोत्त-
 णावट्ठाणासंभवादो । संपहि अणंताणुबंधीणमवत्तव्वसंकामगो अण्णदरो ति वुत्ते विसंजोयणा-
 पुव्वसंजोगपढमसमयणवक्कबंधमावलियादिकंतं संकामेमाणयस्स मिच्छाइट्ठिस्स सासणसम्मा-
 इट्ठिस्स वा गहणं कायव्वं । एवं चेव सैसकसायाणं पि भुजगारादिपदाणमण्णदरसामि-
 ताहिसंबंधो अणुगंतव्वो । णवरि तेसिमवत्तव्वसंकामगो अण्णदरो सव्वोवसामणापडिवाद्-
 पढमसमए वट्ठमाणगो सम्माइट्ठो चेव होइ णाण्णो ति वत्तव्वं । अण्णदरणिद्दसेण वि
 ओगाहणादि विसेसपडिसेहो दट्ठव्वो ।

❀ एवं पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं ।

§ ३३६. कुदो ? भुजगारादिपदाणमण्णदरसामित्तं पडि पुव्विल्लसामित्तादो
 विसेसाभावो । पुरिसवेदावट्ठिदसंकमसामित्तगओ को वि विसेससंभवो अत्थि ति
 तण्णिद्दसकरणट्ठमुत्तरं सुत्तमाह ।

❀ एवरि पुरिसवेद-अवट्ठिदसंकामगो णियमा सम्माइट्ठो ।

३३७. कुदो ? सम्माइट्ठोदो अण्णत्थ पुरिसवेदस्स णिरंतरबंधित्ताभावो । ण च

शंका—जो मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसकी प्रथम आवलिमे आय और
 व्ययकी समानताका अवलम्बन करनेसे मिथ्यात्वके समान अनन्तानुबन्धियोंका अवस्थान क्यों
 सम्भव नहीं है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि सम्यग्दृष्टिकी प्रथम आवलिमे मिथ्यादृष्टिकी अन्तिम आवलिके
 द्रव्यके संक्रमित होनेके कारण वहाँ भुजगारसंक्रमको छोड़कर अवस्थानसंक्रम सम्भव नहीं है ।

अब अनन्तानुबन्धियोंका अवक्तव्यसंक्रामक जीव अन्यतर होता है ऐसा करने पर विसं-
 योजना पूर्वक संयोगके प्रथम समयमें हुए नवकबन्धको बन्धावलिके बाद संक्रमण करनेवाले
 मिथ्यादृष्टि या सासादन सम्यग्दृष्टिका ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार शेष कपायोंके भी भुज-
 गारादिपदोंका अन्यतर जीव स्वामी है इसका सम्बन्ध समझ लेना चाहिए । इतनी विशेषता है
 इनका अवक्तव्यसंक्रामक अन्यतर सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयमे विद्यमान सम्यग्दृष्टि
 जीव ही होता है, अन्य जीव नहीं ऐसा यहाँ पर कथन करना चाहिए । सूत्रमे अन्यतर पदका निर्देश
 करनेसे अवगाहना आदि विशेषका निषेध जान लेना चाहिए ।

* इसी प्रकार पुरुषवेद, भय और जुगुप्साका स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ३३६. क्योंकि भुजगार आदि पदोंके अन्यतर जीवके स्वामी होनेकी अपेक्षा पहले कह गये
 स्वामित्वसे इसमे कोई विशेषता नहीं है । मात्र पुरुषवेदके अवस्थित संक्रमके स्वामित्वमे कुछ
 विशेषता सम्भव है, इसलिए उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका अवस्थित संक्रामक नियमसे सम्यग्दृष्टि
 जीव है ।

§ ३३७. क्योंकि सम्यग्दृष्टिके सिवा अन्यत्र पुरुषवेदका निरन्तर बन्ध नहीं होता । और

पिरंतरबंधेण विणा अत्रिदसंक्रमसामित्तिहाणसंभवो विरोहादो ।

❀ इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुजगार-अप्पदर-अवत्तव्व संकमो कस्स ?

§ ३३८. सुगम ।

❀ अण्णदरस्स ।

§ ३३९. एत्थण्णदरणिद्देसेण मिच्छाइट्ठि-सम्माइट्ठीणं गहणं कायव्वं; भुजगारप्पदर-सामित्ताणमुहयत्थ वि संभवे विरोहाभावादो । तं जहा—मिच्छाइट्ठिमि ताव अप्पण्णो बंधगद्धामेत्तकालं भुजगारसंकमो होइ; तत्थागमादो णिज्जराए थोत्रभावोवलंभादो । तं कथं ? इत्थिवेद-हस्सरदीणं तक्कालबंधावलियादिक्रंतणअक्रंधो संपुण्णसमयपवद्धमेत्तो णिज्जरा-गोबुच्छावुणसमयपवद्धस्स संखेज्जभागमेत्ती चेव बंधगद्धाणुसारेण सव्वत्थ संचयसिद्धीदो । णवुंसयवेदारइसोगाणं पि णअक्रंधागमादो तक्कालभाविगोबुच्छणिज्जरा संखेज्जभाग-हीणा । एदस्स कारणं बंधगद्धाणुसरणेण वत्तव्वं । एवं च संते भुजगारसंकमसामित्तमेत्था-विरुद्धं सिद्धं । बंधविच्छेदकाले पुण अप्पयरसंकमो चेव दोइ; तत्थागमामावेणेयं त

निरन्तर बन्धके विना अवस्थित संक्रमके स्वामित्वका विधान करना सम्भव नहीं है, क्योंकि उसमें विरोध आता है ।

* स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका भुजगार, अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रम किसके होता है ?

§ ३३८. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्यतर जीवके होता है ।

§ ३३९. यहाँ पर अन्यतर पदका निर्देश करनेसे मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि जीवोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भुजगार और अल्पतर संक्रमका स्वामित्व उभयत्र ही सम्भव होनेमे कोई विरोध नहीं आता । यथा—मिथ्यादृष्टिके तो अपने-अपने बन्धककालप्रमाण काल तक भुजगार संक्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर आयसे निर्जरा स्तोक उपलब्ध होती है ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि स्त्रीवेद, हास्य और रतिका बन्धावलिके बाद तात्कालिक जो नवकबन्ध हैं वह सम्पूर्ण समयप्रवद्धप्रमाण हैं । परन्तु निर्जरासम्बन्धीगोपुच्छा समयप्रवद्धके असंख्यातवें भाग-प्रमाण ही है, क्योंकि बन्धककालके अनुसार सर्वत्र सव्वचयकी सिद्धि होती है । नपुंसकवेद, अरति और शोकके नवकबन्धके आयसे तत्कालभावी गोपुच्छाकी निर्जरा संख्यातवें भागहीन है । इसका कारण बन्धककालके अनुसार कहना चाहिए और ऐसा होने पर भुजगारसंक्रमका स्वामित्व यहाँ पर अविरोध रूपसे सिद्ध होता है । बन्धविच्छेदके कालमें तो अल्पतरसंक्रम ही होता है, क्योंकि

णिञ्जरा-परिणदाणमेदेसिं तदविरोहादो । एवं चैव सम्माइडिम्हि वि तदुभयसामित्ताविरोहो दड्ढव्वो । णवरि इत्थि-णवुंसयवेदाणं सम्माइडिम्मि वंधविरहियाणमप्ययरसंकमो चैवेत्ति गुणसंकमविसए तेसिं भुजगारसामित्तमवहारेयव्वं । सव्वेसिमवत्तव्वसंकमो सव्वोवसामणा-पडिवादपढमसमए दड्ढव्वो ।

एवमोघेण सामित्ताणुगमो समत्तो ।

§ ३४०. आदेशेण गोरइय०-मिच्छ० भुज० अप्प० अवड्ढि० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइडि० । अवत्त० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइडिस्स पढमसमयसंका-मयस्स सम्म० भुज० अप्प० संक० कस्स ? अण्णद० मिच्छाईडि० अवत्त० संक० कस्स ? अण्णद० पढमसमयसंका० मिच्छाईडि० सम्मामि० भुज० अप्प० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइडि० मिच्छाईडि वा । एवमवत्त० अणंताणु०चउक्क० भुज० अप्प० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइडि० मिच्छाईडिस्स वा । अवड्ढि० संक० कस्स ? अण्णद० मिच्छाईडि० । अवत्त० संक० कस्स ? अण्णद० मिच्छादिडि० पढमसमयसंका० वारसक०-भय-दुगुंछा० ओघं । णवरि अवत्त० णत्थि । पुरिसंवे० भुज० अप्प० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइडि० मिच्छाईडिस्स वा । अवड्ढि० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइडि० । इत्थीवे० णवुंस० भुज०

वहाँ पर आयका अभाव'हो जानेसे एकान्तसे निर्जरारूपसे परिणत हुए इन कर्मोंके अल्पतरसंक्रमके होनेमे कोई विरोध नहीं आता । इसी प्रकार सम्यग्दृष्टि जीवके भी इन दोनोंके स्वामित्वका अविरोध जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता इसलिए वहाँ इनका अल्पतरसंक्रम ही है । तथा गुणसंक्रमके समय उनके भुजगारसंक्रमका स्वामित्व जानना चाहिए । सबका अवक्तव्यसंक्रम सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयमे जानना चाहिए ।

इस प्रकार ओघसे स्वामित्वानुगम समाप्त हुआ

§ ३४०. आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यात्वका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितसंक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होता है । अवक्तव्यसंक्रम' होता है ? प्रथम समयमें संक्रमण करनेवाले अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होता है । सम्यक्त्वका भुजगार और अल्पतर संक्रम किसके होता है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होता है । अवक्तव्यसंक्रम किसके होता है ? प्रथम समयमें संक्रमण करनेवाले अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होता है । सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगार और अल्पतरसंक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होता है । इसी प्रकार अवक्तव्यसंक्रमका स्वामित्व जानना चाहिए । अनन्तानुबन्धीचुष्कका भुजगार और अल्पतरसंक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि या मिथ्यादृष्टिके होता है । अवस्थितसंक्रम किसके होता है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होता है । अवक्तव्यसंक्रम किसके होता है ? प्रथम समयमें संक्रमण करनेवाले अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होता है । वारह कषाय भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर इनका अवक्तव्यसंक्रम नहीं है । पुरुषवेदका भुजगार और अल्पतरसंक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होता है । अवस्थित-संक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टिके होता है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भुजगारसंक्रम

संक० कस्स ? अण्णद० मिच्छाइड्ढि० । अप्पद० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइड्ढि०
मिच्छाइड्ढि० वा । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुज० अप्प० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइड्ढि०
मिच्छाइड्ढि० । एवं सव्वणोरइय-तिरिक्खपंचिदिय-तिरिक्खतिय-देवगादिदेवभवणादि
जाव णवगेवज्जा ति ।

§ ३४१. पंचिदियतिरिक्खअप्प०-मणुसअपज्ज०-सम्म०-सम्मामि०-सत्तणोक० भुज०
अप्पद० संक० कस्स ? अण्णद०-सोलसक०-भय-दुगुंछ० भुज० अप्प० अवड्ढि०
संक० कस्स ? अण्णद० ।

§ ३४२. मणुसतिए ओवं । णवरि वारसक०-णवणोक० अवत्त० देशे ति ण भाणि-
दच्चो । अणुदिसादि सव्वट्ठा ति मिच्छ०-सम्मामि० इत्थिवेद०-णवुंस०-अप्प० अणंताणु०
चउक०, चटुणोक० भुज० अप्प०-वारसक०-पुरिसवे०-भय-दुगुंछा० भुज० अप्प० अवड्ढि०
संक० कस्स ? अण्णद० । एवं जाव० ।

❀ कालो एयजीवस्स ।

§ ३४३. भुजगारादिपदविसयसामित्तविहासणाणंतरमेत्ते । एयजीवसंवंधिओ कालो
भुजगारादिपदाणं विहासियव्वो ति अहियारसंभालणापरमिदं सुत्तं ।

❀ मिच्छत्तस्स भुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

किसके होता है ? अन्यतर मिथ्यादृष्टिके होता है । अल्पतरसंक्रम किसके होता है ? अन्यतर
सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होता है । हास्य, रति, अरति और शोकका भुजगार और
अल्पतर संक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दृष्टि और मिथ्यादृष्टिके होता है । इसी प्रकार
सब नारकी, सामान्य तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, सामान्यदेव और भवनवासियोंसे
लेकर नौ ग्रैवयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ३४१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व
और सात नोकपायोंका भुजगार और अल्पतरसंक्रम किसके होता है ? अन्यतरके होता है । सोलह
कपाय, भय और जुगुप्साका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितसंक्रम किसके होता है ? अन्यतरके
होता है ।

§ ३४२ मनुष्यत्रिकमें श्रोधके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर वारह कपाय
और नौ नोकपायोंका अवक्तव्यसंक्रम देवोंके होता है ऐसा नहीं कहना चाहिए । अनुदिशसे लेकर
सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुसकवेदका अल्पतर, अनन्ता-
नुवन्धीचतुष्क और चार नोकपायोंका भुजगार और अल्पतर, वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और
जुगुप्साका भुजगार, अल्पतर और अवस्थितसंक्रम किसके होता है ? अन्यतरके होता है । इसी
प्रकार अनाहारकमार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ ।

❀ एक जीवकी अपेक्षा कालका अधिकार है ।

§ ३४३. भुजगार आदि पदोंके स्वामित्वका व्याख्यान करनेके बाद आगे भुजगार आदि
पदोंका एक जीव सम्बन्धी कालका व्याख्यान करना चाहिए । इस प्रकार अधिकारकी सम्हाल
करनेवाला यह सूत्र है ।

❀ मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३४४. सुगममेदमोघेण मिच्छत्तभुजगारसंक्रामयस्स जहण्णुक्कस्सकालणिद्देसा-
वेक्खं पुच्छासुत्तं ।

❀ जहण्णेण एयसमत्तो ।

§ ३४५. तं जहा—पुव्वुप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो वेदगसम्मत्तभागयस्स पढमसमए विज्झादसंकमेगावत्तव्वसंकमो होइ । पुणो विदियादीणमण्णदरसमए जत्थ वा तत्थ वा चरिमावलियमिच्छाइट्ठिणा वड्ढिदूणवंधणवक्कबंधसमयपवद्धं बंधावलियादिककंतं भुजगारसरूवेण संक्रामिय तदणंतरसमए अप्पदरमवड्ढिदं वा गयस्स लग्गो? मिच्छत्तभुजगार-
संक्रामयस्स जहण्णकालो एयसमयमेत्तो ।

❀ उक्कस्सेण आवलिया समयूणा ।

§ ३४६. तं कथं ? पुव्वुप्पण्णसम्मत्तपच्छायदमिच्छाइट्ठिणा चरिमावलियाए णिरंतर-
मुदयावलियं पविसमाणगोवुच्छेहिंतो अब्भहियक्कमेण बंधिदूण वेदगसम्मत्ते पडिवण्णे तस्स पढमसमए अवत्तव्वसंकमो होदूण पुणो विदियादिसमएसु पुव्वुत्तणवक्कबंधवसेण णिरंतरं
भुजगारसंकमे संजादे लग्गो? मिच्छत्तभुजगारसंकमस्स समयूणावलियमेत्तो उक्कस्सकालो ।
एवं ताव पुव्वुप्पण्णसम्मत्तमिच्छाइट्ठिणवक्कबंधावलंबणेण समयूणावलियमेत्त-मिच्छत्त भुज-
गारसंकमुक्कस्सकालसंभवं परूविय संपहि गुणसंकमकालावेक्खाए अंतोमुहुत्तमेत्तो पयदुक्कस्स-

§ ३४४. ओघसे मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रामकके जघन्य और उत्कृष्टकालके निर्देशकी अपेक्षा करनेवाला यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

* जघन्यकाल एक समय है ।

§ ३४५. यथा—पहले उत्पन्न हुए सम्मक्त्वके साथ मिथ्यात्वसे वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमे विध्यातसंकमके द्वारा अवक्तव्यसंकम होता है । पुनः द्वितीय आदि समयोंमेसे किसी समयमे जहाँ कहीं अन्तिम आवलिमे विद्यमान मिथ्यादृष्टिके द्वारा बंधाकर बाँधे गये नवकबन्ध समयप्रबद्धको बन्धावलिके बाद भुजगाररूपसे संक्रमा कर तदनन्तर समयमें अल्पतर या अवस्थितसंकमको प्राप्त हुए जीवके मिथ्यात्वके भुजगार संक्रामकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ ।

* उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलिप्रमाण है ।

§ ३४६. शंका—वह कैसे ?

समाधान—पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे पीछे आये हुए मिथ्यादृष्टिके द्वारा चरमावलिके निरन्तर उदयावलिये प्रवेश करनेवाले गोपुच्छासे अधिक रूपसे बाँधकर वेदकसम्यक्त्वके प्राप्त होने पर उसके प्रथम समयमे अवक्तव्यसंकम होकर पुनः द्वितीयादि समयोंमे पूर्वोक्त नवकबन्धके वशसे निरन्तर भुजगारसंकमके होने पर मिथ्यात्वके भुजगारसंकमका उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलिप्रमाण उपलब्ध हुआ । इस प्रकार सर्वप्रथम पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्वसे मिथ्यादृष्टि होकर वहाँ पर होनेवाले नवकबन्धके अवलम्बनसे मिथ्यात्वके भुजगारसंकमके एक समय कम एक आवलिप्रमाण उत्कृष्टकालकी सम्भावनाका कथन करके अब गुणसंकम कालकी अपेक्षासे प्रकृत उत्कृष्ट काल

कालो होइ त्ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ ।

❀ अथवा अंतोमुहुत्तं ।

§ ३४७. तं जहा—दंसणमोहमुवसामेंतयस्स वा जाव गुणसंकमो ताव गिरंतरं भुजगारसंकमो चेम; तत्थ पयारंतरासंभादो । सो च गुणसंकमकालो अंतोमुहुत्तमेत्तो तदो पयदुक्कस्सकालवलंभो ण विरुद्धो ।

❀ अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३४८. सुगममेदं ।

❀ एक्को वा समयो जाव आवलिया दुसमयूणा ।

३४६. पुच्चुप्पणसम्मत्तपच्छायदमिच्छाइड्ढि-चर-वेदयसम्माइड्ढि पढमावलिया-वेक्खाए एसो कालवियप्पो णिड्ढिद्वो । तं जहा—तहाविहसम्माइड्ढिणो पढमसमए अवत्तव्वसंकामगो कादूण? विदियसमयम्मि अप्पयरसंकमेण परिणमिय तदणंतरसमए चरिमावलियमिच्छाइड्ढिवंधवसेण भुजगारमवड्ढिदभावं वा गयस्स लद्धो एयसमयमेत्तो अप्पयरकालजहणवियप्पो । एवं दुसमय-तिसमयादिकमेण णोदव्वं जाव आवलिया दुसमयूणा त्ति । तत्थ चरिमवियप्पो बुच्चदे—पढमसमए अवत्तव्वसंकामगो होदूण विदियादि समएसु

अन्तर्मुहूर्त प्रमाण होता है इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* अथवा उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३४७. यथा—दर्शनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवके जब तक गुणसंकम होता है तबतक निरन्तर भुजगारसंकम ही होता है, क्योंकि गुणसंकमके समय अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है । और वह गुणसंकमका काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, इसलिए प्रकृत उत्कृष्ट कालकी प्राप्ति विरोधको नहीं प्राप्त होती ।

* अल्पतरसंकमका कितना काल है ?

§ ३४८. यह सूत्र सुगम है ।

* एक समयसे लेकर दो समय कम आवलिहृतक काल है ।

§ ३४६. पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे पीछे आकर जो मिथ्यादृष्टि हुआ है और बादमे जो वेदकसम्यग्दृष्टि हुआ है उसकी प्रथम आवलिकी अपेक्षासे यह कालका विकल्प निर्दिष्ट किया है । यथा—प्रथम समयमे अवक्तव्यसंकामक होकर दूसरे समयमे अल्पतरसंकम रूपसे परिणमन कर उसके अनन्तर समयमे अन्तिम आवलिमे हुए मिथ्यादृष्टिके बन्धके कारण भुजगारसंकम या अवस्थितसंकमको प्राप्त हुए उस प्रकारके सम्यग्दृष्टिके अल्पतरसंकमका जघन्य विकल्परूप एक समय काल प्राप्त हुआ । इस प्रकार दो समय और तीन समय आदिके क्रमसे दो समय कम एक आवलिप्रमाण काल तक ले जाना चाहिए । उसमे अन्तिम विकल्पको कहते हैं—प्रथम समयमें अवक्तव्यसंकामक होकर द्वितीयादि सब समयोंमे ही अल्पतर संक्रमको करके पुनः प्रथम आवलिके अन्तिम समयमे

सव्वेसु चैव अप्पयरसंकमं कादूण पुणो पढमावलियचरिमसमए भुजगारावडिदाणमण्णयर संकमपज्जायं गदो लद्धो दुसमयूणावलियमेत्तो । मिच्छत्तप्पयरसंकमं कादूण समयूणावलियमेत्तो अप्पयरकालवियप्पो किण्ण परूविदो ? ण, तहा कीरमाणे अप्पयरकालस्स ववच्छेद करणीवायाभावादो ।

❀ अथवा अंतोमुहुत्तं ।

§ ३५०. तं जहा—बहुसो दिट्ठमग्गेण मिच्छाइट्ठिणा वेदगसम्मत्तमुप्पाइदं । तस्स पढमावलियचरिमसमए पुव्वुत्तेण णाएण भुजगारसंकमं कादूण तदो अप्पयरसंकमं पारमिय सव्वजहण्णेण कालेण मिच्छत्त-सम्मा मिच्छत्ताणमण्णदरगुणं गयस्स जहण्णेणंतोमुहुत्तपमाणो अप्पयरकालवियप्पो लब्भे ।

❀ तदो समयुत्तरो जाव छावडिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ३५१. तदो सव्वजहण्णंतोमुहुत्तमेत्तप्पदरकालादो समउत्तरादिकमेणप्पयरसंकम-कालवियप्पो णिरंतरमणुगंतव्वो जाव सादिरेयछावडिसागरोवममेत्तो तदुक्कस्सकालो समु-वलद्धो त्ति । तत्थ सव्वपच्छिमवियप्पं वत्तइस्सामो । तं जहा—अणादियमिच्छाइट्ठिणा सम्मत्ते समुप्पाइदे अंतोमुहुत्तकालं गुणसंकमो होदि, तदो विज्झादे पदिदस्स णिरंतरमप्पयर-संकमो होदूण गच्छदि जावंतो मुहुत्तमेत्तवसमसम्मत्तकालसेसो वेदगसम्मत्तकालो च देसूण छावडिसागरोवममेत्तो त्ति । तत्थंतो मुहुत्तसेसे वेदगसम्मत्तकाले खवणाए अब्भुट्ठिदस्सापुव्व-

भुजगार या अवस्थित इनमेंसे किसी एक संक्रमरूप पर्यायको प्राप्त हुआ । इस प्रकार मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमका दो समय कम एक आवलिप्रमाण काल प्राप्त हुआ ।

शंका—अन्तिम समयमें भी अल्पतरसंक्रमको करके अल्पतर संक्रमका एक समय कम एक आवलिप्रमाण काल प्राप्त किया जा सकता है वह यहाँ पर क्यों नहीं कहा ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वैसा करने पर अल्पतरसंक्रमके कालका विच्छेद करनेका कोई उपाय नहीं रहता ।

* अथवा अन्तमुहूर्तकाल है ।

§ ३५०. यथा—जिसने बहुत बार मार्गको देखा है ऐसे मिथ्यादृष्टिने वेदकसम्यक्त्वको उत्पन्न किया वह प्रथमावलिके अन्तिम समयमे पूर्वोक्त न्यायके अनुसार भुजगारसंकमको करके अनन्तर अल्पतरसंक्रमका प्रारम्भ करके सबसे जघन्य काल द्वारा मिथ्यात्व या सम्यग्मिथ्यात्व इनमेंसे किसी एक गुणस्थानको प्राप्त हुआ । इस प्रकार उसके अल्पतर कालका विकल्प जघन्यसे अन्तमुहूर्त प्रमाण प्राप्त होता है ।

* इसके बाद एक एक समय बढ़ाते हुए साधिक छयासठ सागर काल प्राप्त होता है ।

§ ३५१. 'तदो' अर्थात् सबसे जघन्य अन्तमुहूर्तप्रमाण कालसे लेकर एक-एक समय अधिकके क्रमसे बढ़ाते हुए अल्पतरसंक्रम कालका विकल्प साधिक छयासठ सागरप्रमाण उसका उत्कृष्ट काल उपलब्ध होने तक निरन्तरक्रमसे जानना चाहिए । अब उसमे सबसे अन्तिम विकल्पको बतलाते हैं । यथा—अनादि मिथ्यादृष्टिके सम्यक्त्वको उत्पन्न करने पर अन्तमुहूर्त काल तक गुणसंकम होता है । उसके बाद विध्यातसंक्रमको प्राप्त हुए उसके निरन्तर अल्पतरसंक्रम अन्तमुहूर्तप्रमाण उपशम

करणपढमसमए गुणसंकमवारंभेणाप्ययरसंकमस्स पज्जवसाणं होइ । तदो संपुण्णाछावट्टि-
सागरोवममेत्तवेदगसम्मत्तकस्सकालम्मि अपुव्वाणियट्टिकरणद्वामेत्तमप्ययरसंकमस्स पा
लभइ त्ति । तम्मि पुव्विल्लोपसमसम्मत्तकाल्ळभंतरअप्ययरकालादो सोहिदे सुद्धसेस-
मेत्तेयसादिरेयछावट्टिसागरोवमपमाणो पयदुकस्सकालवियप्पो समुत्तलद्धो होइ ।

❀ अवट्टिदसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३५२. सुगममेदं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ३५३. पुव्वुप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छतादो पडिणियत्तिय वेदयसम्मत्तमुवगयस्स
पढमावलियाए विदियादिसमएसु जत्थ वा तत्थ वा एयसमयभागगणिज्जराणसरिसत्तव-
सेणावट्टिदसंकमं कादूण तदर्णंतरसमए भुजगारमप्ययरभावं वा गयस्स एयसमयमेत्तावट्टिद-
संकमजहण्णकानोवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण संखेज्जा समया ।

§ ३५४. तत्थेव सत्तट्ठसमएसु आगमणिज्जराणं सरिसत्तसंभवेण तेत्तियमेत्तावट्टिद-
संकममुक्कस्सकालसिद्धीए विरोहाभावादो ।

सम्यक्त्वका काल शेष रहने तक तथा कुछ कम छायासठ सागरप्रमाण वेदक सम्यक्त्वके कालके पूर्ण होने तक होता रहता है । उसमे वेदकसम्यक्त्वके अन्तर्मुहूर्त कालके शेष रहने पर क्षपणाके लिए उद्यत हुए उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमे गुणसंकमका प्रारम्भ होनेसे अल्पतरसंकमका अन्त होता है । इसलिए वेदकसम्यक्त्वके सम्पूर्ण छायासठ सागरप्रमाणकालमे जो अपूर्वकरण और अनि-
वृत्तिकरणका काल है उतना अल्पतरसंकमका काल नहीं प्राप्त होता, इसलिए इस अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणके कालको पूर्वोक्त उपशमसम्यक्त्वके भीतर प्राप्त हुए अल्पतरसंकमके कालमेसे घटा देने पर जो काल शेष बचे उसे कुछ न्यून वेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्टकालमे जोड़ देने पर साधिक छायासठ सागरप्रमाण प्रकृत उत्कृष्ट कालका विकल्प प्राप्त होता है ।

❀ अवस्थितसंकमका कितना काल है ?

§ ३५२. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य काल एक समय है ।

§ ३५३. पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्वमे मिथ्यात्वमे जाकर और वहाँसे निवृत्त होकर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम आवलिके द्वितीयादि समयोंमे जहाँ-कहीं एक समयके लिए आय और निर्जराके समान होनेके कारण अवस्थित संक्रमको करके उसके अनन्तर समयमे भुजगारसंकम या अल्पतरसंकमको प्राप्त होने पर अवस्थित संक्रमका जघन्य काल एक समय मात्र उपलब्ध होता है ।

❀ उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

§ ३५४. वहाँ पर आय और निर्जराके सात-आठ समय तक समान रूपसे सम्भव होनेके

❀ अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३५५. सुगमं ।

❀ जहणुक्स्सेण एयसमत्तो ।

§ ३५६. सम्माइट्टिपढमसमयं मोतूणण्णत्थ तदभावविणिण्णयादो ।

❀ सम्मत्तस्स भुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३५७. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमत्तो ।

§ ३५८. तं जहा—उव्वेल्लेमाणमिच्छाइट्टिणा सम्मत्ताहिमुहेण मिच्छत्तपढमट्टिदि-
चरिमसमए चरिमुव्वेल्लणखंडयपढमफालिगुणसंकमेण संकामिदा । तदो अणंतरसमए
सम्मत्तमुप्पाइय असंकामगो जादो लद्धो जहणणेण्यसयमेत्तो सम्मत्तभुजगारसंकामय-
कालो ।

❀ उक्स्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३५९. कुदो ? चरिमुव्वेल्लणकंडए सव्वत्थेण गुणसंकमेण परिणदम्मि पयद-
भुजगारसंकमुक्स्सकालस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो ।

❀ अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

कारण अवस्थित संक्रमके उतने मात्र उत्कृष्ट कालकी सिद्धिमे कोई विरोध नहीं आता ।

* अवत्तव्य संक्रमका कितना काल है ।

§ ३५५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३५६. क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयको छोड़कर अन्यत्र मिथ्यात्वका अवत्तव्यसंक्रम नहीं होता ऐसा निर्णय है ।

* सम्यक्त्वके भुजगारसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३५७. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३५८. यथा—उद्वेलना करनेवाले और सम्यक्त्वके अभिमुख हुए मिथ्यादृष्टि जीवने मिथ्या-
त्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमे अन्तिम स्थिति काण्डककी प्रथम फालिको गुणसंक्रमके द्वारा
संक्रमित किया । उसके बाद अनन्तर समयमे सम्यक्त्वको उत्पन्न करके वह असंकामक हो गया ।
इस प्रकार सम्यक्त्वके भुजगार संक्रमका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो गया ।

* उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३५९. क्योंकि अन्तिम उद्वेलना काण्डकके सर्वत्र ही गुणसंक्रमरूपसे परिणत होने पर
प्रकृत भुजगार संक्रमका उत्कृष्ट काल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है ।

* अल्पतरसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३६०. सुगमं ।

✽ जहरणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३६१. सम्मत्तादो मिच्छत्तं गंतूण सव्वलहण्णंतोमुहुत्तमेत्तकालमप्ययरसंक्रमेण परिणामिय पुणो सम्मत्तमुवगंतूणासंक्रामयभावेण परिणदम्मि तदुवलंभादो ।

✽ उक्कस्सेण पत्तिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ३६२. कुदो ? सम्मत्तादो मिच्छत्तं गंतूण सव्वुक्कस्सेणुव्वेत्तणकालेणुव्वेत्तमाण-यस्स तदुवलंभादो ।

✽ अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३६३. सुगमं ।

✽ जहरणुक्कस्सेण एयसमत्तो ।

§ ३६४. सम्मत्तादो मिच्छत्तमुवगयस्स पढमसमयादो अण्णत्थ तदभावविणिण्णयादो ।

✽ सम्मामिच्छत्तस्स भुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३६५. सुगमं ।

✽ एको वा दो वा समया एवं समयुत्तरो उक्कस्सेण जाव चरिमुव्वे-ल्लणकंडयुक्कीरणात्ति ।

§ ३६० यह सूत्र सुगम है ।

✽ जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३६१ क्योंकि सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमे जाकर सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल तक अल्पतर संक्रमरूपसे परिणामन करके पुन सम्यक्त्वको उत्पन्न करके असक्रामकभावसे परिणत होने पर उक्त काल उपलब्ध होता है ।

✽ उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ३६२ क्योंकि सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमे जाकर सबसे उत्कृष्ट उद्वेलना कालके द्वारा उद्वेलना करनेवाले जीवके उक्त कालकी उपलब्धि होती है ।

✽ अवत्तव्यसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३६३. यह सूत्र सुगम है ।

✽ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३६४. क्योंकि सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयको छोड़कर अन्यत्र उसके अभावका निर्णय है ।

✽ सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार संक्रमका कितना काल है ?

§ ३६५. यह सूत्र सुगम है ।

✽ एक समय और दो समय भी है । इस प्रकार एक समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट काल अन्तिम उद्वेलना काण्डके उत्कीरण करनेमें जितना समय लगे उतना है ।

§ ३६६. एत्थेयसमयपरूवणा ताव कीरदे । तं जहा—उव्वेल्लमाणमिच्छादिद्विणा मिच्छत्तपढमद्विदिचरिमसमए चरिमुव्वेल्लणखंडयं पढमफालीए गुणसंकमेण संकामिदाए एयसमयं भुजगारसंक्रमो होदूण सम्मत्तुप्पत्तिपढमसमए अप्पयरसंक्रमो जादो लद्धो एय-समयमेत्तो सम्मामिच्छत्तभुजगारसंकमजहण्णकालो । 'दो वा समया' पुव्वं व उव्वेल्ले-माणएण दोसु समएसु चरिमुव्वेल्लणखंडयं संकामिय सम्मत्ते समुप्पाइदे तदुवलंभादो । एवं तिसमय-चदुसमयादिभुजगारसंकमकालवियप्पा समुप्पाएयव्वा जाव उक्कस्सेण अंतो-मुहुत्तमेत्तचरिमुव्वेल्लणखंडयुकीरणद्वापमाणो सम्मामिच्छत्तभुजगारसंकामयकालो संजादो ति । संपहि सम्मामिच्छत्तस्स पयारंतरेणाधि अंतोमुहुत्तमेत्तभुजगारुक्कस्सकालसंभवपदुप्पा-यणट्ठं सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ ।

❀ अथवा सम्मत्तमुप्पादेमाणयस्स वा तदो खवेमाणयस्स वा जो गुणसंकमकालो सो वि भुजगारसंकामयस्स कायव्वो ।

§ ३६७. कुदो ? गुणसंकमविसए भुजगारसंकमं मोत्तण पयारंतरासंभवादो ।

❀ अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३६८. सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३६६. यहाँ पर सर्व प्रथम एक समयकी प्ररूपणा करते हैं । यथा—उद्वेलना करने वाले मिथ्यादृष्टिके द्वारा मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमे अन्तिम उद्वेलना काण्डककी प्रथम फालिके गुणसंकमके द्वारा संक्रमित करने पर एक समय तक भुजगार संक्रम होकर सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके प्रथम समयमे अल्पतर संक्रम हो गया । इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार संक्रमका जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । अथवा दो समय काल है, क्योंकि पहलेके समान उद्वेलना करनेवाले जीवके द्वारा दो समय तक अन्तिम उद्वेलना काण्डकको संक्रमा कर सम्यक्त्वको उत्पन्न करने पर उक्त दो समय काल उपलब्ध होता है । इस प्रकार दो समय और तीन समय आदि भुजगार संक्रम कालके विकल्प उत्कृष्टसे अन्तर्मुहूर्त मात्र अन्तिम उद्वेलना काण्डकके उत्कीर्ण काल प्रमाण सम्यग्मिथ्यात्व सम्बन्धी भुजगार संक्रामक कालके उत्पन्न होने तक उत्पन्न करने चाहिए । अब सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार संक्रमका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त प्रमाण प्रकारान्तरसे भी सम्भव है इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

❀ अथवा सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवालेका तथा क्षपणा करनेवालेका जो गुण संक्रमका काल है वह भी भुजगार संक्रामकका करना चाहिए ।

§ ३६७. क्योंकि गुणसंकममे भुजगार संक्रमको छोड़कर अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है ।

❀ अल्पतर संक्रामकका कितना काल है ?

§ ३६८. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३६६. सम्मामिच्छतादो वेदयसम्मत्तं मिच्छत्तं वा गंतूण तत्थ सव्वजहण्णंतो-
मुहुत्तमेत्तकालमप्पयरसंकमं कादूण पुणो सम्मामिच्छत्तमुवणमिय असंक्रामयभावेण परिणदम्मि
तदुवलंभादो । अहवा सम्मामिच्छतादो वेदयसम्मत्तं गंतूणंतोमुहुत्तमप्पयरसंकमं करिय
सव्वलहुं खवणाए अब्भुट्टिदस्स अपुव्वकरणपढमसमए भुजगारसंकमपारंभेण पयदजहण्ण-
कालो वत्तव्वो ।

❀ एयसमयो वा ।

§ ३७०. एदस्स संभवविसयो उच्चदे । तं जहा—चरिमुव्वेल्लणङ्कंडयं गुणसंकमेण
संक्रामेतएण सम्मत्तमुप्पाइदं । तस्स पढमसमए विज्झादेणप्पयरसंकमो जादो । पुणो विदिय-
समए गुणसंकमपारंभेण भुजगारसंकमो जादो, लद्धो एयसमयमेत्तो सम्मामिच्छत्तप्पयर-
संकमकालो । संपहि तदुकस्स कालणिद्वेसकरणदुं सुत्तमोइण्णं ।

❀ उक्कस्सेण छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ३७१. तं जहा—अणादियमिच्छाइड्डिउवसमसम्मत्तमुप्पाइय गुणसंकमकाले
वोलीणे विज्झादसंकमेणप्पयरपारंभं कादूण वेदयसम्मत्तं पडिवज्जिय अंतोमुहुत्तूण छावट्टि-
सागरोवमाणि परिभमिय दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्टिदो तस्सापुव्वकरणप्पढमसमए
गुणसंकमपारंभेण अप्पयरसंकमस्साभावो जादो । एवं सादिरेयछावट्टिसागरोवममेत्तो सम्मा-
मिच्छत्तप्पयरसंकमकालो लद्धो होइ । उवसमसम्मत्तकालभंतरे विज्झादं पदिदस्स असंखेज्ज-

§ ३६६. क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वसे वेदक सम्यक्त्व या मिथ्यात्वको प्राप्त कर वहाँ पर सबसे
जघन्य अन्तर्मुहूर्त काल तक अल्पतर संक्रमको करके पुनः सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर जो
असंक्रामक भावको प्राप्त होता है उसके उक्त काल उपलब्ध होता है । अथवा सम्यग्मिथ्यात्वसे
वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर अन्तर्मुहूर्त काल तक अल्पतर संक्रम करके अतिशीघ्र क्षपणाके लिए
उद्यत हुए जीवके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो जानेसे प्रकृत जघन्य काल
कहना चाहिए ।

❀ अथवा जघन्य काल एक समय है ।

§ ३७०. यह कहाँ पर सम्भव है इसे बतलाते हैं । यथा—अन्तिम उद्वेलना काण्डकको गुण-
संक्रमके द्वारा संक्रमित करनेवाले जीवने सम्यक्त्वको उत्पन्न किया । उसके प्रथम समयमें विध्यात
संक्रमके द्वारा अल्पतर संक्रम हुआ । इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रमका जघन्य काल
एक समय प्राप्त हो गया । अब उसके उत्कृष्ट काल का निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

❀ उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागर प्रमाण है ।

§ ३७१. यथा—एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके गुण संक्रमके
व्यतीत हो जाने पर विध्यात संक्रमके द्वारा अल्पतर संक्रमका प्रारम्भ करके तथा वेदक सम्यक्त्वको
प्राप्त हो अन्तर्मुहूर्त कम छ्यासठ सागर काल तक उसके साथ परिभ्रमण करके दर्शनमोहनीयकी
क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो
जाने से अल्पतरसंक्रमका अभाव हो गया । इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रमका उत्कृष्ट

भागवद्गीए भुजगारसंकमो चैव होइ, तत्थ सम्मामिच्छत्तादो सम्मत्तं गच्छमाणद्व्वं पेक्खि-
ऊण मिच्छत्तादो सम्मामिच्छत्तागच्छमाणद्व्वस्सासंखेज्जगुणत्तदंसणादो त्ति भणंताण-
माइरियाणमहिप्पाएण देसूण छावट्टिसागरोवममेत्तो सम्मामिच्छत्तप्पयरसंकमकालो होइ;
तत्थ सुत्ताविरोहो जाणिय वत्तव्वो ।

❀ अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३७२. सुगमं ।

❀ जहणुक्कस्सेण एयसमयो ।

§ ३७३. एदं पि सुगमं ।

❀ अणंताणुबंधोणं भुजगारसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ।

§ ३७४. सुगमं ।

❀ जहणोण एयसमयो ।

§ ३७५. कुदो ? मिच्छइट्टिस्स एयसमयं भुजगारसंकमेण परिणमिय विदियसमए
अप्पदरमवट्टिदभावं वा गयस्स तदुवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण पत्तिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ३७६. तं जहा —थावरकायादो आगंतूण तसकाएसुप्पण्णस्स जाव पत्तिदोवमा-

काल साधिक छयासठ सागर प्रमाण प्राप्त हो गया । उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर विध्यातसंक्रम
को प्राप्त हुए जीवके असंख्यातभागवृद्धिके द्वारा भुजगारसंक्रम ही होता है, क्योंकि वहाँ पर सम्य-
ग्मिथ्यात्वमेसे सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले द्रव्यको देखते हुए मिथ्यात्वमेसे सम्यग्मिथ्यात्वमे आने-
वाला द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है ऐसा कथन करनेवाले आचार्योंके अभिप्रायानुसार सम्य-
ग्मिथ्यात्वका अल्पतरसंक्रमकाल कुछ कम छयासठ सागरप्रमाण होता है सो यहाँ पर जिस प्रकार
सूत्रसे अविरोध हो ऐसा जानकर कथन करना चाहिए ।

* अवत्तव्वसंकमका कितना काल है ?

§ ३७२. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्टकाल एक समय है ।

§ ३७३. यह सूत्र भी सुगम है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके भुजगारसंकामकका कितना काल है ।

§ ३७४. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३७५. क्योंकि जो मिथ्यादृष्टि जीव भुजगारसंक्रमरूपसे परिणमन करके दूसरे समयमे
अल्पतर या अवस्थित भावको प्राप्त हो गया है उसके उक्त काल उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ३७६. यथा—स्थावरकायमेसे आकर त्रसकायिकोंमे उत्पन्न हुए जीवके पल्यके असंख्यातवें

संखेज्जभागमेत्त कालो गच्छदि ताव आगमो बहुगो, णिज्जरा थोवयरा होइ; तम्हा पलिदो-
वमासंखेज्जभागमेत्तो पयद भुजगारसंकमुक्कस्स कालो ण विरुज्जदे ।

❀ अप्पदरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३७७. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमञ्चो ।

§ ३७८. एदं पि सुगमं ।

❀ उक्कस्सेण बेञ्जावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

§ ३७९. तं जहा—पुत्रं पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तकालमप्यरसंक्रमं कादूण पुणो
सम्मत्तमुप्पाइय पढम विदिय छावट्टीओ? जहाकममणुपालिय तदवसाणे अणंताणुवंधि-
विसंजोयणाए अञ्चुट्टिदेणापुत्रकरणपढमसमए पारद्वगुणसंक्रमेणप्यरसंकमसंताणस्स
विच्छेदो कदो । एवमेसो पलिदोवमासंखेज्जभागेण सादिरेयवेञ्जावट्टिसागरोवमेत्तो अणं-
ताणुवंधीणमप्यरसंकमुक्कस्सकालो होइ ।

❀ अवट्टिदसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३८०. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमञ्चो ।

§ ३८१. एदं पि सुगमं ।

भागप्रमाणकालके जाने तक आय बहुत होती है और निर्जरा उसकी अपेक्षा स्तोक होती है, इसलिए
प्रकृत भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण विरोधको नहीं प्राप्त होता ।

* अल्पतरसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३७७. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३७८. यह सूत्र भी सुगम है ।

* उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ ३-९ यथा—पहले पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक अल्पतरसंक्रम करके पुनः
सम्यक्त्वको उत्पन्नकर प्रथम और द्वितीय छयासठसागरका क्रमसे पालनकर उसके अन्तमे अनन्ता-
नुवन्धीकी विसयोजनाके लिए उद्यत हुए जीव अपूर्वकरणके प्रथम समयमे गुणसंक्रमका प्रारम्भकर
अल्पतरसंक्रमकी सन्तानका विच्छेद किया । इस प्रकार अनन्तानुवन्धियोंके अल्पतरसंक्रमका यह
उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवें भाग अधिक दो छयासठ सागर प्रमाण होता है ।

* अवस्थितसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३८०. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्यकाल एक समय है ।

§ ३८१. यह सूत्र भी सुगम है ।

❀ उक्त्सेण संखेज्जा समयया ।

§ ३८२. आगमणिज्जराणं सरिसत्तवसेण सत्तट्टसमएसु अवट्टिदसंकमसंभवे विरोहा-
भावादो ।

❀ अवत्तव्वसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३८३. सुगमं ।

❀ जहणुक्त्सेण एयसमओ ।

§ ३८४. विसंजोयणापुव्वसंजोगणवक्कंधावलियवदिककंतपढमसमए तदुवलंभादो ।

❀ बारसकसाय-पुरिसवेद-मय-दुगुंछाणं भुजगार-अप्पदरसंकमो केव-
चिरं कालादो होदि ?

§ ३८५. सुगमं ।

❀ जहणणेणयसमओ ।

§ ३८६. भुजगारादो अप्पयरमप्पयरादो वा भुजगारं गयस्स तदणंतरसमए पदंतर-
गमणेण तदुवलंभादो ।

❀ उक्त्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ३८७. एइंदिएहिंतो पंचिदिएसु पंचिदिएहिंतो वा एइंदिएसुप्पणस्स जहाकमं

* उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

§ ३८२. क्योंकि आय और निर्जराके समान होनेके कारण सात-आठ समय तक अवस्थित-
संकम सम्भव है इसमें कोई विरोध नहीं आता ।

अवत्तव्वसंकामकका कितना काल है ?

§ ३८३. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३८४. क्योंकि विसंयोजनापूर्वक सयोग होने पर जो नवकवन्ध होता है उसकी बन्धावलिके
व्यतीत होने के प्रथम समयमें उस कालकी उपलब्धि होती है ।

* बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतरसंकमका
कितना काल है ?

§ ३८५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३८६. क्योंकि भुजगारसे अल्पतरको या अल्पतरसे भुजगारको प्राप्त हुए जीवके तदनन्तर
समयमें दूसरे पदको प्राप्त करनेसे उक्त काल उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ३८७. क्योंकि एकेन्द्रियोंसे पञ्चेन्द्रियोंमें अथवा पञ्चेन्द्रियोंसे एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न हुए

तदुभयकालस्स तप्पमाणत्तसिद्धीए विरोहाभावो । णवरि पुरिसवेदस्स सम्माइट्ठिम्मि
तदुभयमुक्कस्सकालसंभवो दट्ठवो ।

❀ अवट्ठिदसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३८८. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ३८९. सुगममेदं ।

❀ उक्कस्सेण संखेज्जा समया ।

§ ३९०. संखेज्जसमए मोत्तण ततो उवरि संतक्कम्मावट्ठणाभावेण तदणुसारिणो
संकमस्स वि तहाभावसिद्धीए विरोहादो ।

❀ अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३९१. सुगमं ।

❀ जहणणुक्कस्सेण एयसमओ ।

§ ३९२. सव्वोप्पसामणापडिवादपढमसमयादो अण्णत्थ तदसंभवणिण्णयादो ।

❀ इत्थिवेदस्स भुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ।

§ ३९३. सुगमं ।

जीवके यथाक्रम उन दोनों के काल के उक्त प्रमाण सिद्ध होनेमें विरोध नहीं आता । इनकी विशेषता है कि पुरुषवेदके उक्त दोनों पदों का उत्कृष्ट काल सम्यग्दृष्टि जीवके सम्भव जानना चाहिए ।

* अवस्थितसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३८८. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३८९. यह सूत्र सुगम है ।

* उत्कृष्ट काल संख्यात समय है ।

§ ३९० क्योंकि संख्यात समयको छोड़कर उससे अधिक काल तक सत्कर्मका सग्नरूपसे अवस्थानका अभाव होनेसे उसके अनुसार होनेवाले संक्रमका भी उससे अधिक काल तक सिद्ध होनेमें विरोध आता है ।

* अवत्तव्यसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३९१. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ३९२ क्योंकि सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयके सिवा अन्यत्र उसका होना असम्भव है ऐसा निर्णय है ।

* स्त्रीवेदके भुजगारसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३९३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जहणोण एयसमओ ।

§ ३६४. तं कथं ? अण्णवेदबंधादो एयसमयमित्थिवेदबंधं कादूण तदणंतरसमए पुणो वि पडिवक्खवेदबंधमाढविय बंधावलियवदिककंतसमए कमेण संकामेमाणयस्स एयसमयमेत्तो इत्थिवेदस्स भुजगारसंकमकालो जहणकालो होइ ।

❀ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ३६५. सगबंधगद्धाए सव्वत्थेय बंधावलियादिककंतसमयपवद्धसंकमवसेण तेत्तियमेत्तकालं भुजगारसिद्धीए णिव्वाहमुवलंभादो । अधवा गुणसंकमकालो धेत्तव्वो ।

❀ अप्पयरसंकमं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ३६६. सुगमं ।

❀ जहणोण एगसमओ ।

§ ३६७. तं जहा—इत्थिवेदं बंधमाणो एगसमयं पडिवक्खपयडिवंधं कादूण पुणो वि इत्थिवेदं चेव बंधिय बंधावलियवदिकमे एगसमयमप्पयरसंकामगो जादो लद्धो एगसमयमेत्त जहणकालो ।

❀ उक्कस्सेण बेह्मावडिसागरोवमाणि संखेज्जवस्स^१व्वहियाणि ।

* जघन्यकाल एक समय है ।

§ ३६४. शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि अन्य वेदके बन्धके बाद एक समय तक स्त्रीवेदका बन्ध करके उसके बाद दूसरे समयमे फिर भी प्रतिपत्त वेदका बन्ध करके बन्धावलिको बिताकर अनन्तर समयमे क्रमसे संक्रमण करनेवाले जीवके स्त्रीवेदके भुजगारसंकमका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ३६५. क्योंकि अपने बन्धक कालमें सर्वत्र ही बन्धको प्राप्त हुए समयप्रवद्धोंका बन्धावलि के बाद संक्रम होनेसे भुजगार संक्रमका उतना काल निर्वाधरूपसे सिद्ध होता हुआ उपलब्ध होता है । अथवा यहाँ पर गुणसंकमका काल ग्रहण करना चाहिए ।

* अल्पतरसंकमका कितना काल है ?

§ ३६६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ३६७. यथा—स्त्रीवेदका बन्ध करनेवाला जीव एक समय तक प्रतिपत्त प्रकृतिका बन्ध करके फिर भी स्त्रीवेदका ही बन्ध करके बन्धावलिके व्यतीत होने पर एक समय तक स्त्रीवेदका अल्पतरसंकमक हो गया । इस प्रकार एक समयमात्र जघन्य काल उपलब्ध हुआ ।

* उत्कृष्ट काल संख्यात वर्ष अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ ३६८. तं जहा—पठमसम्मत्तं गेण्हमाणो पुव्वमेव अंतोमुहुत्तमत्थि ति इत्थिवेदस्स अप्पदरसंक्रमं कादूण सम्मत्तमुप्पाइय तदो वेदगसम्मत्तं पडिवज्जिय पठमछावट्ठिमप्पयर संक्रमेणाणुपालिय तदवसाणे सम्मामिच्छत्तेणंतरिय पुणो वेदगसम्मत्तं घेत्तण विदियछावट्ठि- अप्पयरसंक्रमणुपालेमाणो अट्ठवस्सूण तेत्तीससागरोवममेत्तकालं देवेषु भमिय तदो पुव्वकोडाउअमणुसेसुववण्णो तत्थ गव्भादिअट्ठवस्साणमंतोमुहुत्तअहियाणमुवरि दंसणमोह- णीयं खविय पुव्वकोडिजीविदावसाणे तेत्तीससागरोवमियदेवेषुवज्जिय ततो क्रमेण चुदो संतो पुणो वि पुव्वकोडाउअमणुसेसुववण्णो अंतोमुहुत्तावसेसे जीविदव्यए खवणाए अब्धुट्ठिदो तस्स धापवत्तकरणचरिमसमए पयदप्पयरकालपरिसमत्ती जादा । तदो देसूणपुव्वको- डीहि सादिरेयवेछावट्ठिसागरोवममेत्तो पयदुक्कस्सकालो लद्धो होइ ।

❀ अवत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो ?

§ ३६९. सुगमं ।

❀ जहणुक्कस्सेण एयसमत्तो ।

§ ४००. सव्वोवसामणापडिवादपठमसमए चेव तदुवलंभादो ।

❀ एवुंसयवेदस्स अप्पयरसंक्रमो केवचिरं कालादो ?

§ ४०१. सुगममेदं पुच्छासुत्तं ।

§ ३६८. यथा—प्रथम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेवाला कोई जीव अन्तर्मुहूर्तकाल पहले ही स्त्रीवेदका अल्पतरसंक्रम करके और सम्यक्त्वको उत्पन्न करके उसके बाद वेदकसम्यक्त्वको उत्पन्न करके प्रथम छयासठ सागर काल तक अल्पतरसंक्रमको करते हुए उसके अन्तर्मे सम्यग्भि- थ्यात्त्वके द्वारा वेदकसम्यक्त्वका अन्तर करके इसके बाद पुनः वेदक सम्यक्त्वको ग्रहण कर दूसरी बार छयासठ सागर काल तक अल्पतरसंक्रमको करते हुए आठ वर्ष कम तेतीस सागर काल देवों मे व्यतीत कर उसके बाद पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ । वहाँ पर गर्भ से लेकर आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके बाद दर्शनमोहनीयकी क्षणा करके पूर्वकोटिप्रमाण जीवनके अन्तर्मे तेतीस सागरकी आयुवाले देवोंमें उत्पन्न होकर फिर वहाँ से क्रमसे च्युत होता हुआ फिर भी पूर्वकोटिकी आयुवाले मनुष्योंमे उत्पन्न हुआ । वहाँ जीवनेमे अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर क्षणा के लिए उद्यत हुआ । उसके अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे प्रकृत अल्पतर संक्रमकी समाप्ति हो गई । इसलिए प्रकृत उत्कृष्ट काल कुछ कम दो पूर्वकोटि अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण प्राप्त हुआ ।

❀ अवत्तव्वसंक्रमका कितना काल है ?

§ ३६९. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जयन्त्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ४००. क्योंकि सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयमें ही अवत्तव्वसंक्रम उपलब्ध होता है ।

❀ नपुंसकवेदके अल्पतरसंक्रमका कितना काल है ?

§ ४०१. यह पृच्छासूत्र सुगम है ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ४०२. एदं पि सुगमं; इत्थिवेदप्परजहण्णकालेण समाणपरूवणत्तादो ।

❀ उक्कस्सेण वे छावट्टिसागरोवमाणि तिण्णिण पलिदोवमाणि सादि-
रेयाणि ।

§ ४०३. एदस्स वि कालस्स परूवणा इत्थिवेदप्परुक्कस्सकालेण समाणा ।
णवरि पढमं तिपलिदोवमिण्णसुप्पज्जिय णवुंसयवेदस्सप्परसंकमं कुणमाणो तदवसाणे
सम्मत्तलभेण वेछावट्टिसागरोवमाणि संखेज्जस्साहियाणि हिंडावेयव्वो ।

❀ सेसाणि इत्थीवेदभंगो ।

§ ४०४. सेसाणि भुजगारावत्तव्वपदाणि णवुंसयवेदपडिवद्धाणि इत्थिवेदभंगेणाणुगं-
तव्वाणि, भुजगारस्स जहणणेण एयसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं, अवत्तव्वस्स जहण्णुक-
स्सेण एयसमओ ति एदेण भेदाभावादो ।

❀ हस्सं-रइ-अरइसोगाणं भुजगार-अप्परसंकमो केवचिरं कालादो
होदि ?

§ ४०५. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ४०२. यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि स्त्रीवेदके अल्पतरसंक्रमके जघन्य कालके समान
इसका कथन है ।

* उत्कृष्ट काल तीन पत्य अधिक दो छयासठ सागरप्रमाण है ।

§ ४०३. इस कालकी प्ररूपणा स्त्रीवेदके अल्पतरसंक्रमके उत्कृष्ट कालके समान है । इतनी
विशेषता है कि सर्वप्रथम तीन पत्यकी आयुवालोंमे उत्पन्न होकर नपुंसकवेदके अल्पतरसंक्रमको
करके उसके अन्तमे सम्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ संख्यात वर्ष अधिक दो छयासठ सागर काल तक
परिभ्रमण करावे ।

* शेष पदों का भङ्ग स्त्रीवेदके समान है ।

§ ४०४. नपुंसकवेदसे सम्बन्ध रखनेवाले शेष भुजगार और अवक्तव्यपद स्त्रीवेदके भङ्गके
समान जानने चाहिए, क्योंकि भुजगारसंक्रमका जघन्य काल एक समय है । और उत्कृष्ट काल
अन्तर्मुहूर्त है तथा अवक्तव्यसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है इस प्रकार इस द्वारा
दोनोंके कथन मे कोई भेद नहीं है ।

* हास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार और अल्पतर संक्रमका कितना
काल है ?

§ ४०५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ४०६. इत्थिवेदस्सेव एसो जहण्णकालो साहेयन्नो ।

❀ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४०७. अप्पप्पणो बंधकाले भुजगारसंक्रमो होइ, पडिवक्खपयडिवंधकाले एदेसिमप्पयरसंक्रमो होदि त्ति पयदुक्कस्सकालसिद्धी वत्तव्वा ।

❀ अवत्तव्वसंक्रमो केवच्चिरं कालादो होदि ।

§ ४०८. सुगमं ।

❀ जहरण्णक्कस्सेण एयसमओ ।

§ ४०९. सुगमं । एवमोघेण कालाणुगमो कादूण संपहि आदेसपरूवणट्टमुत्तरसुत्तं भणइ ।

❀ एवं चडुगदोसु ओघेण साधेदूण णेदव्वो ।

§ ४१०. एवमेदीए दिसाए चदुसु वि गदीसु भुजगारादिसंक्रमयाणं कालो ओघपरूवणाणुसारेण चितिय णेदव्वो त्ति वुत्तं होइ । संपहि एदेण सुत्तेण सूचिदमत्थ-मुच्चारणावलंबणेण वत्तइस्सामो । तं जहा—आदेसेण णेरइय०—मिच्छ० भुज० अवट्ठि० अवत्त० संका० ओघं । अप्प० संका० जह० एयस० । उक्क० तेत्तीसं सागरोपमाणि देसणाणि । सम्म० भुज० अवत्त० ओघं । अप्प० संका० जह० एयस० उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । सम्मामि० भुज० संका० जह० एयसमओ । उक्क० अंतोमुहुत्तं ।

§ ४०६ स्त्रीवेदके इन पदोंके जघन्य काल के समान यह जघन्य काल साध लेना चाहिए ।

❀ उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्ते है ।

§ ४०७ अपने अपने बन्धकालमे भुजगारसंक्रम होता है तथा प्रतिपक्षप्रकृतिके बन्धकालमें इनका अल्पतरसंक्रम होता है इस प्रकार प्रकृत उत्कृष्ट कालकी सिद्धि कहनी चाहिए ।

❀ अवक्तव्य संक्रमका कितना काल है ?

§ ४०८ यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

§ ४०९. यह सूत्र सुगम है इस प्रकार ओघमे कालका अनुगम करके अब आदेश का कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

❀ इस प्रकार चारों गतियोंमें ओघसे साध कर ले जाना चाहिए ।

§ ४१०. 'एवं' अर्थात् इस दिशाके अनुसार चारों ही गतियोंमें भुजगार आदि संक्रामकोंका काल ओघपरूपणाके अनुसार विचार कर ले जाना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इस सूत्रके द्वारा सूचित हुए अर्थको उच्चारणाका अवलम्बन लेकर बतलाते हैं । यथा—आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके भुजगार अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकका काल ओघके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेत्तीस सागर है । सम्यक्त्वके भुजगार और अवक्तव्य संक्रामकका काल ओघके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । सम्यग्मिथ्यात्वके

अप्य० संका० जह० एयस० । उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखूणाणि । अवत्त० ओघं० । अणंताणु०४ भुज० अवट्टि० अवत्त० संका० ओघं० । अप्य० संका० मिच्छत्तभंगो । वारसक०-पुरिसवेद-छण्णोक्कसाय ओघभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि । इत्थिवेद-णवुंस० भुज० ओघं । अप्य० संका० जह० एयस० । उक्क० तेत्तीसं सागरो० देखूणाणि । एवं सत्तमाए । एवं छसु उवरिमासु पुढवीसु । णवरि सगट्टिदी । अणंताणु०४ अप्यद० देखूणत्तं णत्थि ।

§ ४११. तिरिक्खेसु मिच्छ० भुज० अवट्टि० अवत्त० ओघं । अप्य० संका० जह० एयस० । उक्क० तिण्णि पलिदो० देखूणाणि । सम्म० णारयभंगो । सम्मामि० भुज० अवत्त० संका० णारयभंगो । अप्य० संका० जह० एयस० । उक्क० तिण्णि पलिदो० देखूणाणि । अणंताणु०४ भुज० अवट्टि० अवत्त० ओघं । अप्य० संका० जह० एयस० । उक्क० तिण्णि पलिदो० सादिरेयाणि । वारसक०-पुरिसवेद-छण्णोक्क०

भुजगार संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । अवक्तव्य संक्रामकका काल ओघके समान है । अनन्तानुवन्धीचतुष्कके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य-संक्रामकका काल ओघके समान है । अल्पतर संक्रामकका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । वारह कषाय, पुरुषवेद और छहनोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि यहाँ पर इनका अवक्तव्य पद नहीं है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके भुजगार संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । इसी प्रकार सातवीं पृथिवीमें जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार छह ऊपरकी पृथिवियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ तेतीस सागर कहा है वहाँ अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए । तथा अनन्तानुवन्धी चतुष्कके अल्पतर संक्रामकका देशोनपना नहीं है ।

विशेषार्थ—सामान्यसे नारकियोंमें और सातवीं पृथिवीके नारकियोंमें वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी-चतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है, क्योंकि इस कालके भीतर इनका सर्वदा अल्पतर संक्रम सम्भव है । शेष कालप्ररूपणा ओघको देखकर जो यहाँ सम्भव हो उसे घटित कर लेना चाहिए । जहाँ ओघसे कालमें कुछ विशेषता है उसका निर्देश किया ही है ।

§ ४११. तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्वके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । सम्यक्त्वका भङ्ग नारकियोंके समान है । सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अवक्तव्य संक्रामकका भङ्ग नारकियोंके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है । अनन्तानुवन्धी चतुष्कके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है । वारह कषाय, पुरुषवेद और छह नोकषायोंका भङ्ग नारकियोंके समान

णारयभंगो । इत्थिवेद-णवुंस० भुज० संका० ओघं । अप्प० संका० जह० एयस० ।
उक्क० तिण्णि पत्तिदोवमाणि । एवं पंचिदियतिरिक्खतिए । णवरि जोणिणो०-इत्थिवेद०-
णवुंस० अप्प० संका० जह० एयस० । उक्क० तिण्णि पत्तिदो० देसूणाणि ।

§ ४१२. पंचि०तिरिक्ख-अपज्ज० - मणुसअपज्ज०-सम्म० - सम्मामि०-सत्तणोक०
भुज० अप्प० संका० जह० एयस० । उक्क० अंतोमु० । सोलसक०-भय०-दुगुंछा०
भुज० संका० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोमु० । अवट्ठि० संका० जह० एयस० ।
उक्क० संखेज्जा समया । अप्प० संका० भुज० भंगो ।

§ ४१३. मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खतियभंगो । णवरि जासि अवत्त० संका०
तासि जहणुक्क० । णवरि मणुस-मणुसपज्ज०-इत्थिवे०-णवुंस० अप्प० संका० जह०

है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके भुजगार संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य है । इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि योनिनी तिर्यञ्चोमे स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है ।

विशेषार्थ—तिर्यञ्चोमे और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें वेदकसन्यक्त्वका काल कुछ कम तीन पल्य है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रामकका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है । इनमें अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अल्पतर संक्रामकका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहनेका कारण यह है कि जिन तिर्यञ्चोमे पहले अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अल्पतर संक्रम किया उसके बाद वे तीन पल्यकी आयुवाले तिर्यञ्चोमें उत्पन्न होकर और वेदक सम्यक्त्वको उत्पन्न कर जीवन भर उनका अल्पतर संक्रम करते रहे उनके इनके अल्पतर संक्रमका साधिक तीन पल्य उत्कृष्ट काल बन जाता है । इनमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकका उत्कृष्ट काल जो तीन पल्य कहा है सो वह ज्ञायिक सम्यग्दृष्टियोंकी अपेक्षासे घटित कर लेना चाहिए । मात्र योनिनी तिर्यञ्चोमे ज्ञायिक सम्यग्दृष्टि नहीं उत्पन्न होते, इसलिए उनमे उक्त काल कुछ कम तीन पल्य प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है, क्योंकि उसका व्याख्यान ओघ प्ररूपणाके समय विशद रूपसे कर आये हैं ।

§ ४१२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तोमे सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सात नोकपायोंके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके भुजगार संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अवस्थित संक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल सख्यात समय है । अल्पतर संक्रामकका भङ्ग भुजगारके समान है ।

विशेषार्थ—उक्त मार्गणाओंकी एक जीवकी कायस्थिति ही अन्तर्मुहूर्त प्रमाण है, इसलिए यहाँ पर उसे ध्यानमे रखकर कालका निरूपण किया । शेष विचार ओघ प्ररूपणाको देखकर कर लेना चाहिए ।

§ ४१३. मनुष्यत्रिकमें पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिकके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि इनमें जिन प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रामक होते हैं उनका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ।

एयस० । उक्० तिष्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडितिभागेण सादिरेयाणि ।

§ ४१४. देवेसु मिच्छ०-सम्मामि०-अणंताणु०-चउक्क०-इत्थिवे०-णवुंस० पारय-
भंगो । णवरि अप्प० संका० जह० एयस० । उक्क० तेत्तीसं सागरोवभाणि ।
सम्म०-वारसक०-पुरिसवे०-छण्णोक्क० पारयमंगो । एवं भवणादि जाव णव भेवज्जा ति ।
णवरि सर्गाड्ढिदी १जाणियव्वा ।

§ ४१५. अणुदिसादि सव्वड्ढा ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिवे०-णवुंस० अप्प०
संका० जहण्णुक्क० जहण्णुक्कस्सड्ढिदी । अणंताणु०-चउक्क० भुज० जहण्णुक्क० अंतोमु० ।
अप्प० संका० जह० अंतोमु० । उक्क० सर्गाड्ढिदी । वारसक०-पुरिसवे०-छण्णोक्क० देवोवंगं ।

इतनी और विशेषता है कि सामान्य मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तकोंमें स्त्रीवेद और नपुंसवेदके अल्पतरसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्य है

विशेषार्थ—सामान्य मनुष्य और मनुष्यपर्याप्त अधिकसे अधिक पूर्वकोटिका त्रिभाग अधिक तीन पल्यतक ही सम्यग्दृष्टि रहते हैं, इसलिए इनमें स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर-संक्रामकका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४१४. देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसक वेदका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनमें उक्त कर्मोंके अल्पतरसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तैंतीस सागर है । सम्यक्त्व, वारह कपाय, पुरुषवेद और छह नोकपायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तक जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति जाननी चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल तैंतीस सागर है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व आदि आठ कर्मोंके अल्पतरसंक्रामकका उत्कृष्टकाल तैंतीस सागर बन जानेसे वह उक्त कालप्रमाण कहा है । सौधर्म कल्पने लेकर नौ ग्रैवेयकतकके देवोंमें भी यह काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति-प्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए । भवनत्रिकोंमें यद्यपि सम्यग्दृष्टि जीव मरकर नहीं उत्पन्न होते फिर भी जो जीव वहाँ उत्पन्न होनेके पूर्व अन्तर्मुहूर्त तक अल्पतर बन्ध कर रहे हैं उनके वहाँ उत्पन्न होने पर और अतिशीघ्र सम्यक्त्वको स्वीकार कर लेने पर उनके भी इन कर्मोंके अल्पतर संक्रामकोंका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण यह काल बन जाता है, इसलिए इनमें भी यह काल अपनी स्थितिप्रमाण कहा है । शेष कथन सुगम है ।

§ ४१५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है । अनन्तानुवन्धी चतुष्कके भुजगारसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त-मुहूर्त है । अल्पतरसंक्रामकका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । वारह कपाय, पुरुषवेद और छह नोकपायोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है ।

विशेषार्थ—उक्त देवोंमें सब जीव सम्यग्दृष्टि ही होते हैं, इसलिए इनमें मिथ्यात्व आदि चारके अल्पतरसंक्रामकोंका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल

§ ४१६. एवं चदुसु गदीसु कालविणिण्णयं कादूण पुणो सेसमग्गणाणं देसा मासयभावेणि दियमग्गणावयवमूदेइंदिएसु पयदकालविहासणड्डमुत्तरं^१ सुत्तपबंधमाह ।

❀ एइंदिएसु सव्वेसिं कम्माणमवत्तव्वसंकमो एत्थि ।

§ ४१७. कुदो ? गुणंतरपडिवत्तिपडिवादिपिबंधणस्स सव्वेसिमवत्तव्वसंकमस्से-इंदिएसु असंभवादो । तदो तव्विसयकालपरूवणं मोत्तूण सेसपदविसयमेव कालणिदेसं कस्सामो ति जाणाविदमेदेण सुत्तेण । तत्थ य मिच्छत्तसंकमो एइंदिएसु एत्थि चेवेत्ति कयणिच्छयो सेसपयडीणमेव भुजगारादिपदविसयकालाणुसारेण विहाणड्डमुत्तरं^२ पबंधमाढवेइ ।

❀ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगारसंकामओ केवचिर कालादो होदि ?

§ ४१८. सुगमं ।

❀ जहएणेण एयसमओ ।

अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका सम्यग्दृष्टिके गुणसंक्रमके समय भुजगारसंक्रम होता है, और गुणसंक्रमका काल अन्तमुहूर्त है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके भुजगारसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुहूर्त कहा है। यहाँ पर इनके अल्पतर सक्रामकोंका जघन्य काल अन्तमुहूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण है यह स्पष्ट ही है। शेष कथन सुगम है।

§ ४१६. इसी प्रकार चारों गतियोंमें कालका निर्णय करके पुनः शेष मार्गणाओंके देशा-मर्षकरूपसे इन्द्रिय मार्गणाके अवयवभूत एकेन्द्रियोंमें प्रकृत कालका व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

❀ एकेन्द्रियोंमें सब कर्मोंका अवक्तव्य संक्रम नहीं है ।

§ ४१७. क्योंकि अन्य गुणस्थानको प्राप्त होकर वहाँसे गिरनेके कारण होनेवाला सब कर्मोंका अवक्तव्य संक्रम एकेन्द्रियोंमें असम्भव है। इसलिए तद्विषयककालकी प्रख्याण छोड़कर शेष पदविषयक कालका ही यहाँ पर निर्देश करते हैं इस प्रकार इस सूत्र द्वारा इस बातका ज्ञान कराया गया है। उसमें भी एकेन्द्रियोंमें मिथ्यात्वका संक्रम नहीं ही होता ऐसा निश्चय करके शेष प्रकृतियोंके ही भुजगार आदि पदोंके कालके अनुसार व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धका आलोचन करते हैं—

❀ सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार संक्रामकका कितना काल है ?

§ ४१८ यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य काल एक समय है ।

§ ४१६. कुदो ? चरिमुव्वेत्तणखंडयदुचरिमफालीए सह तत्थुप्पणस्स विदियस-
मयम्मि तदुवलंभादो । दुचरिमुव्वेत्तणखंडयचरिमफालिसंकमादो चरिमुव्वेत्तणखंडय-
पढमफालिं संक्रामिय तदणंतरसमए तत्तो णिस्सारिदस्स वा तदुवलंभसंभवादो ।

❀ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४२०. कुदो ? चरिमट्टिदीखंडयउत्कीरणकालस्साण्णाहियस्स भुजगारसंकम-
विसईकयस्स तत्थुवलंभादो ।

❀ अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४२१. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमत्तो ।

§ ४२२. कुदो ? दुचरिमुव्वेत्तणखंडय दुचरिमफालीए सह तत्थुव्वणयम्मि तदुवलद्वीदो।

❀ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ४२३. कुदो ? अप्पदरसंकमाविणाभाविदीहुव्वेत्तणकालावलंबणादो ।

❀ सोलसकसाय-भयदुगुंछाणमोघ अपच्चक्खाणावरणभंणो ।

§ ४१६. क्योंकि चरम उद्वेलना काण्डककी द्विचरम फालिके साथ वहाँ उत्पन्न हुए जीवके दूसरे समयमे उक्त प्रकृतियोंके भुजगार संक्रमका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है । अथवा द्विचरम उद्वेलना काण्डककी चरम फालिके संक्रमके बाद चरम उद्वेलना काण्डककी प्रथम फालिको संक्रमाकर उसके अनन्तर समयमे वहाँसे निकले हुए जीवके जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४२०. क्योंकि एकेन्द्रियोंमे भुजगार संक्रमका विषयभूत चरम स्थिति काण्डकका उत्कीरणकाल न्यूनाधिकतासे रहित अन्तर्मुहूर्त प्रमाण पाया जाता है ।

* अल्पतर संक्रामकका कितना काल है ?

§ ४२१. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है ।

§ ४२२. क्योंकि द्विचरम उद्वेलन काण्डककी द्विचरम फालिके साथ वहाँ पर उत्पन्न होने पर जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

§ ४२३. क्योंकि अल्पतर संक्रमके अविनाभावी दीर्घ उद्वेलन कालका अवलम्बन लिया गया है ।

* सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघ अप्रत्याख्यानावरणके समान है ।

§ ४२४. कुदो ? भुजगार-अप्पदराणं जह० एगसमओ, उक्क० पलिदो० असंखे० भागो, अवड्ढि० जह० एगस०, उक्क० संखेज्जा समया इच्चेदेण भेदाभावादो ।

❀ सत्तणोकसायाणं ओघ-हस्स-रदीणं भंगो ।

§ ४२५. कुदो ? भुज०अप्प० संकामयाणं जह एयसमओ, उक्क० अंतोसु० इच्चेदेण ततो भेदाणुवलंभादो ।

❀ एयजीवेण अंतरं ।

§ ४२६. एयजीवसंवाधिकालविहासणाणंतरमेयजीवविसेसिदमंतरमेत्तो वत्तइस्सामो त्ति अहियारसंभालणसुत्तमेदं । तस्स य दुविहो णिदेसो; ओधादेसमेएण । तत्थोघणिदेसं ताव कुणमाणो सुत्तपवंधमुत्तरं भणइ ।

❀ मिच्छत्तस्सं भुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४२७. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ वा दुसमओ वा; एवं णिरंतरं जाव तिसम-जणावलिया ।

§ ४२८. तं जहा—पुब्बुप्पणसम्मत्त-मिच्छाइड्ढिणा वेदयसम्मत्ते पडिवण्णे तस्स पढमसमए अत्तव्वसंकमादो विदियसमयम्मि भुजगारसंकमे जादे आदिट्ठा^१ तदो

§ ४२४. क्योंकि ओघसे अप्रत्यारव्यानावरणके भुजगार और अल्पतर संक्रमका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल परल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण तथा अवस्थित संक्रमका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । उससे इसमें कोई भेद नहीं है ।

* सात नोकपायोंके कालका भङ्ग ओघसे हास्य-रतिके समान है ।

§ ४२५. क्योंकि ओघसे हास्य-रतिके भुजगार और अल्पतर संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त वतला आये हैं । उससे इसमें कोई भेद नहीं उपलब्ध होता ।

* अब एक जीव की अपेक्षा अन्तरकालका अधिकार है ।

§ ४२६. एक जीव सम्यन्धी कालका व्याख्यान करनेके बाद आगे एक जीव सम्यन्धी अन्तरकालको वतलाते हैं । इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी सम्हाल करता है । उसका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे सर्वे प्रथम ओघ प्ररूपणाका निर्देश करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* मिथ्यात्वके भुजगार संक्रामकका अन्तर काल कितना है ?

§ ४२७ यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य काल एक समय है, दो समय है । इस प्रकार निरन्तर क्रमसे तीन समय कम एक आवलि प्रमाण है ।

§ ४२८ यथा—पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे मिथ्या दृष्टि होकर वंदक सम्यक्त्वके प्राप्त करने पर उसके प्रथम समयमें हुए अवक्तव्यसंक्रमके बाद दूसरे समयमें भुजगार संक्रमके

तदियसमए - अप्पदरेणावडिदेण वा अंतरियचउत्थसमए पुणो वि भुजगारसंकामगो जादो लद्धमेगसमयमेत्तं पयदजहण्णंतरं । दुसमयो वा पुव्वं व आदिं कादूण दोसु समएसु विरुद्धपदेणंतरिय पुणो पंचसमयम्मि भुजगारसंकमपरिणदम्मि तदुवलद्धीदो । एवं तिसमयचदुसमयादिकमेणेदमंतरं वड्ढाविय णेदव्वं जाव सम्माइडि-पढमावलियविदिय-समए पुव्वं व आदिं कादूण पुणो तदियादिसमएसु पणिवक्खपदसंकमेणंतरिय पढमा-वलियचरिमसमए भुजगारसंकमेण लद्धमंतरं कादूण डिदो ति । एवं कदे तिसमऊणावलियमेत्ता चेव पयदंतरवियप्पा समयुत्तरकमेण लद्धा होंति; एत्तो उवरि लद्धमंतरकरणोवायाभावादो । एवं पुव्वप्पणसम्मत्तमिच्छाइडिपच्छायदवेदयसम्माइडिपढमावलियावलंबणेण तिसमऊणा-वलियमेत्तंतर-वियप्पपदुप्पायणं कादूण एत्तो अण्णत्थ जहण्णंतरमंतोमुहुत्तादो हेक्का णोवलब्भदि ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ ।

❀ अथवा जहण्णे अंतोमुहुत्तं ।

§ ४२६. तं कथं ? उवसमसम्माइडिगुणसंकमेण भुजगारं संकममादिं कादूण विज्झादेणंतरिय पुणो सव्वलहुं दंसणमोहक्खवणाए अब्भुडिदो तस्सापुव्वकरणपढमसमए

होने पर उसका प्रारम्भ हुआ । अनन्तर तीसरे समयमें अल्पतरसंक्रम या अवस्थितसंक्रमके द्वारा अन्तर करके चौथे समयमें फिरसे भुजगार संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो गया । अथवा दो समय अन्तर है, क्योंकि पहले के समान भुजगार संक्रमका प्रारम्भ करके उसके बाद दो समय तक विरुद्ध पदोंके द्वारा अन्तर करके पुनः पाँचवें समयमें भुजगार संक्रमसे परिणत होने पर उक्त दो समय अन्तर कालकी उपलब्धि होती है । इस प्रकार तीन समय और चार समय आदिके क्रमसे अन्तर कालको बढ़ाकर सम्यग्दृष्टिकी प्रथम आवलिके द्वितीय समयमें पहलेके समान भुजगार संक्रमका प्रारम्भ करके पुनः द्वितीयादि समयोंमें प्रतिपत्त पदोंके संक्रमण द्वारा उसका अन्तर करके प्रथम आवलिके अन्तिम समयमें भुजगार संक्रमके द्वारा अन्तरको प्राप्त करके स्थित होने तक ले जाना चाहिए । ऐसा करने पर एक एक समय अधिकके क्रमसे तीन समय कम एक आवलि प्रमाण ही प्रकृत अन्तर कालके विकल्प प्राप्त होते हैं, क्योंकि इनसे अधिक अन्तर करनेका अन्य कोई उपाय नहीं प्राप्त होता । इस प्रकार पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमें आकर पुनः वेदक सम्यग्दृष्टि हुए जीवके प्रथम आवलिके अवलम्बन द्वारा तीन समय कम आवलि प्रमाण अन्तर कालके विकल्पोंको उत्पन्न करके इसके सिवा अन्यत्र जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्तसे कम नहीं उपलब्ध होता इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* अथवा जघन्य अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४२६ शंका—वह कैसे ?

समाधान—कोई उपशम सम्यग्दृष्टि जीव गुणसंक्रमके द्वारा भुजगार संक्रमका प्रारम्भ करके और विध्यात संक्रमके द्वारा उसका अन्तर करके पुनः अति शीघ्र दर्शनमोहकी क्षणके लिए उद्यत हुआ । उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो जाने से प्रकृत अन्तर

गुणसंक्रमपारंभेण पयदंतरपरिसमत्ती जादा लद्धो जहण्णेणंतोमुहुत्तमेत्तो पयदभुजगारं-
तरकालो ।

❀ उक्कस्सेण उवदुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४३०. तं जहा—एकौ अणादियमिच्छाइड्डी पढमसम्मत्तं पडिवज्जिय गुणसंक्रमेण भुजगारसंक्रामगो जादो । तदो सव्वजहण्णगुणसंक्रमकाले वोलीणे अप्पयर-
संक्रमेणंतरिय क्रमेण संक्रामगो होदुणद्वपोग्गलपरियट्टं देसुणं परिभमिय तद्वसाणे अंतो-
मुहुत्तसेसे उवसमसम्मत्तं धेत्तण गुणसंक्रमवसेण भुजगारसंक्रामगो जादो लद्धो आदिल्लं
तिल्लेहिं दोहिं अंतोमुहुत्तेहिं परिहीणद्वपोग्गलपरियट्टमेत्तो पयदुक्कस्संतरकालो ।

❀ एवमप्पदरावट्टिदसंक्रामयंतरं ।

§ ४३१. जहा भुजगारसंक्रामयंतरं परूविदमेवमेदेसिं पि पदाणं परूवेयच्चं; विसेसा-
भावादो । णवरि जहण्णेणंतोमुहुत्तपरूवणा अप्पदरसंक्रमस्स^२ जहण्णमिच्छत्तकालेणं-
तरिदस्स परूवेयव्या । अवट्टिदसंक्रमस्स वि पुव्वुप्पणसम्मत्तेण मिच्छत्तादो सम्मत्त-
मुवगयस्स पढमावलियाए चरिमसमए आदिं कादूण पुणो सव्वजहण्णवेदयसम्मत्तकाल-
सेसेण तप्पाओग्गजहण्णंतोमुहुत्तपमाणमिच्छत्तकालेण चांतरिदस्स पुणो वेदयसम्मत्त-

कालकी समाप्ति हो गई । इस प्रकार प्रकृत भुजगार संक्रमका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्राप्त हो गया ।

* उत्कृष्ट अन्तर काल उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४३०. यथा—एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्त्वको प्राप्त करके गुणसंक्रमके द्वारा भुजगार संक्रामक हो गया । उसके बाद सबसे जघन्य गुणसंक्रमके कालके व्यतीत होने पर उसका अल्पतर संक्रमके द्वारा अन्तर करके तथा क्रमसे असंक्रामक होकर कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उसके अन्तर्मे अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर उपशमसम्यक्त्व को ग्रहण करके गुणसंक्रमके द्वारा भुजगार संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत उत्कृष्ट अन्तरकाल आदि और अन्तर्के दो अन्तर्मुहूर्तोंसे हीन अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण प्राप्त हो गया ।

* इसी प्रकार अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोंका अन्तर काल जानना चाहिए ।

§ ४३१. जिम प्रकार भुजगार संक्रामकका अन्तर काल कहा है उसी प्रकार इन पदोंका भी अन्तर काल कहना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । अथवा इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहना चाहिए । तथा अवस्थित संक्रमका भी, पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वमे मिथ्यात्वमें जाकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम आवलिके अन्तिम समयमें अवस्थित संक्रमको पुनः शेष रहे सबसे जघन्य वेदकसम्यक्त्वके काल द्वारा तथा मिथ्यात्वके तत्प्रायोग्य जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालके द्वारा उसका अन्तर करके पुनः वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसकी प्रथम आवलिके द्वितीय समयमें, अन्तर काल प्राप्त कर लेना चाहिए ।

पडिलंभपठमावलियाए विदियसमयम्मि लद्धमंतरं कायव्वं । एवमुक्सेणुवद्धुपोग्गल-
परियट्टमेत्तंतरपरूवणाए वि जाणिय वत्तव्वं ।

❀ अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४३२. सुगमं ।

❀ जहणणेणंतोमुहुत्तं ।

§ ४३३. सम्माइडिपठमसमए आदिं कादूण विदियादिसमएसु अंतरियसव्वलहुं
मिच्छत्तं गंतूण पडिणियत्तिय पडिवण्णतव्भावम्भितट्टवलद्धीदो ।

❀ उक्सेण उवद्धुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४३४. पठमसम्मत्तगहणपठमसमए लद्धप्पसरूवस्सावत्तव्वसंक्रमस्स पुणो मिच्छत्तं
गंतूण सव्वुक्सेणंतरेण सम्मत्तं पडिवण्णस्स पठमसमए लद्धमंतरमेत्थ कायव्वं ।

❀ सम्मत्तस्स भुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४३५. सुगमं ।

❀ जहणणेण पलिदोवमस्सासंख्वेज्जदिभागो ।

§ ४३६. तं जहा—चरिमुव्वेत्तणकंडयम्मि गुणसंकमेण पयदसंक्रमस्सादिं करिय
तदणंतरसमए सम्मत्तमुप्पाइय असंक्रामगो होदूणंतरिय सव्वलहुं गंतूण सव्वजहणुव्वेत्तण-

इसी प्रकार इनके उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर कालकी प्ररूपणा भी जानकर
करनी चाहिए ।

* अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४३२. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्तप्रमाण है ।

§ ४३३. क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें उसका प्रारम्भ करके तथा द्वितीयादि समयोंमें
अन्तर करके अतिशीघ्र मिथ्यात्वमे जाकर और लौटकर पुनः अवक्तव्य संक्रमके प्राप्त होने पर उक्त
अन्तरकाल प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४३४. प्रथम सम्यक्त्वग्रहणके प्रथम समयमे अवक्तव्यसंक्रमका स्वरूप लाभ किया । पुनः
मिथ्यात्वमे जाकर और सबसे उत्कृष्ट कालतक यहाँ रहकर सम्यक्त्वको प्राप्त कर अवक्तव्यसंक्रम
किया । इस प्रकार यहाँ अवक्तव्यसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए ।

* सम्यक्त्वके भुजगार संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४३५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४३६. यथा—अन्तिम उद्वेलनाकाण्डकमे गुणसंकमेके द्वारा प्रकृत संक्रमका प्रारम्भ
करके उसके अनन्तर समयमे सम्यक्त्वको उत्पन्न कर असंक्रामक होकर और उसका अन्तर

कालेणुव्वेत्तमाणयस्स चरिमट्टिदिखंडए पढमसमए लद्धमंतरं होइ ।

❀ उक्कस्सेण उवडुपोग्गलपरियटं ।

§ ४३७. तं कथं ? अणादियमिच्छाइट्ठी सम्मत्तमुप्पाइय सब्बलहुं मिच्छत्तं गंतूण जहणुव्वेत्तणकालेणुव्वेत्तमाणो चरिमट्टिदिखंडयम्मि भुजगारसंक्रमस्सादिं काट्ठूंतारिय देस्सणद्धपोग्गलपरियट्ठं परिभमिय पुणो पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तसेसे सिज्झणकाले सम्मत्तं घेत्तण मिच्छत्तपडिवादेणुव्वेत्तमाणयस्स चरिमे ट्टिदिखंडए लद्धमंतरं कायव्वं । एवमादिल्लंतिल्लेहि पलिदो० असंखे० भागंतोमुहुत्तेहि परिहीणद्धपोग्गलपरियट्ठमेत्तं पयदुकस्संतरपमाणं होदि ।

❀ अप्पदरावत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४३८. सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४३९. अप्पयरस्स ताव उच्चदे । मिच्छाइट्ठी सम्मत्तस्स अप्पयरसंकमं कुणमाणो सम्मत्तं पडिवण्णो । तत्थ सब्बजहणंतोमुहुत्तमेत्तमंतरिय पुणो मिच्छत्तं गदो, तस्स विदियसमए लद्धमंतरं होइ । अवत्तव्वसंकमस्स वि सम्मत्तादो मिच्छत्तं पडिवण्णस्स पढमसमए

करके अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य उद्वेलना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकके प्रथम समय अन्तरकाल प्राप्त होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर उपार्थपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४३७. शंका—यह कैसे ?

समाधान—जो अनादि मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करके तथा अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें जाकर जघन्य उद्वेलना कालके द्वारा उद्वेलना करता हुआ चरम स्थितिकाण्डकके प्राप्त होने पर भुजगारसंकमका प्रारम्भ करके तथा उसका अन्तर करके कुछ कम अर्ध पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण परिभ्रमण करके पुनः सिद्ध होनेके कालमें पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण शेष रहने पर सम्यक्त्वको ग्रहण कर और मिथ्यात्वमें जाकर पुनः सम्यक्त्वकी उद्वेलना करते हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकमें स्थित होता है उसके भुजगारसंकमका उत्कृष्ट अन्तर काल प्राप्त करना चाहिए । इस प्रकार प्रारम्भके और अन्तके पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण और अन्तर्मुहूर्तसे हीन अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र प्रकृत उत्कृष्ट अन्तरकालका प्रमाण होता है ।

* अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४३८. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४३९. उनमेंसे सर्व प्रथम अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल कहते हैं—एक मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वका अल्पतर संक्रम करता हुआ सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । वहाँ पर सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त प्रमाण कालका अन्तर करके मिथ्यात्वमें गया । उसके दूसरे समयमें यह जघन्य अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार जो जीव सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमें जाकर उसके प्रथम

आदिं कादूण सव्वजहणमिच्छत्तद्धमच्छिय सम्मत्तं घेत्तूण पुणो सव्वलहुं मिच्छत्तं गदस्स पढमसमए लद्धमंतरं कायव्वं ।

❀ उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४४०. तं कथं ? एको अणादियमिच्छाइट्ठी अद्धप्योग्गलपरियट्टादिसमए सम्मत्त-मुप्पाइय सव्वलहुं परिणामपच्चएण मिच्छत्तमुवगओ तदो सम्मत्तस्सुव्वेत्तणावसेणप्पदर-संकमं करेमाणो गच्छदि, जाव सव्वजहणुव्वेत्तणकालेणुव्वेत्तलेमाणयस्स दुचरिमट्ठिदिखंडय-चरिमफालि ति । तत्तोप्पहुडिपयदंतरपारंभं कादूण देसूणमद्धपोग्गलपरियट्टं परियट्टिदूण तदवसाणे अंतोमुहुत्तावसेसे संसारे सम्मत्तं पडिवण्णो संतो पुणो वि मिच्छत्ते पदिदो तस्स विदियसमए अप्पयरसंकामयस्स लद्धमंतरं होइ । एवमवत्तव्वसंकामयस्स वि वत्तव्वं, णवरि अद्धपोग्गलपरियट्टादिसमए पढमसम्मत्तमुप्पाइय सव्वलहुं मिच्छत्तं पडिवण्णस्स पढम-समए पयदसंकमस्सादिं कादूण पुणो दीहंतरेण सम्मतमुप्पाइय मिच्छत्तमुवगयस्स पढम-समयम्मि लद्धमंतरं कायव्वं ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

समयमे अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ करके और सबसे जघन्य काल तक मिथ्यात्वमे रह कर तथा सम्यक्त्वको ग्रहण कर पुनः अतिशीघ्र मिथ्यात्वको प्राप्त होकर उसके प्रथम समयमे अवक्तव्य संक्रम करता है उसके अवक्तव्य संक्रमका भी अन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४४०. शंका—वह कैसे ?

समाधान—एक अनादि मिथ्यादृष्टि जीव अर्धपुद्गल परिवर्तनके प्रथम समय मे सम्यक्त्व उत्पन्न करके अति शीघ्र परिणाम वश मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । अनन्तर सम्यक्त्वकी उद्वेलनाके कारण अल्पतर संक्रमको करता हुआ वह भी सबसे जघन्य उद्वेलना कालके द्वारा उद्वेलना करता हुआ द्विचरमस्थिति काण्डककी अन्तिम फालिके प्राप्त होने तक जाता है । इसके बाद वहाँ से लेकर प्रकृत संक्रमके अन्तरकालका प्रारम्भ करके तथा कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उसके अन्तमे संसारमे रहनेका अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल शेष रहने पर सम्यक्त्वको प्राप्त होकर पुनः मिथ्यात्वमें गया । उसके मिथ्यात्वमे जानेके दूसरे समयमें अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है । इसी प्रकार अवक्तव्य संक्रमका भी अन्तर काल करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अर्धपुद्गल परिवर्तनके प्रथम समयमें प्रकृत संक्रमका प्रारम्भ करावे । पुनः दीर्घ अन्तरकालके बाद सम्यक्त्वको उत्पन्न कराके और मिथ्यात्वमें ले जाकर उसके प्रथम समयमे प्रकृत संक्रमका अन्तरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए ।

* सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पतर संक्रमका अन्तरकाल कितना है ।

§ ४४१. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमत्रो ।

§ ४४२. तं जहा—चरिमुव्वेत्थणकंडयम्मि भुजगारसंकमस्सादिं कादूण तदणंतर-
समए सम्मत्तमुप्पाइय अप्पयरभावेणोयसमयमंतरिय पुणो वि विदियसमए गुणसंकमवसेण
भुजगारसंकामगो जादो लद्धमंतरं । अप्पयरस्स वुच्चदे—दुचरिमुव्वेत्थणकंडयचरिम-
फालीए अप्पयरसंकमं कुणमाणो चरिमुव्वेत्थणखंडयपढमफालिविसयगुणसंकमेणोयसमयमंतरिय
पुणो वि सम्मत्तुप्पत्तिपढमसमए अप्पयरसंकामगो जादो लद्धमंतरं ।

❀ उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४४३. तं जहा—भुजगारसंकमस्स सम्मत्तभंगेण चरिमुव्वेत्थणकंडयम्मि आदिं
कादूणंतरियस्स पुणो दीहंतरेणसम्मत्ते समुप्पाइदे तदियसमयम्मि गुणसंकमवसेण लद्धमंतरं
कायव्वं । अप्पयरसंकमस्स वि सम्मत्त-भंगेण पयदंतरपरुव्वणा कायव्वा । णपरि दीहंतरेण
सम्मत्तं पडिवज्जिय गुणसंकमादो विज्जादे पदिदस्स लद्धमंतरं दड्डुव्वं ।

❀ अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४४४. सुगमं ।

§ ४४१. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४४२. यथा—अन्तिम उद्वेलना काण्डकमे भुजगारसंक्रमका प्रारम्भ करके उसके अनन्तर
समयमें सम्यक्त्वको उत्पन्न कराके उस समय हुए अल्पतरसंक्रमके द्वारा एक समयका अन्तर
देकर पुनः दूसरे समयमें गुणसंक्रम होनेके कारण भुजगारसंक्रामक हो गया । इस प्रकार भुजगार-
संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता है । अब अल्पतर संक्रमका अन्तर काल कहते
हैं—द्विचरम उद्वेलना काण्डककी अन्तिम फालिमे अल्पतर संक्रमको करता हुआ अन्तिम उद्वेलना
काण्डककी प्रथम फालिविषयक गुणसंक्रमके द्वारा उसका अन्तर करके पुनः सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके
प्रथम समयमें अल्पतर संक्रामक हो गया । इस प्रकार अल्पतर संक्रमका जघन्य अन्तर एक समय
प्राप्त हुआ ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थ पुद्गलपरिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४४३. यथा—सम्यक्त्वके समान इसके भुजगार संक्रमका अन्तिम उद्वेलना काण्डकमे
प्रारम्भ करके तथा अनन्तर समयमें उसका अन्तर करके पुनः दीर्घ अन्तर देकर सम्यक्त्वके उत्पन्न
कराने पर उसके तीसरे समयमें गुणसंक्रमके कारण भुजगार संक्रम कराके अन्तरकाल प्राप्त कर
लेना चाहिए । तथा इसके अल्पतर संक्रमकी भी सम्यक्त्वके समान उत्कृष्ट अन्तरकालकी प्ररूपणा
कर लेनी चाहिए । इतनी विशेषता है कि दीर्घ अन्तरके बाद सम्यक्त्वको प्राप्त कराके गुणसंक्रम
होकर विध्यात संक्रमको प्राप्त हुए जीवके अन्तरकाल होता है ऐसा जानना चाहिए ।

* अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४४४. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४४५. तं कथं ? णिस्संतकम्मियमिच्छाइट्ठिणा सम्मत्तमुप्पाइदं तस्स विदिय-
समयम्मि अवत्तव्वसंकमस्सादी दिट्ठा । तदो अंतरिय उवसमसम्मत्तकालावसाणे सासणं
पडिवज्जिय मिच्छत्ते पदिदस्स पढमसमए लद्धमंतरं कायव्वं ।

❀ उक्कस्ससेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं ।

§ ४४६. तं जहा—अद्धपोग्गलपरियट्ठादिसमए सम्मत्तुप्पायगाए वावदस्स विदिय-
समए आदी दिट्ठा । तदो दीहंतरेणंतरिय अंतोमुहुत्तसेसे संसारकाले सम्मत्तुप्पत्तीए
परिणदस्स विदियसमयम्मि लद्धमंतरं होइ ।

❀ अणंताणुबंधीणं भुजगार-अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं ?

§ ४४७. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमत्तो ।

§ ४४८. भुजगारप्पदराणमणप्पिदपदेणोयसमयमंतरिदाणं तदुवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण बेज्जावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

* जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४४५. शंका—वह कैसे ?

* समाधान—सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित किसी एक मिथ्यादृष्टि जीवने सम्यक्त्वको उत्पन्न किया उसके दूसरे समयमें अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ दिखाई दिया । उसके बाद उसका अन्तर करके उपशम सम्यक्त्वके कालके अन्तमे सासादनको प्राप्त होकर मिथ्यात्वमे जाकैर उसके प्रथम समयमे पुनः उसका अवक्तव्य संक्रम किया । इस प्रकार अन्तर्मुहूर्तप्रमाण जघन्य अन्तर काल प्राप्त कर लेना चाहिए ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४४६. यथा—अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कालके प्रथम समयमे सम्यक्त्वके उत्पन्न करनेमे लगे हुए जीवके उसके दूसरे समयमें अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ दिखलाई दिया । उसके बाद दीर्घ काल तक अन्तर देकर संसारमे रहनेका काल अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्वके उत्पन्न करनेमे परिणत हुए जीवके दूसरे समयमे पुनः अवक्तव्य संक्रम होनेसे उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त काल प्रमाण प्राप्त होता है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४४७. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४४८. क्योंकि अनर्पित पदके द्वारा अन्तरको प्राप्त हुए भुजगार और अल्पतर संक्रमका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण हैं ।

§ ४४६. तं जहा—पंचिदिएसु भुजगारसंक्रमस्सादिं कादूणेइं दिएसु पलिदोवमा-
संखेज्जमागमेत्तप्पयरकोलेणंतरिय पुणो असण्णिपंचिदिएसु देवेषु च समयाविरोहेण
जहाकममुप्पज्जिय तदो सम्मत्तं घेत्तूण वेळावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय तदवसाणे
मिच्छत्तं गंतूण भुजगारसंक्रामगो जादो लद्धमंतरं पयदभुजगारसंक्रामयस्स पलिदोवमस्सा.
संखेज्जदिभागेण सादिरेयवेळावट्टिसागरोवममेत्तमुक्कस्सेण संपहि अप्पयरसंक्रमस्स
उच्चदे । तं जहा—एक्को मिच्छाइट्ठी उवसमसम्मत्तं घेत्तूण तक्कालब्भंतरे चेव विसंजोयणाए
अवभुट्टिदो । तत्थापुव्वकरणपढमसमए पयदंतरस्सादिं कादूण क्रमेण वेदयसम्मत्तं पडि-
वज्जिय पढमविदियिळावट्टीओ सम्मामिच्छत्तंतरिदाओ जहाकममणुपालिय तदवसाणे
परिणामपच्चएण मिच्छत्तं गदो तत्थ वि पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तकालं भुजगारसंक्रा-
मओ होदूण तदो अप्पयरसंक्रामओ जादो लद्धमंतरमुक्कस्सेण पदयप्पयरसंक्रामयस्स ।
पुव्विल्लंतोमुहुत्तेण पच्छिल्लपलिदोवमासंखेज्जदिभागेण च सादिरेयवेळावट्टिसागरोवममेत्तं ।

❀ अवट्टिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४५०. सुगमं ।

❀ जहरणणोयसमओ ।

§ ४५१. तं जहा—अवट्टिदसंक्रामादो भुजगारमप्पदरं वा एयसमयं कादूण तदणंतर-
समए पुणो वि अवट्टिदसंक्रामओ जादो लद्धमंतरं ।

§ ४४६. यथा—कोई एक जीव पञ्चेन्द्रियोंमें भुजगार संक्रमका प्रारम्भ करके एकेन्द्रियोंमें
पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रह कर पुनः असंज्ञी पञ्चेन्द्रियों और देवोंमें यथाविधि
क्रमसे उत्पन्न होकर अनन्तर सम्यक्त्वको ग्रहण कर दो छथासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर
उसके अन्तमें मिथ्यात्वमें जाकर भुजगारसंक्रामक हो गया । इसप्रकार प्रकृत भुजगार संक्रामकका
उत्कृष्ट अन्तरकाल पत्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक दो छथासठ सागर प्रमाण प्राप्त हो गया ।
अव अल्पतरसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहते हैं । यथा—कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव उपशम
सम्यक्त्वको ग्रहण कर उस कालके भीतर ही विसंयोजनाके लिए उद्यत हुआ । वहाँ पर वह अपूर्व-
करणके प्रथम समयमें प्रकृत संक्रमके अन्तरकालका प्रारम्भ करके तथा क्रमसे वेदकसम्यक्त्वको
प्राप्त होकर सम्यग्मिथ्यात्वसे अन्तरित प्रथम और द्वितीय छथासठ सागर कालका क्रमसे पालन
करके उनके अन्तमें परिणामवश मिथ्यात्वमें जाकर वहाँ पर भी पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण
कालतक भुजगार संक्रामक होकर अनन्तर अल्पतर संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत अल्पतर
संक्रमकका उत्कृष्ट अन्तरकाल पहलेका अन्तर्मुहूर्त और वादका असंख्यातवाँ भाग अधिक दो
छथासठ सागर प्रमाण प्राप्त हो गया ।

* अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४५०. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४५१. यथा—अवस्थित संक्रमके बाद एक समय तक भुजगार या अल्पतर संक्रम करके
उसके अनन्तर समयमें फिर भी अवस्थित संक्रामक हो गया । इस प्रकार जघन्य अन्तर एक समय
प्राप्त हो गया ।

❀ उक्तस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा ।

§ ४५२. कुदो; एयवारमवट्टिदसंकमेण परिणदस्स पुण्णे तदसंभवेणासंखेज्ज-
पोग्गलपरियट्टमेत्तकालमुक्तस्सेणावट्टाणब्भुवगमादो । असंखेज्ज-लोगमेत्तमुक्तस्संतरमवट्टिद-
पदस्स परूविदमुच्चारणाकारेण कथमेदेण सुत्तेण तस्साविरोहो ति ण, उवएसंतरावलंबणे-
णाविरोहसमत्थणादो ।

❀ अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४५३. सुगमं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४५४. तं जहा-विसंजोयणापुव्वं? संजोमे णवक्कवंधावलियादिकं तपढमसमए-
अवत्तव्वसंकमस्सादिं कादूणंतरिय पुणो सव्वलहुं सम्मत्तं पडिवज्जिय विसंजोएदूण संजुत्तस्स
बंधावलियवदिकमे लद्धमंतरं होइ ।

❀ उक्तस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४५५. तं कथं ? अद्धपोग्गलपरियट्टादिसमए सम्मत्तमुप्पाइय उवसमसम्मत्त-

❀ उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन के बराबर है ।

§ ४५२. क्योंकि एक चार अवस्थित संक्रमसे परिणत हुए जीवके पुनः वह असम्भव होने-
से अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण स्वीकार किया
गया है ।

शंका—उच्चारणाकारने अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण
कहा है, इसलिए सूत्रके साथ उसका अविरोध कैसे घटित होता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उपदेशान्तरके अवलम्बन द्वारा अविरोधका समर्थन किया
गया है ।

❀ अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४५३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४५४. यथा—विसंयोजनापूर्वक संयोग होने पर नवक्कवंधावलिके व्यतीत होनेके प्रथम
समयमें अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ करके और उसका अन्तर करके पुनः अतिशीघ्र सम्यक्त्वको
प्राप्त करके विसंयोजनापूर्वक संयुक्त होनेके बाद वन्धावलिके व्यतीत होने पर पुनः अवक्तव्य-
संक्रम होकर उसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त प्रमाण प्राप्त होता है ।

❀ उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४५५. शंका—यह कैसे ?

समाधान—अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कालके प्रथम समयमें सम्यक्त्वको उत्पन्न करके

कालवभंतरे चेवाणंताणुबंधिचउकं विसंजोइय सव्वलहुं संजुत्तस्स वंधावलियादिकं तपढम-
समए अवत्तव्वसंक्रमस्सादी दिट्ठा । तदो सव्वचिरमंतरिदूणद्धपोग्गलपरियट्ठावसाणे अंतो-
मुहुत्तावसेसे सम्मत्तमुप्पाइय विसंजोयणापुव्वं संजुत्तस्स वंधावलियादिकमे लद्धमंतरं होइ ।

❀ वारसंकसाय-पुरिसवेद-भयदुगुंछाणं भुजगारप्पयरसंकामयंतरं
केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४५६. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ४५७. कुदो ? भुजगारप्पदराणमणप्पिदपदेणेयसमयमंतरिदाणं तदुवल्लद्धीदो ।

❀ उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

§ ४५८. कुदो ? भुजगारप्पयराणमण्णोण्णुक्कस्सकालेणावट्ठिदकालसहिदेणंतरिदाण-
मुक्कस्संतरस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो ।

❀ अवट्ठिदसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४५९. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

उपशमसम्यक्त्व कालके भीतर ही अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके अति शीघ्र संयुक्त हुए जीवके वन्धावलिके व्यतीत होनेके प्रथम समयमे अवक्तव्यसक्रमका प्रारम्भ दिखालाई दिया । उसके बाद बहुत दीर्घ काल तक उसका अन्तर करके अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण कालके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्वको उत्पन्न करके विसंयोजनापूर्वक संयुक्त हुए जीवके वन्धावलिके व्यतीत होने पर पुन. अवक्तव्य संक्रम होनेसे उसका उक्त अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है ।

* वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४५६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४५७. क्योंकि अनर्पित पद द्वारा एक समयके लिए अन्तरित किये गये भुजगार और अल्पतर पदोंका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ४५८. क्योंकि अवस्थित पदके कालके साथ एक दूसरेके उत्कृष्ट कालसे अन्तरको प्राप्त हुए भुजगार और अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट अन्त. उक्त कालप्रमाण उपलब्ध होता है ।

* अवस्थित संक्रामकका अन्तर काल कितना है ?

§ ४५९. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४६०. भुजगारप्पदराणमण्णदरसंकमेण्यसमयमंतरिदस्स तदुवलद्वीदो ।

❀ उक्कस्सेण अणंतकालसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा ।

§ ४६१. सुगममेदं; अणंताणुवंधीणमवट्टिदुक्कस्संतरपरुवणाए समाणत्तादो । संपहि एदेण सुत्तेण पुरिसवेदस्स वि असंखेज्जपोग्गलपरियट्टमेत्तावट्टिदसंकमुक्कस्संतराविष्पसंगे तदसंभवपदुप्पायणदुवारेण तत्थ देसूणद्वपोग्गलपरियट्टमेत्तंतरविहासणदुमुत्तरसुत्तं भणइ ।

❀ एवरि पुरिसवेदस्स उवट्टुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४६२. कुदो ? सम्माइट्टिमि चैव तदवट्टिदसंकमस्स संभवणियमादो ।

❀ सव्वेस्सिमवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४६३. सुगममेदं पुच्छावकं ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४६४. सव्वोवसामणापडिवादजहणंतरस्स तप्पयत्तोवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण उवट्टुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४६५. अद्रुपौगलपरियट्टादिसमए पढमसम्मत्तमुप्पाइय सव्वलहुं सव्वोव-सामणापडिवादेणादिं कादूणंतरिसस्स पुण्णो तदवसाणे अंतोमुहुत्तसेसे सव्वोवसामणा-

§ ४६०. क्योंकि भुजगार और अल्पतर संक्रमके द्वारा एक समयके लिए अन्तर को प्राप्त हुए अवस्थित संक्रमका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनोंके बराबर है ।

§ ४६१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि यह अनन्तानुबन्धियोंके अवस्थित संक्रमके उत्कृष्ट अन्तरके कथनके समान है । अब इस सूत्र द्वारा पुरुषवेदके भी अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होने पर वह असम्भव है इसके कथन द्वारा उसमे कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण अन्तरका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उक्त अन्तरकाल उपार्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४६२. क्योंकि सम्यग्दृष्टिके ही पुरुषवेदके अवस्थित संक्रमकी सम्भावनाका नियम है ।

* उक्त सत्र कर्मोंके अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४६३. यह पृच्छा वाक्य सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४६४. क्योंकि सर्वोपशामनाके प्रतिपातके जघन्य अन्तरकाल प्रमाण वह उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४६५. अर्धपुद्गल परिवर्तनके प्रथम समयमे प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके अतिशीघ्र सर्वोपशामनासे गिरनेके कारण अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ करके उसके अन्तरको प्राप्त हुए जीवके पुनः अर्धपुद्गल परिवर्तनके अन्तमे अन्तर्मुहूर्त प्रमाण काल शेष रहने पर सर्वोपशामनाके प्रतिपात

पडिवादेण लद्धमंतरमेत्थ कायव्वं ।

❁ इत्थिवेदस्स भुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४६६. सुगमं ।

❁ जहणणेण एयसमओ ।

§ ४६७. सगबंधणिरुद्धेयसमयमेत्तपडिवक्खबंधकालावलंबणेण पयदंतरसाहणं कायव्वं ।

❁ उक्कस्सेण वेञ्जावट्टिसागरोवमाणि संखेज्जवस्सव्वभहियाणि ।

§ ४६८. कुदो ? तदप्पयरसंक्रमुक्कस्सकालस्स पयदंतरत्तेण विवक्खियत्तादो ।

❁ अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४६९. सुगमं ।

❁ जहणणेणेयसमओ ।

§ ४७०. कुदो ? पडिवक्खबंधणिरुद्धेयसमयमेत्तसगबंधकालम्मि तदुवलंबादो ।

❁ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४७१. कुदो ? सगबंधगद्धामेत्तभुजगारकालावलंबणेण पयदंतरसमत्थणादो ।

❁ अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

द्वारा पुनः अवक्तव्य सक्रम प्राप्त होनेसे यहाँ पर उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए ।

* स्त्रीवेदके भुजगार संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४६६. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४६७. अपने बन्धके रुकने पर प्रतिपन्न प्रकृतिके एक समय तक होने वाले बन्धका अवलम्बन लेनेसे प्रकृत अन्तरकालकी सिद्धि कर लेनी चाहिए ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्ष अधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है ।

§ ४६८. क्योंकि प्रकृत अन्तरकालरूपसे उसके अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट काल विवक्षित है ।

* अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४६९. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४७०. क्योंकि प्रतिपन्न प्रकृतिके बन्धके रुकने पर एक समय मात्र अपने बन्धकालमे उसकी उपलब्धि होती है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तमुहूर्त है ।

§ ४७१. क्योंकि अपने बन्धकाल मात्र भुजगार कालका अवलम्बन लेनेसे प्रकृत अन्तरकालका समर्थन होता है ।

* अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४७२. सुगमं ।

* जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४७३. सुगमं ।

* उक्कस्सेण उवहुपोग्गलपरियट्टं ।

§ ४७४. एदंपि सुगमं ।

* एवुंसयवेदभुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४७५. सुगमं ।

* जहणणेण एयसमओ ।

§ ४७६. एदंपि सुगमं ।

* उक्कस्सेण बेह्खावडिसागरोवमाणि तिप्पिण पलिदोवमाणि सादि-
रेयाणि ।

§ ४७७. कुदो ? तदप्परुक्कस्सकालस्स पयदंतरत्तेण विवक्खियत्तादो ।

* अप्परसंकायंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

* जहणणेण एयसमओ ।

* उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

* अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४७२. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४७३. यह सूत्र सुगम है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४७४. यह सूत्र भी सुगम है ।

* नपुंसकवेदके भुजगार संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४७५. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४७६. यह सूत्र भी सुगम है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है ।

§ ४७७. क्योंकि उसके अल्पतर संक्रमकका उत्कृष्टकाल प्रकृत अन्तरकाल रूपसे विवक्षित है ।

* अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

* अवत्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

❁ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

❁ उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्ठं ।

§ ४७८. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❁ हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुजगारअप्पयरसंकामयंतं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४७९. सुगमं ।

❁ जहणणेण एयसमओ ।

§ ४८०. कुदो ? भुजगारप्पदराणमण्णोण्णोणंतंरिदाणं तदुवलंभादो ।

❁ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४८१. पडिवक्खवंधगद्धाए सगवंधकालेण च जहाकममंतरिदाणं पयदभुजगार-प्पयरसंकमाणं तेत्तियमेत्तुक्कस्संतरसिद्धीए पडिवंधाभावादो । संपहि पुव्वुसुत्तणिदिट्ठेयस-मयमेत्तजहणणंतरस्स फुडीकरणडुं सुत्तपवंधमुत्तरं भणइ ।

❁ कथं ताव हस्स-रदि-अरदिसोगाणमेयसमयमंतरं ?

§ ४८२. सुगममेदं सिस्साहिप्पायासंकावयणं ।

* जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४७८. ये सूत्र सुगम हैं ।

* हास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४७९. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४८०. क्योंकि एक दूसरेके द्वारा अन्तरको प्राप्त भुजगार और अल्पतर संक्रमकोंका जघन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है ।

§ ४८१. क्योंकि प्रतिपन्न प्रकृतियोंके बन्धक काल और अपने अपने बन्धककालके द्वारा यथाक्रम अन्तरको प्राप्त हुए प्रकृत भुजगार और अल्पतर संक्रमकोंका अन्तर्मुहूर्त प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर कालके सिद्ध होनेमें कोई रुकावट नहीं पाई जाती । अब पूर्वोक्त सूत्रमें निर्दिष्ट एक समयमात्र जघन्य अन्तरको स्पष्ट करनेके लिए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहते हैं—

* हास्य, रति, अरति और शोकका एक समय अन्तरकाल कैसे है ?

§ ४८२. शिष्योंके अभिप्रायको प्रगट करनेवाला यह आशंका वचन सुगम है ।

❀ हस्स-रदिभुजगारसंकामयंतरं जइ इच्छासि, अरदि-सोगाणमेय-समयं बंधावेदव्वो ।

§ ४८३. तं जहा—हस्सरदीओ बंधमाणो एयसमयमरइ-सोगबंधगो जादो । तदो पुणो वि तदणंतरसमए हस्सरदीणं बंधगो जादो । एवं बंधिदूण बंधावलियवदिकमे बंधाणु-सारेण संकामेमाणयस्स लद्धमेयसमयमेत्तभुजगारसंकामयंतरं ।

❀ जइ अप्पयरसंकामयंतरमिच्छसि हस्सरदीओ एयसमयं बंधावेयव्वाओ ।

§ ४८४. एदस्स णिदरिसणं—एदो अरदिसोगबंधगो एयसमयं हस्सरदिवंधगो जादो । तदणंतरसमए पुणो वि परिणामपच्चणारदिसोगाणं बंधो पारद्धो । एवं बंधिऊण बंधावलिया दिकमेदेशेव कमेण संकामेमाणयस्स लद्धमेयसमयमेत्तं पयदजहण्णंतरं । एदेशेव णिदरिसणेणारदिसोगाणं पि भुजगारप्पयरसंकामयंतरमेयसमयमेत्तं । हस्स-रइ-विज्जासेण जोजेयव्वं । इत्थि-णवुंसयवेदाणं वि भुजगारप्पयरजहण्णंतरमेवं चैव साहेयव्वं विसेसा-भावादो ।

❀ अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४८५. सुगमं ।

* हास्य और रतिके भुजगार संक्रामकका यदि अन्तर लाना इष्ट है तो अरति और शोकका बन्ध कराना चाहिए ।

§ ४८३. यथा—हास्य और रतिका बन्ध करनेवाला जीव एक समयके लिए अरति और शोकका बन्ध करनेवाला हो गया । उसके बाद फिर भी उसके अनन्तर समयमे हास्य और रतिका बन्ध करनेवाला हो गया । इस प्रकार बन्ध करके बन्धावलिके व्यतीत होने पर बन्धके अनुसार संक्रम करनेवाले जीवके भुजगार संक्रमका एक समयप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है ।

* यदि अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल लाना इष्ट है तो हास्य और रतिका एक समय तक बन्ध कराना चाहिए ।

§ ४८४. इसका उदाहरण—अरति और शोकका बन्ध करनेवाला कोई एक जीव एक समय तक हास्य और रतिका बन्ध करनेवाला हो गया । उसके बाद अनन्तर समयमे उसने फिर भी परिणाम वश अरति और शोकका बन्ध प्रारम्भ किया । इस प्रकार बन्ध करके बन्धावलिके व्यतीत होनेके कारण क्रमसे संक्रम करनेवाले उसके प्रकृत जघन्य अन्तरकाल एक समयमात्र प्राप्त हो जाता है । इसी उदाहरणके अनुसार अरति और शोकके भी भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय मात्र हास्य और रतिको अरति और शोकके स्थानमे रखकर लगा लेना चाहिए । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके भी भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तर काल इसी प्रकार साध लेना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कथनसे इस कथनमे कोई विशेषता नहीं है ।

* अवत्तव्व संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ४८५. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जहणणेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ४८६. कुदो ? सव्वोवसामणापडिवाद्जहणणंतरस्स तप्पमाणोवलंभादो ।

❀ उक्कस्सेण उवहुपोग्गलपरियट्ठं ।

§ ४८७. कुदो ? तदुक्कस्सविरहकालस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो । एवमोव्वेण सव्व-
पयडीणं भुजगारादिपदसंक्रामय जहणणुक्कस्संतरपमाणविणिण्णयं कादृण संपहि तदादेस-
परुवणाणिबंधणमुत्तरमुत्तपदमाह ।

❀ गदीसु च साहेयव्वं ।

§ ४८८. एदीए दिसाए गदीसु च णिरयादिमु पयदंतरं विहाणमणुमाणिय
णेदव्वमिदि वुत्तं होइ ।

§ ४८९. संपहि एदेण वीजपदेण सूचिदत्थस्स उच्चारणाइरियपरुविदिविवरण-
मणुवत्तइस्सामो । त जहा—आदेशेण गोरइयमिच्छत्तअणंताणु०४ भुज० अप्प०
अवट्ठि० संक्रा० जह० एयस० । अवत्त० जह० अंतोमु० । सम्म०-भुज० जह० पलिदो०
असंखे० भागो । अप्प० अवत्त० संक्रा० जह० अंतोमु० । सम्मामि० भुज० अप्प०
संक्रा० जह० एयस० । अवत्त० जह० अंतोमु० । उक्क० सव्वेसिं तेत्तीसं सागरोवमाणि

* जयन्य अन्तरकाल अन्तमु हृत है ।

§ ४८६. क्योंकि सर्वोपशामनाके प्रतिपातका जयन्य अन्तरकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल उपार्थपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है ।

§ ४८७. क्योंकि सर्वोपशामनाके प्रतिपातका उत्कृष्ट विरहकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है ।
इस प्रकार श्रवसे सब प्रकृतियोंके भुजगार आदि पदोंके संक्रामक जीवोंके जयन्य और उत्कृष्ट
अन्तरकालके प्रमाणाका निर्णय करके अब उनकी आदेश प्ररूपणाको बतलाने वाले आगेके सूत्रको
कहते हैं—

* इसी प्रकार चारों गतियोंमें अन्तरकाल साथ लेना चाहिए ।

§ ४८८ इसी विद्यासे नारक आदि गतियोंमें प्रकृत अन्तरकालके विधानका अनुमान करके
ले जाना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

§ ४८९. अब इस वीज पदसे सूचित होनेवाले अर्थका उच्चारणाचार्यके द्वारा कहे गये
विवरणको बतलाते हैं । यथा—आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके
भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकका जयन्य अन्तरकाल एक समय है और अवक्तव्य
संक्रामकका जयन्य अन्तरकाल अन्तमु हृत है । सम्यक्त्वके भुजगार संक्रामकका जयन्य अन्तरकाल
पत्न्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है तथा अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकका जयन्य अन्तरकाल
अन्तमु हृत है । सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जयन्य अन्तरकाल एक समय
है तथा अवक्तव्य संक्रामकका जयन्य अन्तरकाल अन्तमु हृत है । तथा उक्त सब प्रकृतियोंके अपने
अपने सब पदोंके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है । बारह कपाय, पुरुष-

देसूणाणि । वारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगुंछ० भुज० अप्प०संका० जह० एयसमओ ।
 उक्क० पलिदो० असंखे०भागो । अवट्टि० मिच्छत्तभंगो । इत्थिवेद-णवुंसवे० भुज०
 संका० मिच्छत्तभंगो । अप्प०संका० जह० एयस० । उक्क० अंतोमु० । चदुणोक० भुज०
 अप्प०संका० जह० एयसमओ । उक्क० अंतोमु० । एवं सव्वणोरइएसु । णवरि सगट्टिदी
 देसूणा ।

§ ४६०. तिरिक्खेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं । अणंताणु०४ भुज०
 जह० एयस० । उक्क० तिण्णिपलिदो० सादिरेयाणि । अप्प०संका० जह० एयस० ।
 उक्क० तिण्णिपलिदो० देसूणाणि । अवट्टि० अवत्त० ओघं । वारसक०-पुरिसवे०-
 भय-दुगुंछ० भुज० अप्प० अवट्टि० ओघं । इत्थिवे० भुज० पुरिसवे० अवट्टि० जह०
 एयस० । उक्क० तिण्णिपलिदो० देसूणाणि । इत्थिवेद-अप्प०संका० ओघं । णवुंस०
 भुज० संका० जह० एयस० । उक्क० पुव्वकोडी देसूणा । अप्प०संका० ओघं० । चदु-
 णोक० भुज० अप्प० ओघं ।

वेद, भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण है । अवस्थित पदका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके भुजगार संक्रामकका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । चार नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।

विशेषार्थ—पहले ओघप्ररूपणाके समय सब प्रकृतियोंके अलग-अलग पदोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण कर आये हैं । उसी प्रकार यहाँपर जिन प्रकृतियोंके जो पद सम्भव हैं उनके अन्तरकालको समझ लेना चाहिए । मात्र ओघप्ररूपणाके समय उत्कृष्ट अन्तरकाल बतलाते समय जहाँ सामान्य नारकियोंकी और प्रत्येक पृथिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे अधिक अन्तरकाल बतलाया है वहाँ नारकियोंमें कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति ले लेनी चाहिए ।

§ ४६०. तिर्यञ्चोमे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है । अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । स्त्रीवेदके भुजगार और पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य है । स्त्रीवेदके अल्पतर संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । नपुंसकवेदके भुजगारसंक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है । अल्पतर संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । चार नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है ।

१ ४६१. पंचिदिय तिरिक्खतिए, मिच्छ० भुज० अप्प० अवट्टि० संका० जह०
 एयस० । अवत्त० जह० अंतोमु० । सम्म० भुज० जह० पलिदो० असंखे० भागो ।
 अप्प० अवत्त० जह० अंतोमु० । सम्मामि० भुज० अप्पयर० संका० जह० एयस० ।
 अवत्त० जह० अंतोमु० । उक्क० सव्वेसिं तिण्णिपलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेणव्भहियाणि ।
 अणंताणु० ४ भुज० अवट्टि० अवत्त० मिच्छत्तभंगो । अप्प० संका० जह० एयस० ।
 उक्क० तिण्णिपलिदो० देसूणाणि । वारसक० भयदुगुं० भुज० अप्प० संका० ओघं० ।
 अवट्टि० संका० मिच्छत्तभंगो, पुरिसवे० भुज० अप्प० संका० ओघं । अवट्टि० जह०
 एयस० उक्क० तिण्णि पलिदो० देसूणा । इत्थिवे० णवुंस० चदुणोक० तिरिक्खोघं ।

विशेषार्थ—यहाँपर अन्य सब प्ररूपणा ओघके समान होनेसे उसे देखकर घटित कर लेना चाहिए । अनन्तानुवन्धी चतुष्कके भुजगार संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य कहनेका कारण यह है कि संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें इनका भुजगार करके वादमें अन्तर करके यथा योग्य तिर्यञ्च सम्बन्धी पर्यायोंमें उत्पन्न होकर तथा अन्तमें तीन पल्यकी आयुवाले तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होकर जीवनके अन्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त कर अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करते हुए गुण संक्रम द्वारा पुन भुजगारसंक्रम करनेसे यह अन्तरकाल साधिक तीन पल्य बन जाता है, इसलिए उक्त अन्तरकाल कहा है । उत्तम भोगभूमिके तिर्यञ्चोंमें वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कराके अनन्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कराते समय अल्पतर संक्रम करावे । उसके बाद जीवनके अन्तमें संयुक्त होनेके बाद पुनः अल्पतर संक्रम करावे । इस प्रकार अल्पतरसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है । इसमें पुरुषवेदके अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य कहा है सो विचार कर लेना चाहिए । भोगभूमिज पर्याय तिर्यञ्चोंमें नपुंसकवेदका बन्ध नहीं होता इसलिए इनमें भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

§ ४६१. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकामे मिथ्यात्वके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है, सम्यक्त्वके भुजगार संक्रामकका जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवै भागप्रमाण है, अल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है, सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और इन सब प्रकृतियोंके उक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है । अनन्तानुवन्धी चतुष्कके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामकका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । वारह कपाय-भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित संक्रामकका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । पुरुषवेदके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य है, इसलिए यहाँ पर मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके उक्त तिर्यञ्चोंमें सम्भव पदोंका

§ ४६२. पंचि०तिरि०अपज्ञ० मणुस-अपज्ञ० सम्म०-सम्मामि० भुज० अप्य०
णत्थि अंतरं । सोलसक०-भय-दुगुंछा० भुज० अप्य० अवड्ढि०संका० जह० एयस० ।
उक्क० अंतोमु० । सत्तणोक० भुज० अप्य०संका० जह० एयस० । उक्क० अंतोमु० ।

§ ४६३. मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खभंगो । णवरि मणुस०-मणुसपज्ञ०-पुरिसवे०-
अवड्ढि० तिण्णिपलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेणभहियाणि । णवरि बारसक०-णवणोक०
अवत्त० जह० अंतोमु० । उक्क० पुव्वकोडिपुधत्तं ।

उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है। इतना अवश्य है कि उक्त कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे यथायोग्य इन पदोंकी प्राप्ति करा कर यह अन्तरकाल ले आना चाहिए। इनमें अनन्तानु-
बन्धीचतुष्कके अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य प्रमाण जिस प्रकार
सामान्य तिर्यञ्चोंमें घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए।
इसी प्रकार अन्य अन्तरकाल भी ओघ प्ररूपणा और सामान्य तिर्यञ्चोंमे की गई प्ररूपणाको देख
कर घटित कर लेना चाहिए। अन्य कोई विशेषता न होनेसे हम यहाँ पर अलगसे खुलासा नहीं
कर रहे हैं।

§ ४६२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मि-
थ्यात्वके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। सोलह कषाय, भय और जुगुप्सा
के भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर
अन्तमुहूर्त है। सात नोकषायोंमें भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है
और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है।

विशेषार्थ—उक्त जीवोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भुजगार और अल्पतर संक्रम
उद्वेलनाके समय ही सम्भव है और इनकी कायस्थिति मात्र अन्तमुहूर्त है, इसलिए इनमे उक्त
प्रकृतियोंके इन पदोंका अन्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। शेष प्रकृतियोंके
यथा सम्भव पदोंका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूर्त है यह स्पष्ट ही है।

§ ४६३. मनुष्यत्रिकमे पञ्चेन्द्रियोंका तिर्यञ्चोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि
मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तकोंमें पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व
अधिक तीन पल्य है। इतनी और विशेषता है कि बारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवक्तव्य
संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण है।

विशेषार्थ—पुरुषवेदका अवस्थित संक्रम नियमसे सम्यग्दृष्टिके होता है, इस लिए यहाँ
पर मनुष्य और मनुष्यपर्याप्तकोंमें पुरुषवेदके अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल पूर्वकोटि-
पृथक्त्व अधिक तीन पल्य बन जानेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। यद्यपि पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्चत्रिक
और मनुष्यनियोंमें अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमे और अन्तमे सम्यक्त्व उत्पन्न करा कर पुरुष-
वेदके अवस्थितसंक्रमका यह अन्तरकाल प्राप्त करना सम्भव है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंमे
ओघके समय यह अन्तरकाल प्राप्त करना सम्भव है, अन्यथा ओघप्ररूपणाकी व्याप्ति नहीं बन
सकती। फिर भी उसका निर्देश न कर वह कुछ कम तीन पल्य ही क्यों कहा है यह अवश्य ही
विचारणीय है। अभी हम इसका निर्णय नहीं कर सके हैं। मनुष्यत्रिकका उत्तम भोगभूमिमें
उत्पन्न होनेके बाद पुनः मनुष्य होना सम्भव नहीं है, इसलिए इनमे बारह कषाय और नौ

§ ४६४. देवेषु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४-इत्थि-णवुंस० णारय-
भंगो । णवरि जम्मि तेत्तीसं सागरो० देख्खणाणि तम्मि० एकत्तीसं सागरो० देख्खणाणि ।
वारसक०-पुरिसवे०-छण्णोक० णारयभंगो । एवं भवणादि जाव णवगेवज्जा ति । णवरि
सगट्टिदी देख्खणा ।

§ ४६५. अणुदिसादि सब्बट्ठा ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिवे०-णवुंस० णत्थि-
अंतरं । अणंताणु०४ भज० अप्प०संका० णत्थि अंतरं । वारसक०-पुरिसवे०-भय-दुगुंछ०
भुज० अप्प० ओवं । अवट्टि० संका० जह० एयस० । उक्क० सगट्टिदी देख्खणा । चदु-
णोक० भुज० अप्प०संका० जह० एयस० । उक्क० अंतोमु० । एवं गइमग्गणा समत्ता ।

नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रमका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्व प्रमाण कहा है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका अवक्तव्य संक्रम उपशमश्रेणियोंमें होता है और उपशम श्रेणिका आरोहण कर्मभूमिज मनुष्योंमें ही सम्भव है ।

विशेषार्थ (२)—पुरुषवेदको अवस्थितका अन्तर ओघमें अर्धपुद्गल परिवर्तन, सामान्य मनुष्य व मनुष्यपर्याप्तमे पूर्वकोटिपृथक्त्व अधिक तीन पल्य कहनेका यह कारण ज्ञात होता है कि पुरुषवेद वाले मनुष्यके सम्यग्दर्शनमे पुरुषवेदको अवस्थित हो जाने पर मिथ्यात्वमे जाकर अन्तर हो गया पुनः जब वह पुरुषवेद वाला मनुष्य होकर सम्यक्त्व ग्रहण किया उसके पुनः पुरुषवेदको अवस्थित हुई । किन्तु अन्य जीवोंके सम्यक्त्व कालके प्रारंभ और अन्तमें पुरुषवेदको अवस्थित होनेसे अन्तर कहा है उनके मिथ्यात्व अवस्थामे पहुँचकर पुनः सम्यक्त्वकी प्राप्ति होनेपर पुरुषवेदको अवस्थितका अन्तः उपलब्ध नहीं होता । इसमें कारण क्या है यह समझमें नहीं आता । फिर भी अन्तरकाल उपर्युक्त दृष्टिसे कहा गया है यह बात समझमें आती है ।

§ ४६४. देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि जहाँ पर कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ पर कुछ कम इकतीस सागर कहना चाहिए । वारह कषाय, पुरुषवेद और छह नोक-पायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नौ त्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

विशेषार्थ—देवोंमें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों गुणोंकी प्राप्ति नौ त्रैवेयक तक ही सम्भव है, इसलिए इनमें नारकियोंकी अपेक्षा इतनी विशेषता कही है । शेष कथन स्पष्ट है ।

§ ४६५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके सम्भव पदोंका अन्तरकाल नहीं है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका भङ्ग ओघके समान है । अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है ।

विशेषार्थ—वारह कषाय आदिके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण होनेसे यहाँ इनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है । किन्तु इनके अवस्थित संक्रमका ऐसा कोई नियम नहीं है । वह एक समयके अन्तरसे भी हो सकता है और मध्यमें न

§ ४६६. एतो सेसमग्गणाणं देसामासयभावेणिंदियमग्गणेयं देसभूदेइंदिएसु पयदंतरविहासणद्वमुत्तरप्पबंधमाह ।

❀ एइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं एत्थि किंचि वि अंतरं ।

§ ४६७. कुदो ? तत्थ संभवताणं पिं भुजगारप्पदरपदाणं लद्धंतरकरणोवाया-भावादो ।

❀ सोलसकसाय-भय-दुगुंछाणं भुजगार-अप्पयर-संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ४६८. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमत्तो ।

§ ४६९. भुजगारप्पदराणमग्गणेणावड्ढिसंकमेण वा एयसमयमंतरिदाणं विदिय-समये पुणो वि संभवं पडि विरोहाभावादो ।

❀ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ।

होकर जीवनके प्रारम्भमे और अन्तमे भी हो सकता है । यही कारण है कि यहाँ पर इनके अवस्थित संक्रमका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहा है । चार नोकषायोंके भुजगार और अल्पतर संक्रमका जघन्य संक्रमकाल एक समय और उत्कृष्ट संक्रमकाल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहाँ पर इनका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त कहा है । शेष कथन सुगम है ।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई ।

§ ४६६. अब शेष मार्गणाओंके देशामर्षक भावसे एक देशभूत एकेन्द्रिय मार्गणाके एकेन्द्रियोंमे प्रकृत अन्तरकालका व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

❀ एकेन्द्रियोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका कुछ भी अन्तरकाल नहीं है ।

§ ४६७. क्योंकि वहाँ पर यद्यपि उक्त प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर संक्रम होते हैं फिर भी उनके अन्तर करनेका कोई उपाय नहीं पाया जाता ।

❀ सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतरसंक्रामकका अन्तर काल कितना है ?

§ ४६८. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ४६९. क्योंकि परस्पर या अवस्थित संक्रमके द्वारा एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए भुजगार और अल्पतरसंक्रम फिर भी सम्भव हैं इसमें कोई विरोध नहीं पाया जाता ।

❀ उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्पके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ५००. कुदो ? भुजगारप्पयरकालाणमुक्कस्सेण पलिदोवमासंखेज्जाभागपमाण्णाणं जोण्हे-
दरपक्खाणं व परियत्तमाण्णाणमण्णोण्णेणंतरिदाणमेइंदिएसु संभवे विरोहाभावादो ।

❁ अवट्टिदसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होति ?

§ ५०१. सुगमं ।

❁ जहण्णेण एयसमञ्चो ।

§ ५०२. भुजगारप्पदराणमण्णदरेणोयसमयमंतरिदस्स तदुवलंभादो ।

❁ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा ।

§ ५०३. गयत्थमेदं सुत्तं; ओघेण समाणपरूवणत्तादो ।

❁ सेसाणं सत्तणोकसायाणं भुजगार-अप्पयर-संकामयंतरं केवचिरं
कालादो होदि ?

§ ५०४. सुगमं ।

❁ जहण्णेण एयसमञ्चो ।

§ ५०५. पडिवक्खवंधेण सगवंधेण च एयसमयमंतरिदस्स तदुवलंभादो ।

❁ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

§ ५००. क्योंकि भुजगार और अल्पतर संक्रमका उत्कृष्टकाल पल्यके असंख्यातर्वे-भाग प्रमाण है। इसके बाद वे शुक्ल और कृष्णपक्षके समान परस्पर नियमसे अन्तरको प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए एकेन्द्रियोंमें इस अन्तरकालके प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता।

* अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ५०१. यह सूत्र सुगम है।

* जघन्य अतरकाल एक समय है।

§ ५०२. क्योंकि भुजगार और अल्पतरसंक्रमके द्वारा एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए इसका उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है।

* उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तनके बराबर है।

§ ५०३. यह सूत्र गतार्थ है, क्योंकि इसकी प्ररूपणा ओघके समान है।

* शेष सात नोकपायोंके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ?

§ ५०४. यह सूत्र सुगम है।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है।

§ ५०५. क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्धमें और अपने बन्धसे एक-समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए उक्त संक्रमोंका यह अन्तरकाल उपलब्ध होता है।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त है।

§ ५०६. परियत्तमाणबंधपयडीसु भुजगारप्ययरकालस्स अंतोमुहुत्तपमाणस्स अण्णो-
ण्णंतरभावेण समुवल्लद्वीए विसंवादाणुवलंभादो । एवमेदेण बीजपदेण सेसमग्गणासु वि
जाणिऊण शेदव्वं जाव अणाहारि त्ति ।

❀ एणाजावेहि भंगविचयो ।

§ ५०७. अहियारसंभालणपरमेदं सुत्तं ।

❀ अट्टपदं कायव्वं ।

§ ५०८. तत्थ भंगविचये अट्टपदं ताव कायव्वं; अण्णहा तच्चिसयणिण्णयाणु-
प्पत्तीदो ।

❀ जा जेसु पयडी अत्थि तेसु पयदं ।

§ ५०९. जेसु जीवेषु जा पयडी अत्थि, तेसु चैव पयदं कुदो ? अकम्महि अव्ववहारादो।

❀ सव्वजीवा मिच्छत्तस्स सिया अप्पयरसंकामया च असंकामया च ।

§ ५१०. एत्थ सव्वजीवणिहेसेण मिच्छत्तसंतकम्मियसव्वजीवाणं गहणं कायव्वं ।
कुदो ? एवमणंतरणिदिट्टपदसामत्थियादो । तेसु अप्पयरसंकामया असंकामया च णियमा
अत्थि । कुदो ? मिच्छत्तप्पयर-संकामयवेदयसम्माइट्ठीणं तदसंकामय मिच्छाइट्ठीणं च सव्व-
कालमवट्ठाणणियमदंसणादो ।

§ ५०६. क्योंकि परिवर्तमान बन्ध प्रकृतियोंमें भुजगार और अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट काल
अन्तमुहूर्त प्रमाण है । उसके परस्पर अन्तरकाल रूपसे उपलब्ध होनेमें कोई विसंवाद नहीं पाया
जाता । इस प्रकार इस बीजपदके अनुसार शेष मार्गणाओमें भी जानकर अनाहारक मार्गणा तक
ले जाना चाहिए ।

इस प्रकार एक जीव की अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ ।

❀ अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भङ्ग विचयका अधिकार है ।

§ ५०७. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र है ।

❀ उसमें अर्थपद करना चाहिए ।

§ ५०८. उसमें अर्थात् भङ्गविचयमें सर्व प्रथम अर्थपद करना चाहिए अन्यथा उसके विषय
का निर्णय नहीं हो सकता ।

❀ जिनमें जो प्रकृति विद्यमान है उनमें प्रकृत है ।

§ ५०९. जिन जीवोंमें जो प्रकृति विद्यमान है उनमें ही प्रकृत है, क्योंकि कर्मरहित जीवोंका
यहाँ उपयोग नहीं है ।

❀ सब जीव मिथ्यात्वके कदाचित् अल्पतर संक्रामक हैं और असंक्रामक हैं ।

§ ५१०. यहाँ पर सर्व जीव पदके निर्देश द्वारा मिथ्यात्वके सत्कर्म वाले सब जीवोंका ग्रहण
करना चाहिए, क्योंकि अनन्तर निर्दिष्ट अर्थपदकी सामर्थ्यसे ऐसा ही निर्णय होता है । उनमें
अल्पतर संक्रामक और असंक्रामक जीव नियमसे हैं, क्योंकि मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्राम वेदक
सम्यग्दृष्टियोंके और मिथ्यात्वके असंक्रामक मिथ्यादृष्टियोंके सर्वदा अवस्थानका नियम देखा
जाता है ।

❀ सिया एदे च, भुजगारसंकामओ च, अवट्टिदसंकामगो च, अव-
त्तव्वसंकामगो च ।

§ ५११. तं जहा-सिया एदे च भुजगारसंकामगो च ? कदाइमप्पयरसंकामएहि
सह भुजगारपज्जायपरिणदेयजीवसंभवोवलंभादो । सिया एदे च अवट्टिदसंकामगो च;
पुव्विल्लोहि सह कामहिमि? अवट्टिदपरिणामपरिणदेय-जीवसंभवोविरोहादो २ । सिया
एदे च अवत्तव्वसंकामगो च; कयाइं धुवपदेण सह अवत्तव्वसंकमपज्जाएण परिणदेयजीव-
संभवे विप्पडिसेहाभावादो ३ । एवमेयवयणेण तिण्णि भंगा णिद्धिडा । एदे चेव बहुवयण-
संबंधेण वि जोजेयव्वा । एवमेदे एयसंजोगभंगा परूविदा । संपहि एदे चेव दुसंजोग-
तिसंजोगवियप्पेहि सत्तावीसभंगसमुप्पत्तीए णिमित्तं होंति त्ति जाणावणट्टमिदमाह ।

❀ एवं सत्तावीसभंगा ।

§ ५१२. एवमेदेण कमेण सत्तावीसभंगा उप्पाएयव्वा । तेसिमुच्चारणा सुगमा ।

❀ सम्मत्तस्स सिया अप्पयरसंकामया च असंकामया च णियमा ।

§ ५१३. सम्मत्तस्स अप्पयरसंकामया णाम उव्वेज्जणाणमिच्छादिट्टिणो असंकामया
च वेदगसम्माइट्टिणो सव्वे चेव; तेसिमेय पाहणियादो । तेसिमुभएसिं णियमा अत्थित्त-

* कदाचित् ये जीव हैं और एक एक भुजगार संक्रामक, अवस्थित संक्रामक और
अवक्तव्य-संक्रामक जीव है ।

§ ५११. यथा—कदाचित् ये जीव हैं और एक भुजगार संक्रामक जीव हैं, क्योंकि कदाचित्
अल्पतर संक्रामक जीवोंके साथ भुजगार पर्यायसे परिणत हुआ एक जीव सम्भव रूपसे उपलब्ध
होता है । कदाचित् ये जीव हैं और एक अवस्थित संक्रामक जीव है, क्योंकि पूर्वोक्त जीवोंके
साथ कदाचित् अवस्थित पर्यायसे परिणत हुए एक जीवके सम्भव होनेमे कोई विरोध नहीं है २ ।
कदाचित् ये जीव हैं और एक अवक्तव्य संक्रामक जीव है, क्योंकि कदाचित् ध्रुवपदके साथ
अवक्तव्य संक्रामक पर्यायसे परिणत हुए एक जीवके सम्भव होनेमे कोई निषेध नहीं है ३ । इस
प्रकार एक वचनके द्वारा तीन भङ्ग निर्दिष्ट किये गये हैं । तथा ये ही बहुवचनके साथ भी लगा
लेने चाहिए । इस प्रकार ये एक सयोगी भङ्ग कहे । अब ये ही द्विसयोगी और त्रिसयोगी विकल्पोंके
साथ सत्ताईस भङ्गों की उत्पत्तिमे निमित्त होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र कहते हैं—

* इस प्रकार सत्ताईस भङ्ग होते हैं ।

§ ५१२. इस प्रकार इस क्रमसे सत्ताईस भङ्ग उत्पन्न करने चाहिए । उनकी उच्चारणा
सुगम है ।

* सम्यक्त्वके कदाचित् अल्पतर संक्रामक और असंकामक जीव नियमसे हैं ।

§ ५१३ सम्यक्त्वके अल्पतर संक्रामक उद्वेलना करनेवाले मिथ्यादृष्टि जीव और असंकामक
सभी वेदक सम्यग्दृष्टि जीव होते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर प्रधानता है । उन दोनों प्रकारके जीवों
का नियमसे अस्तित्व है यह सूत्र द्वारा जतलाया गया है । यदि ऐसा है तो यहाँ पर स्यात्

मेदेण सुत्तेण जाणाविदं । जइ एवं; एत्थ सिया सद्दो ण पयोत्तव्वो त्ति णासंक्रणिज्जं,
उत्तरिम-भयणिज्जभंगसंजोगासंजोगविवक्खाए ध्रुवपदस्स वि कदाचित्कभाव सिद्धीदो ।

❀ सेससंकामया भजियव्वा ।

§ ५१४. एत्थ सेससंकामया णाम भुजगारावत्तव्वसंकामया, ते च भयणिज्जा;
सिया अत्थि, सिया णत्थि त्ति । कुदो ? तेसिं कदाचित्कभावदंसणादो । तदो एदेसिमेग-
बहुवयगविसेसिदाणमेग-दु-संजोगेणट्टभंगसमुप्पत्ती वत्तव्वा । ध्रुवभंगेण सह सव्वेभंगा
णव होंति ६ ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स अप्पयरसंकामया णियमा ।

§ ५१५. कुदो ? उव्वेल्लमाणमिच्छाइट्ठीणं वेदयसम्माइट्ठीणं च तदप्पयरसंकामयाणं
सव्वकालमुवलंभादो । तदो एदेसिं ध्रुवभावेण सेससंकामयाणमेत्थं भयंणी? यत्तपटुप्पा-
यणट्टमुत्तरसुत्तमोइण्णं ।

❀ सेससंकामया भजियव्वा ।

§ ५१६. एत्थ सेसगहणेण भुजगारावत्तव्वसंकामयाणमसंकामयसहिदाणं गहणं
कायव्वं । ते भजिदव्वा । कुदो ? तेसिं ध्रुवभावित्ताभावादो । तदो सत्तावीसभंगाण-
मेत्थुप्पत्ती वत्तव्वा ।

❀ सेसाणं कम्माणं अवत्तव्वसंकामगा च असंकामगा च भजिदव्वा ।

शब्दका प्रयोग नहीं करना चाहिए इस प्रकार यहाँ पर आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगेके
भजनीय भङ्गोंके संयोग और असंयोगकी विवक्षा होने पर ध्रुवपदकी भी कादाचित्कभाव की
सिद्धि होती है ।

* शेष पदों के संक्रामक जीव भजनीय हैं ।

§ ५१४. यहाँ पर शेष पदोंके संक्रामकोंसे भुजगार और अवक्तव्य संक्रामक जीव लिये गये
हैं । वे भजनीय हैं अर्थात् कदाचित् होते हैं और कदाचित् नहीं होते, क्योंकि उनका कादाचित्क-
भाव देखा जाता है । इसलिए एकत्रचन और बहुवचनसे विशेषताको प्राप्त हुए इनके एक संयोगी
और द्विसंयोगी आठ भङ्गोंकी उत्पत्ति करनी चाहिए । ध्रुवभङ्गके साथ सब भङ्ग नौ होते हैं ।

* सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामक जीव नियमसे हैं ।

§ ५१५. क्योंकि उद्वेलना करनेवाले मिथ्यादृष्टि और वेदक सम्यग्दृष्टि जीव सम्मग्मिथ्यात्व
की अल्पतर संक्रम करते और वे सर्वदा पाये जाते हैं इसके लिए इनके ध्रुवभावके साथ शेष पदोंके
संक्रामकोंकी भजनीयताका यहाँपर कथन करनेके लिए आगेकाऽसूत्र आया है ।

* शेष पदोंके संक्रामक जीव भजनीय हैं ।

§ ५१६. यहाँपर शेष पदके ग्रहण करनेसे असंक्रामकोंके साथ भुजगार और अवक्तव्य
संक्रामकोंका ग्रहण करना चाहिए । वे भजनीय हैं, क्योंकि वे ध्रुव नहीं हैं । इसलिए सत्ताईस
भङ्गोंकी उत्पत्तिका यहाँ पर कथन करना चाहिए ।

* शेष कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रामक और असंक्रामक जीव भजनीय हैं ।

§ ५१७. एत्थ सेसकम्मग्गहणेण सोलसकसाय-णवणोकसायाणं संगहो कायव्वो । तेसिमवत्तव्वसंक्रामया असंक्रामया च भजियव्वा । कुदो ? तेसिं सव्वकालमत्थित्तणियमाणु-वलंभादो ।

❀ सेसा णियमा ।

§ ५१८. एत्थ सेसग्गहणेण भुजगारप्पयरवद्धिदसंक्रामयाणं जहासंभवग्गहणं कायव्वं । ते णियमा अत्थि त्ति संबंधो कायव्वो । सेसं सुगमं । एदेण सामण्णणिदेसेण पुरिसवेदावद्धिदसंक्रामयाणं पि ध्रुवभावाइप्पसंगे तण्णिवारणमुहेण तेसिमद्भुवत्तरूपवण-डुमुत्तरसुत्तमोइण्णं ।

❀ एवरि पुरिसवेदस्सावद्धिदसंक्रामया भजियव्वा ।

§ ५१९. कुदो ? तेसिमद्भुवभावित्तेण सम्माइट्ठीसु कत्थवि कदाइभाविव्भावदंस-णादो । तदो भुजगारप्पयरसंक्रामयाणं ध्रुवभावेणावद्धिदावत्तव्वा । संक्रामयाणं भयणा-वसेण पुरिसवेदस्स सत्तावीसभंगा समुप्पाएदव्वा । एवमोधेण भंगविचयो सव्वकम्माणं परुविदो । संपहि आदेसपरूपवणडुमुच्चारणं वत्तइस्सामो । तं जहा—

§ ५२०. आदेसेण णेरइय-मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं० । अणंताणु०४-भुज० अप्प०संका० णिय० अत्थि । सेस१पदाणि भयणिज्जाणि । वारसक०-पुरिसवे०-

§ ५१७. यहाँपर शेष कर्मोंके ग्रहण करनेसे सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका ग्रहण करना चाहिए क्योंकि उनके सर्वदा अस्तित्वका नियम नहीं उपलब्ध होता ।

❀ शेष पदोंके संक्रामक जीव नियमसे हैं ।

§ ५१८. यहाँ पर शेष पदका ग्रहण करनेसे भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोंका यथा सम्भव ग्रहण करना चाहिए । वे नियमसे हैं ऐसा सम्बन्ध करना चाहिए । शेष कथन सुगम है । इस सामान्य निर्देशसे पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामकोंके भी ध्रुवपनेकी प्राप्तिका प्रसङ्ग-आया, इसलिए उसके निवारण करनेके अभिप्रायसे, उनके अध्रुवपनेका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र आया है—

❀ इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामक जीव भजनीय हैं ।

§ ५१९. क्याकि उनके अध्रुव होनेके कारण सम्यग्दृष्टियोंमें उनका कहीं पर कदाचित् सद्भाव देखा जाता है । इसलिए भुजगार और अल्पतर संक्रामकोंके ध्रुव होनेके कारण तथा अव-क्तव्य संक्रामक तथा असंक्रामकोंके भजनीय होनेके कारण पुरुषवेदके सत्ताईस भङ्ग उत्पन्न करने चाहिए । इस प्रकार ओघसे सब कर्मोंका भङ्गविचय कहा । अब आदेशसे प्ररूपणा करनेके लिए उच्चारणाको वतलाते हैं । यथा—

§ ५२०. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतर संक्रामक

भय-दुगुंछा० भुज० अप्प०संका० णिय० अत्थि । सिया एदे च अवट्टिदसंक्रामगो च, सिया एदे च अवट्टिदसंक्रामया च ३ । इत्थिवेद०-णवुंस०-चदुणोक०-भुज०-अप्प०-संका० णिय० अत्थि । एवं सव्वणोरइय० पंचि०तिरिक्खतिय देवा भवणादि जाव णवगेवजा त्ति ।

§ ५२१. तिरिक्खेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ ओघं । वारसक०-भय-दुगुंछा० भुज० अप्प० अवट्टि० णिय० अत्थि । तिण्णिवेद-चदुणोक०-णारय-भंगो । पंचिदियतिरिक्ख-अपज्ज०-सम्म०-सम्मामि० अप्प० णिय० अत्थि सिया एदे च भुज० संक्रामगो च, सिया एदे च भुजगारसंक्रामगा च ३ । सोलसक०-भय-दुगुंछा० भुज० अप्प०संका० णिय० अत्थि । अवट्टि०संका० भय-णिज्जा । तिण्णिवेद-चदुणोक० भुज० अप्प०संका० णियमा अत्थि ।

§ ५२२. मणुसतिए मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-इत्थि०-णवुंस०-चदुणोक० ओघं । सोलसक०-पुरिसवे०-भय-दुगुंछा० भुज० अप्प०संका० णिय० अत्थि । सेसाणि भय-णिज्जाणि पदाणि१ । मणुसअपज्ज० सत्तावीस पयडीणं सव्वपदसंका० भय-णिज्जा । अणुदिसादि सव्वट्टा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिवेद०-णवुंस० अप्प०संका० णिय०

नाना जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये हैं और एक अवस्थित संक्रामक जीव है २ । कदाचित् ये हैं और एक नाना अवस्थित संक्रामक जीव हैं ३ । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायके भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, देव और भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ५२१. तिर्यञ्चोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । वारह कषाय, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । तीन वेद और चार नोकषायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । कदाचित् ये नाना जीव हैं और भुजगार संक्रामक एक जीव है २ । कदाचित् ये नाना जीव हैं और भुजगारसंक्रामक नाना जीव हैं ३ । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतरसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । अवस्थित संक्रामक जीव भजनीय हैं । तीन वेद और चार नोकषायोंके भुजगार और अल्पतरसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं ।

§ ५२२. मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंका भङ्ग ओघके समान है । सोलह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार और अल्पतरसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । शेष पद भजनीय हैं । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामक जीव भजनीय हैं । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम

अत्थि । अणंताणु०४ अप्प०संका० णिय० अत्थि भुज०संका० भय णिजा । वारसक०-
पुरिसवे० छण्णोक० देवोघं । एवं जाव० ।

❀ णाणाजीवेहि कालो एदाणुमाणिय णेदव्वो ।

§ ५२३. एदेण सुत्तेण णाणाजीवेहि कालो भंगविचयादो साहिल्लण णेदव्वो त्ति
सिस्साणमत्थसमप्पणा कया होइ । ण केवलं कालाणुगमो चैव णेदव्वो, किंतु भागा-
भाग-परिमाण-खेत्त-पोसणाणि वि एदाणुमाणियं? णेदव्व्वाणि; सुत्तस्सेदस्स देसामासय-
भावेणावट्ठाणव्वभुवगमादो । तदो उच्चारणावसेण तेसिमेत्थाणुगमं कस्सोमो । तं जहा—
भागाभागानुगमेण दुविहो णिदेसो ओघादेसभेएण । ओघेण मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०
अप्प०संका० सव्वजीव० केवडिओ भागो ? असंखेजा भागा । सेसपदसंका० सव्वजी०
केव०-भागो ? असंखे० भागो । सोलसक०-भय-दुगुंछा० अवत्त० सव्व० केव० ? अणंत-
भागो । अवट्ठि० असंखे०भागो । अप्प०संका० संखे० भागो । भुज० संका० संखेजा
भागो । इत्थिवेद-हस्स-रदि० अवत्त०संका० अणंतभागो । भुज०संका० केव० ? संखे०
भागो । अप्प०संका० संखेजा भागा । एवं पुरिसवे० । णवरि अवट्ठि०संका० केव० ?
अणंतभागो । णवुंसयवे०-अरदि-सोग० अवत्त०संका० सव्वजी० केव० ? अणंतभागो ।

से हैं । अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । भुजगार संक्रामक
जीव भजनीय हैं । वारह कपाय, पुरुषवेद और छह नोकपायोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है ।
इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

* नाना जीवोंकी अपेक्षा काल इससे अनुमान करके ले जाना चाहिए ।

§ ५२३ इस सूत्रसे नाना जीवोंकी अपेक्षा काल भङ्ग विचयके अनुसार साधकर ले जाना
चाहिए । इस प्रकार शिष्योंके लिए अर्थकी समर्पणा की गई है । केवल कालानुगम ही नहीं ले जाना
चाहिए किन्तु भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और स्पर्शन भी इससे अनुमान कर ले जाना चाहिए,
क्योंकि इस सूत्रको देशामर्पकभावसे अवस्थित स्वीकार किया गया है । इसलिए उच्चारणके
अनुसार उनका यहाँ पर अनुगम करते हैं । यथा—भागाभागानुगमसे निर्देश ओघ और आदेशके
भेदसे दो प्रकारका है । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रामक
जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । शेष पदोंके संक्रामक
जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवे भागप्रमाण हैं । सोलह कपाय, भय और
जुगुप्साके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं ।
अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतर संक्रामक जीव सख्यातवें भाग
प्रमाण हैं । भुजगार संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । स्त्रीवेद, हास्य और रतिके
अवक्तव्य संक्रामक जीव अनन्तवें भागप्रमाण हैं । भुजगार संक्रामक जीव कितने भागप्रमाण
हैं ? संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर संक्रामक जीव सख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसी प्रकार
पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्रामक जीव कितने हैं ?
अनन्तवें भागप्रमाण हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवक्तव्य संक्रामक जीव सब जीवोंके
कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । भुजगार संक्रामक जीव कितने भागप्रमाण हैं ?

भुज०संका० केव० ? संखेजा भागा । अप्प०संका० सव्वजी० केव० भागो ? संखेजदि-
भागो ।

§ ५२४. आदेसेण गोरइय०-मिच्छ० सम्म०-सम्मामि० ओघभंगो । अणंताणु०
४ ओघं । णवरि अवत्त०संका० असंखे० भागो । वारसक०-भय-दुगुंछा० ओघं ।
णवरि अवत्त० णत्थि । पुरिसवे०-अवट्ठि० असंखे० भागो । भुज०संका० संखे० भागो ।
अप्प०संका० संखेजा भागा । एवमित्थिवेद०-हस्स-रेदि० । णवरि अवट्ठि० संका०
णत्थि । णवुंस०-अरदि-सोग० ओघं । णवरि अवत्त०संका० णत्थि । एवं सव्वगोरइय०-
पंचिंदियतिरिक्खतियदेवगइदेवा भवणादि जाव सहस्सार ति ।

§ ५२५. तिरिक्खेसु ओघं । णवरि वारसक०-णवणोक० अवत्त०संका० णत्थि ।
पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज०-मणुसअपज्ज०-सम्म०-सम्मामि० भुज० संका०असंखे०
भागो । अप्प०संका० असंखेजा भागा । सोलसक०-णवणोक० तिरिक्खोघं । णवरि
अणंताणु०४ अवत्त० णत्थि । पुरिसवेद० अवट्ठि-संका० णत्थि ।

§ ५२६. मणुसेसु मिच्छ० अप्प०संका० संखेजा भागा । सेसं संखे० भागो ।
सम्म०-सम्मामि० ओघं । सोलसक०-णवणोक० णारयभंगो । णवरि वारसक०-णवणोक०

संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । अल्पतर संक्रामक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? संख्यातवें
भागप्रमाण हैं ।

§ ५२४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके
समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य
संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । वारह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग ओघके समान
है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं । पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामक जीव
असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । भुजगार संक्रामक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर संक्रामक
जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । इसी प्रकार स्त्रीवेद, हास्य और रतिकी अपेक्षा जानना चाहिए ।
इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्रामक जीव नहीं हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोकका भङ्ग
ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं । इसी प्रकार सब
नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमे सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्वार कल्प
तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ५२५. तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कपाय और नौ
नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकों
मे सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतर
संक्रामक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका भङ्ग सामान्य
तिर्यञ्चोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य संक्रामक जीव
नहीं हैं । तथा पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामक जीव नहीं हैं ।

§ ५२६. मनुष्योंमें मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । शेष
पदोंके संक्रामक संख्यातवें भागप्रमाण हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग ओघके समान

अवत्त०संका० असंखे० भागो । एवं मणुसपञ्जतमणुसिणि० । णवरि संखेज्जं कायव्वं ।

§ ५२७. आणदादि णव गेवज्जा ति मिच्छ० सम्म०-सम्मामि० ओघं । अणं-
ताणु०चउक्क० भुज० संखे० भागो । अप्प० संखेज्जा भागा । अवट्ठि० अवत्त० असंखे०
भागो । वारसक० पुरिसवे०-भय-दुगुंच्छा० भुज०संका० संखेज्जा भागा । अप्प०-
संका० संखे० भागो । अवट्ठि०संका० असंखे० भागो । एवमरदिसोगा० । णवरि अवट्ठि०
संका० णत्थि । णवुंसयवेद इत्थिवेद-हस्सरइ० भुज० संखे० भागो । अप्प० संखेज्जा
भागा । अणुदिसादि सव्वट्ठा ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिवे०-णवुंस० णत्थि भागा-
भागो । अणंताणु०४ भुज०संका० असंखे० भागो । अप्प० असंखेज्जा भागा । वार-
सक०-पुरिसवे०-छण्णोक० आणदभंगो । णवरि सव्वट्ठे संखेज्जं कायव्वं एवं जाव० ।

§ ५२८. परिमाणानुगमेण दुविहो णिदेसो ओघेण आदेसेण य । ओघेण दंसण-
तिय सव्वपद संका० केत्तिया ? असंखेज्जा । सोलसक०-णवणोक० सव्वपद० केत्तिया ?
अणंता । णवरि अवत्त०संका० केत्ति० ? संखेज्जा । अणंताणु०४ अवत्त०संका०

है । सोलह कपाय और नौ नोकपायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि वारह कपाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना चाहिए ।

§ ५२७. आनत कल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मि-
थ्यात्वका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार संक्रामक जीव संख्यातवें
भागप्रमाण हैं । अल्पतरसंक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थित और अवक्तव्य
संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यातवें
भागप्रमाण हैं । वारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके भुजगारसंक्रामक जीव संख्यात बहु-
भागप्रमाण हैं । अल्पतरसंक्रामक जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्या-
तवें भागप्रमाण हैं । इसी प्रकार अरति और शोककी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है
कि अवस्थितसंक्रामक जीव नहीं हैं । नपुंसकवेद, स्त्रीवेद, हास्य और रतिके भुजगार संक्रामक
जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं । अल्पतरसंक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अनुदिशसे
लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की अपेक्षा
भागाभाग नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं ।
अल्पतरसंक्रामक जीव असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । वारह कपाय, पुरुषवेद और छह नोकपायोंका
भङ्ग आनत कल्पके समान हैं । इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना
चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

§ ५२८. परिमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे
तीन दर्शनमोहनीयके सब पदोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके
सब पदोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामक जीव
कितने हैं ? संख्यात हैं । तथा अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यात हैं ।

असंखेजा । पुरिसवे० अवट्टि० असंखेजा । एवं तिरिक्खा । णवरि वारसक०-णवणोक्क०
अवत्त०संका० णत्थि ।

§ ५२६. आदेसेण गोरइय० सव्वपयडी० सव्वपद०संका० केत्तिया ? असं-
खेजा । एवं सव्वगोरइय-सव्वपंचिं०-तिरिक्ख० मणुस-अपज्ज०-देवगदिदेवा भवणादि
जाव अवरजिदा ति । मणुसेसु णारयभंगो । णवरि सव्वपय० अवत्त० मिच्छत्त-सव्व-
पदसंका० पुरिसवे० अवट्टिदसंका० संखेजा । मणुसपज्ज०-मणुसिणी० सव्वट्टदेवा सव्व-
पय० सव्वपदसंका० केत्तिया ? संखेजा । एवं जाव० ।

§ ५३०. खेत्ताणु० दुविहो णिद्दो ओघेण आदेसेण य । ओघेण सव्वपदसंका०
केव० खेत्ते ? लोगस्स असंखे० भागे । सोलसक०-भय-दुगुंछ० अवत्त० लोग० असंखे०
भागे । सेसपदसंका० सव्वलोगे । सत्तणोक्क०-अवत्त०-पुरिसवे० अवट्टि० लोग०
असंखे० भागे । सेसपदसंका० सव्वलोगे । एवं तिरिक्खा० । णवरि वारसक०-णव-
णोक्क० अवत्त० णत्थि । सेसगदीसु सव्वपयडी० सव्वपदसंका० लोगस्स असंखे० भागे ।
एवं जाव० ।

§ ५३१. पोसणाणु० दुविहो णि० ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ० सव्वपदसं०
लोग० असंखे० भागो, अट्टचोदस० (देखणा) । सम्म०-सम्मामि० भुज०अप्य०

पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यात हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीव नहीं है ।

§ ५२६. आदेशसे नारकियोंमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारकी. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिमे सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें जानना चाहिए । मनुष्योंमे नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि सब प्रकृतियोंके अवक्तव्यसंक्रामक जीव, मिथ्यात्वके सब पदोंके संक्रामक जीव और पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामक जीव संख्यात हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी और सर्वार्थसिद्धिके देवोंमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

§ ५३०. क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे दर्शन-
मोहनीयत्रिकके सब पदोंके संक्रामक जीवोंका कितना क्षेत्र है ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके अवक्तव्यसंक्रामकोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । शेष पदोंके संक्रामकोंका सब लोक क्षेत्र है । सात नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रामकोंका और पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामकोंका लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र है । शेष पदोंके संक्रामकोंका सब लोक क्षेत्र है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोमे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय और नौ नोकषायोंके अवक्तव्यसंक्रामक नहीं हैं । शेष गतियोंमे सब प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामकोंका लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए ।

§ ५३१. स्पर्शानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्या-
त्वके सब पदोंके संक्रामकोंके लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे

संका० लोग० असंखे० भागो अट्टचोदस० (देसूणा) सव्वलोगो वा । अवत्त०संका०
लोग० असंखे० भागो अट्टवारह चोदस० (दे०) । अणंताणुवंधी४ अवट्टि०१ अ०
संका० लोग० असंखे० भागो अट्टचोदस० (देसूणा) । सेसपदसंका० सव्वलोगो । वारसक०-
णवणोक० सव्वपदसंका० सव्वलोगो । णवरि अवत्त० लोग० असंखे० भागो । पुरिसवे०
अवट्टि०संका० लोग० असंखे० भागो अट्टचोदस० (देसूणा) ।

§ ५३२. आदेसेण गोरइय०-मिच्छ० सव्वपद० संका० लोग० असंखे० भागो ।
सम्म०-सम्मामि० अवत्त० लोग० असंखे० भागो पंचचोदस० (देसूणा) । भुज०
अप्य० संका० लोग० असंखे० भागो छचोदस० (देसूणा) । सोलसक० णवणोक०
सव्वपदसं० लोग० असंखे० भागो छ चोदस० (देसूणा) । णवरि अणंताणु० चउक०
अवत्त० पुरिस० अवट्टि०संका० लोग० असंखे० भागो । एवं सव्वणोरइय । णवरि
सगपोसणं एवं सत्तमाए । णवरि सम्म०-सम्मामि० अवत्त०संका० लोग० असंखे०भागो ।
णवरि पढमाए खेतभंगो ।

चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और
अल्पतर संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भाग
प्रमाण और सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अवक्तव्यसंक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम वारह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका
स्पर्शन किया है । अनन्तानुवन्धी चतुष्कके अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामक जीवोंने लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । शेष पदोंके संक्रामक जीवोंने सर्व लोकका स्पर्शन किया है । वारह कषाय और नौ
नोकपायोंके सब पदोंके संक्रामक जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि
अवक्तव्यसंक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । तथा पुरुषवेदके
अवस्थित संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ५३२. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके सब पदोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रामकोंने लोकके
असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन
किया है । भुजगार और अल्पतरसंक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके
कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सोलह कषाय और नौ नोकपायोंके
सब पदोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे
चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धी चतुष्कके
अवक्तव्यसंक्रामक और पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि
अपना-अपना स्पर्शन करना चाहिए । सातवीं पृथिवीमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी
विशेषता है कि सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इतनी और विशेषता है कि पहिली पृथिवीमें क्षेत्रके समान भङ्ग हैं ।

५३३. तिरिक्खेसु मिच्छ० भुज०-अवट्ठि०-अवत्त० संकाम० लोग० असंखे० भागो । अप्प०संका० लोग० असंखे० भागो छ चोदस० (देखणा) । सम्म०-सम्मामि० भुज० अप्प०संका० लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगो वा । अवत्त०संका० लोग० असंखे०भागो, सत्त चोदस० (देखणा) । सोलसक०-णवणोक० सव्वपदसंका० सव्वलोगो । णवरि अणंताणु०४ अवत्त० पुरिसवे० अवट्ठि०संका० लोग० असंखे० भागो ।

§ ५३४. पंचिदियतिरिक्खतिए मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० तिरिक्खोवं । सोलसक० णवणोक० सव्वपदसंका० लोग० असंखे०भागो, सव्वलोगो वा । णवरि अणंताणु० चउक० अवत्त० पुरिसवे० अवट्ठि० इत्थिवे० भुज० लोग० असंखे०भागो । पुरिसवे० भुज० लोग० असंखे० भागो, छ चोदस० (देखणा) । एवं मणुसतिए । णवरि मिच्छ० अप्प० पुरिसवे० भुज० वारसक० णवणोक० अवत्त० लोग० असंखे० भागो । पंचि० तिरिक्ख अप्प०-मणुसअप्प० सत्तावीसं पयडीणं सव्वपदसं० लो० असंखे० भागो, सव्वलोगो वा । णवरि इत्थिवेद० पुरिसवेद० भुज० संका० लोग० असंखे० भागो ।

§ ५३३. तिर्यञ्चोमें मिथ्यात्वके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अल्पतरसंक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पतर संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सर्व लोकक स्पर्शन किया है । अवक्तव्य संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम सात बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके सब पदोंके संक्रामकोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य संक्रामकोंने और पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ५३४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है । सोलह कषाय और नौ नोकषायोंके सब पदोंके संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्रका और सब लोकका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य संक्रामक, पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामक और स्त्रीवेदके भुजगार संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पुरुषवेदके भुजगार-संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि मिथ्यात्वके अल्पतर संक्रामक, पुरुषवेदके भुजगार संक्रामक तथा वारह कपाय और नौ नोकषायोंके अवक्तव्य-संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोंमे सत्ताईस प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका और सब लोकका स्पर्शन किया है । इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और पुरुषवेदके भुजगारसंक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है ।

§ ५३५. देवेषु मिच्छ० सव्वपदे संका० लोग० असंखे० भागो, अट्ट चोदस० देसूणा । सम्म०-सम्मामि०-सोलसक०-णवणोक०-सव्वपदसंका० लोग० असंखे०भागो अट्ट एव चोदस० देसूणा। णवरि अणंताणु०-चउक०-अवत्त० पुरिसवे० भुज० अवट्ठि०-इत्थिवे० भुज० संका० लोग० असंखे०भागो अट्टचोदस० देसूणा । एवं भवणादि जाव अच्चुदा-त्ति । णवरि सगपोसणं जाणियव्वं । उवरि खेत्तभंगो ।

§ ५३६. काल्हाणु० दुविहो णिद्वेसो-ओघे० आदेसे० । ओघे० मिच्छ० भुज० संका० जह० एयसमओ, उक० पलिदो० असंखे०भागो । अप्प० संका० सव्वद्धा । अवट्ठि०-अवत्त० संका० जह० एयसमओ, उक० आवलि० असंखे०भागो । एवं सम्म० । णवरि अवट्ठि० णत्थि । सम्मामि० भुज० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे० भागो । अप्प० संका० सव्वद्धा । अवत्त० संका० मिच्छत्तभंगो । अणंताणु०४ भुज०-अप्प०-अवट्ठि० संका० सव्वद्धा । अवत्त० मिच्छत्तभंगो । एवं वारसक०-भय-दुगुंछा० । णवरि-अवत्त० संका० जह० एयसमओ, उक० संखेजा समया । एवं पुरिसवेद० । णवरि

§ ५३५. देवोंमें मिथ्यात्वके सब पदोंके संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नौ नोकपायोंके सब पदोंके संक्रामकोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम नौ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य संक्रामक, पुरुषवेदके भुजगार और अवस्थितसंक्रामक तथा स्त्रीवेदके भुजगारसंक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ वटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर अच्युतकल्प तकके देवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना-अपना स्पर्शन जानना चाहिए। आगेके देवोंमें क्षेत्रके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—यहाँपर हमने स्पर्शनका विशेष खुलासा नहीं किया है। इसका कारण इतना ही है कि स्वामित्व और अपने-अपने स्पर्शनको ध्यानमें रखकर विचार-करने पर यहाँ जिस प्रकृतिके जिस पदकी अपेक्षा जितना स्पर्शन कहा है वह स्पष्ट-रूपसे प्रतिभासित-होने लगता है।

नाना जीवोंकी अपेक्षा काल

§ ५३६ कालानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश। ओघसे मिथ्यात्वके भुजगार संक्रामकोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अल्पतरसंक्रामकोंका काल सर्वदा है। अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामकोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थितपद नहीं है। तथा सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार संक्रामकोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अल्पतरसंक्रामकोंका काल सर्वदा है। अवक्तव्यसंक्रामकोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है। इसी प्रकार वारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य-संक्रामकोंका जवन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार

अवट्टि० संका० जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे० भागो । एवमित्थिवे०-णवुस०-चदुणोक० । णवरि अवट्टि० णत्थि ।

§ ५३७. आदेशेण गोरइय० दंसणतियस्स ओघं । अणंताणु०४ अवट्टि० अवत्त० संका० जह० एगस०, उक० आवलि असंखे० भागो । भुज०-अप्प० संका० सव्वद्धा । एवं वारसक०-पुरिसवे०-भय-दुगुंछ० । णवरि अवत्त० णत्थि । एवमित्थिवेद-णवुंस०-चदुणोक० । णवरि अवट्टि० णत्थि । एवं सव्वगोरइयपंचिंदिय तिरिक्खतिय-देवगदि देवा भवणादि जाव णवगेवज्जा त्ति ।

§ ५३८. तिरिक्खा० ओघं । णवरि वारसक०-णवणोक० अवत्त० णत्थि । पंचिंदियतिरिक्खअपज्ज० सम्म०-सम्मामि० पारयभंगो । णवरि अवत्त० णत्थि । सोलसक०-णवणोक० पारयभंगो । णवरि अणंताणु०४ अवत्त०-पुरिसवे० अवट्टि० णत्थि ।

§ ५३९. मणुसेसु मिच्छ० भुज० संका० जह० एगस० उक० अंतोमुहुत्तं । अप्प० संका० सव्वद्धा । अवट्टि०-अवत्त० संका० जह० एगस०, उक० संखेज्जा समया । सम्म०-सम्मामि० भुज० अप्प० संका० पारयभंगो । अवत्त० मिच्छत्तभंगो । सोलसक० भय-दुगुंछा० पारयभंगो । णवरि अवत्त० मिच्छत्तभंगो । पुरिसवेद० अवट्टि०

पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थिसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है ।

§ ५३७. आदेशसे नारकियोंमें दर्शनमोहत्रिकका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । भुजगार और अल्पतरसंक्रामकोंका काल सर्वदा है । इसी प्रकार वारह कषाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यपद नहीं है । इसी प्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थितपद नहीं है । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमें सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर नौ ग्रैवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए ।

§ ५३८. तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कषाय और नौ नोकपायोंका अवक्तव्यपद नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है । सोलह कषाय और नौ नोकपायोंका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्यपद और पुरुष वेदका अवस्थितपद नहीं है ।

§ ५३९. मनुष्योंमें मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । अल्पतरसंक्रामकोंका काल सर्वदा है । अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पतरसंक्रामकोंक भङ्ग नारकियोंके समान है । अवक्तव्य संक्रामकोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । सोलह कषाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग नारकियोंके समान है । इतनी विशेषता

अवत्त० संका० जह० एयस०, उक्क० संखेज्जा समया । सेसं सव्वद्धा । इत्थिवेद०-
णवुंसवे०-चदुणोक्क० ओवं । एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणी० । जम्हि आवलि० असंखे०
भागो तम्हि संखेज्जा समया । सम्म०-सम्मामि० भुज० संका० जह० एयस० उक्क०
अंतोमु० । मणुस-अपज्ज० सव्वपयडी० सव्वपदसंका० जह० एयस०, उक्क० पलिदो०
असंखे०भागो । णवरि सोलसक०- भय-दुगुंछा० अवट्टि० जह० एयस०, आवलि०
असंखे०भागो ।

§ ५४०. अणुदिसादि सव्वद्धा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिवेद० णवुंस० अप्प०
संका० सव्वद्धा । अणंताणु०४ भुज० संका० जह० अंतोमु०, उक्क० पलिदो० असंखे०
भागो । अप्प० संका० सव्वद्धा । वारसक०-पुरिसवे० छण्णोक्क० देवोधं । णवरि सव्वट्टे
जम्मि आवलि० असंखे०भागो तम्मि संखेज्जा समया । अणंताणु० चउक्क० भुज०
संका० जह० उक्क० अंतोमु० । एवं जाव० ।

❀ णाणाजोवेहि अंतरं ।

§ ५४१. एत्तो णाणाजीवविसेसिदमंतरं भुजगरादि संकामयविसयमणुवत्त-
इस्सामो त्ति अहियारसंभालणवकमेदं ।

है कि अवक्तव्यसंक्रामकोंका भङ्ग मिथ्यात्वके समान है । पुरुषवेदके अवस्थित और अवक्तव्यसंक्राम-
कोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल संख्यात समय है । शेष पदोंके संक्रामकोंका काल
सर्वदा है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंका भङ्ग ओघके समान है । इसीप्रकार मनुष्य
पर्याप्त और मनुष्यनिर्घोमे जानना चाहिए । मात्र जहाँ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा
है वहाँ संख्यात समय काल जानना चाहिए । सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रामकोंका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । मनुष्य अपर्याप्तकोमे सब प्रकृतियोंके
सब पदसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके अवस्थितसंक्रामकोंका
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।

§ ५४०. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद
और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकोंका काल सर्वदा है । अनन्तानुवन्धीचतुष्कके भुजगार
संक्रामकोंका जघन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है ।
अल्पतर संक्रामकोंका काल सर्वदा है । वारह कपाय, पुरुषवेद और छह नोकपायोंका भङ्ग सामान्य
देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि जहाँ आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है
वहाँ सर्वार्थसिद्धिमें संख्यात समय काल कहना चाहिए । अनन्तानुवन्धीचतुष्कके भुजगार
संक्रामकोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक
जानना चाहिए ।

❀ अब नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरका अधिकार है ।

§ ५४१. अब आगे भुजगार आदि पदोंका संक्रामक करनेवाले नाना जीवों सम्बन्धी अन्तरकी
वतलाते हैं इस प्रकार अधिकार की सन्द्हाल करनेवाला यह वाक्य है ।

❀ मिच्छत्तस्स भुजगार-अवत्तव्व-संकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो ?

§ ५४२. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमञ्चो ।

§ ५४३. भुजगारसंकामयाणं ताव उच्चदे—एको वा दो वा तिण्णि वा एवमुक्कस्सेण पलिदो० असंखे० भागमेत्ता वा मिच्छाद्दुड्ढी उवसमसम्मत्तं पडिवज्जिय गुणसंकमचरिम-समए वट्टमाणा भुजगारसंकामया दिट्ठा, णट्ठो च तदणंतरसमए तेसिं पवाहो । एवमेय-समयमंतरिदपवाहाणं पुणो वि णाणाजीवाणुसंधाणेणाणंतरसमए समुब्भवो दिट्ठो विणट्ठ-मंतरं होइ । एवमवत्तव्वसंकामयाणं वि वत्तव्वं । णवरि सम्मत्तं पडिवण्णपठमसमए आदी कायव्या ।

❀ उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि ।

§ ५४४. कुदो ? सम्मत्तगाहयाणमुक्कस्संतरस्स तप्पमाणत्तोवएसादो ।

❀ अप्पयरसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ।

§ ५४५. सुगमं ।

❀ एत्थि अंतरं ।

* मिथ्यात्वके भुजगार और अल्पतरसंकामक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ ५४२. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ५४३. सर्व प्रथम भुजगारसंकामकोंका अन्तरकाल कहते हैं—एक, दो या तीन इस प्रकार उत्कृष्ट रूपसे पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त कर गुणसंकमके अन्तिम समयमें रहते हुए भुजगारसंकामक देखे गये और तदनन्तर समयमे उनका प्रवाह नष्ट हो गया । इस प्रकार एक समय तक प्रवाहका अन्तर देकर फिर भी नाना जीवोंके प्रवाह रूपसे अनन्तर समयमे उत्पत्ति देखी गयी । तथा इसके बाद वह प्रवाह भी नष्ट हो गया । इस प्रकार भुजगारसंकामक नाना जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय होता है । इसी प्रकार अवक्तव्यसंकामकोंका भी जघन्य अन्तर एक समय कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें आदि करनी चाहिए ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन है ।

§ ५४४. क्योंकि सम्यक्त्वको ग्रहण करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तत्रमाण है ऐसा उपदेश है ।

* अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ।

§ ५४५. यह सूत्र सुगम है ।

* अन्तरकाल नहीं है ।

§ ५४६. कुदो ? तदप्पयरसंकामयाणं वेदयसम्माइड्डीणमतुडुसंताणक्कमेणावट्टाण-
णियमदंसणादो ।

❀ अवट्टिदसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ५४७. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमत्तो ।

§ ५४८. तं जहा—पुव्वुप्पण्णसम्मत्तमिच्छाइड्डीणं केत्तियाणं पि अवट्टिदपाओगसत-
क्कमेण सम्मत्तं पडिवण्णाणं पढमावलियाए-अवट्टिदसंकमं कादूणेयसमयमंतरिदाणं
पुणो तदणंतरसमए केत्तियाणं पि अवट्टिदसंकामयाणमवट्टाणेण विणासिदंतरंतराणं लद्ध-
मंतरं कायव्वं ।

❀ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।

§ ५४९. कुदो ? एयवारमवट्टिदपरिणामेण परिणदणाणाजीवाणमेत्तियमेत्तुक्कस्संतरेण
पुणो अवट्टिदसंकमहेदुपरिणामविसेसपडिलंभादो ।

❀ सम्मत्तस्स भुजगारसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ५५०. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमत्तो ।

§ ५४६. क्योंकि मिथ्यात्वके अल्पतरसंक्रामक वेदकसम्यग्दृष्टिका अत्रुटित सन्तान रूपसे
अवस्थान नियम देखा जाता है ।

❀ अवस्थितसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ ५४७. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ५४८. यथा—जिन्होंने पहले सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है ऐसे कितने ही मिथ्यादृष्टि
जीव अवस्थित पदके योग्य सत्कर्मके साथ सम्यक्त्वको प्राप्त कर प्रथम आवलिमें अवस्थित संक्रमको
करके एक समयके लिए उसका अन्तर करते हैं तथा उसके अनन्तर समयमे कितने ही अवस्थित
संक्रामक जीव अवस्थित पदके द्वारा अन्तरका विनाश करते हैं । इस प्रकार मिथ्यात्वके अवस्थित
पदका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त होता है ।

❀ उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ५४९. क्योंकि एक बार अवस्थित परिणाम रूपसे परिणत नाना जीवोंका इतने मात्र
उत्कृष्ट अन्तरकालके बाद पुनः अवस्थित संक्रमके हेतुभूत परिणाम विशेष उपलब्ध होते हैं ।

❀ सम्यक्त्वके भुजगारसंक्रामक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ ५५०. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जघन्य अन्तर काल एक समय है ।

§ ५५१. कुदो ? उव्वेल्लणाचरिमट्टिदिखंडए भुजगारसंकमं कादूणंतरिदाणमेय समयो उवरि णाणाजीवावेक्खाए पुणो वि भुजगारपज्जायपरिणमणे विरोहाभावादो ।

❀ उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये ।

§ ५५२. कुदो ? उव्वेल्लणापवेसयाणमुक्कस्संतरस्स तप्पमाणत्तोवएसादो ।

❀ अप्पयरसंकामयाणं एत्थि अंतरं ।

§ ५५३. कुदो ? सम्मतप्पयरसंकामयाणमुव्वेल्लणापरिणदमिच्छाइट्ठीणमवोच्छि-
ण्णकमेण सव्वद्धमवट्ठाणणियमादो ।

❀ अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ।

§ ५५४. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ५५५. सम्मत्तादो मिच्छत्तं पडिवज्जमाणणाणाजीवाणमेयसमयमेत्त जहण्णंतर-
सिद्धीए विसंवादाभावादो ।

❀ उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि ।

§ ५५६. कुदो ? सम्मतुप्पत्तिपडिभागेणोव तत्तो मिच्छेत्त गच्छमाण जीवाणमुक्कस्सं-
तरसंभवं पडि विरोहाभावादो । जइ एदमणंतरसुत्तणिदिट्ठुभुजगारसंकमुक्कस्संतरेण

§ ५५१. क्योंकि उद्वेलना संक्रमके अन्तिम स्थिति काण्डकके समय नाना जीवोंने भुजगार संक्रम करके अन्तर किया । पुनः एक समयके बाद नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्य जीवोंका भुजगार पर्यायरूपसे परिणमन करनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन-रात्रि है ।

§ ५५२. क्योंकि उद्वेलना संक्रममे प्रवेश करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तत्प्रमाण है ऐसा उपदेश है ।

* अल्पतर संक्रामक जीवोंका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ५५३. क्योंकि सम्यक्त्वका अल्पतर संक्रम करनेवाले ऐसे उद्वेलना संक्रम रूपसे परिणत हुए मिथ्यादृष्टि जीवोंका अविच्छिन्नक्रमसे सर्वदा अवस्थान नियम देखा जाता है ।

* अवक्तव्य संक्रामक जीवोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ ५५४. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ५५५. सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त होने वाले नाना जीवोंके एक समय प्रमाण जघन्य अन्तरकालके सिद्ध होनेमें कोई विसंवाद नहीं उपलब्ध होता ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन है ।

§ ५५६. क्योंकि जितने जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करते हैं उसके अनुसार ही सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त होने वाले जीवोंके उत्कृष्ट अन्तरकाल सम्भव होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

शंका—यदि ऐसा है तो अन्तर सूत्रमे निर्दिष्ट भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर

वि सत्तरादिदियमेत्तेण होदव्वं, उव्वेल्लणापवेसणाणुसारेणोव तत्तो णिस्सरणस्स णाइयत्तादो त्ति णासंक्कण्णं । किं कारणं ? सम्मत्तादो मिच्छत्तं पडिवण्णसव्वजीवाणमुव्वेल्लणापवेसणियमाभावादो उव्वेल्लणाए पविट्ठाणं पि सव्वेसिमेव णिस्संतीकरणणियमाणब्भुवगमादो च ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स भुजगार-अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

§ ५५७. सुगमं ।

❀ जहरणेण एयसंभओ ।

§ ५५८. कुदो ? पयदभुजगारावत्तव्वसंकामयणाणाजीवाणमेयसमयमंतरिदाणं पुणो णाणाजीवाणुसंधाणेण तदणंतरसमए तहाभावपरिणामाविरोहादो ।

❀ उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि ।

§ ५५९. कुदो ? सम्मत्तुप्पादयाणमुक्कस्संतरस्स वि तव्भावसिद्धीए पडिवंधाभावादो । एदेण सामण्णणिहेसेणावत्तव्वसंकामयाणं पि पयदंतराइप्पसंगे तत्थ पयारंतरसंभवपदुप्पायणइमुत्तरसुत्तमोइण्णं ।

❀ एवरि अवत्तव्वसंकामयाणमुक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये ।

काल भी सात रात्रि-दिन प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि उद्वेलना संक्रममे प्रवेश करनेवाले जीवोंके अनुसार ही उसमेंसे निकलना न्याय प्राप्त है ?

समाधान—ऐसी आंशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वसे सिध्यात्वको प्राप्त होनेवाले सब जीवोंका उद्वेलनासंक्रममें प्रवेश करनेका कोई नियम नहीं है तथा उद्वेलनासंक्रममे प्रवेश करनेवाले सभी जीव निसत्त्व करते हैं ऐसा नियम भी नहीं स्वीकार किया गया है ।

* सम्यग्मिध्यात्वके भुजगार और अवक्तव्यसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ ५५७. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ५५८. क्योंकि प्रकृत भुजगार और अवक्तव्यसंक्रम करनेवाले नाना जीवोंके एक समयका अन्तर करनेके बाद पुन. नाना जीवोंके क्रम परिपाटीसे तदनन्तर समयमे उस प्रकारके परिणामके माननेमे कोई विरोध नहीं आता ।

* उत्कृष्ट अन्तर सात रात्रि-दिन है ।

§ ५५९. क्योंकि सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीवोंका जो उत्कृष्ट अन्तर है उसके तद्भावकी सिद्धि होनेमें कोई रुकावट नहीं आती । यहाँ इस सामान्य निर्देशसे अवक्तव्य संक्रामक जीवोंके भी प्रकृत अन्तरके प्राय होनेपर वहाँपर प्रकारान्तर सम्भव है इसका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र आया है । यथा—

* इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस रात्रि-दिन है ।

§ ५६०. रोदमुक्कस्संतरविहाणं घडंतयमुवसमसम्मत्तग्गाहयाणमुक्कस्संतरस्स सत्त-
रादिदियपमाणं मोत्तण सादिरेयचउच्चीसाहोरत्तपमाणत्ताणुवलद्वीदी । एत्थ परिहारो
उच्चदे-होउ णामोवसमसमत्तग्गाहीणं सत्तरादिदियमेत्तुक्कस्संतरणियमो, तत्थ विसंवादाणु-
वलंभादो । किंतु णीसंतकम्मियमिच्छाइड्डीणमुवसमसम्मत्तं गेण्हमाणणमेदमुक्कस्संतरमिह
सुत्ते विवक्खियं, ससंत^१कम्मियाणमुवसमसम्मत्तग्गहणे अवत्तव्वसंक्रमसंभवाणुवलंभादो ।

❀ अप्पयरसंक्रामयाणं एत्थि अंतरं ।

§ ५६१. कुदो? सम्भामिच्छत्तप्पयरसंक्रामयवेदयसम्माइड्डीणमुव्वेत्तमाणमिच्छाइड्डीणं
च पवाहोच्छेदेण विणा सव्वद्धमवट्ठाणणियमादो ।

❀ अणंताणुबंधीणं भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिदसंक्रामयंतरं एत्थि ।

§ ५६२. कुदो ? सव्वद्धमेदेसिमवच्छिण्णपवाहक्रमेणावट्ठाणदंसणादो ।

❀ अवत्तव्वसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं ?

§ ५६३. सुगमं ।

❀ जहणणेण एयसमओ ।

§ ५६०. शंका—यह उत्कृष्ट अन्तरकालका कथन घटित नहीं होता, क्योंकि उपशम सम्य-
क्त्वको ग्रहण करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन प्रमाण इसे है, छोड़कर साधिक
चौबीस दिन-रात्रिप्रमाण नहीं उपलब्ध होता ?

समाधान—यहाँ पर उक्त शंकाका परिहार करते हैं—उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेवाले
जीवोंके सात रात्रि-दिनप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकालका नियम होओ, क्योंकि इसमें कोई विसवाद
नहीं उपलब्ध होता । किन्तु जिन्होंने सम्यग्मिथ्यात्वको निःसत्त्व कर दिया है ऐसे उपशम सम्यक्त्व
को ग्रहण करनेवाले जीवोंका यह उत्कृष्ट अन्तरकाल यहाँ सूत्रमें विवक्षित है, क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्व
की सत्तावाले जीवोंके उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करने पर अवक्तव्य संक्रम सम्भव नहीं है ।

* अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है ।

§ ५६१. क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वका अल्पतर संक्रम करनेवाले वेदक सम्यग्दृष्टियोंका तथा
उसीकी उद्वेलना करनेवाले मिथ्यादृष्टियोंके प्रवाहका विच्छेद हुए विना सर्वदा अवस्थान रहनेका
नियम है ।

* अनन्तानुबन्धियोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रम करनेवालोंका
अन्तरकाल नहीं है ।

§ ५६२. क्योंकि इनका सर्वत्र अविच्छिन्न प्रवाहक्रमसे अवस्थान देखा जाता है ।

* अवक्तव्य संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ?

§ ५६३. यह सूत्र सुगम है ।

* जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

१. ता० प्रतौ सत्संत (तस्संत) इति पाठः ।

§ ५६४. विसंजोयणादो संजुजं तमिच्छाइश्रीणं जहण्णंतरस्स तप्पमाणत्तादो ।

❀ उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे ।

§ ५६५. अणंताणुवंधिविसंजोयणां व तस्संजोयणां पि उक्कस्संतरस्स तप्पमाणत्त-
सिद्धीए विरोहाभावादो ।

❀ एवं सेसाणं कम्माणं ।

§ ५६६. सुगममेदमप्पणासुत्तं । एदेण सामण्णणिदे सेणावत्तव्वसंक्रामयाणं सादिरेय-
चउवीसअहोरत्तमेत्तुक्कस्संतराइप्पसंगे तप्पिणवारणमुहेण तत्थ पयारंतरसंभवपटुप्पायणट्ट-
मुत्तरसुत्तमोइण्णं ।

❀ एवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमुक्कस्सेण वासंपुधत्तं ।

§ ५६७. किं कारणं ? सव्वोवसामणापडिवादुक्कस्संतरस्स तप्पमाणत्तोव्वलंभादो ।
ण केवलमेत्तियो चेव विसेसो, किंतु अण्णो वि अत्थि त्ति पटुप्पायणट्टमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ पुरिस्सवेदस्स अवट्ठिदसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमत्तो ।

§ ५६८. सुगममेदं ।

❀ उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ।

§ ५६४. क्योंकि विसंयोजनाके वाद संयोजनाको प्राप्त होनेवाले मिथ्यादृष्टियोंका जघन्य
अन्तरकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिन-रात्रि है ।

§ ५६५. क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करनेवाले जीवोंके समान उनकी संयोजना
करनेवाले जीवोंके भी उत्कृष्ट अन्तरकालके तत्प्रमाण सिद्ध होनेमे कोई विरोध नहीं आता ।

* इसी प्रकार शेष कर्मोंके सम्भव पदोंका अन्तरकाल जानना चाहिए ।

§ ५६६. यह अर्पणासूत्र सुगम है । इस सामान्य निर्देशसे अवक्तव्य संक्रामकोंका उत्कृष्ट
अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन-रात्रिप्रमाण प्राप्त होनेपर उसके निवारण करनेके द्वारा वहाँ
पर प्रकारान्तर सम्भव है इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र आया है ।

* इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व
प्रमाण है ।

§ ५६७. क्योंकि सर्वोपशामनासे गिरनेका उत्कृष्ट अन्तरकाल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है ।
केवल इतनी ही विशेषता नहीं है, किन्तु अन्य विशेषता भी है इस बातका कथन करनेके लिए आगेका
सूत्र कहते हैं—

* पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है ।

§ ५६८. यह सूत्र सुगम है ।

* उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है ।

§ ५६६. कुदो ? एगवारं पुरिसवेदावद्विदसंकमेण परिणदणाणाजीवाणं सुहु बहुअं कालमंतरिदाणमसंखेज्जलोगमेत्तकाले बोलीणे णियमा तब्भावसंभवोवएसादो ।

एवमोघो समत्तो ।

§ ५७०. संपहि आदेसपरूवणद्वमुच्चारणं वत्तइस्सामो । अंतराणुगमेण दुविहो णिदेसो-ओघे० आदेसे० । ओघेण मिच्छ० भुज०-अवत्त०संका० जह० एयस०, उक्क० सत्तरादिदियाणि । अप्प०संका० णत्थि अंतरं । अवद्वि०संका० जह० एयस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । एवं सम्म०-सम्मामि० । णवरि अवद्वि० णत्थि । सम्म० भुज० सम्मामि० अवत्त० ज० एगस०, उक्क० चउत्रीसमहोरत्ते सादिरेगे । अणंताणु०४ विहत्ति-भंगो । एवं वारसक०-भय-दुगुंछा० । णवरि अवत्त० जह० एगस०, उक्क० वासपुधत्तं । एवं पुरिसवेद० । णवरि अवद्वि०संका० जह० एयस०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । एवमित्थिवेद-णवुंस०-चदुणोक्क० । णवरि अवद्वि० णत्थि ।

§ ५७१. आदेसेण गोरइय० दंसणतियस्स ओघं । अणंताणु०चउक्क० ओघं । णवरि अवद्वि० जह० एयसमओ, उक्क० असंखेज्जा लोगा । एवं वारसक०-भय-दुगुंछा०-

§ ५६६. क्योंकि एक, बार पुरुषवेदके अवस्थित [संक्रमरूपसे परिणत हुए नाना जीवोंका अत्यन्त बहुत काल तक अन्तर हो तो भी असंख्यात लोकप्रमाण कालके जाने पर नियमसे तद्भाव सम्भव है ऐसा उपदेश है ।

इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ५७०. अब आदेशका कथन करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं—अन्तरानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वके भुजगार और अवक्तव्य पदके संक्रामक जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन है । अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है । अवस्थित संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके विषयमे भी जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यहाँ इनका अवस्थित पद नहीं है तथा सम्यक्त्वके भुजगार और सम्यग्मिथ्यात्वके अवक्तव्य पदके संक्रामक जीवोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन-रात्रि है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कका भंग विभक्तिके समान है । इसी प्रकार वारह कपाय, भय और जुगुप्साके विषयमे भी जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अवक्तव्य संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल वर्षपृथक्त्व प्रमाण है । इसी प्रकार पुरुषवेदके विषयमे भी जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकषायोंके विषयमे भी जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनका अवस्थितपद नहीं है ।

§ ५७१. आदेशसे नारकियोंमे तीन दर्शनमोहनीयका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग ओघके समान है । इतनी विशेषता है कि इनके अवस्थित संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है । इसी प्रकार वारह

पुरिसवेद० । णवरि अवत्त० णत्थि । इत्थिवे०-णवुंस०-चदुणोक० भुज०-अप्प० णत्थि अंतरं । एवं सव्वणेरइय-पंचिदियतिरिक्खतिय३-देवगइदेवा भयणादि जाव णवगेवज्जा त्ति । तिरिक्खाणमोघं । णवरि वारसक०-णवणोक० अवत्त० णत्थि । पंचि०तिरिक्ख-अपज्ज० णारयभंगो । णवरि अणंताणु०चउक्क० अवत्त० पुरिसवे० अवट्ठि० सम्म०-सम्मामि० अवत्त० णत्थि । मिच्छत्तस्स असंका० ।

§ ५७२. मणुसतिए णारयभंगो । णवरि वारसक०-णवणोक० अवत्त० ओघं । मणुसअपज्ज० सत्तावीसं पयडीणं सव्वपदसंका० जह० एगस०, उक्क० पल्लिदो० असंखे०भागो । णवरि सोलसक०-भय-दुगुंछा० अवट्ठि० जह० एयस०, उक्क० असं-खेज्जा लोगा । अणुदिसादि जाव सव्वट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्थिवे०-णवुंस० अप्प०-संका० णत्थि अंतरं, णिरंतरं । अणंताणु०४ भुज०संका० जह० एयस०, उक्क० वास-पुधत्तं पल्लिदो० असंखे०भागो । अप्प० णत्थि अंतरं । वारसक०-पुरिसवेद-छण्णोक० देवोघं । एवं जाव० ।

§ ५७३. भावो सव्वत्थ ओदइओ भावो ।

कषाय, भय, जुगुप्सा और पुरुषवेदकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है । स्त्रीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपायोंके भुजगार और अल्पतर पदका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चत्रिक, देव गतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर नौप्रवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । सामान्य तिर्यञ्चोंमें श्रोघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कषाय और नौ नोकपायोंका अवक्तव्यपद नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि अनन्तानु-वन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपद, पुरुषवेदका अवस्थित पद तथा सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका अवक्तव्यपद नहीं है । ये मिथ्यात्वके असंक्रामक होते हैं ।

§ ५७२. मनुष्यत्रिकमें नारकियोंके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि वारह कषाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रामकोंका भङ्ग श्रोघके समान है । मनुष्य अपर्याप्तकोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । इतनी विशेषता है कि सोलह कषाय, भय और जुगुप्साके अवस्थित संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल असख्यात लोक प्रमाण है । अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है निरन्तर हैं । अनन्तानुवन्धीचतुष्कके भुजगार संक्रामकोंका जघन्य अन्तरकाल एक समय है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाल नौ अनुदिश और चार अनुत्तर विमानोंमें वर्ष पृथक्त्वप्रमाण और सर्वार्थसिद्धिमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । अल्पतरपदका अन्तरकाल नहीं है । वारह कषाय, पुरुषवेद और छह नोकपायोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

§ ५७३. भाव सर्वत्र औदयिक भाव है ।

❀ अप्पावहुअं ।

§ ५७४. एतो भुजगारादिसंकामयाणमप्पावहुअं भणिस्सामो ति वुत्तं होइ । तस्स दुविहो णिद्देसो—ओघादेसभेदेण । तत्थोघणिद्देसकरणड्डमुत्तरो सुत्तपवंधो ।

❀ सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अवट्ठिदसंकामया ।

§ ५७५. मिच्छत्तस्सावट्ठिदसंकामया णाम पुव्वुप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो सम्मत्तपडिवण्णपढमावलियवट्टुमाणा उक्कस्सेण संखेज्जसमयसंचिदा ते सव्वत्थोवा; उवरि भणिस्समाणासेसपदेहितो थोवयरा ति वुत्तं होइ ।

❀ अवत्तव्वसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५७६. कथं संखेज्जसमयसंचयादो पुव्विबल्लादो एयसमयसंचिदो अवत्तव्वसंका-मयरासी असंखेज्जगुणो होइ ति णेहासंकणिज्जं, कुदो ? सम्मत्तं पडिवज्जमाणजीवाण-मसंखेज्जदिभागस्सेवावट्ठिदभावेण परिणामब्भुवगमादो । कुदो ? एवमवट्ठिदपरिणामस्स सुट्टु दुल्लहत्तादो ।

❀ भुजगारसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५७७. किं कारणं ? अंतोमुहुत्तमेत्तकालसंचिदत्तादो ।

* अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ५७४. आगे भुजगार आदि पदोंके संक्रामकोंके अल्पबहुत्वको बतलाते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । उसका निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमे से ओघका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र प्रबन्ध है—

* मिथ्यात्वके अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ५७५. जिन्होंने पहले सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है ऐसे जो जीव मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसकी प्रथमावलिमें विद्यमान हैं और जो उत्कृष्ट रूपसे संख्यात समयोंमे सञ्चित हुए हैं वे मिथ्यात्वके अवस्थित संक्रामक जीव हैं । वे सबसे स्तोक हैं । आगे कहे जानेवाले पदोंसे स्तोकतर हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* उनसे अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५७६. शंका—संख्यात समयमे सञ्चित हुई पूर्वकी राशिसे एक समयमे सञ्चित हुई अवक्तव्य संक्रामक राशि असंख्यातगुणी कैसे हो सकती है ?

समाधान—ऐसी यहाँ आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवोंके असंख्यातवें भागप्रमाण जीवोंका ही अवस्थितरूपसे परिणाम स्वीकार किया गया है । कारण कि इस प्रकार अवस्थित परिणाम अत्यन्त दुर्लभ है ।

* उनसे भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५७७. क्योंकि अन्तर्मुहूर्तकालमे इनका सञ्चय होता है ।

❀ अप्पयरसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५७८. कुदो ? छावट्टिसागरोवममेत्तवेदयसम्मत्तकालव्भंतरसंचयावलंबणादो ।

❀ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया ।

§ ५७९. कुदो ? एयसमयसंचयावलंबणादो ।

❀ भुजगारसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५८०. कुदो ? अंतोमुहुत्तसंचिदत्तादो ।

❀ अप्पयरसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५८१. कुदो ? सम्मामिच्छत्तस्स उव्वेत्तलमाणमिच्छाइट्ठीहिं सह छावट्टिसागरो-
वमकालव्भंतरसंचिदवेदयसम्माइट्टिरासिस्स सम्मत्तस्स वि पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तुव्वेत्तण-
कालव्भंतरसंकलिदरासिस्स गहणादो ।

❀ सोलसकसाय-भय-दुगुंछाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया ।

§ ५८२. कुदो ? अणंताणुवंधीणं विसंजोयणापुव्वसंजोगे वट्टमाणाणमेयसमय-
संचिदं पलिदो० असंखे०भागमेत्तजीवाणं सेसाणं च सव्वोवसामणापडिवादपढमसमए
पयट्टमाणसंखेज्जोवसामयजीवाणं गहणादो ।

❀ अवट्टिदसंकामया अणंतगुणा ।

* उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५७८. क्योंकि छ्द्यासठ सागरप्रमाण वेदकसम्यक्त्वके कालके भीतर हुए सञ्चयका यहाँ अवलम्बन लिया गया है ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ५७९. क्योंकि यहाँ पर एक समयके सञ्चयका अवलम्बन लिया गया है ।

* उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५८०. क्योंकि इनका सञ्चय अन्तर्मुहूर्तमे होता है ।

* उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५८१. क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्वकी उद्वेलना करनेवाली राशिके साथ छ्द्यासठ सागर कालके भीतर सञ्चित हुं वेदकसम्यग्दृष्टि राशिको तथा सम्यक्त्वकी अपेक्षासे पल्यके असंख्यातवें भाग-
प्रमाण कालके भीतर सञ्चित हुई राशिको यहाँ पर ग्रहण किया है ।

* सोलह कपाय, भय और जुगप्साके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ५८२. क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंकी अपेक्षा विसंयोजनापूर्वक संयोगमें विद्यमान एक समयमें सञ्चित हुए पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जीवोंको तथा शेष कर्मोंकी अपेक्षा सर्वोपशा-
मनासे गिरनेके प्रथम समयमे विद्यमान संख्यात उपशामक जीवोंको यहाँ पर ग्रहण किया है ।

* उनसे अवस्थित संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ ५८३. कुदो ? संखेजसमयसंचिदेइंदियरासिस्स पहाणीभावेणेत्थविवक्खिय-
तादो ।

❁ अप्पयरसंकामया असंखेजगुणा ।

§ ५८४. किं कारणं ? पलिदोवमासंखेजभागमेत्तप्पयरकालुसंचयावलंणदो ।

❁ भुजगारसंकामया संखेजगुणा ।

§ ५८५. कुदो ? धुवबंधीणमप्पयरकालादो भुजगारकालस्स संखेजगुणतोवएसादो ।

❁ इत्थिवेदहस्सरदीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया ।

§ ५८६. संखेजोवसामयजीवविसयत्तेण पयदावत्तव्वसंकामयाणं थोवभावसिद्धीए
विरोहाभावादो ।

❁ भुजगारसंकामया अणंतगुणा ।

§ ५८७. कुदो ? अंतोमुहुत्तमेत्तसगबंधकालसंचिदेइंदियरासिस्स गहणादो ।

❁ अप्पयरसंकामया संखेजगुणा ।

§ ५८८. कुदो ? सगबंधकालादो संखेजगुणपडिवक्खबंधगद्दाए संचिदरासिस्स
गहणादो ।

§ ५८३. क्योंकि संख्यात समयके भीतर सञ्चित हुई एकेन्द्रिय जीव राशिप्रधानरूपसे
यहाँ पर विवक्षित हैं ।

* उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५८४. क्योंकि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अल्पतर कालके भीतर हुए सञ्चयका
यहाँ पर अवलम्बन लिया गया है ।

* उनसे भुजगारसंकामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५८५. क्योंकि ध्रुवबन्धी प्रकृतियोंके अल्पतर कालसे भुजगारकालके संख्यातगुणे होनेका
उपदेश है ।

* स्त्रीवेद, हास्य और रतिके अवक्तव्यसंकामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ५८६. क्योंकि संख्यात उपशामक जीवोंके सम्बन्धसे प्रकृत अवक्तव्यसंकामक जीवोंके
स्तोकपनेके सिद्ध होनेमे कोई विरोध नहीं आता ।

* उनसे भुजगारसंकामक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ ५८७. क्योंकि अन्तमुहूर्तप्रमाण अपने बन्धकालके भीतर सञ्चित हुई एकेन्द्रिय जीव
राशिको यहाँ पर ग्रहण किया है ।

* उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५८८. क्योंकि अपने बन्धकालसे संख्यातगुणे प्रतिपन्न बन्धक कालके भीतर सञ्चित
हुई जीवराशिको यहाँ पर ग्रहण किया है ।

❀ पुरिसवेदस्स सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया ।

§ ५८६. सुगमं ।

❀ अवट्ठिदसंकामया असंखेज्जगुणा ।

§ ५९०. कुदो ? पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तसम्माइट्ठिजीवाणं पुरिसवेदावट्ठिद-
संक्रमपज्जाएण परिणदाणमुवलंभादो ।

❀ भुजगारसंकमया अणंतगुणा ।

§ ५९१. सगबंधकालवन्धंतरसंचिदेइं दियरासिस्स गहणादो ।

❀ अप्पयरसंकामया संखेज्जगुणा ।

§ ५९२. पडिवक्खबंधगद्धागुणगारस्स तप्पमाणत्तोवलंभादो ।

❀ एवुंसयवेद-अरइ-सोगाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया ।

§ ५९३. संखेज्जोवसामयजीवविसयत्तादो ।

❀ अप्पयरसंकामया अणंतगुणा ।

§ ५९४. किं कारणं ? अतोमुहुत्तमेत्तपडिवक्खबंधगद्धासंचिदेइं दियरासिस्स सम-
वलंवणादो ।

❀ भुजगारसंकामया संखेज्जगुणा ।

* पुरुषवेदके अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ५८६. यह सूत्र सुगम है ।

* उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं ।

§ ५९०. क्योंकि पुरुषवेदकी अवस्थित संक्रामक पर्यायरूपसे परिणत ऐसे पत्न्यके असंख्यात-
भागप्रमाण सम्यग्दृष्टि जीव उपलब्ध होते हैं ।

* उनसे भुजगार संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ ५९१. क्योंकि अपने बन्धकालके भीतर सञ्चित हुई एकेन्द्रिय जीवराशिको यहाँ पर
ग्रहण किया ह ।

* उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५९२. क्योंकि प्रतिपत्त बन्धककालका गुणकार तत्प्रमाण उपलब्ध होता है ।

* नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ।

§ ५९३. क्योंकि सख्यात उपशामक जीव इस पदके विषय हैं ।

* उनसे अल्पतर संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं ।

§ ५९४. क्योंकि अन्तर्मुहूर्त प्रमाण प्रतिपत्तबन्धक कालके भीतर सञ्चित हुई एकेन्द्रिय
जीवराशिका यहाँ पर अवलम्बन लिया ह ।

* उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं ।

§ ५६५. कुदो ? एदेसिं कम्माणं पडिवक्खबंधगद्दादो सगबंधकालस्स संखेज्ज-
गुणत्तोवलंभादो ।

एवमोघप्पावहुअं समत्तं ।

§ ५६६. आदेसेण गेरइयदंसणतियमोघं । अणंताणु०४ सव्वत्थोवा अवत्त०-
संका० । अवट्ठि०संका० असंखेज्जगुणा । अप्प०संका० असंखे०गुणा । भुज०संका०
संखे०गुणा । एवं बारसक०-भय-दुगुंछा० । णवरि अवत्त० णत्थि । पुरिसवे० सव्व-
त्थोवा अवट्ठि०संका० । भुज०संका० असंखे०गुणा । अप्प०संका० संखे०गुणा ।
एकमित्थीवेद-हस्स-रदि० । णवरि अवट्ठि०संका० णत्थि । णवुंस०-अरदि-सोम०
सव्वत्थोवा अप्प०संका० । भुज०संका० संखे०गुणा । एवं सव्वणेरइय-पंचिदिय-
तिरिक्खतिय-देवगइदेवा भवणादि जाव सहस्सार ति । पंचि०तिरिक्खअपज्ज०-मणुस-
अपज्ज० णारयभंगो । णवरि सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु०४ अवत्त० पुरिसवे० अवट्ठि०
णत्थि । मिच्छत्तस्स असंक्रामया । तिरिक्खाणमोघं । णवरि बारसक०-णवणोक० अवत्त०
णत्थि ।

§ ५६७. मणुसेसु मिच्छ० सव्वत्थोवा अवट्ठि०संका० । अवत्त०संका० संखे०-

§ ५६५. क्योंकि इन कर्मोंका प्रतिपत्त बन्धककालसे अपना बन्धककाल सख्यात गुणा
उपलब्ध होता है ।

इस प्रकार ओघ अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

§ ५६६. आदेशसे नारकियोंमें दर्शनमोहनीयत्रिकका भङ्ग ओघके समान है । अनन्तानु-
बन्धियोंके अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यात
गुणे हैं । उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यात
गुणे हैं । इसी प्रकार बारह कषाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षासे जानना चाहिए । इतनी विशेषता
है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है । पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे
भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी
प्रकार स्त्रीवेद, हास्य और रतिकी अपेक्षासे जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अव-
स्थित संक्रामक जीव नहीं हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोकके अल्पतर संक्रामक जीव सबसे
स्तोक हैं । उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय
तिर्यञ्चत्रिक, देवगतिमें देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्त्रार कल्पतकके देवोंमें जानना
चाहिए । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें नारकियोंके समान भङ्ग है ।
इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका अवक्तव्य
पद तथा पुरुषवेदका अवस्थितपद नहीं है । तथा ये मिथ्यात्वके असंक्रामक होते हैं । सामान्य
तिर्यञ्चोंमें ओघके समान भङ्ग है । इतनी विशेषता है कि बारह कषाय और नौ नोकपायोंका
अवक्तव्यपद नहीं है ।

§ ५६७. मनुष्योंमें मिथ्यात्वके अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवक्तव्य
संक्रामकजीव संख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर संक्रामक-

गुणा । भुज०संका० संखे०गुणा । अप्प०संका० संखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि०-
अणंताणु०४ णारयभंगो । वारसक०-भय-दुगुंछा० अणंताणु०४भंगो । पुरिसवेद०
सव्वत्थोवा अवत्त०संका० । अवट्ठि०संका० संखे०गुणा । भुज०संका० असंखे०-
गुणा । अप्प०संका० संखे०गुणा । इत्थिवेद-हस्स-रदि० सव्वत्थोवा अवत्त०संका० ।
भुज०संका० असंखे०गुणा । अप्प०संका० संखे०गुणा । णवुंसयवेद-अरदि-सोग०
सव्वत्थोवा अवत्त०संका० । अप्प०संका० असंखे०गुणा । भुज०संका० संखे०गुणा ।
एवं मणुसपज्ज०-मणुसिणी० । णवरि संखे०गुणं कायव्वं ।

§ ५६८. आणदादि जाव णवगेवजा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-वारसक०-
इत्थिवे०-छण्णोक० देवोधं । अणंताणु०४ सव्वत्थोवा अवत्त०संका० । अवट्ठि०संका०
असंखे०गुणा । भुज०संका० असंखे०गुणा । अप्प०संका० संखे०गुणा । पुरिसवेद०
अपच्चक्खाणभंगो । णवुंस० इत्थिवेदभंगो । अणुदिसादि सव्वट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-
इत्थिवे०-णवुंस० णत्थि अप्पावहुअं । अणंताणु०४ सव्वत्थोवा भुज०संका० । अप्प०-
संका० असंखे०गुणा । वारसक०-पुरिसवेद-छण्णोक० आणदभंगो । णवरि सव्वट्ठे
संखेज्जं कायव्वं । एवं जाव० ।

एवमप्पावहुगे समत्ते भुजगारो समत्तो ।

जीव संख्यातगुणे हैं । सम्यक्त्व सम्यग्मिध्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भङ्ग नारकियोंके समान
है । वारह कपाय, भय और जुगुप्साका भङ्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान है । पुरुषवेदके अवत्तव्य-
संक्रामकजीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारसंक्रामक
जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । स्त्रीवेद, हास्य और रतिके
अवत्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे
अल्पतरसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । नपुंसकवेद, अरति और शोकके अवत्तव्यसंक्रामक जीव
सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे भुजगारसंक्रामक जीव
संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है
कि इनमें संख्यातगुणा करना चाहिए ।

§ ५६८. आनत कल्पसे लेकर नौ प्रवेयक तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्यात्व,
वारह कपाय, स्त्रीवेद और छह नोकपायोंका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है । अनन्तानुबन्धी-
चतुष्कके अवत्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यात-
गुणे हैं । उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव संख्यात-
गुणे हैं । पुरुषवेदका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरणके समान है । नपुंसकवेदका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है ।
अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें मिध्यात्व, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेदका
अल्पवहुत्व नहीं है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगारसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे
अल्पतरसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । वारह कपाय, पुरुषवेद और छह नोकपायोंका भङ्ग
आनतकल्पके समान है । इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें संख्यातगुणा करना चाहिए । इसी
प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

इस प्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होने पर भुजगार समाप्त हुआ ।

❀ एत्तो पदणिकखेवो ।

§ ५६६. एत्तो भुजगारपरिसमत्तीदो अणंतरं पदणिकखेवो अहिकओ ति दडुव्वो । को पदणिकखेवो णाम ? पदाणं णिकखेवो पदणिकखेवो । जहणुक्कस्सवड्ढि-हाणि-अवट्ठाण-पदाण सामित्तादिणिहेसमुहेण णिच्छयकरणं पदणिकखेवो ति भण्णदे । एवमहियार-संभालणं कादूण संपहि तच्चिसयाणमणियोगद्वाराणमियत्तावहारणडुमुत्तरसुत्तं भणइ—

❀ तत्थ इमाणि तिणिण अणियोगद्वाराणि ।

§ ६००. तत्थ पदणिकखेवो इमाणि भणिससमाणाणि तिणिण अणियोगद्वाराणि णादव्वणि भवंति, अणियोगद्वारणियमेण विणा सव्वेसिं अत्थाहियाराणं पुरुव्वणा-णुवत्तीदो । काणि ताणि तिणिण अणियोगद्वाराणि ति पुच्छिदे तेसिं णामणिहेसोकीरदे—

❀ तं जहा ।

§ ६०१. सुगमं ।

❀ परुव्वणासामित्तमप्पावहुगं च ।

§ ६०२. एवमेदाणि तिणिण चेवाणियोगद्वाराणि पयदत्थपरुव्वणाए संभवन्ति । तत्थ ताव परुव्वणं भणिससामो ति जाणावणडुमुवरिमसुत्तणिहेसो—

* आगे पदनिक्षेपका अधिकार है ।

§ ५६६. 'एत्तो' अर्थात् भुजगारकी समाप्तिके बाद पदनिक्षेपका अधिकार है ऐसा यहाँ जानना चाहिए ।

शंका—पदनिक्षेप किसे कहते हैं ?

समाधान—पदोंके निक्षेपको पदनिक्षेप कहते हैं । जघन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानरूप पदोंका स्वामित्व आदिके निर्देश द्वारा निश्चय करना पदनिक्षेप कहा जाता है ।

इस प्रकार अधिकारकी सम्हाल करके अब तद्विषयक अनुयोगद्वारोंकी इयत्ताका निश्चय करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* उसमें ये तीन अनुयोगद्वार होते हैं ।

§ ६००. उस पदनिक्षेपमे ये आगे कहे जानेवाले तीन अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं, क्योंकि अनुयोगद्वारोंका नियम किये बिना सब अर्थाधिकारोंकी प्ररूपणा नहीं बन सकती । वे तीन अनुयोग-द्वार कौन हैं ऐसा पूछने पर उनका नामनिर्देश करते हैं—

* यथा ।

§ ६०१. यह सूत्र सुगम है ।

* प्ररूपणा, स्वामित्व और अल्पवहुत्व ।

§ ६०२. इस प्रकार प्रकृत अर्थकी प्ररूपणामे ये तीन अनुयोगद्वार ही सम्भव हैं । उनमेंसे सर्व प्रथम प्ररूपणाका कथन करते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं—

❀ परूवणा ।

§ ६०३. सुगममेदमहियांरपरामरंसवकं । सा वुण दुविहा परूवणा जहणुक्कस्स-पदविसयभेदेण । तासिं जहाकममोघणिदेसो ताव कीरदे—

❀ सव्वासिं पयडोणमुक्कस्सिया वड्ढी हाणी अवट्टाणं च अत्थि ।

§ ६०४. कुदो ? सव्वेसिमेव कम्माणं जहाणिद्विट्ठविसए सव्वुक्कस्सवड्ढिहाणि-अवट्टाणसरूवेण पदेससंकमपवुत्तीए वाहाणुवलंभादो ।

❀ एवं जहणणयस्स वि णेदव्वं ।

§ ६०५. तं जहा—सव्वेसिं कम्माणं जहणिया वड्ढी हाणी अवट्टाणं च अत्थि । कुदो ? सव्वजहणणवड्ढिहाणि-अवट्टाणसरूवेण संकमपवुत्तीए सव्वत्थ पडिसेहाभावादो । एवं सामण्णेण जहणुक्कस्सवड्ढिहाणि-अवट्टाणाणमत्थित्तं पदुप्पाइय संपहि जेसिमवट्टाण-संभवो णत्थि तेसिं पुध णिदेसो कीरदे—

❀ एवरि सम्मत्त-सम्माभिच्छुत्त-इत्थि-एवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमवट्टाणं एत्थि ।

§ ६०६. कुदो ? सव्वकालमेदेसिं कम्माणमागमणिज्जराणं सरिसत्ताभावादो । एवमोघपरूवणा गया । जहासंभवमेत्थादेसपरूवणा वि कायव्या । तदो परूवणा समत्ता ।

* प्ररूपणाका अधिकार है ।

§ ६०३. अधिकारका परामर्श करनेवाला यह सूत्रवचन सुगम है । जवन्य पदविषयक प्ररूपणा और उत्कृष्ट पदविषयक प्ररूपणाके भेदसे वह प्ररूपणा दो प्रकारकी है । उनका यथाक्रमसे श्लोचनिर्देश करते हैं—

* सब प्रकृतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है ।

§ ६०४. क्योंकि सभी कर्मोंके यथानिर्दिष्ट विषयमे सर्वोत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान रूपसे प्रदेशसंक्रमकी प्रवृत्तिमें बाधा नहीं उपलब्ध होती ।

* इसी प्रकार जवन्यका भी कथन जानना चाहिए ।

§ ६०५. यथा—सभी कर्मोंकी जवन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान है, क्योंकि सबसे जवन्य वृद्धि हानि और अवस्थानरूपसे संक्रमकी प्रवृत्ति होनेमे सर्वत्र प्रतिषेधका अभाव है । इस प्रकार सामान्यसे जवन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानके अस्तित्वका कथन कर अब जिनका अवस्थान सम्भव नहीं है उनका अलगसे निर्देश करते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका अवस्थान नहीं है ।

§ ६०६. क्योंकि इन कर्मोंकी सदा काल आगमन और निर्जरामें सदृशता नहीं उपलब्ध होती । इस प्रकार श्लोचप्ररूपणा समाप्त हुई । यहाँ पर यथासम्भव आदेश प्ररूपणा भी करनी चाहिए । इसके बाद प्ररूपणा समाप्त हुई ।

❀ सामित्तं ।

§ ६०७. एत्तो उवरि सामित्तमहिकयं ति दट्टव्वं । तं पुण सामित्तं दुविहं—जहणय-
मुक्कस्सयं च । तत्थुक्कस्से ताव पयदं । तत्थ दुविहो णिदेसो ओघादेसभेएण । तत्थोघ-
परूवणट्टमुत्तरो सुत्तपवंधो ।

❀ मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वट्ठो कस्स ?

§ ६०८. सुगमं ।

❀ गुणितकम्मंसियस्स मिच्छत्तक्खवयस्स सव्वसंकामयस्स ।

§ ६०९. जो गुणितकम्मंसियो सत्तमाए पुढवीए शेरइयो तत्तो उव्वट्टिदूण सव्व-
लहुं समयाविरोहेण मणुसेसुप्पज्जिय गब्भादिअट्टवस्साणि गमिय तदो दंसणमोह-
क्खवणाए अब्भुट्टिदो तस्स अणियट्टिअट्टाए संखेज्जेसु भागेसु गदेसु मिच्छत्तचरिमफालिं
सव्वसंकमेण संछुहमाणयस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ । तत्थ किचूणदिवड्ढगुणहाणिमेत्त-
समयपवद्धानमुक्कस्सवडिढसरूवेण संकमदंसणादो ।

❀ उक्कस्सिया हाणी कस्स ?

§ ६१०. सुगमं ।

❀ गुणितकम्मंसियस्स सम्मत्तमुप्पाएदूण गुणसंकमेण संकामिदूण

* स्वामित्वका अधिकार है ।

§ ६०७. इससे आगे स्वामित्वका अधिकार है ऐसा, जानना चाहिए । वह स्वामित्व दो
प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उनमेसे सर्व प्रथम, उत्कृष्टका प्रकरण है । उसके विषयमे ओघ
और आदेशसे निर्देश दो प्रकारका है । उनमेसे ओघका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध है—

* मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ?

§ ६०८. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक मिथ्यात्वका क्षपक जीव सर्वसंक्रम कर रहा है उसके
मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ।

§ ६०९. जो गुणितकर्मांशिक सान्नी पृथिवीका नारकी जीव वहाँसे निकलकर अतिशीघ्र
समयके अवरोध पूर्वक मनुष्योंमे उत्पन्न होकर और गर्भसे लेकर आठ वर्ष वितकर अनन्तर
दर्शनमोहनीयकी क्षणके लिए उद्यत हुआ उसके अनिवृत्तिकरणके कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत
होनेपर मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिका सर्वसंक्रमके द्वारा संक्रम करते हुए प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व
होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कम डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रबन्धोंका उत्कृष्ट वृद्धि रूपसे संक्रम
देखा जाता है ।

* उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?

§ ६१०. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न कर गुणसंक्रमके द्वारा संक्रम

पढमसमयविज्झादसंकामयस्स ।

§ ६११. जो गुणिदकम्मंसिओ सत्तमाए पुढवीए गोरइयो अंतोमुहुत्तेण कम्ममुक्कस्सं काहिदि त्ति विवरीयभावमुवगंतूण सम्मत्तप्पायणाए वावदो तस्स सव्वुक्कस्सेण गुण-संक्रमेण मिच्छत्तं संकामेमाणयस्स चरिमसमयगुणसंक्रमादो पढमसमयविज्झादसंकमे पदिदस्स पयदुक्कस्ससामित्तं होइ । तत्थ किंचूणचरिमगुणसंकमदव्वस्स हाणिसरूवेण संभव-दंसणादो ।

❀ उक्कस्सयमवट्ठाणं कस्स ?

§ ६१२. सुगमं ।

❀ गुणिदकम्मंसिओ पुव्वुप्पायणेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो सम्मत्तं गदो, तं दुसमयसम्माइड्डिमादिं कादूण जाव आवलियसम्माइड्डि त्ति एत्थ अरण्णदरम्हि समये तप्पाओग्गउक्कस्सेण वट्ठिं कादूण से काले तत्तियं संकममाणयस्स तस्स उक्कस्सयमवट्ठाणं ।

§ ६१३. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे—जो गुणिदकम्मंसिओ सम्मत्तमुप्पाइय सव्वलहुं मिच्छत्तं गदो । तत्तो पडिणियत्तिय तप्पाओग्गेण कालेण पुणो वेदयसम्मत्तं पडिवण्णो । तं दुसमयसम्माइड्डिमादिं कादूण जाव आवलियसम्माइड्डि त्ति एत्थंतरे समया-

करके प्रथम समयमें विध्यात संक्रम करता है उसके मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६११. जो गुणितकर्मांशिक सातवी पृथिवीका नारकी जीव अन्तर्मुहूर्तके द्वारा कर्मको उत्कृष्ट करेगा, किन्तु विपरीत भावको प्राप्त होकर सम्यक्त्वके उत्पन्न करनेमें व्यापृत हुआ उसके सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके द्वारा मिथ्यात्वकी संक्रम करते हुए अन्तिम समयवर्ती गुणसंक्रमसे प्रथम समयवर्ती विध्यातसंक्रममें पतित होनेपर प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कम अन्तिम गुणसंक्रम द्रव्यकी हानिरूपसे सम्भावना देखी जाती है ।

❀ उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ?

§ ६१२. यह सूत्र सुगम है ।

❀ जो पहले उत्पन्न हुए सम्यक्त्वके साथ रहा है ऐसा जो गुणितकर्मांशिक जीव मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, उस सम्यग्दृष्टिके सम्यक्त्व उत्पन्न होनेके द्वितीय समयसे लेकर एक आवलि कालके भीतर किसी एक समयमें तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट वृद्धि करके तदनन्तर समयमें उतना ही संक्रम करने पर उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

§ ६१३. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—जो गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न करके अतिशीघ्र मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । फिर उससे निवृत्त होकर तत्प्रायोग्य कालके द्वारा पुनः वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । उस द्वितीय समयवर्ती सम्यग्दृष्टिसे लेकर एक आवलि प्रविष्ट सम्यग्दृष्टि होने तक इस कालके मध्य समयके अविरोध पूर्वक वृद्धिको करके तृतीय आदि किसी

विरोहेण वड्ढि कादूण तदियादीणमण्णदरम्हि समए वड्ढमाणस्स पयदसामित्तसंबंधो दड्ढव्वो । तं जहा—तहा सम्मत्तं पडिवण्णस्स पढमसमए अवत्तव्वसंकमो होइ । पुणो विदिय-समए तप्पाओग्गुकस्सएण संक्रमपज्जाएण वड्ढिदस्स वड्ढिसंकमो जायदे । एसो च वड्ढिसंकमो समयपवड्ढस्सासंखेज्जदिभागमेत्तो । एवमेदेण तप्पाओग्गुकस्सेणासंखेज्जदिभागेण वड्ढिदूण से काले आगमणिज्जराणं सरिसत्तवसेण तत्तियं चैव संकामेमाणयस्स तस्स उक्कस्सयमवट्ठाणं होदि । एवं तदियादिसमएसु वि तप्पाओग्गुकस्सेण संक्रमपज्जाएण वड्ढिदूण तदणंतरसमए तत्तियं चैव संकामेमाणयस्स पयदसामित्तमविरुद्धं शेदव्वं जाव दुचरिमसमए तप्पाओग्गुकस्ससंकमवुड्ढीए वड्ढिं कादूण चरिमसमए उक्कस्सावट्ठाणपज्जाएण परिणदावलियसम्माइड्ढि ति एत्तियो चेषुकस्सावट्ठाणसामित्तविसए । एत्थ पढमसमयो-वत्तव्वसंकमादो विदियसमयम्मि तत्तियं चैव संकामेमाणयस्स पयदुकस्सावट्ठाणसामित्तं किण्ण गहिदं ? ण, वड्ढि-हाणीणमण्णदरणिबंधणस्स संकमावट्ठाणस्सेह विवक्खियत्तादो ।

❀ सम्मत्तस्स उक्कस्सिया वड्ढी कस्स ?

§ ६१४. सुगमं ।

❀ उव्वेल्लमाणयस्स चरिमसमए ।

§ ६१५. गुणित्कम्मंसियलक्खणेणागंतूण सम्मत्तमुप्पाइय सव्वुकस्सियाए पूरणए

एक समयमे विद्यमान रहते हुए उसके प्रकृत स्वामित्वका सम्बन्ध जानना चाहिए । यथा—इस प्रकार सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमे अवक्तव्य संक्रम होता है । पुनः दूसरे समयमें तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्रम पर्यायरूपसे रहते हुए उसके वृद्धि संक्रम उत्पन्न होता है । यह वृद्धि संक्रम समयप्रबद्धके असंख्यातर्वे भागप्रमाण होता है । इस प्रकार इस तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट असंख्यातर्वे भागरूपसे वृद्धि होकर अनन्तर समयमे आय और निर्जराकी समानताके कारण उतने ही द्रव्यका संक्रम करनेवाले उस जीवके उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इसी प्रकार तृतीय आदि समयोंमे भी तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्रम पर्यायसे वृद्धि करके तदनन्तर समयमें उतना ही संक्रम करनेवाले उसके प्रकृत स्वामित्व अविरुद्धरूपसे जानना चाहिए । जो कि द्विचरम समयमे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्रम वृद्धिके द्वारा वृद्धि करके अन्तिम समयमे उत्कृष्ट अवस्थान पर्यायरूपसे परिणत हुए आवलि प्रविष्ट सम्यग्दृष्टि जीवके होने तक इतना ही उत्कृष्ट अवस्थानके विषयमें सम्भव है ।

शंका—यहाँ प्रथम समयमे हुए अवक्तव्य संक्रमसे दूसरे समयमे उतना ही संक्रम करने वाले जीवके प्रकृत उत्कृष्ट अवस्थाने संक्रम क्यों नहीं ग्रहण किया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वृद्धि और हानि इनमेंसे किसी एकका अवलम्बन लेकर हुआ संक्रम अवस्थान यहाँ पर विवक्षित है ।

* सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ?

§ ६१४. यह सूत्र सुगम है ।

* उद्वेलना करनेवाले जीवके अन्तिम समयमें सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है ।

§ ६१५. गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर और सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तथा सर्वोत्कृष्ट

१. ता० प्रती वड्ढिदूण इति पाठ ।

सम्मत्तमावरिय तदो मिच्छत्तं पडिवजिय सव्वरहस्सेणुव्वेत्थणकालेणुव्वेत्थमाणयस्स चरिम-
ट्टिदिखंडयचरिमसमए पयदुक्कस्ससामित्तं होइ । तत्थ किंचूणसव्वसंकमदव्वमेत्तस्स उक्कस्स-
वड्डिसरूवेणुवलद्वीदो ।

❀ उक्कस्सिया हाणी कस्स ?

§ ६१६. सुगमं ।

❀ गुण्णिकम्मंसियो सम्मत्तमुप्पाएदूण लहुं मिच्छत्तं गत्तो तस्स
मिच्छाइड्डिस्स पढमसमए अवत्तव्वसंकमो विदियसमये उक्कस्सिया हाणी ।

§ ६१७. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे—जो गुण्णिकम्मंसियो अंतोमुहुत्तेण कम्मं
गुणेहदि ति विवरीयं गंतूण सम्मत्तमुप्पाइय सव्वुक्कस्सियाए पूरणाए सम्मत्तमावरिय तदो
सव्वलहुं मिच्छत्तं गदो तस्स विदियसमयमिच्छाइड्डिस्स उक्कस्सिया सम्मत्तपदेससंकम-
हाणी होइ । कुदो ? तत्थ पढमसमय-अथापवत्तसंकमादो अवत्तव्वसरूवादो विदियसमए
हीयमाणसंकमदव्वस्स उवरिमासेसहाण्णिव्वं पेक्खिऊण बहुत्तोवलंभादो । एत्थ चोदओ
भणइ—णेदमुक्कस्सहाणिसामित्तं घडदे, एत्तो अण्णस्स हाण्णिव्वस्स बहुत्तोवलंभादो । तं
जहा—गुण्णिकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सम्मत्तमुप्पाइय मिच्छत्तं गंतूणंतोमुहुत्तमथापवत्तसंकमं
कादूण तदो उव्वेत्थणसंकमेण परिणदस्स पढमसमए उक्कस्सिया हाणी कायव्वा, पुव्विज्ज-

पूरणाके द्वारा सम्यक्त्वको पूर कर अनन्तर मिथ्यात्वमे जाकर सबसे लघु उद्वेलना कालके द्वारा
उद्वेलना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता
है. क्योंकि वहाँ पर कुछ कम सर्वसक्रम प्रमाण द्रव्यकी उत्कृष्ट वृद्धिरूपसे उपलब्धि होती है ।

* इसकी उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?

§ ६१६. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न कर अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें गया
उस मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंकम होता है और दूसरे समयमें उत्कृष्ट
हानि होती है ।

§ ६१७. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—जो गुणितकर्मांशिक जीव अन्तर्मुहूर्त के द्वारा कर्मको
गुणित करेगा; किन्तु विपरीत जाकर और सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सर्वोत्कृष्ट पूरणाके द्वारा सम्य-
क्त्वको पूरकर अनन्तर अतिशीघ्र मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ उस द्वितीय समयवर्ती मिथ्यादृष्टि जीवके
उत्कृष्ट प्रदेशसंकम हानि होती है, क्योंकि वहाँ पर प्रथम समयमें होनेवाले अवक्तव्यरूप अध-
प्रवृत्त संक्रमसे दूसरे समयमें हीयमान सक्रम द्रव्य उपरिम समस्त हानिरूप द्रव्यको देखते हुए
बहुत उपलब्ध होता है ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि यह उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व घटित नहीं होता,
क्योंकि इससे अन्य हानि द्रव्य बहुत उपलब्ध होता है । यथा—गुणित कर्मांशिक लक्षणसे आकर
और सम्यक्त्वको उत्पन्न कर मिथ्यात्वमें जाकर अन्तर्मुहूर्त काल तक अधःप्रवृत्त संक्रम कर
तदनन्तर उद्वेलना संक्रमरूपसे परिणत हुए उसके प्रथम समयमें उत्कृष्ट हानि करनी चाहिए,

हाणिद्ववादो एत्थतणहाणिद्वस्सासंखेज्जगुणत्तदंसणादो । तदो पुच्चिल्लविसयं मोत्तू-
रोत्थेयं सामित्तेण होद्वमिदि ? ण एस दोसो, परिणामविसेसमस्सिऊण पयट्टमाणस्स
संकमस्स विदियसमयं मोत्तूण उवरि अणंतगुणसंकिलेसविसए बहुत्तविरोहादो । कुदो एदं
णव्वदे ? एदम्हादो चैव सुत्तादो ।

❀ सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वड्ढो कस्स ?

§ ६१८. सुगममेदं पुच्छावकं ।

❀ गुणिदकम्मंसियस्स सव्वसंकामयस्स ।

§ ६१९. एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणाए मिच्छत्तभंगो ।

❀ उक्कस्सिया हाणी कस्स ?

§ ६२०. सुगमं ।

❀ उप्पादिदे सम्मत्ते सम्मामिच्छत्तादो सम्मत्ते जं संकामेदि तं
पदेसग्गमंगुलस्सासंखेज्जभागपडिभागं । तदोउक्कस्सियाहाणी ण होदि त्ति ।

§ ६२१. एदस्साहिप्पाओ उवसमसम्मत्ते समुप्पादिदे मिच्छत्तस्सेव सम्मामिच्छत्तस्स
वि गुणसंकमो अत्थि चैव, उवसमसम्मत्तविदियसमयप्पहुडि पडिसमयमसंखेज्जगुणाए

क्योंकि पूर्वोक्त हानि द्रव्यसे यहाँ पर प्राप्त हुआ हानि द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है । इस
लिए पूर्वोक्त विषयको छोड़कर यहाँ पर ही स्वामित्व होना चाहिए ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि परिणामविशेषका आश्रय कर प्रवर्तमान
हुए संक्रमका दूसरे समयके सिवा आगे अनन्तगुणे संक्लेशके सद्भावमे बहुत होनेका विरोध है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

* सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ?

§ ६१८. यह पृच्छावाक्य सुगम है ।

* सर्वसंक्रम करनेवाले गुणितकर्मांशिक जीवके होती है ।

§ ६१९. इस सूत्रकी अर्थप्ररूपणा, जिस प्रकार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धिके स्वामीके
प्रतिपादक सूत्रकी अर्थप्ररूपणा कर आये हैं, उसके समान है ।

* उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?

§ ६२०. यह सूत्र सुगम है ।

* सम्यक्त्वको उत्पन्न करने पर सम्यग्मिथ्यात्वसे सम्यक्त्वमें जो द्रव्य संक्रमित
होता है वह द्रव्य अंगुलके असंख्यातवें भागरूप भागहारसे लब्ध होता है, इसलिए
यहाँ पर उत्कृष्ट हानि नहीं होती है ।

§ ६२१. इन सूत्रका अभिप्राय—उपशमसम्यक्त्वके उत्पन्न करने पर मिथ्यात्वके समान
सम्यग्मिथ्यात्वका गुणसंक्रम है ही, क्योंकि उपशम सम्यक्त्वके दूसरे समयमे लेकर प्रत्येक समयमें

सेठीए सम्मामिच्छतादो सम्मत्सरुवेण संकमपवुत्तीए वाहाणुवलंभादो । किंतु तहा संकममाणसम्मामिच्छत्तदव्वस्स पडिभागो अंगुलस्सासंखेज्जदिभागो । कुदो एदमवगम्मदे ? एदम्हादो चैव सुत्तादो । एवं च संते तत्तो विज्झादसंकमे पदिदस्स उक्कस्सिया हाणी ण होइ, विज्झाद-गुणसंकमादो विज्झादसंकमेण परिणदम्मि सच्चुक्कस्सियाए हाणीए संभवविरोहादो । तदो एदं मोत्तूण विसयंतरे सामित्ताविहाणेण होदव्वमिदि । एवं च कयणिच्छयो तण्णिदेसकरणुदुमुत्तरसुत्तमाह—

❀ गुणिदकम्मंसिओ सम्मत्तमुप्पाएदूण लहुं चैव मिच्छत्तं गदो, जहरिणयाए मिच्छत्तद्धाए पुण्णाए सम्मत्तं पडिवण्णो, तस्स पढमसमय-सम्माइडिस्स उक्कस्सिया हाणी ।

§ ६२२. एदस्स सामित्तसुत्तस्स अत्थो बुच्चदे । तं जहा—गुणिदकम्मंसियलक्ख-णेणागंतूण सम्मत्तमुप्पाइय सच्चुक्कस्सगुणसंकमेण सम्मामिच्छत्तमावरिय तदो लहुं चैव मिच्छत्तमुवगओ । किमडुमेसो मिच्छत्तमुवणिज्जदे ? अधापवत्तसंकमेण बहुदव्वसंकमं कादूण तत्तो सम्मत्तं पडिवण्णस्स पढमसमए विज्झादसंकमेणुक्कस्सहाणिसामित्तविहाणट्ठं । सेसं

असंख्यातगुणी श्रेणिरूपसे सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यमेसे सम्यक्त्वरूपसे संक्रमकी प्रवृत्ति होने पर भी कोई बाधा नहीं उपलब्ध होती । किन्तु इस प्रकारसे संक्रमको प्राप्त होनेवाले सम्यग्मिथ्यात्वके द्रव्यका प्रतिभाग अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—इसी सूत्रसे जाना जाता है ।

और ऐसा होने पर उसके बाद विध्यातसंक्रममें पतित हुए उसकी उत्कृष्ट हानि नहीं होती, क्योंकि विध्यात और गुणसंक्रमसे विध्यातसंक्रमरूपसे परिणत होने पर सर्वोत्कृष्ट हानिके सम्भव होनेमें विरोध है । इसलिए इसे छोड़कर दूसरे स्थल पर स्वामित्वका विधान होना चाहिए इस प्रकार उक्त प्रकारका निश्चय करके उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* जो गुणितकर्माशिक जीव सम्यक्त्वको उत्पन्न कर अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें गया । पुनः लघन्य मिथ्यात्वके कालके पूर्ण होने पर सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ, उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६२२. इस स्वामित्व सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—गुणितकर्माशिकलक्षणसे आकर सम्यक्त्वको उत्पन्न कर सर्वोत्कृष्ट गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वको पूरा कर अनन्तर अतिशीघ्र मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ ।

शंका—यह मिथ्यात्वको किसलिए प्राप्त कराया जाता है ?

समाधान—अध.प्रवृत्तसंक्रमके द्वारा बहुत द्रव्यका संक्रम करके अनन्तर सम्यक्त्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमें मिथ्यातसंक्रमके द्वारा उत्कृष्ट हानिके स्वामित्वका विधान करनेके लिए इसे सर्व प्रथम मिथ्यात्वको प्राप्त कराया जाता है ।

सुत्ताणुसारेण वत्तव्वं । एत्थ हाणिदव्वपमाणे आणिज्जमाणे सम्माइड्डिपठमसययविज्झाद-
संकमदव्वमधापवत्तसंकमदव्वादो सोहिदे सुद्धसेसमेत्तं होइ त्ति वत्तव्वं । तदो विज्झाद-
गुणसंकमजणिदहाणिदव्वादो पयदहाणिदव्वमसंखेज्जगुणमिदि तप्परिहारेणेत्येव सामित्त-
विहाणमविरुद्धं सिद्धं । अधापवत्तसंकमादो उव्वेल्लणासंकमेण परिणदमिच्छाइड्डिमि
पयदुक्कस्ससामित्तावलंबणे सुट्टु लाहो दिस्सदि त्ति णासंकणिज्जं, उव्वेल्लणाहिमुहस्स अधा-
पवत्तसंकमादो एत्थतणअधापवत्तसंकमस्स परिणामपाहम्मेण बहुत्तोवलंबादो । णेदमसिद्धं,
एदम्हादो चेव सामित्तसुत्तादो तस्सिद्धीए ।

❀ अणंताणुबंधीणमुक्कस्सिया वड्ढो कस्स ?

§ ६२३. सुगमं ।

❀ गुणदकम्मसियस्स सव्वसंकामयस्स ।

§ ६२४. गुणिदकम्मसियलक्खणेणागंतूण सव्वलहुं विसंजोयणाए अब्भुट्टिदस्स
चरिमफालीए सव्वसंकमेण पयदुक्कस्ससामित्तं होइ, तत्थ किंचूणकम्मट्टिदिसंचयस्स
वड्डिसरूवेण संकंतिदंसणादो ।

❀ उक्कस्सिया हाणी कस्स ?

§ ६२५. सुगमं ।

शेष कथन सूत्रके अनुसार करना चाहिए । यहाँ पर हानिका द्रव्यप्रमाण लानेपर
सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयके विध्यातसंक्रम द्रव्यको अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्रव्यमेसे घटा देने पर जो
शेष बचे उतना होता है ऐसा कहना चाहिए । इसलिए विध्यात और गुणसंक्रमसे उत्पन्न हुए
हानिद्रव्यसे प्रकृत हानिद्रव्य असंख्यातगुणा होता है, इसलिए उसका परिहार करके यहीं पर
स्वामित्वका विधान अविरुद्ध सिद्ध होता है । अधःप्रवृत्तसंक्रमसे उद्वेलनासंक्रमके द्वारा परिणत
हुए मिथ्यादृष्टि जीवमे प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका अवलम्बन करने पर अच्छा लाभ दिखाई देता है
ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उद्वेलनाके अभिमुख हुए जीवके होनेवाले अधः-
प्रवृत्तसंक्रमसे यहाँ पर होनेवाला अधःप्रवृत्तसंक्रम परिणामोंके माहात्म्यवश बहुत उपलब्ध होता
है । और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी स्वामित्व सूत्रसे उसकी सिद्धि होती है ।

❀ अनन्तानुबन्धियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ?

§ ६२३. यह सूत्र सुगम है ।

❀ सर्वसंक्रामक गुणितकर्मांशिक जीवके होती है ।

§ ६२४. गुणितकर्मांशिकलक्षणसे आकर अतिशीघ्र विसंयोजना करनेमे उद्यत हुए जीवके
चरम फालिका सर्वसंक्रम (करनेपर प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कम
कर्मस्थिति सञ्चयकी वृद्धिरूपसे संक्रान्ति देखी जाती है ।

❀ उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?

§ ६२५. यह सूत्र सुगम है ।

❀ गुणितकम्मंसिओ तप्पाओग्गुक्कस्सियादो अधपवत्तसंकमादो सम्मत्तं पडिवज्जिऊण विज्झादसंकामगो जादो, तस्स पढमसमयसम्माइडिस्स उक्कस्सिया हाणी ।

§ ६२६. गुणितकम्मंसियलक्खणेणागंतूण मिच्छाइडिचरिमसमए तप्पाओग्गुक्कस्सएण अधापवत्तसंकमेण परिणमिय तदणंतरसमए सम्मत्तपडिलंभवसेण विज्झादसंकामगो जादो तस्स पढमसमयसम्माइडिस्स पयहुक्कस्सहाणिसामित्ताहिसंवंधो । सेसं सुगमं ।

❀ उक्कस्सयमवट्ठाणं कस्स ?

§ ६२७. सुगमं ।

❀ जो अधापवत्तसंकमेण तप्पाओग्गुक्कस्सएण वड्ढिदूण अवट्ठिदो तस्स उक्कस्सयमवट्ठाणं ।

§ ६२८. जो गुणितकम्मंसिओ तप्पाओग्गुक्कस्सएणाधापवत्तसंकमेण विवक्खियसमयम्मि वड्ढिऊण तदणंतरसमए तेत्तियमेत्तेणावट्ठिदो तस्स पयदसमित्ताहिसंवंधो ति सुत्तत्थसमुच्चयो । एत्थुक्कस्सहाणिविसयमुक्कस्सावट्ठाणं गेण्हामो, पयदवड्ढिविसयसंकमावट्ठाणादो तस्सासंखेज्जगुणत्तसमुवलंभादो ? ण एस दोसो, गुणितकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सम्मत्तमुप्पाइय उक्कस्सहाणीए परिणदस्स विदियसमए अवट्ठाणकरणोवायाभावादो । तं

* जो गुणितकर्मांशिक जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्तसंक्रमसे सम्यक्त्वको प्राप्त कर विध्यातसंक्रामक हो गया उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टिके उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६२६. क्योंकि गुणितकर्मांशिकलक्षणसे आकर मिथ्यादृष्टिके अन्तिम समयमे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्तसंक्रमरूपसे परिणाम कर तदनन्तर समयमे सम्यक्त्वको प्राप्त करनेके कारण विध्यातसंक्रामक हो गया उस प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीवके प्रकृत उत्कृष्ट हानिके स्वामित्वका अभिसम्बन्ध है । जेप कथन सुगम है ।

* उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ?

§ ६२७. यह सूत्र सुगम है ।

* जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा वृद्धि कर अवस्थित है उसके उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

§ ६२८ क्योंकि जो गुणितकर्मांशिक जीव तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा विवक्षित समयमे वृद्धि करके तदनन्तर समयमे उतने ही संक्रमरूपसे अवस्थित है उसके प्रकृत स्वामित्वका सम्बन्ध होता है यह सूत्रार्थका समुच्चय है ।

शंका—यहाँ पर उत्कृष्ट हानिविषयक उत्कृष्ट अवस्थानको ग्रहण करते हैं, क्योंकि प्रकृत वृद्धि विषयक संक्रमके अवस्थानसे वह असंख्यातगुणा उपलब्ध होता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर और सम्यक्त्वको उत्पन्न कर उत्कृष्ट हानिरूपसे परिणत हुए जीवके दूसरे समयमें अवस्थान करनेका कोई उपाय नहीं है !

पि कुदो ? तत्थ मिच्छाइड्डिवरिमावलियाए पडिच्छिददव्वसेणावलियकालभंभंतरे वड्डिसंकमस्सेव दंसणादो ।

❀ अड्डकसायाणमुक्कस्सिया वड्ढो कस्स ?

§ ६२६. सुगमं ।

❀ गुण्णिकम्मंसियस्स सव्वसंकामयस्स ।

§ ६३० गुण्णिकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सव्वलहुं खवणाए अब्भुट्ठिय सव्वसंकमेण परिणदम्मि पयदक्कमाणमुक्कस्सिया वड्ढी होइ, तत्थ सव्वसंकमेण किंचूणदिवड्ढुगुणहाणि-मेत्तसमयपव्वद्धानं पयदवड्ढिसरूवेण संकंतिदंसणादो ।

❀ उक्कस्सिया हाणी कस्स ?

§ ६३१. सुगमं ।

❀ गुण्णिकम्मंसियो पढमदाए कसायउवसामणद्धाए जाधे दुविहस्स कोहस्स चरिमसमयसंकामगो जादो, तदो से काले मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स उक्कस्सिया' हाणी ।

§ ६३२. 'दुविहस्स कोहस्स' अड्डसु कसाएसु दुविहस्स ताव कोहस्स पयदुक्कस्सहाणि-सामित्तमेदेण सुत्तेण णिदिट्ठं । तं जहा—गुण्णिकम्मंसियो अणूणाहियगुण्णिकिरियाए

शंका—यह भी कैसे ?

समाधान—क्योंकि वहाँ पर मिथ्यादृष्टि जीवकी अन्तिम आवृत्तिमें संक्रामक हुए द्रव्यके कारण एक आवृत्ति कालके भीतर वृद्धिका संक्रम ही देखा जाता है ।

* आठ कषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ?

§ ६२६. यह सूत्र सुगम है ।

* सर्वसंक्रामक गुणितकर्मांशिक जीवके होती है ।

§ ६३०. गुणितकर्मांशिकलक्षणसे आकर अतिशीघ्र क्षपणाके लिए उद्यत हो सर्वसंक्रमरूपसे परिणत होने पर प्रकृत कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है, क्योंकि वहाँ पर सर्वसंक्रमके द्वारा कुछ कम ढेढ़ गुणहानिमात्र समयप्रवद्धोंका प्रकृत वृद्धिरूपसे संक्रम देखा जाता है ।

* उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?

§ ६३१. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव सर्व प्रथम कषायोंके उपशामना कालके भीतर जब दो प्रकारके क्रोधका अन्तिम समयवर्ती संक्रामक हुआ और उसके बाद मर कर देव हुआ उस प्रथम समयवर्ती देवके उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६३२. 'दुविहस्स कोहस्स' इस पदका निर्देश कर सर्व प्रथम आठ कषायोंमेंसे दो प्रकारके क्रोधके प्रकृत उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । यथा—कोई एक

आगंतूण मणुसेसुप्पज्जिय गव्भादिअट्टवस्साणमुवरि पढमदाए कसायउवसामणाए उवट्ठिदो । एत्थ पढमदाए कसायउवसामणाए त्ति वयणं विदियादिकसायोवसामणाणं पडिसेहकरणट्ठं । तं पि गुणसंक्रमेण गच्छमाणदव्यपरिरक्खणट्ठमिदि घेत्तव्वं, अप्णहा गुणसंक्रमेण पयद-
कम्माणं बहुदव्वहोणिप्पसंगादो । तस्स कदमम्मि^१ अवत्थाविसेसे सामित्तसंबंधो त्ति वुत्ते वुच्चदे—जाधे दुविहस्स कोहस्स गुणसंक्रमेण संकामिज्जमाणयस्स; चरिमसमयसंकामओ जादो, तदो से काले मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवपज्जाए वट्ठमाणयस्स पयदुक्कस्स-
सामित्ताहिसंबंधो । तत्थ गुणसंक्रमादो अध्वापवत्तसंक्रमेण परिणदस्स हाणीए उक्कस्सभाव-
दंसणादो । तप्पाओग्गजहण्णअधापवत्तसंक्रमदव्वे सव्वुक्कस्सगुणसंक्रमदव्वादो सोहिदे सुद्धसेसदव्यपडिवद्वमेदमुक्कस्सहाणिसामित्तमिदि णिच्छेयव्वं ।

❀ एवं दुविहमाण-दुविहमाया-दुविहलोहाणं ।

§ ६३३. कुदो ? चरिमसमयगुणसंक्रमादो अध्वापवत्तसंक्रमपज्जाएण परिणद-
पढमसमयदेवम्मि सामित्तं पडि विसेसाभावादो । थोवयरो दु विसेससंभवो अत्थि त्ति तप्पदुप्पायणट्ठमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

गुणितकर्मांशिक जीव न्यूनाधिकतासे रहित गुणित क्रियाके द्वारा आकर और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर गर्भसे लेकर आठ वर्षके बाद सर्व प्रथम कपायोंकी उपशामना करनेके लिए उद्यत हुआ । यहाँ पर 'पढमदाए कसायउवसामणाए' यह वचन द्वितीय आदि वार कपायोंकी उपशामनाका प्रतिषेध करनेके लिए दिया है । वह भी गुणसंक्रमके द्वारा जानेवाले द्रव्यकी रक्षा करनेके लिए दिया है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा गुणसंक्रमके द्वारा प्रकृत कर्मोंके बहुत द्रव्यको हानिका प्रसंग आता है । उसका किस अवस्थाविशेषमें स्वामित्वका सम्बन्ध है ऐसा पूछने पर कहते हैं—जब दो प्रकारके क्रोधका गुणसंक्रमके द्वारा संक्रम करते हुए अन्तिम समयवर्ती संक्रामक हुआ, फिर तदनन्तर समयमें मरकर देव हो गया उसके प्रथम समयसम्बन्धी देवपर्यायमें रहते हुए प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका सम्बन्ध होता है, क्योंकि वहाँ पर गुणसंक्रमसे अधःप्रवृत्तसंक्रमरूपसे परिणत हुए जीवके हानिका उत्कृष्टपना देखा जाता है । तत्प्रायोग्य जवन्य अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्रव्यको सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके द्रव्यमेंसे घटाने पर शुद्ध शेष द्रव्यसे सम्बन्ध रखनेवाला यह उत्कृष्ट हानिविषयक स्वामित्व है ऐसा यहाँ पर निश्चय करना चाहिए ।

* इसी प्रकार दो प्रकारके मान, दो प्रकारकी माया और दो प्रकारके लोभकी उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व है ।

§ ६३३. क्योंकि अन्तिम समयसम्बन्धी गुणसंक्रमसे अधःप्रवृत्तसंक्रमपर्यायरूपसे परिणत हुए प्रथम समयवर्ती देवके स्वामित्वकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है । किन्तु कुछ थोड़ीसी विशेषता सम्भव है, इसलिए उसका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र अवतीर्ण हुआ है—

१ आ. प्रतो षददव्वस्स ता.प्रतो कदमम्मि (?) इति पाठः ।

❀ एवरि अप्पणो चरिमसमयसंकामगो होदूण से काले मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी ।

§ ६३४. सुगममेदं ।

❀ अड्डहं कसायाणमुक्कस्सयमवट्टाणं कस्स ?

§ ६३५. सुगमं ।

❀ अधापवत्तसंकमेण तप्पाओग्गउक्कस्सएण वड्ढिदूण से काले अवड्ढिदसंकामगो जादो तस्स उक्कस्सयमवट्टाणं ।

§ ६३६. एदस्स सुत्तस्सत्थे भण्णमाणे अणंताणुबंधीणमुक्कस्सावट्टाणसामित्त-सुत्तस्सेव परूवणा कायव्वा, विसेसाभावादो ।

❀ कोहसंजलणस्स उक्कस्सिया वड्ढी कस्स ?

§ ६३७. सुगमं ।

❀ जस्स उक्कस्सओ सव्वसंकमो तस्स उक्कस्सिया वड्ढी ।

§ ६३८. गुणिदकम्मंसियलक्खणेणाणूणोहिएणागंतूण मणुसेसुप्पज्जिय सव्वत्तहुं खवणाए अब्भुड्ढिदस्स कोहसंजलणचिराणसंतकम्मं सव्वसंकमेण संल्लुहमाणयस्स उक्कस्सओ

* किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना अपना अन्तिम समयवर्ती संक्रामक होकर तदनन्तर समयमें मरा और देव हो गया, इस प्रथम समयवर्ती देवके उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६३४. यह सूत्र सुगम है ।

* आठ कषायोंका उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ?

§ ६३५. यह सूत्र सुगम है ।

* तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा वृद्धि करके तदनन्तर समयमें अवस्थितसंक्रामक हो गया, उसके उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

§ ६३६. इस सूत्रके अर्थका कथन करनेपर अनन्तानुबन्धियोंके उत्कृष्ट अवस्थानके स्वामित्व का कथन करनेवाले सूत्रके समान प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है ।

* क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ?

§ ६३७. यह सूत्र सुगम है ।

* जिसके उसका उत्कृष्ट सर्वसंक्रम होता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है ।

§ ६३८. न्यूनाधिकतासे रहित गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अतिशीघ्र क्षणके लिए उद्यत हो क्रोध संज्वलनके प्राचीन सत्कर्मका सर्वसंक्रमके द्वारा सक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । उसीके उत्कृष्ट वृद्धिके स्वामित्वका निश्चय करना

पदेससंकमो होइ । तस्सेव उक्कस्सवड्ढिसामित्तमवहारेयव्वं, तत्थ किंचूणसव्वसंकमदव्वस्स उक्कस्सवड्ढिसरूवेण संकंतिदंसणादो ।

❀ तस्सेव से काले उक्कस्सिथा हाणी ।

§ ६३६. तस्सेवाणंतरणिदिट्ठवड्ढिसामियस्स तदणंतरसमए उक्कस्सिया हाणी होइ ति सामित्तसंबंधो कायव्वो । कथं तत्थ हाणीए उक्कस्सभावो चे ? वुच्चदे—चिरोणसंत-कम्मचरिमफालिं सव्वसंकमेण संकामिय तदणंतरसमए णवकबंधसंकममाठवेदि । तेण कारणेण तत्थुक्कस्सहाणिसामित्तसंबंधो ण विरुज्झदे । एत्थोवजोगिविसेसंतरपदुप्पायणट्ठ-मुत्तरसुत्तमाह—

❀ एवरि से काले संकमपाओग्गा समयपवद्धा जहणणा कायव्वा ।

§ ६४०. सव्वुक्कस्सपदेससंकमादो हाइदूण सुट्ठु जहणणपदेससंकमे पारद्धे उक्कस्सिया हाणी होइ, णाण्णहा । तदो सव्वुक्कस्सहाणिसंकमग्गहणट्ठं से काले संकमपाओग्गा णवक-बंधसमयपवद्धा जहणणा कायव्वा ति एदस्सत्थविसेसस्स परूवणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ तं जहा ।

चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ कम सर्वसंकमद्रव्यका उत्कृष्ट वृद्धिरूपसे संक्रम देखा जाता है ।

* उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६३६. जिस जीवके पूर्वमें संज्वलन क्रोधकी उत्कृष्ट वृद्धिके स्गमीका निर्देश किया है उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट हानि होती है इस प्रकार यहाँ पर स्वामित्वका सम्बन्ध करना चाहिए ।

शंका—वहाँ उत्कृष्ट हानि कैसे सम्भव है ?

समाधान—क्योंकि प्राचीन सत्कर्मकी अन्तिम फालिका सर्वसंकमके द्वारा संक्रम करके तदनन्तर समयमें नवकवन्धके संक्रमका प्रारम्भ करता है, इस कारणसे वहाँ पर उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व सम्बन्ध विरोधको प्राप्त नहीं होता । अब यहाँ पर उपयोगी दूसरी विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि तदनन्तर समयमें संक्रमके योग्य समयप्रवद्धोंको जघन्य करना चाहिए ।

§ ६४० क्योंकि सबसे उत्कृष्ट प्रदेशसंकमसे घटाकर अति कम जघन्य प्रदेशसंकमका प्रारम्भ करने पर उत्कृष्ट हानि होती है, अन्यथा नहीं । इसलिए सबसे उत्कृष्ट हानि संक्रमको ग्रहण करनेके लिए तदनन्तर समयमें संक्रमके योग्य नवकवन्ध समयप्रवद्धोंको जघन्य करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । वे समयप्रवद्ध कितने हैं अथवा उन्हें जघन्य कैसे करना चाहिए इस प्रकार इस अर्थविशेषका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* यथा ।

§ ६४१. सुगमं ।

❀ जेसिं से काले आवलियमेत्ताणं समयपवद्धाणं पदेसग्गं संका-
मिज्जहिदि ते समयपवद्धा तप्पाओग्गजहणणा ।

§ ६४२ एतदुक्तं भवति—जेसिमावलियमेत्तणवक्रबंधसमयपवद्धाणं बंधावलिया-
दिकंतसरूवाणं वड्डिसमयं पेक्खिऊणाणंतरसमए संक्रमो भविस्सदि ते समयपवद्धा
सगबंधकाले चैव तप्पाओग्गजहणणजोणेण बंधावेयव्वा, अण्णहा सव्वुक्कस्सहाणीए
असंभवादो । एदस्सेवत्थस्सोवसंहारवक्कमुत्तरं—

❀ एदीए परूवणाए सव्वसंकमं संछुहिदूण जस्स से काले पुव्व-
परूविदो संकमो तस्स उक्कस्सिया हाणी कोहसंजलणस्स ।

§ ६४३. गयत्थमेदं सुत्तं ।

❀ तस्सेव से काले उक्कस्सयभवद्धाणं ।

§ ६४४. तस्सेव हाणिसामियस्स से काले बंधावलियादिकंतणवक्रबंधंतरसंवंधेण
तेत्तियमेत्तं संकामेमाणयस्स उक्कस्सावद्धाणसामित्तं दड्डुवं, उक्कस्सहाणिपमाणेणैव तत्था-
वद्धाणदंसणादो ।

❀ जहा कोहसंजलणस्स तहा माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।

§ ६४१. यह सूत्र सुगम है ।

* उत्कृष्ट वृद्धिके अनन्तर समयमें आवलिमात्र जिन समयप्रवद्धोंके प्रदेशाग्र
संक्रमित होंगे वे समयप्रवद्ध तत्प्रायोग्य जघन्य होते हैं ।

§ ६४२. कहनेका यह तात्पर्य है कि जो आवलिमात्र नवक समयप्रवद्ध बन्धावलिको उल्लं-
घन कर स्थित हैं उनका वृद्धि समयको देखते हुए अनन्तर समयमें संक्रम होगा उन समयप्रवद्धोंको
अपने बन्धकालमें ही तत्प्रायोग्य जघन्य योगके द्वारा बन्ध कराना चाहिए, अन्यथा सर्वोत्कृष्ट हानि
नहीं हो सकती । अब इसी अर्थका उपसंहार करते हुए आगेका वाक्य कहते हैं—

* इस प्ररूपणाके अनुसार सबसंक्रमके आश्रयसे संक्रम करके जिसके तदनन्तर
समयमें पहले कहा हुआ संक्रम होता है उसके क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६४३. यह सूत्र गतार्थ है ।

* उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

§ ६४४. उत्कृष्ट हानिके स्वामी उसी जीवके तदनन्तर समयमें बन्धावलिको उल्लंघन कर
स्थित हुए दूसरे नवकबन्धके सम्बन्धसे उतने ही द्रव्यका संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट अवस्थानका
स्वामित्व जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उत्कृष्ट हानिप्रमाण ही अवस्थान देखा जाता है ।

* जिस प्रकार क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानकी प्ररूपणा
की है उसी प्रकार मान संज्वलन, माया संज्वलन और पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि
और अवस्थानकी प्ररूपणा जाननी चाहिए ।

§ ६४५. सुगममेदमप्पणासुत्तं।

❀ लोहसंजलणस्स उक्कस्सिया वड्डी कस्स ?

§ ६४६. सुगमं।

❀ गुण्णिकम्मंसिएण लहुं चत्तारि वारे कसाया उवसामिदा, अपच्छिमे भवे दो वारे कसाए उवसामेऊण खवणाए अब्भुट्टिदो जाधे चरिमसमए अंतरमकदं ताधे उक्कस्सिया वड्डी।

§ ६४७. किमट्टमेसो गुण्णिकम्मंसिओ चदुक्खुत्तो कसायोवसामणाए पयट्टाविदो ? अवज्झमाणपयडीहितो गुणसंक्रमेण बहुदव्वसंगहणट्टं। तदो गुण्णिकम्मंसियलक्खणेण सत्तमपुट्टवीदो आगंतूण मणुसेसुववज्जिय गब्भादिअट्टवस्साणसुवरि दोवारे कसायोवसामणाए परिणामिय पुणो मिच्छत्तपडिवादेण सव्वलहुं कालं कादूण मणुसेसु उववण्णेण अपच्छिमे तम्मि मणुसभवग्गहणे दो वारे कसाया उवसामिदा। तदो हेट्ठा ओसरिदूण खवणाए अब्भुट्टिदेण तेण जाधे चरिमसमए अंतरमकदं तस्स उक्कस्सिया लोहसंजलणपदेससकमविसया वड्डी होइ ति घेतव्वं, हेट्ठिमासेससंक्रमेहितो तत्थतणसंक्रमस्स बहुत्तोवलंभादो।

❀ उक्कस्सिया हाणी कस्स ?

§ ६४५. यह अर्पणासूत्र सुगम है।

* लोभसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है।

§ ६४६. यह सूत्र सुगम है।

* जिस गुणितकर्मांशिक जीवने अतिशीघ्र चार बार कपायोंकी उपशामना की है। उसमें भी अन्तिम भवमें दो बार कपायोंको उपशामा कर जो क्षपणाके लिए उद्यत हुआ। उसने जब अन्तिम समयमें अन्तर नहीं किया तब उसके संज्वलन लोभकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है।

§ ६४७. शंका—इस गुणितकर्मांशिक जीवको चार बार कपायोंकी उपशामनाके लिए वयों प्रवृत्त कराया है ?

समाधान—नहीं बंधनेवाली प्रकृतियोंमेंसे गुणसंक्रमके द्वारा बहुत द्रव्यका संग्रह करनेके लिए ऐसा किया है।

इसलिए गुणितकर्मांशिक लक्षणके साथ सातवीं पृथिवीसे आकर मनुष्योंमें उत्पन्न हो गर्भसे लेकर आठ वर्षके बाद दोवार कपायोंकी उपशामनारूपसे परिणामा कर पुनः मिथ्यात्वमें गिरनेके साथ अतिशीघ्र मरकर और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर अन्तिम उस मनुष्यभवमें दोवार कपायोंकी उपशामना की। तदनन्तर नीचे आकर क्षपणाके लिए उद्यत हुए उसने जब अन्तिम समयमें अन्तर नहीं किया तब उसके लोभसंज्वलनकी प्रदेशसंक्रमविषयक उत्कृष्ट वृद्धि होती है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वके समस्त संक्रमोंसे यहाँका संक्रम बहुत उपलब्ध होता है।

* उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?

§ ६४८. सुगमं ।

❀ गुणितकर्मसियो तिणिण वारे कसाए उवसामेऊण चउत्थीए उवसामणाए उवसामेमाणो अंतरे चरिमसमय-अकदे से काले मदो देवो जादो, तस्स समयाहियावलियउववएणयस्स उक्कस्सिया हाणी ।

§ ६४९. एदस्सत्थो वुच्चदे—जो गुणितकर्मसियो चदुक्खुत्तो कसाए उवसामेमाणो तत्थ तिणिण वारे वोलाविय चउत्थीए उवसामणाए अंतरकरणमाढविय से काले अंतरं णिल्लेविहिदि ति कालं कादूण देवेसुववणो तस्स समयाहियावलियदेवस्स पयदुक्कस्सहाणिसामित्तं दडुव्वं । किं कारणं ? अंतरचरिमफालीए गच्छमाणाए पडिच्छिदगुणसंकमदव्वं तत्कालियणवक्रबंधेण सहिदमावलियदेवभावेण संकामिय पुणो तदणंतरसमए पढमसमय-देवोववादजोगेण बद्धणवक्रबंधसमयपवद्धमधापवत्तसंकमेण तत्थ पडिच्छिददव्वेण सह संकामेमाणयस्स सव्वुक्कस्सहाणीए विरोहाभावादो ।

❀ उक्कस्संयमवट्ठाणमपच्चक्खाणावरणभंगो ।

§ ६५०. सुगमं ।

❀ भय-दुगुंछाणमुक्कस्सिया वड्ढी कस्स ?

§ ६४८. यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव तीन बार कषायोंको उपशमाकर चौथी उपशामनाके द्वारा उपशम करता हुआ अन्तिम समयमें होनेवाले अन्तरको किये बिना तदनन्तर समयमें मरा और देव हो गया उसके उत्पन्न होनेके एक समय अधिक एक आवलि होने पर उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६४९. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—जो गुणितकर्मांशिक जीव चार बार कषायोंकी उपशामना करता हुआ उनमेसे तीन बारोंको बिताकर चौथी उपशामनामे अन्तरकरणका प्रारम्भ कर तदनन्तर समयमे अन्तरको समाप्त करेगा कि मरकर देवोंमे उत्पन्न हुआ उस देवके एक समय अधिक एक आवलि काल होने पर प्रकृत उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व जानना चाहिए ।

शंका—क्या कारण है ?

समाधान—क्योंकि अन्तरकी अन्तिम फालिके जाते हुए संक्रमको प्राप्त हुए गुणसंक्रमके द्रव्यको तत्कालीन नवकवन्धके साथ एक आवलि कालतक देवभावके साथ संक्रमित कर पुनः तदनन्तर समयमे प्रथम समयवर्ती देवके उपपादयोगके साथ बंधे हुए नवकवन्धके समयप्रवद्धको अधःप्रवृत्त संक्रमके द्वारा वहाँ संक्रमित किये गये द्रव्यके साथ संक्रम करनेवाले जीवके सबसे उत्कृष्ट हानि होनेमे विरोधको अभाव है ।

* उत्कृष्ट अवस्थानका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरणके समान है ।

§ ६५०. यह सूत्र सुगम है ।

* भय और जुगप्साकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ?

§ ६५१. सुगमं ।

❀ गुणितकर्मसियस्स सव्वसंक्रामयस्स ।

§ ६५२. गुणितकर्मसियलक्षणेणागंतूण खवगसेटिमारुहिय सव्वसंक्रमेण परिणदम्मि सव्वुक्कस्सवड्ढिसंभवं पडिविरोहाभावादो ।

❀ उक्कस्सिया हाणी कस्स ?

§ ६५३. सुगमं ।

❀ गुणितकर्मसिओ पढमदाए कसाए उवसामेमाणो भयदुगुंछासु चरिमसमयअणुवसंतासु से काले मदो देवो जादो, तस्स पढमसमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी ।

§ ६५४. गुणितकर्मसियलक्षणेणागंतूण पढमवारं कसायोवसामणं पट्टविय तत्थ भयदुगुंछासु चरिमसमयअणुवसंतासु सव्वुक्कस्सगुणसंक्रमेण परिणमिय तत्तो से काले कालं कादूण देवेसुप्पणस्स पढमसमए पयदुक्कस्सहाणिसामित्तं होइ, सव्वुक्कस्सगुणसंक्रमादो अधापवत्तसंक्रमेण परिणदम्मि तदविरोहादो ।

❀ उक्कस्सयमवट्ठाणमपच्चक्खाणावरणभंगो ।

§ ६५५. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

§ ६५१. यह सूत्र सुगम है ।

* सर्वसंक्रामक गुणितकर्मांशिक जीवके होती है ।

§ ६५२. क्योंकि गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर और क्षपकश्रेणि पर आरोहण कर सर्वसंक्रमरूपसे परिणत होने पर सबसे उत्कृष्ट वृद्धिके सम्भव होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

* उत्कृष्ट हानि किसके होती है ?

§ ६५३ यह सूत्र सुगम है ।

* जो गुणितकर्मांशिक जीव प्रथम वार कपायोंका उपशम करता हुआ भय और जुगुप्साका अन्तिम समयमें उपशम किये बिना अनन्तर समयमें मरकर देव हो गया उस प्रथम समयवर्ती देवके उत्कृष्ट हानि होती है ।

§ ६५४. गुणितकर्मांशिकलक्षणसे आकर और प्रथम वार कपायोंकी उपशामनाकी प्रस्थापना कर वहाँ भय और जुगुप्साके अन्तिम समयमें अनुपशान्त रहते हुए जो सर्वोत्कृष्ट गुणसंक्रमरूपसे परिणमन कर उसके बाद तदनन्तर समयमें मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके प्रथम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व होता है, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके बाद अधःप्रवृत्तरूपसे परिणत होने पर उसके होनेमें कोई विरोध नहीं आता ।

* उत्कृष्ट अवस्थानका भङ्ग अप्रत्याख्यानावरणके समान है ।

§ ६५५. यह अर्पणा सूत्र सुगम है ।

❀ एवमित्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं ।

§ ६५६. जहा भयदुगुंछाणमुक्कस्ससामित्तं परूविदं तथा एदेसिं पि परूवेयव्वं । संपहि एदेण सामण्णणिहेसेणेदेसिं कम्माणमवट्ठाणसंकमस्स वि अत्थित्तप्पसंगे तण्णिवारणट्ठ-मुत्तरसुत्तं भणइ —

❀ एवरि अवट्ठाणं एत्थि ।

§ ६५७. कुदो ? परावत्तणपयडीणमेदासिमवट्ठाणसंभवाभावादो । एवमोघेणुक्कस्स-सामित्तपरूवणा गया । एदीए दिसाए आदेसपरूवणा च विहासियव्वा ।

तदो उक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

❀ मिच्छत्तस्स जहणिया वड्ढी कस्स ?

§ ६५८. सुगममेदं पुच्छासुत्तं । एवं पुच्छाविसयीकयसामित्तणिहेसे कायव्वे तत्थ ताव सव्वकम्माणं साहारणभावेण जहणवड्ढिहाणि-अवट्ठाणाणं पमाणावहारणट्ठमट्ठपदं परूवेमाणो सुत्तपबन्धमुत्तरं भणइ—

❀ जस्स कम्मस अवट्ठिदसंकमो अत्थि तस्स असंखेज्जा लोगपडि-भागो वड्ढी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा होई ।

* इसी प्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका उत्कृष्ट स्वामित्व जानना चाहिए ।

§ ६५६. जिस प्रकार भय और जुगुप्साके उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन किया उसी प्रकार इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका भी कथन करना चाहिए । अब इस सामान्य निर्देशसे इन कर्मोंके अवस्थान संक्रमका भी अस्तित्व प्राप्त होने पर उसका निवारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि उक्त प्रकृतियोंका अवस्थान संक्रम नहीं है ।

§ ६५७. क्योंकि परावर्तमान इन प्रकृतियोंका अवस्थान सम्भव नहीं है । इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन समाप्त हुआ । इसी पद्धतिसे आदेश प्ररूपणाका व्याख्यान कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ ।

* मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ?

§ ६५८. यह पृच्छा सूत्र सुगम है । इस प्रकार पृच्छाके द्वारा विषय किये गये स्वामित्वका निर्देश करते समय उसमें सर्व प्रथम सब कर्मोंके साधारण भावसे जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए अर्थपदका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* जिस कर्मका अवस्थित संक्रम होता है उस कर्मकी असंख्यात लोक प्रतिभाग रूपसे वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है ।

§ ६५६. एदस्स सुत्तस्सत्थो वुच्चदे—जस्स कमस्स गिरंतरबंधवसेणावड्ढिसंकमो संभवइ तस्स जहण्णवड्ढि-हाणि-अवड्ढाणपमाणमसंखेज्जलोगपडिभागो होइ । किं कारणं ? अवड्ढाणसंक्रमपाओग्गपयडीसु एगेगसंतकम्मपक्खेवुत्तरक्रमेण संतकम्मवियप्पाणं पयदजहण्ण-वड्ढि-हाणि-अवड्ढाणणिवंधणाणमुप्पत्तीए विरोहाभावादो । एत्थ विसेसणिण्णयमुवरिम-सामित्तणिदेसे कस्सामो । तदो जेसिं कम्माणमवड्ढिसंक्रमसंभवो अत्थि तेसिमसंखेज्जलोग-पडिभागेण जहण्णवड्ढिहाणिअवड्ढाणसामित्ताणुगमो कायव्वो त्ति सिद्धं । संपहि जेसि-मवड्ढाणसंभवो णत्थि तेसिमेस क्रमो ण संभवदि त्ति पटुप्पायणट्टमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

❀ जस्स कम्मस्स अवड्ढिसंकमो एत्थि तस्स वड्ढो वा हाणी वा असंखेज्जा लोभागो ए लब्भइ ।

§ ६६०. किं कारणं ? तत्थ तदुवलंभकारणसंतकम्मवियप्पाणमणुप्पत्तीदो । तदो तत्थागम-णिज्जरावसेण पल्लिदो० असंखे०भागपडिभागेण संतकम्मस्स वड्ढी वा हाणी वा होइ त्ति तदणुसारेणोव संक्रमपवुत्ती दट्ठवा ।

❀ एसा परूवणा अट्टपदभूदा जहण्णियाए वड्ढीए वा हाणीए वा अवड्ढाणस्स वा ।

§ ६६१. एस अणंतरणिदिट्ठा परूवणा जहण्णवड्ढि-हाणि-अवड्ढाणाणं सरूवावहारणट्ट-

§ ६५६. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—जिस कर्मका निरन्तर बन्ध होनेसे अवस्थित संक्रम सम्भव है उसकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानका प्रतिभाग असंख्यात लोकप्रमाण होता है, क्योंकि अवस्थानसंक्रमके योग्य प्रकृतियोंमें एक एक सत्कर्म प्रक्षेप अधिकके क्रमसे प्रकृत जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके कारणभूत सत्कर्म विकल्पोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता । यहाँ पर विशेष निर्णय आगे स्वामित्वका निर्देश करते हुए करेंगे, इसलिए जिन कर्मोंका अवस्थित संक्रम सम्भव है उनकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामित्वका अनुगम असंख्यात लोकको प्रतिभाग बना कर करना चाहिए यह सिद्ध हुआ । तत्काल जिनका अवस्थान संक्रम नहीं होता उनका यह क्रम सम्भव नहीं है यह वतजानेके लिए आगेका सूत्र आया है—

* जिस कर्मका अवस्थितसंक्रम नहीं होता इस कर्मके असंख्यात लोक प्रतिभाग रूपसे वृद्धि और हानि नहीं उपलब्ध होता ।

§ ६६०. क्योंकि वहाँ पर उसकी उपलब्धिके कारणभूत सत्कर्म विकल्प नहीं उत्पन्न होते । इसलिए वहाँ पर आय और निर्जराके कारण पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्रतिभागरूपसे सत्कर्मकी वृद्धि और हानि होती है, अतएव तदनुसार ही संक्रमकी प्रवृत्ति जाननी चाहिए ।

* यह प्ररूपणा जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानकी अर्थपदभूत है ।

§ ६६१. यह अनन्तर पूर्व कही गई प्ररूपणा जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वरूपका निश्चय करनेके लिए अर्थपदभूत है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इस प्रकार कहे गये

मट्टपदभूदा त्ति भण्णिदं होइ । संपहि एवं परूविदमट्टपदमस्सिऊण पयदजहण्णसामित्त-
विहासणडुमुत्तरो सुत्तपबंधो—

❀ एदाए परूवणाए मिच्छत्तस्स जहण्णिया वड्डी हाणी अवट्ठाणं वा कस्स ?

§ ६६२. सुगममेदं पुच्छासुत्तं । णेदमेत्थासंकण्णिज्जं, पुच्चमेव मिच्छत्तजहण्णवट्ठिसामित्त-
विसयपुच्छाणिदेसस्स कयत्तादो पुणरूवण्णासो णिरत्थवो त्ति । कुदो ? अत्थपरूवणाए
अंतरिदस्स तस्सेव संभालणट्ठं पुणरूवण्णासे दोसाभावादो पुव्विल्लपुच्छाणिदेसेणा-
संगहियाणं हाणि-अवट्ठाणसामित्ताणमेत्थ संगहोवलंभादो च ।

❀ जम्हि तप्पाओग्गजहण्णणेण संकमेण से काले अवट्ठिदसंकमो
संभवदि तम्हि जहण्णिया वड्डी वा हाणी वा से काले जहण्णयमवट्ठाणं ।

§ ६६३. जम्हि विसए तप्पाओग्गजहण्णणेण संकमेण परिणदस्स से काले अवट्ठिद-
संकमपरिणामसंभवो तम्हि विसए पयदजहण्णसामित्तमणुगंतव्वं । कम्हि पुण विसये

अर्थपदका आश्रय कर प्रकृत जघन्य स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र प्रबन्ध
कहते हैं—

* इस प्ररूपणाके अनुसार मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान
किसके होता है ?

§ ६६२. यह पृच्छासूत्र सुगम है । यहाँ पर यह शंका नहीं करनी चाहिए कि मिथ्यात्वकी
जघन्य वृद्धिके स्वामित्वसम्बन्धी पृच्छाका निर्देश पूर्वमे ही कर आये हैं, इसलिए उसका पुनः
उपन्यास करना निरर्थक है, क्योंकि अर्थप्ररूपणाके द्वारा व्यवधानको प्राप्त हुए उक्त कथनकी
सम्हाल करनेके लिए पुनः उपन्यास करनेमें कोई दोष नहीं है तथा पूर्वमे किये पृच्छानिर्देशके द्वारा
संगृहीत नहीं किये गये हानि और अवस्थानसम्बन्धी स्वामित्वका यहाँ पर संग्रह उपलब्ध होता
है, इसलिए भी कोई दोष नहीं है ।

* जहाँ पर तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रमसे तदनन्तर समयमें अवस्थान संक्रम
सम्भव है वहाँ पर जघन्य वृद्धि या जघन्य हानि तथा तदनन्तर समयमें जघन्य
अवस्थान होता है ।

§ ६६३. जिस विषयमे तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रमसे परिणत हुए जीवके तदनन्तर समयमें
अवस्थित संक्रमके अनुरूप परिणामका संक्रम सम्भव है उस विषयमे प्रकृत जघन्य स्वामित्व
जानना चाहिए ।

शंका—तो किस विषयमे मिथ्यात्वका तत्प्रायोग्य जघन्य संक्रमरूपसे अवस्थान संक्रम
सम्भव है ?

समाधान—कहते हैं—जो जीव क्षपितकर्मांशिक लक्षणसे आकर पूर्वमे उत्पन्न हुए
सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य कालके द्वारा फिरसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ
है वह प्रथम आवलिके द्वितीयादि समयोंमे अवस्थित संक्रमके योग्य होता है, क्योंकि मिथ्यादृष्टिकी

मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गजहण्णसंक्रमेणावट्ठाणसंभवो ? बुच्चदे—खविदकम्मंसियलक्खणेणा-
गंतूण पुव्वुप्पण्णसम्मत्तादो मिच्छत्तमुव्वणमिय तप्पाओग्गेण कालेण पुणो वि वेदगसम्मत्तं
पडिवण्णस्स पढमावलियाए विदियादिसमएसु अवट्ठिदसंक्रमपाओग्गो होइ, मिच्छाइट्ठि-
चरिमावलियणवक्कंधवसेण तत्थागम-णिज्जराणं सरिसीकरणसंभवादो । तदो तहाभूद-
सम्माइट्ठिपढमावलियावलंबणेण पयदसामित्तसमत्थणमेवं कायव्वं । तं जहा—तप्पाओग्ग-
खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण पुव्वुप्पण्णसम्मत्तादो मिच्छत्तं गंतूण पुणो सम्मत्तं पडि-
वण्णस्स पढमसमए तप्पाओग्गजहण्णं मिच्छत्तस्स पदेससंतकम्मट्ठाणं होइ ।

§ ६६४. संपहि एत्थ सम्माइट्ठिपढमसमए गिरुद्धसंतकम्मपडिवट्ठसंक्रमट्ठाणाणं
कारणभूदाणि असंखेज्जलोगमेत्तज्झवसाणट्ठाणाणि होंति । तत्थ जहण्णज्झवसाणट्ठाणेण
संक्रमेमाणस्स जहण्णसंक्रमट्ठाणमुप्पज्जदि । पुणो तम्मि चेव जहण्णसंतकम्मम्मि
असंखेज्जलोगभागवट्ठिहेदुविदियज्झवसाणट्ठाणेण परिणमिय संकामिज्जमाणे अण्णं
संक्रमट्ठाणमपुणरुत्तमुप्पज्जदि । एवमेदेण क्रमेण तदियादिअज्झवसाणट्ठाणाणि वि
जहाकमं परिणमिय संक्रमेमाणस्सासंखेज्जलोगभागुत्तरक्रमेणेगेगसंक्रमट्ठाणपक्खेववड्ढीए
गिरुद्धजहण्णसंतकम्मट्ठाणम्मि असंखेज्जलोगमेत्तसंक्रमट्ठाणाणमपुणरुत्तणमुप्पत्ती वत्तव्वा ।

§ ६६५. संपहि एदेसु संक्रमट्ठाणेसु सम्माइट्ठिपढमसमयम्मि जहण्णसंक्रमट्ठाण-
मवत्तव्वभावेण संकामिय पुणो सम्माइट्ठिविदियसमयम्मि विदियसंक्रमट्ठाणे संकामिदे
जहण्णया वट्ठी होइ, परिणामविसेसमस्सिरुण तत्थासंखेज्जलोगपडिभागेण संक्रमस्स

अन्तिम आवलित्तमें हुए नवकवन्धके कारण वहाँ पर आय और निर्जराका समान होना सम्भव है ।
अतः उस प्रकारके सम्यग्दृष्टिकी प्रथम आवलित्तके अवलम्बन द्वारा प्रकृत स्वामित्तका समर्थन इस
प्रकार करना चाहिए । यथा—जो जीव क्षपितकर्मांशिक लक्षणसे आकर और पूर्वमें उत्पन्न हुए
सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वमे जाकर पुनः सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ है उसके प्रथम समयमें मिथ्यात्वका
तत्प्रायोग्य जघन्य प्रदेशसंक्रमस्थान होता है ।

§ ६६४. यहाँ पर सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें विवक्षित सत्कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले संक्रम
स्थानोंके कारणभूत असंख्यात लोकप्रमाण अध्यवसानस्थान होते हैं । वहाँ पर जघन्य अध्यवसानके
द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके जघन्य संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । पुन असंख्यात लोकरूप भाग-
वृद्धिके कारणभूत द्वितीय अध्यवसानरूपसे परिणामन कर उसी जघन्य सत्कर्मका संक्रम क'ने पर
दूसरा अपुनरुक्त संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । इसी प्रकार इस क्रमसे तृतीय आदि अध्यवसान
स्थानोंकी भी परिणामाकर संक्रम करनेवाले जीवके असंख्यात लोक भाग अधिकके क्रमसे एक एक
संक्रमस्थान प्रक्षेपवृद्धिके आश्रयसे विवक्षित जघन्य सत्कर्मस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अपुनरुक्त
संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति करनी चाहिए ।

§ ६६५. अब इन संक्रमस्थानोंमेंसे सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें जघन्य संक्रमस्थानकी
अवक्तव्यरूपसे संक्रमाकर पुनः सम्यग्दृष्टिके दूसरे समयमें दूसरे संक्रमस्थानके संक्रमित कराने

वृद्धिदंसणादो । अध पढमसमयम्मि विदियसंकमट्टाणं संकामिय पुणो विदियसमयम्मि जहण्णसंकमट्टाणं^१ जइ संकामेदि तो जहणिया हाणी होइ, जहण्णवड्ढिमेत्तस्सेव तत्थ हाणिदंसणादो । अह जइ विदियसमयम्मि जहण्णभावाविरोहेण वड्ढिदूण हाइदूण वा पुणो तदियसमयम्मि आगमणिञ्जरावसेण तत्तियं चैव संकामेदि तो तस्स जहण्णयमवट्टाणं होइ, दोसु वि समएसु अवड्ढिदपरिणामेण परिणदम्मि तदविरोहादो । एवमेसा थूलसरूवेण जहण्णवड्ढि-हाणि-अवट्टाणाणं सामित्तपरूवणा कया ।

§ ६६६. संपहि सुहुमत्थपरूवणं कस्सामो । तं जहा—पुव्वुत्तजहण्णसंतकम्मट्टाणम्मि एगपरमाणुम्मि वड्ढिदे सा चैव पुव्वपरूविदसंकमट्टाणपरिवाडी उप्पज्जदि । एवं दो-तिण्णिआदिसंखेज्जासंखेज्जाणंतपरमाणुसु वड्ढिदेसु वि ताणि चैव संकमट्टाणाणि उप्पज्जंति, तहाभूदसंतकम्मवियप्पाणं विसरिससंकमट्टाणंतरूप्पत्तीए अणिमित्तत्तादो । पुणो केत्तियमेत्तपरमाणुं वड्ढीए विसरिससंकमट्टाणुप्पत्तिणिमित्तसंतकम्मवियप्पत्ती होइ ति वुत्ते वुच्चदे—जं जहण्णसंतकम्मट्टाणम्मि पडिबद्धजहण्णसंकमट्टाणं तं तस्सेव विदियसंकमट्टाणादो सोहिय सुद्धसेसमसंखेज्जलोगेहि भागे हिदे तत्थ भागलद्धमेत्ते जहण्णसंतकम्मट्टाणस्सुवरि वड्ढिदे पढमसंकमट्टाणपरिवाडीए उवरि विदियसंकमट्टाणपरिवाडिउप्पायण-कारणभूदं विदियं संतकम्मट्टाणमुप्पज्जदि । विज्झादभागहारमसंखेज्जलोगवग्गं च अण्णोण्ण-

पर जघन्य वृद्धि होती है, क्योंकि परिणामविशेषका आश्रय कर वहाँ असंख्यात लोक प्रतिभागसे संक्रमकी वृद्धि देखी जाती है । तथा प्रथम समयमें द्वितीय संक्रमस्थानको संक्रमाकर द्वितीय समयमें जघन्य सक्रमस्थानको यदि संक्रमित करता है तो जघन्य हानि होती है, क्योंकि वहाँ पर जघन्य वृद्धिमात्रकी ही हानि देखी जाती है । तथा यदि दूसरे समयमे जघन्यभावके अविरोध पूर्वक य वृद्धि या हानि करके पुन. तीसरे समयमें आय और व्ययके कारण उतनेका ही संक्रम करता है तो उसके जघन्य अवस्थान होता है, क्योंकि दोनों ही समयोंमे अवस्थित परिणाम रूपसे परिणत होने पर जघन्य अवस्थानके होनेमें कोई विरोध नहीं आता । इस प्रकार यह स्थूलरूपसे जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानकी स्वामित्व प्ररूपणा की ।

§ ६६६. अब सूक्ष्म अर्थका कथन करते हैं । यथा—पूर्वोक्त जघन्य सत्कर्मस्थानमे एक परमाणुकी वृद्धि होने पर वही पहले कही गई संक्रमस्थान परिपाटी उत्पन्न होती है । इस प्रकार दो, तीन आदि संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणुओंकी वृद्धि होने पर भी वे ही संक्रामस्थान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इस प्रकारके सत्कर्म विकल्प विसदृश दूसरे संक्रमस्थानकी उत्पत्तिमे निमित्त नहीं हैं । पुन. कितने परमाणुओंकी वृद्धि होने पर विसदृश संक्रमस्थानकी उत्पत्तिके कारणभूत सत्कर्म विकल्पकी उत्पत्ति होती है ऐसा पूछने पर कहते हैं—जघन्य सत्कर्मस्थानमे प्रतिवद्व जो जघन्य संक्रमस्थान है उसे उसीके दूसरे संक्रमस्थानमेंसे घटाकर जो शेष बचे उसमें असंख्यात लोकका भाग देने पर जो भाग लब्ध आवे उसे जघन्य सत्कर्मस्थानके ऊपर बढ़ाने पर प्रथम संक्रमस्थानकी परिपाटीके उपर दूसरी संक्रमस्थान परिपाटीको उत्पन्न करनेका कारणभूत दूसरा

१. आ०प्रतौ पढमसमयम्मि जहण्णसंकमाट्टणं इति पाठः ।

गुणं करिय जहणसंतकम्मट्ठाणे भागे हिदे तत्थ जं भागलद्धं तम्मि तत्थेव जहणसंत-
कम्मट्ठाणम्मि पडिरासिय पक्खित्ते विदियसंतकम्मट्ठाणमुप्पज्जदि त्ति वुत्तं होइ । कुदो
एदं णव्वदे ? उवरिमसंकमट्ठाणपरूवणाए णिवद्धचुणिसुत्तादो । एदिस्से संतकम्मवड्डीए
संतकम्मपक्खेवो त्ति सण्णा ।

§ ६६७. संपहि एवंविहपक्खेवुत्तरसंतकम्मट्ठाणमस्सिऊण पयदजहणवड्डी-हाणि-
अवट्ठाणाणमेवं सामित्तपरूवणा कायव्वा । तं जहा—जहणपरिणामट्ठाणेण परिणामिय संपहि
णिरुद्धपक्खेवुत्तरसंतकम्मट्ठाणं संकामेमाणस्स एत्थतणजहणसंकमट्ठाणं होदि । होतं पि
जहणसंतकम्मट्ठाणपडिवद्धजहणसंकमट्ठाणादो असंखेज्जभागव्भहियं होदूण तस्सेव
विदियसंकमट्ठाणादो वि असंखेज्जभागहीणं होदूण चेद्वदि । किं कारणं ? तत्थतण-
संकमट्ठाणविसेसस्सासंखेज्जदिभागभूदसंतकम्मपक्खेवे विज्झादभागहारेण खंडिदे तत्थेय-
खंडमेत्तेण पुव्विल्लजहणसंकमट्ठाणादो एदस्स विदियपरिवाडिजहणसंकमट्ठाणस्स-
व्भहियत्तदंसणादो । एवं होइ त्ति कादूण सम्माइडिपढमसमयम्मि पढमसंकमट्ठाणपरिवाडि-
जहणसंकमट्ठाणमवत्तव्वभावेण संकामिय पुणो विदियसमयम्मि विदियसंकमट्ठाणपरिवाडीए
जहणसंकमट्ठाणे संकामिदे जहणिया वड्डी होइ ।

सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है । विध्यातभागहारको और असंख्यात लोकके वर्गको परस्पर गुणित कर उसका जघन्य सत्कर्मस्थानमें भाग देने पर वहाँ जो भाग लब्ध आवे उसे वहीं पर जघन्य सत्कर्मस्थानको प्रति राशिकर मिला देने पर दूसरा सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—आगे संक्रमस्थान प्ररूपणामे निवद्ध चूर्णिसूत्रसे जाना जाता है ।

इस सत्कर्म वृद्धिकी सत्कर्म प्रक्षेप यद् संज्ञा है ।

§ ६६७. अब इस प्रकार प्रक्षेप अधिक, सत्कर्मस्थानका आश्रय लेकर प्रकृत जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामित्वकी इस प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए । यथा—जघन्य परिणाम-स्थानरूपसे परिणामन कर अब विवक्षित प्रक्षेप अधिक सत्कर्मस्थानका संक्रम करनेवाले, जीवके चर्छाका जघन्य संक्रमस्थान होता है । जो होता हुआ भी जघन्य सत्कर्मस्थानसे प्रतिवद्ध जघन्य संक्रमस्थानमे असंख्यातवों भाग अधिक होकर तथा उसीके दूसरे संक्रमस्थानसे भी असंख्यातवों भाग हीन होकर स्थित है, क्योंकि वहाँके संक्रमस्थानविशेषके असंख्यातवों भागरूप सत्कर्म-प्रक्षेपमे विध्यातभागहारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतनी पहलेके जघन्य संक्रम-स्थानमे दूसरी परिपाटीमें उत्पन्न इस जघन्य संक्रमस्थानकी अधिकता देखी जाती है । ऐसा होता है ऐसा करके सन्त्यष्टिके प्रथम समयमें प्रथम संक्रमस्थान परिपाटीके जघन्य संक्रमस्थानको प्रकृतव्यरूपमे मन्त्रमाकर, पुन दूसरे समयमें दूसरी संक्रमस्थान परिपाटीके जघन्य संक्रमस्थानके संकमित करनेपर जघन्य वृद्धि होती है ।

§ ६६८. संपहि जहण्णहाणिसंकमे इच्छिज्जमाणे पढमसमयम्मि विदियसंकमट्ठाण-परिवाडीए पढमसंकमट्ठाणं संकामिय पुणो विदियसमयम्मि पढमसंकमट्ठाणपरिवाडीए जहण्णसंकमट्ठाणे संकामिदे जहण्णिया हाणी होइ ति वत्तव्वं । पुणो विदियसमयम्मि अणेण विहिणा वड्ढि-हाणीणमण्णदरपरिणामं गंतूण तदो तदियसमयम्मि आगम-णिज्जरा-वसेण तेत्तियं चेव संकामेमाणस्स जहण्णमवट्ठाणं होदि ति दट्ठव्वं । एदं च जहण्ण-वड्ढि-हाणि-अवट्ठाणदव्वं पुव्विल्लपरूवणाविसईकयजदण्णवड्ढि-हाणि-अवट्ठाणदव्वादो असंखेज्ज-गुणहीणं होदि । एदस्स कारणं सुगमं । तम्हा एदम्मि चे । गहिदे सव्वजहण्णवड्ढि-हाणि-अवट्ठाणाणि होंति ति सिद्धं ।

❀ सम्यत्तस्स जहण्णिया हाणी कस्स ?

§ ६६९. सुगमं ।

❀ जो सम्माइट्ठो? तप्पाओग्गजहण्णएण कम्मेण सागरोवमवे छावट्ठोओ गालिदूण मिच्छत्तं गदो, सव्वमहंतउव्वेल्लणकालेण उव्वेल्ले-माणगस्स तस्स दुचरिमट्ठिदिखंडयस्स चरिमसमए जहण्णिया हाणी ।

§ ६७०. जहण्णसामित्तविहाणेणागंतूण सम्मत्तमुप्पाइय वेछावट्ठिसागरोपमाणि सम्मत्तमणुपालिय तदवसाणे परिणामपच्चएण मिच्छत्तमुवणामिय दीहुव्वेल्लण-कालेणुव्वेल्लेमाणयस्स दुचरिमट्ठिदिखंडयचरिमफालीए अंगुलस्सासंखेज्जभागपडिभागेणु-

§ ६६८. अब जघन्य हानि संक्रमके लानेकी इच्छा होनेपर प्रथम समयमे दूसरी संक्रमस्थान परिपाटीके प्रथम संक्रमस्थानको संक्रमाकर पुनः दूसरे समयमें प्रथम संक्रमस्थान परिपाटीके जघन्य संक्रमस्थानके संक्रमित करने पर जघन्य हानि होती है ऐसा कहना चाहिए । पुन' दूसरे समयमें इसी विधिसे वृद्धि और हानिसम्बन्धी अन्यतर परिणामको प्राप्त होकर तदनन्तर तीसरे समयमे आय-व्ययके कारण उतना ही संक्रम करनेवाले जीवके जघन्य अवस्थान होता है ऐसा जानना चाहिए । यह जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान द्रव्य पहली प्ररूपणामे विषय किये गये जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान द्रव्यसे असंख्यातगुणा हीन होता है । इसका कारण सुगम है, इसलिए इसीके ग्रहण करने पर सबसे जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ ।

* सम्यक्त्वकी जघन्य हानि किसके होती है ?

§ ६६९. यह सूत्र सुगम है ।

* जो सम्यग्दृष्टि जीव तत्प्रायोग्य जघन्य कर्मके साथ दो छयासठ सागरप्रमाण काल विताकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ, सबसे बड़े उद्वेलनाकालके द्वारा उद्वेलना करने-वाले उस जीवके द्विचरम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें जघन्य हानि होती है ।

§ ६७०. जघन्य स्वामित्व विधिसे आकर सम्यक्त्वको उत्पन्न कर तथा दो छयासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पोषण कर उसके अन्तमें परिणामवश मिथ्यात्वको प्राप्त होकर दीर्घ उद्वेलना कालके द्वारा उद्वेलना करनेवाले जीवके द्विचरम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिका अंगुलके

व्वेज्जणासंक्रमेण जहण्णहाणिसामित्तमेदं होइ ति सुत्तथो । दुचरिमट्टिदिखंडयदुचरिम-
फालिदव्वादो तस्सेव चरिमफालिदव्वे सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमेत्थ हाणिपमाणं होइ ।

❀ तस्सेव से काले जहणिया वड्डी ।

§ ६७१. तस्सेव हाणिसामियस्स तदणंतरसमए जहणिया वड्डी होइ । कुदो ?
तत्थ पालिदोवमासंखेज्जभागपडिभागियगुणसंक्रमेण जहणभावाविरोहेण परिणदम्मि
तदुवलद्वीदो ।

❀ एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि ।

§ ६७२. जहा सम्मत्तस्स दुविहा सामित्तपरूवणा कया एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि
कायव्वा, विसेसाभावादो । णवरि जहणवड्ढिसामित्ते भण्णमाणे दुचरिमुव्वेज्जणकंडय-
चरिमफालिमुव्वेज्जणभागहारेण संक्रामिय तदो उवरिमसमयग्गि सम्मत्तमुप्पाइय
विज्झादसंक्रमेण संक्रामेमाणयस्स जहणिया वड्डी दड्ढव्वा, गुणसंक्रमजणिदवड्ढीदो विज्झाद-
संक्रमजणिदवड्ढीए सुद्धु जहणभावोववत्तीदो । तत्थ वि गुणसंक्रमो अत्थि ति णासंक्रणिज्जं,
तत्थतणसम्मामिच्छत्तगुणसंक्रमभागहारस्स अंगुलस्सासंखेज्जभागपमाणतोवएसादो । ण
च एसो अत्थो सुत्ते णत्थि, से काले जहणिया वड्डी होइ ति सामण्णसरूवेण पयट्ट-
सुचम्मि एदस्स अत्थविसेसस्स संभवोवलंभादो ।

असंख्यातवें भागरूप प्रतिभागके द्वारा उद्वेलना संक्रम होनेसे यह जघन्य स्वामित्व होता है यह
इस सूत्रका अर्थ है । द्विचरम स्थितिकाण्डकके द्विचरम फालि द्रव्यमेंसे उसीकी अन्तिम फालिके
द्रव्यके घटाने पर जो शेष बचे उतना यहाँ पर जघन्य हानिका प्रमाण होता है ।

* उसीके अनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती है ।

§ ६७१. जो जघन्य हानिका स्वामी है उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती है,
क्योंकि वहाँ पर जघन्यपनेके अविरोधी पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण भागहाररूप गुण-
संक्रमरूपसे परिणत होनेपर जघन्य वृद्धिकी उपलब्धि होती है ।

* इसीप्रकार सम्यग्मिध्यात्वके भी जघन्य स्वामित्वकी प्ररूपणा करनी चाहिए ।

§ ६७२. जिस प्रकार सम्यक्त्वके स्वामित्वकी दो प्रकारकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार
सम्यग्मिध्यात्वकी भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी
विशेषता है कि जघन्य वृद्धिके स्वामित्वका कथन करते समय द्विचरम उद्वेलनाकाण्डककी अन्तिम
फालिके उद्वेलनाभागहारके द्वारा संक्रमाकर अनन्तर अगले समयमें सम्यक्त्वको उत्पन्न कर
मिध्यातर्नक्रमके द्वारा सक्रम करनेवाले जीवके जघन्य वृद्धि जाननी चाहिए, क्योंकि गुणसंक्रमसे
उत्पन्न हुई वृद्धिकी अपेक्षा मिध्यातसंक्रमसे उत्पन्न हुई वृद्धिका अच्छीतरह जघन्यपना बन जाता
है । वहाँ पर भी गुणसंक्रम है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो सम्यग्मिध्यात्व
का गुणसंक्रम भागहार होता है वह अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है ऐसा उपदेश
पाया जाता है । यह अर्थ सूत्रमें नहीं है यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि 'तदनन्तर समयमें जघन्य
वृद्धि होती है' इस प्रकार सामान्यरूपसे प्रवृत्त हुए सूत्रमें इस अर्थविशेषकी सम्भावना उपलब्ध
होती है ।

❀ अणंताणुबंधीणं जहणिया वड्डी हाणी अवड्डाणं च कस्स ?

§ ६७३. सुगमं ।

❀ जहणणेण एइंदियकम्मेण विसंजोएदूण संजोइदो, तदो ताव गालिदा जाव तेसिं गलिदसेसाणमधापवत्तणिज्जरा जहणणेण एइंदियसमय-पबद्धेण सरिसी जादा त्ति । केवचिरं पुण कालं गालिदस्स अणंताणु-बंधीणमधापवत्तणिज्जरा जहणणेण एइंदियसमयपबद्धेण सरिसी भवदि ? तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागकालं गालिदस्स जहणणेण एइंदिय-समयपबद्धेण सरिसी णिज्जरा भवदि । जहणणेण एइंदियसमयपबद्धेण सरिसी णिज्जरा आवलियाए समयुत्तराए एत्तिएण कालेण होहिदि त्ति तदो मदो एइंदियो जहणणेजोगी जादो । तस्स समयाहियावलिय-उववणणस्स अणंताणुबंधीणं जहणिया वड्डी वा हाणी वा अवड्डाणं वा ।

§ ६७४. एदस्स सुत्तस्सत्थपरूवणं कस्सामो । तंजहा—‘जहणणेण एइंदियकम्मेणे’ त्ति बुत्ते सुहुमेइंदिएसु खविदकम्मंसियलक्खणेण कम्मट्ठिमणुपालेमाणेण संचिदजहण-दव्वस्स गहणं कायव्वं, तत्ता अणगस्स एइंदियजहणकम्मस्साणुवलंभादो । तेण सह

* अनन्तानुबन्धियोंकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ?

§ ६७३. यह सूत्र सुगम है ।

* जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना कर उससे संयुक्त हुआ । अनन्तर उसने गलित शेष उनकी निर्जराके एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रबद्धके समान होने तक उन्हें गलाया । कितने समय तक गलाये गये अनन्तानु-बन्धियोंकी अधःप्रवृत्त निर्जरा एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रबद्धके सदृश होती है ? एकेन्द्रियोंमें आनेके बाद पल्यके -असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक गलाये गये अनन्तानुबन्धियोंकी निर्जरा एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रबद्धके समान होती है । किन्तु एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रबद्धके समान यह निर्जरा एक समय अधिक एक आवलि कालके बाद होगी कि वह मरा और जघन्य योगसे युक्त एकेन्द्रिय हो गया उसके उत्पन्न होनेके एक समय अधिक एक आवलिके बाद अनन्तानुबन्धियोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि या जघन्य अवस्थान होता है ।

§ ६७४. अब इस सूत्रके अर्थका कथन करते हैं । यथा—‘जहणणेण एइंदियकम्मेणे’ ऐसा कहने पर सूत्रम एकेन्द्रियोंमें क्षपितकर्मांशिक लक्षणरूपसे कर्मस्थितिका पालन करनेवाले जीवके द्वारा संचित हुए जघन्य द्रव्यका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उसके मिवा अन्य जीवके एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कर्म उपलब्ध नहीं होता । इस प्रकार उस द्रव्यके साथ आकर और

१. आप्रतौ वड्डी कस्स ताप्रतौ वड्डी [हाणी अवड्डाणं च] कस्स इति पाठः ।

आगंतूण पंचिदिए समयाविरोहेणुप्पज्जिय सव्वलहुं सम्मत्तं धेत्तणाणंताणुवंधीणं विसंजोयणापुव्वमंतोमुहुत्तेण पुणो वि संजुत्तो जादो । किमड्डमेत्थ विसंजोयणापुव्वं पुणो संजुत्तभावो कीरदे ? ण, अणंताणुवंधीणं विसंजोयणाए णिस्संतीभावं कादूण पुणो संजुत्तस्स थोवयरदव्वं धेत्तण जहण्णसामित्तविहाणड्डं तहाकरणादो । जइ एवं, एइं दियजहण्णसंत- कम्मावलंबणमणत्थयं, विसंजोएदूण विणासिज्जमाणाणमणंताणुवंधीणं संतकम्मस्स जहण्णभावे फलविसेसाणुवलंबादो ? ण एस दोसो, सेसकसाएहितो अधापवत्तसंक्रमेण पडिच्छिज्जमाण- दव्वस्स जहण्णभावविहाणड्डमेइं दियजहण्णसंतकम्मावलंबणादो । 'तदो ताव गालिदा० सरिसी जादा' ति एदस्सत्थो—तदो विसंजोयणापुव्वसंजोगादो अणंतरमेइं दिएसु पविसिय ताव गालिदा अणंताणुवंधीणो जाव तेसिं गलिदावसिद्धाणमधापवत्तणिज्जरा अधट्ठिदिणिज्जरा जहण्णेण एइं दियसमयपवद्वेण जहण्णोववादजोगपडिच्चद्वेण समाणा जादा ति । एतदुक्तं भवति—विसंजोयणापुव्वसंजोगेणेइं दिएसु पविट्ठस्स अणंताणुवंधीण- मधट्ठिदिणिज्जरा एइं दियसयपवद्वेण थोवयरा होंति ताव गालेयव्वा जाव पडिसमय- मेइं दियसंचयवसेण अहिकयगोबुच्छाविसये जहण्णएण एइं दियसमयपवद्वेण सरिसत्तं पत्ता

पञ्चेन्द्रियोंमें समयके अविरोध पूर्वक उत्पन्न होकर तथा अतिशीघ्र सम्यक्त्वको ग्रहण कर अनन्तानु-
बन्धियोंकी विसंयोजनापूर्वक अन्तर्मुहूर्तमें पुनः उनसे संयुक्त हुआ ।

शंका—यहाँ पर विसंयोजनापूर्वक पुनः संयुक्त किसलिए कराया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना द्वारा उन्हें निःसत्त्व करके पुनः संयुक्त हुए जीवके स्तोकरत द्रव्यको ग्रहण कर जघन्य स्वामित्वका विधान करनेके लिए इस प्रकार किया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मका अवलम्बन करना निरर्थक है, क्योंकि विसंयोजना करके विनाशको प्राप्त होनेवाली अनन्तानुबन्धियोंके सत्कर्मके जघन्यपनेमें विशेष फल नहीं उपलब्ध होता ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि शेष कषायोंसे अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा संक्रमित होनेवाले द्रव्यको जघन्य करनेके लिए एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मका अवलम्बन लिया है ।

'तदो ताव गालिदा० सरिसी जादा' इसका अर्थ—'तदो' अर्थात् विसंयोजनापूर्वक संयोगके बाद एकेन्द्रियोंमें प्रवेश कराकर अनन्तानुबन्धियोंको तबतक गलाया जब जाकर गलितावशिष्ट उनको अधःप्रवृत्त निर्जरा अर्थात् अधःस्थितिगलनरूप निर्जरा जघन्य उपपादयोगके सम्बन्धसे एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रवृद्धके समान हो गई । इसका यह तात्पर्य है कि विसंयोजना पूर्वक संयोगके बाद एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट हुए जीवके अनन्तानुबन्धियोंकी अधःस्थितिगलनरूप निर्जरा एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवृद्धके स्तोकरत होती है, इसलिए उन्हें तब तक गलाना चाहिए जब जाकर प्रत्येक समयमें एकेन्द्रियोंमें हुए संचयके कारण अधिकृत गोपुच्छाका आश्रय कर वह एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रवृद्धके समान हो जाती है ।

त्ति । किमद्भुमेवं कीरदे चे ? ण, अण्णहा आगम-णिज्जराणं सरिसत्ताभावेण? पयदजहण्ण-सामित्तविहाणाणुववत्तीदो ।

§ ६७५. संपहि एइंदिएसु पइडुस्स केत्तिएण कालेण आगम-णिज्जराणं सरिसत्त-संभवो होइ ? एदिस्से पुच्छाए णिण्णयविहाणडुमुत्तरो सुत्तावयवो—‘तदो पलिदोवमस्सा-संखेज्जदिभागकालं गालिदस्स इच्चादि । किं कारणं ? एइंदिएसु तप्पाओग्गपलिदो-वमासंखेज्जभागमेत्तकालावट्ठाणेण विणा आगम-णिज्जराणं सरिसत्तविहाणोवायाभावादो । तम्हा तेत्तियमेत्तं भुजगारकालं गालिय अप्पयरकालसंधीए वट्टमाणस्स अवट्टिदपाओग्ग-विसए सामित्तविहाणमेदमविरुद्धं सिद्धं । एवमवट्टिदपाओग्गं जहण्णसंतकम्मं कादूण तत्थ जहण्णसामित्ताणुगमे कीरमाणे एसो विसेसो अणुगंतव्वो त्ति पदुप्पायणडुमुवरि सुत्तावयव-कलावो—‘जहण्णेण एइंदियसमयपवद्धेण सरिसी णिज्जरा अवलियाए समयुत्तराए’ इच्चादि । एदस्सावयवत्थो सुगमो । किमद्भुमेवं जहण्णोववादजोगेण परिणामिज्जदे ? ण, अण्णहा सामित्तसमयभाविणीए जहण्णणिज्जराए सह विवक्खियसमयपवद्धस्स सरिसभावा-णुववत्तीदो । ण च ताणं सव्वजहण्णभावेण सरिसत्ताभावे पयदजहण्णसामित्तविहाणसंभवो,

शंका—ऐसा किसलिए करते हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा आय और व्ययके समान न होनेके कारण प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता ।

§ ६७५. अब एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट हुए इस जीवके कितने कालके द्वारा आय और व्ययका सदृशपना सम्भव है ऐसी पृच्छा होने पर निर्णयका विधान करनेके लिए आगेका सूत्र अवयव आया है—‘तदो पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागं कालं गालिदस्स’ इत्यादि । क्योंकि एकेन्द्रियोंमें तत्प्रायोग्य पत्यके असंख्यातवै भागप्रमाण काल तक अवस्थान हुए विना आय और व्ययके सदृशपनेके विधानका अन्य कोई उपाय नहीं पाया जाता । इसलिए उतने मात्र भुजगार कालतक गत्ता कर अल्पतर कालकी सन्धिमें विद्यमान हुए जीवके अवस्थितपदके योग्य द्रव्यके होनेपर यह स्वामित्वका विधान अविरुद्ध सिद्ध होता है । इस प्रकार अवस्थितपदके योग्य जघन्य सत्कर्मको करके वहाँ पर जघन्य स्वामित्वका अनुगम करने पर यह विशेष जानने योग्य है यह कथन करनेके लिए आगेका सूत्रावयवकलाप आया है—‘जहण्णेण एइंदियसमयपवद्धेण सरिसी णिज्जरा अवलियाए समयुत्तराए’ इत्यादि । इस अवयवका अर्थ सुगम है ।

शंका—इस प्रकार जघन्य उपपाद योगरूपसे किसलिए परिणमाया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा स्वामित्वके समयमें होनेवाली जघन्य निजराके साथ विवक्षित समयपवद्धकी सदृशता नहीं बन सकती, इसलिए इस जीवको जघन्य उपपाद योगरूपसे परिणमाया है । यदि कहा जाय कि उनका सबसे जघन्यरूपसे सदृशपना नहीं होने पर भी प्रकृत जघन्य स्वामित्वका विधान सम्भव है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका निषेध है ।

विष्पडिसेहादो । तदो एवंविहेण पयत्तविसेसेण तत्थ बंधं कादूण बंधावलिादिक्कंतस्स पयदजहण्णसामित्तं होइ । संपहि कथमेत्थ जहण्णवद्धि-हाणि-अवट्ठाणाणि जादाणि ति एदस्स णिण्णयकरणट्टमिदं वुच्चदे—एवमवट्ठिदसंक्रमपाओग्गे एदम्मि विसये जइ आगमदो णिज्जरा एगसंतक्कम्मपक्खेवणणा होइ तो जहण्णवट्ठिसामित्तमेत्थ होइ । जइ पुण आगमदो णिज्जरा एगसंतक्कम्मपक्खेवमेत्तेणम्महिया होइ तो जहण्णिया हाणी जायदे । एवं वद्धि-हाणीणमण्णदरपज्जाएण परिणदस्स से काले तत्तियं चेय संकामेमाणयस्स जहण्णयमवट्ठाणं होइ ति घेतत्तवं । एत्थ संतक्कम्मपक्खेवपमाणं पुरदो भणिस्सामो । एवमणंताणुबंधीणं जहण्णवद्धि-हाणि-अवट्ठाणसामित्तं परूविय संपहि अट्ठकसाय-भय-दुगुंछाणं तप्परूवणट्टमुत्तरसुत्तपबंधमाह—

❀ अट्ठएहं कसायाणं भय-दुं गुंछाणं च जहण्णिया वट्ठो हाणी अव-ट्ठाणं च कस्स ?

§ ६७६. सुगमं ।

❀ एहंदिक्कम्मेण जहण्णेण संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो, तेएव चत्तारि वारे कसायमुवसामिदा । तदो एहंदिक्क गदो पत्तिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं कालमच्छिज्जण उवसामयसमयपवद्धसु गत्तिदेसु जाधे

इसलिए इस प्रकारके प्रयत्न विशेषसे वहाँ पर बन्ध करके बन्धावतिके वाद उसके प्रकृत जवन्य स्वामित्व होता है । अब यहाँ पर जवन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान कैसे हुए इस प्रकार हम बातका निर्णय करनेके लिए कहते हैं—इस प्रकार अवस्थित संक्रमके योग्य इस विषयमें यदि आयकी अपेक्षा निर्जरा एक सत्कर्म प्रक्षेप न्यून होती है तो यहाँ पर जवन्य वृद्धिका स्वामित्व होता है । यदि आयकी अपेक्षा निर्जरा एक सत्कर्म प्रक्षेपमात्र अधिक होती है तो जवन्य हानि उत्पन्न होती है । तथा इस प्रकार वृद्धि और हानिसे किसी एक पर्यायसे परिणत हुए जीवके तदनन्तर समयमें उतना ही सक्रम करनेपर जवन्य अवस्थान होता है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए । वहाँ पर सत्कर्मके प्रक्षेपका जो प्रमाण है वह आगे कहेंगे । इस प्रकार अनन्तानुबन्धियों की जवन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानका कथन कर अब आठ कपाय, भय और जुगुप्साकी जवन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

❀ आठ कपाय, भय और जुगुप्साकी जवन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ?

§ ६७६. यद् सूत्र सुगमं ह

❀ कोई एक जीव एकेन्द्रियसम्बन्धी जवन्य सत्कर्मके साथ संयमासंयम और संयमको बहुत बार प्राप्त हुआ । उसीने चार बार कपायोंका उपशम किया । तदनन्तर एकेन्द्रियोंमें गया और वहाँ पन्थके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रहकर उपशामक

बंधेण णिज्जरा सरिसो भवदि ताधे एदेसिं कम्माणं जहणिया वड्ढो च हाणो च अवट्ठाणं च ।

§ ६७७. एदस्स सुत्तस्सत्थो । तं जहा—‘जहण्णेणेइं दियकम्मेणे’ ति णिहेसो खविदकम्मंसियलक्खणेणागदएइं दियस्स जहण्णसंतकम्मगहणफलो । ‘संजमासंजमं च बहुसो गदो’ ति वयणमेइं दिएसु खविदकम्मंसियलक्खणेण कम्मट्ठिमणुपालेदूण तत्तो णिस्सरिय तसेसुप्पणस्स सव्वुकस्ससंजमासंजम-संजमपरिणामणिबंधणगुणसेट्ठिणिज्जराए जहण्णेइं दियसंतकम्मस्स सुट्ठु जहण्णीकरणट्ठमिदं दट्ठव्वं । एदेण पलिदोवमाणं असंखेज्ज-भागमेत्तसंजमासंजमकंडयाणं तप्पाओग्गसंखेज्जसंजमकंडयाणं च संभवो सूचिदो । एत्थ सम्भत्ताणंताणुबंधिविसंजोयणकंडयाणं पि अंतम्भावो वत्तव्वो । ‘चत्तारि वारे कसाया उवसामिदा’ ति णिहेसेण उवसामयपरिणामणिबंधणवहुकम्मपोगलणिज्जराए संगहो कओ दट्ठव्वो । एवं पयदकम्माणं बहुपोगलगालणं कादूण तदो एइं दिए गदो । किमट्ठमेसो एइं दिएसु पवेसिदो ? ण, तत्थ पलिदोवमाणसंखेज्जभागमेत्तअप्यरकालम्भंतरे चिराणसंतकम्मेण सह उवसामग-समयपवट्ठेसु अणागालिदेसु जहण्णयरसंतकम्माणुप्पत्तीदो । एवमुवसामयसमयपवट्ठे

अवस्थासम्बन्धी समयप्रवट्ठके गला देनेपर जब बन्धसे निर्जरा समान होती है तब इन कर्मोंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि और जघन्य अवस्थान होता है ।

§ ६७७. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं । यथा—सूत्रमें ‘जहण्णेणेइं दियकम्मेण’ इस पदका निर्देश क्षपितकर्माशिकलक्षणसे आये हुए एकेन्द्रिय जीवके जघन्य सत्कर्मके ग्रहण करनेके लिए किया है । ‘संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो’ यह वचन एकेन्द्रिय जीवोंमें क्षपितकर्माशिक लक्षणके साथ कर्मस्थितिका पालन कर फिर वहाँसे निकलकर त्रसोंमें उत्पन्न हुए जीवके सबसे उत्कृष्ट संयमासंयम और संयमरूप परिणामोंके निमित्तसे होनेवाली गुणश्रेणिनिर्जराके द्वारा एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मको अच्छी तरह जघन्य करनेके लिए जानना चाहिए । इस वचनके द्वारा पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण संयमासंयमकाण्डक और तत्प्रायोग्य संख्यात संयमकाण्डक सम्भव हैं यह सूचित किया गया है । यहाँ पर सम्यक्त्वके काण्डकोंका और अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनाकाण्डकोंका अन्तर्भाव कहना चाहिए । ‘चत्तारि वारे कसाया उवसामिदा’ इस वचन द्वारा उपशामक सम्बन्धी परिणामोंके कारण हुई बहुत कर्मोंकी निर्जराका संग्रह किया गया है ऐसा जानना चाहिए । इस प्रकार प्रकृत कर्मोंके बहुत पुद्गलोंको गलाकर उसके वाद एकेन्द्रियोंमें गया ।

शंका—इसे एकेन्द्रियोंमें किसलिए प्रविष्ट कराया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रकृतमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अल्पतर कालके भीतर प्राचीन सत्कर्मके साथ उपशामकसम्बन्धी समयप्रवट्ठोंके अगालित रहने पर जघन्यतर

गालिय जत्थ जहण्णएण एइंदियसमयवद्धेण सरिसी णिज्जरा होइ तत्थ जहण्णसामित्त-
विहासणट्ठमिदमाह—‘जाधे बंधेण सरिसी णिज्जरा हवइ ताधे’ इच्चादि । एदस्सत्थो-
उवसामयसमयपवद्धेसु गलिदेसु जाधे सामित्तसमयादो समयत्तरावलियमेत्तमोसक्किञ्जण
वद्धत्तप्पाओग्गजहण्णेइंदियसमयपवद्धेण सामित्तसमकालभाविणी णिज्जरा सरिसी भवदि
ताधे एदेसिं पयदकम्ममाणं जहण्णवट्ठि-हाणि-अवट्ठाणाणि होंति, एगसंतकम्मपक्खेव-
णिबंधणजहण्णवट्ठि-हाणि-अवट्ठाणाणमेत्थ दंसणादो ।

❀ चटुसंजलणाणं जहण्णिया वड्ढी हाणी अवट्ठाणं च कस्स ?

§ ६७८. सुगमं ।

❀ कसाए अणुवसामेञ्जण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लड्डूण
एइंदिए गदो । जाधे बंधेण णिज्जरा तुल्ला ताधे चटुसंजलणस्स जहण्णिया
वड्ढी हाणी अवट्ठाणं च ।

§ ६७९. किमट्ठमेत्थ चटुक्खुत्तो कसायोवसामणं ण इच्छिञ्जदे ? ण, उवसमसेठीए
चटुसंजलणाणं बंधसंभवेण सेसावज्झमाणपयडीणं गुणसंकमपडिग्गहे तत्थ पयदोवजोगि-

सत्कर्मकी उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए उक्त जीवको एकेन्द्रियोंमें प्रविष्ट कराया है ।

इस प्रकार उपशामकसम्बन्धी समयप्रवद्धोंको गला कर जहाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य
समयप्रवद्धके समान निर्जरा होती है वहाँ पर जघन्य स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए यह वचन
कहा है—‘जाधे बंधेण सरिसी णिज्जरा हवइ ताधे, इत्यादि । इसका अर्थ—उपशामकसम्बन्धी
समयप्रवद्धोंके गला देने पर जब स्वामित्वके समयसे एक समय अधिकआवलि मात्र पीछे जाकर
बन्धको प्राप्त हुए एकेन्द्रिय सम्बन्धी तत्प्रायोग्य जघन्य समयप्रवद्धके समान स्वामित्वके कालमें
होनेवाली निर्जरा होती है तब इन प्रकृत कर्मोंकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होते हैं,
क्योंकि एक सत्कर्मप्रक्षेपनिमित्तक जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान यहाँ पर देखे जाते हैं ।

* चार संज्वलनोंकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ?

§ ६७८. यह सूत्र मुगम है ।

* कपायोंका उपशाम किये बिना अनेक बार संयम और संयमासंयमको प्राप्त
कर एकेन्द्रिय पर्यायमें मर कर उत्पन्न हुआ । वहाँ जब बन्धके समान निर्जरा होती है
तब चार संज्वलनोंकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है ।

§ ६७९. शंका—यहाँ पर चार बार कपायोंकी उपशामक्रिया किसलिए स्वीकार नहीं की
गई है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि उपशामश्रेणिमें चारों संज्वलनोंका बन्ध सम्भव होनेसे नहीं
बंधनेवाली शेर प्रवृत्तियोंका गुणसंकमके द्वारा प्रतिग्रह होने पर वहाँ पर प्रकृतमें उपयोगी फलविशेष

फलविसेसाणुवलद्वीदो । ण तत्थ गुणसेठिणिज्जराए बहुदव्वविणासो आसंक्रणिज्जो, ततो गुणसंक्रमेण पडिच्छिज्जमाणदव्वस्सासंखेज्जगुणत्तदंसणादो । तदो सइं पि कसाए अणुव-सामेदूण सेसगुणसेठिणिज्जराहिं बहुसो परिणामिरुण पुणो एइंदिएसु गदस्स खविदकम्मं-सियस्स पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तकालेण गालिदासेसगुणसेठिणिज्जराकालव्भंतरसंगलिद-समयपवद्धस्स जाधे संक्रमपाओग्गभावेण दुक्कमाणतप्पाओग्गजहण्णेइंदियसमयपवद्धेण सह सरिसी णिज्जरा जादा ताधे चदुण्हं संजलणाणं जहण्णवद्धि-हाणि-अवट्ठाणसामित्ताहि-संबंधो ति सुसंघद्वमेदं सुत्तं ।

❀ पुरिसवेदस्स जहण्णिया वड्ढी हाणो अवट्ठाणं च कस्स ?

§ ६८०. सुगमं ।

❀ जम्हि अवट्ठाणं तम्हि तप्पाओग्गजहण्णएण कम्मेण जहण्णिया वड्ढी वा हाणो वा अवट्ठाणं वा ।

§ ६८१. जम्हि विसये पुरिसवेदपदेससंक्रमस्सावट्ठाणसंभवो तम्हि तप्पाओग्ग-जहण्णएण कम्मेण सह वट्ठमाणयस्स पयदजहण्णवद्धि-हाणि-अवट्ठाणसामित्तसंबंधो दट्ठव्वो । किं कारणं ? अवट्ठिदपाओग्गविसये असंखेज्जलोगपडिभागेण जहण्णवद्धि-हाणि-अवट्ठाणाण-मुवलंभे विरोहाभावादो । सेसं सुगमं ।

उपलब्ध नहीं होता और इसलिए वहाँ पर गुणश्रेणि निर्जराके द्वारा बहुत द्रव्यके विनाशकी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे गुणसंक्रमके द्वारा प्रतिग्रहरूपसे प्राप्त होनेवाला द्रव्य असंख्यात-गुणा देखा जाता है । इसलिए एक बार भी कषायोंको नहीं उपशमा कर तथा शेष द्रव्यको गुण-श्रेणि निर्जराके द्वारा बहुत बार परिणामा कर पुनः एकेन्द्रियोंमें मर कर उत्पन्न हुए उस क्षपित-कर्मांशिक जीवके पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा निर्जीण की गईं समस्त गुणश्रेणि-निर्जराओंके कालके भीतर समयप्रवद्धोंको निर्जीण करने पर जब संक्रमके योग्यरूपसे प्राप्त होनेवाले तत्प्रायोग्य एकेन्द्रियसम्बन्धो समयप्रवद्धके समान निर्जरा होती है तब चारों संव्वलनोंकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामित्वका सम्बन्ध होता है इसलिए यह सूत्र सुसम्बद्ध है ।

* पुरुषवेदकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ?

§ ६८०. यह सूत्र सुगम है ।

* जहाँ पर अवस्थान होता है वहाँ पर तत्प्रायोग्य जघन्य कर्मके साथ जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान होता है ।

§ ६८१. जिस विषयमें पुरुषवेदके प्रदेशसंक्रमका अवस्थान सम्भव है वहाँ-पर तत्प्रायोग्य-जघन्य कर्मके साथ विद्यमान हुए जीवके प्रकृत जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके स्वामित्वका सम्बन्ध जान लेना चाहिए, क्योंकि अवस्थितपदके योग्य विषयमें असंख्यात लोकप्रमाण प्रति-भागके कारण जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थानके प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता । शेष कथन सुगम है ।

❀ हस्स-रदीणं जहणिया वड्डी कस्स ?

§ ६८२. सुगममेदं पुच्छावकं । णवरि हाणिविसया वि पुच्छा एत्थेव णिलीणा ति दड्ढव्या, दोण्णमेगपघट्टएण सामित्तणिदेसदंसणादो ।

❀ एइं दियकम्मेण जहणएण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामेज्जएण एइंदिए गदो, तदो पल्लिदोवमस्सा-संखेज्जदिभागं कालमच्छिज्जएण सएणी जादो । सव्वमहंतिमरदि-सोगबंधगद्धं कादूण हस्स-रइओ पवद्धाओ पढमसमयहस्स-रइ-बंधगस्स तप्पाओग्ग-जहणएओ बंधो च आगमो च, तस्स आवलियहस्स-रइबंधमाणयस्स जहणिया हाणी ।

§ ६८३. एत्थ जहणोइं दियकम्मावलंबणे बहुसो संजमासंजमादिपडिलंभे चट्ठुक्खुत्तो कसायोवसामणापरिणामे पुणो एइंदिएसु पल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्तप्पदर-कालावट्टाणे च पुव्वं व १पयोजणुववण्णणं कायव्वं, विसेसाभावादो । तदो सण्णी जादो । किमट्टमेसो पुणो वि सण्णोसुप्पाइदो ? ण, सव्वमहत्ति पडिवक्खबंधगद्धं तत्थ गालेदूण

* हास्य और रतिकी जघन्य वृद्धि किसके होती है ?

§ ६८२. यह पृच्छावचन सुगम है । किन्तु इतनी विशेषता है कि हानिविषयक पृच्छा भो इसी सूत्रमें गभित है ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि दोनोंका एक ही रचना द्वारा स्वामित्वका निर्देश देखा जाता है ।

* कोई एक जीव एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कर्मके साथ संयमासंयम और संयम-को बहुत बार प्राप्त कर तथा चार बार कषायोंको उपशमाकर एकेन्द्रिय पर्यायमें गया । तदनन्तर पल्यके असंख्योतर्वे भागप्रमाण कालतक रह कर संज्ञी हो गया । वहाँ अरति-शोकके सबसे बड़े बन्धककालको करके हास्य-रतिका बन्ध किया । हास्य और रतिका बन्ध करनेवाले उसके प्रथम समयमें जघन्य बन्ध है और अन्य प्रकृतियोंमेंसे संक्रमित होनेवाले द्रव्यकी आय है । एक आवलि काल तक हास्य-रतिका बन्ध करनेवाले उस जीवके जघन्य हानि होती है ।

§ ६८३ यहाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कर्मका अवलम्बन करने पर उसने बहुत बार संयमासंयम घादि की प्राप्ति की, चारवार कषायोंका उपशम किया, पुनः एकेन्द्रियोंमें पल्यके असंख्यातर्वे भागप्रमाण अल्पतर कालतक अवस्थित रहा इन सबका पूर्वके समान वर्णन करना चाहिए, क्योंकि उममें कोई विशेषता नहीं है । उसके बाद संज्ञी हो गया ।

शंका—उममें पुनः संज्ञियोंमें किसलिए उत्पन्न कराया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़े प्रतिपत्त बन्धक कालको गलाकर गलकर शप

गलिदावसेसजहण्णसंतकम्मावलंबणेण पयदसामित्तविहाणडं तहा करणादो । एइंदिएसु
 चेव पडिवक्खबंधगद्धा किण्ण गालिदा ? ण, एइंदियपडिवक्खबंधगद्धादो सण्णि-
 पंचिदिएसु पडिवक्खबंधगद्धाए संखेज्जगुणत्तुवलंभादो । कुदो एदमवगम्मदे ? 'सव्वत्थोवा
 एइंदियाणमरदि-सोगबंधगद्धा । बीइंदिय०बंधगद्धा संखेज्जगुणा । एवं तीइंदिय०—
 चउरिंदिय०-असण्णि०-सण्णि०बंधगद्धाओ जहाकमं संखेज्जगुणाओ' त्ति परूविदद्वप्पा-
 बहुगादो । तदो एवंविहपडिवक्खबंधगद्धं गालेदूण सामित्तविहाणडं सण्णीसुप्पोइदो त्ति
 दट्ठव्वं । तदेवाह—'सव्वमहंतिमरदि-सोगबंधगद्धं कादूणे त्ति । सण्णीसु अरदि-सोग-
 बंधगद्धा जहण्णा वि अत्थि उक्खसा वि अत्थि । तत्थ सव्वुकस्सियमरदि-
 सोगबंधगद्धं कादूण हस्स-रदीणं पदेसग्गमधट्ठिदीए गालदि त्ति वुत्तं
 होइ । एवं पडिवक्खबंधगद्धं गालिदूणावट्ठिदस्स पुणो वि सगबंधकालव्भंतरे
 आवलियमेत्तकालं गालणसंभवो त्ति पटुप्पायट्ठमाह—'हस्स-रदीओ पवद्धाओ' त्ति ।
 हस्स रदिवंधे पारट्ठे णाकबंधवसेण संक्रमो बहुगो होदि त्ति णासंक्रणिज्जं, वंधावलियमेत्त-
 कालव्भंतरे णवक्खबंधपदेसाणं संक्रमपाओग्गत्ताभावादो । ण च सगबंधपारंभे पडिच्छिज्ज-
 माणदव्वस्स बहुत्तमासंक्रणिज्जं, तस्स वि आवलियमेत्तकालं संक्रमाभावदंसणादो । तदो

बचे हुए जघन्य सत्कर्मके अबलम्बन द्वारा प्रकृत स्वामित्वका विधान करनेके लिए उस प्रकारसे किया है ।

शंका—एकेन्द्रियोंमें ही प्रतिपत्त बन्धककालको क्यों नहीं गलाया ?

समाधान—नहीं, क्योंकि एकेन्द्रियोंके प्रतिपत्त बन्धककालसे संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें प्रतिपत्त बन्धककाल संख्यातगुणा उपलब्ध होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—एकेन्द्रियोंमें अरति—शोकका बन्धककाल सबसे स्तोक है । उससे द्वीन्द्रियोंमें बन्धककाल संख्यातगुणा है । इस प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ञी और संज्ञी जीवोंमें बन्धककाल क्रमसे संख्यातगुणे हैं । इस प्रकार कहे गये काल विषयक अल्पबहुत्वसे जाना जाता है ।

इसलिए इस प्रकारके प्रतिपत्त बन्धककालको गलाकर स्वामित्वका विधान करनेके लिए संज्ञियोंमें उत्पन्न कराया ऐसा जानना चाहिए । यही कहा है—'सव्वमहंतिमरदि-सोगबंधगद्धं कादूणे' । संज्ञियोंमें अरति-शोकका बन्धककाल जघन्य भी है और उत्कृष्ट भी है । उससे अरति-शोकके सर्वोत्कृष्ट बन्धककालको करके हास्य-रतिके प्रदेशाप्रको अध-स्थितिके द्वारा गलाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इस प्रकार प्रतिपत्त बन्धककालको गलाकर अवस्थित हुए जीवके फिर भी अपने बन्धककालके भीतर एक आवलिकाल तक गलना सम्भव है इस बातका कथन करनेके लिए कहा है—'हस्स-रदीओ पवद्धाओ ।' हास्य-रतिको बन्ध प्रारम्भ होने पर नवकबन्धके कारण संक्रम बहुत होता है ऐसी आशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बन्धावलिमात्र कालके भीतर नवकबन्धके प्रदेश संक्रमके योग्य नहीं होते । अपने बन्धका प्रारम्भ होने पर प्रतिप्राप्तमान द्रव्य बहुत होता है ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक आवलिकाल

सगबंधपारंभादो आवलियचरिमसमये वृद्धमाणस्स जहण्णसामित्तविहाणमेदं^१ णिरवज्जं ।

§ ६८४. तत्थ वि षडमसमयहस्स-रदिवंधगम्मि को वि विसैसो अत्थि ति षट्ठुपायणट्ठमाह—‘षडमसमयहस्स-रदिवंधगस्स’ इत्थादि । किमट्ठुमेत्थतणवंधो अधापवत्त-संक्रमेण षडिच्छिज्जमाणसेसपयडिदव्वागमो च जहण्णो इच्छिज्जदे ? ण, अण्णहा वड्ढि-सामित्तस्स जहण्णभावाणुववत्तीदो । तदो वड्ढिसामित्तं षडुच्च वुत्तमेदं ति दट्ठुव्वं । हाणिसामित्तावेक्खाए पुण तत्थतणवंधागमाणं जहण्णुकस्सभावेण किंचि पयदोवजोगफल-मत्थि, तव्वंधावलियचरिमसमए चेय हाणिसामित्तस्स जहण्णभावविहाणादो । यदाह—‘तस्स आवलियहस्स-रदिवंधमाणगस्स जहण्णिया हाणि’ ति । किं कारणं ? एत्तो उवरिमसग-बंधमाहप्पेण वड्ढिविसये हाणिसामित्तविहाणाणुववत्तीदो ।

❀ तस्सेव से काले जहण्णिया वड्ढी ।

§ ६८५. तस्सेवाणंतरणिदिट्ठहाणिसामियस्स तदणंतरसमए जहण्णिया वड्ढी होइ । किं कारणं ? पुव्वमादिट्ठजहण्णगबंधागमाणं ताधे संक्रमपाओग्गभावेण ट्ठुक्कमाणंजहण्णवड्ढि-कारणत्तादो । तदो हाणिसामित्तसमयभाविसंक्रमदव्वे वड्ढिसामित्तसमयसंक्रमदव्वादो

तक संक्रम नहीं देखा जाता । इसलिए अपने बन्धके प्रारम्भसे लेकर एक आवलिकालके अन्तिम समयमें विद्यमान हुए जीवके यह जघन्य स्वामित्वका विधान निर्दोष है ।

§ ६८४. उसमें भी हास्य-रतिका प्रथम समयमें बन्ध करनेवाले जीवके कुछ विशेषता है इस बातका कथन करनेके लिए कहा है—‘षडमसमयहस्स-रदिवंधगस्स’ इत्यादि ।

शंका—यहाँ होनेवाला बन्ध और अध प्रवृत्तसंक्रमके द्वारा प्रतिग्राह्यमान शेष प्रकृतियोंके द्रव्यका आगमन जघन्य क्यों स्वीकार किया गया है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि अन्यथा वृद्धिका स्वामित्व जघन्य नहीं बन सकता, इसलिए वृद्धिके स्वामित्वको लक्ष्य कर यह कहा है ऐसा जानना चाहिए ।

हानिके स्वामित्वकी विवक्षा होने पर तो वहाँ होनेवाले बन्ध और अधःप्रवृत्तसंक्रम द्वारा प्राप्त होनेवाली आयत्ता जघन्य और उत्कृष्टपना प्रकृतमें कुछ भी उपयोगी फलवाला नहीं है, क्योंकि उसकी बन्धावलिके अन्तिम समयमें ही हानिके स्वामित्वके जघन्यपनेका विधान किया है । इसलिए कहा है—‘तस्स आवलियहस्स-रदिवंधमाणगस्स जहण्णिया हाणी ।’ क्योंकि इसके आगे अपने बन्धके माहात्म्यवश वृद्धिका स्थल प्राप्त होने पर हानिके स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता ।

❀ उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती है ।

§ ६८५. जो अनन्तर पूर्व हानिका स्वामी कह आये हैं उसीके तदनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती है, क्योंकि पूर्वमें कहे गये जो बन्ध और आगम द्रव्य हैं जो कि सक्रम प्रायोग्यरूपसे प्राप्त होनेवाले हैं वे उस समय जघन्य वृद्धिके कारण हैं । इसलिए हानिके स्वामित्वके समयमें होनेवाले सक्रमद्रव्यको वृद्धिके स्वामित्वके समयके संक्रम द्रव्यमेंसे घटा देने पर जो शुद्ध शेष बचे

१. आ०प्रती मेत्त (दं) इति पाठः ।

सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमेत्थ सामित्तविसईकयदव्वं होइ । एत्थ चोदगो भणदि-होउ णाम हाणिसामित्तं चेव, तत्थ पयारंतरासंभवादो । वड्डिसामित्तं पुण एइंदिएसु सत्थाणे चेव पडिवक्खबंधगद्धं गालिय सगबंधपारंभादो आवलियादीदस्स कायव्वं, तत्थ संक्रमपाओग्ग-भावेण दुक्कमाणतप्पोओग्गजहण्णेइं दियसमयपवद्धस्स पुव्विल्लसामित्तविसयपंचिदिय-समयपवद्धादो असंखेज्जगुणहीणस्स गहणे सुद्ध जहण्णभावोवत्तीदो त्ति ? ण एस दोसो, परिणामविसेसमस्सिऊणेत्थतणसुद्धसेससंकमदव्वस्स थोवत्तब्भुवगमादो । तं कथं ? एइंदिय-संकिलेसादो पंचिदियस्स संकिलेसो अणंतगुणो होइ, तेण सामित्तसमयोदो हेट्ठा समया-हियावलिमेत्तमोसरिदूण जहण्णजोगेण बंधमाणावत्थाए एइंदिएण पडिच्छिज्जमाणदव्वादो पंचिदिएण पडिच्छिज्जमाणदव्वं थोवयरं चेव होदि त्ति तदणुसारेण सुद्धसेसवड्डिदव्वं पि तत्थेव थोवयरं होइ । ण च णवक्कबंधस्सेत्थ पहाणभावो अत्थि, तत्तो असंखेज्जगुणं पडिच्छिज्जमाणदव्वं मोत्तण तस्स पहाणत्ताणुवलंभादो । अहवा जहण्णहाणिविसयाचेव जहण्णवड्डी सुत्तयारेणेत्थ विवक्खिया त्ति ण किं चि विरुज्जदे ।

❀ अरदि-सोगाणमेवं चेव । एवरि पुव्वं हस्सं-रदीओ बंधावेयव्वाओ ।

उतना यहाँ पर स्वामित्वरूपसे विषय किया गया द्रव्य होता है ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहना है—हानिका स्वामित्व रहा आवे, क्योंकि वहाँ पर दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है । वृद्धिका स्वामित्व तो एकेन्द्रियोंके स्वस्थानमे ही ऐसे जीवके करना चाहिए जिसने प्रतिपक्ष बन्धककालको गलाकर अपने बन्धके प्रारम्भ होनेसे लेकर एक आवलिकाल विता दिया है, क्योंकि वहाँ पर संक्रमके योग्यरूपसे प्राप्त होनेवाला एकेन्द्रिय सम्बन्धी तत्प्रायोग्य जघन्य समयप्रवद्ध पूर्वमे कहे गये स्वामित्व विषयक पञ्चेन्द्रिय सम्बन्धी समयप्रवद्धसे असंख्यातगुणा हीन होता है, इसलिए उसके ग्रहण करने पर उसका अच्छी तरह जघन्यपना बन जाता है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि परिणाम विशेषका आश्रयकर यहाँ का शुद्ध शेष वचा हुआ संक्रमद्रव्य स्तोक है ऐसा स्वीकार किया गया है ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि एकेन्द्रियजीवके संक्लेशसे पञ्चेन्द्रियजीवका संक्लेश अनन्तगुणा होता है, इसलिए स्वामित्व समयसे पूर्व एक समय अधिक एक आवलि पीछे सरक कर जघन्य योगके द्वारा बन्ध होनेकी अवस्थामे एकेन्द्रिय जीवके द्वारा प्रतिग्राह्यमान द्रव्यसे पञ्चेन्द्रिय जीवके द्वारा प्रतिग्राह्यमान द्रव्य स्तोकतर ही होता है अतएव उसके अनुसार शुद्ध शेष वृद्धिरूप द्रव्य भी उस पञ्चेन्द्रियजीवके स्तोकतर होता है और नवकबन्धकी यहाँ पर प्रधानता नहीं है, क्योंकि उससे असंख्यातगुणे प्रतिग्राह्यमान द्रव्यको छोड़कर उसकी प्रधानता नहीं उपलब्ध होती । अथवा सूत्रकारने जघन्य हानिविषयक ही जघन्य वृद्धि यहाँ पर विवक्षित की है इसलिए कुछ भी विरोध नहीं है ।

* अरति और शोक की जघन्य वृद्धि आदिका स्वामित्व इसी प्रकार है । किन्तु इतनी विशेषता है कि पहले हास्य और रतिका बन्ध करावे । तदनन्तर एक आवलि

तदो आवलियअरदि-सोगबंधगस्सं जहणिया हाणी । से काले जहणिया वड्ढी ।

§ ६८६. जहा हस्स-रदीणं जहणवड्ढि-हाणिसामित्तपरूवणा कया तहा अरदि-सोगाणं पि कायव्या । णवरि पुव्वमेत्थ हस्स-रदीओ बंधाविय पडिवक्खबंधगद्वागालणं कादूण तदो आवलियअरदि-सोगबंधगद्धम्मि पयदकम्माणं जहणहाणिसामित्तं । से काले च पुव्वुत्तेणेव विहिणा जहणवड्ढिसामित्तमिदि एसो विसेसो सुत्तेणेदेण णिदिट्ठो ।

❀ एवमित्थिवेद-णवुंसयवेदाणं ।

§ ६८७. जहा हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं खविदकम्मंसियस्स पडिवक्खबंधगद्वा-गालणेण सामित्तविहाणं कयं, एवमेदसि पि दोण्हं कम्माणं कायव्वं, विसेसाभावादो । णवरि पडिवक्खबंधगद्वागालणाविसये दोण्हं कम्माणं कमविसेसो अत्थि ति तप्पदुप्यायणट्ठमुत्तर-सुत्तइयमाह—

❀ णवरि जह इत्थिवेदस्स इच्छसि, पुव्वं णवुंसयवेद-पुरिसवेदे बंधावेदूण पच्छा इत्थिवेदो बंधावेयव्वो । तदो आवलियइत्थिवेदबंध-माणयस्स इत्थिवेदस्स जहणिया हाणी । से काले जहणिया वड्ढो ।

काल तक अरति और शोकका बन्ध करनेवाले जीवके जघन्य हानि होती है और तदनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती है ।

§ ६८६. जिस प्रकार हास्य और रतिकी जघन्य वृद्धि और हानिका कथन किया है उसी प्रकार अरति और शोकका भी कथन करना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वमे यहाँ पर हास्य और रतिका बन्ध कराकर तथा प्रतिपत्त बन्ध कालको समाप्त कर तदनन्तर एक आवलि प्रमाण अरति और शोकके बन्धककालके अन्तमे प्रकृत कर्मोंकी जघन्यवृद्धानिका स्वामित्व होता है । और तदनन्तर समयमें पूर्वोक्त विधिसे ही जघन्य वृद्धिका स्वामित्व होता है इस प्रकार इतनी विशेषता इम सूत्रके द्वारा निर्दिष्ट की गई है ।

* इसी प्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके स्वामित्वका कथन करना चाहिए ।

§ ६८७. जिस प्रकार नपितकर्माशिक जीवके प्रतिपत्त बन्धककाल को चितानेके बाद हास्य-रति और अरति-शोकके स्वामित्वका विधान किया है इसी प्रकार इन दोनों कर्मोंका भी विधान करना चाहिए, क्योंकि उससे इसमे कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि प्रतिपत्त बन्धककालके गलानेके विषयमें दोनों कर्मोंके क्रममे कुछ विशेषता है, इसलिए इसका कथन करनेके लिए आगेके दो सूत्र कहते हैं—

* किन्तु इतनी विशेषता है कि यदि स्त्रीवेदके स्वामित्व कथनकी इच्छा हो तो पूर्वमें नपुंसकवेद और पुरुषवेदका बन्ध कराकर बादमें स्त्रीवेदका बन्ध करावे । इस प्रकार एक आवलिकाल तक स्त्रीवेदका बन्ध करनेवाले जीवके स्त्रीवेदकी जघन्य हानि होती है और तदनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती है ।

❀ ज दि एवुंसयवेदस्स इच्छसि, पुव्वमित्थिपरिसवेदे बंधावेदूण पच्छा एवुंसयवेदो बंधावेयंव्व । तदो आवलियणवुंसयवेदबंधमाणयस्स एवुंसयवेदस्स जहणियाः हाणो से काले जहणिया वड्ढो ।

§ ६८८. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । एत्थ चोदगो भणइ—होउ णाम जहणवड्ढिसामित्तमेवं चैव, तत्थ पयारंतरासंभवादो । किंतु जहणहाणिसामित्तमेदमित्थि-णवुंसयवेदपडिबद्धं ण घडदे । कुदो ? खविदकम्मंसियलक्खणेणाणिय वेत्तावड्ढिसागरो-वमाणि तिपल्लिदोवमाहियवेत्तावड्ढिसागरोवमाणि च जहाकमेण गालिय गलिदसेसजहण-संतकम्ममधापवत्तकरणचरिमसमयम्मि विज्झादसंकमेण संकामेमाणयम्मि सामित्तविहाणे हाणीए सुट्ठु जहणभावोवलद्वीदो ? एत्थ परिहारो वुच्चदे—सच्चमेदं, ओघजहणसामित्ते विवक्खिए एवं चैव होदि त्ति इच्छिज्जमाणत्तादो । किंतु आदेसजहणसामित्तविवक्खिए पयट्ठमेदं सुत्तमिदि ण किंचि विरुज्जदे, अप्पिदाणप्पिदसिद्धीए सव्वत्थ पडिसेहाभावादो । किमिदि तदविवक्खा चे ? जहणवड्ढिसंभवविसये चैव जहणहाणिसामित्तविहाणाहिप्पाएण

* यदि नपुंसकवेदके जघन्य स्वामित्वको लानेकी इच्छा हो तो पहले स्त्रीवेद और पुरुषवेदका बन्ध कराकर बादमें नपुंसकवेदका बन्ध करावे । इस प्रकार एक आवृत्ति काल तक नपुंसकवेदका बन्ध करनेवाले जीवके नपुंसकवेदकी जघन्य हानि होती है और तदनन्तर समयमें जघन्य वृद्धि होती है ।

§ ६८८. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं ।

शंका—यहाँ पर शंकाकार कहता है कि जघन्य वृद्धिका स्वामित्व इसी प्रकार होओ, क्योंकि उस विषयमें अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । किन्तु स्त्रीवेद और नपुंसकवेदसे सम्बन्ध रखने वाला यह जघन्य हानिका स्वामित्व घटित नहीं होता, क्योंकि क्षपितकर्मांशिकलक्षणसे आकर तथा क्रमसे दो छयासठ सागर और तीन पल्य अधिक दो छयासठ सागर कालको वितारकर गलाकर शेष बचे जघन्य सत्कर्मको अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रमित कराने पर स्वामित्वका विधात करने पर हानिका अच्छी तरह जघन्य स्वामित्व उपलब्ध होता है ?

समाधान—यहाँ पर परिहारका कथन करते हैं—यह सत्य है, ओघ जघन्य स्वामित्वकी विवक्षा होने पर इसी प्रकार होता है, क्योंकि यह स्वीकार है । किन्तु आदेश जघन्य स्वामित्वकी विवक्षामे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसलिए कुछ भी विरोध नहीं है, क्योंकि अर्पित और अनर्पितकी सिद्धिका सभी जगह निषेध नहीं है ।

१. आ०-दि०प्रत्यो माणयस्स जहणिया ता०प्रतौ माणयस्स [णवुंसयवेदस्स] जहणिया इति पाठ ।

तन्विवक्त्रा ण कया सुत्तयारेण, सेससव्वकम्मेषु तहा चैव जहण्णसामित्तपवुत्तिदंसणादो ।
एवमोघेण सव्वकम्माणं जहण्णसामित्तं परूविदं । एत्तो आदेसपरूवणा च जाणिय
कायव्वा ।

तदो सामित्तं समत्तं ।

❀ अप्पावहुत्तं ।

§ ६८६. अहियारपरामरसव्वकमेदं । तं पुण दुविहमप्पावहुत्तं जहण्णुकस्सभेएण ।
तत्थुकस्सप्पावहुत्तं ताव वत्तइस्सामो त्ति जाणावणडुमिदमाह —

❀ उक्कस्सयं ताव ।

§ ६६०. जहण्णुकस्सप्पावहुत्ताणमकमेण परूवणा ण संभवदि त्ति उक्कस्सप्पा-
वहुत्तपरूवणाविसयमेदं पइण्णावक्कं । तस्स दुविहो णिदेसो ओघादेसभेएण । तत्थोघेण
ताव सव्वकम्माणमप्पावहुत्तपरूवणडुमुत्तरसुत्तपवंधमाह—

❀ मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवमुक्कस्सयमवट्ठाणं ।

शंका—उसकी अविवक्षा यहाँ पर क्यों की गई है ?

समाधान—क्योंकि जघन्य वृद्धिके सम्भव स्थल पर ही जघन्य हानिके स्वामित्वके
कथन करनेके अभिप्रायसे ही सूत्रकारने उसकी विवक्षा नहीं की है तथा शेष सब कर्मोंमें उसी
प्रकारसे जघन्य स्वामित्वकी प्रवृत्ति देखी जाती है ।

इस प्रकार श्रोधसे सब कर्मोंके जघन्य स्वामित्वका कथन किया । आगे आदेशपरूपणा
जानकर लेनी चाहिए ।

इसके बाद स्वामित्व समाप्त हुआ ।

* अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ६८६. अधिकारका परामर्श करानेवाला वह वचन सुगम है । जघन्य और उत्कृष्ट के
भेदसे वह अल्पबहुत्व दो प्रकारका है । उनमेंसे सर्व प्रथम उत्कृष्ट अल्पबहुत्वको वतलावेंगे इस
प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह वचन कहा है—

* सर्व प्रथम उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ६६०. जघन्य और उत्कृष्ट अल्पबहुत्वोंकी प्ररूपणा एक साथ करना सम्भव नहीं है,
इसलिए उत्कृष्ट अल्पबहुत्वकी प्ररूपणाको विषय करनेवाला यह प्रतिज्ञावाक्य है । श्रोध और
आदेशके भेदसे उसका निर्देश दो प्रकारका है । उनमेंसे सर्व प्रथम श्रोध अल्पबहुत्वका कथन करनेके
लिए आगेका सूत्र प्रबन्ध कहते हैं—

* मिथ्यात्वका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोत्र है ।

§ ६६१. कुदो ? एयसमयपवद्धासंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । तं जहा—गुणित-
कम्मंसियलक्खणेणागदपुव्वुप्पण्णसम्मत्तमिच्छाइड्डिस्स सम्मत्तपडिवण्णस्स पढमावलिय-
विदियसमये वड्डमाणस्स असंक्रमपाओग्गभावेणुदयावलियं पविसमाणगोवुच्छदव्वं पढम-
समयविज्जादसंक्रमदव्वसहिदं थोवूणमेगसमयपवद्धमेत्तं होइ, तत्थेव संक्रमपाओग्गभावेण
ढुक्कमाणं सयलेयसमयपवद्धमेत्तं होइ । एवं होइ ति कादूण संक्रमपाओग्गभावेण गददव्व-
मेत्तं संक्रमपाओग्गं होदूणागच्छमाणसमयपवद्धम्मि घेत्तूण चिराणसंतकम्मस्सुवरि पक्खिविय
विज्जादभागहारेण भाजिदे भागलद्धं पढमसमयसंक्रामिददव्वमेत्तं चेव विदियसमय-
संक्रमदव्वं होइ । पुणो सेसमसंखेज्जदिभागं पि तेणेव भागहारेण संक्रामेदि ति विज्जाद-
भागहारेण भाजिदे भागलद्धमसंखेज्जदिभागस्स पि असंखेज्जभागमेत्तं होदूण विदियसमय-
वड्डिदव्वं होदि । एवं विदियसमए वड्डिऊण पुणो तदियसमयम्मि तत्तियमेत्ते चेव
सक्रामिदे वड्डिदव्वमेत्तं चेव उक्कसावड्डाणविसेसिददव्वं होइ । तदो सव्वत्थोवमेदं
ति सिद्धं ।

§ ६६२. अहवा जइ वि एगसमयपवद्धस्सासंखेज्जाणं भागाणमसंखेज्जदिभाग-
मेत्तमवड्डिददव्वं होइ तो वि सव्वत्थोवत्तमेदस्स ण विरुज्जदे । तं कथं ? पुव्वुप्पण्ण-

§ ६६१. क्योंकि वह एक समयप्रवद्धका असंख्यातवें भागप्रमाण है । यथा—जो गुणित
कर्मां शिकलक्षणसे आया है और जिसने पूर्वमें सम्यक्त्वको उत्पन्न किया है ऐसे मिथ्यादृष्टि जीवके
सम्यक्त्वको प्राप्त होने पर प्रथम आवलिके दूसरे समयमें विद्यमान रहते हुए असंक्रमके योग्य
उदयावलिके प्रवेश करनेवाला गोपुच्छाका द्रव्य प्रथम समयमें विध्यातसंक्रमके द्रव्यसे युक्त होकर
कुछ कम एक समयप्रवद्ध प्रमाण होता है । तथा वहीं पर संक्रमके योग्यरूपसे प्राप्त होनेवाला द्रव्य
सकल एक समयप्रवद्धप्रमाण होता है । इस प्रकार होता है ऐसा समझकर संक्रमके प्रायोग्यभावसे
गत द्रव्य प्रमाण संक्रमप्रायोग्य होकर आनेवाले समयप्रवद्धमेंसे ग्रहणकर प्राचीन सत्कर्मके ऊपर प्रक्षिप्त
कर विध्यातभागहारके द्वारा भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे उतना प्रथम समयमें संक्रमित
होनेवाला द्रव्य होता है और उतना ही दूसरे समयमें संक्रमित होनेवाला द्रव्य होता है । पुनः
पुनः शेष असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्य भी उसी भागहारके आश्रयसे संक्रमित होता है इसलिए
विध्यातभागहारके द्वारा भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे वह असंख्यातवें भागका भी
असंख्यातवां भाग होकर दूसरे समयमें वृद्धि रूप द्रव्यका प्रमाण होता है । इस प्रकार दूसरे
समयमें वृद्धि करके पुन तीसरे समयमें उतने ही द्रव्यके संक्रमित करने पर वृद्धि द्रव्यके चराचर
ही उत्कृष्ट अवस्थानसे युक्त द्रव्य होता है, इसलिए यह सबसे स्तोक है यह सिद्ध हुआ ।

§ ६६२. अथवा यद्यपि एक समय प्रवद्धके असंख्यात बहुभागोंके असंख्यातवें भागप्रमाण
अवस्थित द्रव्य होता है तो भी यह सबसे स्तोक है यह बात विरोधको नहीं प्राप्त होती ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि पूर्वमें उत्पन्न हुए सम्यग्दृष्टिजीवके दूसरे समयमें असंक्रमप्रायोग्य

सम्माइद्विविदियसमए असंकमपाओगं होदूण गच्छमाणगोवुच्छदव्वमोकड्डुणादिवसेण
 एयसमयपवद्वस्सासंखेज्जदिभागमेत्तं होइ । संकमपाओगं होदूणागच्छमाणदव्वं पुण
 सयत्तमेयसमयपवद्वमेत्तं होइ । एवं होइ ति कड्डु असंकमपाओगभावेण
 गददव्वमेत्तं संकमपाओगभावेण दुक्कमाणस्स समयपवद्वम्मि घेत्तूण चिराणसंतकम्मम्मि
 पक्खिविय भागे हिदे पुव्विज्जलसमयसंक्रामिददव्वमेत्तं चेव विदियसमयसंकमदव्वं होइ ।
 पुणो सेसअसंखेज्जभागा वि तेणोव भागहारेण संक्रामिज्जंति ति तेसु विज्जादभाग-
 हारेणोवद्विदेसु समयपवद्वधासंखेज्जाणं भागाणमसंखे०भागमेत्तविदियसमयवद्विददव्वं
 होइ । एवं वद्विदूण तदियसमयम्मि तत्तियमेत्तं चेव संक्रामेमाणयस्सावद्विदसंकमो होइ
 ति समयपवद्वस्सासंखेज्जाणं भागाणमसंखेज्जदिभागो ति वुत्तं ।

❀ हाणी असंखेज्जगुणा ।

§ ६६३. किं कारणं ? चरिमसमयसंकमादो विज्जादसंकमम्मि पदिदस्स पढमसमय-
 असंखेज्जसमयपवद्वे हाइदूण हाणी जादा । तेणोदं पदेसग्गमसंखेज्जगुणं भणिदं ।

❀ वट्ठी असंखेज्जगुणा ।

§ ६६४. कुदो ? सव्वसंकमम्मि उक्कस्सवद्विसामितावलंगणादो ।

❀ एवं चारसकसाय-भय-डुगुञ्जाणं ।

होकर जाता हुआ गोपुच्छाका द्रव्य अपकर्षण आदिके वशसे एक समयप्रवद्धके असंख्यातवें
 भागप्रमाण होता है । परन्तु संक्रम प्रायोग्य होकर आनेवाला द्रव्य पूरा एक समयप्रवद्धप्रमाण
 होता है । इस प्रकार होता है ऐसा समझ कर असक्रमप्रायोग्यभावसे जानेवाले द्रव्यप्रमाणको
 संक्रमप्रायोग्यभावसे प्राप्त होनेवाले द्रव्यके समयप्रवद्धमेंसे ग्रहण कर तथा प्राचीन सत्कर्ममें प्रक्षिप्त
 कर भाजित करने पर पहलेके समयमें संक्रम कराये गये द्रव्यके बराबर ही दूसरे समयका संक्रमद्रव्य
 होता है । पुन शेष असंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्य भी उसी भागहारके द्वारा संक्रमित कराया जाता
 है, अतः उनके विध्यात भागहारके द्वारा भाजित करने पर समयप्रवद्धके असंख्यात बहुभागके
 वृद्धिद्रव्य होता है । इस प्रकार बढ़ाकर तीसरे समयमें उतने ही द्रव्यका संक्रम करानेवालेके
 असंख्यातवें भागप्रमाण दूसरे समयका अवस्थितसंक्रम होता है, इसलिए समयप्रवद्धके असंख्यात
 बहुभागका असंख्यातवां भाग ऐसा कहा है ।

❀ उससे हानि असंख्यातगुणी होती है ।

§ ६६३. क्योंकि अन्तिम समयमें हुए संक्रमसे विध्यातसंक्रममें पतित हुए जीवके प्रथम
 समयमें असंख्यात समयप्रवद्ध कम होकर हानि हो गई, इसलिए यह प्रदेशाप्र असंख्यात गुणा
 कहा है ।

❀ उससे वृद्धि असंख्यातगुणी है ।

§ ६६४. क्योंकि सर्वसंक्रममें उत्कृष्ट वृद्धिके स्वामित्वका अवलम्बन लिया है ।

❀ इसी प्रकार चारह कपाय, भय और जुगुप्साका अल्पवहुत्व जानना चाहिए ।

§ ६६५. जहा मिच्छत्तस्स पयदप्पावहुअपरूवणा कया एवमेदेसि पि कम्माणं कायव्या, अपावहुगालां वगयविसेसाभावादो । संपहि दव्वड्डियणयमस्सिऊण पयद्वस्सेदस्स अप्पणासुत्तस्स पज्जवड्डियणयपरूवणा कीरदे । तं जहा—अणंताणु०४ सव्वत्थोवमुक्कस्स-सव्वट्ठाणं । किं कारणं ? एयसमयपवद्धासंखेज्जदिभागपमाणत्तादो । एत्थ अवड्डिदव्वपमाणे ठविज्जमाणे एयसमयपवद्धं ठविय तप्पाओग्गगलिदीवमासंखेज्जमाणेणोवड्डिदे सुद्धसेसदव्व-पमाणमागच्छदि, आगमस्स णिज्जरादो असंखेज्जदिभागवमहियत्तादो । पुणे तस्स अधा-पवत्तमागहारे भागहारत्तेण ठविदे तप्पाओग्गुक्कस्सएण अधापवत्तसंकमेण वड्डिदूणावड्डिदव्वं होदि त्ति वत्तव्वं । हाणी असंखेज्जगुणा । किं कारणं ? असंखेज्जसमयपवद्धपमाणत्तादो । तं जहा—तप्पाओग्गुक्कस्सअधापवत्तसंकमादो सम्मत्तं पडिवज्जिय विज्झादसंकमेण पदिदस्स पढमसमयम्मि उक्कस्सहाणिसामित्तं जादं । तत्थ सामित्तविसईकयदव्वपमाणे ठविज्जमाणे दिवड्डुगुणहाणिगुणिदमुक्कस्ससमयपवद्धं ठविय अधापवत्तभागहारेणोवड्डिय तत्तो सम्मवड्डि-पढमसमयविज्झादसंकमदव्वे अवणिदे उक्कस्सहाणिपमाणमागच्छइ । एदं च दव्व-मसंखेज्जसमयपवद्धपमाणं, अधापवत्तभागहारादो दिवड्डुगुणहाणिगुणगारस्सासंखेज्ज-गुणत्तदंसणादो । वड्डी असंखेज्जगुणा । किं कारणं ? सव्वसंकमम्मि तदुक्कस्ससामित्तपडि-लंभादो । एवमट्ठकसाय-भय-दुगुंछाणं पि वत्तव्वं, विसेसाभावादो । णवरि उव्वसामग-

§ ६६५. जिस प्रकार मिथ्यात्वके प्रकृत अल्पवहुत्वकी प्ररूपणा की उसी प्रकार इन कर्मोंकी भी करनी चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्वसे इन कर्मोंमें अल्पवहुत्व आलापगत कोई विशेषता नहीं है । अब द्रव्यार्थिकनयका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुए इस अर्पणासूत्रकी पर्यायार्थिकनय प्ररूपणा करते हैं । यथा—अनन्तानुबन्धीचतुष्कका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है, क्योंकि वह एक समय प्रबद्धका असंख्यातवै भागप्रमाण है । यहाँ पर अवस्थितद्रव्यके प्रमाणके स्थापित करने पर एक समयप्रबद्धको स्थापित कर तत्प्रायोग्य पल्यके असंख्यातव भागसे भाजित करने पर शुद्ध शेष द्रव्यका प्रमाण आता है, क्योंकि आय निर्जरासे असंख्यातवै भाग प्रमाण अधिक है । पुनः उसका अध प्रवृत्तभागहारको भागहाररूपसे स्थापित करने पर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अध प्रवृत्तभाग-हारके द्वारा बढ़ाने पर अवस्थित द्रव्य होता है ऐसा कहना चाहिए । उससे हानि असंख्यातगुणी होती है । क्योंकि उसका प्रमाण असंख्यात समयप्रबद्ध है । यथा—तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अध प्रवृत्त सक्रमके वाद सम्यक्त्वको प्राप्त होकर विध्यात संक्रमके प्राप्त होने पर प्रथम समयमें उत्कृष्ट हानिका स्वामित्व प्राप्त होता है । वहाँ स्वामित्वरूपसे विषय किये गये द्रव्यप्रमाणके स्थापित करने पर डेढ गुणहानिगुणित उत्कृष्ट समयप्रबद्धको स्थापित कर उसे अध प्रवृत्तभागहारके द्वारा भाजित कर उससे सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें विध्यात संक्रमके द्रव्यके कम कर देने पर उत्कृष्ट हानिका प्रमाण आता है । यह द्रव्य असंख्यात समयप्रबद्ध प्रमाण है, क्योंकि अध प्रवृत्त भागहारसे डेढ गुणहानिका गुणकार असंख्यातगुणा देखा जाता है । उससे वृद्धि असंख्यातगुणी है, क्योंकि सर्वसंकममें उसका उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है । इसी प्रकार आठ कपायों, भय और जुगुप्माका

चरिमसमयगुणसंक्रमादो कालं कादूण देवेसुप्पण्णपढमसमये उक्कस्सहाणिसंक्रमो होइ ति तदणुसारेण गुणगारपरूवणा कायव्वा ।

❀ सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्ढो ।

§ ६६६. किं कारणं ? उव्वेत्तणकालभंतरे गलिदसेसदव्वस्स चरिसुव्वेत्तण-कंडदुयचरिमफालीए लद्धुक्कस्सभावत्तादो । जइ वि सव्वत्थोवमेदं तो वि असखेज्जसमय-पवद्धपमाणमिदि घेतव्वं, गुणसंक्रमभागहारगुणिसुव्वेत्तणकालभंतरणाणागुणहाणिसलाग-ण्णोण्णभत्थरासीदो समयपवद्धगुणगारभूददिवड्ढगुणहाणीए तंतजुत्तिवत्तेणासंखेज्ज-गुणत्तदंसणादो ।

❀ हाणी असंखेज्जगुणा ।

§ ६६७. कुदो ? मिच्छत्तं गयस्स विदियसमयम्मि अधापवत्तसंक्रमेण पडिलद्धु-क्कस्सभावत्तादो । अधापवत्तभागहारादो उव्वेत्तणकालभंतरणाणागुणहाणिसलागअण्णो-ण्णभत्थरासीए असंखेज्जगुणत्तदंसणादो गोदमेत्थासंकणिज्जं, पढमसमयअधापवत्तसंक्रमादो विदियसमयअधापवत्तदव्वे सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमुक्कस्सहाणिसामित्तविसईकयदव्वं होइ । तं च सुद्धसेसदव्वमेत्तियमिदि परिप्फुडं ण णव्वदे । तदो असंखेज्जसमयपवद्धावच्छिण्ण-पमाणादो पुव्विन्लादो एदस्सासंखेज्जगुणत्तं संदिद्धमिदि । किं कारणं ? सुद्धसेसदव्वम्मि

भी कहना चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कथनसे इसमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उपशामक जीवके अन्तिम समयमें गुणसंक्रमके साथ मरकर देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें होता है, इसलिए उसके अनुसार गुणकारका कथन करना चाहिए ।

* सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक होती है ।

§ ६६६. क्योंकि उद्वेलनाकालके भीतर गलकर शेष बचे हुए द्रव्यका अन्तिम उद्वेलना काण्डकी अन्तिम फालिमें प्राप्त हुआ उत्कृष्टपना प्राप्त होता है । यद्यपि यह सबसे स्तोक है तो भी यह असंख्यात समयप्रवद्धप्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुणसंक्रमभागहार द्वारा गुणित उद्वेलना कालके भीतर नाना गुणहानि शलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे समय-प्रवद्धकी गुणकारभूत देह गुणहानि आगम और युक्तिके बलसे असंख्यातगुणी देखी जाती है ।

* उससे हानि असंख्यातगुणी है ।

§ ६६७. क्योंकि मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके दूसरे समयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा उत्कृष्टपना प्राप्त होता है । यदि कहे कि अधःप्रवृत्तसंक्रम भागहारसे उद्वेलनाकालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यातगुणी देखी जाती है सो यहाँ पर ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम समयके अधःप्रवृत्तसंक्रमसे दूसरे समयके अधःप्रवृत्त-संक्रमके द्रव्यके घटाने पर जो शुद्ध शेष रहे उतना उत्कृष्ट हानिके स्वामित्य द्वारा विषय किया गया द्रव्य है और वह शुद्ध शेष बचा हुआ द्रव्य इतना है यह स्पष्टरूपसे नहीं जाना जाता है । अतएव अनन्यथात समयप्रवद्धरूपसे अवच्छिन्न प्रमाणवाले पहलेके द्रव्यसे यह असंख्यातगुण

वि ततो असंखेज्जगुणाणमसंखेज्जसमयपवद्धाणं परिप्फुडमेपोपलंभादो । तं जहा—

§ ६६८. दिवड्ढगुणहाणिगुणिदसमयपवद्धमेगं ठविय गुणसंकमभागहारेण अधापवत्त-
भागहारेण च तम्मि ओगड्ढिदे पढमसमयअधापवत्तसंकमो होइ । पुणो विदियसमय-
अधापवत्तसंकमदव्यमिच्छिय तस्सेव असंखेज्जे भागे ठविय अधापवत्तभागहारेणोवड्ढिदे
विदियसमयअधापवत्तसंकमदव्यमागच्छदि । एवं हिदि ति पुव्विल्लदव्यादो एदम्मि दव्ये
सोहिदे सुद्धसेसमधापवत्तभागहारवग्गेण गुणसंकमभागहारेण च खंडिदिवड्ढगुणहाणि-
मेत्तसमयपवद्धपमाणं होइ । जेणोसो अधापवत्तभागहारवग्गो उव्वेल्लणणाणागुणहाणि-
अण्णोण्णभत्थरासीदो असंखेज्जगुणहीणो तेणुकस्सवड्ढोदो उक्कस्सिया हाणी असंखेज्ज-
गुणा ति ण विरुज्झदे । कथमधापवत्तभागहारवग्गादो उव्वेल्लणणाणागुणहाणिअण्णोण्ण-
भत्थरासीए असंखेज्जगुणत्ताग्गमो ति णासंकणीयं, एदम्हादो चेव सुत्तादो तदवग्गमोव-
वत्तीदो ।

❀ सम्मामिच्छत्तरुस सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी ।

§ ६६९. कुदो ? अधापवत्तसंकमादो विज्झादसंकमे पदिदपढमसमयसम्माइड्ढिम्मि
किंचूणअधापवत्तसंकमदव्यमेत्तुकस्सहाणिभावेण परिग्गहादो ।

है यह बात संदिग्ध है, क्योंकि शुद्ध शेष द्रव्यमे भी उससे असंख्यातगुणे असंख्यात समयप्रवद्धों की स्पष्टरूपसे उपलब्धि होती है । यथा—

§ ६६८. डेढ गुणहानिसे गुणित एक समयप्रवद्धको स्थापित कर गुणसंकमभागहार और अधःप्रवृत्तभागहारके द्वारा उसे भाजित करने पर प्रथम समयका अधःप्रवृत्तसंकम द्रव्य होता है । पुनः द्वितीय समयके अधःप्रवृत्तसंकम द्रव्यको लानेकी इच्छासे उसके असंख्यात बहुभागको स्थापित कर अधःप्रवृत्तभागहारसे भाजित करने पर द्वितीय समयसम्बन्धी अधःप्रवृत्तसंकम द्रव्य आता है । इस प्रकार है, इसलिए पहलेके द्रव्यमेसे इस द्रव्यके घटा देने पर जो शुद्ध रहे उसका प्रमाण अधःप्रवृत्तभागहारके वर्ग और गुणसंकम भागहारसे डेढ गुणहानिप्रमाण समयप्रवद्धोंके भाजित करने पर जो लब्ध आवे उतना होता है । यतः यह भागहारका वर्ग पहले की नाना गुणहानियोंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिसे असंख्यातगुणा हीन है, इसलिए उत्कृष्ट वृद्धिसे उत्कृष्ट हानि असंख्यातगुणी है यह बात विरोधको प्राप्त नहीं होती ।

शंका—अधःप्रवृत्तभागहारके वर्गसे उद्वेलना सम्बन्धी नाना गुणहानियोंकी अन्योन्याभ्यस्तराशि असंख्यातगुणी है यह कैसे जाना जाता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसी सूत्रसे उसका ज्ञान होता है ।

* सम्यग्मिध्यात्वकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है ।

§ ६६९. क्योंकि अधःप्रवृत्तसंकमसे विषयातसंकमको प्राप्त हुए प्रथम समयवर्ती सम्यग्दृष्टि जीवके कुछ कम अधःप्रवृत्तसंकम द्रव्यको उत्कृष्ट हानिरूपसे ग्रहण किया है ।

❀ उक्कस्सिया वड्डी असंखेज्जगुणा ।

§ ७००. कुदो ? दंसणमोहकखण्णाए सव्वसंक्रमेण तदुक्कस्ससामित्तपडिलंभादो ।

❀ एवमित्थि-णवुंसयवेद-हस्स^१ -रइ-अरइ-सोगाणं ।

§ ७०१. जहा सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सहाणि-वड्डीणमग्गावहुअं कयं एवमेदंतिं पि कम्माणं कायव्वं विसेसाभावादो । तं जहा—सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । किं कारणं, उवसामागचरिमसमयगुणसंक्रमादो पढमसमयदेवस्स अधापवत्तसंक्रमदव्वे सोहिदे सुद्धसेसवमाणत्तादो । णपरि इत्थि-णवुंसयवेदाणं विज्झादसंक्रमदव्वं सोहेयव्वं । वड्डी असंखे-ज्जगुणा । कुदो ? खवगचरिमफालीए सव्वसंक्रमेण तदुक्कस्ससामित्तपडिलंभादो ।

❀ कोहसंजलणस्स सव्वोत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी ।

§ ७०२. तं जहा-चिराणसंनक्रम्मदुचरिमसमयअधापवत्तसंक्रमदव्वे सव्वसंक्रमदव्वादो सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमुक्कस्सवड्ढिविसईकयदव्वं होइ । एदं सव्वत्थोवमिदि भणिदं ।

❀ हाणी अवट्ठाणं च विसेसाहियं ।

* उससे उत्कृष्ट वृद्धि असंख्यातगुणी है ।

§ ७००. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षणामे सर्वसंक्रमके द्वारा उसका उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है ।

* इसी प्रकार स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकका अल्पबहुत्व जानना चाहिए ।

§ ७०१. जिस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्व की उत्कृष्ट हानि और वृद्धि का अल्पबहुत्व किया है उसी प्रकार इन कर्मोंका भी करना चाहिए क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । यथा—उत्कृष्ट ज्ञानि सबसे स्तोक है, क्योंकि उपशामकके अन्तिम समय सम्वन्धी गुणसंक्रमद्रव्यमेंसे प्रथम सम .वर्ती देवके अध प्रवृत्तसंक्रम द्रव्यके घटा देने पर जो शुद्ध शेष रहे उतना उसका प्रमाण है । किन्तु इतनी विशेषता है कि स्त्री और नपुंसकवेदकी अपेक्षा विध्यात संक्रमके द्रव्यको घटाना चाहिए । उससे वृद्ध असंख्यात गुणी होती है, क्योंकि क्षणकी अन्तिम फालिमें सर्व संक्रमके द्वारा उसका उत्कृष्ट स्वामित्व उपलब्ध होता है ।

* क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक होती है ।

§ ७०२. यथा—प्राचीन सत्कर्ममेंसे द्विचरम समय सम्वन्धी अधःप्रवृत्तसंक्रम द्रव्यको सर्वसंक्रामकद्रव्यमें से घटा देने पर जो शुद्ध शेष बचे उतना उत्कृष्ट वृद्धिके द्वारा विषय किया हुआ द्रव्य होता है । यह सबसे स्तोक है यह कहा है ।

* उससे हानि और अवस्थान विशेष अधिक है ।

१. दि०प्रती—वेदस्स हस्स-रति पाठ ।

§ ७०३. एत्थ कारणं वुच्चदे—सर्वसंकमादो तदणंतरसमयतप्पाओग्गजहण-
णवकबंधसंकमदव्वे सोहिदे सुद्धसेसमुक्कस्सहाणियमाणं होइ । एदं चेवुक्कस्सावट्ठाणपमाणं पि,
से काले तत्तियं चैव संकामेमाणयम्मि तदविरोहादो । एदं च पुव्विन्नलदव्वादो विसेसा-
हियं, तत्थ सोहिज्जमाणदुचरिमसमयअधापवत्तसंकमदव्वादो^१ एत्थ सोहिज्जणवकबंधसंकमस्स
संखेज्जगुणहीणत्तदंसणादो ।

❀ एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।

§ ७०४. सुगममेदमप्पणासुत्तं ।

❀ लोहसंजलणस्स सव्वत्थोवमुक्कस्समवट्ठाणं ।

§ ७०५. किं पमाणमेदमवट्ठिददव्वं ? असंखेज्जसमयपवद्धपमाणमेदं । किं कारणं ?
तप्पाओग्गुक्कस्सअधापवत्तसंकमेण वट्ठिदूणावट्ठिदम्मि वट्ठिणमित्तमूलदव्वेण सहावट्ठाण-
व्भुवगमादो । तदो दिव्वदुगुणहाणिमेत्तसमयपवद्धाणमधापवत्तभागहारपडिभागेणासंखे-
ज्जदिभागमेत्तं होदूण सब्ब त्थोवमेदं ति धेत्तव्वं ।

❀ हाणी विसेसाहिया ।

§ ७०३. यहाँ पर कारणका कथन करते हैं—सर्वसंकममे से तदनन्तर समयमे हुए तत्प्रायोग्य
जघन्य नवकबन्ध सम्बन्धी संक्रमद्रव्यके घटाने पर जो शुद्ध शेष वचे उतर्ना उत्कृष्ट हानिका
प्रमाण होता है और यही उत्कृष्ट अवस्थानका प्रमाण भी होता है, क्योंकि तदनन्तर समयमे उतने
ही द्रव्यका संक्रम कराने पर अवस्थान द्रव्यके उतने ही प्राप्त होने मे कोई विरोध नहीं आता ।
और यह पहलेके द्रव्यसे विशेष अधिक है, क्योंकि वहाँ पर घटाये गये द्विचरम समयसम्बन्धी
अधःप्रवृत्तसंकमद्रव्यसे यहाँ पर घटाये जानेवाले नवकबन्धका संक्रम संख्यातगुणा हीन देखा
जाता है ।

* इसी प्रकार मानसंजलन, मायासंजलन और पुरुषवेदका अल्पवृत्त्व जानना
चाहिए ।

§ ७०४. यह अर्पणासूत्र सुगम है ।

* लोभसंजलनका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है ।

§ ७०५. शंका— इस अवस्थित द्रव्यका क्या प्रमाण है ?

समाधान—इसका प्रमाण असंख्यात समयप्रवद्ध है, क्योंकि तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवृत्त-
संकमके द्वारा वृद्धिकर अवस्थित होनेपर वृद्धिके निमित्तभूत मूलद्रव्यके साथ अवस्थान स्वीकार
किया है । इसलिए डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रवद्धोका अधःप्रवृत्त भागहार द्वारा प्रतिभागरूपसे
असंख्यातवर्षा भाग होकर यह सबसे स्तोक है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ।

* उससे हानि विशेष अधिक है ।

§ ७०६. किं कारणं ? उवसमसेठीए सव्वुकस्सगुणसंकमदव्वं पडिच्छिय कालं कादूण देवेसुववण्णस्स समयाहियावलियाए अणूणाहियतकालभावे अधापवत्तसंक्रमेण हाणिववहारव्वुवगमादो । हीयमाणसंकमदव्वे पमाणत्तेण घेप्पमाणे को एत्थ दोसो चे ? ण, तहावलांविज्जमाणे पुव्विल्लावट्ठाणदव्वादो एदस्स विसेसाहियत्तं मोत्तूणासंखेज्जगुण-हीणत्तप्पसंगादो । रोदमसिद्धं, हीयमाणदव्वागमणट्ठं दिवड्ढगुणहाणीए अधापवत्तभागहार-वगस्स पडिभागदंसणादो । तं जहा—उवसामगचरिमसमयसव्वुकस्सगुणसंकमदव्वेण सह-दिवड्ढगुणहाणिमेत्तसमयपवद्धे ठव्विय तेसिमधापवत्तभागहारेणोवट्ठणाए कदाए आवल्लियो-ववण्णदेवस्स तप्पाओग्गुकस्सअधापवत्तसंकमदव्वमागच्छदि । पुणो तमेगभागं मोत्तूण सेसवहुभागे घेत्तण अप्पणेण अधापवत्तभागहारेण भागे हिदे भागलद्धमेत्तं समयाहियाव-लियदेवस्स हाणिसामित्तविसयमधापवत्तसंकमदव्वं होइ । पुणो पुव्विल्लदव्वादो कयसरि-सच्छेदादो एदम्मि दव्वे सोहिदे सुद्धसेसदव्वमागच्छदि । तं पुण पुव्वसमयसंकमदव्वं अधापवत्तभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडमेत्तं होइ । तदो सुद्धसेसदव्वागमणट्ठं अधापवत्त-भागहारवग्गो दिवड्ढगुणहाणीए पडिभागो ति सिद्धं । तस्सा सेसदव्वावलंवाणे विसेसाहि-यत्तमेदस्स ण संभवदि त्ति अणूणाहियसामित्तसमयसंकमदव्वमेव घेत्तण विसेसाहियत्त-मेवमणुगंतव्वं । तं कथं ? अवट्ठाणसंकमो णाम सत्थाणगुणिदकम्मंसियस्स तप्पाओग्गुकस्स-

§ ७०६. क्योंकि उपशम श्रेणिमे सर्वोत्कृष्ट गुणसंकमद्रव्यको संक्रमित कर तथा मरकर देवोंमें उत्पन्न हुए जीवके एक समय अधिक एक आवलिकाल होने पर न्यूनाधिकतासे रहित अधः-प्रवृत्तसंकमके द्वारा हानिव्यवहार स्वीकार किया है ।

शंका—हीयमान द्रव्यको प्रमाणरूपसे ग्रहण करने पर यहाँ पर क्या दोष है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि प्रमाणके विषयरूपसे अवलम्बन करने पर पहलेके अवस्थान-द्रव्यसे यह विशेषाधिक न होकर संख्यातगुणा हीन प्राप्त होता है । और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि हीयमान द्रव्य लानेके लिए डेढ़ गुणहानि अध प्रवृत्त भागहारके वर्गका प्रतिभाग देखा जाता है । यथा—उपशमकके अन्तिम समयमे सर्वोत्कृष्ट गुणसंकम द्रव्यके साथ डेढ़गुणहानिप्रमाण समयप्रवृत्तको स्थापितकर उनके अध प्रवृत्तसंकम भागहारसे भाजित करने पर देवोंमे उत्पन्न होनेके एक आवलिके अन्तमे तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट अध प्रवृत्तसंकम द्रव्य आता है । पुनः उसमेसे एक भागको छोड़कर शेष बहुभागको ग्रहणकर अन्य अध प्रवृत्तभागहारके द्वारा भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आवे उतना देवके एक समय अधिक एक आवलिके अन्तमे हानिसम्बन्धी स्वामित्वविषयक अधःप्रवृत्तसंकम द्रव्य होता है । पुनः पहलेके द्रव्यमे से समान, छोड़करके इस द्रव्यके घटाने पर शुद्ध शेष द्रव्य आता है । परन्तु वह पूर्व समयके संक्रमद्रव्यको अध प्रवृत्तभाग-हारके द्वारा भाजित करने पर वहाँ एक खण्डप्रमाण होता है, इसलिए, शुद्ध शेष द्रव्यको लानेके लिए अध प्रवृत्तभागहारका वर्ग डेढ़गुणहानिका प्रतिभाग होना है यह सिद्ध हुआ । इसलिए शेष द्रव्यका अवलम्बन करने पर उमका विशेष अधिकपना सम्भव नहीं है, अतः न्यूनाधिकतासे रहित स्वामित्व समयभागी संक्रमद्रव्यको ही ग्रहण कर विशेषाधिकपना ही जानना चाहिए ।

संतकम्मविसयत्तेण पडिलद्धुक्कस्सभावो । हाणिसंकमो पुण गुणिकम्मंसियसत्थाणुक्कस्स-
संतकम्मादो गुणसंकमलाहवसेण विसेसाहियउवसमसेटिणिवंधणुक्कस्ससंतकम्मपडिवद्धो ।
तेण विसेसाहियत्तमेदस्स ततो ण विरुज्झदे, विसेसाहियसंतकम्मविसयसंकमस्स वि-
तहाभावसिद्धीए विरोहाभावादो । तम्हा णिज्जरापरिसुद्धगुणसंकमलाहस्सासंखेज्जभागमेत्त-
विसेसाहियपमाणामिदि घेत्तव्वं । संपहि एदमेव णयमस्सिरुण वड्डीए विसेसाहियत्तपदुप्पा-
यणट्टमुत्तरसुत्तमाह ।

❁ वड्डी विसेसाहिया ।

§ ७०७. केत्तियमेत्तो एत्थ विसेसो ? खवगुणसंकमलाहस्सासंखेज्जभागमेत्तो ।
किं कारणं ? उभयत्थ अणणाहियअधापवत्तसंकमेण सामित्तपडिलंभे : समाणे संते
उवसमसेटिगुणसंकमलाहादो असंखेज्जगणखवगसंकमलाहमेत्तेणुक्कस्सवड्ढिविसयसंतकम्मस्स
विसेसाहियत्तदंसणादो । ण च विसेसाहियसंतकम्मादो समुप्पणसंकमस्स विसेसाहियत्त-
मसिद्धं, कारणणुसारिकज्जपवुत्तीए सव्वत्थपडिवंधाभावादो । कारणे कज्जुवयारेणावड्ढा-
णादिसंकमणिवंधणसंतकम्माणमेवेदमप्पावहुअमिदि वा पयदत्थसमत्थणा कायव्वा, विरोहा-
भावादो । सव्वत्थ सुद्धसेसदव्वालंबणेणाप्पावहुअपरुवणं कादूण एत्थ पयारंतरावलंबणे

शंका—वह कैसे ?

समाधान—स्वस्थान गुणितकर्मांशिक जीवके तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट सत्कर्म विषयरूपसे जो
उत्कृष्टता प्राप्त होती है वह अस्वस्थान संक्रम है । परन्तु गुणितकर्मांशिकके स्वस्थान उत्कृष्ट
सत्कर्मकी अपेक्षा गुणसंकमरूप लाभके कारण उपशमश्रेणिनिमित्तक विशेष अधिक उत्कृष्ट सत्कर्मसे
सम्बन्ध रखनेवाला हानिसंकम है, इसलिए उससे इसका विशेष अधिकपना विरोधको नहीं प्राप्त
होता, क्योंकि विशेष अधिकसत्कर्मविषयक संक्रमके भी उस प्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई विरोध नहीं
आता । इसलिए निर्जरा परिशुद्ध गुणसंकम सम्बन्धी लाभके असंख्यातवें भागमात्र विरोधाधिकका
प्रमाण है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए । अब इसी नय ल आश्रय लेकर वृद्धिके विशेष अधिक-
पनेका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* उससे वृद्धि विशेष अधिक होती है ।

§ ७०७. शंका—यहाँ पर विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—क्षपकके गुणसंकम सम्बन्धी लाभके असंख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि
उभयत्र न्यूनाधिकतासे रहित अधःप्रवृत्तसंकमके द्वारा स्वामित्वकी प्राप्ति समान होने पर उपशम
श्रेणिमें प्राप्त हुए गुणसंकमविषयक लाभसे क्षपकसम्बन्धी असंख्यातगुणे संक्रमविषयक जो लाभ है
उतनी वृद्धिविषयक सत्कर्ममें विरोधाधिकता देखी जाती है । और विशेष अधिक सत्कर्ममें उत्पन्न
हुए संक्रमकी विशेष अधिकता असिद्ध है यह बात भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र कारणके अनुसार
कार्यकी प्रवृत्ति होनेमें कोई रुकावट नहीं है । अथवा कारणमें कार्यका उपचार कर अस्वस्थानादि
संकमकारणक सत्कर्माका ही यह अल्पवहुत्व है ऐसा प्रकृत अर्थका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि
ऐसा अर्थ करनेमें विरोधका अभाव है । सर्वत्र शुद्ध शेष द्रव्यका अवलम्बन कर अल्पवहुत्वका

संतकम्मविसयत्तेण पडिलद्धुकस्सभावो । हाणिसंकमो पुण गुणिदकम्मंसियसत्थाणुकस्स-
संतकम्मादो गुणसंकमलाहवसेण विसेसाहियउवसमसेटिणिवंधणुकस्ससंतकम्मपडिवद्धो ।
तेण विसेसाहियत्तमेदस्स ततो ण विरुज्जदे, विसेसाहियसंतकम्मविसयसंकमस्स वि
तहाभावसिद्धीए विरोहाभावादो । तम्हा णिज्जरापरिसुद्धगुणसंकमलाहस्सासंखेज्जभागमेत्त-
विसेसाहियपमाणमिदि घेत्तव्वं । संपहि एदमेव णयमस्सिऊण वद्धीए विसेसाहियत्तपदुप्पा-
यणद्धुत्तरसुत्तमाह ।

❀ वड्डी विसेसाहिया ।

§ ७०७. केत्तियमेत्तो एत्थ विसेसो ? खवगगुणसंकमलाहस्सासंखेज्जभागमेत्तो ।
किं कारणं ? उभयत्थ अणणाहियअधापवत्तसंकमेण सामित्तपडिलंभे समाणे संते
उवसमसेटिगुणसंकमलाहादो असंखेज्जगुणखवगसंकमलाहमेत्तेणुकस्सवद्धिविसयसंतकम्मस्स
विसेसाहियत्तदंसणादो । ण च विसेसाहियसंतकम्मादो समुप्पण्णसंकमस्स विसेसाहियत्त-
मसिद्धं, कारणणुसारिकज्जपवुत्तीए सवत्थपडिवंधाभावादो । कारणे कज्जुवयारेणावद्धा-
णादिसंकमणिवंधणसंतकम्माणमेवेदमप्पाबहुअमिदि वा पयदत्थसमत्थणा कायव्वा, विरोहा-
भावादो । सवत्थ सुद्धसेसदव्वालंघणेणाप्पाबहुअपरूवणं कादूण एत्थ पयारंतरावलंघणे

शंका—वह कैसे ?

समाधान—स्वस्थान गुणितकर्मांशिक जीवके तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट सत्कर्म विषयरूपसे जो
उत्कृष्टता प्राप्त होती है वह अवस्थान संक्रम है । परन्तु गुणितकर्मांशिकके स्वस्थान उत्कृष्ट
सत्कर्मकी अपेक्षा गुणसंकमरूप लाभके कारण उपशमश्रेणिनिमित्तक विशेष अधिक उत्कृष्ट सत्कर्मसे
सम्बन्ध रखनेवाला हानिसंकम है, इसलिए उससे इसको विशेष अधिकपना विरोधको नहीं प्राप्त
होता, क्योंकि विशेष अधिकसत्कर्मविषयक संक्रमके भी उस प्रकारसे सिद्ध होनेमें कोई विरोध नहीं
आता । इसलिए निर्जरा परिशुद्ध गुणसंकम सम्बन्धी लाभके असख्यातवें भागमात्र विरोधाधिकका
प्रमाण है ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए । अब इसी नयन आश्रय लेकर वृद्धिके विशेष अविक-
पनेका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* उससे वृद्धि विशेष अधिक होती है ।

§ ७०७. शंका—यहाँ पर विशेषका प्रमाण कितना है ?

समाधान—क्षपके गुणसंकम सम्बन्धी लाभके असख्यातवें भाग प्रमाण है, क्योंकि
उभयत्र न्यूनाधिकतासे रहित अथःप्रवृत्तसंकमके द्वारा स्वामित्वकी प्राप्ति समान होने पर उपशम
श्रेणिमें प्राप्त हुए गुणसंकमविषयक लाभसे क्षपकसम्बन्धी असख्यातगुणे संक्रमविषयक जो लाभ है
उतनी वृद्धिविषयक सत्कर्ममें विशेषाधिकता देखी जाती है । और विशेष अधिक सत्कर्ममें उत्पन्न
हुए संक्रमकी विशेष अधिकता असिद्ध है यह बात भी नहीं है, क्योंकि सर्वत्र कारणके अनुसार
कार्यकी प्रवृत्ति होनेमें कोई रुकावट नहीं है । अथवा कारणमें कार्यका उपचार कर अवस्थानादि
संकमकारणक सत्कर्माका ही यह अल्पबहुत्व है ऐसा प्रकृत अर्थका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि
ऐसा अर्थ करनेमें विरोधका अभाव है । सर्वत्र शुद्ध शेष द्रव्यका अचलत्वन कर अल्पबहुत्वका

पुष्पावरविरोहो होइ ति ण पच्चवट्टेयं, जत्थ जहावलंविज्जमाणे सुत्तविरोहो ण होइ, तत्थ तहा वक्खाणावलंबणादो । अधवा सुद्धसेसदव्वावलंबणे वि जहा विसेसाहियत्तं ण विरुज्झदे तहा वक्खाणेयव्वं, सुहुमदिट्ठीए णिहालिज्जमाणे तत्थ विसेसाहियत्तं मोत्तण पयारंतराणुवलंबादो । एसो एत्थ? परमत्थो । एवमोघेणुकस्सप्पावहुअं परुविदं । एदीए दिसाए आदेसपरुवणा वि कायव्वा ।

तदो उक्कस्सप्पावहुअं समत्तं ।

❀ एत्तो जहणण्यं ।

§ ७०८. एत्तो उवरि जहणण्यमप्पावहुअं वत्तइस्सामो ति पइण्णावक्कमेदं । तस्स दुविहो णिदेसो ओघादेसभेएण । तत्थोघपरुवणा ताव कीरदे, तत्तो चेव देसामासयभावेणादेसपरुवणावगयोववत्तीदो ।

❀ मिच्छत्त^२-सोलसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं जहणिया वड्ढी हाणी अवट्ठाणं च तुल्लाणि ।

§ ७०९. कुदो ? एदेसि कम्माणभेगसंतकम्मपक्खेवावलंबणेण जहण्णवट्ठि-हाणि-अवट्ठाणाणं सामित्तपडिलंबादो ।

कथन किया जाता है । किन्तु यहाँ पर प्रकारान्तरका अवलम्बन करने पर पूर्वापरका विरोध होता है सो ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर जिस प्रकारसे अवलम्बन करने पर सूत्र विरोध नहीं होता है वहाँ पर उस प्रकारके व्याख्यानका अवलम्बन लिया है । अथवा शुद्ध शेष द्रव्यका अवलम्बन करने पर भी जिस प्रकार विशेषाधिकपना विरोधको नहीं प्राप्त होवे उस प्रकार व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि सूत्रम दृष्टिसे देखने पर वहाँ पर विशेषाधिकपनेको छोड़कर दूसरा प्रकार उपलब्ध नहीं होता । यह यहाँ पर परमार्थ है । इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका कथन किया । इसी पद्धतिसे आदेशप्ररूपणा भी करनी चाहिए ।

इसके बाद उत्कृष्ट अल्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

* आगे जघन्य अल्पबहुत्वका प्रकरण है ।

§ ७०८. इसके आगे जघन्य अल्पबहुत्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है । ओघ और आदेशके भेदसे उसका निर्देश दो प्रकारका है । उसमें सर्व प्रथम ओघप्ररूपणा करते हैं, क्योंकि उसीके द्वारा देशामर्पकभावसे आदेशप्ररूपणाका ज्ञान हो जाता है ।

* मिथ्यात्व, सोलह क्पाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जघन्य वृद्धि, हानि और अपस्थान तुल्य है ।

§ ७०९. क्योंकि इन क्रमोंके एक-सत्कर्म प्रक्षेपका अवलम्बन करनेसे जघन्य वृद्धि, हानि और अपस्थानका स्वामित्व प्राप्त होता है ।

१ आ. प्रती एतन्थ ता. प्रती एत्तो [ए] थ इति पाठः । २. ता० प्रती मिच्छत्त [स्स] नोत्त-दि० प्रती मिच्छत्त सोलस-इति पाठः ।

❀ सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा जहणिया हाणी ।

§ ७१०. किं कारणं ? खविदकम्मंसियदुचरिमुव्वेज्जणखंडयं चरिमफालीए पडिलद्ध-जहणभावत्तादो ।

❀ वड्ढी असंखेज्जगुणा ।

§ ७११. कुदो ? सम्मत्तस्स चरिमुव्वेज्जणखंडयपढमफालीए गुणसंकमेण जहण-भावपडिलभादो । सम्मामिच्छत्तस्स वि दुचरिमुव्वेज्जणखंडयचरिमफालिं संकामिय सम्मत्तं पडिवण्णस्स पढमसमये विज्झादसंकमेण जहणसामित्तदंसणादो ।

❀ इत्थि-एवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं सव्वत्थोवा जहणिया हाणी ।

§ ७१२. किं कारणं ? खविदकम्मंसियलुक्खणेणागंतूण एइंदिएसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तकालं गालिय पुणो सण्णिपंचिदिएसुपज्जिय पडिवक्खबंधगद्धं बोला-विय सगबंधपारंभादो । आवलियचरिमसमये वड्ढमाणस्स गलिदसेसजहणसंतकम्मविसय, अधापवत्तसंकमेण पडिलद्धजहणभावत्तादो ।

❀ वड्ढी विसेसाहिया ।

* सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है ।

§ ७१० क्योंकि क्षपितकर्मांशिक जीवके द्विचरम उद्वेलना काण्डककी अन्तिम फालिसे सम्बन्ध रखनेवाला इसका जघन्यपना है ।

* उससे वृद्धि असंख्यातगुणी है ।

§ ७११. क्योंकि सम्यक्त्वके अन्तिम उद्वेलना काण्डककी प्रथम फालिका गुणसंकमके आश्रयसे जघन्यपना उपलब्ध होता है । तथा सम्यग्मिध्यात्वके भी द्विचरम उद्वेलना काण्डककी अन्तिम फालिको संक्रमा कर सम्यक्त्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमे विध्यात सक्रमके द्वारा जघन्यपना देखा जाता है ।

* स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोककी जघन्य हानि सबसे स्तोक है ।

§ ७१२. क्योंकि क्षपितकर्मांशिकलक्षणसे आकर एकेन्द्रियोंमे पत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण कालको गलाकर पुनः संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमे उत्पन्न होकर प्रतिपत्त बन्धककालको वितारकर अपने बन्धके प्रारम्भ होनेके बाद एक आवलिके अन्तिम समयमे विद्यमान हुए जीवके गलकर शेष बचे जघन्य सत्कर्मविषयक अधःप्रवृत्तसंकमके आश्रयसे जघन्यपनेका सम्बन्ध पाया जाता है ।

* उससे वृद्धि विशेष अधिक है ।

§ ७१३. कि कारण ? पुव्युत्तेणैव कमेणांगंतूण सण्णिपंचिदिएसु अप्पणो पडिवक्खबंधगद्धं गाल्लिय सगबंधपारंभादो समयाहियावल्लियाए वड्डमाणस्स पुव्विल्लसंतादो विसेसाहियसंतकम्मविसयत्तेण पडिवण्णजहण्णभावत्तादो । एवमोघपरूवणा समत्ता एत्तो आदेसपरूवणा च विहासियव्वा ।

तदो पदणिक्खेवो समत्तो ।

❀ वड्डीए तिरिण अणियोगदाराणि समुक्कित्तणा सामित्तमप्पा-
चहुअं च ।

§ ७१४. एत्तो पदेससंकमस्स वड्डी कायव्वा । तत्थ समुक्कित्तणादीणि तिरिण अणियोगदाराणि णादव्वाणि भवंति । अण्णत्थ वड्डीए तेरस अणियोगादाराणि कथमेत्थ तेसिमंतव्भावो ? ण, देसामासयभावेणेत्य तेसिमंतव्भावदंसणादो ।

❀ समुक्कित्तणा ।

§ ७१५. जुगमं वोत्तुमसत्तीदो पढमं ताव समुक्कित्तणा कायव्वा त्ति भण्णिदं होइ । तत्थोघादेसभेएण दुविहण्णिदेससंभवे ओघसमुक्कित्तणं ताव कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ ।

❀ मिच्छत्तस्स अत्थि असंखेज्जभागवड्ढिहाणी असंखेज्जगुणवड्ढिहाणी अवट्ठाणमवत्तव्वयं च ।

§ ७१३ क्योंकि पूर्वोक्त क्रमसे ही आकर संज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें अपने अपने प्रतिपक्ष बन्धक कालको गलाकर अपने बन्धके प्रारम्भ होनेसे लेकर एक समय अधिक एक आवल्लिके अन्तमे विद्यमान हुए जीवके पहलेके सत्कर्मसे विशेष अधिक सत्कर्मके विपर्ययरूपसे जघन्यपना प्राप्त होता है । इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । आगे आदेशप्ररूपणाका व्याख्यान करना चाहिए ।

इसके बाद पदनिक्षेप समाप्त हुआ ।

❀ वृद्धिमें तीन अनुयोगद्वार हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व और अल्पबहुत्व ।

§ ७१४. आगे प्रदेशसंकम वृद्धि करनी चाहिए । उसमें समुत्कीर्तना आदि तीन अनुयोगद्वार जानने चाहिए ।

शंका—अन्यत्र वृद्धिके तेरह अनुयोगद्वार कहे हैं इनमें उनका अन्तर्भाव कैसे होता है ?

समाधान—देशामर्षकभावसे इनमें उनका अन्तर्भाव देखा जाता है ।

❀ समुत्कीर्तना करनी चाहिए ।

§ ७१५. एक साथ सबका कथन करना शक्य न होनेसे सर्व प्रथम समुत्कीर्तना करनी चाहिए यद् उक्त कथनका तात्पर्य है । उसका ओघ और आदेशसे दो प्रकारका निर्देश सम्भव है, उसमें सर्वप्रथम ओघ समुत्कीर्तना को करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहते हैं—

❀ मिथ्यात्वही असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थान और अयक्तव्यपद होते हैं ।

§ ७१६. मिच्छत्तपदेससंकमविसये एदाणि पदाणि संभवन्ति त्ति समुक्कित्तिदं होदि । संपहि एदेसि पदाणं संभवविसयो बुच्चदे । तं जहा पुव्वुप्पण्णसम्मत्तपच्छायदमिच्छा-इट्ठिणा वेदयसम्मत्ते पडिवण्णे तस्स पढमावलियाए अवत्तव्वपुरस्सरो असंखेज्जभागवद्धि-संकमो होइ । अवट्ठाणं पि विसयंतरपरिहारेण तत्थेव दडुव्वं, मिच्छाइट्ठिचरिमावलियणवक्क-बंधवसेण तत्थ तदुभयसंभवे विरोहाभावादो । पुणो सम्मत्तं घेत्तूण चिट्ठमाणस्स वेदय-सम्यत्तकालव्भंतरे सव्वत्थेवासंखेज्जभागहाणी होदूण गच्छइ जाव दंसणमोहक्खवयअधा-पवत्तकरणचरिमसमयो त्ति । तदो अपुव्वाणियट्ठिकरणेसु गुणसंकमवसेणासंखेज्जगुणवद्धि-संकमो जायदे । अण्णं च उवसमसम्मत्तगहणपढमसमए अवत्तव्वसंकमो होदूण पुणो गुणसंकमकालव्भंतरे सव्वत्थेवासंखेज्जगुणवद्धिसंकमो होइ, तत्थ पयारंतरासंभवादो । पुणो तत्थेव गुणसंकमादो विज्झादपदिदपढमसमयम्मि असंखेज्जगुणहाणी जायदे । तत्तो परम-संखेज्जभागहाणी चेव एवमेदेसि संभवो अत्थि त्ति कादूण तेसिमत्थ समुक्कित्तणा कदा ।

❀ एवं वारसकसाय-भय-दुगुंछाणं ।

§ ७१७. जहा मिच्छत्तस्स असंखेज्जभागवद्धिहाणि-असंखेज्जगुणवद्धिहाणिअवट्ठा-णाणमवत्तव्वसहगयाणमत्थित्तं समुक्कित्तिदं एवमेदेसि पि कम्माणं समुक्कित्तेयव्वं, विसेसा-

§ ७१६. मिथ्यात्वका प्रदेशसंक्रम होने पर ये पद सम्भव है यह कहा गया है । अब ये पद किस विषयमे सम्भव हैं यह कहते हैं । यथा—जो पहले सम्यक्त्वको उत्पन्न कर मिथ्यादृष्टि हुआ है उसके वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त करने पर उसकी प्रथम आवलिमे अवक्तव्य संक्रमपूर्वक असंख्यात भाग वृद्धि संक्रम होता है । विषयान्तरका परिहार कर अवस्थित पद भी वही पर जानना चाहिए, क्योंकि मिथ्यादृष्टिकी अन्तिम आवलिमे हुए नवकबन्धके कारण वहाँ पर उन दोनोंके सम्भव होनेमे विरोध नहीं है । पुनः सम्यक्त्वको ग्रहण कर ठहरे हुए जीवके वेदकसम्यक्त्वके कालके भीतर सर्वत्र असंख्यातभाग हानि होकर जाती है जो दर्शनमोहनीयकी क्षण के अन्तिम समय तक होती है । उसके बाद अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमे गुणसंक्रमके कारण असंख्यातगुण वृद्धिसंक्रम होता है । दूसरे उपशम सम्यक्त्वको ग्रहण करनेके प्रथम समयमे अवक्तव्यसंक्रम होकर पुनः गुणसंक्रमके कालके भीतर सभी जगह असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । पुनः वही पर गुणसंक्रमसे विध्यातसंक्रममे आने पर उसके प्रथम समयमे असंख्यातगुणहानि संक्रम होता है । उसके बाद असंख्यातभाग हानिसंक्रम ही होता है । इस प्रकार ये संक्रम सम्भव हैं ऐसा करके उनकी यहाँ पर समुत्कीर्तना की है ।

* इसी प्रकार वारह कषाय, भय और जुगुप्साके विषयमें जानना चाहिए ।

§ ७१७. जिस प्रकार मिथ्यात्वकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुण-वृद्धि, असंख्यातगुणहानि, अवस्थित और अवक्तव्यपदके साथ प्राप्त हुए संक्रमोंके अस्तित्वकी समुत्कीर्तना की उसी प्रकार इन कर्मोंके उक्त संक्रमोंकी समुत्कीर्तना करनी चाहिए, क्योंकि कोई

भावादो । णवरि तेसिं विसयविभागो एवमणुगंतव्यो । तं जहा—असंखेज्जभागवद्धि-हाणि अवट्टाणाणि सत्थाणे स्वप्पत्थ चेव पयदक्कमाणं होंति, तेसिं तत्थ पडिवंधाभावादो । अणंताणुवंधीणमसंखेज्जगुणवट्टी विसंजोयणाए अपुव्वाणियट्टिकरणेसु होइ विज्झादसंक्रमादो मिच्छत्तं पडिवण्णपढमसमए वि असंखेज्जगुणवट्टी लब्भते, तेसिं चेवासंखेज्जगुणहाणी अधापवत्तसंक्रमादो सम्मत्तं वेत्तण विज्झादसंक्रमे पदिदपढमसमये होइ, तत्थासंखेज्जगुणहाणि मोत्तण पयारंतराणुवलंभादो । अवत्तव्वसंक्रमो वि तेसिं विसंजोयणापुव्वसंजोगादो आवलियादीदस्स पढमसमये होदि त्ति वत्तव्वं । अट्टकसाय-भय-दुगुंछाणं चरित्तमोहक्ख-वणाए कसायोवसामणाए च गुणसंक्रमेण संक्रामेमाणस्स असंखेज्जगुणवट्टी होइ । तेसिं चेव उवसमसेठीए गुणसंक्रमादो कालं कादूण देवेसुप्पण्णपढमसमये अधापवत्तसंक्रमेण-संखेज्जगुणहाणी होइ । अण्णं च अट्टकसायाणमधापवत्तसंक्रमादो संजमं संजमासंजमं वा पडिवज्जिय विज्झादसंक्रमे पदिदस्स पढमसमये असंखेज्जगुणहाणी होइ । एदेसिं चेव विज्झादसंक्रमादो हेट्ठिमगुणट्टाणपडिवादेण अधापवत्तसंक्रमेण परिणदस्स पढमसमए असंखेज्जगुणवट्टी होइ त्ति वत्तव्वं । अवत्तव्वसंक्रमो पुण सव्वेसिमेव सव्वोसामणपडिवाद-पढमसमए होइ त्ति वेत्तव्वं ।

विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि उनका विषयविभाग इस प्रकार जानना चाहिए । यथा—प्रकृत कर्मोंके असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यात भागहानि और अवस्थानसंक्रम स्वस्थानमे ही होते हैं, क्योंकि उनके वहाँ होनेमें कोई रुकावट नहीं है । अनन्तानुबन्धियोंका असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम विसंयोजनाके समय अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमें होता है । विध्यातसंक्रमसे-मिध्यात्वको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमें भी असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम प्राप्त होता है । तथा उन्हींका असंख्यातगुणहानिसंक्रम अधःप्रवृत्तसंक्रमके साथ सम्यक्त्वको ग्रहणकर विध्यातसंक्रमके प्राप्त होनेके प्रथम समयमें होता है, क्योंकि वहाँ पर असंख्यातगुणहानिको छोड़कर अन्य प्रकार नहीं उपलब्ध होता । अवक्तव्यसंक्रम भी उनका विसंयोजनापूर्वक संयोग होकर जिसका एक आवलिकाल गया है ऐसे जीवके प्रथम समयमें होता है ऐसा करना चाहिए । आठ कपाय, भय और जुगुप्साका चारित्रमोडनीयकी क्षणामें और कपायों की उपशामनामे गुणसंक्रमके द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम होता है । उन्हींका उपशामनेणिमें गुणसंक्रमके साथ मरकर देवोंमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा असंख्यातगुणहानिसंक्रम होता है । दूसरे अधःप्रवृत्तसंक्रमसे समय और संयमामयमको प्राप्त करके विध्यातसंक्रममें पड़े हुए जीवके प्रथम समयमें आठ कपायोंका असंख्यातगुणहानिसंक्रम होता है । तथा इन्हींका विध्यातसंक्रममे नीचेके गुणस्थानोंमें गिरनेसे अधःप्रवृत्तसंक्रमरूपके परिणत हुए जीवके प्रथम समयमें असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम होता है ऐसा कहना चाहिए । परन्तु अवक्तव्यसंक्रम सभी कर्मों का सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयमें होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए ।

❀ एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि, एवरि अवट्ठाणं एत्थि ।

§ ७१८. सम्मामिच्छत्तस्स वि एवं चेव समुक्तित्ता कायव्वा, असंखेज्जभागवट्ठि-हाणिआदिपदाणमत्थित्तं पडि विसेसाभावादो । विसेसो दु सम्मामिच्छत्तस्सावट्ठाणसंकमो णत्थि त्ति णायव्वो । संपहि एदेसिं पदाणं संभवविसयो परूविज्जदे । तं जहा— उवसमसम्माइट्ठिमि गुणसंकमादो विज्जादे पदिदम्मि तव्विदियसमयप्पहुडि जाव उवसमसम्मत्तकालो ताव णिरंतरमसंखेज्जभागवट्ठी चेव होइ । किं कारणं, वयादो तत्थाया-हियत्तदंसणादो । तं जहा— दिवड्डुगुणहाणिमेत्तसमयपवट्ठेसु गुणसंकमभागहारेण विज्जाद-भागहारपटुप्पण्णेणोवट्ठिदेसु सम्मामिच्छत्तादो ससम्मत्तं गच्छमाणदव्वं होइ । एसो सम्मामिच्छत्तस्स वयो । आयो वुण एत्तो असंखेज्जगुणो, विज्जादभागहारेण मिच्छत्तसयल-दव्वे खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो । जदो एवं, तदो आयादो वये परिसोहिदे सुद्धसेस-मेत्तेण सगमूलदव्वस्सासंखेज्जदिभागभूदेण पडिसमयसम्मामिच्छत्तसंतकम्मस्स तत्थ वट्ठी होइ त्ति तदणुसारिणो संक्रमस्स वि तहाभावोववत्तीदो सिद्धमसंखेज्जभागवट्ठिविसयो एसो त्ति । जइ एवं भुजगाराणियोगहारे एसो वि विसयो भुजगारसंकमस्स कायव्वो । ण च सुत्ते तहा परूवणा अत्थि, उव्वेळ्ळणाचरिमखंडयसम्मत्तुप्पत्तिगुणसंकमदंसण-मोहक्खवगगुणसंकमविसयत्तेण तत्थ तिसु अट्ठासु भुजगारसामित्तस्स णियामिदत्तादो ।

* इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके विषयमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका अवस्थानसंक्रम नहीं होता ।

§ ७१८. सम्यग्मिथ्यात्वकी भी इसी प्रकार समुक्तीर्तना करनी चाहिए क्योंकि असंख्यात-भागहानि और असंख्यातभागवृद्धि आदि पदों के अस्तित्वके प्रति कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यग्मिथ्यात्वका अवस्थानसंक्रम नहीं होता ऐसा जानना चाहिए । अब इन पदोंका सम्भव विषय कहते हैं । यथा— उपशमसम्यग्दृष्टि जीवके गुणसंक्रमसे विध्यातसंक्रममें आने पर उसके दूसरे समयसे लेकर उपशमसम्यक्त्वके कालतक निरन्तर असंख्यातभागवृद्धिसंक्रम ही होता है, क्योंकि व्ययकी अपेक्षा वहाँ पर आयकी अधिकता देखी जाती है । यथा-विध्यातसंक्रम-भागहारसे गुणित गुणसंक्रमभागहारके द्वारा डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रवट्ठोंके भाजित करने पर सम्यग्मिथ्यात्वमेसे वह सम्यक्त्वको प्राप्त होनेवाला द्रव्य होता है । यह सम्यग्मिथ्यात्वका व्यय है । परन्तु आय इससे असंख्यातगुणा है, क्योंकि विध्यातभागहारके द्वारा मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यके भाजित करने पर वह एक खण्डप्रमाण होता है । यदि ऐसा है तो आयमेसे व्ययके कम कर देने पर अपने मूल द्रव्यके असंख्यातवै भागप्रमाण शुद्ध शेष द्रव्यके आश्रयसे प्रत्येक समयमें वहाँ सम्यग्मिथ्यात्व सत्कर्मकी वृद्धि होती है, इसलिए उसका अनुसरण करनेवाला संक्रम भी उसी प्रकार बन जानेसे असंख्यातभागवृद्धिका विषयभूत यह सिद्ध हुआ ।

शंका—यदि ऐसा है तो भुजगार अनुयोगद्वारमे भुजगार संक्रमका यह विषय भी कहना चाहिए । परन्तु सूत्रमे उस प्रकारकी प्ररूपणा नहीं है, क्योंकि उद्वेक्षनाका अन्तिम खण्ड, सम्यक्त्वकी उत्पत्ति के समय होनेवाला गुणसंक्रम और दर्शनमोहनीयकी क्षणके समय होनेवाला

तदो पुत्रावरविरुद्धमेदं ति ? ण एस दोसो, असंखेज्जगुणवद्धिभुजगारस्स तत्थ पहाणभावेण विवक्खित्तादो । ण च एसो भुजगारविसयो तत्थ ण विवक्खित्तो ति एदस्सोभावो वोत्तुं सक्खिज्जे, अप्पिदाणप्पिदसिद्धीए सवत्थ पडिसेहाभावादो । अधवा एदस्मि विसये अप्परसंक्रमो चेवे ति सुत्तयाराहिप्पाओ । कुदो एदं णव्वदे ? सम्मामिच्छत्तप्परसंक्रमस्स सादिरेयछावद्धिसागरोवमकालपरुवयसुत्तादो । अण्णहा देसूणछावद्धिसागरोवमकालप्पसंगादो । एवं च संते सम्मामिच्छत्तस्सासंखेज्जभागवद्धिविसओ का होइ ति पुच्छिदे मिच्छत्तं गंतूण अधापत्तसंक्रमं कुणमाणस्स सम्मत्ताहिमुहावत्थाए अंतोमुहुत्तकालव्भंतरे परिणामवसेण असंखेज्जभागवद्धिविसयो वेत्तव्वो । तत्थासंखेज्जभागवद्धी होइ ति कुदो णव्वदे ? सम्मामिच्छत्तकस्सहाणि सामित्तसुत्तादो । एवमेसो असंखेज्जभागवद्धिविसयो अणुमग्गिदो । असंखेज्जभागहाणि-अवत्तव्वविसयो पुण मिच्छत्तभंगेणावगंतव्वो, विसेसाभावादो । णवरि मिच्छाइद्धिम्मि वि जाव उव्वेत्तणादुचरिमखंडयचरिमफालि ति ताव असंखेज्जभागहाणिविसयो वत्तव्वो ।

गुणसंक्रम इन तीनोंके विषयरूपसे वहाँ पर तीनों कालोंमें भुजगारके स्वामित्वका नियम किया है । इसलिए यह पूर्वापर विरुद्ध है ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ पर असंख्यातगुणवृद्धि भुजगारकी प्रधान रूपसे विवक्षा की है । यह भुजगारका विषय वहाँ पर विवक्षित नहीं है, इसलिए इसका अभाव कहना शक्य नहीं है, अपित्त और अनपित्त रूपसे सिद्धि होती है इसका सर्वत्र प्रतिषेधका अभाव है । अथवा इस विषयमें अल्पतरसंक्रम ही होता है ऐसा सूत्रकारका अभिप्राय है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—सम्यग्मिथ्यात्वके अल्पतरकाल साधिक छयासठ सागर प्रमाण कथन करने वाले सूत्रसे जाना जाता है । अन्यथा कुछ कम छयासठ सागर कालका प्रसंग प्राप्त होता है ।

ऐसा होने पर सम्यग्मिथ्यात्वके असंख्यातभागवृद्धिसंक्रमका विषय क्या है ऐसा पूछने पर मिथ्यात्वमें जाकर अध प्रवृत्तसंक्रम करनेवाले जीवके सम्यक्त्वके अभिमुख होने की अवस्था होने पर अन्तर्गृह्यकालके भीतर परिणामवशा असंख्यातभागवृद्धिका विषय ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—वहाँ पर असंख्यातभागवृद्धिसंक्रम होता है यह किस प्रमाण से जाना जाता है ?

समाधान—सम्यग्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट दानिका कथन करनेवाले स्वामित्वविषयक सूत्रसे जाना जाता है ।

इस प्रकार यह असंख्यातभागवृद्धिका विषय जानना चाहिए । परन्तु असंख्यातभागदानि और प्रकृत्यसंक्रमका विषय मिथ्यात्वके भंगके समान जानना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विरोधता नहीं है । किन्तु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें भी जब तक उद्वेलना द्विचरम काण्डककी अन्तिम फालि है तब तक असंख्यातभागदानिका विषय कहना चाहिए ।

§ ७१६. संपहि असंखेजगुणवृद्धिविसयो वुचदे । तं जहा—उव्वेल्लणसंकमादो वेदगसम्मत्तं पडिवण्णपढमसमये विज्झादसंकमादो मिच्छत्तं पडिवण्णसम्माइड्डिपढमसमये वा सव्वं हि चेव चरिमुव्वेल्लणखंडए वा सम्मत्तुप्पत्तिगुणसंकमकालब्भंतरे दंसणमोह-कखवण्णगुणसंकमकालब्भंतरे वा असंखेजगुणवृद्धी होइ । गुणसंकमादो विज्झादसंकमे पदिद-सम्माइड्डिपढमसमए अधापवत्तसंकमादो विज्झादे पदिदसम्माइड्डिपढमसमए उव्वेल्लणाए परिणदमिच्छाइड्डिपढमसमए वा असंखेजगुणहाणिसंकमो होइ ।

❀ सम्मत्तस्स असंखेजभागहाणि-असंखेजगुणवृद्धी हाणो अवत्तव्वयं च अत्थि ।

§ ७२०. उव्वेल्लेमाणमिच्छाइड्डिम्मि जाव दुचरिमट्टिदिखंडयो त्ति ताव असंखेज-भागहाणिसंकमो चरिमुव्वेल्लणखंडए असंखेजगुणवृद्धिसंकमो अधापवत्तसंकमादो उव्वेल्लण-परिणाममुव्वगयमिच्छाइड्डिपढमसमए असंखेजगुणहाणिसंकमो सम्मत्तादो मिच्छत्तं पडिवण्ण-पढमसमए अवत्तव्वसंकमो त्ति चउण्हमेदेसिं पदाणमेत्थ संभवो ण विरुज्जदे ।

❀ तिसंजलणपुरिसवेदाणमत्थि चत्तारि वड्ढी चत्तारि हाणीओ अवट्ठाणमवत्तव्वयं च ।

§ ७१६. अब असंख्यातगुणवृद्धिका विषय कहते हैं । यथा—उद्वेलना संक्रमसे वेदकसम्य-क्त्वको प्राप्त होनेके प्रथम समयमे अथवा विध्यातसंक्रमसे मिथ्यात्वको प्राप्त होनेवाले सम्यग्दृष्टि जीवके प्रथम समयमे अथवा सम्पूर्ण अन्तिम उद्वेलनाकाण्डकमे, सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होने पर गुणसंक्रम कालके भीतर अथवा दर्शनमोहनीयकी क्षणामे गुणसंक्रम कालके भीतर असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम होता है । तथा गुणसंक्रमसे विध्यातसंक्रममे आये हुए सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमे, अधःप्रवृत्तसंक्रमसे विध्यातसंक्रममे आये हुए सम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमे अथवा उद्वेलनासंक्रमरूपसे परिणत हुए मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमे असंख्यातगुणहानिसंक्रम होता है ।

* सम्यक्त्वका असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यसंक्रम होता है ।

§ ७२०. उद्वेलना करनेवाले मिथ्यादृष्टिके जब तक द्विचरम स्थितिकाण्डक है तब तक असंख्यातभागहानिसंक्रम, अन्तिम उद्वेलनाकाण्डकमे असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम, अधःप्रवृत्तसंक्रमसे उद्वेलनापरिणामको प्राप्त हुए मिथ्यादृष्टि जीवके प्रथम समयमे असंख्यातगुणहानिसंक्रम और सम्यक्त्वसे मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमे अवक्तव्यसंक्रम होता है इस प्रकार इन चारों पदोंका सम्भव यहाँ पर विरोधको प्राप्त नहीं होता ।

* तीन संजलन और पुरुषवेदकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रम होता है ।

§ ७२१. एत्थ तिसंजलणग्गहणेण लोहसंजलणवज्जियाणं तिण्हं संजलणणं गहणं कायव्वं, लोहसंजलणस्स उवरिमसुत्ते समुक्कित्तादो । एदेसिं तिसंजलण-पुरिसवेदाणमत्थि चउव्विहाओ वड्डी-हाणीओ अवट्टाणमवत्तव्वयं च । कुदो ? संसारावत्थाए सव्वत्थासंखेज्ज-भागवड्ढि-हाणि-अवट्टाणाणमुवलंभादो । चिराणसंतकम्मचरिमफालीए तदणंतरसमयभावि-णवकवंधसंकमे च जहाकममसंखेज्जगुणवड्ढिहाणिसंकमाणमुवलंभादो । तत्थेव णवकवंध-संकमे वावदस्स जोगविसेसमस्सिऊण संखेज्जभागवड्ढि-हाणि-संखेज्जगुणवड्ढि-हाणीणं संभवो वलंभादो । एत्थेव सेसवड्ढि-हाणि-अवट्टाणाणं पि संभवदंसणादो च । णवरि पुरिसवेदावट्टा-णस्स भुजगारभंगो । सव्वोवसामणापडिवादे सव्वेसिमवत्तव्वसंभवो दट्टव्वो ।

❀ लोहसंजलणस्स अत्थि असंखेज्जभागवड्डी हाणी अवट्टाणमव-त्तव्वयं च

§ ७२२. कुदो ? सेसवड्ढि-हाणीणमेत्थासंभवो ? ण, लोहसंजलणविसये अधापवत्त-संकमं मोत्तणणसंकमाभावेण सुद्धणवकवंधसंकमाभावेण च तदभावणिणयादो । तम्हा लोहसंजलणस्स असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-अवट्टाणसंकमा चैव, णाणो संकमो त्ति सिद्धं । णवरि सव्वोवसामणापडिवादमस्सिऊणावत्तव्वसंकमो समुक्कित्तियव्वो ।

§ ७२१. यहाँ पर तीन संज्वलनोंके ग्रहण करनेसे लोभसंज्वलनको छोड़कर शेष तीन संज्वल-नोंका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि लोभसंज्वलनकी आगेके सूत्रमें समुत्कीर्तना की है। इन तीन संज्वलन और पुरुषवेदकी चार प्रकारकी वृद्धियाँ, चार प्रकारकी हानियाँ, अवस्थान और अवक्तव्य-पद हैं, क्योंकि संसार अवस्थामें सर्वत्र असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि और अवस्थान संक्रम उपलब्ध होते हैं। तथा प्राचीन सत्कर्मकी अन्तिम फालिमें और तदनन्तर समयमें होनेवाले नवकवन्धसम्बन्धी संक्रममें क्रमसे असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम और असंख्यातगुणहानिसंक्रम उपलब्ध होते हैं। तथा वहीं पर नवकवन्धके संक्रममें व्याप्त हुए जीवके योग विशेषका आश्रय कर संख्यातभागवृद्धि, संख्यातभागहानि, संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिसंक्रम सम्भव रूपसे उपलब्ध होते हैं और वहींपर शेष वृद्धि, हानि और अवस्थान संक्रम सम्भव रूपसे देखे जाते हैं। किन्तु इतनी विशेषता है कि पुरुष वेदके अवस्थान संक्रमका भंग भुजगारके समान जानना चाहिए। तब सर्वोपशामनासे गिरते समय सबका अवक्तव्यसंक्रम जानना चाहिए।

* लोभसंज्वलनकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, अवस्थान और अवक्तव्यसंक्रम है।

§ ७२२. शंका—यहाँ पर शेष वृद्धियाँ और हानियाँ असम्भव क्यों हैं ?

समाधान—नहीं, क्योंकि लोभसंज्वलनके विषयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमको छोड़कर अन्यसंक्रम सम्भव न होनेसे तथा शुद्ध नवकवन्धके संक्रमका अभाव होनेसे शेष वृद्धियोंऔर हानियोंके अभाव का निर्णय होता है। इसलिए लोभसंज्वलनके असंख्यातभागवृद्धिसंक्रम, असंख्यातभागहानिसंक्रम और अवस्थानसंक्रम ही होते हैं, अन्यसंक्रम नहीं होता यह सिद्ध हुआ। किन्तु इतनी विशेषता है कि सर्वोपशामनासे प्रतिपातका आश्रयकर अवक्तव्यसंक्रमकी समुत्कीर्तना करनी चाहिए।

❀ इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमत्थि दो वड्डी हाणीओ अवत्तव्वयं च ।

§ ७२३. कुदो ? एदेसु कम्मेसु असंखेज्जभागवड्ढि-हाणि-असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणि-अवत्तव्वसंकमाणं चेव संभवदंसणादो । तं कथं, एदेसिं कम्माणं सगवंधकाले आवलिया-दीदस्स असंखेज्जभागवड्ढिसंकमो चेव जाव पडिवक्खवंधगद्धापढमावलियचरिमसमओ त्ति । पुणो पडिवक्खवंधकाले सव्वत्थासंखेज्जभागहाणिसंकमो चेव, तत्थ पयारंतरासंभवादो । खवगोवसमसेटीसु गुणसंकमवसेणासंखेज्जगुणवड्ढिसंकमो उवसामगस्य गुणसंकमादो कालं कादूण देवेसुप्पणस्स पढमसमए असंखेज्जगुणहाणिसंकमो होइ । णवरि इत्थि-णवुंसयवेदाण-मण्णत्थ वि असंखेज्जगुणवड्ढि-हाणीओ संभवन्ति, सम्माइड्ढिमि मिच्छुत्तं पडिवण्णे मिच्छाइड्ढिमि वि सम्मत्तगुणेण परिणदम्मि जहाकमं तदुभयसंभवदंसणादो । सव्वोव-सामणापडिवादे च सव्वेसिमवत्तव्वसंभवो दड्ढव्वो । एवं सव्वेसिं कम्माणमोघसमुक्तिणा गया । एत्तो आदेशसमुक्तिणा च जाणिय णेयव्वा ।

तदो समुक्तिणा समत्ता ।

❀ सामित्ते अप्पावहुए च विहासिदे वड्डी समत्ता भवदि ।

* स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकके दो वृद्धि, दो हानि और अवक्तव्यसंक्रम होते हैं ।

§ ७२३. क्योंकि इन कर्मों में असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि, असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्यसंक्रम ही सम्भव देखे जाते हैं ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान —क्योंकि इन कर्मोंके नवकवन्धके कालमें एक आवलिके वाद असंख्यात-भागवृद्धिसंक्रम ही होता है जो प्रतिपक्षवन्धक कालकी प्रथम आवलिके अन्तिम समय तक होता है । पुनः प्रतिपक्ष वन्धक कालके भीतर सर्वत्र असंख्यातभागहानिसंक्रम ही होता है, क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । क्षपक और उपशमश्रेणियोंमें गुणसंक्रमके कारण असंख्यात गुणवृद्धिसंक्रम होता है । उपशामक जीवके गुणसंक्रमसे मरकर देवोंमें उत्पन्न होने पर प्रथम समयमें असंख्यातगुणहानिसंक्रम होता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसक वेदके अन्यत्र भी असंख्यातगुणवृद्धिसंक्रम और असंख्यातगुणहानिसंक्रम सम्भव हैं, क्योंकि सम्यग्दृष्टि जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त होनेपर तथा मिथ्यादृष्टि जीवके भी सम्यक्त्वगुणरूपसे परिणत होनेपर क्रमसे वे दोनों संक्रम सम्भव देखे जाते हैं । सर्वोपशामनासे गिरने पर सभी कर्मोंका अवक्तव्यसंक्रम सम्भव देखा जाता है । इस प्रकार सब कर्मोंकी ओवसमुत्कीर्तना समाप्त हुई । आगे आदेशसमुत्कीर्तना जानकर कर लेनी चाहिए ।

इसके वाद समुत्कीर्तना समाप्त हुई ।

* स्वामित्व और अल्पहृत्वका व्याख्यान करने पर वृद्धि समाप्त होती है ।

§ ७२४. एतो समुक्तिणाणुसारेण सामित्ते अप्पावहुए च विहासिदे तदो वड्डी
समप्पदि ति भण्णिदं होइ । जेणेदं देसामासयसुत्तं तेणेत्य कालादिअणियोगद्वाराणं पि
विहासणा सुत्तणिवद्वा ति दड्ढ्या । तदो दव्वड्ढियणयावलंबणेण पयड्ढस्सेदस्स सुत्तस्स
पज्जवड्ढिय परूवणा जाणिदूण रोदव्या ।
तिदो वड्डी समत्ता ।

✽ एत्तो हाणाणि ।

§ ७२५. एत्तो उवरि पदेससंकमड्डाणाणि परूवेयव्याणि ति भण्णिदं होइ । संपहि
तत्य संभवंताणमणियोगद्वाराणमियत्तावहारणड्ढुत्तरसुत्तं भणइ ।

✽ पदेससंकमड्डाणाणं परूवणा अप्पावहुअं च ।

§ ७२६. एवमेदाणि दोण्णि अणियोगद्वाराणि । पदेससंकमड्डाणसरूवजाणावणड्ढ-
मेत्य परूवेयव्याणि ति भण्णिदं होइ । समुक्तिणा परूवणापमाणमअप्पावहुअं चेदि चत्तारि
अणियोगाद्वाराणि किमेत्य ण वुत्ताणि ? ण, समुक्तिणाए परूवणंतव्भावादो । पमाणा-
णियोगद्वारस्स वि अप्पावहुअंतव्भूदत्तदो । तत्य परूवणा णाम सव्वकामेसु पदेससंकम-
ड्डाणाणमुप्पत्तिकमणिरूवणा । तेसिं चैव पमाणाविसयणिणयजणणड्ढं थोववहुत्तपरिक्खा
अप्पावहुअमिदि भण्णदे ।

§ ७२४. आगे समुक्तीर्तनाके अनुसार स्वामित्व और अल्पवहुत्वका व्याख्यान करने पर
इसके बाद वृद्धि समाप्त होती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । यतः यह देशामर्षक सूत्र है अतः यहाँ
पर कालादि अनुयोगद्वारोका भी व्याख्यान सूत्र निवद्ध है ऐसा जानना चाहिए । इसलिए द्रव्या-
धिक्रमयका अवलम्बन कर प्रवृत्त हुए इस सूत्रकी पर्यायाधिक प्ररूपणा जानकर ले जानी चाहिए ।
इसके बाद वृद्धि समाप्त हुई ।

✽ आगे संक्रमस्थानोंका प्रकरण है ।

§ ७२५. उससे आगे प्रदेशसंक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य
है । अतः इस प्रकरणमें सम्भव अनुयोगद्वारोके प्रमाणका निर्धारण करनेके लिए आगेका सूत्र
कहे हैं—

✽ प्रदेश संक्रमस्थानोंके प्ररूपणा और अल्पवहुत्व इस प्रकार ये दो अनुयोग-
द्वार हैं ।

§ ७२६. प्रदेशसंक्रमस्थानोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए यहाँ पर कथन करना चाहिए
यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

शंका—समुक्तीर्तना, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पवहुत्व इस प्रकार चार अनुयोगद्वार
यहाँ पर क्यों नहीं रहे ?

समाधान—नहीं, क्योंकि समुक्तीर्तनाका प्ररूपणामें अन्तर्भाव हो जाता है । तथा प्रमाण
अनुयोगद्वार का भी अल्पवहुत्वमें अन्तर्भाव हो गया है ।

प्रश्नमें मत्र श्योंमें प्रदेश संक्रमस्थानोंकी उत्पत्तिके क्रमका निरूपण करना प्ररूपणा है ।
इसके प्रमाणपरिपक्व निर्णयका ज्ञान कराने के लिए योद्धे वहुतकी परीक्षा करना अल्पवहुत्व कहा
जाता है ।

❀ परूवणा जहा ।

§ ७२७. परूवणाणिओगद्वारं कथं होइ ति पृच्छा एदेण कदा होइ ।

❀ मिच्छत्तस्स अभवसिद्धियपाओग्गेण जहणएणएण कम्मेण जहणएणयं संक्रमद्वारं ।

§ ७२८. एदेण सुत्तेण मिच्छत्तस्स जहणसंक्रमद्वारणपरूवणा कदा । तं जहा—
अभवसिद्धियपाओगजहणकम्मेणे ति बुत्ते एइंदिएसु खविद्धकम्मंसियलक्खणेण कम्म-
ट्टिदिमच्छिऊण संचिदजहणसंतकम्मस्स गहणं कायव्वं, ततो अण्णस्स अभवसिद्धिय-
पाओगजहणसंतकम्मस्साणुवलद्धीदो । एदेण जहणकम्मेण सव्वजहणसंक्रमद्वारं
समुप्पज्जदि ति एसो विसेसो एत्थाणुगंतव्वो । तं कथं ? एदेण जहणकम्मेणागंतूण
असण्णिपंचिंदिएसुवज्जिय पज्जत्तयदो होदूण तत्थ देवाउअं वंधिय सव्वलहुं कालं कादूण
देवेसुवज्जिय छहिं पज्जत्तीहिं पज्जत्तयदो होदूण पढमसम्मत्तमुप्पाइय तदो वेदयसम्मत्तं
पडिवज्जिय वेळावट्टिसागरोवमाणि सम्मत्तमणुपालिय तदवसारे अंतोमुहुत्तसेसे दंसण-
मोहक्खवणाए अब्भुट्टिदो जो जीवो तस्स अधापवत्तकरणचरिमसमये वट्टमाणस्स जहण-
परिणामणिबंधणविज्झादसंक्रमेण सव्वजहणपदेससंक्रमद्वारं होइ । कधमेसो विसेसो

* प्ररूपणा, यथा ।

§ ७२७. प्ररूपणा अनुयोगद्वार किस प्रकारका है यह पृच्छा इस सूत्र द्वारा की गई है ।

* मिथ्यात्वका अभव्योंके योग्य जघन्य कर्मके आश्रयसे जघन्य संक्रमस्थान होता है ।

§ ७२८. इस सूत्र द्वारा मिथ्यात्वके जघन्य संक्रमस्थानकी प्ररूपण की गई है । यथ —
अभव्योंके योग्य जघन्य कर्मके आश्रयसे ऐसा कहने पर एकेन्द्रियोंमें क्षपितकर्माशिकलक्षणसे कर्मस्थितिकाल तक अवस्थित रहकर सञ्चित हुए जघन्य सत्कर्मका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उससे अन्य अभव्योंके योग्य जघन्य सत्कर्म नहीं उपलब्ध होता । इस जघन्य सत्कर्मके आश्रयसे सबसे जघन्य संक्रमस्थान उत्पन्न होता है इस प्रकार इतना विशेष यहाँ पर जान लेना चाहिए ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—इस जघन्य कर्मके साथ आकर, असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होकर तथा पर्याप्त होकर पुन वहाँ देवायुका बन्धकर अतिशीघ्र मरकर और देवोंमें उत्पन्न होकर तथा छह पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर इसके बाद प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर फिर वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कर दो छयासठ सागर कालतक सम्यक्त्वका पालन कर उसके अन्तमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर जो जीव दर्शनमोहनीयकी क्षणके लिए उद्यत हुआ है उसके अव.प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान होने पर जघन्य परिणामनिमित्तक विध्यातसंक्रमरूपसे सबसे जघन्य प्रदेश संक्रमस्थान होता है ।

सुत्तेणाणुवङ्को परिच्छिज्जे ? ण, वक्खाणादो विसेसपडिवत्ती होइ ति णायवलेण तदुवल-
द्वीदो । अभवसिद्धियपाओभाजहण्णकम्मणे ति ऐदस्स विसेसणस्स उवलक्खणभावेण
अवड्ढित्तादो च । तम्हा तहाभूदेण जहण्णसंतकम्मणोवलक्खियस्स जीवस्स अधापवत्तकरण-
चरिमसमयजहण्णपरिणामेण मिच्छत्तस्स जहण्णपदेससकमट्ठाणं होइ ति सिद्धो सुत्तथो ।

§ ७२६. संपहि एवंभूदजहण्णसंतकम्मपडिवद्दजहण्णसंकमट्ठाणस्स पुव्वमवहारि-
दसरूवस्साणुवादं कादूण एत्तो अजहण्णसंकमट्ठाणाणं परूवणट्ठमुत्तरो सुत्तपबंधो ।

❀ अणंतन्हि चैव कम्मं असंखेज्जलोगभागुत्तरं संकमट्ठाणं होइ ।

§ ७३०. एत्थ ताव संकमट्ठाणाणं साहणट्ठं तत्कारणभूदपरिणामट्ठाणाणं परूवणं
कस्सामो । तं जहा—अधापवत्तकरणचरिमसमए असंखेज्जलोगमेत्तपरिणामट्ठाणाणि अत्थि ।
ताणि च जहण्णपरिणामप्पहुडि जावुकस्सपरिणामो ति ताव छवड्ढिकमेणावड्ढिदाणि
तेसिमादीदोप्पहुडि असंखेज्जलोगमेत्तपरिणामट्ठाणाणि सव्वपरिणामट्ठाणपंतिआयामस्सा-
संखेज्जभागपमाणाणि परिणमिय जहण्णसंतकम्मं संकामेमाणस्स जहण्णसंकमट्ठाणमेवुप्पज्जदि,
विसरिससंकमट्ठाणुप्पत्तीए तेसिमणिमित्तादो । तदो एत्थ विदियादिपरिणामट्ठाणाणम-
वणयणं कादूण जहण्णपरिणामट्ठाणस्सेव गहणं कायवं । पुणो तदर्णतरोवरिमपरिणामप्प-

शंका—सूत्रमे नहीं कहा गया यह विशेष कैसे जाना जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि व्याख्यानसे विशेष प्रतिपत्ति होती है इस न्यायके बलसे उसकी
उपलब्धि होती है। तथा अभव्योंके योग्य जघन्य कर्मके आश्रयसे यह विशेषण उपलक्षणरूपसे
अवस्थित है, इसलिए उक्त प्रकारके जघन्य सत्कर्मके युक्त जीवके अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम
समयमें जघन्य परिणामसे मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसक्रमस्थान होता है यह सूत्रका अर्थ
सिद्ध हुआ ।

§ ७२६. अब जिसके स्वरूपका पहले अवधारण किया है ऐसे जघन्य सत्कर्मसे सम्बन्ध
रखनेवाले जघन्य सक्रमस्थानका अनुवाद करके आगे अजघन्य संक्रमस्थानोंका कथन करनेके
लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है—

* उसी कर्ममें असंख्यात लोक प्रतिभाग अधिक दूसरा संक्रमस्थान होता है ।

§ ७३०. यहाँ पर सर्व प्रथम संक्रमस्थानोंकी सिद्धि करनेके लिए उनके कारणभूत परिणाम-
स्थानोंका कथन करेंगे । यथा—अध.प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें असंख्यात लोकमात्र
परिणामस्थान होते हैं । वे जघन्य परिणामसे लेकर उत्कृष्ट परिणाम तक छह वृद्धिक्रमसे अवस्थित
हैं । उनके प्रारम्भसे लेकर जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान हैं जो कि सब परिणामस्थान
पक्षिके आयामके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं उन्हें परिणामकर जघन्य सत्कर्मका संक्रम करनेवाले
जीवके जघन्य संक्रमस्थान ही उत्पन्न होता है, क्योंकि वे परिणाम विसदृश संक्रमस्थानकी उत्पत्ति
निमित्त नहीं हैं । इसलिए यहाँ पर द्वितीय आदि परिणामस्थानोंका अपनयन कर जघन्य परिणाम
स्थानका ही ग्रहण करना चाहिए । पुनः तदनन्तर उपरिम परिणामसे लेकर असंख्यात लोकमात्र

हुडि असंखेज्जलोगमेत्तपरिणामट्टाणेहि परिणमिय संकामेमाणस्स अण्णमपुणरुत्तमसंखेज्ज-
लोगभागुत्तरसंकमट्टाणमुप्पज्जदि त्ति । एत्थ वि पुव्वं व विदियादि-परिणामपचागेण
जहण्णपरिणामट्टाणस्सेव संगहो कायव्वो । णवरि पुव्विन्लजहण्णपरिणामट्टाणादो
संपहियजहण्णपरिणामट्टाणमणंतगुणव्वहियमसंखेज्जलोगमेत्तट्टाणाणि, तत्तो समुल्लंघिय
एदस्सावट्टाणदंसणादो । एवमेदेण विहिणा सेसपरिणामट्टाणेषु असंखेज्जलोगमेत्तट्टाणं
गंतूण एगेणपरिणामट्टाणपुणरुत्तसंकमट्टाणुत्पत्तिणिमित्तमुवलब्भइ त्ति तहाभूदाणं चेव
परिणामट्टाणाणमुच्चिणिदूण गहणं कायव्वं जाव अधापवत्तकरणचरिमसमयसव्वपरिणाम-
ट्टाणाणि णिट्ठिदाणि त्ति । एवमुच्चिणिदूण गहिदासेसपरिणामट्टाणाणमण्णोण्णं पेक्खि-
ऊणाणंतगुणव्वहियक्रमेणावट्टिदाणमवट्टिदपक्खेवुत्तरक्रमेणासंखेज्जलोगभागुत्तरविसरिससंकम-
ट्टाणुत्पत्तिणिमित्तभूदाणं पमाणमसंखेज्जा लोगा ।

§ ७३१. संपहि एदेसि परिणामट्टाणाणमधापवत्तकरणचरिमसमये क्रमेण रचणं
कादूण णाणाकालमस्सिऊण णाणाजीवेहि परिवाडीए परिणमाविय सुत्ताणुसारेण पढम-
संकमट्टाणपरिवाडिपरूवणं कस्सामो । तं जहा—अधापवत्तकरणचरिमसमयम्मि सव्व-
जहण्णपरिणामट्टाणं परिणमिय पुव्वणिरुद्धजहण्णसंतकम्मं संकमेमाणस्स जहण्णसंकमट्टाणं होइ ।
पुणो एदं चेव जहण्णसंतकम्ममधापवत्तकरणचरिमसमयविदियपरिणामट्टाणेण? परिणमिय

परिणाम स्थानोंरूपसे परिणामन कर संक्रम करनेवाले जीवके असंख्यात लोक भाग अधिक अन्य
अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है। यहाँ पर भी पहलेके समान द्वितीयादि परिणामोंका त्यागकर
जघन्य परिणामस्थानका ही ग्रहण करना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्वोक्त
जघन्य परिणामस्थानसे साम्प्रतिक जघन्य परिणामस्थान अनन्तगुणा अधिक है, क्योंकि उससे
असंख्यात लोकमात्र छह स्थानोंको उल्लंघन कर इस स्थानका अवस्थान देखा जाता है। इस
प्रकार इस विधिसे शेष परिणामस्थानों में असंख्यात लोकमात्र अध्वान जाकर संक्रमस्थानकी
उत्पत्तिका निमित्तभूत एक एक अपुनरुक्त परिणामस्थान उपलब्ध होता है, इसलिए अधःकरणके
अन्तिम समयके सब परिणामस्थानोंके प्राप्त होने तक उस प्रकारके परिणामस्थानोंको ही संचय
करके ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार एक दूसरेको देखते हुए जो कि अनन्तगुण अधिकके
क्रमसे अवस्थित हैं और जो अवस्थित प्रक्षेप अधिकके क्रमसे असंख्यात लोकभाग अधिक विसदृश
संकमस्थानोंकी उत्पत्तिके निमित्तभूत हैं ऐसे उचलकर ग्रहण किये गये उन समस्त परिणामस्थानों
का प्रमाण असंख्यात लोक है।

§ ७३१. अब इन परिणामस्थानोंकी अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें क्रमसे रचना
करके नाना कालका आश्रय लेकर नाना जीवोंके द्वारा क्रमसे परिणाम कर सूत्रके अनुसार प्रथम
संकमस्थानकी परिपाटीकी प्ररूपणा करेंगे। यथा—अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें सबसे
जघन्य परिणामस्थानको परिणाम कर पूर्वमें विवक्षित हुए जघन्य सत्कर्मका संक्रम करनेवाले
जीवके जघन्य संक्रमस्थान होता है। पुन. इसी जघन्य सत्कर्मको अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम
समयमें दूसरे परिणामस्थानके द्वारा परिणाम कर पूर्वमें विवक्षित किये गये जघन्य सत्कर्मका

१. ता प्रतौ 'ट्टा [णा] णं णा' इति पाठः॥

पुत्रगिरुद्धजहणसंतकम्मं संकामेमाणस्स विदियमसंखेज्जलोगभागुत्तरं संकमट्ठाणं होदि,
जहणसंकमट्ठाणमसंखेज्जलोगेहिं खंडेयूण एयखंडमेत्तेण ततो एदस्स अहियत्तदंसणोदो ।
एदं च विदियसंकमट्ठाणमेदेण सुत्तेण णिदिट्ठमणंतमिह चेव कम्मे असंखेज्जलोगभागुत्तर-
संकमट्ठाणं होइ ति एदेण विधिणा तदियादिपरिणामट्ठाणाणि वि जहाकमं परिणमिय
संकामेमाणामसंखेज्जलोगभागुत्तरकमेणासंखेज्जलोगमेतसंकमट्ठाणाणि समुणजंति ति
पटुप्पायणट्ठमुत्तरसुत्तं भणइ--

❀ एवं जहणए कम्मे असंखेज्जा लोगा संकमट्ठाणाणि ।

§ ७३२. कुदो ? णाणाकालसंबंधिणाणाजीवेहि तदियादिपरिणामट्ठाणेहिं परि-
वाडीए परिणमाविय तम्मि जहणसंतकम्मे संकामिज्जमाणे अवट्ठिदपक्खेवुत्तरकमेण पुत्र-
विरचिदपरिणामट्ठाणमेत्ताणं चेव संकमट्ठाणाणमुप्पत्तीए परिप्फुडमुवलंभादो । एवं पढम-
परिवाडीए संकमट्ठाणपरूवणा गया । संपहि विदियपरिवाडीए संकमट्ठाणाणं परूवणं
कुणमाणो तत्थ ताव तण्णिगबंधणसंतकम्मवियप्पगवेसणट्ठमुत्तरं सुत्तपबंधमाह—

❀ तदो पदेसुत्तरे दुपदेसुत्तरे वा एवमणंतभागुत्तरे वा जहणए
संतकम्मे ताणि चेव संकमट्ठाणाणि ।

संकम करनेवाले जीवके दूसरा असंख्यात लोक भाग अधिक संकमस्थान होता है, क्योंकि जघन्य
संकमस्थानको असंख्यात लोकसे भाजित कर जो एक भाग लब्ध आवे उतना मात्र पूर्वोक्त स्थानसे
यह संकमस्थान अधिक देखा जाता है । यह दूसरा संकमस्थान इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया
गया है । पुन उसी कर्ममें असंख्यात लोक प्रतिभाग अधिक अन्य संकमस्थान होता है इस प्रकार
इस विधिसे तृतीय आदि परिणामस्थानोंको भी क्रमसे परिणमा कर संकम करनेवाले जीवके
असंख्यात लोक भाग अधिकके क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण संकमस्थान उत्पन्न होते हैं इस
प्रकार यह बात बतलाने के लिए आगेका सूत्र कहते हैं —

* इस प्रकार जघन्य कर्ममें असंख्यात लोकप्रमाण संकमस्थान होते हैं ।

§ ७३२. क्योंकि नाना काल सम्बन्धी नाना जीवोंके द्वारा तृतीय आदि परिणामस्थानोंके
आश्रयसे क्रमसे परिणमाकर उस जघन्य सत्कर्मके संक्रमित करने पर अवस्थित प्रक्षेप अधिकके
क्रमसे पूर्वमे रचित परिणामस्थानप्रमाण ही संकमस्थानोंकी उत्पत्ति स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है ।
इस प्रकार प्रथम परिपाटीसे संकमस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । अब द्वितीय परिपाटीसे संकम-
स्थानोंका कथन करते हुए वहाँ सर्व प्रथम उनके कारणभूत सत्कर्मके भेदोंका विचार करने के लिए
आगे का सूत्रप्रबन्ध कहते हैं—

* उससे जघन्य सत्कर्ममें एक प्रदेश अधिक या दो प्रदेश अधिक या इस प्रकार
एक एक प्रदेश अधिक होते हुए अनन्त भाग अधिक होने पर वे ही संकमस्थान
होते हैं ।

§ ७३३. तदो पुत्राणिरुद्धजहणसंतद्व्याणादो पदेसुत्तरे संतकम्मे जादे तत्थ वि ताणि चैव पढमपरिवाडीए परूविदाणि असंखेजलोगमेत्तसंक्रमद्व्याणाणि समुप्पजंति । किं कारणं ? तहाभूदसंतकम्मवियप्पस्स संक्रमद्व्याणंतरुप्पत्तीए अणिमित्ततादो । एवं दुपदेसुत्तरे वा तिपदेसुत्तरे वा चदुपदेसुत्तरे वा पंचपदेसुत्तरे वा संखेजपदेसुत्तरे वा असंखेजपदेसुत्तरे वा अणंतपदेसुत्तरे वा जहणए संतकम्मे ताणि चैव संक्रमद्व्याणाणि समुप्पजंति ति घेतव्वं । एवमणंतभागवड्डीए गंतूण जहणसंतकम्मद्व्याणं जहणपरित्ताणंतेण खंडेऊण तत्थेयखंडमेत्त-परमाणुसु तत्थ वहिदेसु वि ताणि चैव संक्रमद्व्याणाणि पुणरुत्ताणि समुप्पजंति ति एसो एदस्स भावत्थो ।

❀ असंखेजलोगभागे पक्खित्ते विदियसंक्रमद्व्याणपरिवाडो होइ ।

§ ७३४. एतदुक्तं भवति—जहणसंतकम्मद्व्याणं तप्पाओग्गासंखेजलोगेहिं भागं घेतूण भागलद्धे तत्थेव पडिरासिय पक्खित्ते जं संतकम्मद्व्याणमुप्पजदि तत्तो परिणामद्व्याणाणि अस्सिऊण पढमसंजमद्व्याणपरिवाडी परिणामद्व्याणमेत्तायामा समुप्पजदि ति एदेण असंखेज-भागवड्ढिविसए वि अणंताणि संतकम्मद्व्याणाणि उज्जंघिऊण तदित्थविसए पयदसंत-कम्मद्व्याणुप्पत्ती होदि ति जाणाविदं । संपहि 'असंखेजलोगभागे पक्खित्ते' इच्चेदेण सामण्ण-

§ ७३३. 'तदो' अर्थात् पूर्वमें विवक्षित जघन्य सत्कर्मस्थानसे एक प्रदेश अधिक सत्कर्मके होने पर वहाँ पर भी वे ही प्रथम परिपाटीमे कहे गये असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उस प्रकारके सत्कर्मके भेदमे अन्य संक्रमस्थानकी उत्पत्तिका नियम नहीं है । इस प्रकार दो प्रदेश अधिक, तीन प्रदेश अधिक, चार प्रदेश अधिक, पाँच प्रदेश अधिक, संख्यात प्रदेश अधिक, असंख्यात प्रदेश अधिक या अनन्त प्रदेश अधिक जघन्य सत्कर्ममे वे ही संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार अनन्त भागवृद्धिके साथ जाकर जघन्य सत्कर्मस्थानको जघन्य परितानन्तसे भाजित कर वहाँ पर प्राप्त हुए एक खण्डमात्र परमाणु उस जघन्य सत्कर्ममें मिलाने पर भी वे ही पुनरुक्त संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं यह इस सूत्रका भावार्थ है ।

* असंख्यात लोकभाग प्रमाण द्रव्यके प्रक्षिप्त करने पर दूसरी संक्रमस्थान परिपाटी होती है ।

§ ७३४. यह तात्पर्य है कि जघन्य सत्कर्मस्थानमे तत्प्रायोग्य असंख्यात लोकका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आवे उसे उसी राशिमे प्रक्षिप्त करने पर जो सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है उससे परिणामस्थानोंका आश्रय लेकर प्रथम संक्रमस्थान परिपाटीके आगे परिणामस्थानप्रमाण आयामवाली दूसरी संक्रमस्थानपरिपाटी उत्पन्न होती है । इस प्रकार इस सूत्र द्वारा असंख्यात भागवृद्धिके विषयमें भी अनन्त सत्कर्मस्थानोंको उल्लंघन कर वहाँ प्राप्त हुए विषयमे प्रकृत सत्कर्मस्थानकी उत्पत्ति होती है यह ज्ञान कराया गया है । अब 'असंखेजलोगभागे पक्खित्ते' इस

वयणेण संतकम्मपक्खेवपमाणविसयो सममवगमो ण जादो त्ति पुणो वि विसेसिऊण संतकम्मपक्खेवपमाणावहारणडुं उवरिमसुत्तावयारो—

❀ जो जहणणगो पक्खेवो जहणणए कम्मसरीरे तदो जो च जहणणगो कम्मे विदियसंकमट्टाणविसेसो सो असंखेज्जगुणो ।

§ ७३५. एत्थ जहणणए कम्मसरीरे त्ति वयणेण अधापवत्तकरणचरिमसमयजहणण-संतकम्मस्स गहणं कायव्वं । कम्मस्स सरीरं कम्मसरीरमिदि कम्मक्खंधस्सेव विवविखय-त्तादो । तत्थ जो जहणणगो पक्खेवो त्ति बुत्ते विदियसंकमट्टाणपरिवाडिणिबंधणसंतकम्म-पक्खेवस्स गहणं कायव्वं । किमेसो संतकम्मपक्खेवो बहुओ, किं वा जहणणए चेव कम्मे जं विदियं संकमट्टाणं तस्स विसेसो बहुगो त्ति एवंविहासंकाए णिरारेगीकरणट्टमिदं बुच्चदे—‘तदो जो च जहणणए कम्मे’ इच्चादि । एतदुक्तं भवति—तदो संतकम्मपक्खे-वादो जहणणसंतकम्मस्सासंखेज्जलोगपडिभागियादो जो जहणणए कम्मे संकामिज्जमाणे विदियसंकमट्टाणस्स विसेसो सो असंखेज्जगुणो होइ त्ति । तं जहा— जहणणसंकमट्टाणमसंखेज्जलोगेहि खंडेऊणोगखंडे तत्थेव पडिरासिय पक्खित्ते पढमपरिवाडिविदियसंकमट्टाणमुप्पज्जदि । एत्थ पक्खित्तमेयखंडपमाणविदिय-संकमट्टाणविसेसो णाम । एवंविहसंकमट्टाणविसेसे पुणो वि तप्पाओग्गासंखेज्जलोगमेत्त-

सामान्य वचन द्वारा सत्कर्मके प्रक्षेपका प्रमाण कितना है यह ठीक तरहसे नहीं जाना जाता है इसलिए फिर भी विशेषरूपसे सत्कर्मके प्रक्षेप प्रमाणका निश्चय करने के लिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं—

जघन्य सत्कर्ममें जो जघन्य प्रक्षेप है, उससे जघन्य सत्कर्ममें जो दूसरा संक्रमस्थानविशेष है, वह असंख्यातगुणा है ।

§ ७३५. यहाँ पर जघन्य कर्मशरीर इस वचनसे अध.प्रवृत्तकरणके अन्ततम समयमें प्राप्त हुए जघन्य सत्कर्मका ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कर्मका शरीर वह कर्मशरीर इस प्रकार इस पद द्वारा कर्मस्कन्ध ही विवक्षित किया गया है । उसमें जो जघन्य प्रक्षेप है ऐसा कहने पर द्वितीय संक्रमस्थान परिपाटीके कारणभूत सत्कर्मके प्रक्षेपका ग्रहण करना चाहिए । क्या यह संक्रमप्रक्षेप बहुत है या क्या जघन्य कर्ममें ही जो दूसरा संक्रमस्थान है उसका विशेष बहुत है इस प्रकारकी आशंका होने पर उसका निराकरण करनेके लिए यह कहते हैं—तदो जो च जहणणए कम्मे इत्यादि । यह उक्त कथनका तात्पर्य है कि उस सत्कर्मप्रक्षेपसे, जघन्य सत्कर्मके असंख्यात लोक-भागना अधिक जघन्य सत्कर्मके संक्रमित होने पर जो द्वितीय संक्रमस्थानका विशेष प्राप्त होता है, यह असंख्यातगुणा होता है । यथा—जघन्य संक्रमस्थानविशेषको असंख्यात लोकसे भाजित कर जो एक खण्ड प्राप्त हो उसे उसी जघन्य संक्रमस्थानमें मिला देने पर प्रथम परिपाटीका दूसरा संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । यहाँ पर मिलाया गया एक खण्डका प्रमाण द्वितीय संक्रमस्थानका विशेष है । इन प्रकारके संक्रमस्थान विशेषको फिर भी तत्रायोग्य असंख्यात लोकप्रमाण संख्यासे भाजित

रूवेहि भागे हिदे भागलद्धमेतो संतकम्मपक्खेवो त्ति भण्णदे । जइ वि विदियसंकमट्टाण-
विसेसस्सासंखेज्जदिभागो त्ति सुत्ते सामण्णेण परूविदं तो वि तस्सासंखेज्जलोगपडिभागिओ
त्ति णव्वदे वक्खाणादो ।

§ ७३६. संपहि जहण्णसंतकम्ममस्सिऊण संतकम्मपक्खेवपमाणमाणिज्जदे । तं जहा-
एगमेइं दियसमयपवद्धं ठविय दिवड्डुगुणहाणीए गुणिदे एइं दियजहण्णसंतकम्ममागच्छदि ।
पुणो अंतोमुहुत्तेणोवट्टिदोक्कड्डु कड्डुणभागहारो तस्स भागहारत्तेण ठवेयव्वो । एवं ठविदे
असण्णिपंचिदिएसु देवेषु च उक्कड्डिददव्वमागच्छदि । एवमुक्कड्डिददव्वं वेळोवट्टिकालब्भंतरे
गालेदि त्ति त्कालब्भंतरणाणागुणहाणिसलागाओ विरलिय विगं करिय अण्णोण्णव्वत्थ-
रासिणा तम्मि ओवट्टिदे एत्तियमेत्तकालगलिदावसेसमधापवत्तकरणचरिमसनयजहण्णसंत-
कम्ममागच्छदि । एत्तो अधापवत्तकरणचरिमसमए संकामिददव्वमिच्छामो त्ति अंगुलस्सा-
संखेज्जभागमेत्तविज्जादभागहारेण तम्मि भागे हिदे जहण्णसंकमट्टाणमुप्पज्जदि । पुणो
तम्मि तप्पाओग्गासंखेज्जलोगमेत्तभागहारेणोवट्टिदे विदियसंकमट्टाणविसेसो होइ । पुणो
अण्णेणासंखेज्जलोगभागहारेण तम्मि भाजिदे संतकम्मपक्खेवपमाणमागच्छदि त्ति णिच्छओ
कायव्वो । तदो एवंविहसंतकम्मपक्खेवे पडिरासिदजहण्णसंतकम्मस्सुवरि पक्खित्ते विदिय-
संकमट्टाणपरिवाडिणिमित्तभूदमसंखेज्जलोगभागुत्तरविदियसंतकम्मट्टाणमुप्पज्जदि त्ति सिद्धं ।

करने पर जो भाग लब्ध आवे तत्प्रमाण सत्कर्मप्रक्षेप कहा जाता है । यद्यपि वह द्वितीय संक्रम-
स्थान विशेषका असंख्यातवा भागप्रमाण है ऐसा सूत्रमे सामान्य रूपसे कहा गया है तो भी वह
असंख्यात लोकसे भाजित होकर एक भागप्रमाण है यह बात व्याख्यानसे जानी जाती है ।

§ ७३६. अब जघन्य सत्कर्मका आश्रय लेकर सत्कर्मके प्रक्षेपका प्रमाण लाते हैं । यथा—
एकेन्द्रियसम्बन्धी एक समयप्रबद्धको स्थापित कर द्वयर्थ गुणहानिसे गुणित करने पर एकेन्द्रिय
सम्बन्धी सत्कर्म आता है । पुनः अन्तर्मुहूर्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षणभागहारको उसके भाग-
हाररूपसे स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार स्थापित करने पर असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमे और देवोंमे
उत्कर्षणको प्राप्त हुआ द्रव्य आता है । इस प्रकार उत्कर्षित हुए द्रव्यको दो छयासठ सागर कालके
भीतर गलाता है इसलिए उस कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानिशलाकाओंका विरलन करके
और विरलित राशिके प्रत्येक एकको दृना करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उससे
उसके भाजित करने पर इतने कालके भीतर गलाकर जो राशि शेष बचती है तत्प्रमाण अधःप्रवृत्त-
करणके अन्तिम समयमे जघन्य सत्कर्म आता है । अब इसमेसे अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे
संकमित होनेवाला द्रव्य लाना चाहते हैं इसलिए अंगुलके असंख्यातवा भागप्रमाण विध्यात भाग-
हारके द्वारा उसके भाजित करने पर जघन्य संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । पुनः उसमे तत्प्रायोग्य
असंख्यात लोकप्रमाण भागहारका भाग देने पर द्वितीय संक्रमस्थानके विशेषका प्रमाण होता है ।
पुनः अन्य असंख्यात लोकप्रमाण भागहारका उसमें भाग देने पर सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण आता
है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए । इस लिए इस प्रकारके सत्कर्मप्रक्षेपको प्रतिराशिभूत जघन्य
सत्कर्मके ऊपर प्रक्षिप्त करने पर द्वितीय संक्रमस्थान परिपाटीका निमित्तभूत असंख्यात लोकसे भाजित

संपहि एवंविहपक्खेवुत्तरजहण्णसंतकम्ममवलंबिय अधापवत्तकरणचरिमसमयजहण्णादि-
परिणामट्ठाणेषु जहाकमं परिणदणाणाकालसंबंधिणाणाजीवसंकमवसेण विदियसंकम-
ट्ठाणपरिवाडिपरूपाणा पढमपरिवाडिभंगेणाणुगंतव्वा । णवरि पढमपरिवाडिजहण्णसंकम-
ट्ठाणादो असंखेज्जलोगभागुत्तरं होदूण तत्थतणविदियसंकमट्ठाणादो विसेसहीणमसंखेज्ज-
लोगपडिभागेण संपहियजहण्णसंकमट्ठाणमुप्पज्जदि त्ति घेतव्वं । एवं विदियादो विदियं
तदियादो तदियमिच्चादिकमेण सव्वत्थ रोदव्वं । संपहि एदस्सेवत्थस्स फुडीकरणडुमुत्तर-
सुत्तं भणइ—

❀ एत्थ वि असंखेज्जा लोगा संकमट्ठाणाणि ।

१ ७३७. जहा जहण्णए संतकम्मट्ठाणे असंखेज्जलोगमेत्ताणि संकमट्ठाणाणि
परूविदाणि एवमेत्थ वि पक्खेवुत्तरजहण्णसंतकम्मट्ठाणे तत्तियमेत्ताणि चैव संकमट्ठाणाणि
णिरवसेसमणुगंतव्वाणि, विसेसाभावादो त्ति भणिदं होइ । एवं विदियपरिवाडीए संकम-
ट्ठाणपरूपाणा समत्ता । संपहि एदीए दिसाए तदियादिपरिवाडीणं पि परूवणा कायव्वा
त्ति समप्पणं कृणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ एवं सव्वासु परिवाडोसु ।

एक भाग अधिक द्वितीय सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है यह सिद्ध हुआ । यहाँ पर इस प्रकार
एक प्रश्न अधिक जवन्य सत्कर्मका अवलम्बन लेकर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयसम्बन्धी
जवन्य आदि परिणामस्थानोंमें क्रमसे परिणत हुए नाना कालसम्बन्धी नाना जीवोंके संक्रमके
वशासे द्वितीय संक्रमस्थानपरिपाटीको प्रह्राणा प्रथम परिपाटीके समान जान लेना चाहिए । किन्तु
इतनी विशेषता है कि प्रथम परिपाटीके जवन्य सक्रमस्थानसे असंख्यात लोकसे भाजित एक भाग
अधिक होकर वहाँ सम्बन्धी द्वितीय संक्रमस्थानसे विशेष हीन असंख्यात भागरूपसे साम्प्रतिक
जवन्य संक्रमस्थान उत्पन्न होता है ऐसा यहाँ महण करना चाहिए । इस प्रकार दूसरेसे दूसरा और
तीसरेसे तीसरा इत्यादि क्रमसे सर्वत्र जानना चाहिए । अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए आगे
का सूत्र कहते हैं—

* यहाँ पर भी असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान होते हैं ।

१ ७३७. जिस प्रकार जवन्य सत्कर्मस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान कहे हैं
उन्ही प्रकार यहाँ पर भी एक प्रश्न अधिक जवन्य सत्कर्मस्थानमें उतने ही सक्रमस्थान पूरे जानने
चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अन्य कोई विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । इन प्रकार दूसरी
परिपाटीके अनुसार संक्रमस्थानोंको प्रह्राणा समाप्त हुई । अब इसी पद्धतिसे तृतीयपरिपाटियों
की भी प्रह्राणा करनी चाहिए इस प्रकारके कथनकी मुख्यता करके आगेका सूत्र कहते हैं—

* इसी प्रकार सब परिपाटियोंमें जानना चाहिए ।

§ ७३८. संपहि एदेण सुत्तेण समप्पिदतदियादिपरिवाडीणं परूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा—जहण्णसंतकम्मस्सुवरि दोसंतकम्मपक्खेपमाणे वड्ढिदे तदियपरिवाडीए णिमित्तभूदमण्णं संतकम्मद्व्याणमुप्पज्जदि । पुणो एवंविहसंतकम्ममधापवत्तकरणचरिमसमये जहण्णपरिणामेण संकामेमाणस्स विदियपरिवाडिजहण्णसंकमद्व्याणस्सुवरिमसंखेज्जलोगभागब्भहियं होदूण तदियसंकमद्व्याणपरिवाडीए पढमसंकमद्व्याणमुप्पज्जदि । एवं विदियादिपरिणामेहि मि परिणामिय संकामेमाणामवड्ढिदपक्खेवुत्तरक्रमेण परिणामद्व्याणमेत्ताणि चैव संक्रमद्व्याणाणि समुप्पाएयव्वाणि । एवमुप्पाइदे तदियपरिवाडीए संक्रमद्व्याणपरूवणा समत्ता होइ ।

§ ७३९. संपहि चउत्थपरिवाडीए भण्णमाणाए जहण्णसंतकम्मस्सुवरि तिण्हं संतकम्मपक्खेवाणं वड्ढिं कादूणागदस्स अधापवत्तकरणचरिमसमयम्मि जहण्णपरिणामेण परिणामिय विज्झादसंकमभागहारेण संकामेमाणस्स तदियपरिवाडिजहण्णसंकमद्व्याणस्सुवरि विसेसाहियं होदूण चउत्थपरिवाडीए पढमं संक्रमद्व्याणमुप्पज्जदि । संपहि एदं सतंकम्मं धुवं कादूण विदियादिपरिणामेहि संकामेमाणणाणाजीवे अस्सिरुण असंखेज्जलोगमेत्तसंकमद्व्याणाणि अवड्ढिदपक्खेवुत्तरक्रमेण पुवं व समुप्पाइय गेण्हिदव्वाणि । तदो चउत्थपरिवाडी समत्ता होइ । एवमेगेगसंतकम्मपक्खेवमर्णतराणंतरसंतकम्मद्व्याणादो अहियं कादूण पंचमादिपरिवाडीओ वि णेदव्वाओ, जत्थ असंखेज्जलोगमेत्ताणमेत्थतणसव्वपरि-

§ ७३८. अब इस सूत्रके द्वारा विवक्षित की गई तृतीय आदि परिपाटियोंका कथन करते हैं । यथा—जघन्य सत्कर्मके ऊपर दो सत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाणोंके बढ़ाने पर तीसरी परिपाटीका निमित्त-भूत अन्य सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है । पुन. इस प्रकारके सत्कर्मका अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे जघन्य परिणामके द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके दूसरी परिपाटीसे उत्पन्न हुए जघन्य संक्रम-स्थानके ऊपर असंख्यात लोक भाग अधिक होकर तृतीय संक्रमस्थान परिपाटीसे प्रथम संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । इसी प्रकार द्वितीय आदि परिणामोंके अवलम्बनसे भी परिणामा कर संक्रम करने वाले जीवोंके अवस्थित प्रक्षेप अधिकके क्रमसे परिणामस्थान मात्र ही संक्रमस्थान उत्पन्न करने चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न करने पर तीसरी परिपाटी समाप्त होती है ।

§ ७३९. अब चौथी परिपाटीका कथन करने पर जघन्य सत्कर्मके ऊपर तीन सत्कर्मप्रक्षेपोंकी वृद्धि करके प्राप्त हुए कर्मको अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे परिणामा कर विध्यातसंकमभागहारके द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके तृतीय परिपाटीके जघन्य संक्रमस्थानके ऊपर एक विशेष अधिक होकर चतुर्थ परिपाटीके अनुसार प्रथम संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । अब इस सत्कर्मको भ्रव करके द्वितीय आदि परिणामोंके आश्रयसे संक्रम करनेवाले नाना जीवोंका अवलम्बन लेकर उत्तरोत्तर अवस्थित प्रक्षेप अधिकके क्रमसे असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान पहलेके समान उत्पन्न करके ग्रहण करने चाहिए । तब जाकर चतुर्थ परिपाटी समाप्त होती है । इस प्रकार अनन्तर प्राप्त हुए सत्कर्मस्थानसे एक सत्कर्मप्रक्षेपको अधिक करके पाँचवी आदि परिपाटियाँ भी ले आनी चाहिए ।

वाडोगमवच्छिन्नपरिवाडी परिणामद्वारागमेतायामा समुष्पण्णा ति । तत्थ चरिमवियप्पं वत्तइस्सामो । तं जहा —

§ ७४०. एगो गुणिकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सत्तमपुढवीए उष्पज्जिय तत्थ मिच्छत्तदव्वमुक्कस्सं कादूण तत्तो णिप्पिदिय पुणो दो-तिण्णितिरिक्खभवग्गहणाणि अंतो-मुहुत्तकालपडिवद्वाणि समणुपालिय तदो समयविरोहेण देवेसुष्पज्जिय सव्वल्लहुं सव्वाहि पज्जत्तीहिं पज्जत्तयदो सम्मत्तं वेत्तण वेत्तावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय तदवसाणे मणुसेसुवज्जिय गग्गादिअट्टवस्साणमंतोमुहुत्तव्वभहियाणमुवरि दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्टिय अधापवत्तकरणचरिमसमए णाणाजीवसंवंधिणाणापरिणामणिबंधणचरिमपरि-वाडीए दुचरिमादिसव्ववियप्पे उक्कस्सपरिणामेण संकामेमाणो एत्थतणचरिमवियप्पसामिओ होइ । एवमुष्पण्णासेससंकमद्वारापरिवाडीओ असंखेज्जलोगमेत्तीओ होंति, जहण्णसंतकम्म-मुक्कस्ससंतकम्मादो सोहिय सुद्धसेसम्मि संतकम्मपक्खेवपमाणेण कीरमाणे असंखेज्जलोग-मेत्ताणं संतकम्मपक्खेवाणमुवलंभादो । तं जहा —

§ ७४१. जहण्णदव्वमिच्छिय दिवड्डुगुणहाणिगुणिकमेगमेइंदियसमयपवद्धं ठविय अंतोमुहुत्तोवट्टिदोक्कड्डुक्कड्डुगभागहारपदुष्पण्णेण वेत्तावट्टिसागरोणाणागुणहाणिसलागाण-मण्णोण्णवत्थरासिणा तम्मि ओवट्टिदे अधापवत्तकरणचरिमसमयजहण्णदव्वं होइ । पुणो

अत्र जहाँ पर असंख्यात लोकप्रमाण यहाँ सम्बन्धी सब परिपाटियोंकी अन्तिम परिपाटी परिणाम-स्थान मात्र आयामवाली उत्पन्न होती है' वहाँ पर अन्तिम भेदको बतलाते हैं । यथा —

§ ७४०. गुणितकर्मा शिकलक्षणसे आकर कोई एक जीव सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हो, वहाँ मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट कर फिर वहाँसे निकल कर पुनः अन्तर्मुहूर्त कालके भीतर तियेञ्चोंके दो तीन भव ग्रहण कर अनन्तर जिससे शास्त्रमें विरोध न आवे इस विधिसे देवोंमें उत्पन्न हो और अतिशीघ्र सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो तथा सम्यक्त्वको ग्रहण कर दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर उसके अन्तमें मनुष्योंमें उत्पन्न हो गर्भसे लेकर आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके बाद दर्शनमोहनीयकी चपणाके लिए उद्यत हो अथ प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें नाना जीवोंके सम्बन्धसे नाना परिणामनिमित्तक अन्तिम परिपाटीके द्विचरम आदि सब विकल्पोंको विता कर उत्कृष्ट परिणामसे सक्रमण करनेवाला जीव वहाँके अन्तिम विकल्पका स्वामी होता है । इस प्रकार उत्पन्न हुई समस्त सक्रमस्थानोंकी परिपाटियाँ असंख्यात लोकप्रमाण होती हैं, क्योंकि जघन्य सत्कर्मको उत्कृष्ट सत्कर्ममें घटा कर जो शेष बचे उसे सत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाणसे करनेपर असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मप्रक्षेप उपलब्ध होते हैं । यथा —

§ ७४१. जघन्य द्रव्यकी इच्छासे डेढ गुणहानिगुणित समयप्रवद्धको स्थापित कर अन्त-मुहूर्तमें भाजित अक्षर्यण-उत्कृष्टेण भागहारमें उत्पन्न दो छयासठ सागर कालके भीतर प्राप्त नाना गुणशानिशास्त्राकी अन्यान्याभ्यस्त राशिसे उसके भाजित करने पर अवःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जगन्ध द्रव्य प्राप्त होता है । पुनः वहाँ पर उत्कृष्ट द्रव्य लाना चाहते हैं इसलिए जघन्य द्रव्यके अक्षर्यण-उत्कृष्टेणभागहारसे गुणित योगगुणकरके गुणकारभावसे स्थापित करने

तत्थेवुकस्सदव्वमिच्छामो त्ति जहण्णदव्वस्स ओरुडुकड्डुणभागहारगुणिदजोगगुणगारे गुणगारभावेण ठविदे गुणिदकम्मंसियलकखणेणागंतूण वेळावड्डिसागरोवमाणि परिभमिय दंसणमोहकखण्णाए अब्भुट्ठिय अधापवत्तकरणचरिमसमए वट्टमाणस्स पयदुकस्सदव्व- मागच्छदि । एवमेदाणि दौण्णि दव्वाणि ठविय एत्थ जहण्णदव्वेणुकस्सदव्वे ओवड्डिदे जोगगुणगारपदुप्पणोेरुडुकड्डुणभागहारो आगच्छदि । पुणो एदेण भागलद्वेण जहण्ण- दव्वावणयणडं रूवणीकएण जहण्णदव्वे गुणिदे जहण्णदव्वे उकस्सदव्वादो सोहिदे सुद्धसेसदव्वमागच्छदि । संपहि एदं दव्वं संतकम्मपक्खेवपमाणेण कस्सामो तं कधमेदस्स हेट्ठा मिज्झादभागहारं वेअसंखेज्जलगे जोगगुणगारोरुडुकड्डुणभागहाराणं रूवणणोण्ण- गुणिदरासिं च संवग्गिय विरलेऊण सुद्धसेसदव्वे समखंडं कादूण दिण्णे एक्केकस्स रूवस्स संतकम्मपक्खेवपमाणं पावइ । संपहि एदिस्से विरलणाए जत्तियाणि रूवाणि तत्तियाओ चेए एत्थुप्पणसंक्रमट्टाणपरिवाडीओ हवंति, संतकम्मपक्खेवं पडि एक्केकिस्से चेए संक्रमट्टाणपरिवाडीए समुप्पाइदत्तादो । एदिस्से च विरलणाए आयामो असंखेज्ज- लोममेत्तो त्ति णत्थि संदेहो, पुव्वुत्तपंचभागहाराणमणोण्णसंवग्गेणुप्पणरासिस्स तप्पमाणत्ताविरोहादो । णरि जहण्णसंतकम्मणिवंधणपठमपरिवाडिसंगहण्णद्वेसा विरलणा रूवाहिया कायव्वा । पुणो एदेणायामेण परिणामट्टाणमेत्तविकखंभे गुणिदे सव्वासिं

पर गुणितकर्मांशिकलक्षणसे आकर दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर दर्शनमोहनीयकी क्षणके लिए उद्यत हो अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमे विद्यमान जीवके प्रकृत उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त होता है । इस प्रकार इन दोनों द्रव्योंको स्थापित कर यहाँ पर जवन्य द्रव्यका उत्कृष्ट द्रव्यमे भाग देने पर योगगुणकारसं गुणित अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार आता है । पुनः जवन्य द्रव्यके घटानेके लिए इस भागलव्वको एक कम करके उससे जवन्य द्रव्यके गुणित करने पर तथा जवन्य द्रव्यको उत्कृष्ट द्रव्योंमेसे घटाने पर शुद्ध शेष द्रव्य आता है । अब इस द्रव्यको सत्कर्म प्रक्षेपके प्रमाणसे करते हैं ।

शका—वह कैसे ?

समाधान—इसके नीचे विध्यात भागहारको तथा दो असंख्यात लोक और योगगुणकार तथा अपकर्षण उत्कर्षणभागहारकी एक कम परस्पर गुणित राशिकी परस्पर संवर्गित कर और विरलन कर उस विरलित राशिके प्रत्येक एक पर शुद्ध शेष द्रव्यको समान खण्ड कर देने पर एक एक रूपके प्रति सत्कर्म प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है । यहाँ पर इस विरलनके जितने रूप हैं उतनी ही यहाँ पर उत्पन्न हुई संक्रम परिपाटियाँ होती हैं, क्योंकि सत्कर्म प्रक्षेपके प्रति नियमसे एक एक संक्रम-स्थान परिपाटी उत्पन्न की गई है । और इस विरलनका आयाम असंख्यात लोकप्रमाण है इसमे सन्देह नहीं, क्योंकि पूर्वोक्त पाँच भागहारोंके परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न हुई राशि तत्प्रमाण होनेमे कोई विरोध नहीं आता । किन्तु इतनी विशेषता है कि जवन्य सत्कर्मनिमित्तक प्रथम परिपाटीका संग्रह करनेके लिए यह विरलन एक अधिक करना चाहिए । पुनः इस आयामसे परिणामस्थान मात्र

परिवाडीणं सव्वसंक्रमणाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि होंति । किमेत्थ संक्रमणाणपरिवाडीण-
मायामो बहुगो कि वा विकखंभो ति पुच्छिदे विकखंभादो आयामो असंखेज्जगुणो ।
कुदो एदमवगम्मदे ? पढमपरिवाडिजहण्णसंक्रमणादो तत्थेवुकस्ससंक्रमणां विसेसाहियं
इदि सुत्ताविरुद्धपुव्वाइरियवक्खाणादो । तदो एत्थुप्पणासेससंक्रमणाणं पमाणमसंखेज्जा
लोगा ति सिद्धं ।

§ ७४२. संपहि एदं चरिमवियप्पपडिवद्धसंतकम्मं समऊणहुसमऊणादिक्रमेण
वेळावड्डिकालं सव्वमोदारिय गुणिदकम्मंसियस्स कालपरिहाणीए ठाणपरूवणं वत्तइस्सामो ।
तं जहा—एगो गुणिदकम्मंसिओ सत्तमपुढवीए मिच्छत्तदव्वमुकस्सं करेमाणो एयगोवुच्छ-
मेत्तेणणं कादूण तत्तो णिप्पिडिय दो-तिण्णितिरिक्खभवग्गाहणाणि बोलाविय सव्वलहुं
देवेसुप्पज्जिय सम्मत्तपडिलंभेण समऊणवेळावड्डीओ भमियूण दंसणमोहक्खवणाए
अव्वुड्डिय अथापवत्तकरणचरिमसमयम्मि वट्टमाणो सयलुवेळावड्डीओ भमिय अथापवत्त-
चरिमसमयम्मि पुव्वमुप्पाइदसंक्रमणासंतकम्मिण सारिसो- तं मोत्तण इमं वेत्तण अप्पणो
ऊणीकयदव्वमेत्तमेत्थ वड्ढावेयव्वं । तं कथं वड्ढाविज्जदि ति वुत्ते वुच्चदे । ओकडुकडुण-
भागहारं जोगगुणहारं विज्जादसंक्रमभागहारं वेअसंखेज्जा लोगे च अण्णोण्णगुणे कादूण

विष्कम्भके गुणित करने पर सब परिपाटियोंके सब संक्रमस्थान असंख्यात लोकप्रमाण होते हैं ।
क्या यहाँ पर संक्रमस्थान परिपाटियोंका आयाम बहुत है या विष्कम्भ बहुत है ऐसा पूछने पर
विष्कम्भसे आयाम असंख्यातगुणा है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—प्रथम परिपाटीके जवन्य संक्रमस्थानसे वहीं पर उत्कृष्ट संक्रमस्थान विशेष
अधिक है इस सूत्रके अविरुद्ध पूर्वाचार्यके व्याख्यानसे जाना जाता है ।

इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक यह
सिद्ध हुआ ।

§ ७४२. अब अन्तिम विकल्पसे सम्बन्ध रखनेवाले इस सत्कर्मको एक समय कम, दो
समय कम आदिके क्रमसे दो छ्वासठ सागरके सब कालको उतार कर गुणितकर्मांशिक जीवके
काल परिहानिसे स्थान प्ररूपणाको बतलाते हैं । यथा—सातवीं पृथिवीमे मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट
कर तथा उसमेसे एक गोपुच्छामात्र कम करके और वहाँसे निकल कर तथा दो-तीन तिर्यञ्च भवोंको
विताकर अतिशीघ्र देवोंमे उत्पन्न होकर सम्यक्त्वको प्राप्त कर एक समय कम दो छ्वासठ सागर
काल वरु भ्रमण कर तथा दर्शनमोहनीयकी चरणोंके लिए उद्यत हो अथःप्रवृत्तकरणके अन्तिम
समयमें प्रियमान कोई एक गुणित कर्मांशिक जीव पूरे दो छ्वासठ सागर काल तक भ्रमण कर
अथःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें पूर्वमे उत्पादित संक्रमस्थानसत्कर्मके समान है, इसलिए उसे
द्रोत्र कर और इमे प्रहण कर अपना कम किया गया मात्र द्रव्य यहाँ पर बढ़ाना चाहिए । वह
कैसे बढ़ाया जाता है ऐसा पूछने पर कहेते हैं—अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार, योगगुणहार,
विष्वात मरुमभागहार और दो असंख्यात लोकोंको परस्पर गुणितकर तथा डेढ गुणहानिसे भाजित

दिवङ्गुणहाणीए ओवट्टिय विरलिऊण्येयगोबुच्छद्वं समखंडं करिय दिण्णे तत्थेगेगरूवस्स एगेगसंतकम्मपक्खेवपमाणं पावइ । पुणो एत्थेगरूवधरिदं वेत्तूण पुव्विज्जलसंतकम्मस्सुवरि पक्खित्ते अण्णमपुणरुत्तसंकमट्टाणाणिवंधणं संतकम्मट्टाणमुप्पज्जदि । एदमस्सिदूण पुव्वुप्पण्ण-संकमट्टाणाणमुवरि परिणामट्टाणमेत्तविकखंभेणासंखेज्जलोगभागवट्टीए अण्णा अपुणरुत्त-संतकम्मट्टाणपरिवाडी समुप्पाएयव्वा । एवमुप्पण्णुप्पण्णसंतकम्मस्सुवरि एगेगसंतकम्म-पक्खेवं पक्खिविय शेदवं जाव विरलणरासिमेत्ता संतकम्मपक्खेवा पइट्ठा ति । एवं पविट्ठे पुव्वुप्पण्णसंकमट्टाणाणमुवरि विरलणरासिमेत्तीओ चैव अपुणरुत्तसंकमट्टाण-परिवाडीओ समुप्पण्णाओ । एवं वट्टाविदे समयूणवेत्तावट्टिचरिमसमयअधापवत्तद्वं पि उक्कस्सं जादं । णवरि एयसमयमोकड्डिऊण विणासिदद्वमेत्तमेगसमयविज्झादसंकम-द्वमेत्तं च एत्थ अधियमत्थि । तं पि संतकम्मपक्खेवपमाणं कादूण जाणिय वट्टावेयवं । एसो विसेसो उवरि वि सव्वत्थ वत्तव्वो ।

§ ७४३. पुणो अण्णेगो गुणिदकम्मंसिओ सतमपुट्ठीए मिच्छत्तद्वमुक्कस्सं करेमाणो तत्थेयगोबुच्छद्वमेत्तेणणं कादूण तत्तो णिस्सरिय पुव्वविहाणेण सव्वलहुं सम्मत्तमुप्पाइय दुसमऊणवेत्तावट्टीओ परिभमिय दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्टिय चरिम-समयअधापवत्तकरणो होदूण ट्टिदो । एसो पुव्विज्जलेण सरिसो । पुणो तत्परिहारेण इमं वेत्तूण पुव्वविहाणेण अप्पणो ऊणीकयद्वमेत्तमेत्थ वट्टाविय गेण्हद्वं । एदेण विधिणा

कर जो लब्ध आवे उसे विरलन कर उस पर एक गोपुच्छामात्र द्रव्यको समान खंड कर देने पर वहाँ एक एक विरलन अंकके प्रति एक एक सत्कर्म प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है । पुनः यहाँ पर एक विरलन अंकके प्रति प्राप्त द्रव्यको ग्रहण कर पहलेके सत्कर्मके ऊपर प्रक्षेप करने पर अन्य अपुनरुक्त संक्रमस्थानका कारणभूत सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है । अब इसका आश्रय कर पूर्वमे उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोंके ऊपर परिणामस्थानमात्र विष्कम्भके साथ असंख्यात लोक भागवृद्धिसे अन्य अपुनरुक्त सत्कर्मस्थान परिपाटी उत्पन्न करनी चाहिए । इस प्रकार पुनः उत्पन्न हुए सत्कर्मके ऊपर एक एक सत्कर्म प्रक्षेपको प्रक्षेप कर विरलन राशिके बराबर सत्कर्मप्रक्षेपोंके प्रविष्ट होने तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार प्रविष्ट होने पर पूर्वमे उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोंके ऊपर विरलन राशि प्रमाण ही अपुनरुक्त संक्रमस्थान परिपाटियाँ उत्पन्न हुई हैं । इस प्रकार बढ़ाने पर एक समय कम दो छत्यासठ सागर कालके अन्तिम समयमे अधःप्रवृत्त द्रव्य भी उत्कृष्ट हो गया । किन्तु इतनी विशेषता है कि एक समयमे अपकर्षित होकर विनाशको प्राप्त होनेवाला द्रव्य तथा एक समयमे विध्यातसंकमद्रव्य यहाँ पर अधिक हैं, इसलिए उसे भी सत्कर्मप्रक्षेपप्रमाण करके जानकर बढ़ाना चाहिए । यह विशेष आगे भी सर्वत्र कहना चाहिए ।

§ ७४३. पुनः सातवीं पृथिवीमे मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करनेवाला अन्य एक गुणित कर्मांशिक जो जीव उसमे एक गोपुच्छामात्र द्रव्यसे न्यून करके और वहाँ से निकल कर पूर्वोक्त विधिसे अतिशीघ्र सम्यक्त्वको उत्पन्न कर दो समय कम दो छत्यासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर दर्शनमोहनीयकी क्षणके लिए उद्यत हो अन्तिम समयवर्ती अधःप्रवृत्तकरण होकर स्थित है वह पहलेके जीवके सदृश है । पुनः उसके परिहार द्वारा इसे ग्रहण कर पूर्व विधिसे अपने कम क्रिय

तिसमऊण-चदुसमऊण-पंचसमऊणादिकमेण वेछावड्डिकालो सव्वो संधीओ जाणिऊणो-
 दारेयव्वो जाव चरिमवियप्पं पत्तो त्ति । तत्थ सव्वचरिमवियप्पे भण्णमाणे एगो
 गुणिदकम्मंसिओ सत्तमपुढवीए मिच्छत्तदव्वमोघुक्कस्सं कादूण दो-तिण्णिभवग्गहणाणि
 तिरिक्खेसु गमिय तदो मणुसेसुववज्जिय अट्टवस्साणमंतोमुहुत्ताहियाणमुवरि उवसम-
 सम्मत्तं घेत्तण तक्कालव्वभंतरे चेवाणंताणुवंधिचउक्कं विसंजोइय तदो वेदयसम्मत्तं पडि-
 वज्जिय सव्वेजहण्णंतोमुहुत्तकालेण दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्टिय अधापवत्तकरणचरिम-
 समए वट्टमाणो एत्थतणसव्वपच्छिमवियप्पसामिओ होइ ।

§ ७४४. संपहि एवमुप्पण्णासेससंक्रमट्टाणाणमायामविकखंभपमाणं केत्तियमिदि
 भणिदे असंखेज्जलोगमेत्तं होइ । तं कथं ? खविदकम्मंसियजहण्णदव्वं गुणिदुक्कस्सदव्वादो
 सोहिय सुद्धसेसे जत्तिया संतकम्मपक्खेवा लव्वंति तत्तियमेत्तमेत्थायामपमाणं होइ ।
 तम्मि आणिज्जमाणो जहण्णदव्वमिच्छिय दिवड्डुगुणहाणिगुणिदमेदमेइं दियसमयपवद्धं
 ठविय अंतोमुहुत्तोवड्डिदोक्कड्डुणभागहारेण वेछावड्डिकालव्वभंतरे णाणागुणहाणिसला-
 गाणमण्णोणव्वभत्थरासिणा? तम्मि भागे हिदे अधापवत्तचरिमसमयजहण्णदव्वमागच्छदि ।
 एदमेवं चैव ठविय उक्कस्सदव्वमिच्छामो त्ति दिवड्डुगुणहाणिगुणिदमेगमेइं दियसमयपवद्धं

गये द्रव्यमात्रको बड़ा कर ग्रहण करना चाहिए । इस विधिसे तीन समय कम, चार समय कम
 और पाँच समय कम आदि क्रमसे पूरा दो छत्यासठ सागर काल सन्धियोंको जानकर अन्तिम
 विकल्पके प्राप्त होने तक उतारना चाहिए । वहाँ सबसे अन्तिम विकल्पका कथन करने पर जो कोई
 एक गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीमे मिथ्यात्वके द्रव्यको ओव उत्कृष्ट करके तथा तिर्यञ्चोमे
 दो-तीन भव विताकर अनन्तर मनुष्योंमे उत्पन्न होकर आठ वर्ष और अन्तर्मुहूर्तके बाद उपशम
 सम्यक्त्वको ग्रहण कर उस कालके भीतर ही अनन्तानुवन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके अनन्तर
 वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त होकर सबसे जघन्य अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा दर्शनमोहनीयकी क्षणके
 लिए उद्यत होकर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान है वह यहाँके सबसे अन्तिम
 विकल्पका स्वामी होता है ।

§ ७४४. अब इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंके आयाम और विकल्पका
 प्रमाण कितना है ऐसा पूछने पर असंख्यात लोकप्रमाण है ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि क्षपित कर्मांशिक जीवके जघन्य द्रव्यको गुणितकर्मांशिक जीवके
 उत्कृष्ट द्रव्यमेसे घटा कर शेष बचे द्रव्यमे जितने सत्कर्मप्रक्षेप प्राप्त होते हैं उतना यहाँ पर आयाम
 का प्रमाण होता है । उसके लाने पर जघन्य द्रव्यके लानेकी इच्छासे डेढ़ गुणहानिसे गुणित
 एकेन्द्रिय सन्ध्वी एक समयप्रवद्धको स्थापित कर अन्तर्मुहूर्तसे भाजित अपकर्षण-उत्कर्षणभाग-
 द्वारमे तथा दो छत्यासठ सागर कालके भीतर नाना गुणहानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशिसे
 उसके भाजित करने पर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य द्रव्य आता है । पुन इसे इसी

१ आत्मीय तथा च तत्पत्तो गली (जिना) रत्न पाठ ।

ठविय जोगगुणगारेण गुणिदे पयदविसयुकस्सदव्वं होइ । एत्थ जहण्णदव्वेणुकस्सदव्वे
भागे हिदे भागलद्धमोकडुकडुणभागहार०—वेछावट्टि०अण्णोण्णभत्थरासि-जोगगुणगाराण-
मण्णोण्णसंवग्गमेत्तं होइ । पुणो एदेण भागलद्धेण रूवूणेण जहण्णदव्वे गुणिदे जहण्णदव्व-
मुकस्सदव्वादो सोहिय सुद्धसेसदव्वमागच्छइ ।

§ ७४५. संपहि एदं दव्वं संतकम्मपक्खेवपमाणेण कस्सामो । तं जहा—एय-
जहण्णसंतकम्ममेत्तदव्वादो जइ विज्झादभागहारवेअसंखेज्जलोगाणमण्णोण्णभासजणिद-
रासिमेत्ता संतकम्मपक्खेवा लब्भंति तो ओकडुकडुण०भागहारवेछावट्टि-अण्णोण्णभत्थ-
रासि-जोगगुणगाराणमण्णोण्णसंवग्गजणिदरूवूणरासिमेत्तजहण्णसंतकम्मेसु केत्तियमेत्ते
संतकम्मपक्खेवे लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदिच्छाए ओवट्टिदाए ओकडुकडु०भागहारवे-
छावट्टिसागरोवमअण्णोण्णभत्थरासि-जोगगुणगार - विज्झादभागहार - वेअसंखेज्जलोगाण-
मण्णोण्णसंवग्गमेत्ता संतकम्मपक्खेवा लद्धा हवंति । तदो इमे छ्भागहारे अण्णोण्ण-
भत्थसरूवे विरलेऊण पुव्विण्लसुद्धसेसदव्वे समखंडं करिय दिण्णे विरलणरूवं पडि
एगेससंतकम्मपक्खेवपमाणं पावेदि त्ति एत्थुप्पण्णासेससंतकम्मट्टाणपरिवाडीणमायामो
विरलणरासिमेत्तो चेव होइ । णवरि जहण्णसंतकम्मविसयजहण्णपरिवाडीसंगहण्णद्वमेसा

प्रकार स्थापित कर उत्कृष्ट द्रव्य लानेकी इच्छासे डेढ़ गुणहानि से गुणित एकेन्द्रिय सम्बन्धी एक
समय प्रबद्धको स्थापित कर योगगुणकारके द्वारा गुणित करने पर प्रकृत विषय सम्बन्धी उत्कृष्ट
द्रव्य होता है । यहाँ पर जघन्य द्रव्यका उत्कृष्ट द्रव्यमे भाग देने पर जो लब्ध आवे वह अपकर्षण-
उत्कर्षणभागहार, दो छ्यासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्तराशि और योगगुणकारके परस्पर संवर्गित
प्रमाण होता है । पुन. एक कम इस भाग लब्धसे जघन्य द्रव्यके गुणित करने पर जघन्य द्रव्यको
उत्कृष्ट द्रव्यमेसे घटा कर शुद्ध शेष द्रव्य आता है ।

§ ७४५. अब इस द्रव्यको सत्कर्म प्रक्षेप प्रमाण करते हैं । यथा—एक जघन्य सत्कर्ममात्र
द्रव्यसे यदि विन्यातभागहार और दो असंख्यात लोकोंके परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न हुई राशि-
प्रमाण सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होते हैं तो अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार, दो छ्यासठ सागरकी अन्यो-
न्याभ्यस्त राशि और योगगुणकारके परस्पर संवर्गसे उत्पन्न हुई एक कम राशिप्रमाण जघन्य
सत्कर्मोंमे कितने सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त होंगे इस प्रकार फल गुणित इच्छामे प्रमाणका भाग देने पर
अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार, दो छ्यासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्त राशि, योगगुणकार, विन्यात
भागहार और दो असंख्यात लोकोंके परस्पर संवर्गमात्र सत्कर्मप्रक्षेप प्राप्त होते हैं । इसलिए परस्पर
गुणितरूप इन छह भागहारोंका विरलनकर पूर्वके शुद्ध शेष द्रव्यको समखण्ड करके देने पर प्रत्येक
विरलनके प्रति एक एक सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हुई समस्त
सत्कर्मस्थान परिपाटियोंका आयाम विरलन राशिप्रमाण ही होता है । किन्तु इतनी विशेषता है कि
जघन्य सत्कर्मविषयक जघन्य परिपाटीका संग्रह करनेके लिए यह विरलन एक अधिक करना

विरलणा रूवाहिया कायव्वा । विकखंभो पुण परिगामट्टाणमेत्तो सव्वपरिवाडीसु, तस्सावड्ढिसरूवेणु लंभादो । पुणो एदेसिं विकखंभायामाणं संवग्गे कदे एत्थुप्पण्णासेस-परिवाडीणं सव्वसंक्रमट्टाणाणि होति । एवं गुणिद०कालपरिहाणीए संक्रमट्टाणपरूवणा समत्ता ।

§ ७४६. संपहि तस्सेव संतमस्सिऊण ट्टाणपरूवणं कस्सामो । तं जहा—एगो खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण असण्णिपंचिदिएसु देवेषु च क्रमेणुप्पज्जिय अंतोमुहुत्तेण सव्वविसुद्धो होदूण सम्मत्तुपायणट्टं तिण्णि वि करणाणि कुणमाणो अधापवत्तकरणमणंतगुणोए विसोहीए त्रोलिय अपुव्वकरणं पविद्धो तत्थ गुणसेट्ठिमाढवेदि । तत्थापुव्वकरणपढमसमए असंखेज्जलोगमेत्ताणि गुणसेट्ठिणिवंधणपरिणामट्टाणाणि अत्थि । एवं विदियादिसमएसु वि । तेषु पढमसमयजहण्णपरिणामादो तत्थेवुक्कस्सपरिणामट्टाणमणंतगुणं, पढमसमयउक्कस्स-परिणामट्टाणादो विदियसमयजहण्णपरिणामट्टाणमणंतगुणं, तत्तो तत्थेवुक्कस्सपरिणाम-ट्टाणमणंतगुणं, विदियसमयउक्कस्सपरिणामादो तदियसमयजहण्णपरिणामट्टाणमणंतगुणं, तत्थेवुक्कस्सपरिणामट्टाणमणंतगुणं । एवमंतोमुहुत्तकालं गच्छदि जाव अपुव्वकरणचरिमसमयो ति । एत्थुक्कस्सपरिणामेहि चेव गुणसेट्ठिमेत्तो करावेयव्वो । किमट्टमेवं कराविज्जदे ? ण, अण्णहा मिच्छत्तदव्वस्स जहण्णभावाणुप्पत्तीदो ।

चाहिए । परन्तु विष्कम्भ परिणामस्थान प्रमाण है, क्योंकि सब परिपाटियोंमें वह अवस्थित रूपसे उपलब्ध होता है । पुन इन विष्कम्भों और आयामोंका परस्पर संवर्ग करने पर यहाँ पर उत्पन्न हुई सब परिपाटियोंके सब संक्रमस्थान होते हैं । इस प्रकार गुणितकर्मांशिक जीवके काल परि-हाणिका आश्रय लेकर संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ७४६. अब उसी जीवके सत्कर्मका आश्रय लेकर स्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं । यथा—कोई एक जीव ज्ञपितकर्मांशिकलक्षणसे आकर असंज्ञी पञ्चेन्द्रियोंमें और देवोंमें क्रमसे उत्पन्न होकर तथा अन्तर्मुहूर्तमें सब विशुद्ध होकर सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके लिए तीनों ही कारणोंको करता हुआ अथ.प्रवृत्तकरणको अनन्तगुणी विशुद्धिके साथ वितकर अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुआ और वहाँ गुणश्रेणिरचनाका आरम्भ किया । वहाँ अपूर्वकरणके प्रथम समयमें असंख्यात लोकमात्र गुणश्रेणिके कारणभूत परिणामस्थान होते हैं । इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी वे होते हैं । उनमें प्रथम समयके जवन्य परिणामसे वह उत्कृष्ट परिणामस्थान अनन्तगुणा हैं । तथा प्रथम समयके उत्कृष्ट परिणामस्थानसे दूसरे समयका जवन्य परिणामस्थान अनन्तगुणा हैं और उससे वही पर उत्कृष्ट परिणामस्थान अनन्तगुणा हैं । दूसरे समयके उत्कृष्ट परिणामस्थानसे तीसरे समयके जवन्य परिणाम स्थान अनन्तगुणा हैं । वहाँ पर उत्कृष्ट परिणामस्थान अनन्तगुणा हैं । इस प्रकार अपूर्वकरणका अन्तम समय प्राप्त होने तक अन्तर्मुहूर्त काल चला जाता है । यहाँ पर उत्कृष्ट परिणामोंके द्वारा ही गुणश्रेणिकी रचना करनी चाहिए ।

शंका—इस प्रकार किसलिए कराया जाता है ?

समाधान—नहीं, क्योंकि ऐसा कराये बिना मित्यात्वके द्रव्यका जवन्यपना नहीं उत्पन्न हो सकता ।

§ ७४७. तदो एदेण विहाणेणापुव्वकरणं समाणिय अणियड्डिकरणं पविट्ठो । एवं पविट्ठस्स असंखेज्जलोगमेत्तपरिणामट्टाणाणि णत्थि, अंतोमुहुत्तकालमेककेको चेव अणियड्डिपरिणामो होइ । तदो एत्थ वि गुणसेठीए बहुदव्वगालणं कादूण चरिमसमयमिच्छा-इट्ठी जादो । से काले उवसमसम्माइट्ठी होदूण तकाले चेव सम्मत्तसम्मामिच्छत्ताणि गुणसंक्रमेण पूरेमाणो सव्वुकस्सगुणसंक्रमकालेण सव्वजहणगुणसंक्रमभागहारेण च पूरेदि-त्ति वत्तव्वं मिच्छत्तदव्वस्स जहणणीकरणडुं अण्णहा तदणुपत्तीदो । एदेण विहिणा गुणसंक्रमकालं बोलिय विज्झादसंक्रमे पडिय अंतोमुहुत्तेण वेदयसम्मत्तं पडिवण्णो वेछा-वट्टिसागरोवमाणि परिभमिय अंतोमुहुत्तावसेसे दंसणमोहकखवगाए अब्भुट्टिय अधापवत्त-करणचरिमसमयम्मि जहण्णपरिणामणिवंधणविज्झादसंक्रमेण संक्रमेमाणो जहण्णसंक्रम-ट्टाणसामिओ होइ । संपहि एदमादिं कादूण असंखेज्जलोगमेत्तसंक्रमट्टाणाणि पुव्वविहाणे-णुप्पाइय गेण्हियव्याणि जाव एत्थतणदव्वमुकस्सं जादं ति ।

§ ७४८, तदो वेछावट्टिकालं सव्वं संतकम्मे ओदारिज्जमाणे अण्णेगो गुणिद-कम्मंसिओ सत्तमपुट्ठीए मिच्छत्तदव्वमुकस्सं करेमाणो तत्थेयगोबुच्छदव्वमेत्तमेयसमयमोक्-डुणाए विणासिददव्वमेत्तमेयसमयविज्झादसंक्रमदव्वमेत्तं च ऊणीकरियागंतूण असण्णि-पंचिदिण्णु देवेषु च जहाकममुप्पज्जिय सम्मत्तपडिलंभेण वेछावट्टीओ भमिय दुचरिमसमय-

§ ७४७. इसलिए इस विधिसे अपूर्वकरणको समाप्त कर अनिवृत्तिकरणमे प्रविष्ट हुआ । इस प्रकार प्रविष्ट हुए जीवके असंख्यात लोकप्राण परिणामस्थान नहीं हैं, क्योंकि अन्तर्मुहूर्त काल-तक एक एक ही अनिवृत्ति परिणाम होता है । इसलिए यहाँ पर भी गुणश्रेणिके द्वारा बहुत द्रव्यको गलाकर अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हो गया । तथा अनन्तर समयमे उपशमसम्यग्दृष्टि होकर उसी समय सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वको गुणसंक्रमके द्वारा पूरता हुआ सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके कालके द्वारा और सबसे जघन्य गुणसंक्रमके भागहार द्वारा पूरता है ऐसा यहाँ पर मिथ्यात्वके द्रव्यको जघन्य करनेके लिए कहना चाहिए, अन्यथा वह जघन्य नहीं किया जा सकता । पुनः इस विधिसे गुणसंक्रमके कालको बिताकर विध्यातसंक्रममे गिरकर अन्तर्मुहूर्त कालके द्वारा वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । फिर छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण करके अन्त-र्मुहूर्त काल शेष रहने पर दर्शनमोहनीयकी क्षणके लिए उद्यत होकर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जघन्य परिणामके कारणभूत विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रम करता हुआ जघन्य संक्रम-स्थानका स्वामी होता है । अब इस स्थानसे लेकर यहाँका द्रव्य उत्कृष्ट होने तक असंख्यात लोकप्राण संक्रमस्थान पूर्व विधिसे उत्पन्न करके ग्रहण करने चाहिए ।

§ ७४८. अनन्तर सम्पूर्ण दो छयासठ सागर कालतक सत्कर्मके उतारने पर जो अन्य एक गुणितकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीमे मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करता हुआ वहाँ पर एक गोपुच्छामात्र द्रव्यको, एक समय तक अकर्षणके द्वारा विनाशको प्राप्त हुए द्रव्यको तथा एक समय तक विध्यात संक्रम द्रव्यको कम करके आया और असंखी पञ्चेन्द्रियों तथा देवोंमे क्रमसे उत्पन्न होकर सम्यक्त्वकी प्राप्तिके साथ दो छयासठ सागर कालतक परिभ्रमण कर द्विचरमसमयमे अधः-

अथापत्तकरणो होदूण द्विदो एसो पुविन्नलेण सह सरिसो । संपहि इमं घेत्तण
इमेगणीकयद्वम्मि जावदिया संतकम्मपक्खेवो संभवन्ति तावदियमेत्तसंकमट्ठाणपरि-
वाडीओ समुप्पाएद्व्याओ । एत्थ संतकम्मपक्खेवबंधणविहाणं जाणिय कायव्वं ।
एवमेदेण विहाणेण संधीओ जाणिऊण ओदारेदव्वं जाव वेत्तावट्ठीणमादीए आवलियवेदग-
सम्मादिट्ठि ति । ततो हेट्ठा ओदारिज्जमाणे मिच्छत्तस्स गोबुच्छदव्वं णत्थि ति विज्झाद-
संक्रमदव्वमेत्तेणं करियागंतूण हेट्ठिमाणंतरसमयम्मि द्विदेण पुविन्नलं सरिसं कादूण
तदूणीकयदव्वं पुणो वि वट्ठाविय ओदारेयव्वं जाव उवसमसम्मत्तद्वाए संखेज्जे भागे
ओयरिय विज्झादं पदिदपढमसमयं पत्तो ति । संपहि एत्तो हेट्ठा ओदारेदुं ण सक्कदे । किं
कारणं ? एत्थेव विज्झादसंकमो समत्तो । एत्तो हेट्ठा गुणसंकमविसयो तेणेदस्स सरिसकरणो-
वायाभावादो । एवं गुणिदकम्मंसियसंतमस्सिऊण ट्ठाणपरूवणा गया ।

§ ७४६. संपहि खविदकम्मंसियस्स कालपरिहाणि कादूणोदारिज्जमाणे गुणिद-
कम्मंसियभगो चेव । णवरि जत्थ ऊणं कदं तत्थेगेगगोबुच्छदव्वमेत्तमेगसमयमोकड्डुणाए
विणासिददव्वमेत्तं च विज्झादसंकमदव्वेण सह उवरिमसमयदव्वम्मि वट्ठाविय हेट्ठिमसमए
दव्वेण सरिसं कादूण समऊणादिकमेण संधीओ जाणिऊण ओदारेदव्वं जाव अंतोमुहुत्तण-
पढमत्तावट्ठिं सव्वमोइण्णो ति । पुणो तत्थ वट्ठविय चत्तारि पुरिसे अस्सिऊण वट्ठावेयव्वं

प्रवृत्तकरण होकर स्थित हुआ वह पहलेके जीवके समान है । अब इसे ग्रहण कर इसके द्वारा कम
क्रिये गये द्रव्यमे जितने सत्कर्मप्रक्षेप सम्भव हैं उतनी संक्रमस्थान परिपाटियों उत्पन्न करनी
चाहिए । यहाँ पर सत्कर्मप्रक्षेपकी वृद्धिके विधानको जानकर करना चाहिए । इस प्रकार इस विधिसे
सन्धियोंको जानकर दो छयासठ सागरके प्रारम्भमे वेदकसम्यग्दृष्टिके एक आवलिकालके होनेतक
उतारना चाहिए । उससे नीचे उतारने पर मिथ्यात्वका गोबुच्छद्रव्य नहीं है इसलिए विध्यात-
संकमप्रमाण द्रव्यसे न्यून कर आकर अनन्तर अवस्तन समयमे स्थित हुए जीवके द्वारा पहलेके
द्रव्यको समान कर उस कम क्रिये गये द्रव्यको फिर भी बढ़ा कर उपशमसम्यक्त्वके कालके संख्यात
बहुभाग उतारकर विध्यातसंकमके प्रथम समयके प्राप्त होनेतक उतारना चाहिए । अब इससे
नीचे उतारना शक्य नहीं है, क्योंकि यहीं पर विध्यातसंकम समाप्त हो गया है । इससे नीचे
गुणसंकमका विषय है, इसलिए इसके सदृश करनेका कोई उपाय नहीं है । इस प्रकार गुणित
कर्मांशिक जीवके सत्कर्मका आश्रय कर स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ७४६. अब क्षपितकर्मांशिक जीवके कालपरिहाणिको करके उतारने पर गुणितकर्मांशिकके
समान ही भंग होता है । किन्तु इतनी विद्येयता है कि जहाँ पर एक कम क्रिया गया है वहाँपर एक एक गो
बुच्छाप्रमाण द्रव्यको और एक समयमे अन्तर्करणके द्वारा विनाशको प्राप्त हुए द्रव्यको विध्यातसंकमके
द्रव्यके साथ अगले समयके द्रव्यमे बढ़ाकर अवस्तन समयमे स्थित द्रव्यके साथ समान करके एक
समय न्यून आदिके क्रममे सन्धियोंको जानकर अन्तमुहृते कम प्रथम छयासठ सागरके सब द्रव्यके
उतारने तक उतारना चाहिए । पुनः यहाँ पर स्थापित कर चार पुण्योंका आश्रय कर गुणितकर्मांशिक
जीवके अथप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयके योग्य उत्कृष्ट संक्रम द्रव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाना

जाव गुणिदकम्मंसियअधापवत्तचरिमसमयपोओग्गुक्कस्ससंक्रमदव्वं पत्तं ति । संपहि तस्सेव संतकम्मे ओदारिज्जमाणे गोवुच्छदव्वं विज्झादसंक्रमदव्वमेत्तं पुणो एगसमयमोकड्डणाए विणासिदव्वमेत्तं च वड्ढाविय द्विदचरिमसमयअधापवत्तकरणो च अण्णेगो पुव्वविहाणे-णागंतूण दुचरिमसमए द्विदो च दो वि सरिसा । एवं जाणिऊगोदारेयव्वं जाव विज्झाद-संक्रमपढमसमयो ति । एवमोदारिदे मिच्छत्तस्स विज्झादसंक्रममस्सिऊण द्वाणपरूवणा समत्ता होइ ।

§ ७५०. संपहि सुत्तसामित्तमस्सिऊण द्वाणपरूवणे कीरमाणे वेळावड्डिसागरो-वमाणि सागरोवमपुधत्तं च पयदपरूवणाए विसयो होइ ? तत्थ कालपरिहाणीए संतकम्मोदीरणाए च एसो चेा भंगो णिरवसेसमणुगंतव्वो, विसेसाभावादो । एवरि भञ्ज-भागहारविसयं किंचि णाणत्तमत्थि ति तं जाणिय वत्तव्वं । एवमुप्पण्णासेससंक्रमद्व्याण-मसंखेज्जलोगमेत्तविकखंभायामाणं एगपदरागारेण रचणं कादूण एत्थ पुणरुत्तापुणरुत्त-भावपरिक्खा कीरदे । तं जहा—

§ ७५१. पढमपरिवाडिजहण्णसंक्रमद्व्याणमसंखेज्जलोगेहिं खंडेऊण तत्थेयखंडे तम्मि चेव पडिरासिय पक्खित्ते तत्थेव विंदियसंक्रमद्व्याणं होइ । पुणो एदेण असंखेज्जलोगमेत्त-संक्रमद्व्याणपरिवाडीओ समुल्लंघिऊणावड्डिदसंक्रमद्व्याणपरिवाडीए पढमसंक्रमद्व्याणं च समाणं

चाहिए । अब उसीके सत्कर्मके उतारने पर विध्यातसंक्रमसम्बन्धी द्रव्यके बराबर गोपुच्छाके द्रव्यको और एक समयमे अपकर्षणके द्वारा विनाशको प्राप्त हुए द्रव्यको बढ़ाकर स्थित हुआ अन्तिम समयवर्ती अधःप्रवृत्तकरण जीव तथा पूर्वोक्त विधिसे आकर द्विचरम समयमे स्थित हुआ जीव ये दोनों समान हैं । इस प्रकार जानकर विध्यातसंक्रमके प्रथम समयके प्राप्त होनेतक उतारना चाहिए । इस प्रकार उतारने पर विध्यातसंक्रमके आश्रयसे मिथ्यात्वकी स्थानप्ररूपणा समाप्त होती है ।

§ ७५०. अब सूत्रमें निर्दिष्ट स्वामित्वका आश्रय लेकर हानि प्ररूपणाके करने पर दो छयासठ सागर और पृथक्त्व प्रमाणकाल प्रकृत प्ररूपणका विषय होता है । वहाँ पर काल परिहानिके आश्रयसे और सत्कर्मकी उदीरणाके आश्रयसे यही भंग पूरी तरहसे जानना चाहिए, क्योंकि इसमे उससे कोई विशेषता नहीं है । किन्तु भव्यमान-भागहारविषयक कुछ भेद है सो उसे जानकर कहना चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंके असंख्यात लोकप्रमाण विष्कम्भरूप आयामोंकी एक प्रतराकाररूपसे रचना करके यहाँ पर पुनरुक्त और अपुनरुक्तभावकी परीक्षा करते हैं । यथा—

§ ७५१. प्रथम परिपाटीसम्बन्धी जघन्य संक्रमस्थानको असंख्यात लोकोंसे भाजित कर उसमेसे एक खण्डके उसीमे प्रतिराशि बनाकर प्रक्षिप्त करने पर वहाँ पर दूसरा संक्रमस्थान होता है । पुनः असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान परिपाटियोंको उल्लंघन कर अवस्थित संक्रमस्थान परिपाटीका प्रथम संक्रमस्थान इसके समान होता है ।

शंका—वह कैसे ?

होइ । तं कथं ? संतक्रमपक्खेवागमणणिमित्तभूदमसंखेज्जलोगभागहारं विज्झादभागहारं च अण्णोण्णगुणं कादूण तत्थ जत्तियाणि रूवाणि तत्तियमेत्तसंतक्रमपक्खेवेसु पविट्ठेसु जा संक्रमट्ठाणपरिवाडी समुप्पज्जदि तिस्से पढमसंक्रमट्ठाणं पढमपरिवाडिविदियसंक्रमट्ठाणेण सह सरिसं होदि । किं कारणं ? तत्थ ट्ठिदसंतक्रमपक्खेवेसु विज्झादभागहारेणोवट्ठिदेसु एगसंक्रमट्ठाणविसेसुप्पत्तीए परिप्फुडमुवलंभादो ।

§ ७५२. एदस्सेवट्ठाणस्स गिरुत्तीकरणट्ठं भज्ज-भागहारमुहेण किंचि परूवणमेत्थ वत्तइस्सामो । तं जहा—जहण्णसंतक्रमट्ठाणम्मि अंगुलस्सासंखेज्जदिभागभूदविज्झादभाग-हारेण भागे हिदे भागलट्ठं पढमपरिवाडीए जहण्णसंक्रमट्ठाणं होइ । पुणो तम्मि चेव जहण्णसंतक्रमे जहण्णसंक्रमट्ठाणादो असंखेज्जलोगभागव्भहियसंक्रमट्ठाणागमणहेदुभूद-विज्झादभागहारेण भाजिदे तत्थेव विदियसंक्रमट्ठाणं होइ । संपहि एत्थ पढमसंक्रम-ट्ठाणादो अव्भहियविदियसंक्रमट्ठाणविसेसं वेत्तण असंखेज्जलोगे विरलिय समखंड कादूण दिण्णे विरलणरूवं पडि एगेगसंतक्रमपक्खेवपमाणं पवादि । तत्थ पढमरूवधरिदं वेत्तण जहण्णसंतक्रमट्ठाणस्सुवरि पडिरासिय पक्खित्ते विदियसंक्रमट्ठाणपरिवाडीए णिमित्तभूदं विदियसंतक्रमट्ठाणमुप्पज्जदि । एत्थ जहण्णसंतक्रमट्ठाणादो अहियविदियसंतक्रमट्ठाणम्मि पक्खित्तसंतक्रमपक्खेवमवण्णेज्जग पुव ट्ठिय पुणो सेसदव्वम्मि अंगुलस्सासंखे०भागेण

समाधान—क्योकि सत्कर्मसम्बन्धी प्रक्षेपके लानेका निमित्तभूत असंख्यात लोकप्रमाण भागहारको और विध्यात संक्रमसम्बन्धी भागहारको परस्पर गुणित करके वहाँ जितने रूप प्राप्त हो तावन्मात्र सत्कर्मप्रक्षेपोंके प्रविष्ट होने पर जो संक्रमस्थानपरिपाटी उत्पन्न होती है उसकी प्रथम संक्रमस्थानसम्बन्धी परिपाटी दूसरे संक्रमस्थानके साथ समान होती है, क्योकि वहाँ पर स्थित सत्कर्मप्रक्षेपोंके विध्यातसंक्रम भागहारके द्वारा भाजित करने पर एक संक्रमस्थान विशेषकी उत्पत्ति स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है ।

§ ७५२. अब इसी अध्यानकी निरुक्ति करनेके लिए भज्यमान भागहारके द्वारा कुछ प्ररूपणा यहाँ पर उतलाने है । यथा—जवन्य सत्कर्मस्थानके अंगुलके असख्यातवें भागप्रमाण भागहारके द्वारा भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे उतना प्रथम परिपाटीका जवन्य संक्रमस्थान होता है । पुन उन्ही जवन्य सत्कर्ममे जवन्य संक्रमस्थानसे असख्यात लोक भाग अविश्र संक्रमस्थानके लानेके हेतुमृत विध्यानभागहारके द्वारा भाग देने पर वही पर दूसरा संक्रमस्थान होता है । अब यहाँ पर प्रथम संक्रमस्थानसे अविश्र दूसरे संक्रमस्थान विशेषको ग्रहण कर उसे असख्यात लोकका विरलन कर समान गण्ड करके देने पर एक एक विरलन अंकके प्रति सत्कर्मका एक-एक प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है । उनसेसे प्रथम अंकके प्रति प्राप्त प्रक्षेप द्रव्यको ग्रहण कर जवन्य सत्कर्म स्थानके ऊपर प्रतिपत्ति करके प्रक्षेप करने पर दूसरी संक्रमस्थान परिपाटीका निमित्तभूत दूसरा सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है । यहाँ पर जवन्य सत्कर्मस्थानमे अविश्र दूसरे सत्कर्मस्थानमे प्रक्षेप क्रिये गये सत्कर्मप्रक्षेपको पटा कर और अलग स्थापित कर पुनः शेष द्रव्यमे अंगुलके असख्यातवें भागका भाग

भागे हिदे जं भागलद्धं जहणसंतद्वारं? जहणसंकमद्वाराणपमाणं होइ । एवं पुणो अवरोदण
द्विदे अहियसंतकम्मपक्खेवस्स वि तेणोत्र भागहारेण भागो वेप्पदि ति अंगुलस्सा-
संखेज्जदिभागं हेट्ठा विरलिय अहियदव्वं समखंडं कादूण दिण्णे विरलणरूवं पडि संतकम्म-
पक्खेवस्सासंखेज्जदिभागो पावदि । तत्थेयखंडं घेत्तूण पुव्विज्जलदव्वस्सुवरि पक्खिखत्ते
जहणसंतद्वारं पढमसंकमद्वाराणादो असंखेज्जलोगभागुत्तरं होदूण तत्थेव विदियसंकम-
द्वाराणादो विसेसहीणमसंखेज्जलोगपडिभागेण विदियसंतद्वाराणस्स पढमसंकमद्वाराणमुप्पज्जदि ।

§ ७५३. संपहि एवमुपपणसंकमठानम्मि संतकम्मपक्खेवमंगुलस्सासंखेज्जदिभागेण
खंडेरुण तत्थेयखंडपमाणं पविट्ठं, तदियसंतद्वाराणपढमसंकमद्वाराणम्मि तारिसाणि दोण्णि
खंडाणि पविट्ठाणि, चउत्थसंतद्वाराणपढमसंकमद्वाराणम्मि तारिसाणि तिण्णि खंडाणि
पविट्ठाणि । एदेण कमेण अंगुलस्सासंखेज्जदिभागमेत्तद्वारं गंतूण द्विदसंतद्वाराणपढमसंकम-
द्वाराणम्मि तारिसाणि अंगुलस्सासंखेज्जदिभागमेत्तखंडाणि पविट्ठाणि । संपहि इमाण-
मंगुलस्सासंखेज्जदिभागमेत्तखंडाणं पमाणं केत्तियमिदि भणिदे जहणसंतद्वाराणपढमसंकम-
द्वाराणादो तस्सेव विदियसंकमद्वाराणम्मि अहियदव्वमसंखेज्जलोगेहिं खंडेदणेयखंडमेत्तं
होइ । उवरिमविरलणाए सयलेयरूवधरिदसंतकम्मपक्खेवमेत्तमेत्थ संक्रमसरूवेण पविट्ठ-
मिदि भावत्थो ।

देने पर जो भाग लब्ध आवे उतना जवन्य सत्कर्मस्थानसम्बन्धी जवन्य संक्रमस्थानका प्रमाण होता
है, इस प्रकार पुनः घटाकर स्थापित करने पर अधिक सत्कर्मप्रक्षेपका भी उसी भागहारके द्वारा भाग
ग्रहण होता है, इसलिए अंगुलके असंख्यातवें भागको नीचे विरलन कर अधिक द्रव्यको समान खण्ड
कर देने पर प्रत्येक विरलनरूपके प्रति सत्कर्मप्रक्षेपका असंख्यातवाँ भाग प्राप्त होता है । उनमेसे
एक खण्डको ग्रहण कर पूर्वोक्त द्रव्यके ऊपर प्रक्षिप्त करने पर जवन्य सत्कर्मस्थान प्रथम संक्रम-
स्थानसे असंख्यात लोक भाग अधिक होकर वहीं पर दूसरे संक्रमस्थानसे विशेष हीन असंख्यात
लोक प्रतिभागके आश्रयसे दूसरे सत्कर्मस्थानका प्रथम संक्रमस्थान उत्पन्न होता है ।

§ ७५३. अब इस प्रकार उत्पन्न हुए संक्रमस्थानमे सत्कर्मप्रक्षेपको अंगुलके असंख्यातवें
भागसे भाजित कर वहाँ पर एक खण्ड प्रमाण प्रविष्ट हुआ है । तीसरे सत्कर्मस्थानमे उस प्रकारके
दो खण्ड प्रविष्ट हुए हैं और चौथे सत्कर्मस्थानके प्रथम संक्रमस्थानमे उसी प्रकारके तीन खण्ड
प्रविष्ट हुए हैं । इस प्रकार इस क्रमसे अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण अध्वान जाकर स्थित हुए
सत्कर्मस्थानके प्रथम संक्रमस्थानमे उस प्रकारके अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण खण्ड प्रविष्ट
हुए हैं । अब अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण इन खण्डोंका प्रमाण कितना है ऐसा कहने पर
जवन्य सत्कर्मस्थानके प्रथम संक्रमस्थानसे उसीके दूसरे संक्रमस्थानमे स्थित अधिक द्रव्यको
असंख्यात लोकोसे भाजित कर एक खण्ड प्रमाण होता है । उपरिम विरलनमे एक रूपके प्रति
रखा गया समस्त सत्कर्मप्रक्षेप यहाँ पर संक्रमरूपसे प्रविष्ट हुआ है यह इसका भावार्थ है ।

§ ७५४. संपहि जहण्णसंतङ्काणप्यद्दुडि अंगुलस्सासंखेज्जदिभागमेत्तमुवरि चट्टिद-
संतकम्मट्टाणद्वाणमेगखंडयपमाणं करिय तदो एरिसाणि एक-दो-तिण्णिआदि जाय
असंखेज्जलोगमेत्तखंडयाणि गंतूणावट्टिदसंतङ्काणम्मि पढमपरिवाडिपढमसंक्रमट्टाणादो
तत्थेय विदियसंक्रमट्टाणविसेसमेत्तद्वं पविट्ठं होइ । विज्जादभागहारणुपरिमविरलण-
मोवट्टिय तत्थ लद्धरूवमेत्तकंडएमु गदेमु जं संत्तकम्मट्टाणं तन्व्य संक्रमट्टाणविसेसमेत्तद्वं
संतकम्मसरूवेण पविट्ठमिदि जं वुत्तं होइ ।

§ ७५५. संपहि एत्तियमेत्तद्वे पविट्ठे जं संत्तकम्मट्टाणं तस्स जहण्णसंक्रमट्टाणं
जहण्णसंतङ्काणविदियसंक्रमट्टाणेण सह सरिसं होइ, आहो ण होदि ति पुच्छिं ण
होदि । किं कारणं ? जहण्णसंतङ्काणादो णिरुद्धसंतङ्काणम्मि अहियद्ववमवणिय पुध
द्विविदूण पुणो सेसद्वयम्मि अंगुलस्सासंखेज्जदिभागेण भागे हिदे भागलद्धं जहण्णसंतङ्काणं
पढमसंक्रमट्टाणं च दो वि सरिसाणि । पुणो अण्णिदद्वस्स पि तेणैव भागो वेण्यदि
त्ति अंगुलस्सासंखेज्जदिभागमेत्तहेट्टिमविरलणाए तम्मि दव्वे समखंडं करिय दिण्णे
तत्थेयरूवधरिदमेत्तमेत्थ संक्रमसरूवेण वट्टिदद्वं होइ । एदं वेत्तण पडिरासिदजहण्ण-
संक्रमट्टाणम्मि पक्खिन्तो णिरुद्धसंतङ्काणपढमसंक्रमट्टाणमुप्पज्जदि । एदं च हेट्टिमट्टाणेषु
केण वि सह सरिसं ण होदि, जहण्णसंक्रमट्टाणादो संक्रमट्टाणविसेसस्सासंखेज्जदिभागमेत्त-
दव्वेणाव्भहियत्तादो ।

§ ७५४. अब जघन्य सत्कर्मस्थानसे लेकर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण ऊपर प्राप्त हुए
सत्कर्मस्थानके अध्वानको एक खण्ड प्रमाण करके वहाँसे इसी प्रकारके एक, दो और तीन से लेकर
असंख्यात लोकप्रमाण खण्ड जाकर स्थित हुए सत्कर्मस्थानमे प्रथम परिपाटीके प्रथम संक्रम-
स्थानसे वहाँ पर दूसरे संक्रमस्थानका विशेषमात्र द्रव्य प्रविष्ट होता है । विध्यात भागहारसे
उपरिम विरलनको भाजित कर वहाँ पर जितने रूप प्राप्त हों उतने काण्डकोंके जाने पर जो सत्कर्म
स्थान है उसमे संक्रमस्थान विशेषमात्र द्रव्य सत्कर्मरूपसे प्रविष्ट हुआ है यह उक्त कथनका
तात्पर्य है ।

§ ७५५. अब इतनेमात्र द्रव्यके प्रविष्ट होनेपर जो सत्कर्मस्थान है उसका जघन्य संक्रम-
स्थान जघन्य सत्कर्मस्थानके दूसरे संक्रमस्थानके समान होता है या नहीं होता है ऐसा पूछने
पर नहीं होता है, क्योंकि जघन्य संकर्मस्थानरूपसे विवक्षित सत्कर्मस्थानमेसे अधिक द्रव्यको
घटाकर और पृथक् स्थापित कर पुनः शेष द्रव्यमे अंगुलके असंख्यातवें भागका भाग देने पर जो
भाग लब्ध आवे उतना जघन्य सत्कर्मस्थान और प्रथम संक्रमस्थान होता है, इसलिए ये दोनों
समान हैं । पुनः घटाये गये द्रव्यका भी उसी प्रकार भागग्रहण करना चाहिए, इसलिए अंगुलके
असंख्यातवें भागप्रमाण अधस्तन विरलनके ऊपर उसी द्रव्यको समान खण्ड करके देने पर वहाँ
एक अंकके प्रतिजितना द्रव्य प्राप्त हो उतना वहाँ पर संक्रमरूपसे वृद्धिको प्राप्त हुआ द्रव्य होता
है । इसे ग्रहण कर प्रतिशिररूप जघन्य संक्रमस्थानमे प्रक्षिप्त करने पर विवक्षित सत्कर्मस्थानका
प्रथम संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । और यह अधस्तन स्थानोंमे किसीके भी साथ समान नहीं
होता है, क्योंकि जघन्य संक्रमस्थानसे संक्रमस्थानविशेष असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यरूपसे
अधिक होता है ।

§ ७५६. पुणो केत्तियमद्वाणं गंतूण सरिसं होदि ति भणिदे वुच्चदे—जहणसंत-
 द्वाणप्पहुडि असंखेज्जलोगमेत्तद्वाणमुवरि गंतूण डिदसंपहियणिरुद्धसंतकम्मद्वाणादो उवरि
 सयलहेट्ठिमद्वाणपमाणमेयखंडयं कादूण तारिसाणि विज्झादभागहारमेत्तकंडयाणि गंतूण
 जं संतकम्मद्वाणं तस्स पढमसंकमद्वाणं जहणसंतद्वाणविदियसंकमद्वाणं च दो वि सरिसाणि,
 उवरिमविरलणरूवधरिदसव्वदव्वस्स संक्रमद्वाणविसेसपमाणस्स णिरवसेसमेत्थ संक्रमसरूवेण
 पवेसदंसणादो । एदेण कारणेण विज्झादभागहारमसंखे०लोगभागहारं च अण्णोण्णगुणं
 कादूण चडिदद्वाणपरूवणा कया ।

§ ७५७. संपहि जहणसंतद्वाणतदियसंकमद्वाणमणंतरणिरुद्धसंतद्वाणविदियसंकम-
 द्वाणेण सह सरिसं होइ । एदेण विधिणा णिरुद्धसंकमद्वाणपरिवाडीए तदियादिसंकम-
 द्वाणाणि वि पढमपरिवाडिचउत्थादिसंकमद्वाणेहिं सह पुणरुत्ताणि होदूण गच्छंति जाव
 पढमसंकमद्वाणपरिवाडिचरिमसंकमद्वाणेण सह एत्थतणदुचरिमसंकमद्वाणं पुणरुत्तं होदूण
 णिड्ढिदं ति । पुणो एत्थतणचरिमसंकमद्वाणं हेट्ठिमसंकमद्वाणेण केण वि समाणं ण होदि
 ति तदो णियत्तिदूण विदियसंकमद्वाणपरिवाडीए विदियसंकमद्वाणं वेत्तूण तेण सह
 पुव्वत्तसंतकम्मियपुणरुत्तसंकमद्वाणपरिवाडीदो उवरिमपरिवाडीए पढमसंकमद्वाणस्स
 पुणरुत्तभावो वत्तव्वो । पुणो विदियपरिवाडी तदियसंकमद्वाणेण तत्थतणविदियसंकमद्वाणं
 पुणरुत्तं होइ । एदेण विधिणा सेससंकमद्वाणाणि वि पुणरुत्ताणि होदूण गच्छंति जाव

§ ७५६. पुनः कितना अध्वान जाकर सदृश होता है, ऐसा पूछने पर कहते हैं—जघन्य
 सत्कर्मस्थानसे लेकर असंख्यात लोकप्रमाण अध्वान ऊपर जाकर स्थित हुए साम्प्रतिक विवक्षित
 सत्कर्मस्थानसे ऊपर समस्त अधस्तन अध्वान प्रमाण एक खण्ड करके उसके समान विध्यात
 भागहारप्रमाण काण्डक जाकर जो सत्कर्मस्थान है उसका प्रथम संक्रमस्थान और जघन्य
 सत्कर्मस्थानका दूसरा संक्रमस्थान ये दोनों समान होते हैं, क्योंकि उपरिम विरलन रूपके प्रति
 रखे र.ये संक्रमस्थान विशेषप्रमाण सब द्रव्यका पूरी तरहसे यहाँ पर संक्रमरूपसे प्रवेश देखा जाता
 है । इसी कारणसे विध्यातभागहार और असंख्यात लोकप्रमाण भागहारको परस्पर गुणित कर
 ऊपर चढ़े हुए अध्वानकी प्ररूपणा की है ।

§ ७५७. अब जघन्य सत्कर्मस्थानका तीसरा संक्रमस्थान अनन्तर विवक्षित सत्कर्मस्थानके
 दूसरे संक्रमस्थानके समान है । इस विधिसे विवक्षित संक्रमस्थान परिपाटीके तीसरे
 आदि संक्रमस्थान भी प्रथम परिपाटीके चौथे आदि संक्रमस्थानोंके साथ पुनरुक्त होकर
 तब तक जाते हैं जब तक प्रथम संक्रमस्थानकी परिपाटीके अन्तिम संक्रमस्थानके साथ
 यहाँका द्विचरम संक्रमस्थान पुनरुक्त होकर निष्पन्न हुआ है । पुनः यहाँका अन्तिम
 संक्रमस्थान किसी भी अन्तिम संक्रमस्थानके समान नहीं है, इसलिए उससे लौटकर
 दूसरी संक्रमस्थानपरिपाटीके दूसरे संक्रमस्थानको ग्रहण कर उसके साथ पूर्वोक्त सत्कर्मसम्बन्धी
 पुनरुक्त संक्रमस्थानपरिपाटीसे उपरिम परिपाटीके प्रथम संक्रमस्थानका पुनरुक्तपना कहना
 चाहिए । पुनः दूसरी परिपाटीके तीसरे संक्रमस्थानके साथ वहाँ का दूसरा संक्रमस्थान पुनरुक्त
 है । इस विधिसे शेष संक्रमस्थान भी पुनरुक्त होकर तब तक जाते हैं जब तक दूसरी संक्रमस्थान

विदियसंक्रमणपरिवाडीए चरिमसंक्रमणपुणरुत्तं होदूण पञ्जसिद्धं ति । एत्थं वि गिरुद्रपरिवाडीए चरिमसंक्रमणं हेड्डा क्रेण वि सरिसं ण होइ ति ततो गियत्तिदूण पढमणिवग्गणकंडय- तदियसंक्रमणपरिवाडीए विदियसंक्रमणं घेत्तूण तेण सह पञ्जसंक्रमणपुणरुत्तं उवरिमसंक्रमणपरिवाडीए पढमसंक्रमणं सरिसं क्कदूण तदी पञ्जसंक्रमणं सेससंक्रमणं पि पुणरुत्तभावो जोजेयव्वो जाव तत्थतणदुचरिमसंक्रमणं हेड्डिम- तदियपरिवाडीए चरिमसंक्रमणं सरिसं होदूण परिसमत्तं ति । एत्थं वि चरिमसंक्रम- णं हेड्डा क्रेण वि सरिसं ण होइ ति वत्तव्वं ।

§ ७५८. एवमेदं क्रमेण पढमणिवग्गणकंडयचउत्थादिपरिवाडीणं वि विदिय- णिवग्गणकंडयचउत्थादिपरिवाडीहिं पुणरुत्तभावो अणुगंतव्वो जाव दोण्हं णिवग्गण- कंडयाणं चरिमपरिवाडीओ ति । णरि सव्वानिं परिवाडीणं पढमसंक्रमणं ण पुणरुत्तणि, तेसिं पुणरुत्तभावस्स कारणणुत्तंभादो । विदियणिवग्गणकंडयचरिमसंक्रम- णाणि वि अपुणरुत्तणि णिवग्गणकंडयपमाणं पुण भिज्झादभागहारं संतक्रमपक्खे- वागमणहेदुभूदमसंखेज्जलोगभागहारं च अणुगणणुणं क्कदूण तत्थ लद्धरुत्तं होइ ति वेत्तव्वं । संपहि एत्थं पढमणिवग्गणकंडयसव्वपरिवाडीणं विदियादिसंक्रमणं विदियणिवग्गणकंडयसंक्रमणोहिं पुणरुत्तणि जादाणि ति तेसिमवणयणं कायव्वं ।

परिपाटीके अन्तिम संक्रमस्थानके साथ पूर्वोक्त व सत्कर्मकी अपेक्षा उपरिम संक्रमस्थानपरिपाटी का द्विचरम संक्रमस्थान पुनरुक्त होकर अन्तको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भी विवक्षित परिपाटीका अन्तिम संक्रमस्थान नीचे किसीके साथ भी समान नहीं है इसलिए उससे लौटकर प्रथम निर्वर्गणा- काण्डकी तीसरी संक्रमस्थानपरिपाटीके दूसरे संक्रमस्थानको ग्रहण कर उसके साथ सत्कर्मकी अपेक्षा उपरिम तृतीय संक्रमस्थानपरिपाटीका प्रथम संक्रमस्थान सदृश करके अनन्तर पूर्वोक्त क्रमसे शेष संक्रमस्थानोंका भी पुनरुक्तपना तत्र तत्र लगा लेना चाहिए जब तक अवस्तव तीसरी परिपाटीके अन्तिम संक्रमस्थानके साथ सदृश होकर परिसमाप्त होता है। यहाँ पर भी अन्तिम संक्रमस्थान नीचे किसीके साथ भी समान नहीं है ऐसा कहना चाहिए।

§ ७५८. इस प्रकार इस क्रमसे प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकी चौथी आदि परिपाटियोंका भी दूसरे निर्वर्गणाकाण्डकी चौथी आदि परिपाटियोंके साथ पुनरुक्तपना तत्र तत्र जानना चाहिए जब तक दो निर्वर्गणाकाण्डोंकी अन्तिम परिपाटी प्राप्त हो। किन्तु इतनी विशेषता है कि सब परिपाटियोंके प्रथम संक्रमस्थान पुनरुक्त नहीं हैं, क्योंकि उनके पुनरुक्तपनेका कारण नहीं उपलब्ध होता। दूसरे निर्वर्गणाकाण्डके अन्तिम संक्रमस्थान भी अपुनरुक्त है। परन्तु निर्वर्गणाकाण्डका प्रमाण विध्यातभागहारको तथा सत्कर्मके प्रक्षेपोंके आगमनके हेतुभूत असंख्यात लोप्रकृमाण भागहारको परस्पर गुणित करके वहाँ जो लब्ध आवे उतना होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ पर प्रथम निर्वर्गणाकाण्डकी सब परिपाटियोंके दूसरे आदि संक्रमस्थान दूसरे निर्वर्गणाकाण्डके संक्रमस्थानोंके साथ पुनरुक्त हो गये हैं, इसलिए उनको अलग कर देना चाहिए। जिस प्रकार

परिणामद्वारा विक्रमभेग पुत्रपरुद्विदणिचगणकंडयायामेग च त्रीयणपदरागारेण नि दद्ववाणि । एवं विज्ञादसंकममस्तिऊग मिच्छतस्त संक्रमद्वारापरुवणा समता ।

§ ७६०. संपदि अपुत्रकरणमि गुणसंकममस्तिऊग मिच्छतस्त संक्रमद्वारापरुवणा कस्सामो । तं जहा—खमिदकम्मंसियलकखणेणागंतूण पुत्रविहाणेण देवमुपजिय सबलदं सम्मतपडिलंभेण वेडावडिसागरोवमाणि परिभमिय दंसणमोहकखणाए अबुद्धिय अघा- पवत्तकरणं बोलेदूणापुत्रकरणपढमसमयमाहिद्धियस्स तत्थतणजहणसंतकम्मं जहणपरिणाम- णिवंधणगुणसंकमभागहारेण संकामेमाणस्स गुणसंकममस्तिऊग जहणसंकमद्वारां होइ । एदं पुण विज्ञादसंकमविसयसव्वुक्कस्ससंकमद्वारादो असंखेजगुणं । एत्थ वि जहणसंतकम्मस्स संक्रमयाओग्गाणि असंखेजलोगमेतपरिणामद्वाराणि अस्थि तेमु सव्वाणि ण वेपंति, जहणपरिणामद्वारादो असंखेजलोगमेतद्वारां गंतूण तत्थेगपरिणामद्वाराणमसंखेजलोगभा- गतरपदेससंकमस्स कारणभूदमत्थि, तस्स गहणं कायव्वं । एवमवुद्धिमसंखेजलोगमेतद्वारां गंतूण एककेमपुणरुतसंकमद्वाराणिवंधणपरिणामद्वाराणमुवल्लभइ ति तथाभूदपरिणामद्वाराणेषु सव्वैसु उच्चिणिदूण गहिदेसु एदाणि वि असंखेजलोगमेत्ताणि एकमेकदो अणंतगुणाहिय-

दण्डका प्रमाणअपरुपण-वत्कर्पणभागहार, विध्यातभागहार, दो छयासठ सागरोकी अन्योन्याभ्यस्त राशि, दो असंख्यात लोक और योगगुणकार इन छह भागहारोंको परस्पर गुणित करने पर जो लब्ध आवे उतना है, क्योंकि संक्रमस्थानोंकी परिपाटियोंका आयाम यहाँ पर पूरी तरहसे दण्डरूपसे अवस्थित है । परन्तु अन्तिम निर्वर्गणाकाण्डके सक्रमस्थान परिणामस्थानके विष्कम्भ और पहले कहे गये निर्वर्गणाकाण्डके आयामरूप जो बीजनाका प्रतराकार उस रूपमे स्थित है ऐसा यहाँ पर जानना चाहिए । इस प्रकार विध्यातसंक्रमका आश्रय कर मिथ्यात्वके सक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ७६०. अब अपूर्वकरणमे गुणसंक्रमका आश्रय लेकर मिथ्यात्वके संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा करेंगे । यथा—क्षपितकर्मा शिकलक्षणसे आकर पूर्वोक्त विधिसे देवोंमे उत्पन्न होकर अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त करनेसे दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर तथा दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हो अबःप्रवृत्तकरणको विताकर जो अपूर्वकरणके प्रथम समयमें स्थित हो वहाँ जवन्य सत्कर्मको जवन्य परिणाम निमित्तक गुणसंकमभागहारके द्वारा संक्रम कर रहा है उसके गुणसंकमका आश्रय कर जवन्य संक्रमस्थान होता है । परन्तु यह संक्रमस्थान विध्यात संक्रमके त्रिषयभूत सर्वोत्कृष्ट सक्रमस्थानसे असंख्यातगुणा होता है । यहाँ पर भी जवन्य सत्कर्मके योग्य जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं उनमेसे सबको ग्रहण नहीं करते हैं । किन्तु जवन्य परिणामस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण अध्वान जाकर वहाँ पर एक परिणामस्थान असंख्यात लोक भाग अधिक प्रदेशसंकमका कारणभूत है, इसलिए उसका ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार अवस्थित असंख्यात लोकप्रमाण अध्वान जाकर एक एक अपुनस्वत संक्रमस्थानका कारणभूत परिणामस्थान उपलब्ध होता है, इसलिए उस प्रकारके सभी परिणामस्थानोंको उठा कर ग्रहण करने पर ये भी परस्पर अनन्तगुणे अधिक क्रमसे वृद्धिरूप होकर असंख्यात लोकप्रमाण

कमेण परिवद्धिदसरूवाणि लद्धाणि भवंति, अधापवत्तचरिमसमयम्मि उच्चिणिदूण गहिद-
परिणामपंतिआयामादो एत्थतणपरिणामट्टाणपंतिआयामो उच्चिणिदूण रचिदसरूवो
असंखेज्जगुणो ।

§ ७६१. संपहि एदस्स किंचि कारणं भणिस्सामो । तं जहा—अधापवत्तकरण-
चरिमसमयम्मि जहण्णसंतकम्मं जहण्णपरिणामेण संकामेमाणस्स जहण्णसंकमट्टाणादो तं
चेव जहण्णदव्वमुक्कस्सपरिणामेण संकामेमाणस्स उक्कस्ससंकमट्टाणमसंखेज्जलोगभागव्भहियं
चेव होइ असंखेज्जगुणव्भहियमण्णं वा ण होइ ति एसो णियमो । कधमेदं
परिच्छिणमिदि भण्णदे—मिच्छत्तस्स तिसु अट्टासु भुजगारो संकमो पदिदो । उवसम-
सम्माइट्टिस्स वा दंसणमोहक्खवणाए वा पुव्वुप्पणसम्मत्तमिच्छाइट्टिणा वा अविणट्टवेदग-
पाओग्गेण कालेण सम्मत्ते गहिदे तस्स पढमावलियकालभंतरे भुजगारसंकमो होइ ति ।
एत्थ तदियपयारे मिच्छाइट्टिचरिमावलियणवक्कबंधवसेण भुजगारप्पयरावट्टिदाणं तिण्हं पि
संभवो जोजिदो । तत्थ पढमावलियविदियादिसमएसु उदयावलियमणुप्पविसमाणगोबुच्छादो
हेट्टिमसमयम्मि विज्झादेण संकंतदव्वादो च संकमपाओग्गभावेण ट्टुक्कमाणणवक्कबंधस्स
केत्तिण्णावि बहुत्तसंभवमस्सिदूण भुजगारसंकमो परूविदो, सो च असंखेज्जभागवट्टीए चेव
होदि ति बुत्तं । जइ बुण विज्झादसंकमविसये वि असंखेज्जगुणवट्टिणिमित्तपरिणामसंभवो

प्राप्त होते हैं, क्योंकि अध प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें उठा कर ग्रहण किये गये परिणामस्थानों
की पंक्तिके आयामसे यहाँकी परिणामस्थानोंकी पंक्तिका आयाम उठाकर रचा गया असंख्यात-
गुणा होता है ।

§ ७६१. अब इसके कुछ कारणको कहेंगे । यथा—अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें
जघन्य सत्कर्मको जघन्य परिणामके द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके जो जघन्य संक्रमस्थान होता
है उससे उसी जघन्य द्रव्यको उत्कृष्ट परिणामके द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट संक्रमस्थान
असंख्यात लोकका भाग देने पर मात्र एक भाग अधिक होता है । असंख्यातगुणा अधिक या
अन्य नहीं होता यह नियम है ।

शंका—यह नियम किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधन—कहते हैं—मिथ्यात्वका तीन कालोंमें भुजगार संक्रम होता है—एक तो उपशम
सम्यग्दृष्टिके, दूसरे दर्शनमोहनीयकी क्षणिके समय और तीसरे जिसने पहले सम्यक्त्वको
उत्पन्न किया है ऐसे मिथ्यादृष्टिके द्वारा वेदक सम्यक्त्वके योग्य कालका नाश किये बिना सम्यक्त्व
के ग्रहण करने पर उसके प्रथम आवलिरूप कालके भीतर भुजगार संक्रम होता है । उनमेंसे यहाँ
पर तीसरे प्रकारमें मिथ्यादृष्टिकी अन्तिम आवलिमें हुए नवकवन्धके कारण भुजगार, अल्पतर और
अवस्थित ये तीनों सम्भव हैं । उनमेंसे वहाँ प्रथम आवलिके द्वितीयादि समयोंमें उदयावलिमें
प्रविष्ट होनेवाली गोपुच्छासे और अघस्तन समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रान्त हुए द्रव्यसे
संक्रमके योग्यरूपसे प्राप्त हुए नवकवन्धका कितने ही द्रव्यके द्वारा बहुतपनेका आश्रय कर भुजगार

होज्ज तो असंखेजगुणप्रद्वीए तत्थ भुजगारसंभवं परूवेज्ज । ण च तहा परूविदं, असंखेज-
भागवीए चेव पयदविसये भुजगारसंकमो ति णियमं कादूण तत्थ परूविदत्तादो । तेण
जाणामो जहा अधापवत्तचरिमसमयम्मि जहण्णपरिणामेण संकामिदजहण्णदब्बादो तत्थे-
बुक्कस्सपरिणामेण संकामिददब्बं विसेसाहियं चेव होइ, दुगुणादिक्रमेणासंखेजगुणव्महियं
ण होइ ति ।

§ ७६२, अपुव्वकरणम्मि पुण जहण्णपरिणामेण संकामिदजहण्णसंतकम्मणिप्रंघण-
जहण्णसंतकम्मट्ठाणादो तं चेव जहण्णसंतकम्ममुक्कसपरिणामेण संकामेमाणयस्स उक्कस्स-
संकमदव्यमसंखेजगुणं होदि । कुदो एदं परिच्छिज्जदि ति चे ? सुत्तापिरुद्धपुव्वाइरिय-
वक्खाणादो । तदो उच्चिणिदूण गहिदअधापवत्तचरिमसमयपरिणामट्ठाणेहितो अपुव्व-
पढमसमयम्मि उच्चिणिदूण गहिदपरिणामट्ठाणाणि असंखेजगुणाणि ति सिद्धं । हाँताणि
वि अधापवत्तचरिमसमयपरिणामट्ठाणाणि असंखेजलोगगुणगारेण गुणिदमेत्ताणि हाँति ति
वेत्तव्वं ।

§ ७६३, संपहि एवमुच्चिणिदूण गहिदपरिणामट्ठाणाणमपुव्वपढमसमए परिव्वाडीए
रचणं कादण जहण्णसंतकम्मं धुवभावेणावलंविद्य परिणामट्ठाणमेत्ताणि चेव संकमट्ठाणाणि
असंखेजलोगभागद्वीए समुप्पाएयव्वाणि । एवमुप्पाइदे पढमपरिव्वाडी समत्ता ।

संक्रम कहा है वह असंख्यात भागवृद्धिरूप ही होता है यह कहा है । यदि विध्यातसंक्रम के विषयमें
भी असंख्यातगुणवृद्धिका निमित्तभूत परिणाम सम्भव होवे तो असंख्यातगुणवृद्धिके द्वारा वहाँ
पर भुजगारसंक्रमकी प्ररूपणा की जाती । परन्तु वैसा नहीं कहा है, क्योंकि असंख्यातभागवृद्धि
रूपसे ही प्रकृत विषयमे भुजगारसंक्रम होता है ऐसा नियम करके वहाँ पर प्ररूपणा की है । इससे
हम जानते हैं कि अधःप्रवृत्तके अन्तिम समयमे जघन्य परिणामके द्वारा संक्रम कराये गये जघन्य
द्रव्यसे वहाँ पर उत्कृष्ट परिणामके द्वारा संक्रमित कराया गया द्रव्य विशेष अधिक ही होता है,
द्विगुण आदि क्रमसे असंख्यातगुणा नहीं होता ।

§ ७६२, अपूर्वकरणमे तो जघन्य परिणामके द्वारा संक्रमित कराये गये जघन्य सत्कर्म-
निमित्तक जघन्य संक्रमस्थानसे उसी जघन्य सत्कर्मको उत्कृष्ट परिणामके द्वारा संक्रम करनेवाले
जीवके उत्कृष्ट संक्रम द्रव्य असंख्यातगुणा होता है ।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—सूत्रके अतिरुद्ध पूर्वाचार्योके व्याख्यानसे जाना जाता है । इसलिए उठाकर
' प्रहण किये गये अधःप्रवृत्तके अन्तिम समयसम्बन्धी परिणामस्थानोंसे अपूर्वकरणके समयमे उठाकर
प्रहण किये गये परिणामस्थान असंख्यातगुणे होते हैं यह सिद्ध हुआ । ऐसा होते हुए भी अधः-
प्रवृत्तके अन्तिम समयमे जो परिणामस्थान होते हैं वे असंख्यात लोकप्रमाण गुणकारसे गुणित
होते हैं ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए ।

§ ७६३, अब इस प्रकार उठाकर प्रहण किये गये परिणामस्थानोंकी अपूर्वकरणके प्रथम
समयमे रचना करके तथा जघन्य सत्कर्मका ध्वरूपसे अवलम्बन करके परिणामस्थानप्रमाण ही
संक्रमस्थानोंको असंख्यात लोक भागवृद्धिके द्वारा उत्पन्न करना चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न करने
पर प्रथम परिपाटी समाप्त हुई ।

§ ७६४. संपहि जहण्णदव्वादो एयसंतकम्मपक्खेममहियं कादूणागदस्स विदिय-
परिवाडी होदि । एत्थ ताव संतकम्मपक्खेयपमाणाणुगमो कीरदे-अपुव्वकरणपढमसमय-
जहण्णदव्वाडिव्वज्जहण्णसंकमट्टाणे तस्सेव विदियसंकमट्टाणादो सोहिदे सुद्धसेसो संकम-
ट्टाणविसेसो णाम । एसो च जहण्णसंकमट्टाणस्सासंखेज्जलोगपडिभागिओ । एदम्मि
संकमट्टाणविसेसे अण्णेणासंखेज्जलोगभागहारेणोवट्टिदे भागलद्धमेत्तमेत्थ संतकम्मपक्खेय-
पमाणं होइ । जहण्णदव्वे सव्वुकस्सगुणसंकमभागहारेण वेअसंखेज्जलोगाहिण भागे
हिदे भागलद्धमेत्तमेत्थतणसंतकम्मपक्खेयपमाणमिदि वुत्तं होइ । एवंविहपक्खेवुत्तरजहण्ण-
संतकम्ममस्सिऊग परिणामट्टाणमेत्तसंकमट्टाणेषु णाणाकालसंबंधिणाणाजीवे अस्सिऊग
समुप्पाइदेसु विदियसंकमट्टाणपरिवाडी समप्पदि । एदेण विहिणा एगेगसंतकम्मपक्खेवं
पक्खिविय तदियादिसंकमट्टाणपरिवाडीओ च उप्पाइय शेदव्वं जाव गुणिदकम्मंसियुक्कस्स-
दव्वं पाविदूण पढमसमये अपुव्वकरणसंकमट्टाणपरिवाडीणमपच्छिमवियप्पो समुप्पणो
त्ति । एत्थ सेसविधी जहा अधापवत्तकरणचरिमसमए भणिदो तहा वत्तवो, विसेसा-
भावादो । णवरि जत्थ विज्झादभागहारो तत्थ गुणसंकमभागहारो वत्तवो ।

§ ७६५. संपहि अपुव्वकरणस्स संतमोदारेदुं ण सक्किज्जदि । किं कारणं ? अधा-
पवत्तचरिमसमयट्टिदेण सह सरिसं कादूणोदारिज्जमाणे अपुव्वकरणसंकमट्टाणपरूवणपइण्णाए

§ ७६४. अब जघन्य द्रव्यसे एक सत्कर्मप्रक्षेप अधिक करके आये हुए जीवके दूसरी
परिपाटी होती है । यहाँ पर सर्व प्रथम सत्कर्मके प्रक्षेपके प्रमाणका अनुगम करते हैं—अपूर्वकरणके
प्रथम समयसम्बन्धी जघन्य द्रव्यसे सम्बन्धित जघन्य संक्रमस्थानको उसीके दूसरे संक्रम-
स्थानमेसे बटा देने पर जो शुद्ध शेष रहे वह संक्रमस्थान विशेष कहलाता है । और यह जघन्य
संक्रमस्थानका असंख्यात लोक प्रतिभागी है । इस संक्रमस्थान विशेषके अन्य असंख्यात लोक
प्रमाण भागहारके द्वारा भाजित करने पर जो एक भाग लब्ध आवे उनना यहाँ पर सत्कर्मप्रक्षेपका
प्रमाण है । जघन्य द्रव्यके दो असंख्यात लोक भाग अधिक सर्वोत्कृष्ट गुणसंकमभागहारके द्वारा
भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे उतना सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण है यह उक्त कथनका तात्पर्य
है । इस प्रकार एक प्रक्षेप अधिक जघन्य सत्कर्मका आश्रय कर परिणामस्थानप्रमाण संक्रम-
स्थानोंके नाना कालसम्बन्धी नाना जीवोंके आश्रयसे उत्पन्न करने पर दूसरी संक्रमस्थान परिपाटी
समाप्त होती है । इस विधिसे एक एक सत्कर्म प्रक्षेपको प्रक्षिप्त कर तृतीय आदि संक्रमस्थान
परिपाटियोंको उत्पन्न कर गुणितकर्मांशिक जीवके उत्कृष्टद्रव्यको प्राप्त कराकर प्रथम समयवर्ती अपूर्व-
करणसम्बन्धी संक्रमस्थान परिपाटियोंके अन्तिम विकल्पके उत्पन्न होने तक ले जाना चाहिए ।
यहाँ पर शेष विधि जिस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें कही है उस प्रकार कहनी
चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेषता है कि जहाँ पर विधवात-
भागहार कहा है वहाँ पर गुणसंकमभागहार कहना चाहिए ।

§ ७६५. अब अपूर्वकरणके सत्त्वको उतारना शक्य नहीं है, क्योंकि अधःप्रवृत्तकरणके
अन्तिम समयमें स्थित हुए द्रव्यके साथ समानता करके उतारने पर अपूर्वकरणसम्बन्धी संक्रम-
स्थानोंकी प्ररूपणकी प्रतिज्ञा विनाशको प्राप्त होती है । तथा प्रथम समयवर्ती अपूर्वकरण और

विणासध्वसंगादो षडमसमयापुव्वचरिमसमयाधापवत्त करणाणं संक्रमद्वयस्स सरिसीकरणो-
वायाभावादो च । कालपरिहाणीए खण्दिगुणिदरुम्मंसियाणं ठाणपरुवणे कीरमाणे जहा
अधापवत्तकरणचरिमसमयं णिरुंमिदूण परुविदं तथा परुवेयव्वं ।

§ ७६६. संपदि एवमुपपण्णासेससंक्रमद्व्याणामेयपदरायारेण रचणं कादूण पुण-
रुत्तापुणरुत्तपरुवणा अणंतरपरुविदविहाणेणेन कायव्वा । णवरि एत्थ सरिसत्ते कीरमाणे
गुणसंक्रमभागहारं संतक्रमपक्खेवागमणणिमित्तभूदमसंखेज्जलोगभागहारं च अण्णोण-
गुणं कादूण तत्थ लद्धरुवमेत्तद्वाणं गंतूण तदित्थसंतक्रमपढमसंक्रमद्व्याणं जहण्णसंत-
क्रमियविदियसंक्रमद्व्याणं च दो वि सरिसाणि त्ति वत्तव्वं । एवमेत्तियमेत्तं णिव्वग्गण-
कंडयमवद्धिदं गंतूण सरिसत्तं करिय येदव्वं जाव अपुव्वकरणपढमसमयसंक्रमद्व्याणि
समत्ताणि त्ति । एत्थ पुणरुत्ताणमवणयणे कदे सेसाणमपुणरुत्तसंक्रमद्व्याणामद्व्याणं पुव्वं व
वीयणाकारेण दद्वव्वं । तत्थ वीयणपदरायामो गुणसंक्रमभागहारसंतक्रमपक्खेवागमण-
णिमित्तभूदासंखेज्जलोगभागहारअण्णोणसंवग्गमेत्तो होइ, विक्खंभो पुण परिणामद्व्याणमेत्तो
चेव, तत्थ पयारंतरासंभावादो । दंडायामपमाणं पुण ओरुदुक्कद्व्याणभागहारवेछावद्धिसागरोम-
अण्णोणव्भत्थरासिगुणसंक्रमभागहारवेअसंखेज्जलोगजोगगुणगाराणमण्णोणसंवग्गजणिदमेत्तं
गुणसंक्रमभागहारो होइ त्ति घेतव्वं । एवमपुव्वकरणपढमसमए संक्रमद्व्याणपरुवणा समत्ता ।

अन्तिम समयवर्ती अधःप्रवृत्तकरणके सक्रमद्रव्यको सट्टश करनेका कोई उपाय नहीं है । काल
परिहानिके आश्रयसे क्षपितकर्मा शिक और गुणितकर्मा शिक जीवोंके स्थानोंकी प्ररूपणा करने पर
जिस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयको विवक्षित कर प्ररूपणा की है उस प्रकार यहाँ पर
करनी चाहिए ।

§ ७६६. अब इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंकी एक प्रतराकाररूपसे रचना
करके पुनरुक्त और अपुनरुक्त प्ररूपणा अनन्तर कही गई विधिसे ही करनी चाहिए । इतनी
विशेषता है कि यहाँ पर सट्टशता करने पर गुणसंक्रम भागहारको और सत्कर्मप्रक्षेपको लानेमें
निमित्तभूत असंख्यात लोक भागहारको परस्पर गुणा करके उससे जिवना लव्व आवे उतने स्थान
जाकर वहाँका सत्कर्मसम्बन्धी प्रथम सक्रमस्थान और जघन्य सत्कर्मवाले जीवका द्वितीय
संक्रमस्थान ये दोनों ही स्थान समान होते हैं ऐसा कथन करना चाहिए । इसप्रकार इतने मात्रके
निर्वर्गणा काण्डक अवस्थित जाकर सट्टश करके अपूर्वकरणके प्रथम समयसम्बन्धी संक्रमस्थानोंके
समाप्त होने तक लेजाना चाहिए । यहाँ पर पुनरुक्त स्थानोंका अपनयन करनेपर शेष अपुनरुक्त
संक्रमस्थानोंका अवस्थान पहलेके समान बीजनाकार जानना चाहिए । वहाँ बीजनाका प्रतरायाम
गुणसंक्रम भागहार और सत्कर्मप्रक्षेपको लानेमें निमित्तभूत असंख्यात लोक भागहारके परस्पर
संवर्गमात्र है । विष्कम्भ तो परिणामस्थान मात्र ही है, क्योंकि उसमें प्रकारान्तर सम्भव नहीं है ।
दण्डायामका प्रमाण भी अपकर्षण-उत्कर्षण भागहार, दो छयासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्तराशि,
गुणसंक्रमभागहार, दो असंख्यात लोक ओर योगगुणकारके परस्पर संवर्गसे उत्पन्न हुई
राशिप्रमाण, गुणसंक्रमभागहार- है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार अपूर्वकरणके
प्रथम समयमें संक्रमस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ७६७. अपुव्वकरणविदियादिसमएसु वि एवं चेव परूवणा कायव्वा जाव अपुव्व-
करणचरिमसमओ त्ति, सव्वत्थ जहावुत्तविकखंभायामेहि संक्रमट्टाणपदरूपत्तिं पडि
विसेसाभावादो । संपहि पढमसमयापुव्वकरणो विदियसमयापुव्वकरणो च दो वि सरिसाणि
कायव्वाणि । तेसिमोवट्टणामुहेण सरिसत्तविहाणं वुच्चदे । तं कथं ? दिवड्डुगुणहाणि-
गुणिदमेगमेइंदियसमयपव्वद्धं ठविय अंतोमुहुत्तोवट्टिदोक्कड्डुणभागहारपटुप्पणवेत्तावट्टि-
सागरोवमण्णोण्णभत्थरासिणा पढमसमयगुणसंक्रमभागहारेण च तम्मि ओवट्टिदे
पढमसमयापुव्वकरणस्स जहण्णसंक्रमट्टाणं होइ । विदियसमयापुव्वकरणजहण्णभागहारे वि
एसा चेव डुवणा कायव्वा । णवरि पुव्विन्नल्लगुणसंक्रमभागहारादो संपहियगुणसंक्रमभाग-
हारो असंखेज्जगुणहीणो । एवं ठविय एत्थ हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिम्मि ओवट्टिज्जमाणे
गुणगार-भागहारं सरिसम णिय विदियसमयगुणसंक्रमभागहारेण पढमसमयगुणसंक्रमभाग-
हारे भागे हिदे भागलद्धं पलिदोवमस्स असंखे०भागमेत्तं होइ ।

§ ७६८. पुणो एदेण गुणिदजहण्णदव्वमेत्तं वड्ढिदूण ड्ढिदपढमसमयापुव्वजहण्ण-
संक्रमट्टाणं जहण्णसंतकम्मियविदियसमयापुव्वकरण०जहण्णसंक्रमट्टाणं च दो वि सरिसाणि ।
णवरि एत्थ पढमसमयापुव्वकरणवड्ढिदव्वं संतकम्मपक्खेवपमाणेण कादूग चट्ठिद-

§ ७६७. अपूर्वकरणके द्वितीयादि समयोंमें भी अपूर्वकरणके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक इसीप्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि सर्वत्र पूर्वोक्त विष्कम्भ और आयामके द्वारा संक्रमस्थान प्रत्तर की उत्पत्तिके प्रति कोई विशेषता नहीं है। अब प्रथम समयका अपूर्वकरण और दूसरे समयका अपूर्वकरण इन दोनोंको ही सदृश करना चाहिए इसलिए उनका अपवर्तना द्वारा सदृशत्वका विधान करते हैं।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—डेढ़ गुणहानि गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी एक समयप्रवद्धको स्थापित कर उसमें अन्तर्भूतसे भाजित षड्वर्षण उत्पकर्षण भागहार द्वारा प्रत्युत्पन्न दो छयासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्त राशिका और प्रथम समयसम्बन्धी गुणसंक्रम भागहारका भाग देने पर प्रथम समयसम्बन्धी अपूर्वकरणका जघन्य संक्रमस्थान होता है। द्वितीय समयसम्बन्धी अपूर्वकरणके जघन्य भागहारमें भी यही स्थापना करनी चाहिए। इतनी विशेषता है कि पूर्वके गुणसंक्रम भागहारसे साम्प्रतिक गुणसंक्रमभागहार असंख्यातगुणा हीन है। इस प्रकार स्थापित करके यहाँ पर अधस्तन राशिद्वारा उपरिम राशिके भाजित करनेपर गुणकार और भागहारको एक समान निकाल कर द्वितीय समयके गुणसंक्रम भागहारका प्रथम समयके गुणसंक्रम भागहारमें भाग देने पर भाग लब्ध पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है।

§ ७६८. पुन. इसके द्वारा गुणित जघन्य द्रव्यमात्रको बढ़ाकर स्थित प्रथम समयसम्बन्धी अपूर्वकरणका जघन्य संक्रमस्थान और जघन्य सत्कर्ममालेक द्वितीय समयसम्बन्धी अपूर्वकरणका जघन्य संक्रमस्थान ये दोनों ही समान हैं। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर प्रथम समयसम्बन्धी

सत्थाणे तेसिं पुणरुत्तभावो अत्थि ति तत्थ पुव्वविहाणेण पुणरुत्ताणमवणयणं कादूणा-
पुणरुत्ताणं चैव गहणं कायव्वं । एवमपुव्वकरणमस्सिऊण संकमट्ठाणपरूवणा समत्ता ।

§ ७७२. संपहि अणियट्ठिकरणमस्सिऊण संकमट्ठाणपरूवणे कीरमाणे अणियट्ठि-
कालव्भंतरे थोवयराणि चैव संकमट्ठाणाणि लव्वमंति । किं कारणं ? अणियट्ठिपरिणामो
समयं पडि एक्केको चैव होदि ति परमगुरूवएसोदो । तं जहा—खविदकम्मंसिय-
लक्खणेणागंतूण पढमसम्मत्तमुप्पाइय वेदयसम्मत्तपडिवत्तिपुरस्सरं वेत्थावट्ठिसागरोवमाणि
परिभमिय दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्ठिय अधापवत्तापुव्वकरणाणि जहाकमेण बोलाविय
अणियट्ठिकरणं पनिट्ठस्स पढमसमए जहण्णसंतकम्मणिबंधणगुणसंकममस्सिऊण
जहण्णसंकमट्ठाणमेक्कं चैव समुप्पज्जदि । एवं विदियादिसमएसु वि जहण्णसंतकम्म-
मस्सिऊण एक्केक्कं चैव संकमट्ठाणमुप्पाइय रोदव्वं जाव अणियट्ठिकरणचरिमसमयो
त्ति । एवमुप्पाइदे जहण्णसंतकम्ममस्सिऊणाणियट्ठिअट्ठामेत्ताणि चैव संकमट्ठाणाणि
अण्णोण्णं पेक्खिऊणासंखेज्जगुणवट्ठीए समुप्पणाणि । तदो पढमपरिवाडी समत्ता ।

§ ७७३. संपहि एदम्हादो जहण्णसंतकम्मादो एगसंतकम्मपक्खेवमेत्तमहियं
कादूणागदस्स अणियट्ठिपढमसमए अण्णमपुणरुत्तसंकमट्ठाणमसंखेज्जलोगभागव्वमहिय-
मुप्पज्जदि । पुणो एदस्स चैव विदियसमए असंखेज्जगुणवट्ठीए विदियसंकमट्ठाणमुप्पज्जदि ।

हैं कि स्वस्थानमे उनका पुनरुक्त भाव है इसलिए वहाँ पर पूर्व विधिसे पुनरुक्त संक्रमस्थानोंका
अपनयन करके अपुनरुक्त संक्रमस्थानोंका ही ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार अपूर्वकरणका आश्रय
कर सक्रमस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ७७२. अब अनिवृत्तिकरणका आश्रय कर सक्रमस्थानोंका कथन करने पर अनिवृत्ति-
करणके कालके भीतर स्तोत्रतर ही संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं, क्योंकि अनिवृत्तिकरणका परिणाम
प्रत्येक समयमे एक एक ही होता है ऐसा परम गुरुका उपदेश है । यथा—क्षितिर्मा शिकलक्षणासे
आकर और प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न कर वेदकसम्यक्त्वकी प्राप्ति पूर्वक दो ब्रह्मासठ सागर
काल तक परिभ्रमण कर तथा दर्शनमोहनीयकी क्षणिकाके लिए उद्यत हो अधःप्रवृत्तकरण और
अपूर्वकरणको क्रमसे विताकर अनिवृत्तिकरणमे प्रविष्ट हुए जीवके प्रथम समयमे जघन्य सत्कर्म
निवन्धन गुणसंकमका आश्रयकर एक ही जघन्य सक्रमस्थान उत्पन्न होता है । इसी प्रकार
द्वितीयादि समयोंमे भी जघन्य सत्कर्मका आश्रयकर एक एक ही संक्रमस्थानको उत्पन्न कराकर
अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न कराने पर जघन्य
सत्कर्मका आश्रय कर अनिवृत्तिकरणके कालप्रमाण ही संक्रमस्थान परस्परको देखते हुए असंख्यात
गुणी वृद्धिरूपमे उत्पन्न होते हैं । इससे प्रथम परिभाटी समाप्त हुई ।

§ ७७३. अब इस जघन्य सत्कर्मसे एक सत्कर्मरूपमात्रको अधिक कर आये हुए जीवके
अनिवृत्तिकरणके प्रथम समयमे असंख्यात लोकभाग अधिक अन्य अपुनरुक्त सक्रमस्थान उत्पन्न
होता है । पुनः इसीके दूसरे समयमे असंख्यातगुणा वृद्धिरूपसे दूसरा संक्रमस्थान उत्पन्न होता

एवं तदियादिसमयसु वि शोद्वं जाव अणियट्टिचरिमसमयो त्ति । तदो एत्थ वि अणियट्टिपरिणाममेत्ताणि चेव संक्रमद्व्याणि । एवं तदियादिपरिवाडीओ वि शोद्व्वाओ जाव असंखेज्जलोगमेत्तपरिवाडीणं चरिमपरिवाडि त्ति ।

§ ७७४. तत्थ चरिमवियप्पो वुच्चदे—गुणिट्ठकम्मसिथलक्खणेणागंतूण सव्वलहुं दंसणमोहक्खवणाए अब्भुट्टिय अधापवत्तापुव्वकरणाणि क्रमेण वोलाविऊण अणियट्टिकरणं पविट्ठस्स सगद्धामेत्ताणि चेव संक्रमद्व्याणि लद्धाणि भवंति । एत्थ सव्वत्थ अणियट्टिचरिमसमयो त्ति वुत्ते ओघचरिमसमयो ण घेत्तव्वो । किंतु मिच्छत्तक्खवण-वावदाणियट्टिचरिमसमयो गहेयव्वो, तेणेत्थ पयदत्तादो ।

§ ७७५. संपहि एवमुप्पण्णासेससंक्रमद्व्याणाणमुद्धविकखंभो अणियट्टिअद्धामेत्तो । तिरिच्छायामो वुण जहण्णदव्वमुक्कस्सदव्वादो सोहिय सुद्धसेसदव्वम्मि संतकम्मपक्खेव-पमाणेण कीरमाणे जत्तियमेत्ता संतकम्मपक्खेवा अत्थ तत्तियमेत्तो होइ । संपहि एत्थ पुणरुत्तापुणरुत्तपरूवणा इत्थमणुगंतव्वा । तं जहा—अणियट्टिविदियसमयगुणसंक्रमभाग-हारेण पढमसमयगुणसंक्रमभागहारमोवट्टिय तत्थ लद्धासंखेज्जरूवेहिं गुणिट्ठजहण्णदव्वमेत्तं वड्ढाविऊण ट्टिदपढमसमयाणियट्टिसंक्रमद्व्याणं जहण्णसंतकम्मियविदियसमयाणियट्टिपढम-

है । इसी प्रकार तृतीयादि समयोंमें भी अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चाहिए । इसलिए यहाँ पर भी अनिवृत्तिकरणके जितने समय हैं तत्प्रमाण ही संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं । इसीप्रकार तृतीयादि परिपाटियोंको भी असंख्यात लोकप्रमाण परिपाटियोंमें अन्तिम परिपाटीके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए ।

§ ७७४. वहाँ अन्तिम विकल्पको कहते हैं—गुणितकर्मांशिक लक्षणसे आकर अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षणके लिए उद्यत हो अधःप्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको क्रमसे विताकर अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके अनिवृत्तिकरणके कालप्रमाण ही संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं । यहाँ सर्वत्र अनिवृत्तिकरणका अन्तिम समय ऐसा कहने पर श्रेय अन्तिम समय नहीं लेना चाहिए । किन्तु मिथ्यात्वकी क्षणमें व्यापृत अन्तिम समय लेना चाहिए, क्योंकि उससे यहाँ प्रयोजन है ।

§ ७७५. अब इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंका ऊर्ध्व विष्कम्भ अनिवृत्तिकरणके कालप्रमाण है । तिर्यक आयाम तो जघन्य द्रव्यको उत्कृष्ट द्रव्यमेसे घटा कर शुद्ध श्रेय द्रव्यको सत्कर्मके प्रक्षेपप्रमाण करने पर जितने सत्कर्मके प्रक्षेप हैं उतना होता है । अब यहाँ पर पुनरुक्त-अपुनरुक्त प्ररूपणा इस प्रकार जाननी चाहिए । यथा—अनिवृत्तिकरणके द्वितीय समयसम्बन्धी गुणसंक्रम भागहारका प्रथम समयसम्बन्धी गुणसंक्रम भागहारमें भाग देने पर वहाँ लब्ध असंख्यात रूपोंसे गुणित जघन्य द्रव्यमात्रको बढ़ाकर स्थित प्रथम समयसम्बन्धी अनिवृत्तिकरणका संक्रमस्थान और जघन्य सत्कर्मबालेके द्वितीय समयसम्बन्धी अनिवृत्तिकरणका प्रथम संक्रमस्थान दोनों ही समान है । इसी प्रकार द्वितीय, तृतीय समयसम्बन्धी अनिवृत्तिकरणके संक्रमस्थानोंका

संकमट्टाणं च दो वि सरिसाणि । एवं विदियतदियसमयाणियट्टीणं पि सरिसत्तं कादूण
गेण्हियव्वं । एदेण विधिणागंतूण दुचरिमचरिमसमयाणियट्टीणं पि सरिसभावो जोजेयव्वो ।
एत्थ सरिसाणमवणयणं कादूण विसरिसाणं चेव गहणे कीरमाणे चरिमसमयाणियट्टि-
सव्वसंकमट्टाणाणि दुचरिमादिसमयाणियट्टिसंकमट्टाणाणमादीदो प्पहुडि असंखेज्जदि-
भागं च मोत्तण सेसासेससंकमट्टाणाणि पुणरुत्ताणि जादाणि ति तेसिमवणयणं कायव्वं ।
तदो अणियट्टिकरणमस्सिऊण मिच्छत्तस्स संकमट्टाणपरूवणा समत्ता ।

§ ७७६. संपहि मिच्छत्तस्स अण्णो वि गुणसंकमविसयो अत्थि—उवसमसम्मा-
इट्टिपढमसमयप्पहुडि अंतोमुहुत्तकालं सव्वमेयंताणुवड्डिपरिणामेहि मिच्छत्तपदेसग्गस्स
सम्मत्तसम्मामिच्छत्तेसु गुणसंकमेण संकंतिदंसणादो । तत्थ वि गुणसंकमपढमसमयप्पहुडि
जाव चरिमसमयो ति संकमट्टाणपरूवणाए कीरमाणे अपुव्वकरणपरूवणादो ण किंचि
णाणत्तमत्थि तदो तेसु सवित्थरं परूविय समत्तेसु गुणसंकममस्सिऊण मिच्छत्तस्स
संकमट्टाणपरूवणा समत्ता । तदो एवं सव्वासु परिवाडीसु ति एदस्स सुत्तस्स अत्थ-
परूवणा समत्ता भवदि ।

§ ७७७. संपहि एदेण सुत्तेण सव्वसंकमट्टाणपरिवाडीसु असंखेज्जलोगमेत्ताणं
चेव संकमट्टाणाणमुवएसोदो एत्तो अब्भहियाणि संकमट्टाणाणि ण संभवन्ति चेवे ति
विप्पडिवण्णस्स सिस्सस्स तहाविहविप्पडिवत्तिणिरायरणमुहेण सव्वसंकममस्सिऊणाणंताणं
संकमट्टाणाणं संभवपदुप्पायणट्टमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

भी सदृशपना करके ग्रहण करना चाहिए । तथा इसी विधिसे आकर द्विचरम समय और चरम
समयके अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी संक्रमस्थानोंका भी सदृशपना लगा लेना चाहिए । यहाँ पर
सदृश संक्रमस्थानोंका अपनयन करके विसदृशोंका ही ग्रहण करने पर अन्तिम समयके अनिवृत्ति-
करणसम्बन्धी सब संक्रमस्थानोंको और द्विचरम आदि समयके अनिवृत्तिकरणसम्बन्धी
संक्रमस्थानोंके आदिसे लेकर असंख्यातवें भागको छोड़कर शेष सब संक्रमस्थान पुनरुक्त हो गये
हैं, इसलिए उनका अपनयन करना चाहिए । इसके बाद अनिवृत्तिकरणका आश्रयकर मिथ्यात्वके
संकमस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ७७६. अब मिथ्यात्वका अन्य भी गुणसंकम विषय हैं, क्योंकि उपशम सम्यग्दृष्टि जीवके
प्रथम समयसे लेकर अन्तर्मुहूर्त काल तक एकान्तानुवृद्धिरूप परिणामोंके द्वारा मिथ्यात्वके
प्रदेशोंका सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वमे गुणसंकमरूपसे संक्रम देखा जाता है । वहाँ भी गुण-
संकमके प्रथम समयसे लेकर अन्तिम समय तक संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा करने पर अपूर्वकरणकी
प्ररूपणासे कुछ भी नानात्व नहीं है, इसलिए उनके विस्तारके साथ प्ररूपणा करके समाप्त होने पर
गुणसंकमका आश्रय कर मिथ्यात्वकी संक्रमस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । इसलिए 'इस प्रकार सब
परिपाटियोंमें, इस सूत्रकी अर्थप्ररूपणा समाप्त होती है ।

§ ७७७. अब इस सूत्रसे सर्वसंकमस्थानोंकी परिपाटियोंमें असंख्यात लोकप्रमाण ही
संकमस्थानोंका उपदेश होनेसे इनसे अधिक संक्रमस्थान सम्भव नहीं ही हैं इस प्रकार विवादापन्न
शिष्यकी उस प्रकारकी विप्रतिपत्तिके निराकरण द्वारा सर्वसंकमका आश्रयकर अनन्त संक्रमस्थान
सम्भव हैं इसका कथन करने के लिए आगेका सूत्र अतीर्ण हुआ है—

❀ एवरि सव्वसंकमे अणंताणि संक्रमद्वाराणि ।

§ ७७८. ण केवलमसंखेज्जलोगमेताणि चैव संक्रमद्वाराणि, किंतु सव्वसंकमविसए अणंताणि संक्रमद्वाराणि अभवसिद्धिएहितो अणंतगुणसिद्धाणंतिमभागमेताणि लब्भंति ति भिंदिं होदि । संपहि एदेण सुत्तेण सूचिदाणं सव्वसंकमविसयसंकमद्वाराणं परूवणं वत्तइस्सामो । तं जहा—एगो खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण पुव्वुत्तेण क्रमेण सम्मतं पडिवज्जिय वेछावड्डिसागरोवमाणि परिभमिदूण दंसणमोहक्खवणाए अब्भुद्धिय जहा-कममधापवत्तकरणमपुव्वकरणं च बोलिय अणियद्विकरणद्वारे संखेज्जेसु भागेषु गदेसु तत्थ मिच्छत्तचरिमफालिं सव्वसंकमेण सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खिवमाणो सव्वसंकम-मस्सिऊण मिच्छत्तजहण्णसंकमद्वाराणसामिओ होइ । पुणो एदम्हादो उवरि परमाणुत्तर-दुपरमाणुत्तरादिक्रमेण खविदकम्मंसियस्स दोवड्डीहिं खविदगुणित्तोलमाणं पंचवड्डीहिं गुणित्तकम्मंसियस्स वि दुविहाए वड्डीए वड्डीविय रोदव्वं जाव एत्थतणचरिम-वियप्पो ति ।

§ ७७९. तत्थ सव्वपच्छिमवियप्पो बुच्चदे—एक्को गुणित्तकम्मंसिओ सत्तमपुठवीए मिच्छत्तद्वयमुक्कस्सं करिय तत्तो णिस्सरिऊण तिरिक्खेसु दो-तिण्णिभवग्गहाणि गमिय समयाविरोहेण देवेषुववज्जिय अंतोमुहुत्तेण सम्मतं पडिवज्जिय वेछावड्डिसागरोवमाणि

❀ इतनी विशेषता है कि सर्वसंक्रममें अनन्त संक्रमस्थान हैं ।

§ ७७८. केवल असंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान नहीं हैं, किन्तु सर्वसंक्रममें अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण अनन्त संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए सर्वसंक्रमविषयक संक्रमस्थानोंका कथन करेंगे । यथा कोई एक जीव क्षपितकर्मांशिक लक्षणसे आकर पूर्वोक्त क्रमसे सम्यक्त्वको प्राप्तकर तथा दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर दर्शनमोहनीयकी क्षपणके लिए उद्यत हो क्रमसे अध प्रवृत्तकरण और अपूर्वकरणको विताकर अनिवृत्तिकरणके संख्यात बहुभागके जाने पर वहाँ मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको सर्वसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त करता हुआ सर्वसंक्रमका आश्रय कर मिथ्यात्वके जघन्य संक्रमस्थानका स्वामी होता है । पुनः इसके ऊपर एक परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक आदिके क्रयसे क्षपितकर्मांशिकको दो वृद्धियोंके द्वारा क्षपित-गुणित्त-बोलमान जीवोंको पाँच वृद्धियोंके द्वारा तथा गुणित्तकर्मांशिक जीवको भी दो वृद्धियोंके द्वारा बढ़ाकर यहाँके अन्तिम विकल्पके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए ।

§ ७७९. वहाँ सबसे अन्तिम विकल्प कहते हैं—एक गुणित्तकर्मांशिक जीव सातवीं पृथिवीमे मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करके फिर वहाँ से निकल कर तिर्यक्चोमे दो-तीन भवोंको विताकर यथाशास्त्र देवोंमे उत्पन्न हो अन्तर्भूतमें सम्यक्त्वको प्राप्त कर दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर दर्शनमोहनीयकी क्षपणका प्रस्थापन कर सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर मिथ्यात्वकी

परिमिय दंसणमोहकखवणं पडुविय सम्मामिच्छत्तस्सुवरि मिच्छत्तचरिमफालिं क्रमेण संछुहिदूणं द्विदो तस्स पयदविसयचरिमवियप्पो होइ । संपहि चरिमफालिदव्वमेदं समऊण-विसमऊणादिक्रमेण वेळावड्डिकालं सव्वमोदारिय गहेयव्वं । तं कथमोदारिज्जदि त्ति भणिदे एगो गुणिदकम्मंसिओ सत्तमपुठवीए मिच्छत्तदव्वमुक्कस्सं करेमाणो तत्थेयगो-वुच्छमेत्तेणणं करियागंतूणं समऊणवेळावड्डीओ परिमिय दंसणमोहकखवणाए अब्भुट्टिय मिच्छत्तचरिमफालिं संछुहमाणो पुव्विज्जलेण समाणो होइ । एसो परमाणुत्तरक्रमेण अप्पणो ऊणोक्कयदव्वमेत्तं वड्ढावेयव्वो । एवमेदीए दिसाए वेळावड्डिकालो सव्वो परिहावेयव्वो जाव चरिमवियप्पं पत्तो त्ति ।

§ ७८०. तत्थ चरिमवियप्पो—जो गुणिदकम्मंसिओ सत्तमाए पुठवीए मिच्छत्तदव्व-मोघुक्कस्सं करियागंतूणं दो-तिण्णभवग्गहणाणि तिरिक्खेसु गमिय तदो मणुस्सेसुअज्जिय गव्भादिअट्टवस्साणमंतोमुहुत्तव्वभहियाणमुवरि दंसणमोहणीयं खवेमाणो मिच्छत्तचरिम-फालिं सम्मामिच्छत्तस्सुवरि संकामेदूणं द्विदो सो सव्वसंक्रमस्सिऊणं मिच्छत्तस्स सव्वपच्छिमवियप्पसामिओ होइ । खविदकम्मंसियस्स त्रि कालपरिहाणिं कादूणेवं चैव परूवणां कायव्वा । णवरि एयगोवुच्छमेत्तमहियं कादूणागदेण हेट्ठिमसमयद्विदो सरिसो त्ति वत्तव्वं । ओदारिय चरिमफालिदव्वे वड्ढाविदे इमाणि सव्वसंक्रमविसये अणंताणि

अन्तिम फालिको क्रमसे संक्रमित कर स्थित है उसके प्रकृत सर्वसंक्रमविषयक अन्तिम विकल्प होता है । अब इस अन्तिम फालिके द्रव्यको एक समय कम, दो समय कम आदिके क्रमसे सम्पूर्ण दो छयासठ सागर प्रमाण कालको उतार कर ग्रहण करना चाहिए । उसे कैसे उतारा जाय ऐसा पूछने पर कहते हैं—एक गुणितकर्मा शिक जीव सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्वके द्रव्यको उत्कृष्ट करता हुआ वहाँ एक गोपुच्छामात्र न्यून करके और आकर एक समय कम दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर दर्शनमोहनीयकी क्षणोंके लिए उद्यत हो मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिका संक्रम करता हुआ पूर्वके जीवके समान है । यह एक परमाणु अधिक आदिके क्रमसे अपने कम किये गये द्रव्यमात्रको बढ़ावे । इस प्रकार इस दिशासे अन्तिम विकल्पके प्राप्त होने तक समस्त दो छयासठ सागर काल घटाना चाहिए ।

§ ७८०. अब वहाँ अन्तिम विकल्पको बतलाते हैं—जो गुणितकर्मा शिक जीव सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्वके द्रव्यको ओप उत्कृष्ट करके और आकर दो-तीन भव तिर्यञ्चोमें विताकर अनन्तर अनुश्रवोने उत्पन्न दो गर्भ से लेकर अन्तमुहूर्त अदिक आठ वर्ष के बाद दर्शनमोहनीयकी क्षणों करता हुआ मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिको सम्यग्मिथ्यात्वके उपर संक्रमण कर स्थित है यह सर्वसंक्रमका अपेक्षा मिथ्यात्वके सबसे अन्तिम विकल्पका स्वामी होता है । क्षणिककर्माशिककी भी फालिको परिदामि करके इसी प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए । इतनी विशेषता है कि एक गोपुच्छ-मात्र द्रव्यको अधिक कर आये हुए जीवके साथ अवस्तन समय में स्थित जीव समान होता है ऐसा करना चाहिए । उतार कर अन्तिम फालिके द्रव्यके बढ़ाने पर सर्वसंक्रमकी अपेक्षा ये अनन्त

संक्रमद्व्याणि समुष्पणोणि हवन्ति । होंताणि वि खविदजहण्णदव्वे गुणिदुकस्सदव्वादो सोहिदे सुद्धसेसे रूवाहियम्मि जत्तिया परमाणू अत्थि तत्तियमेत्ता चेव संक्रमद्व्याणवियप्पा सब्बसंक्रममस्सिऊण समुष्पण्णा हवन्ति ।

§ ७८१. एवमेत्तिण पव्वेण मिच्छत्तस्स संक्रमद्व्याणपरूवणं कादूण संपहि एदेणेव गयत्थाणं सेसकम्माणं पि पयदत्थसमप्पणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❧ एवं सब्बकम्माणं ।

§ ७८२. जहा मिच्छत्तस्स संक्रमद्व्याणपरूवणं कयं तथा सेसकम्माणं पि कायव्वं । कुदो ? सब्बसंक्रमे अणंताणि संक्रमद्व्याणाणि तदो अण्णत्थासंखेज्जलोगा संक्रमद्व्याणाणि होंति, एदेण भेदाभावो । संपहि एदेण सामण्णणिदेसेण लोहसंजलणस्स वि सब्बसंक्रमविसयाणमणंताणं संक्रमद्व्याणमत्थित्ताइप्पसंगे तप्पडिसेहदुव्वारेणासंखेज्जलोगमेत्ताणं चेव संक्रमद्व्याणं तत्थ संभवं पदुप्पायणद्वुत्तरसुत्तमाह—

❧ एवरि लोहसंजलणस्स सब्बसंक्रमो एत्थि ।

§ ७८३. किं कारणं ? परपयडिसंछोहणेण विणा खविदत्तादो । तम्हा लोहसंजलणस्सासंखेज्जलोगमेत्ताणि चेव संक्रमद्व्याणाणि अधापवत्तसंक्रममस्सिऊण परूवेयव्वाणि त्ति

संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं । होते हुए भी क्षपित कर्मांशिकके जघन्य द्रव्यको गुणित कर्मांशिकके उत्कृष्ट द्रव्यमेसे कम करने पर एक अधिक शुद्ध शेषमे जितने परमाणु हैं उतने ही संक्रमस्थानके दिवत्प सर्वसंक्रमके आश्रयसे उत्पन्न होते हैं ।

§ ७८१. इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा मिथ्यात्वके संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा करके अब इसी पद्धतिसे ही गतार्थ शेष कर्मोंके भी प्रकृत अर्थका समर्पण करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इसी प्रकार सब कर्मोंके संक्रमस्थान जानने चाहिए ।

§ ७८२. जिस प्रकार मिथ्यात्वके संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार शेष कर्मोंके संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा भी करनी चाहिए, क्योंकि सर्वसंक्रममे अनन्त संक्रमस्थान होते हैं और उससे अन्यत्र असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान होते हैं इस अपेक्षासे कोई भेद नहीं है । अब इस सामान्य निर्देशसे लोभसंज्वलनके भी सर्वसंक्रमविषयक अनन्त संक्रमस्थानोंके प्राप्त होने पर उनके प्रतिषेध द्वारा असख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान वहाँ सम्भव है ऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनका सर्वसंक्रम नहीं होता ।

§ ७८३ क्योंकि पर प्रकृतिमे संक्रमण हुए बिना उसका क्षय होता है । इसलिए अब प्रवृत्तसंक्रमके आश्रयसे लोभसंज्वलनके असंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान कहने चाहिए यह उक्त कथनका भावार्थ है । अब इन दोनों ही सूत्रों द्वारा प्रगट किये गये अर्थका स्पष्टीकरण करनेके

भावत्थो । संपहि एदेहिं दोहिं मि सुत्तेहिं समप्पिदत्थस्स फुडीकरणडुमेत्थ किंचि परूवणं
 ऋसामो । तं जहा—वारसकसाय-इत्थि—णवुंसय०—अरदि-सोगाणमप्पणो जहण-
 सामित्तविहाणेणागंतूण अघापवत्तकरणचरिमसमए वडुमाणस्स जहणसंतकम्मेण जहण-
 परिणामणिबंधणविज्झादसंकममस्सिऊण जहणसंकमड्ढाणमुप्पज्जदि । पुणो तम्मि चैव
 असंखेज्जलोगभागुत्तरं संकमड्ढाणं होदि । एवं जहणए कम्मे असखेज्जा लोगा संकम-
 ड्ढाणाणि होति । तदो पदेसुत्तरे दुपदेसुत्तरे वा एवमणंतभागुत्तरे वा जहणसंतकम्मे ताणि
 चैव संकमड्ढाणाणि ? कुदो तारिससंतकमवियप्पाणमपुणरुत्तसंकमड्ढाणंतरुप्पत्तीए अणि-
 मित्तभावादो । तदो असंखेज्जलोगभागे पक्खित्ते विदियसंकमड्ढाणपरिवाडी होइ, एग-
 संतकममपम्मेत्ते जहणसंतकम्मादो वड्ढिदे वि सरिससंकमड्ढाणंतरुप्पत्तीए णिव्वाह-
 मुवलंभादो । एवं सव्वासु परिवाडीसु णेदव्वमिच्चादिमिच्छत्तभंगेण सव्वमणुगंतव्वं ।
 णवरि अघापवत्तसंकमविसए वि एदेसिं कम्माणमसंखेज्जलोगमेत्तसंकमड्ढाणाणि अत्थि,
 तेसिं पि परूवणा जाणिय कावव्वा ।

§ ७=४. एवं हस्स-रइभय-दुगुंछाणं पि वत्तव्वं । णवरि अपुव्वकरणावलिय-
 पवडुचरिमसमए अघापवत्तसंकमणे जहणसामित्तमेदेसिं जादमिदि अघापवत्तसंकम-
 णिबंधणाणि असखेज्जलोगमेत्तसंकमड्ढाणाणि तत्थुप्पाइय गेण्हियव्वाणि । तदो अणियड्ढि-

लिए यहाँ पर कुछ प्ररूपणा करेंगे । यथा—नपुंसकवेद, अरति और शोकका अपना अपना जो
 जवन्य स्वामित्व है उस विधिसे आकर अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विद्यमान जीवके
 जवन्य सत्कर्मके साथ जवन्य परिणाम निमित्तक विध्यातसंकमका आश्रय कर जवन्य
 संकमस्थान उत्पन्न होता है । पुन उसीमें ही असंख्यात लोक भाग अधिक संकम
 स्थान उत्पन्न होता है । इस प्रकार जवन्य कर्ममें असंख्यात लोकमात्र संकमस्थान होते हैं । इसके
 बाद एक प्रदेश अधिक, दो प्रदेश अधिक इस प्रकार अनन्तभाग अधिक जवन्य सत्कर्ममें वे ही
 संकमस्थान होते हैं, क्योंकि उस प्रकारके सत्कर्म विकल्प अपुनरुक्त संकमस्थानोंकी अनन्तर
 उत्पत्तिमें निमित्त नहीं हैं । इसके बाद असंख्यात लोक भागके प्रक्षिप्त करने पर दूसरी संकमस्थान
 परिपाटी होती है, क्योंकि जवन्य सत्कर्मसे एक सत्कर्म प्रक्षेपमात्र बढ़ाने पर भी सदृश संकमस्थानकी
 अनन्तर उत्पत्ति निर्याव उपलब्ध होती है । 'इम प्रकार सब परिपाटियोंमें ले जाना चाहिए' इत्यादि
 मित्रात्वके भंगसे सब जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अधःप्रवृत्तसंकमके विषयमें भी
 इन कर्मोंके असंख्यात लोकमात्र संकमस्थान हैं, इसलिए उनकी भी प्ररूपणा जानकर करनी
 चाहिए ।

§ ७=५. इसी प्रकार हास्य, रति, भय और जुगुप्साका भी कथन करना चाहिए । इतनी
 विशेषता है कि अपूर्वकरणके आवृत्ति प्रविष्ट अन्तिम समयमें अधःप्रवृत्तसंकमके द्वारा इनका जवन्य
 न्यामद्वारा दंड गण्य है, इसलिए अब प्रवृत्तसंकमनिमित्तक असंख्यात लोकमात्र संकमस्थानोंको
 यहाँ उत्पन्न करा कर ग्रहण करना चाहिए । इसके बाद अनिवृत्तिकरणमें संकमस्थानोंके उत्पन्न

करणम्भि संक्रमद्वाणुप्पायणे मिच्छत्तादो णत्थि किं पि णाणत्तं, तत्थेदेसिं गुणसंक्रमसंभवं पडि भेदाभावादो । सव्वसंक्रमे वि ण किंचि णाणत्तमत्थि । एवं लोहसंजलणस्स वि । णवरि सव्वसंक्रमो गुणसंक्रमो च णत्थि । अपुव्वकरणावलियपविट्ठुचरिमसमयजहण्णसंक्रमद्वाणमादिं कादूण जावुकस्ससंक्रमद्वाणे त्ति ताव अथापवत्तसंक्रममस्सिऊणासंखेज्जलोगमेत्ताणि चेव संक्रमद्वाणाणि लोहसंजलणस्स समुप्पाइय गेण्हिदव्वाणि ।

§ ७८५. पुरिसवेद-क्रोह-माण-मायासंजलणाणमुवसमसेठीए चिराणसंतंक्रमं सव्व-मुवसामिय णवक्कवंधोवसामणाए वावदस्स चरिमसमए जहण्णसामित्तं होइ त्ति तत्थ-तणाणियट्ठिपरिणाममेयवियव्वमस्सिदूण सेठीए असंखे०भागमेत्तसंतवियप्पेहिं सेठीए असंखे०भागमेत्ताणि चेव संक्रमद्वाणाणि समुप्पाइय गेण्हियव्वाणि । एवं दुचरिमादि-समएसु वि विसेसाहियक्रमेण संक्रमद्वाणाणि उप्पाइय ओदारेयव्वं जाव णवक्कवंधोव-सामणाए पढमसमयो त्ति ।

§ ७८६. एवमुप्पाइदे जोगद्वाणद्वाणायामेण समयूणदोआवलियविकखंभेण ण पयदकम्मणं संक्रमद्वाणपदरमुप्पणं होइ । एत्थ सेसो विधी पदेसविहत्तिभंगेण वत्तव्यो । हेट्ठा वि अथापवत्तसंक्रममस्सिऊणेदेसिं लोभसंजलणभंगेण द्वाणपरूवणा कायव्वा । खवग-

करानेमे मिथ्यात्वसे कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि वहाँ इतका गुणसंक्रम सम्भव होनेके प्रति भेद नहीं पाया जाता । सर्वसंक्रममे भी कुछ भेद नहीं है । इसी प्रकार लोभसंज्वलनके विषयमे भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसका सर्वसंक्रम और गुणसंक्रम नहीं है । अपूर्वकरणके आवलिप्रविष्ट अन्तिम समयमे जघन्य संक्रमस्थानसे लेकर उत्कृष्ट संक्रमस्थानके प्राप्त होने तक अधःप्रवृत्तसंक्रमका आश्रय कर असंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान लोभसंज्वलनके उत्पन्न कर ग्रहण करने चाहिए ।

§ ७८५. पुरुषवेद, क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन और मायासंज्वलनके उपशमश्रेणिमे समस्त प्राचीन सत्कर्मको उपशमा कर नवकवन्धकी उपशामनामे व्यापृत हुए जीवके अन्तिम समयमे जघन्य स्वामित्व होता है, इसलिए वहाँके एक विकल्परूप अनिवृत्तिकरणके परिणामका आश्रय कर जगश्रेणिके असंख्यातवें भागमात्र सत्कर्म विकल्पोंसे जगश्रेणिके असंख्यातवें भागमात्र ही संक्रमस्थानोंको उत्पन्न कर ग्रहण करना चाहिए । इसी प्रकार द्विचरम आदि समयोंमे भी विशेष अधिकके क्रमसे संक्रमस्थानोंको उत्पन्न कर नवकवन्धकी उपशामनाके प्रथम समयके प्राप्त होने तक उतारना चाहिए ।

§ ७८६. इस प्रकार उत्पन्न कराने पर प्रकृत कर्मोंका संक्रमस्थानप्रतर योगस्थानोंके अध्यानके बावुर आयामवाला और एक समय कम दो आवलिप्रमाण विष्कम्भवाला उत्पन्न होता है । यहाँ पर शेष विधि प्रदेशविभक्तिके समान कहनी चाहिए । नीचे भी अधःप्रवृत्तसंक्रमका आश्रयकर इनकी लोभसंज्वलनके समान स्थानप्ररूपणा करनी चाहिए । क्षपकश्रेणिमे भी नवक-

सेटोए वि णरुक्त्रं चरिमादिफालीओ संखुहमाणयस्स विहत्तिभंगाणुसारेण संकमट्टाणपरूवणा णिघ्नमोहमणुगंतव्वा । सव्वसंकमे च पदेसविहत्तिभंगो ।

§ ७८७. संपहि सम्मत्तसम्मामिच्छात्ताणमप्पणो जहण्णसामित्तविहाणेणागंतूण उव्वेल्लणदुचरिमण्डयचरिमसमयम्मि उव्वेल्लणसंकमेण संकामेमाणस्स जहण्णसंकमट्टाणं होइ । एवमादिं^१ कादूण पक्खेवुत्तरकमेण संतकम्मं वड्ढाविय असंखेज्जलोगमेत्तसंकमट्टाणाणि तण्णिणंधणाणि समुप्पाइय गहेयव्वाणि । सेसो विही जहा मिच्छत्तस्स भणिदो तथा वत्तव्यो । णपरि जम्मि विज्झादभागहारो तम्मि उव्वेल्लणभागहारो उव्वेल्लण-णाणाणुणहाणिसलागाणमण्णोण्णव्वत्थरासी च भागहारो ठवेयव्वो । संतकम्मपक्खेव पमाणं च अप्पणो जहण्णदव्वादो साहेयव्वं । पुणो कालपरिहाणीए संतकम्मोदारणाए च मिच्छत्तभंगमणुसंभरिय ओदोरेयव्वं जाव सगगालणकालं सव्वमोइण्णस्स उव्वेल्लणा-पारंभपटमसमयो त्ति । एवमोदारिदे उव्वेल्लणसंकममस्सिऊण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण-मसंखेज्जलोगमेत्ताणि संकमट्टाणाणि समुप्पणाणि भवंति । एत्थ पुणरुत्तापुणरुत्ताणुगमे मिच्छत्तविज्झादसंकमभंगो ।

§ ७८८. पुणो चरिमुव्वेल्लणण्डयम्मि दोण्हमेदेसिं कम्माणं गुणसंकमसंभवो त्ति । तत्थापुव्वरुणम्मि मिच्छत्तस्स जहा संकमट्टाणपरूवणा कया तथा कायव्वा । तत्थेव

बन्धनी अन्तिम आदि फालियोका सक्रमण करनेवाले जीवकी विभक्तिभगके अनुसार संक्रमस्थान प्ररूपणा विना व्यामोहके करनी चाहिए । सर्वसंकममे प्रदेशविभक्तिके समान भंग है ।

§ ७८७. अब सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वकी अपेक्षा विचार करने पर अपने अपने जगन्मय सामित्यकी विविधे आकर उद्वेलनाके द्विचरम काण्डकके अन्तिम समयमे उद्वेलनासंकमके द्वारा सक्रम करनेवाले जीवके जगन्मय संक्रमस्थान होता है । आगे इसे आदि करके प्रक्षेपोत्तरके क्रमसे सत्कर्मको बढ़ाकर तन्निमित्तक असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थानोंको उत्पन्न करके ग्रहण करना चाहिए । शेष विधि जिस प्रकार मिथ्यात्वकी कही है उस प्रकार कहनी चाहिए । इतनी विशेषता है कि जहाँ विध्यातभागहार कहा है वहाँ उद्वेलनभागहार और उद्वेलनासंकमकी नाना गुणहानि शलाकाओंकी अन्यान्याभ्यस्तराशि भागहार स्थापित करना चाहिए । तथा सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण अपने जगन्मय द्रव्यके अनुसार साध लेना चाहिए । पुन कालपरिहानि और सत्कर्मके उतारनेमे मिथ्यत्वके भंगका स्मरण कर पूरा अपने गालन का काल उतरे हुए जीवके उद्वेलनाके प्रारम्भ होनेके प्रथम समयके प्राप्त होने तक उतारना चाहिए । इस प्रकार उतारने पर उद्वेलनासंकमका आश्रय कर सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके असंख्यात लोकमात्र संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं । वहीं पर पुनरुक्त और अपुनरुक्तके अनुगममे मिथ्यात्वके विध्यातसंकमके समान भंग है ।

§ ७८८. पुन अन्तिम उद्वेलनाकाण्डकमे इन दोनों कर्मोंका गुणसंकम सम्भव है । सो वहाँ अप्ररूपणमे मिथ्यात्वकी जिस प्रकार प्ररूपणा की है उस प्रकार करनी चाहिए । वहीं पर अन्तिम

चरिमफालिं संक्रामेमाणस्स सव्वसंक्रमो होदि ति तत्थ अणंताणं संकमट्टाणाणं परूवणा जाणिय कायव्वा । अण्णं च मिच्छत्तं पडिवण्णस्स जाव उव्वेव्वल्लणसंकमपारंभो ण होइ ताव अंतोमुहुत्तकालमधापवत्तसंक्रमो होइ ति । एत्थ वि अधापवत्तसंकमचरिमसमयमादिं कादूण जाव अधापवत्तसंकमपठमसमयो ति ताव समयं पडि पादेकमसंखेज्जलोगमेत्तसंकमट्टाणाणि संतकम्मभेदं परिणामभेदं च णिवंधणं कादूण परूवेयव्वाणि । सम्मामिच्छत्तस्स विज्झादसंकमेण दंसणमोहक्खवयापुव्वाणियड्डिगुणसंकमेण तत्थतणसव्वसंकमेण उवसमसम्माइड्डिम्मि गुणसंकमेण च ट्टाणपरूवणाए कीरमाणाए मिच्छतभंगो । एवमोधेण सव्वकम्माणं ट्टाणपरूवणा समत्ता ।

§ ७८६. आदेसेण मणुसतियम्मि एवं चेव वत्तव्वं । णवरि मणुसिणीसु पुरिसवेदस्स अपुव्वकरणावल्लियपविट्ठचरिमसमयम्मि जहण्णसामित्तं होइ ति तमादिं कादूण परूवणा कायव्वा । सेसमग्गणासु जाणिदूण णेदव्वं जाव अणाहारए ति । एवं संगंतोक्खित्तपमाणाणुगमं परूवणाणिओगहारं समत्तं ।

§ ७९०. संपहि एवं परूविदसंकमट्टाणाणं पमाणाविसयणिण्णयुप्पायणट्टमप्पा बहुअपरूवणं कुणमाणो सुत्तपवंधमुत्तरं भणइ—

❀ अप्पावहुअं ।

फालिका संक्रम करनेवाले जीवके सर्वसंक्रम होता है इसलिए वहाँ पर अनन्त संक्रमस्थानोंके प्ररूपणा जानकर करनी चाहिए । और भी मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके जब तक उद्वेलनासंक्रमक प्रारम्भ नहीं होता तब अन्तर्मुहूर्त काल तक अधःप्रवृत्तसंक्रम होता है । यहाँ पर भी अधःप्रवृत्तसंक्रमके अन्तिम समयसे लेकर अधःप्रवृत्तसंक्रमके प्रथम समय तक प्रत्येक समयमें अलग अलग असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान सत्कर्मके भेदको और परिणामभेदको निमित्त कर कहने चाहिए । सम्यग्मिथ्यात्वकी विध्यातसंक्रमके आश्रयसे दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवके अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणमे गुणसंक्रमके आश्रयसे, वहाँ सर्वसंक्रमके आश्रयसे और उपशम श्रेणिये गुणसंक्रमके आश्रयसे स्थानप्ररूपणा करने पर उसका भंग मिथ्यात्वके समान है । इस प्रकार ओघसे सब कर्मोंकी स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ७८६. आदेशसे मनुष्यत्रिकमे इसी प्रकार कहनी चाहिए । इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियेमे पुरुषवेदका अपूर्वकरणके आवलिप्रविष्ट अन्तिम समयमे जघन्य स्वामित्व होता है, इस लिए उससे लेकर प्ररूपणा करनी चाहिए । शेष मार्गणात्रोंमे अनाहारक मार्गणातक जानकर प्ररूपणा करनी चाहिए । इसप्रकार जिसके भीतर प्रमाणानुगम अन्तर्लीन है ऐसा प्ररूपणानुयोगद्वार समाप्त हुआ ।

§ ७९०. अब इसप्रकार कहे गये संक्रमस्थानोंका प्रमाणविषयक निर्णय करनेके लिए अस्पवहुत्वका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

* अल्पबहुत्वका अधिकार है ।

§ ७६१. सुगममेदमहियारसंभालणवकं ।

❀ सव्वत्थोवाणि लोहसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि ।

§ ७६२. कुदो ? लोहसंजलणस्स सव्वसंकमाभावेणासंखेज्जलोगमेत्ताणं चेव संकमट्टाणाणमुवलंभादो ।

❀ सम्मत्ते पदेससंकमट्टाणाणि अणंतगुणाणि ।

§ ७६३. किं कारणं ? अभवसिद्धिहंतो अणंतगुणसिद्धाणमणंतभागपमाणत्तोदो । रोदमसिद्धं, उव्वेज्जलणचरिमफालीए सव्वसंकममस्सिऊण तेत्तियमेत्तसंकमट्टाणाणं णिप्पडि-
पदमुवलंभादो ।

❀ अपच्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ? ।

§ ७६४. किं कारणं ? सम्मत्तस्स चरिमुव्वेज्जलणकंडयजहण्णफालीए तस्सेवुकस्स-
चरिमफालीदो सोहिदाए सुद्धसेसमेत्ता संकमट्टाणवियप्पा होंति । अप्पच्चक्खाणमाणस्स
वि सगसव्वजहण्णचरिमफालीए अप्पणो उक्कस्सचरिमफालीदो सोहिदाए सुद्धसेसमेत्ता
संकमट्टाणवियप्पा सव्वसंकमणिवंधणा होंति । होंता वि सम्मत्तसुद्धसेसट्टाणवियप्पेहंतो
असंखेज्जगुणा, मिच्छत्तादो गुणसंकमेण पडिच्छिद्धदव्वस्स उव्वेज्जलणकालव्भंतरगलिदाव-
सिद्धस्स सम्मत्तचरिमफालिसरूवेणुवलंभादो । अपच्चक्खाणमाणस्स पुण अणणाहिय-
कम्मट्टिदिसंचण मिच्छत्तुकस्सदव्वादो विसेसहीणेण खवणाए अब्भुट्टिदस्स सव्वुकस्स-

§ ७६१. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह वाक्य सुगम है ।

* लोभसंजलनमें प्रदेशसंकमस्थान सबसे थोड़े हैं ।

§ ७६२. क्योंकि लोभसंजलनका सर्वसंकम नहीं होनेसे असंख्यात लोकमात्र ही संकमस्थान उपलब्ध होते हैं ।

* उनसे सम्यक्त्वमें प्रदेशसंकमस्थान अनन्तगुणे हैं ।

§ ७६३. क्योंकि ये अभव्योंसे अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्तवें भागप्रमाण हैं । यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि उद्वेलनाकी अन्तिम फालिके सर्वसंकमके आश्रयसे उतने संकमस्थान बिना बाधाके उपलब्ध होते हैं ।

* उनसे अप्रत्याख्यानमानमें प्रदेशसंकमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ ७६४. क्योंकि सम्यक्त्वके अन्तिम उद्वेलनाकाण्डकी जघन्य फालिको तसीके उत्कृष्ट अन्तिम फालिमेंसे घटा देने पर शुद्ध शेषमात्र संकमस्थान विकल्प होते हैं । अप्रत्याख्यानावरण मानके भी अपनी सबसे जघन्य अन्तिम फालिको अपनी उत्कृष्ट अन्तिम फालिमेंसे घटा देने पर शुद्ध शेषमात्र सर्वसंकमनिमित्तक संकमस्थान विकल्प होते हैं । होते हुए भी सम्यक्त्वके शुद्धशेष स्थानविकल्पोसे असंख्यातगुणे होते हैं, क्योंकि मिथ्यात्वमेसे गुणसंकमके द्वारा प्राप्त हुए तथा उद्वेलना कालके भीतर गलकर अशिश्ट रहे द्रव्यको सम्यक्त्वकी अन्तिम फालिरूपसे उपलब्धि होती है । परन्तु क्षणिके लिए उद्यत हुए जीवके अप्रत्याख्यानावरण मानकी सबसे उत्कृष्ट फालि न्यूनविघ्नतामे रहित कर्मस्थितिके सचयप्रमाण तथा मिथ्यात्वके उत्कृष्ट द्रव्यसे विशेष हीन हीत ।

चरिमफाली होइ ति । एदेण कोरणेणासंखेज्जगुणत्तमेदेसि ण विरुज्झदे ।

❀ कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ७६५. केत्तियमेत्तो विसेसो ? अपच्चक्खाणमाणपदेससंकमट्टाणाणि आवल्लियाए असंखेज्जभागेण खंडेऊण तत्थेयखंडमेत्तो । तं जहा—अपच्चक्खाणमाणुकस्ससव्वसंकम-दव्वमपच्चक्खाणकोहस्स सव्वसंकमुक्कस्सदव्वादो सोहिय सुद्धसेसमेत्तपयडिविसेसदव्व-मवणिय पुध ठवेयव्वं । एवं पुध डुविदे सेसदव्वं दोण्हं पि समाणं होइ । एदम्हादो समुप्पण्णासेसहेट्ठिमसंकमट्टाणाणि दोण्हं पि सरिसाणि होति जइ दोण्हं पि चरिम-फालीओ जहण्णीओ सरिसीओ होज्ज । णवरि जहण्णचरिमफालीओ दोण्हं पि सरिसीओ ण होति, माणजहण्णचरिमफालीदो कोहजहण्णचरिमफालीए पयडिविसेसमेत्तेण सादिरेयत्तदंसणादो । एदेण कारणेण हेट्ठिमसंकमट्टाणेसु अपच्चक्खाणमाणेण लद्धसंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि भवन्ति, जहण्णचरिमफालिविसेसमेत्ताणं चेव संकम-ट्टाणाणमेत्थाहियाणमुवलंभादो । तदो पुव्वमवणेदूण पुध डुविदपयडिविसेसमेत्तुकस्स-चरिमफालिविसेसादो एदम्मि जहण्णफालिविसेसे सोहिदे सुद्धसेसम्मि जत्तिया परमाणू, तेत्तियमेत्ताणि चेव संकमट्टाणाणि अपच्चक्खाणकोहेणुवरिमपुव्वाणि लद्धाणि, तेणेत्तिय-मेत्तसंकमट्टाणेहि विसेसाहियत्तमेत्थ दट्ठव्वं । एसो अत्थो उवरि पयडिविसेसेण

है । इस कारण इनका असंख्यातगुणापन विरोधको नहीं प्राप्त होता ।

❀ उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ७६५. शंका—विशेषका प्रमाण क्या है ?

समाधान—अप्रत्याख्यानानवरण मानके प्रदेशसंक्रमस्थानोंको आवल्लिके असंख्यातवें भागसे भाजित कर वहाँ जो एकभाग लब्ध आवे उतना विशेषका प्रमाण है । यथा—अप्रत्याख्यान मानके उत्कृष्ट सर्वसंक्रमद्रव्यको अप्रत्याख्यान क्रोधके सर्वसंक्रमसम्बन्धी उत्कृष्ट द्रव्यमेसे घटाकर शुद्ध शेषमात्र प्रकृति विशेषके द्रव्यको पृथक् स्थापित करना चाहिए । इस प्रकार पृथक् स्थापित करने पर शेष द्रव्य दोनोंका ही समान होता है तथा इससे उत्पन्न हुए अशेष अधस्तन संक्रम-स्थान दोनोंके ही समान होते हैं, यदि दोनोंकी ही जघन्य अन्तिम फालियाँ सदृश होवें । परन्तु इतनी विशेषता है कि दोनोंकी जघन्य जतिन्म फालियाँ सदृश नहीं होतीं, क्योंकि मानकी जघन्य अन्तिम फालिसे क्रोधकी जघन्य अन्तिम फालि प्रकृति विशेषमात्र अधिक देखी जाती है । इस कारणसे अधस्तन संक्रमस्थानोंमें अप्रत्याख्यान मानकी अपेक्षा अप्रत्याख्यान क्रोधके प्राप्त हुए संक्रमस्थान विशेष अधिक होते हैं, क्योंकि जघन्य अन्तिम फालिमें विशेषका जितना प्रमाण है उतने ही संक्रमस्थान यहाँ पर अधिक उपलब्ध होते हैं । इसलिए पूर्वके द्रव्यको घटाकर पृथक् स्थापित प्रकृतिके विशेष प्रमाण उत्कृष्ट अन्तिम फालिसम्बन्धी विशेषमेसे इस जघन्य फालि सम्बन्धी विशेषको घटा देने पर शुद्ध शेषमे जितने परमाणु होते हैं उतने ही संक्रमस्थान अप्रत्याख्यान क्रोधके आश्रयसे उपरिम पूर्व होकर प्राप्त होते हैं, इसलिए इतने मात्र संक्रमस्थान विशेष अधिक

विसेसाहियसञ्चपयडीसु जोजेयच्यो ।

§ ७६६. अण्णं च दोण्हमेदेसिं जहण्णदव्वाणि उक्कस्सदव्वेसु सोहिय सुद्धसेसादो अहियदच्चमवणिय सेसदव्वं विज्झादभागहारवेअसंखेज्जालोगजोगगुणगाराणमण्णोण्ण-
व्मत्थरासिं विल्लेऊण समखंडं करिय दिण्णे विरलणरूवं पडि एगेगसंतकम्मपक्खेवपमाणं
पावदि । पुणो एत्तियमेत्तसंतकम्मपक्खेवसु जहण्णदव्वस्सुवरि परिवाडीए पवेसिदेसु
एत्थुण्णणासेससंक्रमद्वाणाणि संतकम्मपक्खेवं पडि असंखेज्जलोगमेत्ताणि दोण्हं पि सरिसाणि
भवंति । पुणो पुच्चमवणोद्दण पुव्व इतिददव्वे वि संतकम्मपक्खेवपमाणेण करमाणे असंखेज्ज-
लोगमेत्ता संतकम्मपक्खेवा होंति ति । तत्थ वि असंखेज्जलोगमेत्तसंक्रमद्वाणाणि
अपच्चक्खाणकोहस्स विज्झादसंक्रमस्सिऊण अव्वहियाणि लव्वंति । एवमथापवत्त-
गुणसंक्रमे वि अस्सिऊण अहियत्तं वत्तव्वं । तदो एदेहि मि विसेसाहियत्तमेत्थ दद्वव्वं ।

❀ मायाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

❀ लोहे पदेससकमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

❀ पच्चक्खाणमाणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

❀ कोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

यहाँ पर जानने चाहिए। यह अर्थ आगे प्रकृति विशेषज्ञी अपेक्षा विशेषाधिक सत्र प्रकृतियोंमें लगाना चाहिए।

§ ७६६. और भी—इन दोनोंके जपन्य द्रव्योंको उत्कृष्ट द्रव्योंमेंसे घटाकर शुद्ध शेषमेंसे अधिक द्रव्यको कम कर शेष द्रव्यके विध्यातभागहार, दो असंख्यात लोक और योग गुणकारोंकी अन्योन्याभ्यस्तराशिको विरलन कर उसके ऊपर समान खण्ड करके देने पर एक एक विरलनके प्रति सत्कर्ममन्वन्धी एक एक प्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है। पुनः इतने मात्र सत्कर्म प्रक्षेपोंके जपन्य द्रव्यके ऊपर परिपाटीमें प्रविष्ट करा देने पर यहाँ पर उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थान सत्कर्मप्रक्षेपके प्रति अमर्यात लोकमात्र होते हुए दोनोंके ही समान होते हैं। पुनः पूर्वके द्रव्यको अलगकर प्रत्येक स्थापित द्रव्यके भी सत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाणमें करने पर असख्यात लोकमात्र सत्कर्मप्रक्षेप होते हैं। यहाँ पर भी अप्रत्याख्यान कोषके विध्यातसंक्रमके आश्रयसे असंख्यात लोकमात्र संक्रमस्थान प्रत्येक उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार अधःप्रवृत्त और गुणसंक्रमके आश्रयमें भी अधिप्रक्षेपका कथन करना चाहिए। इसलिये उनकी अपेक्षा भी विशेषाधिकता यहाँ जाननी चाहिए।

❀ उनमें मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं।

❀ उनमें लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं।

❀ उनमें प्रत्याख्यानस्थानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं।

❀ उनमें कोषमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं।

- * मायाए पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।
- * लोहे पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।
- * अणंताणुवधिमाणस्स पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।
- * कोहे पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।
- * मायाए पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।
- * लोहे पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।
- * मिच्छत्तस्स पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ७६७. एदोणि सुत्ताणि सुगमाणि, पयडिविसेसमेत्तकारणावेक्खिदत्तादो ।

- * सम्मामिच्छत्ते पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ७६८. किं कोरणं ? मिच्छत्तजहण्णचरिमफालिमुक्कस्सचरिमफालीदो सोहिय सुद्धसेसदव्वादो सम्मामिच्छत्तसुद्धसेसचरिमफालिदव्वस्स गुणसंकमभागहारेण खंडदेय-खंडमेत्तेण अहियत्तदंसणादो । मिच्छाइड्ढिमि वि सम्मामिच्छत्तस्स अणंताणं संकम-डाणाणमहियाणमुवलंभादो च ।

- * हस्से पदेससंकमडाणाणि अणंतगुणाणि ।

§ ७६९. कुदो ? देसघाहत्तादो ।

* उनसे मायामें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे लोभमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे अनन्तानुबन्धी मानमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे क्रोधमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे मायामें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे लोभमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे मिथ्यात्वमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ७६७. ये सूत्र सुगम हैं, क्योंकि यहाँ प्रकृति विशेषमात्र कारणकी अपेक्षा है ।

* उनसे सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ७६८. क्योंकि मिथ्यात्वकी जघन्य अन्तिम फालिको उसकी उत्कृष्ट न्तिम फालिमेंसे घटा कर जो द्रव्य शुद्ध शेष रहे उससे सम्यग्मिथ्यात्वकी शुद्ध शेष अन्तिमफालिका द्रव्य गुणसंकमभागहारसे खण्डित करने पर एक खण्डमात्र अधिक देखा जाता है । तथा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें भी सम्यग्मिथ्यात्वके अनन्त संकमस्थान अधिक उपलब्ध होते हैं ।

* उनसे हास्यमें प्रदेशसंकमस्थान अनन्तगुणे हैं ।

§ ७६९. क्योंकि यह देशघाति प्रकृति है ।

❀ रदोए पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८००. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ इत्थिवेदे पदेससंकमडाणाणि संखेज्जगुणाणि ।

§ ८०१. कुदो ? बंधगद्वापाहम्मादो ।

❀ सोगे पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८०२. एत्थ बंधगद्वाविसेसमस्सिऊण संखेज्जभागाहियत्तं दट्ठव्वं ।

❀ अरदोए पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८०३. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ एवुंसयवेदे पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८०४. एत्थ वि बंधगद्वाविसेसमस्सिऊण विसेसाहियत्तमणुगंतव्वं ।

❀ दुगुछाए पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८०५. कुदो ? धुव्वं धित्तेणित्थि-पुरिसवेदबंधगद्वासु वि संचयोवलंभादो ।

❀ भए पदेससंकमडाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८०६. पयडिविसेसमेत्तेण ।

* उनसे रतिमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८००. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उनसे स्त्रीवेदमें प्रदेशसंकमस्थान संख्यातगुणे हैं ।

§ ८०१. क्योंकि इसका बन्धक काल बड़ा है ।

* उनसे शोकमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८०२. यहाँ पर भी बन्धक काल विशेषका आश्रय कर संख्यातवां भाग अधिक जानना

चाहिए ।

* उनसे अरतिमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८०३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उनसे नपुंसकवेदमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८०४. यहाँ पर भी बन्धककाल विशेषका आश्रय कर विशेषाधिकता जाननी चाहिए ।

* उनसे जुगप्सामें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८०५. क्योंकि यह ध्रुव्वं धित्तेण प्रकृति होनेसे स्त्रीवेद और पुरुषवेदके बन्धककालोंमें भेद-सा मन्त्र उपलब्ध होता है ।

* उनसे भयमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८०६. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

❀ पुरिसवेदे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८०७. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ कोहसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ।

§ ८०८ कुदो ? कसायचउब्भागेण सह णोकसायभागस्स सव्वस्सेव कोहसंजलण-
चरिमफालीए सव्वसंकमसरूवेण परिणदस्सुवलंभाद ।

❀ माणसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

❀ मायासंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८०९. एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमोणि, विहत्तीए परूविदकारणत्तादो ।

एवमोघो सम्पपो ।

§ ८१०. एत्तो आदेसपरूवणट्टमुत्तरो सुत्तपवंधो—

❀ णिरयगईए सव्वत्थोवाणि अपच्चक्खण्णमाणे पदेससंकम-
ट्टाणाणि ।

§ ८११. एदाणि असंखेज्जलणमेत्ताणि होदूण सेससव्वपयडिपदेससंकमट्टाणेहितो
थोवाणि ति भणिदं होइ ।

❀ कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

❀ मायाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

* उनसे पुरुषवेदमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८०७. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उनसे क्रोधसंज्वलनमें प्रदेशसंकमस्थान संख्यातगुणे हैं ।

§ ८०८. क्योंकि कषायके चतुर्थभागके साथ नोकषायोंका भाग पूरा ही क्रोधसंज्वलनकी
अन्तिम फालिमे सर्वसंकमरूपसे परिणत होकर उपलब्ध होता है ।

* उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे मायासंज्वलनमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८०९. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं, विभक्तिमे इसका कारण कह आये हैं ।

इस प्रकार ओघ समाप्त हुआ ।

§ ८१०. अब आदेशका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध बतलाते हैं—

* नरकगतिमें अप्रत्याख्यानमानमें प्रदेशसंकमस्थान सबसे स्तोक हैं ।

§ ८११. ये असंख्यात लोकमात्र होकर शेष सब प्रकृतियोंके प्रदेशसंकमस्थानोंसे स्तोक
होते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

* उनसे क्रोधमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे मायामें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।

- ❁ लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ पच्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ मायाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८१२. एदाणि सुत्ताणि पयडिविसेसमेतकारणपडिवट्टाणि सुगमाणि ।

- ❁ मिच्छत्ते पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ८१३ तं जहा—पच्चक्खाणलोभस्स ताव णिरयगइपडिवट्टाणि असंखेज्ज-
लोगमेत्ताणि संक्रमट्टाणाणि भवंति । तं कथं ? खविदकम्मंसियत्तक्खणेणागदासण्णपच्छा-
यदणेरइयपटमसमयम्मि सव्वजहण्णसंकमपाओग्गं पच्चक्खाणलोभजहण्णसंतकम्मट्टाणं होइ
पुणो एदम्हादो उवरि परमाणुत्तरादिकमेण संतकम्मे वट्ठाविज्जमाणे जाव गुणितकम्मं-
सियस्स पच्चक्खाणलोभसंकमपाओग्गुकस्ससंतकम्मट्टाणे त्ति ताव चत्तारि पुरिसे अस्सिऊण
वट्ठिदुं संभवो अत्थि त्ति जहण्णसंतट्टाणमुक्कस्ससंतकम्मट्टाणादो सोहिय सुद्धसेसदव्वं
विरलियसंतकम्मपक्खेवभागहास्स समखंडं कादूण दिण्णे एकेकस्स रूवस्स सव्वकम्मपक्खेव-

* उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे प्रत्याख्यानमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८१२. प्रकृति विशेषमात्र कारणसे सम्बन्ध रखनेवाले ये सूत्र सुगम हैं ।

* उनसे मिथ्यात्वमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ ८१३. यथा—प्रत्याख्यान लोभके तो नरकगतिसम्बन्धी संक्रमस्थान असंख्यात लोक-
मात्र होते हैं ।

शंका—यह कैसे ?

समाधान—चपितकर्मा शिकलत्तण्णेके साथ असत्तियोमिसे आये हुए नारकीके प्रथम समयमें
सबसे ज्वन्य सत्कर्मके योग्य प्रत्याख्यान लोभका ज्वन्य सत्कर्मस्थान होता है । पुनः इससे ऊपर
एक परमाणु अविद आदिके क्रमसे सत्कर्मके बढ़ाने पर गुणितकर्मांशिक जीवके प्रत्याख्यान
लोभके सत्कर्मके योग्य उत्कृष्ट सत्कर्मस्थानके प्राप्त होने तक चार पुरुषोंका आश्रय कर वृद्धि करना
सम्भव है, इनलिण ज्वन्य सत्कर्मस्थानको उत्कृष्ट सत्कर्मस्थानमेंसे घटाकर शुद्ध शेष द्रव्यका
विरलन कर उसके ऊपर सत्कर्मप्रक्षेपभागदारके समान खण्ड कर देयरूपसे देने पर एक एक रूपके
प्रति सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है । सत्कर्मप्रक्षेपभागदार तो असंख्यात लोकप्रमाण हैं,

पमाणं पावइ । संक्रम्मपक्खेमागहारो पुण असंखेज्जलोगमेत्तो, अधापवत्तभागहार-
वे-असंखेज्जलोग-रूवणजोगगुणगाराणमण्णोणसंक्रमजणिदरासिपमाणत्तादो । पुणो एदेसु
विरलणरासिमेत्तसंतक्रमपक्खेवेसु पढमरूवधरिदसंतक्रमपक्खेवपमाणं धेत्तण पडिरासी-
कयजहणसंतक्रमट्टाणस्सुवरि पक्खित्ते विदियं संतक्रमट्टाणमसंखेज्जलोगभागुत्तर-
मुप्पज्जदि । पुणो विदियरूवोवरि द्विदसंतक्रमपक्खेवे विदियसंकमट्टाणं पडिरासिय
पक्खित्ते तदियसंतक्रमट्टाणं होइ । एवमेदेण विधिणा असंखेज्जलोगमेत्तसंतक्रमपक्खेवे
धेत्तणुप्पणुक्कस्ससंतक्रमं पडिरासिय परिवाडीए पक्खित्ते पच्चक्खाणलोहस्सासंखेज्ज-
लोगमेत्तसंतक्रमट्टाणाणि समुप्पणाणि भवंति । एदेण कमेणुप्पणासंखेज्जलोगमेत्तसंत-
क्रमट्टाणाणमेगेसंतक्रमम्मि पादेकमसंखेज्जलोगमेत्तसंकमट्टाणाणि भवंति, सत्थाण-
मिच्छाइट्ठिमि अधापवत्तसंकमपाओगाणमसंखेज्जलोगमेत्तपरिणामट्टाणाणमत्थित्ते पडि-
सेहाभावादो । तदो गिरयगदीए एत्तियमेत्तसंकमट्टाणाणि पच्चक्खाणलोभपडिवट्टाणि होंति
ति सिद्धं ।

§ ८१४. संपहि मिच्छत्तस्स वि गिरयगइपडिवट्टाणि असंखेज्जलोगमेत्ताणि चेव
संकमट्टाणाणि होंति । त जहा—एविदक्रमंसियलक्खणेणागंतूण वेत्तावट्टीओ भभिय
मिच्छत्तं गंतूण समयविरोहेण गेरइएसुववज्जिय अंतोमुहुत्तेण पुणो वि सम्मत्तं धेत्तूण
तदो अंतोमुहुत्तणतेत्तीसंसागरोवमाणि तत्थ भवट्ठिदिमणुपालिय अंतोमुत्तसेसे सगाउए

क्योंकि वह अधःप्रवृत्तभागहार, दो असंख्यात लोक और एक कम योगगुणकारके परस्पर संवर्गसे
उत्पन्न हुई राशिप्रमाण है । पुनः इन विरलन राशिप्रमाण सत्कर्मप्रक्षेपोंमेंसे प्रथम रूपके प्रति
प्राप्त सत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाणको ग्रहण कर प्रतिराशिकृत जघन्य सत्कर्मस्थानके ऊपर प्रक्षिप्त करने
पर असंख्यात लोक भाग अधिक दूसरा सत्कर्मस्थान उत्पन्न होता है । पुनः विरलनके दूसरे
रूपके ऊपर स्थित सत्कर्मप्रक्षेपको दूसरे सत्कर्मस्थानको प्रतिराशि करके उसके ऊपर प्रक्षिप्त करने
पर तीसरा सत्कर्मस्थान होता है । इस प्रकार इस विधिसे असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मप्रक्षेपोंको
ग्रहण कर उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सत्कर्मको प्रतिराशि कर क्रमसे प्रक्षिप्त करने पर प्रत्याख्यान लोभके
असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मस्थान उत्पन्न होते हैं, इस क्रमसे उत्पन्न हुए असंख्यात लोकप्रमाण
सत्कर्मस्थानोंमेंसे एक एक सत्कर्ममें अलग अलग असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मस्थान होते हैं,
क्योंकि स्वस्थान मिथ्यादृष्टिके अधःप्रवृत्तसंकमके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थानोंके
अस्तित्वमें कोई प्रतिषेध नहीं है । इसलिए नरकगतिमें प्रत्याख्यान लोभसे सम्बन्ध रखनेवाले
इतने संक्रमस्थान होते हैं यह सिद्ध हुआ ।

§ ८१४ अब मिथ्यात्वके भी नरकगतिसे सम्बन्ध रखनेवाले असंख्यात लोक प्रमाण ही
संकमस्थान होते हैं । यथा—क्षिप्तकर्मांशिक लक्षणसे आकर तथा दो छथासठ सागर काल तक
परिभ्रमण कर मिथ्यात्वको प्राप्त हो समयके अविरोध पूर्वक नारकियोंमें उत्पन्न हो अन्तर्मुहूर्तमें
फिर भी सम्यक्त्वको ग्रहण कर फिर अन्तर्मुहूर्त कम तैतीस सागर काल तक वह भवस्थितिका
पालन कर अपनी आयुमें अन्तर्मुहूर्त काल शेष रहने पर सम्यक्त्वके अन्तिम समयमें विद्यमान

सम्माइडिचरिमसमयन्मि वड्डमाणस्स मिच्छत्तजहण्णसंक्रमपाओग्गं जहण्णसंतकम्मट्ठाणं होदि । एदम्हादो उवरि परमाणुत्तरादिकमेण जाव मिच्छत्तसंक्रमपाओग्गुकस्ससंतकम्मट्ठाणं पावदि ताव वड्डिदुं संभवो ति जहण्णदवपुक्कस्सदव्वादो सोहिय सुद्धसेसम्मि संतकम्मपक्खेवपमाणगुणमं कस्सामो । तं जहा—

§ ८१५. सुद्धसेसदवपुक्कडुक्कडुणभागहार-वेळावड्डिसागरोवमकालव्भंतरणाणागुण-हाणिसल्लागण्णाण्णभत्थरासि तेतीस०अण्णोण्णग्गभत्थरासि - विज्झादभागहार-वेअसंखेजलो०-जोगुणगाराणमेदेसिं सत्तण्हं रासीणमण्णोण्णसं वग्गजणिदरासिमसंखेजलोगपमाणं विरलिय समखंड कादूण दादव्वं । एवं दिण्णे एक्केकस्स रूवस्स एगोसंतकम्मपक्खेवपमाणं पापदि ।

§ ८१६. संपहि एदे विरलणरासिमेत्तसंतकम्मपक्खेवे घेत्तूण मिच्छत्तजहण्णसंतट्ठाणं पडिरासिय परिवाडीए पक्खित्ते असंखेजलोगमेत्ताणि चैव संतकम्मट्ठाणाणि मिच्छत्तपडि-वट्ठाणि भवंति । एदेहितो समुप्पजमाणसंक्रमट्ठाणाणि वि असंखेजलोगमेत्ताणि होदूण पच्चक्खाणलोभसंक्रमट्ठाणेहितो असंखेजगुणहीणाणि होंति । तत्थतणसंक्रमपाओग्ग-संतकम्मवियपेहितो एत्थतणसंक्रमपाओग्गसंतकम्मवियप्पाणनसंखेजगुणत्ते संते कुदो एस संभवो ति णासंक्रणिज्जं, संतकम्माणं तहाभावे विज्झादसंक्रमणिवंधणपरिणामट्ठाणेहितो अधापत्तसंक्रमणिवंधणपरिणामट्ठाणाणमसंखेजगुणाहियत्तव्भुवगमादो । णाव्भुवगममेत्त-

उसके मिथ्यात्वका जघन्य संक्रमके योग्य जघन्य सत्कर्मस्थान होता है । इसके ऊपर एक परमाणु अधिक आदिके क्रमसे मिथ्यात्वके संक्रमके योग्य उत्कृष्ट सत्कर्मस्थानके प्राप्त होने तक बढ़ाना सम्भव है, इसलिए जघन्य द्रव्यको उत्कृष्ट द्रव्यमेसे घटाकर जो शुद्ध शेष रहे उसमे सत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाणका अनुगम करेंगे । यथा—

§ ८१५. शुद्ध शेष द्रव्यका अपकर्षण-उत्कर्षणभागहार, दो छयासठ सागर कालके भीतर उत्पन्न हुई नाना गुणहानिशालाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि, तेतीस सागरकी अन्योन्याभ्यस्त राशि, विध्यातभागहार, दो असंख्यात लोक और योगगुणकार इन सात राशियोंके परस्पर संवर्गसे उत्पन्न हुई असंख्यात लोकप्रमाण राशिका विरलन कर उस पर समखण्ड करके देना चाहिए । इस प्रकार देने पर एक एक रूपके प्रति एक एक सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है ।

§ ८१६. अब इन विरलन राशिप्रमाण सत्कर्मप्रक्षेपोंको ग्रहण कर मिथ्यात्वके जघन्य सत्कर्मस्थानको प्रतिराशि कर क्रमसे प्रक्षिप्त करने पर असंख्यात लोकप्रमाण ही मिथ्यात्वसे सम्बन्ध रखनेवाले सत्कर्मस्थान होते हैं । तथा इनसे उत्पन्न हुए संक्रमस्थान भी असंख्यात लोकप्रमाण दोकर प्रत्याख्यान लोभके संक्रमस्थानोंसे असंख्यातगुणे हीन होते हैं ।

शंका—वहाँके संक्रमप्रायोग्य सत्कर्मविकल्पोसे यहाँके संक्रमप्रायोग्य सत्कर्मविकल्प असंख्यातगुणे देने पर यह सम्भव कैसे है ?

समाधान—एसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संक्रमस्थानोंके वैसा होने पर मिथ्यातम-रूपके कारणभूत परिणामस्थानोंसे अबःप्रवृत्तसंक्रमके कारणभूत परिणामस्थान असंख्यात-

मेवेदं, परमगुरुपरंपरागयविसिद्धोवएसणिवंधणत्तादो । केरिसो सो गुरूवएसो ति चे ?
 वुच्चदे—सव्वत्थोवाणि उव्वेल्लणसंक्रमणिवंधणपरिणामट्टाणाणि, विज्झादसंक्रमणिवंधण-
 परिणामट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि, अधापवत्तसंक्रमणिवंधणपरिणामट्टाणाणि असंखेज्ज-
 गुणाणि, गुणसंक्रमणिवंधणपरिणामट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । गुणगारो सव्वत्थासंखेज्जा
 लोगा । तदो संतकम्मट्टाणगुणगारादो परिणामगुणगारस्सासंखेज्जगुणत्तेण मिच्छत्तविज्झाद-
 संकमट्टाणेहितो पच्चक्खाणलोभस्स अधापवत्तसंक्रमट्टाणाणमसंखेज्जगुणत्तमिदि घेत्तव्वं ।
 जइ एवं; मिच्छत्तसंकमट्टाणाणमसंखेज्जगुणत्तमेदं कथं पयदि ति णासंकणिज्जं, गुण-
 संकममाहप्पेण तेसिं तहाभावसमत्थणादो । तं जहा—

§ ८१७. पुव्वुत्तमिच्छत्तजहण्णसंतकम्मट्टाणमादिं कादूण जाव तस्सेवुकस्ससंकमट्टाणे
 ति ताव एदेसिमसंखेज्जलोगमेत्तसंतकम्मट्टाणाणमेगसेढिआयारेण परिवाडीए रचणं
 कादूण पुणो एत्थ गुणसंकमपाओग्गजहण्णसंतकम्मगवेसणं कस्सामो । तं कथं ? ण ताव
 एत्थतणसव्वजहण्णसंतकम्मट्टाणेण गुणसंकमसंभवो, खविदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण
 वेळावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय मिच्छत्तं गंतूण शेरइएसुववज्जिय सव्वलहुं सम्मत्तं

गुणे अधिक स्वीकार किये हैं । और यह माननामात्र नहीं है, क्योंकि परम गुरुका परम्परासे
 आया हुआ उपदेश इसका कारण है ।

शंका—वह गुरुका उपदेश किस प्रकार का है ?

समाधान—कहते हैं, उद्वेलनासंक्रमके कारणभूत परिणामस्थान सबसे थोड़े हैं ।
 उनसे विध्यातसंक्रमके कारणभूत परिणामस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे अधःप्रवृत्तसंक्रमके
 कारणभूत परिणामस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे गुणसंक्रमके कारणभूत परिणामस्थान
 असंख्यातगुणे हैं । गुणकार सर्वत्र असंख्यात लोक है । इसलिए सत्कर्मस्थानोंके गुणकारसे
 परिणामस्थानोंका गुणकार असंख्यातगुणा होनेसे मिथ्यात्वके विध्यातसंक्रमस्थानोंसे प्रत्याख्यान
 लोभके अधःप्रवृत्तसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए ।

शंका—यदि ऐसा है तो मिथ्यात्वके संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं यह कैसे कहा
 गया है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुणसंक्रमके माहात्म्यवश उनका
 इस रूपसे समर्थन किया है । यथा—

§ ८१७. पूर्वोक्त मिथ्यात्वके जघन्य सत्कर्मस्थानसे लेकर उसीके उत्कृष्ट सत्कर्मस्थान तक
 इन असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मस्थानोंकी एक श्रेणिके आकारसे क्रमसे रचना करके पुनः यहाँ
 गुणसंक्रमके योग्य जघन्य सत्कर्मकी गवेपणा करते हैं ।

शंका—वह कैसे ?

समाधान—क्योंकि यहाँके सबसे जघन्य सत्कर्मस्थानके आश्रयसे गुणसंक्रम सम्भव
 नहीं है, क्योंकि क्षपितकर्माशिकलक्षणसे आकर दो छत्थासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर
 मिथ्यात्वमें जाकर नारकियोंमें उत्पन्न हो अतिशीघ्र ही सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ अन्त-

पडिलंभेण तेत्तीसं सागरोवमाणि अंतोमुहुत्तूणाणि गालिय समुप्पाइदजहणसंतकम्मेण सह
 वट्टमाणचरिमसमए वेदयसम्माइड्डिमि उवसमसम्मत्तगहणसंभवादो । तदो एवंभूद-
 जहणसंतकम्मेण णिरयादो उवट्टिऊण तप्पाओग्गेण पल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्तकालेण
 वेदयपाओग्गभावं वोलिय तत्कालव्भंतरसंचिदपल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्तसमयपवट्ट-
 पडिवट्टदव्वमेत्तेण जहणदव्वम भहियं कादूणागदस्स णेरइएसु अंतोमुहुत्तोववण्णल्लयस्स
 गुणसंकमपाओग्गजहणसंतकम्मं होदि । एदं च सव्वजहणमिच्छत्तसंतकम्मादो असंखेज्ज-
 भागव्भहियं, पल्लिदोवमासंखेज्जभागमेत्ताणं समयपवट्टाणमेत्थव्भहियाणमुवलंभादो ।
 संचयमाहप्पादो तत्तो असंखेज्जगुणव्भहियमेदं किण्ण होदि त्ति ? णासंकणिज्जं,
 पुव्वुत्तकालव्भंतरे एकस्से वि गुणहाणीए वि असंभवणियमादो । कुदो एदमवगम्मदे ?
 परमगुरूवएसदो । पुव्वुत्तसव्वजहणमिच्छत्तसंतकम्मादो पक्खेवुत्तरकमेणासंखेज्जलोगमेत्त-
 संतकम्मवियप्पे समुल्लंघिऊण समुप्पणमेदं ति दट्ठव्वं, एकम्मि वि समयपवट्टे संतकम्म-
 पक्खेवपमाणेण कीरमाणे असंखेज्जलोगमेत्तसंतकम्मपक्खेवाणमुवल्लद्वीदो ।

मुहूर्त कम तेतीस सागर काल चिता कर उत्पन्न किये [गये जघन्य सत्कर्मके साथ जो वेदक-
 सम्यग्दृष्टि अन्तिम समयमें स्थित है उसके उपशमसम्यक्त्वका ग्रहण सम्भव है। इसके बाद
 इस प्रकारके जघन्य सत्कर्मके साथ नरकसे निकल कर तत्प्रायोग्य पत्यके असंख्यातवें भाग
 कालके द्वारा वेदकप्रायोग्यभावको चिताकर उस कालके भीतर संचित पत्यके असंख्यातवें भाग-
 प्रमाण समयप्रवट्टोंसे प्रतिवट्ट द्रव्यसे जघन्य द्रव्यको अधिक कर जो आया है और जिसे
 नारकियोंमें उत्पन्न हुए अन्तर्मुहूर्त हुआ है उसके गुणसंक्रमके योग्य जघन्य सत्कर्म होता है।
 और यह सबसे जघन्य मिथ्यात्वके सत्कर्मसे असंख्यातवाँ भाग अधिक होता है, क्योंकि इसमें
 पत्यके असंख्यातवें भागमात्र समयप्रवट्ट संचयके माहात्म्यवश अधिक उपलब्ध होते हैं।

शंका—उमसे यह असंख्यातगुणा अधिक क्यों नहीं होता ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालके भीतर एक भी
 गुणक्षानि सम्भव नहीं है ऐसा नियम है।

शंका—यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ?

समाधान—परम गुरुके उपदेशसे यह जाना जाता है।

पूर्वोक्त सबसे जघन्य मिथ्यात्वके सत्कर्मसे एक प्रक्षेप अधिकके क्रमसे असंख्यात लोकमात्र
 सत्कर्म विच्छेदोंको उलंघन कर यह उत्पन्न हुआ है ऐसा यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि एक भी
 समयप्रवट्टको सत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाणसे करने पर असंख्यात लोकमात्र सत्कर्म प्रक्षेपोंकी उपलब्धि
 होती है।

§ ८१८. संपहि एवं विहाणेण परूविदत्त्पाओग्गजहण्णसंतकम्मेण गोरइएसुप्पज्जिय अंतोमुहुत्तेण पञ्जत्तीओ समाणिय उवसमसम्मत्तुप्पायणपढमसमए जहण्णपरिणामेण संक्रामेमाणस्स गुणसंक्रममस्सिऊण सव्वजहण्णसंक्रमद्वाराणं होइ । एदं च विज्झादसंक्रममस्सिऊण पुव्वमुप्पण्णसंक्रमद्वाराणोसु केण वि सह सरिसं ण होदि । किं कारणं ? तत्थुप्पण्णसव्वुकस्ससंक्रमद्वाराणादो वि एदस्स गुणसंक्रमभागहारपाहम्मेणासंखेज्जगुणब्भहियत्तदंसाणादो । पुणो एदं चेव गिरुद्धजहण्णसंतकम्मेद्वाराणं विदियपरिणामद्वाराणेण संक्रामेमाणस्स असंखेज्जलोगभागवट्ठीए विदियसंक्रमद्वाराणं होदि । एत्थ परिणामद्वाराणाणमपुव्वकरणभंगेणाणुगमो कायव्वो । एवमेदेण कमेण तदियादिपरिणामे वि गाणाकालसंबंधेण गाणाजीवेहिं परिणमाविय उवसमसम्माइट्ठिपढमसमए जहण्णसंतकम्मेदं ध्रुवं कादूणासंखेज्जलोगमेत्तसंक्रमद्वाराणि समुप्पाएयव्वाणि । एवं पढमपरिवाडी समत्ता ।

§ ८१९. संपहि एदं संतकम्ममस्सिऊण पढमसमयम्मि अण्णाणि संक्रमद्वाराणि ण उप्पज्जंति त्ति एत्तो पक्खेवुत्तरसंतकम्मं धेत्त ण एवं चेव परिणामद्वाराणमेत्तायोमेण विदियपरिवाडीए संक्रमद्वाराणमुप्पत्ती वत्तव्वा । पुव्वुत्तकालभंतरे एगसंतकम्मपक्खेवमेत्तेण भहियजहण्णद्वयसंचयं कादूणागदस्स उवसमसम्मत्तगहणपढमसमए वड्डमाणस्स तदुप्पत्तिदंसणादो । एदेण बीजपदेणेगेगसंतकम्मपक्खेवेणाहियं संचयं कराविय उवसमसम्माइट्ठिपढमसमयम्मि संतकम्मपक्खेवं पडि असंखेज्जलोगमेत्तसंक्रमद्वाराणि णिव्वामोहमुप्पा-

§ ८२०. अब इस विधिसे तत्प्रायोग्य जघन्य सत्कर्मके साथ नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्तर्मुहूर्तमें पर्याप्तियोंमें पूराकर उपशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके प्रथम समयमें जघन्य परिणामसे संक्रमण करनेवाले जीवके गुणसंक्रमका आश्रयकर सबसे जघन्य संक्रमस्थान होता है । और यह विध्यातसंक्रमका आश्रय कर पूर्वमें उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोंमेंसे किसी भी संक्रमस्थानके साथ सदृश नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न हुए सबसे उत्कृष्ट संक्रमस्थानसे भी यह गुणसंक्रमके भागहारके माहात्म्यवश असंख्यातगुणा अधिक देखा जाता है । पुनः इसी विवक्षित जघन्यसत्कर्मस्थानका दूसरे परिणाम स्थानके निमित्तसे संक्रम करनेवाले जीवका असंख्यात लोक भागवृद्धिके साथ दूसरा संक्रमस्थान होता है । यहाँ पर परिणामस्थानोंका अपूर्वकरणके भंगके अनुसार अनुगम करना चाहिए । इस प्रकार इस क्रमसे तृतीय आदि परिणामोंको भी नानाकालके सम्बन्धसे नानाजीवोंके द्वारा परिणाम कर उपशमसम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें इस जघन्य सत्कर्मको ध्रुव करके असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान उत्पन्न कराने चाहिए । इसप्रकार प्रथम परिपाटी समाप्त हुई ।

§ ८२१. अब इस सत्कर्मका आश्रय कर प्रथम समयमें अन्य संक्रमस्थान नहीं उत्पन्न होते, इसलिए एक प्रक्षेप अधिक सत्कर्मको ग्रहण कर इसी प्रकार परिणामस्थानप्रमाण आयामसे दूसरी परिपाटीसे संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति कहनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालके भीतर एक सत्कर्मप्रक्षेपमात्रसे अधिक जघन्य द्रव्यका संचय करके आये हुए जीवके उपशमसम्यक्त्वको ग्रहण करनेके प्रथम समयमें विद्यमान रहते हुए उसकी उत्पत्ति देखी जाती है । इस बीजपदके अनुसार एक एक सत्कर्मप्रक्षेपसे अधिक संचय कराकर उपशमसम्यग्दृष्टिके प्रथम समयमें सत्कर्मप्रक्षेपके

एयव्याणि जाव गुणिकम्मसियस्स सब्बुकस्सगुणसंकमट्ठाणे ति । एवमुवसमसम्माइड्ढि-
पटमसमयम्मि समुप्पणसंकमट्ठाणाणं विक्खंभायामपमाणाणुगमो सुगमो । उवसमसम्मा-
इड्ढिविदियादिसमएसु वि एवं चेयासंखेज्जलोगविक्खंभायामेण संकमट्ठाणपदरूपत्ती
वत्तव्या जाव गुणसंकमचरिमसमयो ति । णवरि सब्बत्थ अधापवत्तपरिणामपंति-
आयामादो एत्थतणपरिणामपंतिआयामो असंखेज्जगुणो, पुव्वुत्तप्पावहुअव्वलेण तहाभाव-
सिद्धीदो ।

§ ८२०. एवमुप्पणासेसमिच्छत्तगुणसंकमट्ठाणाणि पच्चक्खाणलोभसयलसंकम-
ट्ठाणेहितो असंखेज्जगुणाणि । गुणगारो पलिदो० असंखे०भागो असंखेजा लोगा च
अणोप्पणगुणिकमेत्तो । किं कारणं ? आयामादो आयामस्स पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्ते
गुणगारे सते विक्खंभादो वि विक्खंभस्तासंखेज्जलोगमेत्तगुणगारदंसणादो । अहवा जइ
वि एत्थ आयामगुणगारो पलिदोवमासंखेज्जभागमेत्तो णाब्भुवगम्मदे, पच्चक्खाण-
लोभसंकमट्ठाणपरिवाडीणं चेयायामो अधापवत्तभोगहारपाहम्मणेणासंखेज्जगुणो ति
इच्छिज्जदे तो पि असंखेज्जगुणत्तमेदं ण विरुज्जदे, आयामगुणगारादो परिणामट्ठाणगुण-
गारस्तासंखेज्जलोगपमाणस्तासंखेज्जगुणत्ते संसयाभावादो । जइ वि उहयत्थ विक्खं-
भायामा सरिसा ति वेष्पंति तो वि णासंखेज्जगुणपहुप्पायणमेदं वाहिज्जदे, तहाब्भुवगमे

प्रति असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान गुणितकर्मा शिक जीवके सबसे उत्कृष्ट गुणसंकमस्थानके
प्राप्त होने तक व्यामोहके विना उत्पन्न कराने चाहिए । इसप्रकार उपशमसम्यग्दृष्टिके प्रथम
समयमें उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोंका विष्कम्भ और आयामके प्रमाणका अनुगम सुगम है ।
उपशमसम्यग्दृष्टिके द्वितीयादि समयोंमें भी इसीप्रकार असंख्यात लोक विष्कम्भ-आयामरूपसे
संकमस्थानोंके प्रतारकी उत्पत्ति गुणसंकमके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक कहनी चाहिए । इतनी
प्रियता है कि सर्वत्र अब प्रवृत्त परिणामपक्ति आयामसे यहाँका परिणामपक्ति आयाम
असंख्यातगुणा हैं, क्योंकि पूर्वोक्त अल्पवहुत्वके बलसे यह बात सिद्ध होती है ।

§ ८२०. इसप्रकार सिध्यात्वके उत्पन्न हुए समस्त गुणसंकमस्थान प्रत्याख्यान लोभके
समस्त संक्रमस्थानोंमें असंख्यातगुणे हैं । गुणकार पत्यका असंख्यातवर्ग भाग और परस्पर
गुणित असंख्यात लोक है, क्योंकि आयामसे आयामका गुणकार पत्यके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण
होने पर विष्कम्भमें भी विष्कम्भका गुणकार असंख्यात लोकप्रमाण देखा जाता है । अथवा यद्यपि
यहाँ पर आयामका गुणकार पत्यके असंख्यातवर्ग भागप्रमाण नहीं स्वीकार किया जाता है । किन्तु
प्रत्याख्यान लोभकी संक्रमस्थान परिपाटियोंका ही आयाम अधःप्रवृत्त भागहारके माहात्म्यवश
असंख्यातगुणा स्वीकार किया जाता है तो भी इसका असंख्यातगुणा होना विरोधको प्राप्त नहीं
होता, क्योंकि आयामके गुणकारसे परिणामस्थानोंके असंख्यात लोकप्रमाण गुणकारके असंख्यात-
गुणे देनेमें कोई संशय नहीं है । यद्यपि दोनों जगह विष्कम्भ और आयाम सट्टश ग्रहण किये
जाते हैं तो भी यह असंख्यातगुणरूप कथन वाचित नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार स्वीकार करने

वि मिच्छत्तस्स गुणसंकमकालावलंबणेण अंतोमुहुत्तमेत्तगुणगारुप्पत्तीए परिष्फुडमुवलंबादो ।

❀ हस्से पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ८२१. कुदो ? देसघादिपाहम्मादो । कथं पुण देसघादित्तमाहप्पेणाणंतगुणत्त-
संभवपाओगविसए असंखेज्जगुणत्तमेदं धडदि त्ति णासंकणिज्जं, सव्वघादीसु देसघादीसु
च सव्वसंकमादो अपणत्थासंखेज्जलोगमेत्ताणं चेव संकमट्टाणाणं संभवब्भुवगमादो । कुदो
एवं चेव ? सव्वघादिसंतकम्मपक्खेवादो देसघादिसंतकम्मपक्खेवस्साणंतगुणत्तब्भु-
वगमादो । जइ एवं, उहयत्थ संकमट्टाणविक्खंभायामाणमसंखेज्जलोगपमाणत्ते समाणणे
संते कथमेदेसिमसंखेज्जगुणत्तं जुज्जदि त्ति ? ण एस दोसो, तत्थतणविक्खंभायामेहितो
एत्थतणविक्खंभायामाणं देसघादिपाहम्मेणासंखेज्जगुणत्तावलंबणादो । तं जहा—

§ ८२२. गुणसंकमभागहारपुव्वुत्तण्णोण्णव्भत्थरासि-वेअसंखेज्जलोग-जोणगुणगाराण-
मण्णोण्णसंवग्गमेत्तो मिच्छत्तगुणसंकमट्टाणवरिवाडीणमायामो होइ । एत्थतणो पुण
अधापवत्तभागहार-वेअसंखेज्जालोगगुणगाराणमण्णोण्णसंवग्गज्जणिदरासिपमाणो होइ ।
होंतो त्ति पुव्विज्जलादो एसो असंखेज्जगुणो, तत्थतणासंखेज्जलोगभागहारादो एत्थतणा-

पर भी मिथ्यात्वके गुणसंकमकालके अवलम्बन द्वारा अन्तमुहूर्तमात्र गुणकारकी उत्पत्ति परिष्फुट
उपलब्ध होती है ।

❀ उनसे हास्यमें प्रदेशसंकमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ ८२१. क्योंकि यह देशघाति प्रकृति है । उसके माहात्म्यवश ऐसा है ।

शंका—देशघातिके माहात्म्यवश अनन्तगुणे होना सम्भव है, ऐसा होते हुए भी यह
असंख्यातगुणा होना कैसे बनता है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वघाति और देशघाति प्रकृतियोंमें
सर्वसंकमके सिवा अन्यत्र असंख्यात लोकप्रमाण ही संकमस्थानोंकी उत्पत्ति स्वीकार की गई है ।

शंका—ऐसा ही कैसे है ?

समाधान—क्योंकि सर्वघाति सत्कर्मप्रक्षेपसे देशघातिका सत्कर्मप्रक्षेप अनन्तगुणा
स्वीकार किया गया है ।

शंका—यदि ऐसा है तो उभयत्र संकमस्थानोंका विष्कम्भ और आयाम असंख्यात
लोकप्रमाण समान होने पर ये असंख्यातगुणे कैसे बन सकते हैं ?

समाधान—यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँके विष्कम्भ और आयामसे यहाँका
विष्कम्भ और आयाम देशघातिके माहात्म्यवश असंख्यातगुणा स्वीकार किया है । यथा—

§ ८२२. गुणसंकमभागहार, पूर्वोक्त अन्योन्याभ्यस्तराशि, दो असंख्यात लोक और योग
गुणकारका परस्पर संवर्गमात्र मिथ्यात्वके गुणसंकमस्थानसम्बन्धी परिपाटियोंका आयाम होता
है । परन्तु यहाँ का आयाम अधःप्रवृत्तभागहार, दो असंख्यात लोक गुणकारके परस्पर संवर्गसे
उत्पन्न हुई राशिप्रमाण है । ऐसा होता हुआ भी पहलेके आयामसे यह असंख्यातगुणा है,

संखेजलोगभागहारस्त देसघादिविषयत्तेणासंखेजगुणत्तब्धुवगमादो । एवं विक्खंभादो वि विक्खंभस्सोसंखेजगुणत्तं वत्तव्वं । कथं पुण गुणसंक्रमपरिणामेहितो अधापवत्तसंक्रमपरिणामड्ढाणाणमायामस्सासंखेजगुणत्तसंभवो ति णासंका कायव्या, सव्वघादिविसयगुणसंक्रमपरिणामड्ढाणेहितो वि देसघादीणमधापवत्तपरिणामपंतीए असंखेजगुणत्तावत्तंणादो । ण च पुव्वपरुविदप्पावहुएण सह विरोहो, तस्स सजादीयपयडिविसए पडिवद्वत्तादो । अहवा जइ वि एत्थतणपरिणामपंतिआयामो असंखेजगुणहीणो होइ तो वि देसघादिपडिवद्वसंतक्रमपक्खेवभागहारमाहप्पेणासंखेजगुणत्तमेदमविरुद्धं दड्ढव्वं ।

❀ रदीए पदेससंक्रमड्ढाणाणि विसेसाहियाणि

§ ८२३. कुदो ? पयडिविसेसादो ।

❀ इत्थिवेदे पदेससंक्रमड्ढाणाणि संखेजगुणाणि ।

§ ८२४. मुगममेदं ? ओघम्मि परुविदकारणत्तादो । णवरि विज्झादसंक्रमड्ढाणाणि अस्सिज्जासंखेजगुणत्तसंभवासंकाए मिच्छत्तमंगाणुसारेण परिहारो वत्तव्वो ।

❀ सोगे पदेससंक्रमड्ढाणाणि विसेसाहियाणि ।

क्योंकि वहाँके असंख्यात लोक भागहारसे यहाँका असंख्यात लोक भागहार देशघातिका विषय होनेसे असंख्यातगुणा स्वीकार किया है । इसी प्रकार विष्कम्भसे भी विष्कम्भ को असंख्यातगुणा कहना चाहिए ।

शंका—गुणसंक्रमके परिणामोंसे अधःप्रवृत्तसंक्रमके परिणामस्थानोंका आयाम असंख्यातगुणा कैसे सम्भव है ?

समाधान—ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वघातिविषयक गुणसंक्रमके परिणामस्थानोंसे भी देशघातियोंके अधःप्रवृत्त परिणामपंक्तिके असंख्यात गुणोपनका अवलम्बन लिया गया है । ऐसा मानने पर पूर्वमें कहे गये अल्पवहुत्वके साथ विरोध होगा यह भी नहीं है, क्योंकि वह सजातीय प्रकृतियोंके विषयमें प्रतिवद्ध है । अथवा यद्यपि यहाँ का परिणामपंक्ति आयाम असंख्यातगुणा हीन है तो भी देशघातिसम्बन्धी सत्कर्मप्रक्षेपके भागहारके माहात्म्यवश यह असंख्यातगुणा अविरोध जानना चाहिए ।

* उनसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८२३. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है ।

* उनसे त्वीवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणे हैं ।

§ ८२४. यह सूत्र मुगम है, क्योंकि ओघमें इसका कारण कह आये हैं । इतनी विशेषता है कि शिष्यावसंक्रमस्थानोंका आश्रय कर असंख्यातगुणत्व कैसे सम्भव है ऐसी आशंका होने पर निश्चयात्कर्म भगके अनुसार परिहार कहना चाहिए ।

* उनसे शोकमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है ।

- ❀ अरदोए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
 - ❀ एवुंसयवेदे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
 - ❀ दुगुञ्जाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
 - ❀ भए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
 - ❀ पुरिसवेदे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
 - ❀ माणसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
 - ❀ कोहसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
 - ❀ मायासंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
 - ❀ लोहसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- § ८२५. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि ।

❀ सम्मत्ते पदेससंकमट्टाणाणि अणंतगुणाणि ।

§ ८२६. कुदो ? उव्वेत्तलणचरिमफालीए सव्वसंकममस्सियुणाणंताणं संकमट्टाणाणमेत्थ संभवादो ।

❀ सम्मामिच्छत्ते पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

- * उनसे अरतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे नपुंसकवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे जुगुप्सामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे भयमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे पुरुषवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे क्रोधसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे मायासंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे लोभसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८२५. ये सूत्र सुगम हैं ।

* उनसे सम्यक्त्वमें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणे हैं ।

§ ८२६. क्योंकि उद्वेलनाकी अन्तिम फालिमे सर्वसंक्रमका आश्रय कर अनन्त संक्रमस्थान यहाँ सम्भव हैं ।

* उनसे सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ ८२७. किं कारणं ? दोषाणं उब्बेज्जलणचरिमफालीए सव्वसंक्रमेणाणंतसंक्रम-
द्वाणसंभवाविसेसे वि दव्वविसेसमस्सिऊण तहाभावोववत्तीदा ।

❖ अणंताणुबंधिआंणे पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ ८२८. कुदो ? विसंजोयणाचरिमफालीए सव्वसंक्रमेण समुप्पण्णाणंतसंक्रमद्वाणाणं
दव्वमाहप्पेण पुब्बिज्जसंक्रमद्वाणोहिंतो असंखेज्जगुणत्तदंसणादो । एत्थ गुणमारो उब्बेज्जलण-
कालणणोण्णअत्थरासी गुणसंक्रमभागहारो च अणोण्णगुणिदमेत्तो ।

❖ कोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

❖ आयाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

❖ लोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

§ ८२९. एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्तकारणगग्भाणि सुगमाणि ।
एवं णिरयोघो समत्तो ।

§ ८३०. एवं चेव सत्तसु पुण्णीसु णोयव्वं, विसेसाभावादो । एवमेत्तिएण पबंधेण
णिरयगइअप्पावहुअं समाणिय संपहि तिरिक्खदेवगईणं पि एसो चेव अप्पावहुआलावो
क्कायव्वो त्ति समप्पणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❖ एवं तिरिक्खगइ-देवगईसु वि ।

§ ८२७. क्योंकि दोनोंकी उद्वेलनाकी अन्तिम फालिमे सर्वसंक्रमके आश्रयसे अनन्त
संक्रमस्थान सम्भव हैं, इसलिए इस दृष्टिसे कोई विशेषता नहीं है तो भी द्रव्य विशेषका आश्रय
कर यहाँ असंख्यातगुणापना बन जाता है ।

* उनसे अनन्तानुबन्धी मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ ८२८. क्योंकि विसंयोजनाकी अन्तिम फालिमे सर्वसंक्रमसे उत्पन्न हुए अनन्त संक्रम-
स्थान द्रव्यके माहात्म्यवशा पूर्वके संक्रमस्थानोंसे असंख्यातगुणे देखे जाते हैं । यहाँ पर गुणकार
उद्वेलना कालकी अन्योन्याभ्यस्तराशि और गुणसंक्रमभागहार इन दोनोंको परस्पर गुणा करने पर
जो राशि लब्ध आवे उतना है ।

* उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

* उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८२९. प्रकृति विशेषमात्र कारण अन्तर्गर्भ ये तीनों सूत्र सुगम हैं ।

इस प्रकार नरकौघ समाप्त हुआ ।

§ ८३०. इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर इससे अन्य कोई
विशेषता नहीं है । इस प्रकार इस प्रबन्ध द्वारा नरकगतिसम्बन्धी अल्पबहुत्वको समाप्त कर अब
तिर्यग्गति और देवगतिका भी यही अल्पबहुत्वालाप करना चाहिए ऐसा समर्पण करते हुए
आगेका सूत्र कहे हैं—

* इसी प्रकार तिर्यग्गति और देवगतिमें भी जानना चाहिए ।

८३१. सुगममेदमप्पणासुत्तं, विसेसाभावमस्सिऊण पयडुत्तादो । णिरयगइअप्पा-
बहुअं णिरवयवमेत्थाणुगंतव्वं । णवरि अणुदिसादि जाव सव्वट्टे ति सम्मत्तपदेससंकम-
ट्टाणाणि णत्थि । सम्मामिच्छत्तपदेससंकमट्टाणाणि च सव्वत्थोवाणि कायव्वाणि ।
तदो मिच्छत्ते पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । तत्तो अपच्चक्खाणभाणे पदेससंकम-
ट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । तत्तो विसेसाहियक्रमेण शेदव्वं जाव पच्चक्खाणलोभपदेस-
संकमट्टाणाणि ति । तदो इत्थि०पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । णवुंसय०पदेस-
संकमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । हस्से पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । रदीए
पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । एवं जाव० लोहसंजलणे ति शेदव्वं । तदो
अणंताणु०भाणे पदेससंकमट्टाणाणि अणंतगुणाणि । कोह-माया-लोहेसु जहाकमं विसेसा-
हियाणि ति एसो विसेसो सुत्ते ण विवक्खिआ, गइसामण्णप्पणाए भेदाभावमस्सिऊण
सुत्तस्स पयडुत्तादो । तिरिक्खगईए णत्थि क्विचि णाणत्तं । णवरि पंचिदियतिरिक्ख-
अपज्जत्तएसु उवरि भण्णमाणएइंदियप्पोवहुअभंगो ।

❀ मणुसगई ओघभंगो ।

८३२. सुगममेदं, मणुसगइसामण्णप्पणाए पज्जत्तमणुसिणिणिवक्खिआए च
ओघभंगादो भेदाणुवलंभादो । मणुसअपज्जत्तएसु पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।
एवं गइमग्गणा समत्ता ।

§ ८३१. यह अर्पणासूत्र सुगम है, क्योंकि विशेषाभावका आश्रय कर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । नरकगतिस्म्वन्धी यह अल्पबहुत्व समस्त यहाँ जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अनुदिशासे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्वके प्रदेशसंक्रमस्थान नहीं है । सम्यग्मिथ्यात्वके प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे स्तोक करने चाहिए । उनसे मिथ्यात्वमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे अप्रत्याख्यान मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । इससे आगे प्रत्याख्यान लोभके प्रदेशसंक्रमस्थानोंके प्राप्त होने तक विशेष अधिकके क्रमसे ले जाना चाहिए । उनसे स्त्रीवेदमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे नपुंसकवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणे हैं । उनसे हास्यमे प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे रतिमे प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । इसी प्रकार लोभसंज्वलन तक ले जाना चाहिए । उनसे अनन्तानुबन्धी मानमे प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणे हैं । उनसे अनन्तानुबन्धी क्रोध, माया और लोभमे क्रमसे विशेष अधिक हैं । यह विशेष सूत्रमें विवक्षित नहीं है, क्योंकि गति सामान्यकी मुख्यतासे भेदाभावका आश्रय कर सूत्रकी प्रवृत्ति हुई है । तिर्यञ्चगतिमे कुछ भेद नहीं है । इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमे आगे कहे जानेवाले एकेन्द्रिय स्म्वन्धी अल्पबहुत्वके समान भंग है ।

❀ मनुष्यगतिमें ओघके समान भंग है ।

§ ८३२. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि मनुष्यगति सामान्यकी विवक्षामे तथा मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियोंकी विवक्षामे ओघभंगसे भेद नहीं उपलब्ध होता । मनुष्य अपर्याप्तकोंमे पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान भंग है ।

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई ।

८३३. संपहि सेसमगणाणं देसामासियभावेण इंदियमगणावयवभूदेइंदिएसु
पयदप्पामहुअग्गेसणहुमुवरिमसुत्तपवंधमाह—

- ❁ एइंदिएसु सव्वत्थोवाणि अपच्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि ।
- ❁ कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ मायाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ पच्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ मायाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ लोभे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ अण्णताणुबंधिमाणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ मायाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ लाहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ हस्से पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि^१ ।

§ ८३३. अब शेष मार्गणाओके दशामर्पकभावसे इन्द्रिय मार्गणाके अवयवभूत एकेन्द्रियोंमें प्रकृत अल्पवहुत्वकी गवेपणा करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं—

- * एकेन्द्रियोंमें अप्रत्याख्यान मानमें प्रदेशसंकमस्थान सबसे थोड़े हैं ।
- * उनसे क्रोधमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे मायामें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे लोभमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे प्रत्याख्यान मानमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे क्रोधमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे मायामें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे लोभमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे अनन्तानुबन्धा मानमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे क्रोधमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे मायामें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे लोभमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
- * उनसे हास्यमें प्रदेशसंकमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

१. ता० प्र० १० अनेज्जगुणाणि इति पाठः ।

- ❁ रदोए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ इत्थिवेदे पदेससकमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि ।
- ❁ सोगे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ अरदोए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ एवुसयवेदे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ दुगुछाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ भए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ पुरिसवेदे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ माणसजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ कोहसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ मायासजलणे पदेससकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ लोहसजलणे पदेससकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
- ❁ सम्मत्ते पदेससकमट्टाणाणि अणंतगुणाणि ।
- ❁ सम्मामिच्छत्ते पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

-
- * उनसे रतिमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे स्त्रोवेदमें प्रदेशसंकमस्थान संख्यातगुणे हैं ।
 - * उनसे शोकमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे अरतिमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे नपुंसकवेदमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे जुगुप्सामें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे भयमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे पुरुषवेदमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे क्रोधसंज्वलनमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे मायासंज्वलनमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे लोभसंज्वलनमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं ।
 - * उनसे सम्यक्त्वमें प्रदेशसंकमस्थान अनन्तगुणे हैं ।
 - * उनसे सम्यग्मिथ्यात्वमें प्रदेशसंकमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ = ३४. सुगमत्तादो ण एत्थ किंचि वत्तव्वमत्थि । एवमेहं दिएसु समत्तमप्पा-
वहुअं । तीइं दिय-तीइं दिय-चउरिं दिएसु वि एवं चेव वत्तव्वं, अविसेसादो । पंचिदिय-
पंचिदियपज्जतएसु ओवभंगो । पंचिदियअपज्जतएसु एइं दियभंगो । एवं जाणिऊण
णेदव्वं जाव अणाहारए त्ति । एवमेदमप्पावहुअं समाणिय संपहि शिरयगइपडिवद्धप्पावहुए
सेसु वि पदेसु कारणपरूवणहुमुत्तरिमपबंधमाह—

❁ केन कारणेण पिरयगईए पच्चक्खाणकसायलोभपदेससंकमहाणे-
हितो मिच्छत्ते पदेससंकमहाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ = ३५. एवं पुच्छंतस्सायमहिप्पाओ, पच्चक्खाणलोभपदेसग्गादो मिच्छत्तस्स
पदेसगं विसेसाहियं चेव, ततो समुपपज्जमाणसंकमहाणाणं पि तहाभावं भोत्तण कथ-
मसंखेज्जगुणत्तं वडदि त्ति । संपहि एवंविहासंकाए पिरारेगीकरणहुमुत्तरसुत्तमोइण्णं—

❁ मिच्छत्तस्स गुणसंकमो अत्थि । पच्चक्खाणकसायलोहस्स गुण-
संकमो एत्थि । एदेण कारणेण पिरयगईए पच्चक्खाणकसायलोहपदेस-
संकमहाणेहितो मिच्छत्तस्स पदेससंकमहाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।

§ = ३६. गयत्थमेदं सुत्तं, अधापवत्तसंकमपरिणामहाणेहितो गुणसंकमपरिणाम-
हाणाणमसंखेज्जगुणत्तमस्सिऊण पुव्वमेव समत्थियत्तादो । ण च परिणामहाणाणं तहाभावो

§ = ३४. सुगम होनेसे यहाँ कुछ वक्तव्य नहीं है । इस प्रकार एकेन्द्रियोंमें अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियोंमें भी इसी प्रकार कहना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोमें ओषधके समान भंग है । पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोमें एकन्द्रियोंके समान भंग है । इस प्रकार जानकर अनाश्रयक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार इस अल्पबहुत्वको समाप्त कर अब चरक- गतिसे प्रतिबद्ध अल्पबहुत्वके किन्हीं पदोंमें कारणका मथन करनेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं—

∴ नररुगतिमें प्रत्याख्यानरूपायके लोभसम्बन्धी प्रदेशसंकमस्थानोंसे मिथ्यात्वमें प्रदेशसंकमस्थान असंख्यातगुणे किस कारणसे हैं ।

§ = ३५. इस प्रकार पढ़नेवालेका यह अभिप्राय है कि प्रत्याख्यान लोभके प्रदेशोंसे मिथ्यात्वके प्रदेश विशेष अधिक ही हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न हुए संकमस्थान भी उसी प्रकारके न होकर अनख्यातगुणे कैसे बन्धित होते हैं । अब इस प्रकारकी शंकाको निराकरण करनेके लिए आगेका मूल प्रबन्धका हुआ है—

∴ मिथ्यात्वका गुणसंकम है, प्रत्याख्यान लोभ रूपायका गुणसंकम नहीं है । इस कारणसे नररुगतिमें प्रत्याख्यान लोभ रूपायके प्रदेशसंकमस्थानोंसे मिथ्यात्वके प्रदेश-संकमस्थान असंख्यातगुणे हैं ।

§ = ३६. यह मूल मतार्थ है, क्योंकि अल्प-प्रवृत्तसंकमके परिणामस्थानोंमें गुणसंकमके परिणामस्थान असंख्यातगुणे हैं इस बातका आशय कर पूर्वमें ही इसका समर्थन कर आये हैं ।

असिद्धो, एदम्हादो चैत्र सुत्तादो तेसि तहाभावोत्रगमादो । एवमेदं परूविय संपहि
अण्णं पि पयदप्पात्रहुअभिसयमत्थपदं परूवेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ—

❀ जस्स कम्मस्स सव्वसंक्रमो एत्थि तस्स कम्मस्स असंखेज्जाणि
पदेससंकमडाणाणि । जस्स कम्मस्स सव्वसंक्रमो अत्थि तस्स कम्मस्स
अणंताणि, पदेससंकमडाणाणि ।

§ ८३७. गिरयगदीणं सव्वघादिमिच्छत्तपदेशसंकमडाणोर्हितो देसघादिहस्सपदेस-
संकमडाणाणमसंखेज्जगुणत्तं । तत्थ जइ को वि देसघादिपाहम्ममस्सिस्सऊणाणंतगुणत्तं किण्ण
होदि त्ति भणेज्ज तदो तरस तहाविहविप्पडिवत्तिगिरायरणबुहेण देसघादीणं सव्वघादीणं
च सव्वसंक्रमादो अण्णत्थासंखेज्जालोगमेत्ताणं चैत्र संक्रमडाणाणं संभवपहुण्णायणइमिदं
सुत्तमोइण्णं । ण चासंखेज्जलोगमेत्तेसु संक्रमडाणोसु अणंतगुणत्तसंभवो अत्थि विप्पडि-
सेहादो । असंखेज्जगुणत्तं पुण पुव्वुत्तेण क्रमेणाणुगंतव्वमिदि ।

§ ८३८. अहवा देसघादिलोहसंजलणपदेससंकमडाणोर्हितो सव्वघादिमिच्छत्त-
स्सासंखेज्जदिभागभूदसम्मत्तपदेससंकमडाणाणमोधपरूवणाए गिरयादिसु चाणंतगुणत्तं
परूविदं, कधमेदं जुज्जदि त्ति विप्पडिवण्णस्स सिस्सस्स तहाविहविप्पडिवत्तिगिरायरण-
दुवारेण तव्विसयणिच्छयसमुप्पायणइमेदमोइण्णमिदि । एदस्स सुत्तस्सावयारो परूवेयव्वो,

परिणामस्थानोका इस प्रकारका होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे उनका उस प्रकारका
होना जाना जाता है । इस प्रकार इसका प्ररूपण कर अब अन्य भी प्रकृत अल्पबहुत्व विषयक
अर्थपदका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं—

* जिस कर्मका सर्वसंक्रम नहीं है उस कर्मके असंख्यात प्रदेशसंक्रमस्थान होते हैं ।
जिस कर्मका सर्वसंक्रम है उस कर्मके अनन्त प्रदेशसंक्रमस्थान होते हैं ।

§ ८३७. नरकगतिमे सर्ववाति मिथ्यात्वके प्रदेशसंक्रमस्थानोसे देशवाति हास्यके प्रदेश-
संक्रमस्थान असंख्यातगुणे है । वहाँपर यदि कोई भी देशवातिके माहात्म्यका आश्रय कर अनन्त-
गुणे क्यो नहीं होते ऐसा कहे तो उसकी उस प्रकारकी शंकाके निराकरण द्वारा देशवाति और
सर्ववातियोंके सर्वसंक्रमके सिवा अन्यत्र असख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान सम्भव है यह कथन
करनेके लिए यह सूत्र आया है । और असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थानोमे अनन्तगुणेपनेकी
उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि इसका निषेध है । असख्यात गुणापना तो पूर्वोक्त क्रमसे जान लेना
चाहिए ।

§ ८३८. अथवा देशवाति लोभसंज्वलनके प्रदेशसंक्रमस्थानोसे सर्ववाति मिथ्यात्वके
असंख्यातर्वे भागभूत सम्यक्त्वके प्रदेशसंक्रमस्थान ओवपरूपणामे और नरकादि गतियोंमे
अनन्तगुणे कहे है सो यह कैसे बन सकता है इस प्रकार शंकाशील शिष्यकी उस प्रकारकी शंकाके
निराकरण द्वारा तद्विषयक निश्चयको उत्पन्न करनेके लिए यह सूत्र आया है । इस प्रकार इस

तदो सव्यसंक्रमविसए परमाणुत्तरक्रमेण वड्डी लब्धमि ति । तत्थाणंताणि संक्रमड्डाणाणि जादाणि, ततो अण्णत्थ पुण असंखेज्जलोगपडिभागेणैव वड्ढिदंसणादो । असंखेज्जलोगमेत्ताणि चैव संक्रमड्डाणाणि होंति ति एसो एदस्स भावत्थो । संपहि पयडिविसेसेण विसेसाहियपयडीसु संक्रमड्डाणाणं विसेसाहियत्ते कारणपरूवणड्डमुवरिमं सुत्तपबंधमाह—

❖ माणस्स जहणए संतकम्मड्डाणे असंखेज्जा लोगा पदेसंसंक्रमड्डाणाणि ।

§ ८३६. सुगमं ।

❖ तम्मि चैव जहणए माणसंतकम्मे विदियसंक्रमड्डाणविसेसस्स असंखेज्जलोगभागमेत्ते पक्खित्ते माणस्स विदियसंक्रमड्डाणपरिवाडो ।

§ ८४०. माणजहणसंतकम्मे अधापवत्तभागहारेणोवड्ढिदे माणजहणसंक्रमड्डाणं होइ । पुणो तम्मि असंखेज्जलोगमेत्तभागहारेण भागे हिदे विदियसंक्रमड्डाणविसेसो आगच्छइ । तम्मि अण्णेणासंखेज्जलोगभागहारेण भाजिदे माणस्स संतकम्मपक्खेवपमाणं होइ । एदं धेतुण पडिरासिदजहणसंतकम्मड्डोणस्सुवरि पक्खित्ते माणस्स विदियसंक्रमड्डाणपरिवाडो होइ, पक्खेवुत्तरजहणसंतकम्मादो परिणामड्डाणमेत्ताणं चैव संक्रमड्डाणाणमुप्पत्तीए णिव्वाहमुवलंभादो ति एसो अत्थो एयेण सुत्तेण परूविदो । एवमेदेण

सूत्र का अन्वय कहना चाहिए । अतएव सर्वसंक्रमके विषयमें एक परमाणु अधिक आदिके क्रमसे वृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए उसमें अनन्त प्रदेशसंक्रमस्थान प्राप्त हो जाते हैं । उससे अन्यत्र तो असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभागसे ही वृद्धि देखी जाती है, इसलिए असंख्यात लोकप्रमाण ही संक्रमस्थान होते हैं इस प्रकार यह इसका भावार्थ है । अब प्रकृति विशेषसे विशेष अधिक रूप प्रकृतियोंमें संक्रमस्थानोंके विशेष अधिकपनेमें कारणका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध कहते हैं—

❖ मानके जघन्य सत्कर्ममें असंख्यात लोक प्रदेशसंक्रमस्थान होते हैं ।

§ ८४६. यह सूत्र सुगम है ।

❖ उसी जघन्य मानसत्कर्ममें दूसरे संक्रमस्थानका विशेष असंख्यात लोकभागमात्र प्रक्षिप्त करने पर मानको दूसरी संक्रमस्थान परिपाटी होती है ।

§ ८४० मानके जघन्य सत्कर्मको अध प्रवृत्तभागहारसे भाजित करने पर मानका जघन्य संक्रमस्थान होता है । पुनः उसमें असंख्यात लोकमात्र भागहारका भाग देने पर दूसरे संक्रमस्थानका विशेष आता है । उसमें अन्य असंख्यात लोकप्रमाण भागहारका भाग देने पर मानके सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण आता है । इसे प्रदण कर प्रतिराशिरूपसे स्थापित जघन्य सत्कर्मस्थानके उपर प्रक्षिप्त करने पर मानकी दूसरी संक्रमस्थान परिपाटी होती है क्योंकि एक प्रक्षेप अधिक जघन्य सत्कर्मसे परिणाममात्र ही संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति निर्वाधरूपसे उपलब्ध होती है । इस प्रकार यह अर्थ इस सूत्र द्वारा कहा गया है । इस प्रकार इस सूत्रसे मानसत्कर्मके प्रक्षेपका प्रमाण

सुत्तेण माणसंतक्रमपक्खेवपमाणं जाणाविय संपहि कोहस्स वि संतक्रमपक्खेवो एत्तिओ
चेव होदि ति जाणावणडुमुत्तरसु त्तमाह—

❀ तत्तिमेत्ते चेव पदेसग्गे कोहस्स जहणसंतक्रमडाणे पक्खित्ते
कोहस्स विदियसंकमडाणपरिवाडो ।

§ ८४१. एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे—कोहसंतक्रमपक्खेवे समुप्पाइज्जमाणे
माणविदियसंकमडाणविसेसस्सासंखेज्जलोगपडिभागिओ ति पुच्चसुत्ते जो परूविदो सो
चेवाणणाहिओ एत्थ वि अवलंबेयव्यो, पयडिविसेसेण विसेसाहियकसायणोकसाय-
पयडिसुत्तस्सावड्ढिदभावब्भुवगमादो । अणवड्ढिदसंतक्रमपक्खेवब्भुवगमे तत्थतणसंकम-
डाणाणं विसेसाहियभावाणुववत्तीदो । तम्हा अवड्ढिदसंतक्रमपक्खेवावलंबणेण तेसिं
विसेसाहियत्तमेवमणुगंतव्वं । तं जहा—अपच्चक्खाणमाणकोहाणं दोण्हं पि जहणसंतक्रम-
भप्पणो उक्कस्सदव्वादो सोहिदसुद्धसेसदव्वमि कोहपयडिविसेसमेत्तदव्वमवणिय पुध
ड्वेयव्वं । एवं पुध ड्विदे सुद्धसेसदव्वं दोण्हं पि समाणं होइ । पुणो एदं दव्वमसंखेज्ज-
लोगमेत्तभागहारमवड्ढिदपमाणं दोसु उदसेसु विरलिय समखंडं कादूण दिण्णे दोण्हं
पि संतक्रमपक्खेवा सरिसा होदूण विरलणरूवं पडि पावेंति । एत्थेगेगसंतक्रमपक्खेव्वं
घेत्तूण अप्पणो पडिरासिदजहणसंतक्रमप्पहुडि परिवाडीए पक्खिविज्जमाणे दोण्हं पि

जानकर अब क्रोधका भी सत्कर्म प्रक्षेप इतना ही होता है यह जतानेके लिए आगेका सूत्र
कहते हैं—

* उतने ही प्रदेश क्रोधके जघन्य सत्कर्मस्थानमें प्रक्षिप्त करनेके लिए क्रोधकी दूसरी
संक्रमस्थान परिपाटी होती है ।

§ ८३१. इस सूत्रका अर्थ कहते हैं—क्रोध सत्कर्मके प्रक्षेपके उत्पन्न करने पर मानके द्वितीय
संक्रमस्थान विशेषका असंख्यात लोक प्रतिभाग सम्बन्धी पूर्व सूत्रमें जो कहा है उसीका न्यूना-
धिकतासे रहित यहाँ पर भी अवलम्बन करना चाहिए, क्योंकि प्रकृत सूत्र प्रकृतिविशेषताके कारण
विशेषाधिकरूपसे कपाय और नोकपायोंमें अवस्थितरूपको स्वीकार करता है । अनवस्थित सत्कर्मप्रक्षेपके
स्वीकार करने पर वहाँके संक्रमस्थानोंमें विशेषाधिकपना नहीं बन सकता । इसलिए अवस्थित सत्कर्म
प्रक्षेपका अवलम्बन करनेसे उनका विशेषाधिकपना ही स्वीकार करना चाहिए । यथा—अप्रत्याख्यात
मान और क्रोध इन दोनोंके भी जघन्य सत्कर्मको अपने अपने द्रव्यमेसे घटाकर जो शुद्ध शेष
द्रव्य हो उसमेसे क्रोध प्रकृतिके विशेषमात्र द्रव्यको निकालकर पृथक् स्थापित करना चाहिए ।
इस प्रकार पृथक् स्थापित करने पर शुद्ध शेष द्रव्य दोनोंका ही समान होता है । पुनः इस द्रव्यको,
अवस्थित प्रमाण असंख्यात लोकमात्र भागहारको दो स्थानों पर विरलन कर उस पर समान खण्ड
करके देनेपर प्रत्येक विरलनके प्रति दोनोंके सत्कर्मप्रक्षेप सदृश होकर प्राप्त होते हैं । यहाँ एक एक
सत्कर्मप्रक्षेपको ग्रहण कर अपने अपने प्रतिराशिरूप जघन्य सत्कर्मसे लेकर क्रमसे प्रक्षिप्त करने

संक्रमणओमसंतक्रमण्डाणाणि सरिसाणि होदूण लद्धाणि भवंति । पुणो एत्थेव माणस्स संतक्रमण्डाणाणि समत्ताणि । कोहस्स पुण ण समप्पंति, पुत्रमवणेऊण पुत्रद्विदपयडि- विसेसमेत्तदवस्स त्रहिव्यापठंत्तणादे । तेण तं वि दव्वं माणसंतक्रमणकखेवपमाणेण कस्सामो ति पुत्रविरलणाए पासे अण्णो असंखेज्जलोगभागहारो विरलेवव्वो । एदस्स पमाण केत्तियं ? पुत्रिज्जविरलणमासीए असंखेज्जदिभागभेत्तं । तस्स को पडिभागो ? आपलियाण अमंखेज्जदिभागां । तदो एवंभूदसंपहियविरलणाए पयडिविसेसदव्वं समखंडं करिय दिण्णे एककेस्स क्खस्साणंतरणहविदसंतक्रमणकखेवपमाणं पावदि । एत्थेगेणकव- धरिदं वेत्तणमणुक्कसासंतक्रमण्डाणसयाणकोहरां त्मण्डाणप्पहुडि परिवाडीए पक्खिविय शेदव्व जाय संपहिय विरलणकवभेत्ता संतक्रमणकखेना णिड्ढिदा ति । एवं णीदे माण- संतक्रमण्डाणेहितो कोहसंक्रमण्डाणाणि संपहिय विरलणमेतसंतक्रमण्डाणेहि विसेसाहियाणि जादाणि ति, एदेहितो समुपज्जमाणसंतक्रमण्डाणाणि विसेसाहियाणि जादाणि । संपहि एदस्सेत्तव्वस्स कुडीतरणहुमिदमाह—

❧ एदेण कारणेण माणपदेससंक्रमण्डाणाणि थोवाणि ।

❧ कोहे पदेससंक्रमण्डाणाणि विसेसाहियाणि ।

पर दोनों ही संक्रमणके योग्य सत्कर्मस्थान सदृश होकर प्राप्त होते हैं । पुन यही पर मानके सत्कर्मस्थान समाप्त हो गये, परन्तु क्रोधके समाप्त नहीं हुए, क्योंकि पहले निकाल कर पृथक् स्थानि प्रकृतिरोग मात्र पृथक् देखा जाता है । इसलिए उस द्रव्यको भी मानसत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाणसे रहते हैं, इसलिए पृथ विरलनके पासमे अन्य असंख्यात लोक भागहारका विरलन करना चाहिए ।

§ ८४२. जेण कारणेण दोषहं पि संतक्रमपक्षेवपमाणं सरिरां तेण कारणेण माणसंक्रमद्वारेहितो क्रोधसंक्रमद्वाराणाणि विसेसाहियाणि जादाणि ति भणिदं होदि । स पहि सेसाणं पि कर्माणमेवं चैव कारणपरूवणा न्नायव्वा ति षडुपायणदुमुत्तरमुत्तमाह—

❀ एवं सेसेसु वि कर्मेसु वि ऐदव्वाणि ।

§ ८४३. जहा क्रोह-माणाणमेतो कारणणिदसो कओ तथा सेसक्रमाणं पि ऐदव्वो ति भणिदं होइ । संपहि एदसेवत्थस्स कुडीकरणदुमेदं सदिड्डीपरूवणं कस्सामो । तं जहा— गिरयमईए भाणादीणं जहणसंतक्रमेत्तियमेत्तमिदि घेत्तव्वं ४, ५, ६, ७ । तेसि चेषुकस्ससंतक्रमपमाणमेदं २०, २५, ३०, ३५ । एत्थुकस्सदवादो जहणदव्वे सोहिदे सुद्धसेसदवापमाणमेत्तियं होइ १६, २०, २४, २८ । सव्वेसि संतक्रमपक्षेव-पमाणं दोह्वनेत्तमिदि घेत्तव्व २ । एदेण पमाणेण अप्पणो जहणदवादो उवरि क्रमेण सुद्धसेसदव्वे पवेसिज्जमाणे तत्थ सधुप्पणमाणपरिपाडीओ एदाओ ६ । क्रोहपरि-पाडीओ ११ । मायापरिपाडीओ १३ । लोहपरिपाडीओ एदाओ १५ । एवमेत्थ दो-सदिड्डीए च माणादिसंक्रमद्वारेहितो क्रोहादिसंक्रमद्वाराणाण विसेसाहियत्तमसंदिद्ध सिद्धं । एवमप्पावहुए समत्ते संक्रमद्वाराणरूवणा समत्ता तदो पदेससंक्रमो समत्तो । एवं गुणहीणं वा गुणविसिद्धमिदि पदस्स अत्यभिहासाए समत्ताए तदो पंचमीए शूज्जमाहाए अत्यपरूवणा समत्ता

§ ८४२. जिस कारणसे दोनोंके ही सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण समान है इस कारणसे मानके संक्रमस्थानोंसे क्रोधके संक्रमस्थान विशेष अधिक हो जाते हैं यह उक्त कथन का तात्पर्य है । अब शेष कर्मोंकी भी इसी प्रकार कारण प्ररूपणा करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस प्रकार शेष कर्मोंमें भी लो जाना चाहिए ।

§ ८४३. जिस प्रकार क्रोध और मग्नके इस कारणका निर्देश क्रिया उसी प्रकार शेष कर्मोंका भी जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए इस संहट्टिका कथन करेंगे । यथा— नरकगतिसे मानादिकका जघन्य सत्कर्म इतना है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ४, ५, ६, ७ । उन्हींके उत्कृष्ट सत्कर्मका प्रमाण इतना है— २०, २५, ३०, ३५ । यहाँ उत्कृष्ट द्रव्यसे जघन्य द्रव्यके घटा देने पर शुद्ध शेष द्रव्यका प्रमाण इतना होता है— १६, २०, २४, २८ । सबके सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण दो अंक प्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए— २ । इस प्रमाणसे अपने अपने जघन्य द्रव्यके ऊपर क्रमसे शुद्ध शेष द्रव्यको प्रविष्ट कराने पर वहाँ पर मानपरिपाटिया इतनी ६ उत्पन्न होती हैं, क्रोध परिपाटियों ११ उत्पन्न होती है, माया परिपाटियों १३ उत्पन्न होती है और लोभपरिपाटियों इतनी १५ उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार यहाँ पर दो संहट्टियोंके द्वारा मानादिके संक्रमस्थानोंसे क्रोधादिकके संक्रमस्थान विशेष अधिक असंदिग्ध-रूपसे सिद्ध होते हैं । इस प्रकार अलावहुत्वके समान होने पर संक्रमस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई ।

इसके बाद प्रदेशसंक्रम समाप्त हुआ ।

इस प्रकार 'गुणहीणं वा गुणविसिद्धं' इस पदकी अर्थ विभाषा समाप्त होने पर पाँचवीं मूलगाथाकी अर्थप्ररूपणा समाप्त हुई ।

§ ८४२. जेण कारणेण दोण्हं पि संतकर्मपक्खेवपमाणं सरिसं तेण कारणेण माणसंक्रमद्वारेहितो क्रोधसंक्रमाणाणि विसेसाहियाणि जादाणि ति भणिदं होदि । संपहि सेसाणं पि कम्माणमेव चैन कारणपरूवणा न्नायव्वा ति षडुणायणहुमुत्तरमुत्तमाह—

❀ एवं सेसेसु वि कम्मेषु वि शेदव्वाणि ।

§ ८४३. जहा क्रोह-माणाणमेतो कारणणिदेतो कओ तहा सेसकम्माणं पि शेदव्वो ति भणिदं होइ । संपहि एदशसेवत्थरस कुडीकरणहुयेदं संदिट्ठीपरूवणं कस्सामो । त जहा— गिरयगईए माणादीणं जहण्णसंतकम्पेतियशेत्तमिदि वेत्तव्वं ४, ५, ६, ७ । तेसिं चेषुकस्ससंतकम्पमाणमेद २०, २५, ३०, ३५ । एत्थुकस्सदव्वादो जहण्णदव्वे सोहिदे सुद्धसेसदव्वपमाणमेत्तियं होइ १६, २०, २४, २८ । सव्वेसिं संतकम्पपक्खेव-पमाणं दोरूवमेत्तमिदि वेत्तव्व २ । एदेण पमाणेण अप्पण्णो जहण्णदव्वादो उवरि कमेण सुद्धसेसदव्वे पनेसिज्जमाणे तत्थ सभुवण्णमाणपरिवाडीओ एदाओ ६ । क्रोहपरि-वाडीओ ११ । मायापरिवाडीओ १३ । लोहपरिवाडीओ एदाओ १५ । एवमेत्थ दो-संदिट्ठीए च माणादिसंक्रमद्वारेहितो क्रोहादिसंक्रमद्वाराणाण विसेसाहियत्तमसंदिद्धं सिद्धं । एवमप्पावहुए समत्ते संक्रमद्वाराणपरूवणा समत्ता तदो पदेरासंक्रमो समत्तो । एवं गुणहीणं वा गुणविसिद्धमिदि पदस्स अल्पवहुत्वाए समत्ताए तदो पंचमीए सूत्तमाहाए अत्थपरूवणा समत्ता

§ ८४२. जिस कारणसे दोनोके ही संतकर्मप्रक्षेपका प्रमाण समान है इस कारणसे मानके संक्रमस्थानोंसे क्रोधके संक्रमस्थान विशेष अधिक हो जाते हैं यह उक्त कथन का तात्पर्य है । अब शेष कर्मोंकी भी इसी प्रकार कारण प्ररूपणा करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस प्रकार शेष कर्मोंमें भी ले जाना चाहिए ।

§ ८४३. जिस प्रकार क्रोध और मानके इस कारणका निर्देश किया उसी प्रकार शेष कर्मोंका भी जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए इस सट्टिका कथन करेंगे । यथा — नरकगतिमे मानादिकका जवन्य संतकर्म इतना है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ४, ५, ६, ७ । उन्हींके उत्कृष्ट संतकर्मका प्रमाण इतना है—२०, २५, ३०, ३५ । यहाँ उत्कृष्ट द्रव्यमेसे जवन्य द्रव्यके घटा देने पर शुद्ध शेष द्रव्यका प्रमाण इतना होता है— १६, २०, २४, २८ । सबके संतकर्मप्रक्षेपका प्रमाण दो अंक प्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए—२ । इस प्रमाणसे अपने अपने जवन्य द्रव्यके ऊपर क्रमसे शुद्ध शेष द्रव्यको प्रविष्ट कराने पर वहाँ पर मानपरिपाटिया इतनी ६ उत्पन्न होती हैं, क्रोध परिपाटियाँ ११ उत्पन्न होती हैं, माया परिपाटियाँ १३ उत्पन्न होती हैं और लोभपरिपाटियाँ इतनी १५ उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार यहाँ पर दो सट्टियोंके द्वारा मानादिके संक्रमस्थानोंसे क्रोधादिकके संक्रमस्थान विशेष अधिक असंदिग्ध-रूपसे सिद्ध होते हैं । इस प्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त होने पर संक्रमस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई ।

इसके बाद प्रदेशसंक्रम समाप्त हुआ ।

इस प्रकार 'गुणहीणं वा गुणविसिद्धं' इस पदकी अर्थ विभागा समाप्त होने पर पाँचवीं मूलगाथाकी अर्थप्ररूपणा समाप्त हुई ।

संक्रमणभोगसंतक्रमणानि सरिसाणि होदूण लद्धाणि भवति । पुणो एत्थेव माणस्स संतक्रमणानि समत्ताणि । कोहस्स पुण ण समप्पति, पुव्वमवशेऊण पुव्वद्विदपयडि-विसेसमेत्तदव्यस्स वहिन्वानदंसणादो । तेण तं पि दव्वं माणसंतकामपक्खेवपमाणेण कस्सामो ति पुव्वविरलणाए पासे अण्णो असंखेज्जलोगयागहारो विरलेयवो । एदस्स पमाण केत्तियं ? पुव्विल्लविरलणारासीए असंखेज्जदिभागमेत्तं । तस्स को पडिभागो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागो । तदो एवंभूदसंपहियनिरलणाए पयडिविसेसदव्वं समखंडं करिय दिण्णे एकेकस्स ख्वरसाणंतरपरुविदरांतक्रमणपक्खेवपमाणं पावदि । एत्थेगेमख्व-धरिदं वेतणमणुक्कस्स संतक्रमणानि सजाणकोहरांतक्रमणप्पहुडि परिवाडीए पणिलविय णेदव्वं जान संपहिय विरलणख्वमेत्ता संतक्रमणपक्खेवा णिडिदा ति । एवं णीदे माण-संतक्रमणानेहिंदो कोहसंक्रमणानि संपहिय विरलणमेत्तसंतक्रमणानेहि विसेसाहियाणि जादाणि ति, एदेहितो समुप्पज्जमाणसंतक्रमणानि विसेसाहियाणि जादाणि । संपहि एदस्सेवत्थस्स कुडीकरणद्वमिदमाह—

❀ एदेण कारणेण भाणपदेशसंक्रमणानि थोवाणि ।

❀ कोहे पदेशसंक्रमणानि विसेसाहियाणि ।

पर दोनोंके ही सक्रमके योग्य सत्कर्मस्थान सदृश होकर प्राप्त होते हैं । पुनः यहीं पर मानके सत्कर्मस्थान समाप्त हो गये, परन्तु क्रोधके समाप्त नहीं हुए, क्योंकि पहले निकाल कर पृथक् स्थापित प्रकृतिनिरोध मात्र पृथक् देखा जाता है । इसलिए उम द्रव्यको भी मानसत्कर्मप्रक्षेपके प्रमाणसे धरते हैं, इसलिए पूर्व विरलनके पासमें अन्य असंख्यात लोक भागहारका विरलन करना चाहिए ।

शंका—इसका प्रमाण कितना है ?

समाधान—पहलेकी विरलन राशिका असंख्यातवा भागमात्र है ।

शंका—उसका प्रतिभाग क्या है ?

समाधान—आवलिका असंख्यातवा भाग प्रतिभाग है ।

अतः इस प्रकारके साम्प्रतिक विरलनके ऊपर प्रकृतिविशेषद्रव्यको समखण्ड करके देने पर एक एक रूपके प्रति अनन्तर कहे गये सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण प्राप्त होता है । यहाँ पर एक एक रूपके प्रति प्राप्त द्रव्यको ग्रहण कर अनुकूल सत्कर्मस्थानके रागान क्रोधसत्कर्मस्थानसे लेकर क्रममे प्राक्षेप करके साम्प्रतिक विरलन ख्वमात्र सत्कर्मप्रक्षेप समाप्त होने तक ले जाना चाहिए । इस प्रकार ले जाने पर मान सत्कर्मस्थानोसे क्रोध सत्कर्मस्थान साम्प्रतिक विरलन मात्र सत्कर्म-स्थानोसे प्रियं व अधिक हो जाते हैं, इसलिए उनको उत्पन्न होनेवाले सत्कर्मस्थान विशेष अधिक हो जाते हैं । अतः इन्ही ग्रंथोके स्पष्ट करनेके लिए यह सूत्र कहते हैं—

* इस कारणसे मानप्रदेश संक्रमस्थान थोड़े हैं ।

* क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं ।

§ ८४२. जेण कारणेण दोण्हं पि संतकम्मपक्खेवपमाणं सरिरां तेण कारणेण माणसंकमडाणेहितो कोहसंकमडाणाणि विरोसाहियाणि जादाणि ति भणिदं होदि । सपहि सेसाणं पि कम्मणमेवं चैव कारणारूवणा न्नायव्वा ति पटुप्पायणइमुत्तरसुत्तमाह—

❀ एवं सेसेसु वि कम्मेषु वि खेदव्वाणि ।

§ ८४३. जहा कोह-माणाणमेतो कारणणिदतो कओ तहा सेराकम्मणं पि खेदव्वो ति भणिदं होइ । सपहि एदशेवत्थेसरा कुडीकरणइमेद संदिट्ठीगरूवणं कस्सामो । तं जहा— पिरयमईए माणादीणं जहण्णसंतकम्मत्तियमेत्तमिदि वेत्तव्वं ४, ५, ६, ७ । तेसिं चेषुक्कस्ससंतकम्मपमाणमेद २०, २५, ३०, ३५ । एत्थुक्कस्सरादव्वादी जहण्णदव्वे सोहिदे सुद्धसेसदव्वपमाणमेत्तियं होइ १६, २०, २४, २८ । एव्वेसिं संतकम्मपक्खेव-पमाणं दोरूवमेत्तमिदि वेत्तव्व २ । एदेण पमाणेण अप्पण्णो जहण्णदव्वादी उवरि कमेण सुद्धसेसदव्वे पवेसिज्जमाणे तत्थ ससुप्पण्णमाणापरिवाडीओ एदाओ ६ । कोहपरि-वाडीओ ११ । मायापरिवाडीओ १३ । लोहपरिवाडीओ एदाओ १५ । एवमेत्थ दो-संदिट्ठीए च माणादिसंकमडाणेहितो कोहादिसंकमडाणाण विरोसाहियत्तमसंदिट्ठं सिद्ध । एवमप्पावहुए समत्ते संकमडाणवरूवणा समत्ता तदो पदेरासंकमो समत्तो । एवं गुणहीणं वा गुणविसिद्धमिदि पदस्स अत्यभिहासाए समत्ताए तदो पंचमीए मूलगाहाए अत्थपरूवणा समत्ता

§ ८४२. जिस कारणसे दोनोके ही सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण समान है इस कारणसे मानके संकमस्थानोंसे क्रोधके संकमस्थान विशेष अधिक हो जाते हैं यह उक्त कथन का तात्पर्य है । अब शेष कर्मोंकी भी इसी प्रकार कारण प्ररूपणा करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं—

* इस प्रकार शेष कर्मोंमें भी ले जाना चाहिए ।

§ ८४३. जिस प्रकार क्रोध और मानके इस कारणका निर्देश किया उसी प्रकार शेष कर्मोंका भी जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है । अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके लिए इस संहट्टिका कथन करेंगे । यथा — नरकगतिसे मानादिकका जवन्य सत्कर्म इतना है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए ४, ५, ६, ७ । उन्हींके उत्कृष्ट सत्कर्मका प्रमाण इतना है—२०, २५, ३०, ३५ । यहाँ उत्कृष्ट द्रव्यमेसे जवन्य द्रव्यके घटा देने पर शुद्ध शेष द्रव्यका प्रमाण इतना होता है— १६, २०, २४, २८ । सबके सत्कर्मप्रक्षेपका प्रमाण दो अंक प्रमाण है ऐसा ग्रहण करना चाहिए—२ । इस प्रमाणसे अपने अपने जवन्य द्रव्यके ऊपर क्रमसे शुद्ध शेष द्रव्यको प्रविष्ट कराने पर वहाँ पर मानपरिपाटिया इतनी ६ उत्पन्न होती है, क्रोध परिपाटियाँ ११ उत्पन्न होती हैं, माया परिपाटियाँ १३ उत्पन्न होती है और लोभपरिपाटियाँ इतनी १५ उत्पन्न होती है । इस प्रकार यहाँ पर दो संहट्टियोंके द्वारा मानादिके संकमस्थानोंसे क्रोधादिकके संकमस्थान विशेष अधिक असंदिग्ध-रूपसे सिद्ध होते हैं । इस प्रकार अरणवहुत्वके समाप्त होने पर संकमस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई ।

इसके बाद प्रदेशसंकम समाप्त हुआ ।

इस प्रकार 'गुणहीणं वा गुणविसिद्धं' इस पदकी अर्थ विभाषा समाप्त होने पर पाँचवीं मूलगाथाकी अर्थप्ररूपणा समाप्त हुई ।

१. बंधगयगाहा-चुणिसुत्ताणि

चु० सु०—१ बंधगे त्ति एदस्स वे अणियोगदाराणि । तं जहा-बंधो च संकमो च । २एत्थ सुत्तागाहा ।

(५) कदि पयडीओ बंधदि ङ्घिदि-अणुभागे जहणणमुक्कस्सं ।
संक्रामेइ कदिं वा गुणहीणं वा गुणविसिद्धं ॥ २३ ॥

चु० सु०— ३एदीए गाहाए बंधो च संकमो च सूचिदो होइ । पदच्छेदो । तं जहा । कदि पयडीओ बंधइ त्ति पयडिवंधो । ङ्घिदि अणुभागे त्ति ङ्घिदिवंधो अणुभाग-बंधो च । ४जहणणमुक्कस्सं त्ति पदेसबंधो । संक्रामेदि कदिं वा त्ति पयडिसंकमो च ङ्घिदिसंकमो च अणुभागसंकमो च गहेयवो । गुणहीणं वा गुणविसिद्धं त्ति पदेससंकमो सूचिओ । सो गुण पयडि-ङ्घिदि-अणुभाग-पदेसबंधो बहुसो परूविदो ।

संकमे पयदं । ६संकमस्स पंचविहो उवक्कमो— आणुपुव्वी णामं पमाणं वत्ताव्वदा अत्थाहियारो चेदि । ७एत्थ णिक्खेवो कायव्वो । णामसंकमो ठवणसंकमो दव्वसंकमो खेत्तासंकमो कालसंकमो भावसंकमो चेदि । णोगमो सव्वे संकमे इच्छइ । ८संगह-ववहारा कालसंकममवणंति । उजुसुदो एदं च ठवणं च अवणेइ । ९सदस्स णामं भावो य ।

१०णोआगमदो दव्वसंकमो ठवणिज्जो । खेत्तासंकमो जहा उड्डलोगो संकंतो । कालसंकमो जहा संकंतो हेमंतो । ११भावसंकमो जहा संकंतं पेम्मं । जो सो णोआगमदो दव्वसंकमो सो दुविहो—रुम्मसंकमो च णोक्कम्मसंकमो च । णोक्कम्मसंकमो जहा कट्ट-संकमो । १२रुम्मसंकमो चउव्विहो । तं जहा—पयडिसंकमो ङ्घिदिसंकमो अणुभागसंकमो पदेससंकमो चेदि । १३पयडिसंकमो दुविहो । तं जहा-एगेगपयडिसंकमो पयडिङ्घाणसंकमो च । पयडिसंकमे पयदं । १४तत्थ तिण्णिग सुत्तागाहाओ हवंति । तं जहा ।

संकम-उवक्कमविहो पंचविहो चउव्विहो य णिक्खेवो ।

एयविही पयदं पयदे च णिग्गमो होइ अट्टविहो ॥२४॥

(१) पृ० २ । (२) पृ० ३ । (३) पृ० ४ । (४) पृ० ५ । (५) पृ० ६ । (६) पृ० ७ ।
(७) पृ० ८ । (८) पृ० ९ । (९) पृ० १० । (१०) पृ० ११ । (११) पृ० १२ । (१२) पृ०
१४ । (१३) पृ० १५ । (१४) पृ० १६ ।

एक्केक्काए संकमो दुविहो संकमविही य पयडीए ।

संकमपडिग्गहविही पडिग्गहो उत्तम जहणो ॥२५॥

१पयडि-पयडिङ्गाणेषु संकमो असंकमो तथा दुविहो ।

दुविहो पडिग्गहविही दुविहो अपडिग्गहविही य । २६ ॥

चु० सु०— २एदाओ तिण्णि गाहाओ पयडिसंकमे । एदासिं गाहाणं पदच्छेदो। तं जहा । संकम-उवक्कमविही पंचविहो ति एदस्स पदस्स अत्थो—पंचविहो उवक्कमो, आणुपुव्वी णामं पमाणं वराव्वदा अत्थाहियारो चेदि । ३चउव्विहो य णिक्खेवो ति णामं दुव्वणं वज्जं दव्वं खेत्तं कालो भावो च । ४णयविहि पयदं ति एत्थ णओ वराव्वो । पयदे च णिग्गमो होइ अट्टविहो ति पयडिसंकमो पयडिअसंकमो पयडिङ्गाणसंकमो पयडिङ्गाणअसंकमो पयडिपडिग्गहो पयडिअपडिग्गहो पयडिङ्गाणपडिग्गहो पयडिङ्गाण-अपडिग्गहो ति एसो णिग्गमो अट्टविहो । ५एक्केक्काए संकमो दुविहो संकमविही य पयडीए ति पदस्स अत्थो कायव्वो । ६एक्केक्काए ति एगेगपयडिसंकमो, संकमो दुविहो ति दुविहो संकमो ति भणिदं होइ, संकमविही य ति पयडिङ्गाणसंकमो, पयडीए ति पयडिसंकमो ति भणियं होइ । ७संकम-पडिग्गहविहि ति संकमे पयडिपडिग्गहो । पडिग्गहो उत्तम जहणो ति पयडिङ्गाणपडिग्गहो । पयडि-पयडिङ्गाणेषु संकमो ति पयडिसंकमो पयडिङ्गाणसंकमो च । ८असंकमो तथा दुविहो ति पयडिअसंकमो पयडि-ङ्गाणअसंकमो च । दुविहो पडिग्गहविहि ति पयडिपडिग्गहो पयडिङ्गाणअपडिग्गहो च । ९एस सुत्तफासो ।

एगेगपयडिसंकमे पयदं । १०एत्थ सामित्तं । ११मिच्छत्तस्स संकामओ को होइ ? णियमा सम्माइट्ठी । वेदगसम्माइट्ठी सव्वो । उव्वसामगो च णिरासाणो । १२सम्मत्तस्स संकामओ को होइ ? णियमा मिच्छाइट्ठी सम्मतसंतकम्मिओ । १३णवरि आवत्थिय-पविट्ठसम्मत्तसंतकम्मियं वज्ज । सम्मामिच्छत्तस्स संकामओ को होइ ? मिच्छाइट्ठी उव्वेज्जमाणओ । १४सम्माइट्ठी वा णिरासाणो । मोत्तण पढमसमयं सम्मामिच्छत्तसंत-कम्मियं । १५दंसणमोहणीयं चरित्तमोहणीए ण संकमइ । चरित्तमोहणीयं पि दंसणमोहणीए ण संकमइ । अणंताणुपंधी जत्तियाओ वंज्जंति चरित्तमोहणीयपयडीओ तासु सव्वासु संकमइ । एतं सव्वाओ चरित्तमोहणीयपयडीओ । १६ताओ पणुवीसं पि चरित्तमोहणीय-पयडीओ अण्णदरस्स संकमंति ।

(१) पृ० १७ । (२) पृ० १८ । (३) पृ० १९ । (४) पृ० २० । (५) पृ० २२ । (६) पृ० २३ । (७) पृ० २४ । (८) पृ० २५ । (९) पृ० २६ । (१०) पृ० २८ । (११) पृ० २९ । (१२) पृ० ३० । (१३) पृ० ३१ । (१४) पृ० ३२ । (१५) पृ० ३३ । (१६) पृ० ३४ ।

एयजीवेण कालो । मिच्छत्तस्स संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण छाव्वट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । २सम्मत्तस्स संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । सम्मामिच्छत्तस्स संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ३उक्कस्सेण वेत्तावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसाणं पि पणुवीसंपयडीणं संकामयस्स तिण्णि भंगा । ४तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्ड-पोगलपरियट्ठं ।

५एयजीवेण अंतरं । मिच्छत्त-सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ६उक्कस्सेण उवड्डपोगलपरियट्ठं । णवरि सम्मामिच्छत्तस्स संकामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । ७अणंताणुवंधीणं संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण वेत्तावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ८सेसाणमेक्कवीसाए पयडीणं संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

९णाणाजीवेहि भंगविचओ । जेसिं पयडीणं संतक्कम्ममत्थि तेसु पयदं । १० मिच्छत्त-सम्मत्ताणं सव्वजीवा णियमा संकामया च असंकामया च । सम्मामिच्छत्त-सोलसकसाय-णवणोकसायाणं च तिण्णि भंगा कायव्वा ।

११णाणाजीवेहि कालो । सव्वक्कम्माणं संकामया केवचिरं कालादो होति ? १२सव्वद्धा । १३णाणाजीवेहि अंतरं । सव्वक्कम्मसंकामयाणं णत्थि अंतरं ।

१४सण्णियासो । मिच्छत्तस्स संकामओ सम्मामिच्छत्तस्स सिया संकामओ सिया असंकामओ । १५सम्मत्तस्स असंकामओ । अणंताणुवंधीणं सिया कम्मंसिओ सिया अकम्मंसिओ । जदि कम्मंसिओ सिया संकामओ सिया असंकामओ । सेसाणमेक्कवीसाए कम्माणं सिया संकामओ सिया असंकामओ । १६एवं सण्णियासो कायव्वो ।

१७अप्पावहुअं । सव्वत्थोवा सम्मत्तस्स संकामया । १८मिच्छत्तस्स संकामया असंखेज्जगुणा । सम्मामिच्छत्तस्स संकामया विसेसाहिया । अणंताणुवंधीणं संकामया अणंतगुणा । अट्ठकसायाणं संकामया विसेसाहिया । लोहसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । १९णवुंसयवेदस्स संकामया विसेसाहिया । इत्थिवेदस्स संकामया विसेसाहिया ।

(१) पृ० ३५ । (२) पृ० ३७ । (३) पृ० ३८ । (४) पृ० ३९ । (५) पृ० ४६ । (६) पृ० ४७ । (७) पृ० ४८ । (८) पृ० ४९ । (९) पृ० ५२ । (१०) पृ० ५३ । (११) पृ० ५६ । (१२) पृ० ६० । (१३) पृ० ६२ । (१४) पृ० ६३ । (१५) पृ० ६४ । (१६) पृ० ६५ । (१७) पृ० ७३ । (१८) पृ० ७४ । (१९) पृ० ७५ ।

उष्णोक्तायाणं संक्रामया विसेसाहिया । पुरिसवेदस्स संक्रामया विसेसाहिया ।
 कोहसंकलणस्स संक्रामया विसेसाहिया । १माणसंजलणस्स संक्रामया विसेसाहिया ।
 मायासंजलणस्स संक्रामया विसेसाहिया ।

गिरयगदीए सव्वत्थोवा सम्मत्तसंक्रामया । मिच्छत्तस्स संक्रामया असंखेज्जगुणा ।
 सम्मामिच्छत्तस्स संक्रामया विसेसाहिया । २अणंताणुवंधीणं संक्रामया असंखेज्जगुणा ।
 सेसाणं कम्माणं संक्रामया तुज्जा विसेसाहिया । एवं देवगदीए । ३तिरिक्खगईए
 सव्वत्थोवा सम्मत्तस्स संक्रामया । मिच्छत्तस्स संक्रामया असंखेज्जगुणा । सम्मामिच्छत्तस्स
 संक्रामया विसेसाहिया । अणंताणुवंधीणं संक्रामया अणंतगुणा । सेसाणं कम्माणं
 संक्रामया तुज्जा विसेसाहिया । पंचिदियतिरिक्खतिए णारयभंगो । ४मणुसगईए
 सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स संक्रामया । सम्मत्तस्स संक्रामया असंखेज्जगुणा । सम्मामिच्छत्तस्स
 संक्रामया विसेसाहिया । अणंताणुवंधीणं संक्रामया असंखेज्जगुणा । सेसाणं कम्माणं
 संक्रामया ओघो । ५इदिणु सव्वत्थोवा सम्मत्तस्स संक्रामया । सम्मामिच्छत्तस्स
 संक्रामया विसेसाहिया । सेसाणं कम्माणं संक्रामया तुज्जा अणंतगुणा ।

६एनो पयडिड्डाणसंक्रमो । तत्थ पुवं गमणिज्जा सुत्तसमुक्कित्ता । तं जहा ।

अट्ठावीस चउवीस सत्तरस सोलसेव पणरसा ।

एदे खलु मोत्तूणं सेसाणं संक्रमो होइ ॥ २७ ॥

सोलसग वारसद्वग वीसं वीसं तिगादिगधिगा य ।

एदे खलु मोत्तूणं सेसाणि पडिग्गहा होंति ॥ २८ ॥

छुवीस सत्तावीसा य संक्रमो णियम चडुसु ट्ठाणेषु ।

वावीस पणरसगे एककारस ऊणवीसाए ॥ २९ ॥

७सत्तारसेगवीसासु संक्रमो णियम पंचवीसाए ।

णियमा चडुसु गदोसु य णियमा दिड्ढोगए तिविहे ॥ ३० ॥

वावीस पणरसगे सत्तग एककारसूणवीसाए ।

तेवीस संक्रमो पुण पंचसु पंचिदिणसु हवे ॥ ३१ ॥

चोदसग दसग सत्तग अट्टारसगे च णियम वावीसा ।

णियमा मणुसगईए विरदे मिससे अविरदे य ॥ ३२ ॥

तेरसय णवय सत्तय सत्तारग पणय एकवीसाए ।

एगाधिगाए वीसाए संक्रमो छुप्पि सम्मत्ते ॥ ३३ ॥

एतो अवसेसा संजमम्हि उवसामगे च खवगे च ।
 वोसा य संकम दुगे छुक्के पणए च बोद्धव्वा ॥ ३४ ॥
 १पंचसु च ऊणवीसा अट्टारस चदुसु होंति बोद्धव्वा ।
 चोदस छुसु पयडोसु य तेरसयं छुक्क-पणगम्हि ॥ ३५ ॥
 पंच-चउक्के वारस एक्कारस पंचगे तिग चउक्के ।
 दसगं चउक्क-पणगे एवगं च तिगम्हि बोद्धव्वा ॥ ३६ ॥
 अट्ट दुग तिग चउक्के सत्ता चउक्के तिगे च बोद्धव्वा ।
 छुक्कं दुगम्हि णियमा पंच तिगे एक्कग दुगे वा ॥ ३७ ॥
 चत्तारि तिग चदुक्के तिणिए तिगे एक्कगे च बोद्धव्वा ।
 दो दुसु एगाए वा एगा एगाए बोद्धव्वा ॥ ३८ ॥
 २अणुपुव्वमणुपुव्वं भोणमभोणं च दंसणे मोहे ।
 उवसामगे च खवगे च संकमे अग्गणोवाया ॥ ३९ ॥
 एक्ककेम्हि य ट्ठाणे पडिग्गहे संकमे तदुभए च ।
 भविया वाऽभविया वा जीवा वा केसु ठाणेषु ॥ ४० ॥
 कदि कम्हि होंति ठाणा पंचविहे भावविधिविसेसम्हि ।
 संकम पडिग्गहो वा समाणणा वाध केवचिरं ॥ ४१ ॥
 णिरयगइ-अमर-पंचिदिएसु पंचेव संकमट्ठाणा ।
 सव्वे मणुसगईए सेसेसु तिगं अखणोसु ॥ ४२ ॥
 चदुर दुगं तेवीसा मिच्छुत्ते मिस्सगे य सम्मत्ते ।
 वावोस पणय छुक्कं विरदे मिस्से अविरदे य ॥ ४३ ॥
 तेवीस सुक्कलेस्से छुक्कं पुण तेउ-पम्भलेस्सासु ।
 पणयं पुण-काऊए णोलाए किंएहलेस्साए ॥ ४४ ॥
 ३अवगयवेद-णवुंसय-इत्थी-पुरिसेसु चाणुपुव्वीए ।
 अट्टारसयं एवय एक्कारसय च तेरसया ॥ ४५ ॥
 कोहादी उवजोगे चदुसु कसाएसु चाणुपुव्वीए ।
 सोलस य ऊणवीसा तेवीसा चैव तेवीसा ॥ ४६ ॥
 णाणम्हि य तेवीसा तिविहे एक्कम्हि एक्कवीसा य ।
 अण्णाणम्हि य तिविहे पंचेव य संकमट्ठाणा ॥ ४७ ॥

आहारयः भविणसु य तेवीसं होंति संकमडाणा ।
 अणाहारणसु पंच य एकं डाणं अभविणसु ॥ ४८ ॥
 छुव्वीस सत्तवीसा तेवीसा पंचवीस वावीसा ।
 एदे सुणणडाणा अवगदवेदस्स जीवस्स ॥ ४९ ॥
 उगुवीसद्वारसयं चोदस एकारसादिया सेसा ।
 एदे सुणणडाणा णवुंसए चोदसा होंति ॥ ५० ॥
 अद्वारस चोदसयं डाणा सेसा य दसगभादीया ।
 एदे सुणणडाणा बारस इत्थीसु बोद्धव्वा ॥ ५१ ॥
 १चोदसग-णवगभादी हवन्ति उवसामगे च खवगे च ।
 एदे सुणणडाणा दस वि य पुरिसेसु बोद्धव्वा ॥ ५२ ॥
 णव अट्ट सत्त छुक्कं पणग दुगं एकयं च बोद्धव्वा ।
 एदे सुणणडाणा पढमकसायोवजुत्तेसु ॥ ५३ ॥
 सत्त य छुक्कं पणगं च एकयं चैव आणुपुव्वीए ।
 एदे सुणणडाणा विदियकसाओवजुत्तेसु ॥ ५४ ॥
 दिट्ठे सुणणासुण्णे वेद-कसाणसु चैव डाणेषु ।
 मग्गणगवेसणाए तु संक्रमो आणुपुव्वीए ॥ ५५ ॥
 कम्मंसियडाणेषु य बंधडाणेषु संकमडाणे ।
 एक्केकेण समाणय बंधेण य संकमडाणे ॥ ५६ ॥
 सादि य जहणण संकम कदिखुत्तो होइ ताव एक्केके ।
 अचिरहिद सांतरं केवचिरं कदिभाग परिमाणं ॥ ५७ ॥
 एवं दव्वे खेत्ते काले भावे य सण्णवादे य ।
 संकमणयं णयविदु णेया सुददेसिदमुदारं ॥ ५८ ॥

चु० सु०— २मुत्तसमुक्किणणाए समत्ताए इमे अणियोगद्वारा । तं जहा ।
 ठाणसमुक्किणणा सव्वसंक्रमो णोसव्वसंक्रमो उक्कस्ससंक्रमो ३अणुक्कस्ससंक्रमो जहण्ण-
 संक्रमो अजहण्णसंक्रमो सादियसंक्रमो अणादियसंक्रमो धुवसंक्रमो अद्धुवसंक्रमो एगजीवेण
 सोमित्तं कालो अंतरं णाणाजीवेहि भंगविचओ कालो अंतरं सण्णियासो अप्पावहुगं भुज-
 गारो पदणिकखेयो वड्ढि ति । ठाणसमुक्किणणा ति जं पदं तस्स विहासा जत्थ एया गाहा ।

४अद्वारस चउवीस संतरस सोलसेव पण्णरसा ।

एदे खलु मोत्तूणं सेसाणं संकमो होइ ॥ २७ ॥

(१) पृ० ८६ । (२) पृ० ८८ । (३) पृ० ८९ । (४) पृ० ९० ।

बु० सु०—एवमेदाणि पंचद्व्याणाणि मोत्तण सेसाणि तैवीस संकमद्व्याणाणि ।
 १एत्थ पयडिणिदेसो कायव्वो । अट्टावीसं केण कारणेण ण संकमइ ? दंसण-मोहणीय-
 चरित्तमोहणीयाणि एककेकम्मि ण संकमंति । तदो चरित्तमोहणीयस्स जाओ पयडीओ
 वज्झंति तत्थ पणुवीसं वि संकमंति । दंसणमोहणीयस्स उक्कस्सेण दो पयडीओ
 संकमंति । २ एदेण कारणेण अट्टावीसाए णत्थि संकमो । सत्तावीसाए काओ पयडीओ ?
 पणुवीसं चरित्तमोहणीयाओ दोण्णिण दंसणमोहणीयाओ । छुव्वीसाए^३ सम्मत्ते उव्वेत्तिल्लिदे ।
 अहवा पढमसमयसम्मत्ते उप्पाइदे । ४पणुवीसाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेहि विणा सेसाओ ।
 चउवीसाए किं कारणं णत्थि ? ५अणंताणुवंधिणो सव्वे अवणिज्जंति । एदेण कारणेण
 चउवीसाए णत्थि । तैवीसाए अणंताणुवंधीसु अवगदेसु । वावीसाए मिच्छत्ते खविदे
 सम्मामिच्छत्ते सेसे । ६अहवा चउवीसदिसंतकम्मियस्स आणुपुव्वीसंकमे कदे जाव
 णवुंसयवेदो अणुवसंतो । ७एकवीसाए खीणदंसणमोहणीयस्स अक्खवग-अणुवसामगस्स ।
 चउवीसदिसंतकम्मियस्स वा णउंसयवेदे उवसंते इत्थिवेदे अणुवसंते । ८वीसाए एगवीसदि-
 संतकम्मियस्स आणुपुव्वीसंकमे कदे जाव णवुंसयवेदो अणुवसंतो । चउवीसदिसंत-
 कम्मियस्स वा आणुपुव्वीसंकमे कदे इत्थिवेदे उवसंते छसु कम्मेसु अणुवसंतेसु ।
 ९एगुणवीसाए एकवीसदिसंतकम्मियस्स णवुंसयवेदे उवसंते इत्थिवेदे अणुवसंते । अट्टा-
 रसण्हमेकवीसदिकम्मंसियस्स इत्थिवेदे उवसंते जाव छण्णोकसाया अणुवसंता । १०सत्ता-
 रसण्हं केण कारणेण णत्थि संकमो ? खवगो एक्कावीसादो एकपहारेण अट्ट कसाए
 अवणेदि । तदो अट्टकसाएसु अवणिदेसु तेरसण्हं संकमो होइ । ११उवसामगस्स वि
 एक्कावीसदिकम्मंसियस्स छसु कम्मेसु उवसंतेसु बारसण्हं संकमो भवदि । चउवीसदि-
 कम्मंसियस्स छसु कम्मेसु उवसंतेसु चोदसण्हं संकमो भवदि । एदेण कारणेण
 सत्तारसण्हं वा सोलसण्हं वा षण्णारसण्हं वा संकमो णत्थि । १२चोदसण्हं
 चउवीसदिकम्मंसियस्स छसु कम्मेसु उवसामिदेसु पुरिसवेदे अणुवसंते । १३तेरसण्हं
 चउवीसदिकम्मंसियस्स पुरिसवेदे उवसंते कसाएसु अणुवसंतेसु । खवगस्स वा अट्ट-
 कसाएसु खविदेसु जाव अणाणुपुव्वीसंकमो । १४बारसण्हं खवगस्स आणुपुव्वीसंकमो आढत्तो
 जाव णवुंसयवेदो अक्खीणो । एक्कावीसदिकम्मंसियस्स वा छसु कम्मेसु उवसंतेसु
 पुरिसवेदे अणुवसंते । १५एकारसण्हं खवगस्स णउंसयवेदे खविदे इत्थिवेदे अक्खीणे ।

(१) पृ० ६१ । (२) पृ० ६२ । (३) पृ० ६३ । (४) पृ० ६४ । (५) पृ० ६५ । (६)
 पृ० ६६ । (७) पृ० ६७ । (८) पृ० ६८ । (९) पृ० १०० । (१०) पृ० १०१ । (११) पृ० १०२ ।
 (१२) पृ० १०३ । (१३) पृ० १०४ । (१४) पृ० १०५ । (१५) पृ० १०६ ।

अहवा एकावीसदिकम्मंसियस्स पुरिसवेदे उवसंते अणुवसंतेसु कसाएसु । चउवीसदि-
 कम्मंसियस्स वा दुविहे कोहे उवसंते क्रोहसंजलणे अणुवसंते । १दसण्हं खवगस्स
 इत्थिवेदे खीणे छसु कम्मंसेसु अक्खीणेसु । अथवा चउवीसदिकम्मंसियस्स क्रोधसंजलणे
 उवसंते सेसेसु कसाएसु अणुवसंतेसु । २णवण्हं एकावीसदिकम्मंसियस्स दुविहे कोहे उवसंते
 क्रोहसंजलणे अणुवसंते । चउवीसदिकम्मंसियस्स खवगस्स च णत्थि । ३अट्टण्हं
 एकावीसदिकम्मंसियस्स तिविहे कोहे उवसंते सेसेसु कसाएसु अणुवसंतेसु । अहवा
 चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविहे माणे उवसंते माणसंजलणे अणुवसंते । ४सत्तण्हं
 चउवीसदिकम्मंसियस्स तिविहे माणे उवसंते सेसेसु कसाएसु अणुवसंतेसु ।
 ५उण्हमेकावीसदिकम्मंसियस्स दुविहे माणे उवसंते सेसेसु कसाएसु अणुवसंतेसु ।
 पंचण्हमेकावीसदिकम्मंसियस्स तिविहे माणे उवसंते सेसकसाएसु अणुवसंतेसु । अथवा
 चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविहाए मायाए उवसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु । ६चउण्हं
 खवगस्स छसु कम्मंसेसु खीणेसु पुरिसवेदे अक्खीणे । अहवा चउवीसदिकम्मंसियस्स
 तिविहाए मायाए उवसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु । तिण्हं खवगस्स पुरिसवेदे खीणे
 सेसेसु अक्खीणेसु । ७अथवा एकावीसदिकम्मंसियस्स दुविहाए मायाए उवसंताए
 सेसेसु अणुवसंतेसु । दोण्हं खवगस्स कोहे खविदे सेसेसु अक्खीणेसु । अहवा
 एकावीसदिकम्मंसियस्स तिविहाए मायाए उवसंताए सेसेसु अणुवसंतेसु । अहवा
 चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविहे कोहे उवसंते । ८सुहमसांपराइयउवसामयस्स वा उवसंत-
 कसायस्स वा । एक्किस्से संकमो खवगस्स माणे खविदे मायाए अक्खीणाए ।

६एत्तो पदाणुमाणियं सामित्तं श्लेष्यं ।

१०एयजीवेण कालो । सत्तावीसाए संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण
 अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण वेठावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि तिपल्लिदोवयस्स ११असंखे-
 ज्जदिभागेण । छउवीससंकामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण एगसमओ १२उक्कस्सेण
 पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । पगुवीसाए संकामए तिण्णि भंगा । १३तत्थ जो सो
 सादिओ सपज्जवसिदो जहण्णेण एगसमओ । उक्कस्सेण उवड्डेपोग्गलपरियट्टं । १४तेवीसाए
 संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं एयसमओ वा । १५उक्कस्सेण
 छावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । वावीसाए वीसाए एगूणवीसाए अट्टारसण्हं तेरसण्हं

- (१) पृ० १०७ । (२) पृ० १०८ । (३) पृ० १०९ । (४) पृ० ११० । (५) पृ० १११ ।
 (६) पृ० ११२ । (७) पृ० ११३ । (८) पृ० ११४ । (९) पृ० १७९ । (१०) पृ० १८१ ।
 (११) पृ० १८२ । (१२) पृ० १८३ । (१३) पृ० १८४ । (१४) पृ० १८५ । (१५) पृ० १८६ ।

बारसण्हं एकारसण्हं दसण्हं अट्टण्हं सत्तण्हं पंचण्हं चउण्हं तिण्हं दोण्हं पि कालो जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । १एक्कवीसाए संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेणोयसमओ । २उक्कस्सेण तेत्तीससागरोवमाणि सादिरेयाणि । चोदसण्हं णवण्हं छण्हं पि कालो जहण्णेणोयसमओ । ३उक्कस्सेण दो आवलियाओ समयुणाओ । अथवा उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ओयरमाणस्स लब्भइ । एकस्से संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

४एत्तो एयजीवेण अंतरं । सत्तावीस-छवीस-तेवीस-इगिवीससंकामगंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । ५पणुवीससंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण वेछावड्डिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ६वावीस-वीस-चोदस-तेरस-एकारस-दस-अट्ट सत्त-पंच-चटु-दोपिणसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । ७एक्किस्से संकामयस्स णत्थि अंतरं । सेसाणं संकामयाण-मंतरं केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

८णाणाजीवेहि भंगविचओ । जेसिं पयडीओ अत्थि तेसु पयदं । सव्वजीवा सत्ता-वीसाए छवीसाए पणुवीसाए तेवीसाए एक्कवीसाए एदेसु पंचसु संकमट्टाणेषु णियमा संकामगा । ९सेसेसु अट्टारससु संकमट्टाणेषु भजियव्वा ।

१०णाणाजीवेहि कालो । पंचण्हं ट्टाणाणं संकामया सव्वट्टा । ११सेसाणं ट्टाणाणं संकामया जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । णवरि एक्किस्से संकामया जहण्णुकस्सेणंतोमुहुत्तं ।

१२णाणाजीवेहि अंतरं । वावीसाए तेरसण्हं बारसण्हं एकारसण्हं दसण्हं चटुण्हं तिण्हं दोण्हमेक्किस्से एदेसिं णवण्हं ठाणाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा । १३सेसाणं णवण्हं संकमट्टाणाणमंतरं केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्साणि । १४जेसिमविरहिदकालो तेसिं णत्थि अंतरं ।

सण्णियासो णत्थि ।

- (१) पृ० १६१ । (२) पृ० १६२ । (३) पृ० १६३ । (४) पृ० १६४ । (१६) पृ० १६८ ।
 (५) पृ० २०२ । (६) पृ० २०३ । (७) पृ० २०६ । (८) पृ० २१० । (९) पृ० २११ ।
 (१०) पृ० २१६ । (११) पृ० २१७ । (१२) पृ० २१८ । (१३) पृ० २२० । (१४) पृ० २२१ ।

१अप्पावहुअं । सव्वत्थोवा णवण्हं संकामया । छण्हं संकामया तत्तिया चेव ।
 चोदसण्हं संकामया संखेज्जगुणा । २चण्हं संकामया संखेज्जगुणा । अट्टण्हं संकामया
 विसेसाहिया । अट्टारसण्हं संकामया विसेसाहिया । एगूणवीसाए संकामया विसेसाहिया ।
 ३चउण्हं संकामया संखेज्जगुणा । सत्तण्हं संकामया विसेसाहिया । वीसाए संकामया
 विसेसाहिया । एकस्से संकामया संखेज्जगुणा । ४दोण्हं संकामया विसेसाहिया । दसण्हं
 संकामया विसेसाहिया । एकारसण्हं संकामया विसेसाहिया । बारसण्हं संकामया विसेसा-
 हिया । तिण्हं संकामया संखेज्जगुणा । तेरसण्हं संकामया संखेज्जगुणा । ५त्रावीस-
 संकामया संखेज्जगुणा । छवीसाए संकामया असंखेज्जगुणा । एकवीसाए संकामया
 असंखेज्जगुणा । तेवीसाए संकामया असंखेज्जगुणा । ६सत्तावीसाए संकामया असंखेज्ज-
 गुणा । पणुवीससंकामया अणंतगुणा ।

२ ट्टिदिसंकमो अत्थाहियारो

७ट्टिदिसंकमो दुविहो—मूलपयडिट्टिदिसंकमो उत्तरपयडिट्टिदिसंकमो च । तत्थ
 अट्टपदं—जा ट्टिदी ओकट्टिज्जदि वा उकट्टिज्जदि वा अण्णपयडि संकामिज्जि वा सो
 ट्टिदिसंकमो । सेसो ट्टिदिअसंकमो । ८ओकट्टिता कथं णिक्खिवादि ट्टिदि ? उदयावलिय-
 चरिमसमयअपविट्ठा जा ट्टिदी सा कथमोउकट्टिज्जि ? तिस्से उदयादि जाव आवलियतिभागे
 ताव णिक्खेवो, आवलियाए वेतिभागा अइच्छावणा । ९उदए बहुअं पदेसगं दिज्जि ।
 तेण परं विसेसहीणं जाव आवलियतिभागो ति । तदो जा विदिया ट्टिदी तिस्से वि
 तत्तिगो चेव णिक्खेवो । अइच्छावणा समयुत्तरा । १०एवमइच्छावणा समयुत्तरा । णिक्खेवो
 तत्तिगो चेव उदयावलियवाहिरादो ओवलियतिभागंतिमट्टिदि ति । ११तेण परं णिक्खेवो
 वट्ठि । अइच्छावणा आवलिया चेव । १२वाघादेण अइच्छावणा एका जेणावलिया
 अदिरित्ता होइ । तं जहा । ट्टिदिघादं करेतेण खंडयमागाइदं । १३तत्थ जं पढमसमए
 उक्कीरदि पदेसगं तस्स पदेसगस्स आवलियाए अइच्छावणा । एवं जाव दुचरिमसमय-
 अणुक्किणखंडगं ति । चरिमसमए जो खंडयस्स अगाट्टिदी तिस्से अइच्छावणा खंडयं
 समयुत्तं । १४एसा उक्कस्सिया अइच्छावणा वाधादे । १५तदो सव्वत्थोवो जहण्णओ णिक्खेवो ।
 जहण्णिया अइच्छावणा दुसमयूणा दुगुणा । १६णिव्वाघादेण उक्कस्सिया अइच्छावणा

- (१) पृ० २२२ । (२) पृ० २२३ । (३) पृ० २२४ । (४) पृ० २२५ । (५) पृ० २२६ ।
 (६) पृ० २२७ । (७) पृ० २४२ । (८) पृ० २४३ । (९) पृ० २४४ । (१०) पृ० २४५ । (११)
 पृ० २४६ । (१२) पृ० २४८ । (१३) पृ० २४९ । (१४) पृ० २५० । (१५) पृ० २५१ ।
 (१६) पृ० २५२ ।

विसेसाहिया । वाघादेग उकस्सिया अइच्छावणा असंखेज्जगुणा । उकस्सयं द्विदिखंडयं
विसेसाहियं । उकस्सओ णिकखेवो विसेसाहियो । उकस्सओ द्विदिवंधो विसेसाहियो ।

१जाओ वञ्जंति द्विदीओ तासिं द्विदीणं पुव्वणिवद्धिदिमहिक्किच्च णिव्वाघादेण
उकड्डुगाए अइच्छावणा आवलिया । २एदिस्से अइच्छावणाए आवलियाए
असंखेज्जदिभागमादिं कादूण जाव उकस्सओ णिकखेवो त्ति णिरंतरं णिकखेवट्टाणाणि ।

३उकस्सओ पुण णिकखेवो केत्तिओ ? जत्तिया उकस्सिया कम्मद्विदी उकस्सियाए
आवाहाए समयुत्तरावलियाए च ऊगा तत्तिओ उकस्सओ णिकखेवो । ४वाघादेण कथं ?
जइ संतकम्मादो वंधो समयुत्तरो तिस्से द्विदीए णत्थि उकड्डुणा । ५जइ संतकम्मादो
बंधो दुसमयुत्तरो तिस्से वि संतकम्मअग्गद्विदीए णत्थि उकड्डुणा । एत्थ आवलियाए
असंखेज्जदिभागो जहणिया अइच्छावणा । जदि जत्तिया जहणिया अइच्छावणा
तत्तिएण अब्भहियो संतकम्मादो वंधो तिस्से वि संतकम्मअग्गद्विदीए णत्थि उकड्डुणा ।
अणो आवलियाए असंखेज्जदिभागो जहणओ णिकखेवो । ६जइ जहणियाए अइ-
च्छावणाए जहणएण च णिकखेवेण एत्तियमेत्तेण संतकम्मादो अदिरित्तो वंधो सा
संतकम्मअग्गद्विदी उकड्डिज्जदि । तदो समयुत्तरे वंधे णिकखेवो तत्तिओ चैव, अइच्छावणा
वड्ढदि । एवं ताव अइच्छावणा वड्ढइ जाव अइच्छावणा आवलिया जादा ति । ७तेण परं
णिकखेवो वड्ढइ जाव उकस्सओ णिकखेवो त्ति । उकस्सओ णिकखेवो को होइ ? जो
उकस्सियं ठिदिं वंधियूणावलियमदिकंतो तमुक्कस्सयद्विदिमोकड्डियूण उदयावलिय-
वाहिराए विदियाए ठिदीए णिकखिखदि । वुण से ँकाले उदयावलियवाहिरे
अणंतरठिदिं पावेहिदि त्ति तं पदेसग्गमुक्कड्डियूण समयाहियाए आवलियाए ऊणियाए
अग्गद्विदीए णिकखिखदि । एस उकस्सओ णिकखेवो । ८एवमोकड्डु कड्डुणाणमड्डुपदं समत्तं ।

एत्तो अद्वाछेदो । जहा उकस्सियाए द्विदीए उदीरणा तहा उकस्सओ
द्विदिसंकमो ।

१०एत्तो जहणयं वत्तइस्सामो । १२मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-धारसकसाय इत्थि-
णवुंसयवेदाणं जहणद्विदिसंकमो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । सम्मत-लोहसंजलणाणं
जहणद्विदिसंकमो एया द्विदी । कोहसंजलणस्स जण्णद्विदिसंकमो वे मासा अंतोमुहु-
त्तूणा । ४माणसंजलणस्स जहणद्विदिसंकमो मासो अंतोमुहुत्तूणो । मायासंजलणस्स

(१) पृ० २५३ । (२) पृ० २५५ । (३) पृ० २५६ । (४) पृ० २५७ । (५) पृ० २५८ ।
(६) पृ० २५९ । (७) पृ० २६० । (८) पृ० २६१ । (९) पृ० २६२ । (१०) पृ० ३०५ ।
(११) पृ० ३०६ । (१२) पृ० ३०७ ।

जहण्णाट्टिदिसंक्रमो अद्रमासो अंतोमुहुत्तणो । पुरिसवेदस्स जहण्णाट्टिदिसंक्रमो अट्टवस्साणि
अंतोमुहुत्तणाणि । छण्णोकसायाणं जहण्णाट्टिदिसंक्रमो संखेज्जाणि वस्साणि । गदीसु
अणुमग्गियञ्चो ।

१सामित्तं । उक्कस्सट्टिदिसंक्रामयस्स सामित्तं जहा उक्कस्सियाए ट्टिदीए उदीरणा
तहा णेदव्वं । २जहण्णयमेयजीवेण सामित्तं कायव्वं । मिच्छत्तस्स जहण्णओ ट्टिदिसंक्रमो
कस्स ? मिच्छत्तं खवेमाणयस्स अपच्छिमट्टिदिखंडयचरिमसमयसंक्रामयस्स तस्स
जहण्णयं । ३सभ्तस्स जहण्णयट्टिदिसंक्रमो कस्स ? समयाहियावलियअक्खीणदंसण-
मोहणीयस्स । सम्माच्छित्तस्स जहण्णाट्टिदिसंक्रमो कस्स ? अपच्छिमट्टिदिखंडयं
चरिमसमयसंखुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं । अणंताणुवंधीणं जहण्णाट्टिदिसंक्रमो कस्स० ?
विसंजोएंतस्स तेसिं चैव अपच्छिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयसंक्रामयस्स । ४अट्टुण्हं कसायाणं
जहण्णाट्टिदिसंक्रमो कस्स ? खवयस्स तेसिं चैव अपच्छिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयसंखुह-
माणयस्स जहण्णयं । कोहसंजलणस्स जहण्णाट्टिदिसंक्रमो कस्स ? खवयस्स कोहसंजलणस्स
अपच्छिमट्टिदिबंधचरिमसमयसंखुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं । ५एवं माण-मायासंजलण-
पुरिसवेदाणं । लोहसंजलणस्स जहण्णाट्टिदिसंक्रमो कस्स ? आवलियसमयाहियसकसायस्स
खवयस्स । ६इत्थिवेदस्स जहण्णाट्टिदिसंक्रमो कस्स । इत्थिवेदोदयकखवयस्स तस्स
अपच्छिमट्टिदिखंडयं संखुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं । ७णवुंसयवेदस्स जहण्णाट्टिदि-
संक्रमो कस्स ? णवुंसयवेदोदयकखवयस्स तस्स अपच्छिमट्टिदिखंडयं संखुहमाणयस्स
तस्स जहण्णयं । ८छण्णोकसायाणं जहण्णाट्टिदिसंक्रमो कस्स ? खवयस्स तेसिमपच्छिम-
ट्टिदिखंडयं संखुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं ।

९एयजीवेण कालो । जहा उक्कस्सियाए ट्टिदिउदीरणा तहा उक्कस्सओ ट्टिदि-
संक्रमो । १०एत्तो जहण्णाट्टिदिसंक्रमकालो । ११अट्टावीसाए पयडीणं जहण्णाट्टिदिसंक्रमकालो
केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । णवरि इत्थि-णवुंसयवेद-छण्णो-
कसायाणं जहण्णाट्टिदिसंक्रमकालो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।
१२एत्तो अंतरं । उक्कस्सयट्टिदिसंक्रामयंतरं जहा उक्कस्सट्टिदिउदीरणाए अंतरं तहा
कायव्वं । १३एत्तो जहण्णयंतरं । १४सव्वासिं पयडीणं णत्थि अंतरं । णवरि अणंताणु-
वंधीणं जहण्णाट्टिदिसंक्रामयंतरं जहण्णेण अंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण उव्वुपोग्गलपरियट्टं ।

(१) पृ० ३११ । (२) पृ० ३१२ । (३) पृ० ३१३ । (४) पृ० ३१४ । (५) पृ० ३१६ ।
(६) पृ० ३१७ । (७) पृ० ३१८ । (८) पृ० ३१९ । (९) पृ० ३२३ । (१०) पृ० ३२६ ।
(११) पृ० ३२७ । (१२) पृ० ३३२ । (१३) पृ० ३३३ । (१४) पृ० ३३४ ।

३णाणाजीवेहि भंगविचओ दुविहो—उकस्सपदभंगविचओ च जहण्णपदभंगविचओ च । तेसिमद्वपदं काऊण उकस्सओ जहा उकस्सट्टिदिउदरिणा तहा कायव्वा । २एत्तो जहण्णपदभंगविचओ । सव्वासिं पयडीणं जहण्णट्टिदिसंकामयस्स सिया सव्वे जीवा असंकामया, सिया असंकामया च संकाभओ च, सिया असंकामया च संकामया च । ३सेसं विहत्तिभंगो ।

णाणाजीवेहि कालो । सव्वासिं पयडीणमुकस्सट्टिदिसंकमो केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ४णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्सट्टिदिसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ, उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एत्तो जहण्णयं । सव्वासिं पयडीणं जहण्ण-ट्टिदिसंकमो केवचिरं कालादो होदि । जहण्णेणोयसमओ, उकस्सेण संखेज्जा समया । ५णवरि अणंताणुबंधीणं जहण्णट्टिदिसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ, उकस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । इत्थि-णवुंसयवेद-छण्णोकसायाणं जहण्णट्टिदि-संकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेणंतोमुहुत्तं ।

६एत्थ सण्णियासो कायव्वो ।

७अप्पावहुअं । सव्वत्थोवो णवणोकसायाणमुकस्सट्टिदिसंकमो । सोलसकसायाण-मुकस्सट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ । ८सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्सट्टिदिसंकमो तुल्लो विसेसाहिओ । मिच्छत्तस्स उकस्सट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ । एवं सव्वासु गईसु । ९एत्तो जहण्णयं । सव्वत्थोवो सम्मत्त-लोहसंजलणाणं जहण्णट्टिदिसंकमो । जट्टिदि-संकमो असंखेज्जगुणो । मायाए जहण्णट्टिदिसंकमो संखेज्जगुणो । जट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ । माणसंजलणस्स जहण्णट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ । जट्टिदिसंकमो विसेसा-हिओ । १०कोहसंजलणस्स जहण्णट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ । जट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ । पुरिसवेदस्स जहण्णट्टिदिसंकमो संखेज्जगुणो । जट्टिदिसंकमो विसेसाहिओ । छण्णोकसा-याणं जहण्णट्टिदिसंकमो संखेज्जगुणो । इत्थि-णवुंसयवेदाणं जहण्णट्टिदिसंकमो तुल्लो असंखेज्जगुणो । अट्टुहं कसायाणं जहण्णट्टिदिसंकमो असंखेज्जगुणो । ११सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंकमो असंखेज्जगुणो । मिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंकमो असंखेज्जगुणो । अणंताणुबंधीणं जहण्णट्टिदिसंकमो असंखेज्जगुणो ।

१२णिरयगईए सव्वत्थोवो सम्मत्तस्स जहण्णट्टिदिसंकमो । जट्टिदिसंकमो असंखेज्ज-

(१) पृ० ३३६ । (२) पृ० ३३७ । (३) पृ० ३३८ । (४) पृ० ३३९ । (५) पृ० ३४० । (६) पृ० ३४२ । (७) पृ० ३४६ । (८) पृ० ३४७ । (९) पृ० ३४८ । (१०) पृ० ३४९ । (११) पृ० ३५० । (१२) पृ० ३५१ ।

गुणो । अणंताणुवंधीणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो । सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो । पुरिसवेदस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो । इत्थिवेदे जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । हस्स-रईणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । रणवुंसयवेदजहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । अरइ-सोगाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । भय-दुगुंठाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । वारसकसायाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । ३मिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । ४विदियाए सव्वत्थोवो अणंताणुवंधीणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो । सम्मत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो असंखेज्जगुणो । सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ । 'वारसकसाय-णवणोकसायाणं जहण्णट्टिदिसंक्रमो तुल्लो असंखेज्जगुणो । मिच्छत्तस्स जहण्णट्टिदिसंक्रमो विसेसाहिओ ।

६भुजगारसंक्रमस्स अट्ठपदं काऊण सामित्तं कायव्वं । ७मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पयर-अवट्टिदिसंक्रामओ को होदि ? अण्णदरो । ८अवत्तव्वसंक्रामओ णत्थि । एवं सेसाणं पयडीणं । णवरि अवत्तव्वया अत्थि ।

९कालो । मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामगो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण चत्तारि समया । १०अप्पदरसंक्रामगो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ, उक्कस्सेण तेवट्टिसागरोवमसदं सादिरेयं । ११अवट्टिदिसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ, उक्कस्सेणंतोमुहुत्तं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवट्टिद-अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होति ? जहण्णुक्कस्सेणोयसमओ । १२अप्प-दरसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण वेळावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । १३सेसाणं कम्माणं भुजगारसंक्रामगो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णे-णोयसमओ, उक्कस्सेण एगुणीसममया । १४सेसपदाणि मिच्छत्तभंगो । १५णवरि अवत्तव्व-संक्रामया जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ ।

१६एत्तो अंतरं । १७मिच्छत्तस्स भुजगार-अवट्टिदिसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण तेवट्टिसागरोवमसदं सादिरेयं । अप्पयरसंक्राम-यंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ, उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । एवं सेसाणं कम्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवज्जाणं । १८णवरि अणंताणुवंधीणमप्पयरसंक्राययंतरं जह-ण्णेणोयसमओ, उक्कस्सेण वेळावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सव्वेसिमवत्तव्वसंक्राययंतरं

(१) पृ० ३५२ । (२) पृ० ३५३ । (३) पृ० ३५५ । (४) पृ० ३५६ । (५) पृ० ३५७ । (६) पृ० ३५६ । (७) पृ० ३६० । (८) पृ० ३६१ । (९) पृ० ३६२ । (१०) पृ० ३६३ । (११) पृ० ३६६ । (१२) पृ० ३६७ । (१३) पृ० ३६८ । (१४) पृ० ३६९ । (१५) पृ० ३७० । (१६) पृ० ३७२ । (१७) पृ० ३७३ । (१८) पृ० ३७४ ।

केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणंतोमुहुत्तं, उक्कस्सेण अद्रूपोगलपरियट्टं देसूणं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवट्ठिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणंतोमुहुत्तं । १अप्पयरसंक्रामयंतरं जहण्णेणोयसमयो । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । उक्कस्सेण सव्वेसिमद्रूपोगलपरियट्टं देसूणं ।

२णाणाजीवेहि भंगविचओ । मिच्छत्तस्स सव्वजीवा भुजगारसंक्रामगा च अप्पयर-संक्रामया च अवट्ठिदसंक्रामया च । ३सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणं सत्तोवीस भंगा । सेसाणं मिच्छत्तभंगो । णवरि अवत्तव्वसंक्रामया भजियव्वा ।

४णाणाजीवेहि कालो । मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिदसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्वा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवट्ठिद-अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णेणोयसमओ । उक्कस्सेण आलियाए असंखेज्जदिभागो । ५अप्पदरसंक्रामया सव्वद्वा । सेसाणं कम्माणं भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्वा । अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णेणोय-समओ, उक्कस्सेण संखेज्जा समयो । णवरि अणंताणुवंधीणमवत्तव्वसंक्रामयोणं सम्मत्तभंगो ।

६णाणाजीवेहि अंतरं । मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं । सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणं भुजगार-अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ । ७उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये । अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं । अवट्ठिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ । उक्कस्सेण अंगुत्तस्स असंखेज्जदिभागो । ८अणंताणु-वंधीणमवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेणोयसमओ, उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये । सेसाणं कम्माणमवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेणोयसमओ, उक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । ९सोलसकसाय-णवणोकसायाणं भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिदसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं ।

अप्पावहुअं । सव्वत्थोवा मिच्छत्तभुजगारसंक्रामया । अवट्ठिदसंक्रामया असंखेज्ज-गुणा । अप्पयरसंक्रामया संखेज्जगुणा । १०सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अवट्ठिद-संक्रामया । भुजगारसंक्रामया असंखेज्जगुणा । ११अवत्तव्वसंक्रामया असंखेज्जगुणा । अप्पयरसंक्रामया असंखेज्जगुणा । अणंताणुवंधीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया ।

(१) पृ० ३७५ । (२) पृ० ३७६ । (३) पृ० ३७७ । (४) पृ० ३७६ । (५) पृ० ३८० । (६) पृ० ३८१ । (७) पृ० ३८२ । (८) पृ० ३८३ । (९) पृ० ३८४ । (१०) पृ० ३८५ । (११) पृ० ३८६ ।

भुजगारसंक्रामया अणंतगुणा । अवट्टिदसंक्रामया असंखेज्जगुणा । अप्पयरसंक्रामया संखेज्जगुणा । १एवं सेसाणं कम्माणं ।

२पदणिकखेवे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि-समुक्कित्तणा सामित्तमप्पा-
वहुअं च । तत्थ समुक्कित्तणा सव्वासिं पयडीणमुक्कस्सिया वड्ढी हाणी अवट्टाणं च अत्थि ।
एवं जहण्णयस्स वि गोदव्वं ।

३सामित्तं । मिच्छत्त सोलसकसायाणमुक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? जो चउट्टाणियजव-
मज्झस्स उवरि अंतोकोडाकोडिडिदिमंतोमुहुत्तसंक्रामेमाणो सो सव्वमहंतं दाहं गदो तदो
उक्कस्सट्टिदिं पवट्टो तस्सावलियादीदस्स तस्स उक्कस्सिया वड्ढी । ४तस्सेव से काले
उक्कस्सयमवट्टाणं । ५उक्कस्सिया हाणी कस्स ? जेण उक्कस्सट्टिदिखंडयं घादिदं तस्स
उक्कस्सिया हाणी । जं उक्कस्सट्टिदिखंडयं तं थोवं । जं सव्वमहंतं दाहं गदो त्ति भणिदं
तं विसेसाहियं । ६एदमप्पावहुअस्स साहणं । एवं णरणोकसायाणं । णारि कसायाण-
मावलियूणमुक्कस्सट्टिदिपडिच्छिदूणावलियादीदस्स तस्स उक्कस्सिया वड्ढी । से काले
उक्कस्सयमवट्टाणं । ७सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? वेदगसम्मत्तपाओग्ग-
जहण्णट्टिदिसंतकम्मियो मिच्छत्तस्स उक्कस्सट्टिदिं वंधियूण ट्टिदिघादमकाऊण अंतो-
मुहुत्तेण सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमयसम्माइट्टिस्स उक्कस्सिया वड्ढी । ८हाणी
मिच्छत्तभंगो । उक्कस्सयमवट्टाणं कस्स ? पुव्वुप्पण्णादो सम्मत्तादो समयुत्तरमिच्छत्त-
ट्टिदिसंतकम्मिओ सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स विदियसमयसम्माइट्टिस्स उक्कस्सयमवट्टाणं ।

९एत्तो जहण्णियाए । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवज्जाणं जहण्णिया वड्ढी कस्स ?
अप्पण्णो समयूणादो उक्कस्सट्टिदिसंकमादो उक्कस्सट्टिदिसंक्रामेमाणयस्स तस्स जहण्णिया
वड्ढी । १०जहण्णियो हाणी कस्स ? तप्पाओग्गसमयुत्तरजहण्णट्टिदिसंकमादो तप्पाओग्ग-
जहण्णट्टिदिं संक्रामेमाणयस्स तस्स जहण्णिया हाणी । एयदरत्थमवट्टाणं । ११सम्मत्त-
सम्मामिच्छत्ताणं जहण्णिया वड्ढी कस्स ? पुव्वुप्पणसमत्तादो दुसमयुत्तरमिच्छत्तसंत-
कम्मिओ सम्मत्तं वडिवण्णो तस्स विदियसमयसम्माइट्टिस्स जहण्णिया वड्ढी । हाणी
सेसकम्मभंगो । अवट्टाणमुक्कस्सभंगो ।

१२अप्पावहुअं । मिच्छत्त-सोलसकसाय-इत्थि-पुरिसवेद-हस्स-रदीणं सव्वत्थोवा
उकसिया हाणी । वड्ढी अवट्टाणं च दो वि तुन्लाणि विसेसाहियाणि । सम्मत्त-सम्मा-

(१) पृ० ३८७ । (२) पृ० ३८८ । (३) पृ० ३८९ । (४) पृ० ३९० । (५) पृ०
३९१ । (६) पृ० ३९२ । (७) पृ० ३९३ । (८) पृ० ३९४ । (९) पृ० ३९५ । (१०) पृ०
३९६ । (११) पृ० ३९७ । (१२) पृ० ४०० ।

मिच्छताणं सव्वत्थोवा अवट्टाणसंकमो । हाणिसंकमो असंखेज्जगुणो । १वड्डिसंकमो विसेसाहिओ । णवुंसयवेद-अरइ-सोग-भय-दुगुंछाणं सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्ढी अवट्टाणं च । हाणिसंकमो विसेसाहिओ । एत्तो जहण्णयं । सव्वासिं पयडीणं जहण्णिया वड्ढी हाणी अवट्टाणं द्विदिसंकमो तुल्लो ।

वड्ढीए तिण्णि अणोओगदाराणि । २समुक्कित्तणा परूवणा अप्पावहुए त्ति । तत्थ समुक्कित्तणा । तं जहा— ३मिच्छत्तस्स असंखेज्जभागवड्ढि-हाणी संखेज्जभागवड्ढि हाणी संखेज्जगुणवड्ढि-हाणी असंखेज्जगुणहाणी अट्टाणं च । ४अवत्तव्वं णत्थि । सम्मत्त-सम्मामिच्छताणं चउव्विहा वड्ढी चउव्विहा हाणी अवट्टाणमवत्तव्वयं च । ५सेसकम्माणं मिच्छत्तभंगो । ६णवरि अवत्तव्वयमत्थि ।

७परूवणा । एदासिं विधिं पुध पुध उवसंदरिसणा परूवणा णाम ।

८अप्पावहुअं । सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स असंखेज्जगुणहाणिसंकामया । संखेज्जगुण-हाणिसंकामया असंखेज्जगुणा । संखेज्जभागहाणिसंकामया संखेज्जगुणा । संखेज्जगुणवड्ढि-संकामया असंखेज्जगुणा । ९संखेज्जभागवड्ढिसंकामया संखेज्जगुणा । १०असंखेज्जभाग-वड्ढिसंकामया अणंतगुणा । अवट्ठिदसंकामया असंखेज्जगुणा । असंखेज्जभागहाणिसंकामया संखेज्जगुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा असंखेज्जगुणहाणिसंकामया । अवट्ठिद-संकामया असंखेज्जगुणा । ११असंखेज्जभागवड्ढिसंकामया असंखेज्जगुणा । असंखेज्जगुण-वड्ढिसंकामया असंखेज्जगुणा । संखेज्जभागवड्ढिसंकामया असंखेज्जगुणा । १२संखेज्जगुणवड्ढि-संकामया संखेज्जगुणा । संखेज्जगुणहाणिसंकामया संखेज्जगुणा । १३संखेज्जभागहाणि-संकामया संखेज्जगुणा । अवत्तव्वसंकामया असंखेज्जगुणा । असंखेज्जभागहाणिसंकामया असंखेज्जगुणा । १४सेसाणं कम्माणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया । असंखेज्जगुणहाणि-संकामया संखेज्जगुणा । सेससंकामया मिच्छत्तभंगो ।

३. अणुभागसंकमो अत्थाहियारो

१५अणुभागसंकमो दुविहो—मूलपयडिअणुभागसंकमो च उत्तरपयडिअणुभागसंकमो च । १६तत्थ अट्टपदं । अणुभागो ओक्कड्ढिदो वि संकमो, उक्कड्ढियो वि संकमो, अण्ण-पयडिं णीदो वि संकमो । १७ओक्कड्ढिणाए परूवणा । पढमफड्ढयं ण ओक्कड्ढिज्जदि । विदियफदयं ण ओक्कड्ढिज्जदि । एवमणंताणि फदयाणि जहण्णिया अइच्छावणा, तत्ति-

- (१) पृ० ४०१ । (२) पृ० ४०२ । (३) पृ० ४०३ । (४) पृ० ४०५ । (५) पृ० ४०८ ।
 (६) पृ० ४०६ । (७) पृ० ४१० । (८) पृ० ४२० । (९) पृ० ४२१ । (१०) पृ० ४२२ ।
 (११) पृ० ४२३ । (१२) पृ० ४२४ । (१३) पृ० ४२५ । (१४) पृ० ४२६ । (१५) पृ० २ ।
 (१६) पृ० ३ । (१७) पृ० ४ ।

याणि फदयाणि ण ओकड्डिज्जंति । १अण्णाणि अणंताणि फदयाणि जहण्णाणिकखेव-
मेत्ताणि च ण ओकड्डिज्जंति । जहण्णओ णिकखेवो जहण्णिया अइच्छावणा च तेत्तिय-
मेत्ताणि फदयाणि आदीदो अधिच्छिद्रूण तदित्थफदयमोकड्डिज्जइ । २तेण परं सव्वाणि
फदयाणि ओकड्डिज्जंति । एत्थ अप्पावहुअं । ३सव्वत्थोवाणि पदेसगुणहाणिट्ठाणंतर-
फदयाणि । जहण्णओ णिकखेवो अणंतगुणो । जहण्णिया अइच्छावणा अणंतगुणा ।
उक्कस्सयमणुभागकंडयमणंतगुणं । उक्कस्सिया अइच्छावणा एगाए वग्गणाए ऊणिया ।
४उक्कस्सणिकखेवो विसेसाहियो । ५उक्कस्सो बंधो विसेसाहियो ।

६उक्कड्डणाए परूवणा । चरिमफदयं ण उक्कड्डिज्जदि । दुचरिमफदयं ण उक्कड्डिज्जदि ।
एवमणंताणि फदयाणि ओसक्किरूण तं फदयमुक्कड्डिज्जदि । सव्वत्थोवो जहण्णओ
णिकखेवो । जहण्णिया अइच्छावणा अणंतगुणा । उक्कस्सओ णिकखेवो अणंतगुणो । उक्कस्सओ
बंधो विसेसाहियो । ७ओकड्डणादो उक्कड्डणादो च जहण्णिया अइच्छावणा तुल्ला ।
जहण्णओ णिकखेवो तुल्लो ।

एदेण अट्टपदेण मूलपयडिअणुभागसंक्रमो । तत्थ च तेरीसमणिओगदोराणि
सण्णा जाव अप्पावहुए त्ति २३ । भुजगारो पदणिकखेवो वड्ढि त्ति भाणिदव्वो ।

८तदो उत्तरपयडिअणुभागसंक्रमं चउवीसअणिओगदोरेहि वत्तइस्सामो ।
९तत्थ पुव्वं गमणिजा वादिसण्णा च ट्ठाणसण्णा च । सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं
मोत्तूण सेसाणं क्रम्माणमणुभागसंक्रमो णियमा सव्वघादी वेट्ठाणिओ वा तिट्ठाणिओ वा
चउट्ठाणिओ वा । १०णवरि सम्मामिच्छत्तस्स वेट्ठाणिओ चैव । अक्खवग-अणुवसामगस्स
चदुसंजलण-पुरिसवेदाणमणुभागसंक्रमो मिच्छत्तभंगो । ११खवगुवसामगाणमणुभागसंक्रमो
सव्वघादी वा देसवादी वा वेट्ठाणिओ वा एयट्ठाणिओ वा । सम्मत्तस्स अणुभागसंक्रमो
णियमा देसवादी । १२एयट्ठाणिओ वेट्ठाणिओ वा ।

१३सामित्तं । मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रमो कस्स ? उक्कस्साणुभागं वंधिदूणाव-
लियपडिभग्गस्स अण्णदरस्स । १४एवं सव्वक्रम्माणं । णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण-
मुक्कस्साणुभागसंक्रमो कस्स ? १५दंसगमोहणीयक्खवयं मोत्तूण जस्स संतक्कम्ममत्थि तस्स
उक्कस्साणुभागसंक्रमो ।

(१) पृ० ५ । (२) पृ० ६ । (३) पृ० ७ । (४) पृ० ८ । (५) पृ० ९ । (६)
पृ० १० । (७) पृ० ११ । (८) पृ० २० । (९) पृ० २१ । (१०) १३ पृ० २२ । (११) पृ० २३ ।
(१२) पृ० (२४) । (१३) पृ० २७ । (१४) पृ० २८ । (१५) पृ० २६ ।

१एत्तो जहण्णयं । मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? सुहुमस्स हद-
समुप्पत्तियकम्मणेण अण्णदरो । २एइंदिओ वा वेइंदिओ वा तेइंदिओ वा चउरिंदिओ वा
पंचिंदिओ वा । ३एवमट्टुणं कसायाणं । सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ?
समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीओ । ४सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ
को होइ ? चरिमाणुभागखंडयं संखुहमाणओ । अणंताणुबंधीणं जहण्णाणुभागसंक्रामओ
को होइ ? त्रिसंजोएदूण पुणो तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण संजोएदूणावलियादीदो ।
५कोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? चरिमाणुभागबंधस्स चरिमसमयअणि-
ल्लेवगो । एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । ६लोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ
को होइ ? समयाहियावलियचरिमसमयसकसाओ खवगो । इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभाग-
संक्रामओ को होइ ? इत्थिवेदकखवगो तस्सेव चरिमाणुभागखंडए वट्टमाणओ । ७णुंसय-
वेदरस जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? णुंसयवेदकखवगो तस्सेव चरिमे अणुभाग-
खंडए वट्टमाणओ । छण्णोकसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामओ को होइ ? खवगो तैसिं चैव
छण्णोकसायवेदणीयाणं चरिमे अणुभागखंडए वट्टमाणओ ।

८एयजीवेण कालो । मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो
होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । अणुकस्साणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ?
९जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ठा । एवं सोलस-
कसाय-णवणोकसायाणं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तोणमुक्कस्साणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो
होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । १०उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । अणु-
कस्साणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

११एत्तो एयजीवेण कालो जहण्णओ । मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ
केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । १२अजहण्णाणुभागसंक्रामओ
केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । एवमट्ट-
कसायाणं । सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? १३जहण्णुकस्सेण
एयसमओ । अजहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं ।
उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । एवं सम्मामिच्छत्तस्स । १४णवरिं जहण्णाणु-
भागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । अणंताणुबंधीणं
जहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । अजह-

(१) पृ० ३० । (२) पृ० ३१ । (३) पृ० ३२ । (४) पृ० ३३ । (५) पृ० ३५ ।
(६) पृ० ३६ । (७) पृ० ३७ । (८) पृ० ३८ । (९) पृ० ४० । (१०) पृ० ४१ । (११) पृ०
४२ । (१२) पृ० ४३ । (१३) पृ० ४४ । (१४) पृ० ४५ ।

ण्णाणुभागसंक्रामयस्स तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो सादिओ सपञ्जवसिदो सो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । १उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णाणुभाग-संक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । अजहण्णाणुभागसंक्रामओ अणंताणुवंधीणं भंगो । इत्थि-णवुंसयवेद-छण्णोकसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ? २जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । अजहण्णाणुभागसंक्रामयस्स तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो सादिओ सपञ्जवसिदो सो जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डु-पोग्गलपरियट्टं ।

३एत्तो एयजीवेण अंतरं । ४मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण असंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । अणुक्क-स्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । ५एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । णवरि वारसकसाय-णवणोकसायाणमणुक्कस्साणुभाग-संक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । अणंताणुवंधीणमणुक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ६उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सम्मत-सम्मामिच्छत्ताण-मुक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ । ७उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । अणुक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं ।

एत्तो जहण्णयंतरं । ८मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । अजहण्णाणुभागसंक्राम-यंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । ९एवमड्डुकसायाणं । णवरि अजहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणं जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं । अजहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । १०अणंताणुवंधीण जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । अजहण्णाणुभागसंक्राम-यंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ११जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसाणं कम्माणं जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं अजहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । १२उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

(१) पृ० ४६ । (२) पृ० ४७ । (३) पृ० ४८ । (४) पृ० ४९ । (५) पृ० ५० ।
 (६) पृ० ५१ । (७) पृ० ५२ । (८) पृ० ५३ । (९) पृ० ५४ । (१०) पृ० ५५ । (११)
 पृ० ५६ । (१२) पृ० ५७ ।

साण्णियासो मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागं संकामेतो समत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जइ संकामओ णियमा उक्कस्सयं संकामेदि । सेसाणं कम्माणं उक्कस्सं वा अणुक्कस्सं वा संकामेदि । उक्कसादो अणुक्कस्सं छट्ठाणपदिदं । एवं सेसाणं कम्माणं णादूणं शेदव्वं ।

१जहण्णओ सण्णियासो । मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागं संकामेतो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं जइ संकामओ णियमा अजहण्णाणुभागं संकामेदि । जहण्णादो अजहण्णमणंत-गुणव्वभहियं । अट्ठण्णं कम्माणं जहण्णं वा अजहण्णं वा संकामेदि । २जहण्णादो अजहण्णं छट्ठाणपदिदं । सेसाणं कम्माणं णियमा अजहण्णं । जहण्णादो अजहण्णमणंतगुणव्वभहियं । ३एवमट्ठकसायाणं । सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागं संकामेतो मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-अणंताणु-व्रंधीणमकम्मंसिओ । सेसाणं कम्माणं णियमा अजहण्णं संकामेदि । जहण्णादो अजहण्ण-मणंतगुणव्वभहियं । ४एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । णवरि सम्मत्तं विज्जमाणेहि भणियव्वं । पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागं संकामेतो चट्ठण्हं कसायाणं णियमा अजहण्णमणंतगुण-व्वभहियं । कोधादितिए उवरिल्लाणं संकामओ णियमा अजहण्णमणंतगुणव्वभहियं । ५लोह-संजलणे णिरुद्धे णत्थि सण्णियासो ।

६णाणाजीवेहि भंगविचओ दुर्विहो—उक्कस्सपदभंगविचओ जहण्णपदभंगविचओ च । तेसिमट्ठपदं कारुण । ७मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा उक्कस्साणुभागस्स असंकामया । सिया असंकामया च संकामओ च । सिया असंकामया च संकामया च । एवं सेसाणं कम्माणं । ८णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं संकामगा पुव्वं ति भाणिदव्वं ।

जहण्णाणुभागसंकमभंगविचओ । मिच्छत्त-अट्ठकसायाणं जहण्णाणुभागस्स संकामया च असंकामया च । ९सेसाणं कम्माणं जहण्णाणुभागस्स सव्वे जीवा सिया असंकामया । सियो असंकामया च संकामया च ।

१०णाणाजीवेहि कालो । मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति । जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण पलिदोवसस्स असंखेज्जादिभागो । ११अणुक्कस्साणु-भोगसंकामया सव्वद्धा । एवं सेसाणं कम्माणं । णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण-मुक्कस्साणुभागसंकामया सव्वद्धा । अणुक्कस्साणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

१२एत्तो जहण्णकालो । मिच्छत्त-अट्ठकसायाणं जहण्णाणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा । सम्मत्त-चट्ठसंजलण-पुरिसवेदाणं जहण्णाणुभागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णेणोयसमओ । १३उक्कस्सेण संखेज्जा समयो । सम्मा-

(१) पृ० ६१ । (२) पृ० ६२ । (३) पृ० ६३ । (४) पृ० ६४ । (५) पृ० ६५ । (६) पृ० ६६ । (७) पृ० ६६ । (८) पृ० ७० । (९) पृ० ७१ । (१०) पृ० ७३ । (११) पृ० ७४ । (१२) पृ० ७५ । (१३) पृ० ७६ ।

मिच्छत्-अट्टणोकसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्तं । अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभागसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णेण एयसमओ । १ उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जादिभागो । एदेसिं कम्माणमजण्णाणुभाग-संक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? सव्वद्धा ।

३णाणोजीवेहि अंतरं । मिच्छत्तस्स उक्कस्साणुभागसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ । उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । अणुक्कस्साणुभागसंक्रामयाण-मंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं । एवं सेसाणं कम्माणं । ३णवरि सम्मत्त-सम्पामिच्छत्ताणमुक्कस्साणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं । अणुक्कस्साणुभागसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण छम्मासा । एत्तो जहण्णयंतरं । ४ मिच्छत्तस्स अट्टकसायस्स जहण्णाणुभाग-संक्रामयाणं केवचिरं अंतरं ? णत्थि अंतरं । सम्मत्त सम्पामिच्छत्त-चदुसंजलण-णवरि-कसायाणं जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ । उक्कस्सेण छम्मासा । णवरि तिण्णिसंजलण-पुरिसवेदाणमुक्कस्सेण वासं सादिरेयं । ५ णवुंसयवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रामयंतरमुक्कस्सेण संखेज्जाणि वासाणि । अणंताणुवंधीणं जहण्णाणुभाग-संक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । ६ एदेसिं सव्वेसिमज्जहण्णाणुभागस्स केवचिरमंतरं ? णत्थि अंतरं ।

७ अप्पावहुअं । जहा उक्कस्साणुभागविहत्ती तथा उक्कस्साणुभागसंक्रमो । एत्तो जहण्णयं । सव्वत्थोवो लोहसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो । मायासंजलणस्स जहण्णाणु-भागसंक्रमो अणंतगुणो । ८ माणसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । कोह-संजलणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंत-गुणो । पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । सम्पामिच्छत्तस्स जहण्णाणुभाग-संक्रमो अणंतगुणो । ९ अणंताणुवंधिमाणस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । कौधस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । मायाए जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । लोभस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो विसेसाहिओ । हस्सस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । १० रदीए जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । दुगुंछाए जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । भयस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । सोगस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । अरदीए जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । णवुंसयवेदस्स जहण्णाणुभागसंक्रमो अणंतगुणो । ११ अपच्चक्खाणमाणस्स जहण्णाणु-

(१) पृ० ७७ । (२) पृ० ७८ । (३) पृ० ७९ । (४) पृ० ८० । (५) पृ० ८१ ।
 (६) पृ० ८२ । (७) पृ० ८३ । (८) पृ० ८४ । (९) पृ० ८५ । (१०) पृ० ८६ ।
 (११) पृ० ८७ ।

भागसंकमो अणंतगुणो । कोहस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । मायाए जहण्णाणु-
भागसंकमो विसेसाहिओ । लोभस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । पच्चक्खाणमाणस्स
जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । कोहस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ ।
१मायाए जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । लोभस्स जहण्णाणुभागसंकमो
विसेसाहिओ । मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।

णिरयगईए सव्वत्थोवो सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो । सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणु-
भागसंकमो अणंतगुणो । अणंताणुबंधिमाणस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।
कोहस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । २मायाए जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ ।
लोभस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । हस्सस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो ।
रदीए जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंत-
गुणो । इत्थिवेदस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । ३दुगुंछाए जहण्णाणुभागसंकमो
अणंतगुणो । भयस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । सोगस्स जहण्णाणुभागसंकमो
अणंतगुणो । अरदीए जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । णवुंसयवेदस्स जहण्णाणुभाग-
संकमो अणंतगुणो । अपच्चक्खाणमाणस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । क्रोधस्स
जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । मायाए जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ ।
लोभस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । ४पच्चक्खाणमाणस्स जहण्णाणुभागसंकमो
अणंतगुणो । कोहस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । मायाए जहण्णाणुभागसंकमो
विसेसाहिओ । लोभस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । माणसंजलणस्स जहण्णाणु-
भागसंकमो अणंतगुणो । कोहसजलणस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । माया-
सजलणस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । लोभसंजलणस्स जहण्णाणुभागसंकमो
विसेसाहिओ । मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । ५जहा णिरयगदीए तहा
सेसासु गदीसु ।

एइदिएसु सव्वत्थोवो सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंकमो । सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाणु-
भागसंकमो अणंतगुणो । ६हस्सस्स जहण्णाणुभागसंकमो अणंतगुणो । सेसाणं जहा
सम्माइट्ठिवंधे तहा कायव्वो ।

७भुजगारे त्ति तेरस अणिओगद्वाराणि । तत्थ अट्टपदं । ८तं जहा । जाणि एण्हं
फदयाणि संकामेदि अणंतरोसक्काविदे अप्पदरसंकमादो बहुगाणि त्ति एस भुजगारो ।
ओसक्काविदे बहुदरादो एण्हमप्पदराणि संकामेदि त्ति एस अप्पदरो । ९ओसक्काविदे
एण्हं च तत्तियाणि संकामेदि त्ति एस अवट्ठिदसंकमो । ओसक्काविदे असंकमादो एण्हं
संकामेदि त्ति एस अवत्तव्वसंकमो । एदेण अट्टपदेण सामित्तं । १०मिच्छत्तस्स भुजगार-

(१) पृ० ८८ । (२) पृ० ८९ । (३) पृ० ९० । (४) पृ० ९१ । (५) पृ० ९२ ।
(६) पृ० ९३ । (७) पृ० ९४ । (८) पृ० ९५ । (९) पृ० ९६ । (१०) पृ० ९७ ।

संक्रामगो को होइ ? मिच्छाइट्ठी अण्णदरो । अप्पदर-अवट्ठिदसंक्रामओ को होइ ?
 १अण्णदरो । अवत्तव्वसंक्रामओ णत्थि । एवं सेसाणं कम्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तवज्जाणं ।
 णवरि अवत्तव्वगो च अत्थि । २सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगारसंक्रामओ णत्थि ।
 अप्पदर-अवत्तव्वसंक्रामगो को होइ ? सम्माइट्ठी अण्णदरो । अवट्ठिदसंक्रामओ को
 होइ ? ३अण्णदरो ।

एत्तो एयजीवेण कालो । मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामओ केवचिरं कालादो होदि ?
 जहण्णेण एयसमओ । ४उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अप्पयरसंक्रामओ केवचिरं कालादो
 होइ ? जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । अवट्ठिदसंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण
 एयसमओ । ५उक्कस्सेण तेवट्ठिसागरोवमसदं सादिरेयं । सम्मत्तस्स अप्पयरसंक्रामओ
 केवचिरं कालादो होदि ? ६जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अवट्ठिद-
 संक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण वेत्तावट्ठिसागरो-
 वमाणि सादिरेयाणि । ७अवत्तव्वसंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णुक्कस्सेण
 एयसमओ । सम्मामिच्छत्तस्स अप्पयर-अवत्तव्वसंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ?
 जहण्णुक्कस्सेण एयसमयं । ८अवट्ठिदसंक्रामओ केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण
 अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण वेत्तावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । सेसाणं कम्माणं भुजगारं
 जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अप्पयरसंक्रामओ केवचिरं कालादो
 होइ ? जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । ९णवरि पुरिसवेदस्स उक्कस्सेण दोआवलियाओ
 समऊणाओ । चट्ठुहं संजलणाणमुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अवट्ठिदं जहण्णेण एयसमओ ।
 उक्कस्सेण तेवट्ठिसागरोवमसदं सादिरेयं । अत्तव्वं जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ ।

१०एत्तो एयजीवेण अंतरं । मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो
 होइ ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण तेवट्ठिसागरोवमसदं सादिरेयं । ११अप्पयर-
 संक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण तेवट्ठिसागरोवम-
 सदं सादिरेयं । अवट्ठिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण एयसमओ ।
 उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । १२सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो-
 होइ ? जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अवट्ठिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ?
 जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण उव्वड्ढुपोगलपरियट्ठं । १३अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं
 कालादो होइ ? जहण्णेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिम गो । उक्कस्सेण उव्वड्ढुपोगलपरियट्ठं ।

- (१) पृ० ६८ । (२) पृ० ६९ । (३) पृ० १०० । (४) पृ० १०१ । (५) पृ० १०२ ।
 (६) पृ० १०३ । (७) पृ० १०४ । (८) पृ० १०५ । (९) पृ० १०६ । (१०) पृ० १०७ ।
 (११) पृ० १०८ । (१२) पृ० १०९ । (१३) पृ० ११० ।

सेसाणं कम्माणं मिच्छत्तभंगो । १णवरि अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उव्वड्ढिपोगलपरियट्ठं । २अणंताणुवंधीणमवट्ठिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण वेळावट्ठिसागरोवमाणि सादिरेयाणि ।

णाणाजीवेहि भंगविचओ । मिच्छत्तस्स सव्वे जीवा भुजगारसंक्रामया च अप्पयरसंक्रामया च अवट्ठिदसंक्रामया च । ३सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णव भंगा । सेसाणं कम्माणं सव्वजीवा भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामया । सिया एदे च अवत्तव्वसंक्रामओ च, सिया एदे च अवत्तव्वसंक्रामया च ।

४णाणाजीवेहि कालो । मिच्छत्तस्स सव्वे संक्रामया सव्वद्वा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण-मप्पयरसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण संखेज्जा समयया । ५णवरि सम्मत्तस्स उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अवट्ठिदसंक्रामया सव्वद्वा । अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । अणंताणुवंधीणं भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामया सव्वद्वा । ६अवत्तव्वसंक्रामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो । एवं सेसाणं कम्माणं । णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमुक्कस्सेण संखेज्जा समयया ।

एत्तो अंतरं । ७मिच्छत्तस्स णाणाजीवेहि भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ? जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण छम्मासा । अवट्ठिदसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ, उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे । ८अणंताणुवंधीणं भुजगार-अप्पयर-अवट्ठिदसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये । एवं सेसाणं कम्माणं । णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाण-मंतरमुक्कस्सेण संखेज्जाणि वस्साणि ।

९अप्पाद्दहुअं । सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अप्पयरसंक्रामया । भुजगारसंक्रामया असंखेज्जगुणा । अवट्ठिदसंक्रामया संखेज्जगुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अप्पयरसंक्रामया । अवत्तव्वसंक्रामया असंखेज्जगुणा । १०अवट्ठिदसंक्रामया असंखेज्जगुणा । सेसाणं कम्माणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया । अप्पयरसंक्रामया अणंतगुणा । भुजगारसंक्रामया असंखेज्जगुणा । अवट्ठिदसंक्रामया संखेज्जगुणा ।

१पदणिक्रवेवे त्ति तिण्णि अणियोगद्वाराणि । तं जहा । परूवणा सामित्तमप्पावहुअं च । र्परूवणाए सव्वेसिं कम्माणमत्थि उक्कस्सिया वड्ढी हाणी अवट्ठाणं । जहणिया वड्ढी हाणी अवट्ठाणं । एवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं व ी णत्थि ।

सामित्तं । मिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वड्ढी कस्स ? ३सण्णिपाओग्गजहण्णएण अणुभाग-संक्रमेण अच्छिदो उक्कस्ससंक्किलेसं गदो तदो उक्कस्सयमणुभागं पवट्ठो तस्स आवलिया-दीदस्स उक्कस्सिया वड्ढी । ४तस्स चैव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? जस्स उक्कस्सयमणुभागसंतंक्रमं तेण उक्कस्सयमणुभागखंडयमागोइदं तम्मि खंडये घादिदे तस्स उक्कस्सिया हाणी । ५त्तापाओग्गजहण्णाणुभागसंक्रमादो उक्कस्ससंक्किलेसं गंतूणं जं वंधदि सो वधो बहुणो । जमणुभागखंडयं गेण्हइ तं विसेसहीणं । एदमप्पावहुअस्स साहणं । एवं सोलसकसाय-णवणो कसायाणं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुक्कस्सिया हाणी कस्स ? ६दंसणमोहणीयक्खवयस्स विदियअणुभागखंडयपढमसमयसंकामयस्स तस्स उक्कस्सिया हाणी । तस्स चैव से काले उक्कस्सयमवट्ठाणं ।

७मिच्छत्तस्स जहणिया वड्ढी कस्स ? सुहुमेइदियक्रमेण जहण्णएण जो अणंत-भागेण वट्ठिदो तस्स जहणिया वड्ढी । ८जहणिया हाणी कस्स ? जो वट्ठाविदो तम्मि घादिदे तस्स जहणिया हाणी । एगदरत्थमवट्ठाणं । एवमट्ठकसायाणं । ९सम्मत्तस्स जहणिया हाणी कस्स ? दंसणमोहणीयक्खवयस्स समयादियावलियअक्खीणदंसणमोह-णीयस्स तस्स जहणिया हाणी । जहणयमवट्ठाणं कस्स ? तस्स चैव दुचरिमे अणुभाग-खंडए हदे चरिमअणुभागखंडए वट्ठमाणखवयस्स । सम्मामिच्छत्तस्स जहणिया हाणी कस्स ? १०दंसणमोहणीयक्खवयस्स दुचरिमे अणुभागखंडए हदे तस्स जहणिया हाणी । तस्स चैव से काले जहणयमवट्ठाणं । अणंताणुबंधीणं जहणिया वड्ढी कस्स ? विसंजो-एट्ठण पुणो मिच्छत्तं गंतूणं तप्पाओग्गणिसुद्धपरिणामेण विदियसमए तप्पाओग्गजहण्णाणु-भागं वंधिअण आवलियादीदस्स तस्स जहणिया वड्ढी । ११जहणिया हाणी कस्स ? विसंजोएट्ठण पुणो मिच्छत्तं गंतूणं अंतोमुहुत्तसंजुत्ते वि तस्स सुहुमस्स हेट्ठदो संतंक्रमं । १२तदो जो अंतोमुहुत्तसंजुत्तो जाव सुहुमकम्मं जहणयं ण पावदि ताव घादं करेज्ज । १३तदो सव्वत्थोवाणुभागे घादिज्जमाणे तस्स जहणिया हाणी । तस्सेव से काले जहणय-मवट्ठाणं । कोइसंजलणस्स जहणिया वड्ढी मिच्छत्तभंगो । जहणिया हाणी कस्स ? १४सुवयस्स चरिभरगयबंधचरिमसमयसंकामयस्स । जहणयमवट्ठाणं कस्स ? तस्सेव चग्गिमे अणुभागखंडए वट्ठमाणयस्स । १५एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । लोह-

(१) पृ० १२१ । (२) १२२ । (३) पृ० १२३ । (४) पृ० १२४ । (५) पृ० १२५ । (६) पृ० १२६ । (७) पृ० १२७ । (८) पृ० १२८ । (९) पृ० १२९ । (१०) पृ० १३० । (११) पृ० १३१ । (१२) पृ० १३२ । (१३) पृ० १३३ । (१४) पृ० १३४ । (१५) पृ० १३५ ।

संजलणस्स जहणिया वड्डी मिच्छत्तभंगो । जहणिया हाणी कस्स ? खवयस्स समयो-
हियावलियसकसायस्स । जहणयमवट्ठाणं कस्स ? दुचरिमे अणुभागखंडए हदे चरिमे
अणुभागखंडए वट्टमाणयस्स । इत्थिवेदस्स जहणिया वड्डी मिच्छत्तभंगो । जहणिया
हाणी कस्स ? चरिमे अणुभागखंडए पढमसमयसंक्रामिदे तस्स जहणिया हाणी । तस्सेव
विदियसमए जहणयमवट्ठाणं । १एवं णवुंसयवेद-छण्णोकसायाणं ।

२अप्पावहुअं । सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स उकस्सिया हाणी । ३वड्डी अवट्ठाणं च
विसेसाहियं । एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्सिया
हाणी अवट्ठाणं च सरिसं । ४जहणयं । मिच्छत्तस्स जहणिया वड्डी हाणी अवट्ठाणसंकमो
च तुल्लो । एवमट्टकसायाणं । सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा जहणियो हाणी । जहणयमवट्ठाण-
मणंतगुणं । ५सम्मामिच्छत्तस्स जहणिया हाणी अवट्ठाणसंकमो च तुल्लो । अणंताणु-
बंधीणं सव्वत्थोवा जहणिया वड्डी । जहणिया हाणी अवट्ठाणसंकमो च अणंतगुणो ।
चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं सव्वत्थोवा जहणिया हाणी । जहणयमवट्ठाणं अणंतगुणं ।
६जहणिया वड्डी अणंतगुणा । अट्टणोकसायाणं जहणिया हाणी अवट्ठाणसंकमो च तुल्लो
थोवो । जहणिया वड्डी अणंतगुणा ।

७वड्डीए तिण्णि अण्णिओगदाराणि-समुक्कित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च । समुक्कित्तणा ।
मिच्छत्तस्स अत्थि छव्विहा वड्डी छव्विहा हाणी अवट्ठाणं च । ८सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण-
मत्थि अणंतगुणहाणी अवट्ठाणमवत्तव्वयं च । ९अणंताणुबंधीणमत्थि छव्विहा वड्डी
छव्विहा हाणी अवट्ठाणमवत्तव्वयं च । एवं सेसाणं कम्माणं ।

१०सामित्तं । मिच्छत्तस्स छव्विहा वड्डी पंचविहा हाणी कस्स ? मिच्छाइट्ठिस्स
अण्णयरस्स । अणंतगुणहाणी अवट्ठिदसंकमो कस्स ? ११अण्णयरस्स । सम्मत्त-सम्मा-
मिच्छत्ताणमणंतगुणहाणिसंकमो कस्स ? दंसणमोहणीयं खवेतस्स । अवट्ठाणसंकमो कस्स ?
अण्णदरस्स । अवत्तव्वयसंकमो कस्स ? विदियसमयउवसमसम्माइट्ठिस्स । १२सेसाणं
कम्माणं मिच्छत्तभंगो । णवरि अणंताणुबंधीणमवत्तव्वं विसंजोएदूण पुणो मिच्छत्तं गंतूण
आवलियादीदस्स । सेसाणं कम्माणमवत्तव्वमुवसामेदूण परिवदमाणस्स ।

१३अप्पावहुअं । सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अणंतभागहाणिसंक्रामया । १४असंखेज्ज-
भागहाणिसंक्रामया असंखेज्जगुणा । संखेज्जभागहाणिसंक्रामया संखेज्जगुणा । संखेज्जगुण-

(१) पृ० १३७ । (२) पृ० १३८ । (३) पृ० १३९ । (४) पृ० १४० । (५) पृ० १४१ ।
(६) पृ० १४२ । (७) पृ० १४३ । (८) पृ० १४५ । (९) पृ० १४६ । (१०) पृ० १४७ ।
(११) पृ० १४८ । (१२) पृ० १४९ । (१३) पृ० १५० । (१४) पृ० १५१ ।

हाणिसंक्रामया संखेजगुणा । १असंखेजगुणहाणिसंक्रामया असंखेजगुणा । अणंत-
 भागवद्विसंक्रामया असंखेजगुणा । असंखेजभोगवद्विसंक्रामया असंखेजगुणा । २संखेज-
 भागवद्विसंक्रामया संखेजगुणा । संखेजगुणवद्विसंक्रामया संखेजगुणा । असंखेज-
 गुणवद्विसंक्रामया असंखेजगुणा । अणंतगुणहाणिसंक्रामया असंखेजगुणा ।
 ३अणंतगुणवद्विसंक्रामया असंखेजगुणा । अवद्विदसंक्रामयो संखेजगुणा । सम्मत्त-
 सम्मामिच्छात्ताणं सवत्थोवा अणंतगुणहाणिसंक्रामया । अवत्तव्वसंक्रामया असंखेजगुणा ।
 अवद्विदसंक्रामया असंखेजगुणा । ४सेसोणं क्रम्माणं सवत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया ।
 अणंतभागहाणिसंक्रामया अणंतगुणा । सेसाणं संक्रामया मिच्छत्तभंगो ।

५एत्तो द्वाणोणि कायव्वाणि । जहा संतकम्मद्वाणोणि तथा संक्रमद्वाणोणि । तथा
 वि परूवणां कोयव्वा । ६उकस्सए अणुभागबंधद्वाणे एगं संतकम्मं तमेगं संक्रमद्वाणं ।
 दुचरिमे अणुभागबंधद्वाणे एवमेव । एवं ताव जाव पच्छाणुपुव्वीए पढममणंतगुणहीण-
 बंधद्वाणमपत्तो त्ति । ७पुव्वाणुपुव्वीए गणिज्जमाणे जं चरिममणंतगुणं बंधद्वाणं तस्स हेट्ठा
 अणंतरमणंतगुणहीणमेदम्मि अंतरे असंखेजलोगमेत्ताणि घादद्वाणोणि । ८ताणि संतकम्म-
 द्वाणोणि ताणि चैव संक्रमद्वाणोणि । तदो पुणो बंधद्वाणोणि संक्रमद्वाणोणि च ताव तुल्लाणि
 जाव पच्छाणुपुव्वीए विदियमणंतगुणहीणबंधक्षुणं । ९विदियअणंतगुणहीणबंधद्वाणस्सुवरिल्ले
 अंतरे असंखेजलोगमेत्ताणि घादद्वाणोणि । एवमणंतगुणहीणबंधद्वाणस्सुवरि अंतरे
 असंखेजलोगमेत्ताणि घादद्वाणोणि । १०एवमणंतगुणहीणबंधद्वाणस्स उवरिल्ले अंतरे
 असंखेजलोगमेत्ताणि घादद्वाणोणि भवंति णत्थि अण्णम्मि । एवं जाणि बंधद्वाणोणि ताणि
 गियमा संक्रमद्वाणोणि । जाणि संक्रमद्वाणोणि ताणि बंधद्वाणोणि वा ण वा । ११तदो
 बंधद्वाणोणि थोवाणि । संतकम्मद्वाणोणि असंखेजगुणाणि । जाणि च संतकम्मद्वाणोणि
 ताणि संक्रमद्वाणोणि । अप्पावहुअं जहा सम्माइद्विगे बंधे तथा ।

पदेससंक्रमो अत्थाहियारो

१२पदेससंक्रमो । तं जहा । मूलपदेससंक्रमो णत्थि । उत्तरपयडिपदेससंक्रमो । अट्टपदं ।
 १३जं पदेसग्गमण्णपयडिं णिज्जदे जत्तो पयडीदो तं पदेसग्गं णिज्जदि तिस्से पयडीए सो
 पदेससंक्रमो । जहा मिच्छत्तस्स पदेसग्गं सम्मत्ते संखुहदि तं पदेसग्गं मिच्छत्तस्स पदेस-
 संक्रमो । एवं सवत्थ । १४एदेण अट्टपदेण तत्थ पंचविहो संक्रमो । तं जहा । उव्वेत्तण-

(१) पृ० १५२ । (२) पृ० १५३ । (३) पृ० १५४ । (४) पृ० १५५ । (५) पृ०
 १५६ । (६) पृ० १५७ । (७) पृ० १५८ । (८) पृ० १५९ । (९) पृ० १६० । (१०)
 पृ० १६१ । (११) पृ० १६२ । (१२) पृ० १६३ । (१३) पृ० १६४ । (१४) पृ० १६५ ।

संकमो विज्ञादसंकमो अधोपवत्तसंकमो गुणसंकमो सव्वसंकमो च । १उव्वेल्लणसंकमे पदेसग्गं थोवं । २विज्ञादसंकमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । अधोपवत्तसंकमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । गुणसंकमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं । सव्वसंकमे पदेसग्गमसंखेज्जगुणं ।

३एतो सामित्तं । ४मिच्छत्तस्स उक्कस्सयपदेससंकमो कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ सत्तमादो पुढवीदो उव्वड्ढिदो । दो तिण्णि भवग्गहणाणि पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तएसु उव्वण्णो । ५अंतोमुहुत्तेण मणुसेसु आगदो । सव्वलहुं दंसणमोहणीयं खवेदुमाढत्तो । जाधे मिच्छत्तं सम्मामिच्छत्ते सव्वं संखुभमाणं संखुद्धं ताधे तस्स मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो । सम्मत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? ६गुणिदकम्मंसिएण सत्तमाए पुढवीए गोरइएण मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंतकम्ममंतोमुहुत्तेण होहिदि त्ति सम्मत्तमुप्पाइदं, सव्वुकस्सियाए पूरणाए सम्मत्तं पूरिदं, तदो उव्वसंतद्वाए पुण्णाए मिच्छत्तमुदीरयमाणस्स पढमसमयमिच्छाइड्ढिस्स तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो । ७सो वुण अधोपवत्तसंकमो । ८सम्मा-मिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? जेण मिच्छत्तस्सा उक्कस्सपदेसग्गं सम्मामिच्छत्ते पक्खित्तं तेणोव जाधे सम्मामिच्छत्तं सम्मत्ते संपक्खित्तं ताधे तस्स सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो । अणंताणुवंधीणमुक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? ९सो चैव सत्तमाए पुढवीए गोरइयो गुणिदकम्मंसिओ अंतोमुहुत्तेणोव तेसिं चैव उक्कस्सपदेससंतकम्मं होहिदि त्ति उक्कस्सजोगेण उक्कस्ससंक्खिलेसेण च णीदो, तदो तेण रहस्सकाले सेसे सम्मत्तमुप्पाइयं । पुणो सो चैव सव्वलहुमणंताणुवंधीणं विसंजोएदुमाढत्तो तस्स चरिमड्ढिदिखंडयं चरिम-समयसंखुहमाणयस्स तेसिमुक्कस्सओ पदेससंकमो । १०अट्टण्हं कसायाणमुक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहुं मणुसग्गइमागदो, अट्टवस्सिओ खवणाए अब्भुड्ढिदो, तदो अट्टण्हं कसायाणमपच्छिमड्ढिदिखंडयं चरिमसमयसंखुहमाणयस्स तस्स अट्टण्हं कसायाणमुक्कस्सओ पदेससंकमो । एवं छण्णोकसायाणं । ११इत्थिवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ असंखेज्जवस्साउएसु इत्थिवेदं पूरेदूण तदो कमेण पूरिदकम्मंसिओ खवणाए अब्भुड्ढिदो, तदो चरिमड्ढिदिखंडयं चरिमसमयसंखुहमाणयस्स तस्स इत्थिवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो । १२पुरिसवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदे पूरेदूण तदो सव्वलहुं खवणाए अब्भुड्ढिदो पुरिसवेदस्स अपच्छिम-ड्ढिदिखंडयं चरिमसमयसंखुहमाणयस्स तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो । णवुंसय-वेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? १३गुणिदकम्मंसिओ ईसाणादो आगदो सव्वलहुं

(१) पृ० १७२ । (२) पृ० १७३ । (३) पृ० १७६ (४) पृ० १७७ । (५) पृ० १७८ ।
 (६) पृ० १७९ । (७) पृ० १८० । (८) पृ० १८१ । (९) पृ० १८२ (१०) पृ० १८३ । ११)
 पृ० १८४ । (१२) पृ० १८५ । (१३) पृ० १८६ ।

खवेदुमाठत्तो, तदो णवुंसयवेदस्स अपच्छिमड्डिदिखंडयं चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स णवुंसयवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो । कोहसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? जेण पुरिसवेदो उक्कस्सओ संछुद्धो कोधे तेणेव जाधे माणे कोधो सव्वसंकमेण संछुभदि ताधे तस्स कोधस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो । १एदस्स चैव माणसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कायवो । णवरि जाधे माणसंजलणो मायासंजलणे संछुभइ ताधे । एदस्स चैव मायासंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कायवो । णवरि जाधे मायासंजलणो लोभसंजलणे संछुभइ ताधे । लोभसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ? २गुणिद-कम्मंसिओ सव्वलहुं खवणाए अब्भुद्धिदो अंतरं से काले कादूण लोहस्स असंकामगो होहिदि त्ति तस्स लोहस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो ।

३एत्तो जहण्णयं ? मिच्छत्तस्स जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ? ४खविदकम्मंसिओ एइंदियकम्मणेण जहण्णएण मणुसेसु आगदो, सव्वलहुं चैव सम्मत्तं पडिवण्णो, संजमं संजमासंजमं च बहुसो लभिदाउगो, चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता वेछावड्डिसागरो० सादिरेयोणि सम्मत्तमणुपालिदं, तदो मिच्छत्तं गदो, अंतोमुहुत्तेण पुणो तेण सम्मत्तं लद्धं, पुणो सागरोवमपुधत्तं सम्मत्तमणुपालिदं, तदो दंसणमोहणीयक्खववणाए अब्भुद्धिदो तस्स चरिमसमयअधापवत्तकरणस्स मिच्छत्तस्स जहण्णओ पदेससंकमो । ५सम्मत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणं जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ? एसो चैव जीवो मिच्छत्तं गदो, तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं धगंतूण अप्पण्णो दुचरिमड्डिदिखंडयं चरिमसमयउव्वेल्लमाणयस्स तस्स जहण्णओ पदेससंकमो । ७अणंताणुवंधीणं जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ? एइंदिय-कम्मणेण जहण्णएण तसेसु आगदो, संजमं संजमासंजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एइंदिएसु पलिदोवमस्स असंखे०भागमच्छिदो जाव उवसामय-समयपवद्दा णिग्गलिदा त्ति । तदो पुणो तसेसु आगदो, सव्वलहुं समम्तं लद्धं, अणंताणु-वधिणो च विसंजोइदा, पुणो मिच्छत्तं गंतूण अंतोमुहुत्तं संजोएदूण पुणो तेण सम्मत्तं लद्धं, तदो सागरोवमवेछावड्डीओ अणुपालिदं, तदो विसंजोएदुमाठत्तो तस्स अधापवत्त-करणचरिमसमए अणंताणुवंधीणं जहण्णओ पदेससंकमो । ९अट्टुण्हं कसायाणं जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ? १०एइंदियकम्मणेण जहण्णएण तसेसु आगदो, संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो, चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एइंदिएसु गदो, असंखेज्जाणि वस्साणि अच्छिदो जाव उवसामयसमयपवद्दा णिग्गलंति । तदो तसेसु आगदो, संजमं सव्वलहुं लद्धो, पुणो कसायक्खवणाए उवड्ढिदो तस्स अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए अट्टुण्हं

(१) पृ० १८७ । (२) पृ० १८८ । (३) पृ० १९४ । (४) पृ० १९५ । (५) पृ० १९८ । (६) पृ० १९९ । (७) पृ० २०० । (८) पृ० २०१ । (९) पृ० २०२ । (१०) पृ० २०३ ।

कसायाणं जहण्णओ पदेससंकमो । १एवमरइ-सोगाणं । हस्स-रइ-भय-दुगुंछाणं पि एवं चेव । णवरि अपुव्वकरणस्सावलियपविट्ठस्स । २कोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ? उवसामयस्स चरिमसमयपवद्धो जाधे उवसामिज्जमाणो उवसंतो ताधे तस्स कोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंकमो । एवं माणमायासंजलण-पुरिसंवेदाणं । ३ लोह-संजलणस्स जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ? एइंदियकम्मणेण जहण्णएण तसेसु आगदो, संजमा-संजमं संजमं च बहुसो लद्धूण कसाएसु किं पि णोउवसामेदि । दीहं संजमद्धमणुपालिदूण खवणाए अब्भुट्ठिदो तस्स अपुव्वकरणस्स आवलियपविट्ठस्स लोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंकमो । ४णवुंसयवेदस्स जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ? एइंदियकम्मणेण जहण्णएण तसेसु आगदो, तिपलिदोवमिएसु उववण्णो, तिपलिदोवमे अंतोमुहुत्ते सेसे सम्मत्तमुप्पाइदं तदो पाए सम्मत्तेण अपडिवदिदेण सागरोवमछावट्टिमणुपालिदेण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धो, चत्तारि वारे कसाए उवसामिदा । तदो सम्मामिच्छत्तं गंतूण पुणो अंतो-मुहुत्तेण सम्मत्तं घेत्तूण सागरोमछावट्टिमणुपालिण मणुसभवग्गहणे सव्वचिरं संजम-मणुपालिदूण खवणाए उवट्ठिदो तस्स अधापवत्तकरणस्स चरिमसमए णवुंसयवेदस्स जहण्णओ पदेससंकमो । ५एवं चेव इत्थिवेदस्स वि । णवरि तिपलिदोवमिएसु ण अच्छिदाउगो ।

६एयजीवेण कालो । ७सव्वेसिं कम्माणं जहण्णुकस्सपदेससंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ ।

८अंतरं । सव्वेसिं कम्माणमुक्कस्सपदेससंकामयस्स णत्थि अंतरं । ९अधवा सम्मत्ता-णंताणुबंधीणं उक्कस्ससंकामयस्स अंतरं केवचिरं ? जहण्णेण असंखेज्जा लोभा । १०उक्कस्सेण उवड्ढुपोग्गलपरियट्ठं । ११एत्तो जहण्णयं । कोहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजलण-पुरिस-वेदाणं जहण्णपदेससंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १२जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्ढुपोग्गलपरियट्ठं । सेसाणं कम्माणं जाणिऊण शेदव्वं ।

१३सण्णियासो । मिच्छत्तस्स उक्कस्सपदेससंकामओ सम्मत्ताणंताणुबंधीणमसंकामओ । सम्मामिच्छत्तस्स णियमा अणुकस्सं पदेसं संकामेदि । उक्कस्सादो अणुकस्समसंखेज्जगुणहीणं । १४सेसाणं कम्माणं संकामओ णियमा अणुकस्सं संकामेदि । उक्कस्सादो अणुकस्सं णियमा असंखेज्जगुणहीणं । णवरि लोभसंजलणं विसेसहीणं संकामेदि । सेसाणं कम्माणं साहेयव्वं । १५सव्वेसिं कम्माणं जहण्णसण्णियासो वि साहेयव्वो ।

(१) पृ० २०४ । (२) पृ० २०५ । (३) पृ० २०६ । (४) पृ० २०७ । (५) पृ० २०८ ।
 (६) पृ० २११ । (७) पृ० २१२ । (८) पृ० २२३ । (९) पृ० २२४ । (१०) पृ० २२५ ।
 (११) पृ० २३० । (१२) पृ० २३१ । (१३) पृ० २३७ । (१४) पृ० २३८ । (१५) पृ० २४३ ।

विसेसाहिओ । पुरिसवेदे जहण्णपदेससंक्रमो अणंतगुणो । इत्थिवेदे जहण्णपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो । हस्से जहण्णपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो । रदीए जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । १सोगे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । अरदीए जहण्णपदेससंक्रमो संखेज्जगुणो । णवुंसयवेदे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । दुगुंछाए जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । भए जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । माणसंजलणे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । कोहे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । रमायाए जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ । लोहे जहण्णपदेससंक्रमो विसेसाहिओ ।

भुजगारस्स अट्टपदं । एण्हि पदेसे बहुदरगे संकामेदि त्ति उस्सक्काविदो अप्पदरसंक्रमादो एसो भुजगारसंक्रमो । ३एण्हि पदेसअप्पदरगे संकामेदि ओसक्काविदे बहुदरपदेससंक्रमादो एस अप्पयरसंक्रमो । ओसक्काविदे एण्हिं च तत्तिगे चैव पदेसे संकामेदि त्ति एस अवट्ठिदसंक्रमो । असंक्रमादो संकामेदि त्ति अवत्तव्वसंक्रमो । ४एदेण अट्टपदेण तत्थ समुक्कित्तणा । मिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवट्ठिद-अवत्तव्वसंक्रामया अत्थि । ५एवं सोलसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछोणं । एवं चैव सम्मत-सम्मामिच्छत्त-इत्थिवेद-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं । णवरि अवट्ठिदसंक्रामगा णत्थि ।

६सामित्तं । मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामओ को होइ ? पढमसम्मत्तमुप्पादयमाणो पढमसमए अवत्तव्वसंक्रामगो । सेसेसु समएसु जाव गुणसंक्रमो ताव भुजगारसंक्रामगो । ७जो वि दंसणमोहणीयक्खवगो अपुव्वकरणस्स पढमसमयमादिं कादूण जाव मिच्छत्तं सव्वसंक्रमेण संछुहदि त्ति ताव मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामगो । जो वि पुव्वुप्पण्णेण समत्तेण मिच्छत्तादो सम्मतमागदो तस्स पढमसमयसम्माइट्ठिस्स जं बंधादो आवलियादीद मिच्छत्तस्स पदेसगं तं विज्झादसंक्रमेण संकामेदि । आवलियचरिमसमयमिच्छाइट्ठिमादिं कादूण ञ्जाव चरिमसमयमिच्छाइट्ठि त्ति एत्थ जे समयपव्वद्वा ते समयपव्वद्दे पढमसमय-सम्माइट्ठि त्ति ण संकामेइ । सेकालुप्पहुडि जस्स जस्स बंधावलिया पुण्णा तदो तदो सो संकामिज्जदि । एवं पुव्वुप्पाइदेण सम्मतत्तेण जो सम्मतं पडिवज्जइ तं दुसमयसम्माइट्ठिमादिं कादूण जाव आवलियसम्माइट्ठि त्ति ताव मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रमो होज्ज । ८णहु सव्वत्थ आवलियाए भुजगारसंक्रमो जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेणावलिया समयूणा । १०एवं तिसु कालेसु मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामगो । तं जहा । उवसामगदुसमयसम्माइट्ठि-मादिं कादूण जाव गुणसंक्रमो त्ति ताव णिरंतरं भुजगारसंक्रमो । खवगस्स वा जाव

(१) पृ० २८८ । (२) पृ० २८९ । (३) पृ० २९० । (४) पृ० २९१ । (५) पृ० २९२ । (६) पृ० २९४ । (७) पृ० २९५ । (८) पृ० २९६ । (९) पृ० २९७ । (१०) पृ० २९८ ।

गुणसंक्रमेण खविज्जदि मिच्छत्तं ताव णिरंतरं भुजगारसंक्रमो । पुव्वुप्पादिदेण वा सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवज्जदि तं दुसमयसम्माइड्डिमादि कादूण जाव आवलियसम्माइड्डि ति एत्थ जत्थ वा तत्थ वा जहण्णेण एयसमयं, उक्कस्सेण आवलिया १समयूणा भुजगारसंक्रमो होज्ज । एवमेदेसु तिसु कालेसु मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रमो । सेसेसु समएसु जइ संकामगो अप्पयरसंक्रामगो वा अवत्तव्वसंक्रामगो वा । अवट्ठिदसंक्रामगो मिच्छत्तस्स को होइ ? पुव्वुप्पादिदेण सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवज्जदि जाव आवलियसम्माइड्डि ति एत्थ होज्ज अवट्ठिदसंक्रामगो अण्णम्मि णत्थि । २सम्मत्तस्स भुजगारसंक्रामगो को होदि ? सम्मत्तमुव्वेल्लमाणयस्स अप्पच्छिमे ट्ठिदिखंडए सव्वम्हि चेव भुजगारसंक्रामगो । तव्वदिरित्तो जो संक्रामगो सो अप्पयरसंक्रामगो वा अवत्तव्वसंक्रामगो वा । सम्मामिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामगो को होइ ? उव्वेल्लमाणयस्स अप्पच्छिमे ट्ठिदिखंडए सव्वम्हि चेव । ३खवगस्स वा जाव गुणसंक्रमेण संखुहदि सम्मामिच्छत्तं ताव भुजगारसंक्रामगो । पढमसम्मत्तमुप्पादयमाणयस्स वा तदियसमयप्पहुडि जाव विज्जादसंक्रमपढमसमयादो ति । ४तव्वदिरित्तो जो संक्रामगो सो अप्पदरसंक्रामगो वा अवत्तव्वसंक्रामगो वा । सोलसकसायाणं भुजगारसंक्रामगो अप्पदरसंक्रामगो अवट्ठिदसंक्रामगो अवत्तव्वसंक्रामगो को होदि ? अण्णदरो । ५एवं पुरिसवेदमयदुगुंठाणं । एवरि पुरिसवेदअवट्ठिदसंक्रामगो णियमा सम्माइड्डी । ६इत्थिणवुंसयवेदहस्स-रइ-अरइ-सोमाणं भुजगार-अप्पदर-अवत्तव्वसंक्रमो कस्स ? अण्णदरस्स ।

७कालो एयजीवस्स । मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? ८जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण आवलिया समयूणा । ९अधवा अंतोमुहुत्तं । अप्पयरसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? एकओ वा समओ जाव आवलिया दुसमयूणा । १०अधवा अंतोमुहुत्तं । तदो समयुत्तरो जाव छावट्ठिसागरोवमाणि सादिरैयाणि । ११अवट्ठिदसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण संखेज्जा समया । १२अवत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । सम्मत्तस्स भुजगारसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अप्पयरसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? १३जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । आत्तव्वसंक्रमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । सम्मा-

(१) पृ० २६६ (२) पृ० ३०० । (३) पृ० ३०१ । (४) पृ० ३०२ । (५) पृ० ३०३ ।
 (६) पृ० ३०४ । (७) पृ० ३०६ । (८) पृ० ३०७ । (९) पृ० ३०८ । (१०) पृ० ३०९ । (११)
 पृ० ३१० । (१२) पृ० ३११ । (१३) पृ० ३१२ ।

मिच्छत्तस्स भुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? एको वा दो वा समया एवं समयुत्तरो उक्कस्सेण जाव चरिमुव्वेज्जणकंडयुक्कीरणा ति । १अध्वा सम्मत्तमुप्पादेमाणयस्स वा तदो खवेमाणयस्स वा जो गुणसंकमकालो सो वि भुजगारसंकामयस्स कायव्वो । अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । २एयसमयो वा । उक्कस्सेण छावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ३अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि जहण्णुकस्सेण एयसमओ । अणंताणुवंधीणं भुजगारसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ४अप्पदरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । अवट्टिदसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । ५उक्कस्सेण संखेज्जो समया । अवत्तव्वसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । बारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगुंछाणं भुजगार-अप्पदरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । ६अवट्टिदसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण संखेज्जा समया । अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । इत्थिवेदस्स भुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? ७जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अप्पयरसंकमं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि संखेज्जवस्सव्वभहियाणि । ८अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । णवुंसयवेदस्स अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? ९जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि तिण्णि पल्लिदोवमाणि सादिरेयाणि । सेसाणि इत्थिवेदभंगो । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुजगार-अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । १०उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण एयसमओ । एवं चदुगदीसु ओघेण साधेदूण णेदव्वो ।

११एइंदिएसु सव्वेसिं कम्माणमवत्तव्वसंकमो णत्थि । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं भुजगारसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । १२उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण पल्लिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । सोलसकसाय-भय-दुगुंछाणमोघअपच्चक्खाणावरणभंगो । १३सत्तणो-कसायाणं ओघहस्स-रदीणं भंगो ।

(१) पृ० ३१३ । (२) पृ० ३१४ । (३) पृ० ३१५ । (४) पृ० ३१६ । (५) पृ० ३१७ । (६) पृ० ३१८ । (७) पृ० ३१९ । (८) पृ० ३२० । (९) पृ० ३२१ । (१०) पृ० ३२२ । (११) पृ० ३२६ । (१२) पृ० ३२७ । (१३) पृ० ३२८ ।

एयजीवेण अंतरं । मिच्छत्तस्स भुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ वा दुसमओ वा, एवं णिरंतरं जाव तिसमयूणावलिया । १अधवा जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । २उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । एवमप्पदरावट्टिदसंक्रामयंतरं । ३अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । सम्मत्तस्स भुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागो । ४उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । अप्पदरावत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । ५उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । सम्मामिच्छत्तस्स भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ६जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? ७जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । अणंतानुवंधीणं भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि सादिरेयाणि । ८अवट्टिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ । ९उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । १०पारसकसाय-पुरिसवेद-भयदुगुंठाणं भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । अवट्टिदसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । ११उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । णवरि पुरिसवेदस्स उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । सव्वेसिमवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । १२इत्थिवेदस्स भुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि संखेज्जवस्सव्वभहियाणि । अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेणोयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? १३जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । णवुंसयवेदभुजगारसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण वेछावट्टिसागरोवमाणि तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरेयाणि । अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचितरं कालादो होदि ? १४जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गलपरियट्टं । हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ?

(१) पृ० ३२६ । (२) पृ० ३३० । (३) पृ० ३३१ । (४) पृ० ३३२ । (५) पृ० ३३३ । (६) पृ० ३३४ । (७) पृ० ३३५ । (८) पृ० ३३६ । (९) पृ० ३३७ । (१०) पृ० ३३८ । (११) पृ० ३३९ । (१२) पृ० ३४० । (१३) पृ० ३४१ । (१४) पृ० ३४२ ।

जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । कथं ताव हस्स-रइ-अरदि-सोगाणमेयसमय-
मंतरं ? १हस्स-रदि-भुजगारसंक्रामयंतरं जइ इच्छसि अरदि-सोगाणमेयसमयं बंधावेदव्वो ।
जइ अप्पयरसंक्रामयंतरमिच्छसि हस्स-रदीओ एयसमयं बंधावेयव्वाओ । अवत्तव्वसंक्रा-
मयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? २जहण्णेण अंतोमुहुत्तं । उक्कस्सेण उवड्डुपोग्गल-
परियट्टं । गदीसु च साहेयव्वं ।

३एइंदिएसु सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णत्थि किंचि वि अंतरं । सोलसकसाय-भय-
दुगुंछाणं भुजगार-अप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ ।
उक्कस्सेण पळ्ळिदोवमस्स असंखेज्जादिभागो । ४अवट्टिदसक्रामयंतरं केवचिरं कालादो
होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्टा । सेसाणं
सत्तणोकसायाणं भुजगारअप्पयरसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ ।
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं ।

५णाणाजीवेहि भंगविचयो । अट्टपदं कायव्वं । जा जेसु पयडी अत्थि तेसु पयदं ।
सव्वजीवा मिच्छत्तस्स सिया अप्पयरसंक्रामया च असंक्रामया च । ६सिया एदे च
भुजगारसंक्रामओ च अवट्टिदसंक्रामओ च अवत्तव्वसंक्रामगो च । एवं सत्तायीसभंगा ।
समत्तस्स सिया अप्पयरसंक्रामया च असंक्रामया च णियमा । ७सेससंक्रामया भजियव्वा ।
सम्मामिच्छत्तस्स अप्पयरसंक्रामया णियमा । सेससंक्रामया भजियव्वा । सेसाणं कम्माणं
अवत्तव्वसंक्रामगा च असंक्रामगा च भजिदव्वा । ८सेसा णियमा । णवरि पुरिसवेदस्स-
वट्टिदसंक्रामया भजियव्वा । ९णाणाजीवेहि कालो एदाणुमाणिय शेदव्वो ।

१०णाणाजीवेहि अंतरं । ११मिच्छत्तस्स भुजगार-अवत्तव्वसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं
कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि । अप्पयरसंक्रामयाण-
मंतरं केवचिरं कालादो होदि ? णत्थि अंतरं । १२अवट्टिदसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं
कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा । सम्मत्तस्स
भुजगारसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । १३उक्कस्सेण
चउवीसमहोरत्ते सादिरेये । अप्पयरसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं । अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं
कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि । १४सम्मामिच्छ-
त्तस्स भुजगार-अवत्तव्वसंक्रामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ ।

- (१) पृ० ३४३ । (२) पृ० ३४४ । (३) पृ० ३४६ (४) पृ० ३५० । (५) पृ० ३५१ ।
(६) पृ० ३५२ । (७) पृ० ३५३ । (८) पृ० ३५४ । (९) पृ० ३५६ । (१०) पृ० ३६४ ।
(११) पृ० ३६५ । (१२) पृ० ३६६ । (१३) पृ० ३६७ । (१४) पृ० ३६८ ।

उक्त्सेण सत्त रादिदियाणि । णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाणमुक्त्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये । १अप्पयरसंक्रामयाणं णत्थि अंतरं । अणंताणुअंधीणं भुजगार-अप्पदर-अवट्टिदसंक्रामयंतरं णत्थि । अवत्तव्वसंक्रामयाणमंतरं केवचिरं ? जहण्णेण एयसमओ । २उक्त्सेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेये । एवं सेसाणं कम्मणं । णवरि अवत्तव्वसंक्रामयाण-मुक्त्सेण त्रोसपुधत्तं । पुरिसवेदस्स अवट्टिदसंक्रामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । उक्त्सेण असंखेज्जा लोणा ।

३अप्पावहुअं । सव्वत्थोवा मिच्छत्तस्स अवट्टिदसंक्रामया अवत्तव्वसंक्रामया असंखेज्जगुणा । भुजगारसंक्रामया असंखेज्जगुणा । ४अप्पयरसंक्रामया असंखेज्जगुणा । समत्त-सम्मा-मिच्छत्ताणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया । भुजगारसंक्रामया असंखेज्जगुणा । अप्पयरसंक्रामया असंखेज्जगुणा । सोलसकसाय-भय-दुगुंछाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया । अवट्टिद-संक्रामया अणंतगुणा । ५अप्पयरसंक्रामया असंखेज्जगुणा । भुजगारसंक्रामया संखेज्जगुणा । इत्थिवेद-हस्स-रदीणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया । भुजगारसंक्रामया अणंतगुणा । अप्पयरसंक्रामया संखेज्जगुणा । ६पुरिसवेदस्स सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया । अवट्टिदसंक्रामया असंखेज्जगुणा । भुजगारसंक्रामया अणंतगुणा । अप्पयरसंक्रामया संखेज्जगुणा । णवुंसयवेद-अरइ-सोगाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंक्रामया । अप्पयरसंक्रामया अणंतगुणा । भुजगारसंक्रामया संखेज्जगुणा ।

७एत्तो पदणिक्खेरो । तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्वाराणि । परूवणा सामित्त-मप्पावहुअं च । ८परूवणा । सव्वासिं पयडीणमुक्त्सिया वड्डी हाणी अवट्टाणं च अत्थि । एवं जहण्णयस्स वि शेदव्वं । णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमवट्टाणं णत्थि ।

९सामित्तं । मिच्छत्तस्स उक्त्सिया वड्डी कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स मिच्छत्त-वखणयस्स सव्वसंक्रामयस्स । उक्त्सिया हाणी कस्स ? गुणिदकम्मंसियस्स सम्मत्तमुप्पाएदूण गुणसंक्रमेण संक्रामिदूण १०पढमसमयविज्जोदसंक्रामयस्स । उक्त्सयमवट्टाणं कस्स ? गुणिदकम्मंसिओ पुव्वुप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादो सम्मत्तं गदो, तं दुसमयसम्माइट्टि-मादिं कादूण जाव ओणलियसम्माइट्टि ति एत्थ अण्णदरम्हि समये तप्पाओग्गउक्त्स्सेण अट्टि कादूण से काले तत्तियं संक्रममाणयस्स तस्स उक्त्सयमवट्टाणं । ११सम्मत्तस्स उक्त्सिया वड्डी कस्स ? उव्वेज्जमाणयस्स चरिमसमए । १२उक्त्सिया हाणी कस्स ?

- (१) पृ० ३६६ । (२) पृ० ३७० । (३) पृ० ३७३ । (४) पृ० ३७४ । (५) पृ० ३७५ । (६) पृ० ३७६ । (७) पृ० ३७६ । (८) पृ० ३८० । (९) पृ० ३८२ । (१०) पृ० ३८२ । (११) पृ० ३८३ । (१२) पृ० ३८४ ।

गुण्णिकम्मंसियो सम्मत्तमुप्पाएदूण लहुं मिच्छत्तं गओ तस्स भिच्छाइड्डिस्स पढमसमए अवत्तव्वसंक्रमो । विदियसमये उक्कस्सिया हाणी ।

१सम्मामिच्छत्तस्स उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? गुण्णिकम्मंसियस्स सव्वसंक्रामयस्स । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? उप्पादिदे सम्मत्ते सम्मामिच्छत्तादो सम्मत्ते जं संक्रामेदि तं पदेसग्गमंगुलस्सासंखेज्जभागवडिभागं । तदो उक्कस्सिया हाणी ण होदि त्ति । २गुण्णिकम्मंसिओ सम्मत्तमुप्पाएदूण लहुं चैव मिच्छत्तं गदो, जहण्णियाए मिच्छत्तद्वाए पुण्णाए सम्मत्तं पडिवण्णो तस्स पढमसमयसम्माइड्डिस्स उक्कस्सिया हाणी ।

३अणंताणुवंधीणमुक्कस्सिया वड्डी कस्स ? गुण्णिकम्मंसियस्स सव्वसंक्रामयस्स । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? ४गुण्णिकम्मंसिओ तप्पाओग्गउक्कस्सियादो अधापवत्तसंक्रमादो सम्मत्तं पडिवज्जिऊण विज्जादसंक्रामगो जादो तस्स पढमसमयसम्माइड्डिस्स उक्कस्सिया हाणी । उक्कस्सियमवट्ठाणं कस्स ? जो अधापवत्तसंक्रमेण तप्पाओग्गुक्कस्सएण वड्ढिदूण अवट्ठिदो तस्स उक्कस्सियमवट्ठाणं ।

५अट्ठकसायाणमुक्कस्सिया वड्डी कस्स ? गुण्णिकम्मंसियस्स सव्वसंक्रामयस्स । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? गुण्णिकम्मंसियो पढमदाए कसायउवसामणद्वाए जाधे दुविहस्स कोहस्स चरिमसमयसंक्रामगो जादो, तदो से काले मदो देवो जादो तस्स पढमसमय-देवस्स उक्कस्सिया हाणी । ६एवं दुविहमाण-दुविहमाया-दुविहलोहाणं । ७णवरि अप्पप्पणो चरिमसमयसंक्रामगो होदूण से काले मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी ।

अट्ठण्हं कसायाणमुक्कस्सियमवट्ठाणं कस्स ? अधापवत्तसंक्रमेण तप्पाओग्गउक्कस्सएण वड्ढिदूण से काले अवट्ठिदसंक्रामगो जादो तस्स उक्कस्सियमवट्ठाणं । कोहसंजलणस्स उक्कस्सिया वड्डी कस्स ? जस्स उक्कस्सओ सव्वसंक्रमो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । ँतस्सेव से काले उक्कस्सिया हाणी । णवरि से काले संक्रमपाओग्गा समयपवट्ठो जहण्णा कायव्वा । तं जहा । ८जेसिं से काले आवलियमेत्ताणं समयपवट्ठाणं पदेसग्गं संक्रामिज्जहिदि ते समयपवट्ठा तप्पाओग्गजहण्णा । एदीए परूवणाए सव्वसंक्रमं संछुहिदूण जस्स से काले पुव्वपरूविदो संक्रमो तस्स उक्कस्सिया हाणी कोहसंजलणस्स । तस्सेव से काले उक्कस्सिय-मवट्ठाणं । जहा कोहसंजलणस्स तहा माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।

(१) पृ० ३८५ । (२) पृ० ३८६ । (३) पृ० ३८७ । (४) पृ० ३८८ । (५) पृ० ३८९ । (६) पृ० ३९० । (७) पृ० ३९१ । (८) पृ० ३९२ । (९) पृ० ३९३ ।

लोहसंजलणस्स उक्कस्सिया वट्ठी कस्स ? गुण्णिकम्मंसिएण लहुं चत्तारि वारे कसाया उवसामिदा, अपच्छिमे भवे दो वारे कसाए उवसामेऊण खवणाए अब्भुट्ठिदो जावे चरिमसमए अंतरमङ्गदं तावे उक्कस्सिया वट्ठी । उक्कस्सिया हाणी कस्स ? गुण्णिकम्मंसियो तिण्णि वारे कसाए उवसामेऊण चउत्थीए उवसामणाए उवसामेमाणो अंतरे चरिमसमयअङ्गदे से काले मदो देवो जादो तस्स समयाहियावलियउववण्णयस्स उक्कस्सिया हाणी । उक्कस्सयमवट्ठाणमपच्चक्खाणावरणभंगो । भय-दुगुंछाणमुक्कस्सिया वट्ठी कस्स ? गुण्णिकम्मंसियस्स सव्वसंक्रामयस्स । उक्कस्सिया हाणी कस्स । गुण्णिकम्मंसिओ पढमदाए कसाए उवसामेमाणो भय-दुगुंछासु चरिमसमयअणुवसंतासु से काले मदो देवो जादो तस्स पढमसमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी । उक्कस्सयमवट्ठाणमपच्चक्खाणभंगो । ५एवमित्थि-गुणुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं । णवरि अवट्ठाणं णत्थि ।

मिच्छत्तस्स जहण्णिया वट्ठी कस्स ? जस्स कम्मस्स अब्भुट्ठिसंक्रमो अत्थि तस्स असंखेज्जा लोगपडिभागो वट्ठी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा होइ । ५जस्स कम्मस्स अब्भुट्ठिसंक्रमो णत्थि तस्स वट्ठी वा हाणी वा असंखेज्जा लोगभागो ण लब्भइ । एसा परूवणा अट्टपदभूदा जहण्णियाए वट्ठीए वा हाणीए वा अवट्ठाणस्स वा । ६एदाए परूवणाए मिच्छत्तस्स जहण्णिया वट्ठी हाणी अवट्ठाणं वा कस्स ? जम्हि तप्पाओगाजहण्णगेण संक्रमेण से काले अब्भुट्ठिसंक्रमो संभवदि तम्हि जहण्णिया वट्ठी वा हाणी वा से काले जहण्णयमवट्ठाणं ।

७सम्मत्तस्स जहण्णिया हाणी कस्स ? जो सम्माइट्ठी तप्पाओगाजहण्णएण कम्मेण सागरोपमवेछापट्ठीओ गाल्ळिदूण मिच्छत्तं गदो, सव्वमहंतउव्वेलणकालेण उव्वेण्ण्ले-माणगस्स तस्स दुचरिमट्ठिदिखंडयस्स चरिमसमए जहण्णिया हाणी । त्तस्सेव से काले जहण्णिया वट्ठी । एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । ८अणंताणुवंधीणं जहण्णिया वट्ठी हाणी अवट्ठाणं च कस्स ? जहण्णगेण एइंदियकम्मेण विसंजोएदूण संजोइदो, तदो ताव गालिदा जाव तेसि गालिदसेसाणमधापवत्तणिज्जरा जहण्णेण एइंदियसमयपवट्ठेण सरिसी जादा नि । केवचिरं पुण कालं गालिदस्स अणंताणुवंधीणमधापवत्तणिज्जरा जहण्णएण एइंदिय-समयपवट्ठेण सरिसी भवदि ? तदो पालिदोवमस्स असंखेज्जादिभागकालं गालिदस्स जहण्णेण एइंदियसमयपवट्ठेण सरिसी णिज्जरा भवदि । जहण्णेण एइंदियसमयपवट्ठेण सरिसी णिज्जरा आवलियाए समयुत्तराए एत्तिएण कालेण होहिदि त्ति तदो मदो एइंदियो जहण्णजोगी जादो तस्स समयाहियावलियउववण्णयस्स अणंताणुवंधीणं जहण्णिया वट्ठी वा हाणी वा अवट्ठाणं वा ।

(१) पृ० ३६४ । (२) पृ० ३६५ । (३) पृ० ३६६ । (४) पृ० ३६७ । (५) पृ० ३६८ । (६) पृ० ३६९ । (७) पृ० ४०३ । (८) पृ० ४०४ । (९) पृ० ४०५ ।

१अट्टण्हं कसायाणं भय-दुगुंछाणं च जहणिया वड्डी हाणी अवट्टाणं च कस्स ? एइंदियकम्मेण जहण्णेण संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो, तेणेव चत्तारि वारे कसाय-मुवसामिदा । तदो एइंदिए गदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं कालमच्छिऊण उवसामयसमयपवट्टेसु गलिदेसु जाधे वंधेण णिज्जरा सरिसी भवदि ताधे एदेसिं कम्माणं जहणिया वड्डी च हाणी च अवट्टाणं च । ३चदुसंजलणाणं जहणिया वड्डी होणी अवट्टाणं च कस्स ? कसाए अणुवसामेऊण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण एइंदिए गदो । जाधे वंधेण णिज्जरा तुब्ला ताधे चदुसंजलणस्स जहणिया वड्डी हाणी अवट्टाणं च ।

४पुरिसवेदस्स जहणिया वड्डी हाणी अवट्टाणं च कस्स ? जम्हि अवट्टाणं तम्हि तप्पाओग्गजहण्णएण कम्मेण जहणिया वड्डी वा हाणी वा अवट्टाणं वा । ५हस्स-रदीणं जहणिया वड्डी कस्स ? एइंदियकम्मेण जहण्णएण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लद्धूण चत्तारि वारे कसाए उवसामेऊण एइंदिए गदो, तदो पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागं काल-मच्छिऊण सण्णी जादो । सव्वमहंतिमरदिसोगबंधगद्धं कादूण हस्स-रईओ पवट्टाओ, पढमसमयहस्स-रइबंधगस्स तप्पाओग्गजहण्णओ वंधो च आगमो च तस्स आवलिय-हस्स-रइ-बंधयमाणयस्स जहणिया हाणी । ६तस्सेव से काले जहणिया वड्डी । ७अरदि-सोगाणमेवं चैव । णवरि पुव्वं हस्स-रईओ बंधावेयव्वाओ । तदो आवलिय-अरदि-सोगबंधगस्स जहणिया हाणी । से काले जहणिया वड्डी । एवमित्थिवेद-णवुंसयवेदाणं । णवरि जइ इत्थिवेदस्स इच्छिसि, पुव्वं णवुंसयवेद-पुरिसवेदे बंधावेदूण पच्छा इत्थिवेदो बंधावेयव्वो । तदो आवलियइत्थिवेदबंधमाणयस्स इत्थिवेदस्स जहणिया हाणी । से काले जहणिया वड्डी । ८जदि णवुंसयवेदस्स इच्छिसि पुव्वमित्थि-पुरिसवेदे बंधावेदूण पच्छा णवुंसयवेदो बंधावेयव्वो । तदो आवलियणवुंसयवेदबंधमाणयस्स णवुंसयवेदस्स जहणिया हाणी । से काले जहणिया वड्डी ।

१०अप्पावहुअं । उक्कस्सयं ताव । मिच्छत्तस्स सव्वत्थोवमुक्कस्सयमवट्टाणं । ११हाणी असंखेज्जगुणा । वड्डी असंखेज्जगुणा । एवं वारसकसाय-भय-दुगुंछाणं । १२सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । हाणी असंखेज्जगुणा । १३सम्मामिच्छत्तस्स सव्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । १४उक्कस्सिया वड्डी असंखेज्जगुणा । एवमित्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-

(१) पृ० ४०८ । (२) पृ० ४०९ । (३) पृ० ४१० । (४) पृ० ४११ । (५) पृ० ४१२ ।
 (६) पृ० ४१४ । (७) पृ० ४१५ । (८) पृ० ४१६ । (९) पृ० ४१७ ।
 (१०) पृ० ४१८ । (११) पृ० ४२० । (१२) पृ० ४२२ । (१३) पृ० ४२३ । (१४) पृ० ४२४ ।

१अप्पावहुअं । २सव्वत्थोवाणि लोहसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि । सम्मत्ते पदेस-
संकमट्टाणाणि अणंतगुणाणि । अपच्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि ।
३कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ४मायाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । पच्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसा-
हियाणि । कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ५मायाए पदेससंकमट्टाणाणि
विसेसाहियाणि । लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । अणंताणुबंधिमाणस्स पदेस-
संकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए पदेस-
संकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । लोभे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

मिच्छत्तस्स पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । सम्मामिच्छत्ते पदेससंकमट्टाणाणि
विसेसाहियाणि । हस्से पदेससंकमट्टाणाणि अणंतगुणाणि । ६रदीए पदेससंकमट्टाणाणि
विसेसाहियाणि । इत्थिवेदे पदेससंकमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । सोगे पदेससंकमट्टाणाणि
विसेसाहियाणि । अरदीए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । णवुंसयवेदे पदेससंकम-
ट्टाणाणि विसेसाहियाणि । दुगुंछाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । भए पदेससंकम-
ट्टाणाणि विसेसाहियाणि । ७पुरिसवेदे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । कोह-
संजलणे पदेससंकमट्टाणाणि संखेज्जगुणाणि । माणसंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसा-
हियाणि । मायासंजलणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

गिरयगईए सव्वत्थोवाणि अपच्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि । कोहे पदेससंकम-
ट्टाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । लोहे पदेस-
संकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । पच्चक्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।
लोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

मिच्छत्ते पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्जगुणाणि । ८हस्से पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्ज-
गुणाणि । ९रदीए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । इत्थिवेदे पदेससंकमट्टाणाणि
संखेज्जगुणाणि । सोगे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । १०अरदीए पदेससंकमट्टाणाणि
विसेसाहियाणि । णवुंसयवेदे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । दुगुंछाए पदेससंकम-
ट्टाणाणि विसेसाहियाणि । भए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । पुरिसवेदे पदेस-
संकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि ।

(१) पृ० ४८१ । (२) पृ० ४८२ । (३) पृ० ४८३ । (४) पृ० ४८४ । (५) पृ०
४८५ । (६) पृ० ४८६ । (७) पृ० ४८७ । (८) पृ० ४८८ । (९) पृ० ४८९ । (१०) पृ०
४९० । (११) पृ० ४९१ ।

माणसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । कोहसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायासंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । लोहसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । सम्मत्ते पदेससंक्रमद्वाणाणि अणंतगुणाणि । सम्मामिच्छते पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । १अणंताणुबंधिमोणे पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । कोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । लोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि ।

एवं तिरिक्खगइ-देवगईसु वि । २मणुसगई ओघभंगो । ३एइंदिएसु सब्वत्थो-वाणि अपच्चक्खाणमाणे पदेससंक्रमद्वाणाणि । कोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । लोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । पच्चक्खाणमाणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । कोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । लोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । अणंताणुबंधिमोणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । कोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । लोहे पदेससंक्रमद्वाणाणि-विसेसाहियाणि ।

हस्से पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । ४रदीए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । इत्थिपेदे पदेससंक्रमद्वाणाणि संखेजगुणाणि । सोगे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । अरदीए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । णवुंसयवेदे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । दुगुंछाए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । भए पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । पुरिसवेदे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । माणसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । कोहसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । मायासंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । लोहसंजलणे पदेससंक्रमद्वाणाणि विसेसाहियाणि । सम्मत्ते पदेससंक्रमद्वाणाणि अणंतगुणाणि । सम्मामिच्छते पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेजगुणाणि ।

५केण कारणेण णिरयगईए पच्चक्खाणकसायलोभपदेससंक्रमद्वाणेहितो मिच्छते पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । मिच्छतस्स गुणसंक्रमो अत्थि । पच्चक्खाणकसाय-लोहस्स गुणसंक्रमो णत्थि । एदेण कारणेण णिरयगईए पच्चक्खाणकसायलोहपदेससंक्रम-द्वाणेहितो मिच्छतस्स पदेससंक्रमद्वाणाणि असंखेजगुणाणि ।

६जस्स कम्मस्स सब्वसंक्रमो णत्थि तस्स कम्मस्स असंखेजाणि पदेससंक्रमद्वाणाणि । जस्म कम्मस्स सब्वसंक्रमो अत्थि तस्स कम्मस्स अणंताणि पदेससंक्रमद्वाणाणि ।

(१) पृ० ४६८ । (२) पृ० ४६६ । (३) पृ० ५०० । (४) पृ० ५०१ । (५) पृ० ५०२
(६) ५०३ ।

१माणस्स जहण्णए संतकम्मट्ठाणे असंखेज्जा लोगां पदेससंकमट्ठाणाणि । तस्मि
 चेव जहण्णए माणसंतकम्मे विदियसंकमट्ठाणविसेसस्स असंखेज्जलोगभागमेत्ते पक्खित्ते
 माणस्स विदियसंकमट्ठाणपरिवाडी । २तत्तियमेत्ते चेव पदेसग्गे कोहस्स जहण्णसंतकम्म-
 ट्ठाणे पक्खित्ते कोहस्स विदियसंकमट्ठाणपरिवाडी । ३एदेण कारणेण माणपदेससंकम-
 ट्ठाणाणि थोवाणि । कोहे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । ४एवं सेसेसु कम्मेसु
 वि शेदच्चाणि ।

एवं गुणहीणं वा गुणविसिद्धमिदि अत्थविहासाए समत्ताए पंचमीए मूलगाहाए
 अत्थपरूवणा समत्ता । तदो पदेससंकमो समत्तो ।



२. कषायप्राभृतगाथानुक्रमणिका

पुस्तक ८

क्र० सं०	गाथा	पृ०	क्र० सं०	गाथा	पृ०
अ०	३७ अट्ट दुग तिग चटुकके	८३	३२	चोहसग दसग सत्तय	८२
	५१ अट्टारस चोहसयं	८५	छ०	४६ छव्वीस सत्तवीसा तेवीसा	८५
	२७ अट्टावीस चउवीस	८१-६०		२६ छव्वीस सत्तवीसा य	८१
	३६ अणुपुव्वमणुपुव्वं	८४	ण०	५३ णव अट्ट सत्त छक्कं	८३
	४५ अवगयवेद-णवुंसय	८५		४७ णाणम्मिह य तेवीसा	८५
आ०	४८ आहारय भविणसु	८५		४२ णिरयगइ-अमर-पंचिदिणसु	८४
उ०	५० उगुवीसट्टारसयं	८५	त०	३३ तेरसय णवय सत्तय	८२
ए०	४० एककेम्मिह य ट्ठारो	८४		४४ तेवीस सुक्कलेस्से	८४
	२५ एककेक्काए संकमो	१६	द०	५५ दिट्ठे सुण्णामुण्णे	८६
	३४ एत्तो अवसेसा संजमम्मिह	८२	प०	२६ पयडि-पयडिट्ठारोणसु	१७
	५८ एवं दव्वे खेत्ते	८६		३६ पंच-चउक्के बारस	८३
क०	४८ कदि कम्मिह होंति ठाणा	८४		३५ पंचसु च उण्णवीसा	८३
	२३ कदि पयडीओ वंधदि	३	व०	३१ वावीस पण्णारसगे	८२
	५६ कम्ममियट्ठारोणसु य	८६	स०	५४ सत्त य छक्कं पण्णं	८६
	४६ कोहादी उवजोगे	८५		३० सत्तारसेगवीसासु	८२
च०	३८ चत्तारि तिग चटुकके	८३		५७ सादि य जहण्ण संकम	८६
	४३ चटुर दुगं तेवीसा	८४		२८ सोलसग बारसट्टग	८१
	५२ चोहसग-णवगमादी	८६		२४ सकम-उवक्कमविही	१६

३. अवतरणसूची

पुस्तक ८

क्रमसं.	अवतरणसूची	पृ.	य. यदस्ति न तद्द्वयमतिलंब्य वर्तत इति नैकगमो नैगमः ।	पृ.
अ	१८ अवगयणिवारणट्टं	८		८

४. ऐतिहासिकनामसूची

पुस्तक ८

ग.	गुणहराश्रिय	३ । स.	सुत्तयार	७,२६
----	-------------	--------	----------	------

पुस्तक ६

आ.	आचार्य	३१५	च. चूर्णिसूत्रकार	१२,२२४	स. सूत्रकार	६२,६६
उ.	उच्चारणाचार्य	१२,२५०	य. यतिवृषभाचार्य	२		२०२,२५०,४३४
ग.	गुणधरभट्टारक	२	व. व्याख्यानाचार्य	६७		

४. ग्रन्थनामोल्लेख

पुस्तक ८

द. उच्चारणा ३४, ४०, ५०, ५३ ६०, ६६, १६४, २०८, २१३ ३०८, ३११, ३२६, ३३२, ३३७, ३४२, ३५५, ३७०, ३७७, ३७८, ३६७, ४०६, ४२६,	क. कषायप्राभृत ७ च. चूर्णिसूत्र ४, १६, ११४, ३४२
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------

पुस्तक ९

अ. अनुभागविभक्ति १५६ उ. उच्चारणा २४, ५८, ६५, ६३, १८६, २०८, २४३, २५०, ३३७, ३४४, ३५६, ३७१,	क. उच्चारणाग्रन्थ १८६ च. चूर्णिसूत्र २०८ प. प्राभृतसूत्र २	म. परमाचार्य उपदेश १३१ म. महाबन्ध १५३ स. सूत्राभिप्राय २३६
------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

५ गाथा-चूर्णिसूत्रगतशब्दसूची

पुस्तक ८

अ. अइच्छावणा २४३, २४५ अकम्मंसिअ ६४ अकखवणा ६७ अकखीणा १०५, १०६ अग्गट्टिदि २४६ अजइण्णसंक्रम ८६ अभीणा ८४ अट्टकसाय ७४, १०१ अट्टपद २४२ अण्णुपुव्व ८४ अण्णुपुव्वीसंकम १०४ अण्णुदियसंकम ८६ अण्णुहार ८५ अण्णियोगहार २, ८८ अण्णुक्कस्ससंकम ८६ अण्णुपुव्व ८४ अण्णुभाग ३, ४ अण्णुभागबंध ४, ६ अण्णुभागसंकम ५, १४	अणुवसामग ६७ अणुवसंत ६७, ६६ अणंतगुण ७४, ७८ अणंतरट्टिदि २६१ अणंताणुबंधि ३३, ४८ अण्णणा ८५ अत्थ १८, २२ अत्थाहियार ७, १८ अदिककंत २६० अदिरित्त २४८ अद्धाच्छेद २६२ अद्धुवसंकम ३१ अपच्छिमट्टिदिखंडय ३१२ अपच्छिमट्टिदिबंध ३१४ अपडिग्गहविही १७, २५ अप्पाबहुअ ७३, ८६ अभविय ८४, ८५ अमर ८४ अवगयवेद ८५	अविरद ८२, ८४ अविरहिद ८६ अविरहिदकाल २२१ असणिण ८४ असुण्ण ८६ असंकम १७, २५ असंकामय ५३, ६३ असंखेज्जगुण ७४, ७६ असंखेज्जदिभाग ३७, १८२ अहोरत्त ३८२ आ. आगाइद २४८ आणुपुव्वी ७, १८ आणुपुव्वीसंकम ६६, ६६ आवाहा २५६ आवलियतिभाग २४४ आवलियतिभागं- तिमट्टिदि २४५ आवलियपविट्टसम्मत्त- संतर्कम्मय ३१
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आवलियसमयादिय-		श्रोध	७८	चरित्तमोहणीय	३३,३४
सकसाय	३१६	ओयरमाण	१६३	छ. छण्णोकसाय	७६,१००
आवलिया	१६३	अं. अंगुल	३८२	छञ्चीससंकामय	१८२
आहारय	८५	अंतर	४६,६२	छावट्टिसागरोवम	३५,१८६
इ. इत्थिवेद	७५, ८५	अंतोकोडाकोडि	३८६	ज. जट्टिदिसंकम	३४८
इत्थिवेदोदयक्खवय	३१७	अंतोमुहुत्त	३५,३७	जहण्ण	३,५
उ. उक्कड्डण	२६२	क. कट्टसंकम	१२,१४	जहण्णट्टिदिसंकमकाल	३१७
उक्कड्डण्णा	२५३	कम्म	६४,६६	जहण्णपदभंगविचय	३३६
उक्कस्स	३, ५	कम्मट्टिदि	२५६	जहण्णसकम	८६
उक्कस्सट्टिदिसकामय	३११	कम्मसंकम	१२,१४	जीव	८४
उक्कस्सपदभंगविचय	३३६	कम्मंसिअ	६४	झ. झीण	८४
उक्कस्ससंकम	८६	कम्मंसियट्टाण	८६	ट. टुवण	१६
उजुसुद	६	कसाअ	८५, ८६	ट्टाण	८२, ८४
उट्टलोग	११	काउ	८४	ट्टिदि	३, ४
उत्तम	१६, २४	कारण	६१, ६२	ट्टिदिउदीरणा	३२३
उत्तरपयट्टिदिसंकम	२४२	काल	१६, ३५	ट्टिदिघाद	२४८
उदयावलयनाहिर	२६१	कौल्लसंकम	८, ६	ट्टिदिवंध	४, ६
उदार	८६	किण्हलेस्सा	८४	ट्टिदिसंकम	५, १४
उदीरणा	२६२, ३११	कोह	१०६, १०८	ठ. ठवण	६
उयक्कम	७, १८	कोहसंजलण	७५, १०८	ठवणसंकम	८
उयजोग	८५	कोहादि	८५	ठाणसमुक्कित्तणा	८८
उयट्टुपोगगलपरियट्ट	३६, ४७	ख. खवग	८२, ८४	ण. णअ	२०
उयसामग	२६, ८२	खविद	१०४, १०६	णयविदू	८६
उयसामिद	१०३	खीण	११२	णयविही	१६, २०
उयसत	६७, ६६	खीणवंसणमोहणीय	६७	णवुंसयवेद	७५, ८५
उयसंतकसाय	२०	खेत्त	१६, ८६	णवुंसवेदोदयक्खवय	३१८
उयसंदरिसणा	४११	खेत्तसकम	८, ११	णाय	८५
उयसंत्तमाणअ	३१	खंडय	२४८	णाम	७, १०
प. एइ'दिय	८०	ग. गादि	८२	णामसंकम	८
एक्कपहार	१०१	गाहा	४, ८६	णारयभंग	७८
एक्कमीसन्निमंतकम्मिय	६६	गुणविसिट्ट	३५	णाणाजीव	५२, ५६
एक्कमीसन्निमंतकम्मसिय-	१००	गुणहीण	३, ५	णिकखेव	८, १६
एक्कमीसन्निमंतकम्मसिय	१०२	च. चउट्टाणियजवमज्ज	३८६	णिकखेवट्टाण	२५५
एक्कमीसन्निमंतकम्मसिय	१५, २३	चउवीसदिकम्मसिय	१०२	णिगम	१६, २०
एयजीव	३५, ४६	चउवीसदिसत्तकम्मिय	६६, ६७	णिरयगदि	७६, ८४
एयसमन	४७, १८२	चरित्तमोहणीय	३३, ३४	णिरासाण	२६, ३२
धो. ओरुदुव	२६२	चरिमसमयसंकामय	३१२	णिव्वाघाद	२५३
		चरिमसमयसंजुहमाणय	३१३	णीता	८४

श्लोकम	८	पयडिड्वाणसंकम	२०,२५	वड्डिसंकम	२३६
श्लोत्रागम	११	पयडिड्वाणपडिगह	२०,२४	वत्तव्वदा	७,१८
श्लोत्रागमदव्वसंकम	१२	पयडिड्वाणसंकम	१५,२०	ववड्ढार	६
श्लोकम्मसंकम	१२	पयडिण्हैस	६०	वाघाद	२४८,२५०
श्लोसव्वसंकम	८६	पयडिपडिगह	२०,२४	विदियकसाओवजुत्त	८६
तिपत्तिदोवम	१८१	पयडिवंध	४,६	विरद	८२,८४
तिरिक्खगइ	७८	पयडिसंकम	५,१४	विसेसहीण	२४४
तुल्ल	७७,७८	परिमाण	८६	विसेसाहिय	७४,७५
तेत्तीससागरोवम	१६२	पत्तिदोवम	३७	विसंजोएत	३१३
दव्व	१६,८६	पुरिसवेद	७५,८५	विहासा	८६
दव्वसंकम	८,११	पेम्म	१२	वेड्ढावड्डिसागरोवम	३८,४८
दिट्ठ	८६	पंचिदिय	८२	वेद	८६
दिट्ठीगय	८२	पंचिदियतिरिक्खतिय	७८	वेदगसम्माइडि	२६
दुचरिमसमयअणुक्किण्ण		पंचविह	७	स. सण्णियास	६५,८६
खंडग	२४६	ब. बंध	२,४	सण्णवाद्	८६
द्रेवगदि	७७	बंधग	२	सइ	१०
दंसणमोह	६२	बंधडाण	८६	सपज्जवसिद्	३६,१८४
दंसणमोहणीय	३३,६१	भ. भविय	८४,८५	समयाहियावत्तियअक्खीण	
पडिगह	१६,२४	भाव	१०,१६	दंसणमोहणीय	३१३
पडिगहविहि	१७,२५	भावविधिविसेस	८४	समयूण	२४६
पढमकसायोवजुत्त	८६	भावसंकम	८,१२	समाणणा	८४
पढमसमयसम्मत्त	६३	भुजगार	८६,२२६	समाणय	८६
पढमसमयसम्मामिच्छत्त-		भंग	३८,५३	सम्मत्त	३०,३७
संतकम्मिय	३२	भंगविचअ	५२,८६	सम्मत्तसंकाम्मय	७६
पणुवीसपयडि	३८	म. मगणगवेसणा	८६	सम्मत्तसंतकम्मिय	३०
पदच्छेद्	४,१७	मगणोवाय	८४	सम्माइडि	२६,३२
पदणिक्खेव	८६,२२६	मणुसगइ	७६,८२	सम्मामिच्छत्त	३१,३७
पदाणुमाणिय	१७६	माण	१०६	सव्व	६५
पदेसग्ग	२६१	माणसंजलण	७६,१०६	र व्वकम्म	५६
प्रदेसबंध	५,६	माया	१११	सव्वजीव	२१०
पदेससंकम	५,१४	मिच्छत्त	२६,३५	सव्वत्थोव	७३,७८
पमाण	७,१८	मिच्छाइडि	३०,३१	सव्वद्धा	६०,२१६
पम्मलेस्सा	८४	मिस्स	८२,८४	सव्वसंकम	८८
पयडि	३,४,१६	मिस्सग	८४	सादि	८६
पयडिअपडिगह	२०,२५	मूलपयडिडिदिसंकम	२४२	सादिय	३६,१८४
पयडिअसंकम	२०,२५	ल. लोभसंजलण	७४	सादियसंकम	८६
पयडिडाण	१७,२४	लोह	११३	सादिरेय	३८,१८१
पयडिडाणअपडिगह	२०,२५	व. वड्डि	८६,२२६	साभित्त	२८,८६

साहण	३६२	सेस	७८, ८०	संकामत्र	२६, ३०
मुक्कलेस्स	८४	सेसकसात्र	१११	संकामयंतर	४६, ४७
मुण्ण	८६	सोलसकसाय	५३	संखेज्जगुण	२२२, २२३
मुण्णट्टाण	८६	संकम	२, ४, ६	संगह	६
मुत्तगाहा	१६	संकमउवक्कमविही	१६, १८	सजम	८२
मुत्तफास	२६	संकमट्टाण	८४, ८६	संतकम्म	५२
मुत्तसमुक्कित्तणा	८१, ८८	संकमण्य	८६	संतकम्मअग्गट्टिदि	२५८
मुददेसिद	८६	संकमपडिग्गहविही	१६, १८	सातर	८६
सुहुमसांपराइय	११४	सकमविही	२२, २३	ह. हेमंत	११

पुस्तक ६

अ. अइच्छावणा	४	असंखेज्जवस्साउत्र	१८४	गदि	६२
अक्खवग	२२	अहोरत्त	११८, ३६७	गलिदसेस	४०५
अट्ठपद	३, ११	आ. आगाइद	१२४	गुणसंकम	१७०
अण्णियोगहार	६४, १२१	आठत्त	१७८	गुण्णिकम्मंसिअ	१७६, १८२
अणुपालिद	२०१	आवलियपडिभग	२७	घ. घादट्टाण	१५८, १६०
अणुभाग	३	आवलियसम्माइट्टि	३८२	घादिसण्णा	२१
अणुभागकंडय	७	आवलियादीद	२६५	छ. छट्टाणपदिद	५८, ६२
अणुभागखंडय	३७, १२४	ई. ईसाण	१८६	छम्मास	८०
अणुभागसकम	२	च. उक्कस्सजोग	१८२	ज. जहण्णणिकखेवमेत्त	५
अणुभागसंतकम्म	१२४	उक्कस्सणिकखेव	८	जहण्णपदभंगविचअ	६८
अणुपसामग	२२	उक्कस्सपदभंगविचअ	६८	जीव	१६८
अण्णंतगुण्णभदिय	६१, ६३	उक्कस्ससंकिलेस	१२३, १२५	ट. ट्टाण	१५६, ४३८
अण्णंतगुण्णहाणि	१४५	उत्तरपयडिअणुभागसंकम	२	ट्टाणसण्णा	२१
अण्णंतगुण्णहाणिसकम	१४८	उत्तरपयडिपदेससंकम	१६८	ण. णिकखेव	५
अण्णंतरोसककामिद	६५	उत्पादयमाण्य	२६४	णिगलिद	२००
अण्णणपयडि	३	उवट्टिद	१७७	णिरयगइ	८८
अवापत्तसंकम	१७०	उवसामयसमयपवद्ध	२००	णोरइय	१७६
अप्पदर	६५	उवसंवद्धा	१७६	त. तप्पाओग्गविसुद्धपरिणाम३३	
अप्पदरसकम	६५, २६०	उव्वेल्लणसकम	१७०	तिट्टाणिअ	२१
अप्पावहुय	६, १२१	उव्वेल्लमाण्य	३००	तेइदिअ	३१
अभरनिद्वियपाओग्ग	४३६	उस्सककाविद	२८६	द. दुचरिमफइय	६
अमट्टण	१२२, १४५	प० प३ दिव	३१, ६२	देसघादि	२३
अमट्टिदसकम	६६, १४७	पण्हिं	६५, २८६	प. पक्खित्त	१८१
अमत्तचय	१४५	ओ. ओसककाविद	६५, २६०	पच्छाणुपुव्वी	१५७
अमत्तचयसकम	६६, २६०	ऊ. कम्मसरीर	४४४	पढमफइय	४
असंकम	२६०	ग. गण्णिज्जमाण	१५८	पदण्णिकखेव	११, १२१

परिसिद्धाणि

५६१

पदेसगुणहाणिङ्गांतर	७	भुजगारसंकम	२८६	समुक्कित्तणा	१४३
पदेसग	१७२	म. मणुस	१७८	सम्माइडिग	१६२
पदेससंकम	१६८, १६६	मणुसगइ	१८३	सव्वघादि	२१
पदेससंकमट्टाण	४३८	मूलपदेससंकम	१६८	सव्वसंकम	१७०
परिवाढी	४४६	मूलपयडिअणुभागसंकम	२११	सादिअ	४५, ४७
परिवदमाण	१४६	र. रादिदिय	३६५	सादिरेय	८०
परुवणा	४, १२१	व. वगणा	७	सामित्त	१२१, १४३
पुढवी	१७६	वट्टमाण	३७	सुहुमकम्म	१३२
पुव्वाणुपुव्वी	१५८	वड्ढि	११, १२२	सुहुमेइं दियकम्म	१२७
पूरणा	१७६	वस्स	११८	संकम	३
पूरिद	१७६	वास	८०	संकमट्टाण	१५६, १५६
पंचिदिअ	३१	विज्झादसंकम	१७०	संकमट्टाणपरिवाढी	४४३
पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तअ	१७७	विदियफदय	४	संछुद्ध	१७८
फ. फदय	४, ६	विसुद्धपरिणाम	१७०	संछुद्धमाणअ	३३, १७८
व. बहुदर	६५	वेइंदिअ	३१	संतकम्मट्टाण	१५६, १५६
बंधट्टाण	१५६	वेट्टाणिअ	२१	संक्खित्त	१८१
भ. भवगाहण	१७७	स० सणिणपाओगजहण	१२३	हदसमुप्पत्तियकम्म	३०
भुजगार	११, ६४	सणिण्यास	५७, ६१	हाणि	१२२
		सपज्जवसिद	४५, ४७		

६ जयधवलागतविशेषशब्दसूची

पुस्तक ८

अ. अइच्छावणा	२४४	ट. ट्टिदिअसंकम	२४३	पयडिट्टाणसंकम	२१
अकम्मबंध	२	ट्टिदिसंकम	२४२	पयडिपडिगह	२१
अणुगम	१४	ण. णिक्खेव	२४३, २४४	पयडिसंकम	१४, २०
आ. आगमदव्वपयडिसंकम	१६	णिव्वाघाद	२४७	व. बंध	२
उ. उजुसुद	२०	रोगम	२०	भ. भावसंकम	२०
उत्तरपयडिट्टिदिसंकम	२४२	णोआगमदव्वपयडिसंकम	१६	म. मूलपयडिट्टिदिसंकम	२४२
क. कट्टसंकम	१३	णोकम्मदव्वपयडिसंकम	१६	व. ववहार	२०
कदजुम्म	२४४	द. दव्वट्टियणय	२०	वाघाद	२४८
कम्मदव्वपयडिसंकम	१६, २०	प. पडिगह	२१	स. संकम	२, १३, १४
कम्मबंध	२, ३	पयडिअसंकम	२०	संगह	२०
कम्मववएस	१४	पयडिट्टाणअपडिगह	२१	सहणय	२०
कालसंकम	२०	पयडिट्टाणपडिगह	२१	सव्वपयडिसंकम	२०

पुस्तक ६

अ. अइच्छावणा	४, ५	उस्सक्काविद	२८६	भ. भागहार	१७१
अणुभागविद्वत्ति	१५६	ए. एइंदिय	३१	भुजगारसंकम	६५, २६०
अणंतरोसक्काविद	६५	एण्हं	६५, ६६	व. विज्झादसंकम	१७१
अधापवत्तसंकम	१७१	ओ. ओसक्काविद	६५, ६६	विज्झादसंकमदव्व	१७४, १७५
अवापवत्तासंकमदव्व	१७५	ग. गुणसंकम	१७२	स. सव्वसंकम	१७२
अपंदरसंकम	६५	गुणसंकमदव्व	१७५	सव्वसंकमदव्व	१७४, १७५
अल्पतरसंकम	६६, २००	गुणहाणिद्वाणंतर	७	सुहुभ	३०
अवक्तव्यसंकम	६६, २००	घ. घादिसण्णा	२१	संकम	३
अप्रस्थितसंकम	६६, २००	ट. ट्ठाणसण्णा	२१	संगहणयावत्तविसुत्त	५८
आ. आवलियपट्टिभग्ग	२७	प. पदेसगुणहाणिद्वाणंतर	७	इ. इदसमुत्पात्तिय	३१
उ. उव्वेल्लणमकम	१७०	पदेससकम	१६६		
उव्वेल्लणसकमदव्व	१७५	पुव्वाणुपुव्वी	१५८		

